


वीर सेवा मन्दिर
दिल्ली

★

क्रम संख्या 8226
काल नं० 220.3 9
खण्ड 34ख)

स्वर्गवासी साधुचरित श्रीमान् डालचन्दजी सिंघी



बाबू श्री बहादुर सिंहजी सिंघीके पुण्यश्लोक पिता

जन्म-वि. सं. १९२१, मार्ग. वदि ६ 卐 स्वर्गवास-वि. सं. १९८४, पोष सुदि ६

दानशील - साहित्यरसिक - संस्कृतिप्रिय
स्व० बाबू श्री बहादुर सिंहजी सिंघी



अजीमगंज-कलकत्ता

जन्म ता. २८-६-१८८५]

[मृत्यु ता. ७-७-१९४४

सिंघी जैन ग्रन्थ माला

*****[ग्रन्थांक ४५]*****

दाक्षिण्यचिह्नाङ्क - श्रीमद् - उद्द्योतनसूरि - विरचिता

कुवलयमाला

(प्राकृतभाषानिबद्धा चम्पूस्वरूपा महाकथा)

प्रथम भाग - मूल कथाग्रन्थ



SINGHI JAIN SERIES

*****[NUMBER 45]*****

KUVALAYAMĀLĀ

OF

UDDYOTANA SŪRI

(A Unique Campū in Prākrit)

क ल क ता नि वा सी
साधुचरित-श्रेष्ठिवर्य श्रीमद् डालचन्दजी सिंघी पुण्यस्मृतिनिमित्त
प्रतिष्ठापित एवं प्रकाशित

सिं घी जै न ग्रन्थ मा ला

[जैन भागमिक, दार्शनिक, साहित्यिक, ऐतिहासिक, वैज्ञानिक, कथारमक-इत्यादि विविधविषयगुम्फित
प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश, प्राचीनगूजरी, -राजस्थानी आदि नानाभाषानिबद्ध सार्वजनीन पुरातन
वाङ्मय तथा नूतन संशोधनात्मक साहित्य प्रकाशिनी सर्वश्रेष्ठ जैन ग्रन्थावलि]

प्रतिष्ठाता

श्रीमद् - डालचन्दजी - सिंघीसत्पुत्र

स्व० दानशील - साहित्यरसिक - संस्कृतिप्रिय

श्रीमद् बहादुर सिंहजी सिंघी



प्रधान सम्पादक तथा संचालक

आचार्य जिन विजय मुनि

अधिष्ठाता, सिंघी जैन शास्त्र शिक्षापीठ

*

ऑनररी डायरेक्टर

राजस्थान ओरिएण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, जोधपुर (राजस्थान)

निवृत्त सम्मान्य नियामक

भारतीय विद्या भवन, बम्बई

ऑनररी मेंबर जर्मन ओरिएण्टल सोसाइटी, जर्मनी; भाण्डारकर ओरिएण्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, पूना
(दक्षिण); गुजरात साहित्यसभा, अहमदाबाद (गुजरात); विश्वेश्वरानन्द वैदिक
शोध प्रतिष्ठान, होसियारपुर (पंजाब)

*

संरक्षक

श्री राजेन्द्र सिंह सिंघी तथा श्री नरेन्द्र सिंह सिंघी

प्रकाशनकर्ता-

अधिष्ठाता, सिंघी जैन शास्त्र शिक्षा पीठ

भारतीय विद्या भवन, बम्बई

प्रकाशक - जयन्तकृष्ण ह. दवे, ऑनररी डायरेक्टर, भारतीय विद्या भवन, चौपाटी रोड, बम्बई, नं. ७
मुद्रक - लक्ष्मीबाई नारायण चौधरी, निर्णयसागर प्रेस, २६-२८ कोलभाट स्ट्रीट, बम्बई, नं. २

दाक्षिण्यचिह्नाङ्क - श्रीमद् - उद्द्योतनसूरिविरचिता

कुवलयमाला

(प्राकृतभाषानिबद्धा चम्पूस्वरूपा महाकथा)

*

अतिदुर्लभ्यप्राचीनपुस्तकद्वयाधारेण सुपरिशोध्य बहुविधपाठभेदादियुक्तं
परिष्कृत्य च संपादनकर्ता

डॉ. आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्ये, एम्. ए., डी. लिट्.
प्राध्यापक, राजाराम कॉलेज, कोल्हापुर (दक्षिण)

प्रथम भाग - मूल कथाग्रन्थ



प्रकाशनकर्ता

अधिष्ठाता, सिंघी जैन शास्त्र शिक्षा पीठ
भारतीय विद्या भवन, बम्बई

विक्रमाब्द २०१५]

प्रथमावृत्ति

[सिंस्ताब्द १९५९

ग्रन्थांक ४५]

सर्वाधिकार सुरक्षित

[मूल्य रु० १५-५०

SINGHI JAIN SERIES

A COLLECTION OF CRITICAL EDITIONS OF IMPORTANT JAIN CANONICAL,
PHILOSOPHICAL, HISTORICAL, LITERARY, NARRATIVE AND OTHER WORKS
IN PRAKRIT, SANSKRIT, APABHRAMŚA AND OLD RAJASTHANI-
GUJARATI LANGUAGES, AND OF NEW STUDIES BY COMPETENT
RESEARCH SCHOLARS

ESTABLISHED

IN THE SACRED MEMORY OF THE SAINT LIKE LATE SETH

ŚRĪ DĀLCHANDJĪ SINGHĪ

OF CALCUTTA

BY

HIS LATE DEVOTED SON

DANASILA - SAHITYARASIKA - SANSKRITIPRIYA

SRI BAHADUR SINGH SINGHI

DIRECTOR AND GENERAL EDITOR

ACHĀRYA JINA VIJAYA MUNI

ADHIṢṬHĀṬĀ, ŚINGHĪ JAIN ŚĀSTRA ŚĪKṢHĀ PĪṬHA

Honorary Founder-Director, Rajasthan Oriental Research Institute, Jodhpur;

General Editor, Rajasthan Puratan Granthamala ; etc.

(Honorary Member of the German Oriental Society, Germany; Bhandarkar

Oriental Research Institute, Poona; Vishveshvaranand Vaidic Research

Institute, Hosiarpur; and Gujarat Sāhitya Sabhā, Ahmedabad.)

PUBLISHED

UNDER THE PATRONAGE OF

SRI RAJENDRA SINGH SINGHI

AND

SRI NARENDRA SINGH SINGHI

BY THE ADHIṢṬHĀṬĀ

SINGHI JAIN SHASTRA SHIKSHAPITH

BHARATIYA VIDYA BHAVAN

BOMBAY

UDDYOTANA-SŪRI'S
KUVALAYAMĀLĀ

(A Unique Campū in Prākṛit)

Critically Edited from Rare Mss. Material for the First Time
with an Introduction, Various Readings, Notes etc.

AND

RATNAPRABHA-SŪRI'S
KUVALAYAMĀLĀ-KATHĀ

(A Stylistic Digest of the Above in Sanskrit)

Critically Edited with Various Readings etc.

BY

Professor A. N. UPADHYE, M. A., D. Litt.

RAJARAM COLLEGE, KOLHAPUR



Part I

KUVALAYAMĀLĀ

PRĀKRIT-TEXT & VARIOUS READINGS



PUBLISHED BY

Adhiṣṭhātā, Singhi Jain Śāstra Śikṣāpīṭha
BHĀRATĪYA VIDYĀ BHAVANA
BOMBAY

V. E. 2015]

First Edition

[A. D. 1959

Vol. No. 45]

* * *

[Price Rs. 15-50

॥ सिंधीजैनग्रन्थमालासंस्थापकप्रशस्तिः ॥

अस्ति बङ्गामिधे देशे सुप्रसिद्धा मनोरमा । मुर्शिदाबाद इत्याख्या पुरी वैभवशालिनी ॥	१
बहवो निवसन्त्यत्र जैना उकेशवंशजाः । धनाढ्या नृपसम्मान्या धर्मकर्मपरायणाः ॥	२
श्रीडालचन्द्र इत्यासीत् तेष्वेको बहुभाग्यवान् । साधुवत् सच्चरित्रो यः सिंधीकुलप्रभाकरः ॥	३
बाह्य एव गतो यश्च कर्तुं व्यापारविस्तृतिम् । कलिकातामहापुर्यां घृतधर्मार्थनिश्चयः ॥	४
कुशाग्रीयया सद्बुद्ध्या सदृत्या च सञ्चिष्टया । उपाज्यं विपुलां लक्ष्मीं कोट्यधिपोऽजनिष्ट सः ॥	५
तस्य मञ्जुकुमारीति सञ्चारीकुलमण्डना । जाता पतिव्रता पत्नी शीलसौभाग्यभूषणा ॥	६
श्रीबहादुरसिंहाख्यो गुणवैस्तनयस्तयोः । सञ्जातः सुकृती दानी धर्मप्रियश्च धीनिधिः ॥	७
प्राप्ता पुण्यवता तेन पत्नी तिलकसुन्दरी । यस्याः सौभाग्यचन्द्रेण भासितं तत्कुलाम्बरम् ॥	८
श्रीमान् राजेन्द्रसिंहोऽस्य ज्येष्ठपुत्रः सुशिक्षितः । यः सर्वकार्यदक्षत्वात् दक्षिणबाहुवत् पितुः ॥	९
नरेन्द्रसिंह इत्याख्यस्तोजस्वी मध्यमः सुतः । सूनुर्वीरिन्द्रसिंहश्च कनिष्ठः सौम्यदर्शनः ॥	१०
सन्ति त्रयोऽपि सत्पुत्रा आसप्तमक्तिपरायणाः । विनीताः सरला भव्याः पितुर्मांगानुगामिनः ॥	११
अन्येऽपि बहुवस्तुस्याभवन् स्वप्नादिबान्धवाः । धनैर्जनैः समृद्धः सन् स राजेव व्यराजत ॥	१२

अन्येषु -

सरस्वत्यां सदासक्तो भूत्वा लक्ष्मीप्रियोऽप्ययम् । तत्राप्यासीत् सदाचारी तच्चित्रं विदुषां खलु ॥	१३
नाहंकारो न दुर्भावो न विलासो न दुर्ब्ययः । इष्टः कदापि यद्गोहे सतां तद् विस्मयास्पदम् ॥	१४
भक्तो गुरुजनानां स विनीतः सज्जनान् प्रति । बन्धुजनेऽनुरक्तोऽभूत् प्रीतः पोष्यगणेष्वपि ॥	१५
देश-कालस्थितिज्ञोऽसौ विद्या-विज्ञानपूजकः । इतिहासादि-साहित्य-मंस्कृति-सत्कलाप्रियः ॥	१६
समुच्चयै समाजस्य धर्मस्तोत्कर्षहेतवे । प्रचाराय च शिक्षाया दत्तं तेन धनं धनम् ॥	१७
गत्वा सभा-समित्यादौ भूत्वाऽध्यक्षपदान्वितः । दत्त्वा दानं यथायोग्यं प्रोत्साहिताश्च कर्मठाः ॥	१८
एवं धनेन देहेन ज्ञानेन शुभनिष्ठया । अकरोत् स यथाशक्ति सत्कर्माणि सदाशयः ॥	१९
अधान्यदा प्रसङ्गेन स्वपितुः स्मृतिहेतवे । कर्तुं किञ्चिद् विशिष्टं स कार्यं मनस्यचिन्तयत् ॥	२०
पूज्यः पिता सदैवासीत् सम्यग्-ज्ञानरुचिः स्वयम् । तस्मात् तज्ज्ञानवृद्ध्यर्थं यतनीयं मयाऽप्ययम् ॥	२१
विचार्यैवं स्वयं चित्ते पुनः प्राप्य सुसम्मतिम् । श्रद्धेयानां स्वमित्राणां विदुषां चापि तादृशाम् ॥	२२
जैनज्ञानप्रसारार्थं स्थाने शान्तिं नि के त ने । सिंधीपदाङ्कितं जैनज्ञानपीठं मतिष्ठितम् ॥	२३
श्रीजिनविजयः प्राज्ञो मुनिनाम्ना च विश्रुतः । स्वीकर्तुं प्रार्थितस्तेन तस्याधिष्ठायकं पदम् ॥	२४
तस्य सौजन्य-सौहार्द-स्थैर्यौदार्यादिसद्गुणैः । वशीभूय मुदा येन स्वीकृतं तत्पदं वरम् ॥	२५
कवीन्द्रेण रवीन्द्रेण स्वीयपावनपाणिना । रस-नागाङ्क-चन्द्राब्दे तत्प्रतिष्ठा व्यधीयत ॥	२६
प्रारब्धं मुनिना चापि कार्यं तदुपयोगिकम् । पाठनं ज्ञानालप्सूनां ग्रन्थानां ग्रथनं तथा ॥	२७
तस्यैव प्रेरणां प्राप्य श्रीसिंधीकुलकेतुना । स्वपितृश्रेयसे चैषा प्रारब्धा ग्रन्थमालिका ॥	२८
उदारचेतसा तेन धर्मशीलेन दानिना । व्ययितं पुष्कलं द्रव्यं तत्तत्कार्यसुसिद्धये ॥	२९
छात्राणां वृत्तिदानेन नैकेषां विदुषां तथा । ज्ञानाभ्यासाय निष्कामसाहाय्यं स प्रदत्तवान् ॥	३०
जलवाग्वाधिकानां तु प्रातिकूल्यादसौ मुनिः । कार्यं त्रिवार्षिकं तत्र समाप्यान्यत्रावासितः ॥	३१
तत्रापि सततं सर्वं साहाय्यं तेन यच्छता । ग्रन्थमालाप्रकाशाय महोत्साहः प्रदर्शितः ॥	३२
नन्द-निर्धेय-चन्द्राब्दे कृता पुनः सुयोजना । ग्रन्थावल्याः स्थिरत्वाय विस्ताराय च नूतना ॥	३३
ततो मुनेः परामर्शात् सिंधीवंशनभस्वता । भा वि द्या भ व ना येयं ग्रन्थमाला समर्पिता ॥	३४
आसीत्तस्य मनोबान्धाऽपूर्वग्रन्थप्रकाशने । तदर्थं व्ययितं तेन लक्षावधि हि रूप्यकम् ॥	३५
दुर्विलासाद् विवेहन्त ! दौर्भाग्याच्चात्मबन्धनाम् । स्वल्पेनैवाथ कालेन स्वर्गं स सुकृती ययौ ॥	३६
विभुं-शून्यै-सै-नेत्रा-ब्दे मासे भाषाठसञ्चके । कलिकातानगर्यां स प्राप्तवान् परमां गतिम् ॥	३७
पितृभक्तैश्च तत्पुत्रैः प्रेयसे पितुरात्मनः । तथैव प्रपितुः स्मृत्यै प्रकाश्यतेऽधुना त्वियम् ॥	३८
सैषा ग्रन्थावलिः श्रेष्ठा प्रेष्ठा प्रज्ञावतां प्रथा । भूयाद् भूत्यै सतां सिंधीकुलकीर्तिप्रकाशिका ॥	३९
विद्वज्जनकृताङ्गाया सच्चिदानन्ददा सदा । चिरं नन्दत्वियं लोके श्रीसैंधी ग्रन्थमालिका ॥	४०

॥ सिंधीजैनग्रन्थमालासम्पादकप्रशस्तिः ॥

स्वस्ति श्रीमेवपाटाख्यो देशो भारतविभ्रुतः । रूपाहेलीति सभाज्ञी पुरिका यत्र सुस्थिता ॥	१
सदाचार-बिभाराम्नां प्राचीननृपतेः समः । श्रीमच्चतुरसिंहोऽत्र राठोडान्वयभूमिपः ॥	२
तत्र श्रीवृद्धिसिंहोऽभूद् राजपुत्रः प्रसिद्धिभाक् । क्षात्रधर्मधनो यश्च परमारकुलाप्रणीः ॥	३
मुञ्ज-भोजमुखा भूपा जाता यस्मिन् महाकुले । किं वर्ण्यते कुलीनत्वं तत्कुलजातजन्मनः ॥	४
पत्नी राजकुमारीति तस्याभूद् गुणसंहिता । चातुर्य-रूप-लावण्य-सुवाक्-सौजन्यभूषिता ॥	५
क्षत्रियार्णीं प्रभापूर्णां शौर्योद्दीप्तमुखाकृतिम् । यां हृद्यैव जनो मेने राजन्यकुलजा त्वियम् ॥	६
पुत्रः किसनसिंहाख्यो जातस्तयोरतिप्रियः । रणमल्ल इति चान्यद् यन्नाम जननीकृतम् ॥	७
श्रीदेवीहंसनामाऽत्र राजपूज्यो यतीश्वरः । ज्योतिर्भैषज्यविद्यानां पारगामी जनप्रियः ॥	८
आगतो मरुदेशाद् यो भ्रमन् जनपदान् बहून् । जातः श्रीवृद्धिसिंहस्य प्रीति-श्रद्धास्पदं परम् ॥	९
तेनाथाप्रतिमप्रेम्णा स तस्सुनः स्वसन्निधौ । रक्षितः शिक्षितः सम्यक्, कृतो जैनमतानुगः ॥	१०
दौर्भाग्याद् तच्छिशोर्बाह्ये गुरु-तातौ दिवंगतौ । विमूढः स्वगृहात् सोऽथ यदच्छया विनिर्गतः ॥	११

तथा च-

भ्रान्त्वा नैकेषु देशेषु संसेव्य च बहून् नरान् । दीक्षितो मुण्डितो भूत्वा जातो जैनमुनिस्ततः ॥	१२
ज्ञातान्यनेकशास्त्राणि नानाधर्ममतानि च । मध्यस्थवृत्तिना तेन तत्त्वातत्त्वावेशिणा ॥	१३
अधीता विविधा भाषा भारतीया युरोपजाः । अनेका लिपयोऽप्येवं प्रत्न-नूतनकालिकाः ॥	१४
येन प्रकाशिता नैके ग्रन्था विद्वत्प्रशंसिताः । लिखिता बहवो लेखा ऐतिह्यतथ्यगुम्फिताः ॥	१५
बहुभिः सुविद्वद्भिस्तन्मण्डलैश्च स सत्कृतः । जिनविजयनाम्नाऽयं विख्यातः सर्वत्राभवद् ॥	१६
तस्य तां विश्रुतिं ज्ञात्वा श्रीमद्गान्धीमहात्मना । आहूतः सादरं पुण्यपत्तनात् स्वयमन्यदा ॥	१७
पुरे चाहम्मदाबादे राष्ट्रीयः शिक्षणालयः । विद्यापीठ इति ख्यात्या प्रतिष्ठितो यदाऽभवत् ॥	१८
आचार्यत्वेन तत्रोच्चैर्नियुक्तः स महात्मना । रस-मुनि-निर्धीन्द्रदे पुरा तत्त्वा ख्य मन्दिरे ॥	१९
वर्षाणामष्टकं यावत् समभूष्य तत् पदं ततः । गत्वा जर्मनराष्ट्रे स तस्संस्कृतिमधीतवान् ॥	२०
तत आगत्य सैल्लम्नो राष्ट्रकार्ये च सक्रियम् । कारावासोऽपि सम्प्राप्तो येन स्वातन्त्र्यसङ्करे ॥	२१
क्रमान् ततो विनिर्मुक्तः स्थितः शान्ति निकेतने । विश्ववन्धकवीन्द्रश्रीरवीन्द्रनाथभूषिते ॥	२२
सिंधीपदयुतं जैनज्ञानपीठं तदाश्रितम् । स्थापितं तत्र सिंधीश्रीढालचन्द्रस्य सुनुना ॥	२३
श्रीबहादुरसिंहेन दानवीरेण धीमता । स्मृत्यर्थं निजतातस्य जैनज्ञानप्रसारकम् ॥	२४
प्रतिष्ठितश्च तस्यासौ पदेऽधिष्ठातृसञ्ज्ञके । अध्यापयन् वरान् शिष्यान् ग्रन्थयन् जैनशास्त्रायम् ॥	२५
तस्यैव प्रेरणां प्राप्य श्रीसिंधीकुलकंतुना । स्वपितृश्रेयसे ह्येषा प्रारब्धा ग्रन्थमालिका ॥	२६
अथैवं विगतं तस्य वर्षाणामष्टकं पुनः । ग्रन्थमालाविकासदिप्रवृत्तिषु प्रयस्यतः ॥	२७
बाण-रत्न-नैवेन्द्रदे मुंभाईनगरीस्थितः । मुंशीति बिरुदख्यातः कन्हैयालाल-धीसखः ॥	२८
प्रवृत्तो भारतीयानां विद्यानां पीठनिर्मितौ । कर्मनिष्ठस्य तस्याभूत् प्रयत्नः सफलोऽचिरात् ॥	२९
विदुषां श्रीमतां योगात् पीठो जातः प्रतिष्ठितः । भारतीय पदोपेत विद्या भवन सञ्ज्ञया ॥	३०
आहूतः सहकार्यार्थं स मुनिस्तेन सुहृदा । ततःप्रभृति तत्रापि तत्कार्ये सुप्रवृत्तवान् ॥	३१
तद्भवनेऽन्यदा तस्य सेवाऽधिका ह्यपेक्षिता । स्वीकृता च सद्भावेन साऽप्याचार्यपदाश्रिता ॥	३२
नन्द-निर्धय-चन्द्राब्दे वैक्रमे विहिता पुनः । एतद्ग्रन्थावलीस्थैर्यकृते नूतनयोजना ॥	३३
परामर्शात् ततस्तस्य श्रीसिंधीकुलभास्वता । भाविद्या भवनायेयं ग्रन्थमाला समर्पिता ॥	३४
प्रदत्ता दशसाहस्री पुनस्तस्योपदेशतः । स्वपितृस्मृतिमन्दिरकरणाय सुकीर्तिना ॥	३५
दैवादक्ये गते काले सिंधीवर्यो दिवंगतः । यस्तस्य ज्ञानसेवायां साहाय्यमकरोत् महत् ॥	३६
पितृकार्यप्रगल्भ्यं यत्नशीलैस्तदात्मजैः । राजेन्द्रसिंहमुख्यैश्च सत्कृतं तद्वचस्ततः ॥	३७
पुण्यस्योक्तपितुर्भाक्ता ग्रन्थागारकृते पुनः । बन्धुज्येष्ठो गुणश्रेष्ठो हार्दलक्षं धनं ददौ ॥	३८
ग्रन्थमालाप्रसिद्धयर्थं पितृवत् तस्य कांक्षितम् । श्रीसिंधीसत्पुत्रैः सर्वं तद्गिराऽनुविधीयते ॥	३९
विद्वज्जनकृताह्लादा सच्चिदानन्ददा सदा । चिरं नन्दत्वियं लोके जिनविजय भारती ॥	४०

SINGHI JAIN SERIES

Works in the Series already out.

ॐ अद्यावधि मुद्रितग्रन्थनामावलि ॐ

- | | |
|--|---|
| १ मेरुज्जाचार्यरचित प्रबन्धचिन्तामणि
मूल संस्कृत ग्रन्थ. | १९ भर्तृहरिकृत शतकत्रयादि सुभाषितसंग्रह. |
| २ पुरातनप्रबन्धसंग्रह बहुविध ऐतिह्यतथ्यपरिपूर्ण
अनेक निबन्ध संचय. | २० शान्त्याचार्यकृत न्यायावतारवार्तिक-वृत्ति. |
| ३ राजशेखरसूरिरचित प्रबन्धकोश. | २१ कवि धाहिलरचित पञ्चमसिरीचरित. (अप०) |
| ४ जिनप्रभसूरिकृत विविधतीर्थकल्प. | २२ महेश्वरसूरिकृत नाणपंचमीकहा. (प्रा०) |
| ५ मेघविजयोपाध्यायकृत देवानन्दमहाकाव्य. | २३ श्रीभद्रबाहुआचार्यकृत भद्रबाहुसंहिता. |
| ६ यशोविजयोपाध्यायकृत जैनतर्कभाषा. | २४ जिनेश्वरसूरिकृत कथाकोषप्रकरण. (प्रा०) |
| ७ हेमचन्द्राचार्यकृत प्रमाणमीमांसा. | २५ उदयप्रभसूरिकृत धर्माभ्युदयमहाकाव्य. |
| ८ महाकलङ्कदेवकृत अकलङ्कग्रन्थत्रयी. | २६ जयसिंहसूरिकृत धर्मोपदेशमाला. (प्रा०) |
| ९ प्रबन्धचिन्तामणि - हिन्दी भाषांतर. | २७ कोऊहलविरचित लीलावई कहा. (प्रा०) |
| १० प्रभाचन्द्रसूरिरचित प्रभावकचरित. | २८ जिनदत्ताख्यानद्वय. (प्रा०) |
| ११ सिद्धिचन्द्रोपाध्यायरचित भानुचन्द्रगणितचरित. | २९ स्वयंभूविरचित पञ्चमचरित. भाग १ (अप०) |
| १२ यशोविजयोपाध्यायविरचित ज्ञानबिन्दुप्रकरण. | ३० " " " " २ |
| १३ हरिषेणाचार्यकृत बृहत्कथाकोश. | ३१ सिद्धिचन्द्रकृत काव्यप्रकाशखण्डन. |
| १४ जैनपुस्तकप्रशस्तिसंग्रह, प्रथम भाग. | ३२ दामोदरपण्डित कृत उत्कृष्टव्यक्तिप्रकरण. |
| १५ हरिभद्रसूरिविरचित धूर्ताख्यान. (प्राकृत) | ३३ मित्रभिन्न विद्वत्कृत कुमारपालचरित्रसंग्रह. |
| १६ दुर्गदिवकृत रिष्टसमुच्चय. (प्राकृत) | ३४ जिनपालोपाध्यायरचित खरतरगच्छ बृहद्बुर्वावलि. |
| १७ मेघविजयोपाध्यायकृत दिग्विजयमहाकाव्य. | ३५ उल्कोतनसूरिकृत कुबलयमाला कहा. (प्रा०) |
| १८ कवि अब्दुल रहमानकृत सन्देशरासक. (अपभ्रंश) | ३६ गुणपालमुनिरचित जंबुचरियं. (प्रा०) |
| | ३७ पूर्वाचार्यविरचित जयपायड - निमित्तशास्त्र. (प्रा०) |
| | ३८ धनसारगणीकृत-भर्तृहरशतकत्रयटीका. |

Shri Bahadur Singh Singhi Memoirs

Dr. G. H. Bühler's Life of Hemachandrāchārya.

Translated from German by Dr. Manilal Patel, Ph. D.

- १ स्व. बाबू श्रीबहादुरसिंहजी सिंघी स्मृतिग्रन्थ [भारतीयविद्या भाग ३] सन १९४५.
- २ Late Babu Shri Bahadur Singhji Singhi Memorial volume. BHARATIYA VIDYA [Volume V] A. D. 1945.
- ३ Literary Circle of Mahāmātya Vastupāla and its Contribution to Sanskrit Literature. By Dr. Bhogilal J. Sandesara, M. A., Ph. D. (S.J.S.33.)
- 4-5 Studies in Indian Litary History. Two Volumes. By Prof. P. K. Gode, M. A. (S. J. S. No. 37-38.)

Works in the Press.

ॐ संग्रति मुद्र्यमाणग्रन्थनामावलि ॐ

- | | |
|--|---|
| १ विविधगच्छीयपट्टावलि-संग्रह. | ९ गुणप्रभाचार्यकृत विनयसूत्र. (बौद्धशास्त्र) |
| २ जैनपुस्तकप्रशस्तिसंग्रह, भाग २. | १० भोजनृपतिरचित शृङ्गारमञ्जरी. (संस्कृत कथा) |
| ३ विज्ञप्ति-संग्रह विज्ञप्ति महालेख - विज्ञप्ति त्रिवेणी
आदि अनेक विज्ञप्तिलेख समुच्चय. | ११ रामचन्द्रकविरचित-मल्लिकामकरन्दादिनाटकसंग्रह. |
| ४ कीर्तिकौमुदी आदि वस्तुपालप्रशस्तिसंग्रह. | १२ तरुणप्रभाचार्यकृत षड्वाक्यकबालावबोधवृत्ति. |
| ५ गुणचन्द्रविरचित मंत्रीकर्मचन्द्रवंशप्रबन्ध. | १३ प्रद्युम्नसूरिकृत मूलशुद्धिप्रकरण-सटीक |
| ६ नयचन्द्रविरचित हम्मरीरमहाकाव्य. | १४ हेमचन्द्राचार्यकृत छन्दोऽनुशासन |
| ७ महेंद्रसूरिकृत नर्मदासुन्दरीकथा. (प्रा०) | १५ स्वयंभूकविरचित पञ्चमचरित. भा० ३ |
| ८ कौटिल्यकृत अर्थशास्त्र - सटीक. (कतिपयअंश) | १६ ठकुर फेरूरचित ग्रन्थावलि (प्रा०) |

To
Pandit Dr. Sukhalalaji Sanghavi
and
Āchārya Śrī Jina Vijayaji Muni

PREFACE

AFTER working for the last six years and more on the critical edition of this unique Prākṛit Campū, the *Kuvalayamālā* of Uddyotanasūri (A. D. 779), it is a matter of pleasure and relief for the Editor that the Text with the Various Readings is being placed before the world of scholars, in this Part I.

The Second Part will include the Introduction which gives a description of the Mss. along with the principles of Text-constitution and presents an exhaustive study of the various aspects of the *Kuvalayamālā*. In it is included a critical edition of Ratnaprabhasūri's *Kuvalayamālā-kathā* which is a stylistic digest in Sanskrit of Uddyotana's Prākṛit work. All this material is nearly ready, and it is hoped that the Second Part also will be published soon.

The Prākṛit Text is edited according to the best standards of critical scholarship. Only two Mss. of this Prākṛit Campū are available one written on paper in Poona (P) and the other on palm-leaf in Jaisalmer (J): both of them are used for this edition.

Muni Shri JINAVIJAYAJI had undertaken a critical edition of this work; and, as early as 1931, he had even printed the first form of it. The students of Prākṛit literature have to regret that due to various preoccupations and multifarious duties this great *śaṅkṛ* could not continue his work on this important Prākṛit Text. A *kaṭyāṇa-mitra* as he is, he generously placed the Jaisalmer material at my disposal; and it is out of great respect for his wish that I undertook to edit this work. But for his help and constant encouragement I would not have been able to complete this arduous task. Words are inadequate to express my sense of gratitude towards him.

My sincere thanks are due to the ex-Government of Kolhapur and the University of Poona for their research grants which enabled me to continue my work on the *Kuvalayamālā*.

Two years back some unexpected developments were about to dislocate my work on the *Kuvalayamālā*. Thanks to Pt. Dr. Sukhalalji Sanghavi, Ahmedabad, Dr. Hirulal Jain, Muzffarpur, and other well-wishers that I could complete the text-constitution of this *Kuvalayamālā* which by its publication has positively enhanced the greatness of Indian literature in general and Prākṛit literature in particular.

Karmaṇyevādhikāras te.

Rajaram College }
Kolhapur : 1-5-59. }

A. N. UPADHYE

किञ्चित् प्रास्ताविक ।

*

(कुवलयमाला कथाके प्रकाशनकी पूर्व कथा ।)

*

अनेक वर्षोंसे जिसके प्रकाशित होनेकी विद्वानोंको विशिष्ट उत्कण्ठा हो रही थी, उस दाक्षिण्य चिह्नित उद्घोतन सूरिकी बनाई हुई प्राकृत महाकथा कुवलयमाला, सिंधी जैन ग्रन्थमाला के ४५ वें मणिरत्नके रूपमें, आज प्रकट करते हुए मुझे अतीव हर्षानुभव हो रहा है ।

इस कथा ग्रन्थको इस रूपमें प्रकट करनेका आजसे कोई ४५ वर्ष पूर्व, मेरा संकल्प हुआ था ।

विद्वन्मतल्लिक मुनिवर्य्य श्री पुण्यविजयजीके स्वर्गीय गुरुवर्य्य श्री चतुरविजयजी महाराजने रत्नप्रभसूरिकृत गद्यमय संस्कृत कुवलयमाला कथाका संपादन करके भावनगरकी जैन आत्मानन्द सभा द्वारा (सन् १९१६) प्रकाशित करनेका सर्वप्रथम सुप्रयत्न किया, तब उसकी संक्षिप्त प्रस्तावनामें प्रस्तुत प्राकृत कथाका आद्यन्त भाग उद्धृत करनेकी दृष्टिसे, पूनाके राजकीय ग्रन्थसंग्रह (जो उस समय डेक्कन कॉलेजमें स्थापित था) में सुरक्षित इस ग्रन्थकी, उस समय एकमात्र ज्ञात प्राचीन हस्तलिखित प्रति, मंगवाई गई । हमारे स्वर्गस्थ विद्वान् मित्र चिमनलाल डाह्याभाई दलाल, एम्. ए. ने उस समय 'गायकवाडस् ओरिएण्टल सिरीज़' का काम प्रारंभ किया था । प्रायः सन् १९१५ के समयकी यह बात है । उन्हींके प्रयत्नसे पूना वाली प्रति बडौदामें मंगवाई गई थी । मैं और श्री दलाल दोनों मिल कर उस प्रतिके कुछ पन्ने कई दिन टटोलते रहे, और उसमेंसे कुछ महत्त्वके उद्धरण नोट करते रहे । श्री दलालके हस्ताक्षर बहुत ही अव्यवस्थित और अस्पष्ट होते थे अतः इस ग्रन्थगत उद्धरणोंका आलेखन मैं ही स्वयं करता था । ग्रन्थका आदि और अन्त भाग मैंने अपने हस्ताक्षरोंमें सुन्दर रूपसे लिखा था । उसी समय कथागत वस्तुका कुछ विशेष अवलोकन हुआ और हम दोनोंका यह विचार हुआ कि इस ग्रन्थको प्रकट करना चाहिये । मैंने श्री दलालकी प्रेरणासे, गायकवाड सीरीज़के लिये, सोमप्रभाचार्य रचित कुमारपालप्रतिबोध नामक विशाल प्राकृत ग्रन्थका संपादन कार्य हाथमें लिया था; और उसका छपना भी प्रारंभ हो गया था । मैंने मनमें सोचा था कि कुमारपालप्रतिबोधका संपादन समाप्त होने पर, इस कुवलयमालाका संपादन कार्य हाथमें लिया जाय ।

श्री दलाल द्वारा संपादित गायकवाडस् ओरिएण्टल सीरीज़का प्रथम ग्रन्थ राजशेखरकृत 'काव्यमीमांसा' प्रकट हुआ । इसके परिशिष्टमें, कुवलयमालाके जो कुछ उद्धरण दिये गये हैं उनकी मूल नकल सर्वप्रथम मैंने ही की थी ।

पूना वाली प्रतिका ऊपर ऊपरसे निरीक्षण करते हुए मुझे आभास हुआ कि वह प्रति कुछ अशुद्ध है । पर उस समय, जेसलमेरकी प्रति ज्ञात नहीं थी । उसी वर्ष जेसलमेरके ज्ञानभंडारोंका निरीक्षण करनेके लिये, स्वर्गवासी त्रिषाप्रिय सयाजीराव गायकवाड नरेशका आदेश प्राप्त कर, श्री दलाल वहां गये और प्रायः तीन महिना जितना समय व्यतीत कर, वहांके भंडारोंकी ग्रन्थराशिका उनने ठीक ठीक परिचय प्राप्त किया । तभी उनको जेसलमेरमें सुरक्षित प्राकृत कुवलयमालाकी ताडपत्रीय प्राचीन प्रतिका पता लगा । पर उनको उसके ठीकसे देखनेका अवसर नहीं मिला था, अतः इसकी कोई विशेषता उनको ज्ञात नहीं हुई । बादमें बडौदासे मेरा प्रस्थान हो गया ।

सन् १९१८ में मेरा निवास पूनामें हुआ । भंडारकर ओरिएण्टल रिसर्च इन्स्टिट्यूटकी स्थापनाके काममें, जैन समाजसे कुछ विशेष आर्थिक सहायता प्राप्त करानेकी दृष्टिसे, इन्स्टिट्यूटके मुख्य स्थापक

विद्वान् स्वर्गवासी डॉ० पाण्डुरंग गुणे, डॉ० एन्. जी. सरदेसाई और डॉ० एस्. के. बेल्वलकर आदिके आमंत्रणसे मैं पूना गया था। मेरा उद्देश इन्स्टिट्यूटकी स्थापनामें जैन समाजसे कुछ आर्थिक सहायता दिलानेके साथ, स्वयं मेरा आन्तरिक प्रलोभन, पूनाके उस महान् ग्रन्थसंग्रहको भी देखनेका था जिसमें जैन साहित्यके हजारों उत्तमोत्तम ग्रन्थ संग्रहीत हुए हैं। पूनामें जा कर, मैं एक तरफसे इन्स्टिट्यूटको अपेक्षित आर्थिक मदत दिलानेका प्रयत्न करने लगा, दूसरी तरफ मैं यथावकाश ग्रन्थसंग्रहके देखनेका भी काम करने लगा। उस समय यह ग्रन्थसंग्रह, डेकन कॉलेजके सरकारी मकानमेंसे हट कर, भांडारकर रीसर्च इन्स्टिट्यूटका जो नया, पर अधूरा, मकान बना था उसमें आ गया था।

अहमदाबादकी वर्तमान गुजरात विद्या सभाके विशिष्ट संचालक, प्रो० श्री रसिकलाल छोटालाल परीख, जो उस समय पूनाकी फर्गुसन कॉलेजमें रीसर्च स्कॉलरके रूपमें विशिष्ट अध्ययन कर रहे थे, मेरे एक अभिन्नहृदयी मित्र एवं अतीव प्रिय शिष्यके रूपमें, इस महान् ग्रन्थसंग्रहके निरीक्षण कार्यमें मुझे हार्दिक सहयोग दे रहे थे।

सन् १९१९ के नवंबर मासमें, भांडारकर रीसर्च इन्स्टिट्यूटकी तरफसे, भारतके प्राच्यविद्याभिन्न विद्वानोंकी सुविख्यात ओरिएण्टल कॉन्फरन्सका सर्वप्रथम अधिवेशन बुलानेका महद् आयोजन किया गया। मैंने इस कॉन्फरन्समें पढ़नेके लिये महान् आचार्य हरिभद्रसूरिके समयका निर्णय कराने वाला निबन्ध लिखना पसन्द किया।

इन आचार्यके समयके विषयमें भारतके और युरोपके कई विख्यात विद्वानोंमें कई वर्षोंसे परस्पर विशिष्ट मतभेद चल रहा था जिनमें जर्मनीके महान् भारतीयविद्याविज्ञ डॉ० हेर्मान याकोबी मुख्य थे।

जैन परंपरामें जो बहु प्रचलित उल्लेख मिलता है उसके आधार पर आचार्य हरिभद्रसूरिका स्वर्गमन विक्रम संवत् ५८५ माना जाता रहा है। पर डॉ० याकोबीको हरिभद्रके कुछ ग्रन्थगत उल्लेखोंसे यह ज्ञात हुआ कि उनके स्वर्गमनकी जो परंपरागत गाथा है वह ठीक नहीं बैठ सकती। हरिभद्रके स्वयंके कुछ ऐसे निश्चित उल्लेख मिलते हैं जिनसे उनका वि० सं० ५८५ में स्वर्गमन सिद्ध नहीं हो सकता। दूसरी तरफ, उनको महर्षि सिद्धर्षिकी उपमितिभवप्रपंचा कथामें जो उल्लेख मिलता है, कि आचार्य हरिभद्र उनके धर्मबोधकर गुरु हैं,—इसका रहस्य उनकी समझमें नहीं आ रहा था। सिद्धर्षिने अपनी वह महान् कथा विक्रम संवत् ९६२ में बनाई थी, जिसका स्पष्ट और सुनिश्चित उल्लेख उनने स्वयं किया है। अतः डॉ० याकोबीका मत बना था कि हरिभद्र, सिद्धर्षिके समकालीन होने चाहिये। इसका विरोधी कोई स्पष्ट प्रमाण उनको मिल नहीं रहा था। अतः वे हरिभद्रका समय विक्रमकी १० वीं शताब्दी स्थापित कर रहे थे। जैन विद्वान् अपनी परंपरागत गाथा का ही संपूर्ण समर्थन कर रहे थे।

मेरे देखनेमें प्राकृत कुवलयमालागत जब वह उल्लेख आया जिसमें कथाकारने अनेकशास्त्रप्रणेता आचार्य हरिभद्रको अपना प्रमाणशास्त्रशिक्षक गुरु बतलाया है और उनकी बनाई हुई प्रख्यात प्राकृत रचना 'समराइच्छकहा' का भी बड़े गौरवके साथ स्मरण किया है, तब निश्चय हुआ कि हरिभद्र कुवलयमालाकथाकार उद्द्योतनसूरिके समकालीन होने चाहिये। उद्द्योतनसूरिने अपनी रचनाका निश्चित समय, ग्रन्थान्तमें बहुत ही स्पष्ट रूपसे दे दिया है; अतः उसमें भ्रान्तिको कोई स्थान नहीं रहता। उद्द्योतनसूरिने कुवलयमालाकी रचनासमाप्ति शक संवत् ७०० के पूर्ण होनेके एकदिन पहले की थी। राजस्थान और उत्तर भारतकी परंपरा अनुसार चैत्रकृष्णा अमावस्याको शक संवत्सर पूर्ण होता है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदाको नया संवत्सर चालू होता है। उद्द्योतनसूरिने चैत्रकृष्णा चतुर्दशीके दिन अपनी ग्रन्थसमाप्ति की, अतः उनने स्पष्ट लिखा

कि एक दिन न्यून रहते, शक संवत्सर ७०० में यह ग्रन्थ समाप्त हो रहा है। शक संवत्सर ७०० की तुलनामें विक्रम संवत् ८३५ आता है। इस दृष्टिसे हरिभद्रसूरि, विक्रमकी ९ वीं शताब्दीके प्रथम पादमें हुए यह निश्चित होता है। न वे जैसा कि परंपरागत गाथामें सूचित वि० सं० ५८५ में ही स्वर्गस्थ हुए, और न सिद्धर्षिके समकालीन वि० सं० ९६२ के आसपास ही हुए।

मैंने इस प्रमाणको सन्मुख रख कर, हरिभद्रसूरिके समयका निर्णायक निबन्ध लिखना शुरू किया था। पर साथमें पूनाके उक्त ग्रन्थसंग्रहमें उपलब्ध हरिभद्रसूरिके अन्यान्य विशिष्ट ग्रन्थोंके अवलोकनका भी मुझे अच्छा अवसर मिला। इन ग्रन्थोंमें कई ऐसे विशिष्ट अन्य प्रमाण मिले जो उनके समयका निर्णय करनेमें अधिक आधाररूप और ज्ञापकरूप थे। डॉ० याकोबीके अवलोकनमें ये उल्लेख नहीं आये थे, इस लिये मुझे अपने निबन्धके उपयोगी ऐसी बहुत नूतन सामग्री मिल गई थी, जिसका पूरा उपयोग मैंने अपने उस निबन्धमें किया।

मैंने अपना यह निबन्ध संस्कृत भाषामें लिखा। और उक्त 'ऑल इण्डिया ओरिएण्टल कॉन्फरन्स'के प्रमुख अधिवेशनमें विद्वानोंको पढ़ कर सुनाया। उस कॉन्फरन्सके मुख्य अध्यक्ष, स्वर्गस्थ डॉ० सतीशचन्द्र विद्याभूषण थे, जो उन दिनों भारतके एक बहुत गण्य मान्य विद्वान् माने जाते थे। उनमें भी अपने एक ग्रन्थमें हरिभद्रसूरिके समयकी थोड़ीसी चर्चा की थी। मैंने अपने निबन्धमें इनके कथनका भी उल्लेख किया था और उसको अंगत बता कर उसकी आलोचना भी की थी। विद्याभूषण महाशय स्वयं मेरे निबन्धपाठके समय श्रोताके रूपमें उपस्थित थे। मेरे दिये गये प्रमाणोंको सुन कर, वे बहुत प्रसन्न हुए। मेरी की गई आलोचनाको उदार हृदयसे बिल्कुल सत्य मान कर उनमें, बादमें मेरे रहनेके निवासस्थान पर आकर, मुझे बड़े आदरके साथ बधाई दी। ऐसे सत्यप्रिय और साहित्यनिष्ठ प्रखर विद्वान्की बधाई प्राप्त कर मैंने अपनेको धन्य माना। पीछेसे मैंने इस निबन्धको पुस्तिकाके रूपमें छपवा कर प्रकट किया और फिर बादमें, 'जैन साहित्य संशोधक' नामक संशोधनात्मक त्रैमासिक पत्रका संपादन व प्रकाशन कार्य, स्वयं मैंने शुरू किया, तब उसके प्रथम अंकमें ही "हरिभद्रसूरिका समयनिर्णय" नामक विस्तृत लेख हिन्दीमें तैयार करके प्रकट किया।

मैंने इन लेखोंकी प्रतियां जर्मनीमें डॉ० याकोबीको भेजी जो उस समय, आधुनिक पश्चिम जर्मनीकी राजधानी बॉन नगरकी युनिवर्सिटीमें भारतीय विद्याके प्रख्यात प्राध्यापकके पद पर प्रतिष्ठित थे। डॉ० याकोबीने मेरे निबन्धको पढ़ कर अपना बहुत ही प्रसन्न भाव प्रकट किया। यद्यपि मैंने तो उनके विचारोंका खण्डन किया था और कुछ अनुदार कहे जाने वाले शब्दोंमें भी उनके विचारोंकी आलोचना की थी। पर उस महामना विद्वान्ने, सत्यको हृदयसे सत्य मान कर, कटु शब्दप्रयोगका कुछ भी विचार नहीं किया और अपनी जो विचार-भ्रान्ति थी उसका निश्छिन्न भावसे पूर्ण स्वीकार कर, मेरे कथनका संपूर्ण समर्थन किया।

हरिभद्रसूरिकी **समराइच्चकहा** नामक जो विशिष्ट प्राकृत रचना है उसका संपादन डॉ० याकोबीने किया है और बंगालकी एसियाटिक सोसाइटी द्वारा प्रकाशित 'बिब्लियोथिका इन्डिका' नामक सीरीज़में वह प्रकट हुई है। इस ग्रन्थकी भूमिकामें डॉ० याकोबीने मेरे निबन्धकी प्रशंसा करते हुए वे सारी बातें बड़े विस्तारसे लिखी हैं जिनका संक्षिप्त परिचय मैंने ऊपर दिया है।

डॉ० याकोबीके विचारोंको जब मैंने पढ़ा तो मुझे जर्मनीके महान् विद्वानोंकी सत्यप्रियता, ज्ञानोपासना एवं कर्तव्यनिष्ठके प्रति अत्यन्त समादर भाव उत्पन्न हुआ। मेरे मनमें हुआ कि कहां डॉ० याकोबी जैसा महाविद्वान्, जिसको समग्र भारतीय साहित्य और संस्कृतिका हस्तामलकवत् स्पष्ट दर्शन हो रहा है, और कहां

मेरे जैसा एक अतीव अल्पज्ञ और यथाकथंचित् पुस्तकपाठी सामान्य विद्यार्थी जन, जिसको अभी संशोधन की दिशाकी भी कोई कल्पना नहीं है—वैसे एक सिखाऊ अभ्यासीके लिखे गये लेखके विचारोंका स्वागत करते हुए, इस महान् विद्यानिधि विद्वान्ने कितने बड़े उदार हृदयसे अपनी भूलका स्वीकार किया और मुझे धन्यवाद दिया। मेरे मनमें उसी समयसे जर्मन विद्वत्ता और विद्याप्रियताके प्रति अतीव उत्कृष्ट आदरभाव उत्पन्न हुआ और मैंने उन्हींके प्रदर्शित मार्ग पर चल कर, अपनी मनोगत जिज्ञासा और ज्ञानपिपासाको तृप्त करते रहनेका संकल्प किया। मैं मान रहा हूँ कि मेरी यह जो अल्प-खल्प साहित्योपासना आज तक चलती रही है उसमें मुख्य प्रेरक वही संकल्प है।

इस कुवलयमालाके अन्तभागमें जहां हरिभद्रसूरिका उल्लेख किया गया है वह गाथा पूनावाली प्रतिमें कुछ खण्डित पाठवाली थी। मैंने त्रुटित अक्षरोंको अपनी कल्पनाके अनुसार वहां बिठानेका प्रयत्न किया। इसी प्रसंगमें पुनः कुवलयमालाकी प्रतिको वारंवार देखनेका अवसर मिला और मैं इसमेंसे अन्यान्य भी अनेक इतिहासोपयोगी और भाषोपयोगी उल्लेखोंके नोट करते रहा जो आज भी मेरी फाईलमें दबे हुए पड़े हैं।

पूनामें रहते हुए स्व० डॉ० गुणेसे घनिष्ठ संपर्क हुआ। वे जर्मनी जा कर, वहांकी युनिवर्सिटीमें भारतीय भाषाविज्ञानका विशिष्ट अध्ययन कर आये थे और जर्मन भाषा भी सीख आये थे। अतः वे जर्मन विद्वानोंकी शैलीके अनुकरण रूप प्राचीन ग्रन्थोंका संपादन आदि करनेकी इच्छा रखते थे। वे प्राकृत और अपभ्रंश भाषा साहित्यका विशेष अध्ययन करना चाहते थे। मुझे भी इस विषयमें विशेष रुचि होने लगी थी, अतः मैं उनको जैन ग्रन्थोंके अवतरणों और उल्लेखों आदिकी सामग्रीका परिचय देता रहता था। उनकी इच्छा हुई कि किसी एक अच्छे प्राकृत ग्रन्थका या अपभ्रंश रचनाका संपादन किया जाय। मैंने इसके लिये प्रस्तुत कुवलयमाला का निर्देश किया, तो उनने कहा कि—‘आप इसके मूल ग्रन्थका संपादन करें; मैं इसका भाषाविषयक अन्वेषण तैयार करूँ; और अपने दोनोंकी संयुक्त संपादनकृतिके रूपमें इसे भांडारकर रीसर्च इन्स्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित होने वाली, राजकीय ग्रन्थमालामें प्रकट करनेका प्रबन्ध करें।’ इस विचारके अनुसार मैंने स्वयं कुवलयमालाकी प्रतिलिपि करनेका प्रारंभ भी कर दिया।

सन् १९१९-२० में देशमें जो भयंकर इन्फ्लुएंजा का प्रकोप हुआ, उसका शिकार मैं भी बना और उसमें जीवितका भी संशय होने जैसी स्थिति हो गई। ३-४ महिनोंमें बड़ी कठिनतासे स्वस्थता प्राप्त हुई। इसी इन्फ्लुएंजाके प्रकोपमें, बडौदानिवासी श्री चिमनलाल दलालका दुःखद स्वर्गवास हो गया, जिसके समाचार जान कर मुझे बड़ा मानसिक आघात हुआ। मैं गायकवाडस् ओरिएण्टल सीरीजके लिये जिस कुमारपालप्रतिबोध नामक प्राकृत विशाल ग्रन्थका संपादन कर रहा था उसमें भी कुछ व्याघात हुआ। श्री दलाल स्वयं धनपालकी अपभ्रंश रचना भविस्सयत्तकहा का संपादन कर रहे थे। उसका कार्य अधूरा रह गया। सीरीजका इन्चार्ज उस समय जिनके पास रहा वे बडौदाके ओरिएण्टल इन्स्टीट्यूटके क्युरेटर डॉ० ज. स. कुडालकर मेरे पास आये और दलाल संपादित अधूरे ग्रन्थोंके कामके बारेमें परामर्श किया। भविस्सयत्तकहा का काम डॉ० गुणेको सौंपनेके लिये मैंने कहा और वह स्वीकार हो कर उनको दिया गया।

महात्माजीने १९२० में अहमदाबादमें गुजरात विद्यापीठकी स्थापना की, और मैं उसमें एक विशिष्ट सेवकके रूपमें संलग्न हो गया। मेरे प्रस्तावानुसार विद्यापीठके अन्तर्गत ‘भांडारकर रीसर्च इन्स्टीट्यूट’के नमूने पर ‘गुजरात पुरातत्त्व मन्दिर’की स्थापना की गई और मैं उसका मुख्य संचालक बनाया गया।

मेरी साहित्यिक प्रवृत्तिका केन्द्र पूनासे हट कर अब अहमदाबाद बना। मैंने गुजरात पुरातत्त्व मन्दिर द्वारा प्रकाशित करने योग्य कई प्राचीन ग्रन्थोंके संपादनकार्यकी योजना बनाई। इन ग्रन्थोंमें यह

कुवलयमाला भी सम्मिलित थी। डॉ० गुणे पीछेसे क्षयरोगग्रस्त हो गये। उनके साथ जो इसके सहसंपादन का विचार हुआ था वह अब संभव नहीं रहा। पर मेरी इच्छा इस ग्रन्थको प्रकट करनेकी प्रबल बनी हुई थी, उसके परिणामस्वरूप मैंने अहमदाबादमें एक उत्तम प्रतिलिपि करने वाले कुशल लेखकसे पूरे ग्रन्थकी प्रेस कॉपी करवा ली।

इसी बीचमें स्व० पूज्यपाद प्रवर्तकजी श्री कान्तिविजयजी व श्री चतुरविजयजी महाराजके प्रयत्नसे जेसलमेरकी ताडपत्र वाली प्राचीन प्रतिकी फोटो कॉपी उतर कर आ गई। इसके आधार पर अब ग्रन्थका संपादनकार्य कुछ सुगम मान कर मैंने दोनों प्रतियोंके पाठभेद लेने शुरू किये। गुजरात पुरातत्त्व मन्दिरकी ओरसे अनेक ग्रन्थोंका संपादन—प्रकाशन कार्य चालू किया गया था, इस लिये इसका कार्य कुछ मन्द गतिसे ही चल रहा था। इतनेमें मेरा मनोरथ जर्मनी जानेका हुआ और जिन जर्मन विद्वानोंके संशोधनात्मक कार्योंके प्रति मेरी उक्त रूपसे विशिष्ट श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी, उनके कार्यकेन्द्रोंका और उनकी कार्यपद्धतिका, प्रत्यक्ष अनुभव कर आनेकी मेरी इच्छा बलवती हो गई। इंग्रेजी भाषाके प्रति मेरी कुछ विशेष श्रद्धा नहीं थी और मुझे इसके ज्ञानकी प्राप्तिकी कोई वैसी सुविधा भी नहीं मिली थी। पर जब मुझे ज्ञात हुआ कि जर्मन भाषामें, हमारी भारतीय विद्या और संस्कृति पर प्रकाश डालने वाला जितना मौलिक साहित्य प्रकाशित हुआ है उसका शतांश भी इंग्रेजी भाषामें नहीं है; तब मेरी आकांक्षा जर्मन भाषाके सीखनेकी बहुत ही बलवती हो ऊठी। मेरे जैसी परिस्थिति और प्रकृति वाले व्यक्तिके लिये, इस देशमें बैठे बैठे जर्मन भाषाका विशेष परिचय प्राप्त करना कठिन प्रतीत हुआ। क्यों कि जर्मन सीखनेके लिये पहले इंग्रेजी भाषाका अच्छा ज्ञान होना चाहिये; उसके माध्यमसे ही जर्मन भाषा जल्दी सीखी जा सकती है। मेरे लिये वैसा होना संभव नहीं लगा, अतः मैंने सोचा कि जर्मनीमें जा कर कुछ समय रहनेसे अधिक सरलताके साथ, जर्मन भाषा सीधे तौरसे सीखी जा सकेगी; और साथमें वहाँके विद्वानों, लोगों, संस्थाओं, कारखानों, विद्यालयों, पुस्तकालयों एवं प्रदेशों, नगरों, गांवों आदिका साक्षात् परिचय भी प्राप्त हो सकेगा।

मैंने अपना यह मनोरथ महात्माजीके सम्मुख प्रकट किया, तो उनने बड़े सद्भावपूर्वक मेरे मनोरथको प्रोत्साहन दिया और मुझे २ वर्षके लिये गुजरात विद्यापीठसे छुट्टी ले कर जा आनेकी अनुमति प्रदान कर दी। इतना ही नहीं परंतु अपने युरोपीय मित्रोंके नाम एक जनरल नोट भी अपने निजी हस्ताक्षरोंसे लिख कर दे दिया। उधर जर्मनीसे भी मुझे प्रो० याकोबी, प्रो० शुब्रींग आदि परिचित विद्वानोंके प्रोत्साहनजनक पत्र प्राप्त हो गये थे—जिससे मेरा उत्साह द्विगुण हो गया। सन् १९२८ के मई मासकी २६ तारीखको मैं बंबईसे P. and O. की स्टीमर द्वारा विदा हुआ।

जर्मनीमें जाने पर प्रो० याकोबी, प्रो० शुब्रींग, प्रो० ग्लाजेनाप, डॉ० आल्सडोर्फ, प्रो० ल्युडर्स और उनकी विदुषी पत्नी आदि अनेक भारतीय विद्याके पारंगत विद्वानोंका घनिष्ठ संपर्क हुआ और उन उन विद्वानोंका स्नेहमय, सौजन्यपूर्ण, सद्भाव और सहयोग प्राप्त हुआ। जर्मन राष्ट्र मुझे अपने देशके जितना ही प्रिय लगा। मैं वहाँके लोगोंका कल्पनातीत पुरुषार्थ, परिश्रम और विद्या एवं विज्ञानविषयक प्रभुत्व देख कर प्रसुद्धित ही नहीं, प्रसुग्ध हो गया। हांबुर्गमें डॉ० याकोबीसे भेंट हुई। उनके साथ अनेक ग्रन्थोंके संपादन—संशोधन आदिके बारेमें बात-चीत हुई। उसमें इस कुवलयमालाका भी जिक्र आया। उनने इस ग्रन्थको प्रसिद्ध कर देनेकी उत्कट अभिलाषा प्रकट की। मैंने जो पूना वाली प्रति परसे प्रतिलिपि करवा ली थी उसका परिचय दिया और साथमें जेसलमेरकी ताडपत्रीय प्रतिकी फोटू कापी भी प्राप्त हो गई है, इसका भी जिक्र किया। मैंने इन दोनों प्रतियोंके विशिष्ट प्रकारके पाठभेदोंका परिचय दे कर अपना अभिप्राय प्रकट किया कि

कुवलयमालाकी आज तक ये दो ही मूल प्रतियां उपलब्ध हो रही हैं। तीसरी प्रति अभी तक कहीं ज्ञात नहीं है। ये दोनों प्रतियां बिल्कुल स्वतंत्र हैं। इनमें जो पाठभेद प्राप्त हो रहे हैं वे ऐसे हैं जो स्वयं ग्रन्थकार ही के किये हुए होने चाहिये। डॉ० याकोबी इस बातको सुन कर चकित हुए। उनने स्वयं कुवलयमालाके इस प्रकारके पाठभेद वाले १०-२० उदाहरण देखने चाहे। पर मेरे पास उस समय इसकी प्रतिलिपि थी नहीं। मैंने पीछेसे उनको इसके भेजनेका अभिवचन दिया। जैन भण्डारोंमें ऐसे कुछ ग्रन्थ मेरे देखनेमें आये हैं जो इस प्रकार स्वयं ग्रन्थकार द्वारा किये गये पाठान्तरोंका उदाहरण उपस्थित करते हैं। प्रो० वेबरके बर्लिन वाले हस्तलिखित ग्रन्थोंके विशाल केटेलॉगमें से धर्मसागर उपाध्यायकी तपागच्छीय पट्टावलिा मैंने उल्लेख किया, जिसको उनने अपना नोटबुकमें लिख लिया। प्रो० याकोबीने वार्ताके अन्तमें अपना अभिप्राय पुनः दौराया कि आप भारत जा कर कुवलयमालाको प्रकट कर देनेका प्रयत्न अवश्य करें।

हाम्बुर्गमें मैं ३-४ महीने रहा और जैन साहित्यके मर्मज्ञ विद्वान् प्रो० शुर्बीगके और उनके विद्वान् शिष्य डॉ० आल्सडोर्फ वगैरहके साथ प्राकृत और अपभ्रंश भाषा विषयक जैन साहित्यके प्रकाशन आदिके बारेमें विशेष रूपसे चर्चा वार्ता होती रही। डॉ० आल्सडोर्फ उस समय, गायकवाडस् ओरिएण्टल सीरीज़में प्रकाशित 'कुमारपालप्रतिबोध' नामक बृहत् प्राकृत ग्रन्थका जो मैंने संपादन किया था उसके अन्तर्गत अपभ्रंश भाषामय जो जो प्रकरण एवं उद्धरण आदि थे उनका विशेष अध्ययन करके उस पर एक स्वतंत्र ग्रन्थ ही तैयार कर रहे थे।

हाम्बुर्गसे मैं फिर जर्मनीकी जगद्विख्यात राजधानी बर्लिन चला गया। वहांकी युनिवर्सिटीमें, भारतीय विद्याओंके पारंगत विद्वान् गेहाइमराट्, प्रो० हाइन्रीश ल्युडर्म् और उनकी विदुषी पत्नी डॉ० एल्जे ल्युडर्म्से गनिष्ठ स्नेहसंबन्ध हुआ। मैं वारंवार उनके युनिवर्सिटी वाले खममें जा कर मिलता और बैठना। वे भी अनेक बार मेरे निवासस्थान पर बहुत ही सरल भावसे चले आते। उस वर्षकी दीवालीके दिन मैंने उन महामनापी दम्पतीको अपने स्थान पर भोजन के लिये निमंत्रित किया था जिसका सुगन्ध स्मरण आज तक मेरे मनमें बड़े गौरवका सूचक बन रहा है। डॉ० ल्युडर्म्की व्यापक विद्वत्ता और भारतीय संस्कृतिके ज्ञानकी विशालता देख देख कर, मेरे मनमें हुआ करता था कि यदि जीवनके प्रारंभकालमें—जब विद्याध्ययनकी रुचिका विकास होने लगा था, उन समय,—ऐसे विद्यानिधि गुरुके चरणोंमें बैठ कर ५-७ वर्ष विद्या ग्रहण करनेका अवसर मिलता तो मेरी ज्ञानज्योति कितनी अच्छी प्रज्वलित हो सकती और मेरी उत्कट ज्ञानपिपासा कैसे अधिक तृप्त हो सकती। डॉ० ल्युडर्म् भारतकी प्राग्-मध्यकालीन प्राकृत बोलियोंका विशेष अनुसन्धान कर रहे थे। मैंने उनको कुवलयमालामें उपलब्ध विविध देशोंकी बोलियोंके उस उल्लेखका जिक्र किया जो प्रस्तुत आवृत्तिके पृष्ठ १५१-५२ पर मुद्रित है। उनकी बहुत इच्छा रही कि मैं इस विषयके संबन्धका पूरा उद्धरण उनको उपलब्ध कर दूं। पर उस समय मेरे पास वह था नहीं, और मेरे लिखने पर कोई सजन यहांसे उसकी प्रतिलिपि करके भेज सके ऐसा प्रबन्ध हो नहीं सका।

जर्मनीसे जब वापस आना हुआ तब, थोड़े ही समय बाद, महात्माजीने भारतकी स्वतंत्रताप्राप्तिके लिये नमक-सत्याग्रहका जो देशव्यापी आन्दोलन शुरू किया था उसमें भाग लेने निमित्त मुझे ६ महीनेकी कठोर कारावास वाली सजा मिली और नासिककी सेंट्रल जेलमें निवास हुआ। उस समय मान्य मित्रवर श्री कन्हैया-लालजी मुन्शीका भी उस निवासस्थानमें आगमन हुआ। हम दोनों वहां पर बड़े आनन्द और उल्हासके साथ अपनी साहित्यिक चर्चाएं और योजनाएं करने लगे। वहीं रहते समय श्री मुन्शीजीने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'गुजरात एण्ड इटस् लिटरेचर' के बहुतसे प्रकरण लिखे, जिनके प्रसंगमें गुजरातके प्राचीन साहित्यके

विषयमें परस्पर बहुत ऊहापोह होता रहा और इस कुवलयमाला कथाके विषय और वर्णनोंके बारेमें भी इनको बहुत कुछ जानकारी कराई गई। नासिकके जेलनिवास दरम्यान ही मेरा संकल्प और भी अधिक दृढ़ हुआ कि अवसर मिलते ही अब सर्वप्रथम इस ग्रन्थके प्रकाशनका कार्य हाथमें लेना चाहिये।

जेलमेंसे मुक्ति मिलने बाद, बाबू श्री बहादुर सिंहजी सिंघीके आग्रह पर, गुरुदेव रवीन्द्रनाथके शान्तिधर्ममें रहनेकी इच्छासे, मैंने कुछ समय विश्वभारती—शान्तिनिकेतनमें अपना कार्यकेन्द्र बनानेकी योजना की। सन् १९३१ के प्रारंभमें शान्तिनिकेतनमें सिंघी जैन ज्ञानपीठकी स्थापना की गई और उसके साथ ही प्रतुत सिंघी जैन ग्रन्थमालाके प्रकाशनकी भी योजना बनाई गई।

अहमदाबादके गुजरात विद्यापीठस्थित गुजरात पुरातत्त्व मन्दिरकी ग्रन्थावलि द्वारा जिन कई ग्रन्थोंके प्रकाशनका कार्य मैंने निश्चित कर रखा था, उनमेंसे प्रबन्धचिन्तामणि आदि कई ऐतिहासिक विषयके ग्रंथोंका मुद्रणकार्य, सर्वप्रथम हाथमें लिया गया। प्रबन्धचिन्तामणिका कुछ काम, जर्मनी जानेसे पूर्व ही मैंने तैयार कर लिया था और उस ग्रन्थको बंबईके कर्णाटक प्रेसमें छपनेको भी दे दिया था। ५-६ फार्म छप जाने पर, मेरा जर्मनी जानेका कार्यक्रम बना और जिससे वह कार्य वहीं रुक गया। मेरे जर्मनी चले जाने बाद, गुजरात पुरातत्त्व मन्दिरका वह कार्य प्रायः सदाके लिये स्थगित-सा हो गया। इस लिये शान्तिनिकेतनमें पहुंचते ही मैंने इसका कार्य पुनः प्रारंभ किया और बंबईके सुविख्यात निर्णयसागर प्रेसमें इसे छपनेके लिये दिया।

इसीके साथ ही मैंने कुवलयमालाका काम भी प्रारंभ किया। शान्तिनिकेतनमें विश्वभारतीके मुख्य अध्यापक दिवंगत आचार्य श्री विधुशेखर भट्टाचार्यके साथ इस ग्रन्थके विषयमें विशेष चर्चा होती रही। उनको मैंने इस ग्रन्थके अनेक अवतरण पढ़ कर सुनाये और वे भी इस ग्रन्थको शीघ्र प्रकाशित करनेका साम्रह परामर्श देते रहे।

इस ग्रन्थको किस आकारमें और कैसे टाईपमें छपवाया जाय इसका परामर्श मैंने प्रेसके मैनेजरके साथ बैठ कर किया। और फिर पहले नमूनेके तौर पर १ फार्मकी प्रेसकॉपी ठीक करनेके लिये, पूना और जेसलमेर वाली दोनों प्रतियोंके पाठभेद लिख कर उनको किस तरह व्यवस्थित किया जाय इसका उपक्रम किया।

पूना वाली प्रति परसे तो मैंने पहले ही अहमदाबादमें उक्त रूपमें एक अच्छे प्रतिलिपिकारके हाथसे प्रतिलिपि करवा रखी थी और फिर उसका मिलान जेसलमेरकी प्रतिके लिये गये फोटोसे करना प्रारंभ किया। जैसा कि विज्ञ पाठक प्रस्तुत मुद्रणके अवलोकनसे जान सकेंगे कि इन दोनों प्रतियोंमें परस्पर बहुत पाठभेद हैं और इनमें से कौनसी प्रतिका कौनसा पाठ मूलमें रखा जाय और कौनसा पाठ नीचे रखा जाय इसके लिये प्रत्येक शब्द और वाक्यको अनेक बार पढ़ना और मूल पाठके औचित्यका विचार करना बड़ा परिश्रमदायक काम अनुभूत हुआ। इसमें भी जेसलमेरकी जो फोटोकॉपी सामने थी वह उतनी स्पष्ट और सुवाच्य नहीं थी, इस लिये वारंवार सूक्ष्मदर्शक काचके सहारे उसके अक्षरोंका परिज्ञान प्राप्त करना, मेरी बहुत ही दुर्बल ज्योति बाली आंखोंके लिये बड़ा कष्टदायक कार्य प्रतीत हुआ। पर मैंने बड़ी साइइके ८-१० पृष्ठोंका पूरा मेटर तैयार करके प्रेसको भेज दिया और किस टाईपमें यह ग्रन्थ मयपाठभेदोंके ठीक ढंगसे अच्छा छपेगा और सुपाठ्य रहेगा, इसके लिये पहले १-२ पृष्ठ, ३-४ जातिके भिन्न भिन्न टाईपोंमें कंपोज करके भेजनेके लिये प्रेसको सूचना दी और तदनुसार प्रेसने वे नमूनेके पेज कंपोज करके मेरे पास भेज दिये। मैंने उस समय इस ग्रन्थको, डिमाई ४ पेजी जैसी बड़ी साइइके आकारमें छपवाना निश्चित

किया था। क्यों कि सिरीसके मूल संरक्षक स्व० बाबू बहादुर सिंहजी सिंघी, ग्रन्थमालाके सुन्दर आकार, प्रकार, मुद्रण, कागज, कवर, गेट-अप आदिके बारेमें बहुत ही दिलचस्पी रखते थे और प्रत्येक बातमें बड़ी सूक्ष्मता और गहराईके साथ विचार-विनिमय करते रहते थे। ग्रन्थमालाके लिये जो सर्वप्रथम आकार-प्रकार मैंने पसन्द किया, उसमें उनकी पसन्दगी भी उतनी ही मुख्य थी। प्रेसने जो नमूनेके पृष्ठ मेजे उसमें से मैंने निर्णयसागर प्रेसके स्पेशल टाईप ग्रेट नं. ३ में ग्रन्थका छपवाना तय किया। क्यों कि इस टाईपमें ग्रन्थकी प्रत्येक गाथा, पृष्ठकी एक पंक्तिमें, अच्छी तरह समा सकती है और उस पर पाठ-भेद और पाद-टिप्पणी के लिये सूचक अंकोंका समावेश भी अच्छी तरह हो सकता है। प्रेसने मेरे कहनेसे इसके लिये बिल्कुल नया टाईप तैयार किया और उसमें २ फार्म एक साथ कंपोज करके मेरे पास उसके ग्रुफ मेज दिये।

जिन दिनों ये ग्रुफ मेरे पास पहुंचे, उन दिनोंमें मेरा स्वास्थ्य कुछ खराब था और उसी अवस्थामें मैंने ग्रुफ देखने और मूल परसे पाठभेदोंका मिलान करके उनको ठीक जगह रखनेका विशेष परिश्रम किया। खास करके जेसलमेर वाली फोटोकॉपीको, प्रतिवाक्यके लिये देखने निमित्त आंखोंको जो बहुत श्रम करना पडा उससे शिरोवेदना शुरू हो गई और उसका प्रभाव न केवल मस्तकमें ही व्यापक रहा पर नीचे गर्दनमें भी उतर आया और कोई २-३ महिनों तक उसके लिये परिचर्याकी लंबी शिक्षा सहन करनी पडी। तब मनमें यह संकल्प हुआ कि कुवलयमालाका ठीक संपादन करनेके लिये, जेसलमेर वाली प्राचीन ताडपत्रीय प्रतिको खयं जा कर देखना चाहिये और उसकी शुद्ध प्रतिलिपि खयं करके फिर इसका संपादन करना चाहिये। बिना ऐसा किये इस ग्रन्थकी आदर्शभूत आवृत्ति तैयार हो नहीं सकती। इस संकल्पानुसार जेसलमेर जानेकी प्रतीक्षामें, इसका उक्त मुद्रणकार्य स्थगित रखा गया और ग्रन्थमालाके अन्यान्य अनेक ग्रन्थोंके संपादन-प्रकाशनमें मैं व्यस्त हो गया। सन् १९३२-३३ का यह प्रसंग है।

उसके प्रायः १० वर्ष बाद (सन् १९४२ के अन्तमें) मेरा जेसलमेर जाना हुआ और वहां पर प्रायः ५ महिनों जितना रहना हुआ। उसी समय, अन्यान्य अनेक अलभ्य-दुर्लभ्य ग्रन्थोंकी प्रतिलिपियां करानेके साथ इस कुवलयमालाकी सुन्दर प्रतिलिपि भी, मूल ताडपत्रीय प्रति परसे करवाई गई।

द्वितीय महायुद्धके कारण बाजारमें कागजकी प्राप्ति बहुत दुर्लभ हो रही थी, इसलिये ग्रन्थमालाके अन्यान्य प्रकाशनोंका काम भी कुछ मन्द गतिसे ही चल रहा था। नये प्रकाशनोंका कार्य कुछ समय बन्द करके पुराने ग्रन्थ जो प्रेसमें बहुत असेसे छप रहे थे उन्हींको पूरा करनेका मुख्य लक्ष्य रहा था। पर मेरे मनमें कुवलयमालाके प्रकाशनकी अभिलाषा बराबर बनी रही।

कुवलयमाला एक बड़ा ग्रन्थ है एवं पूना और जेसलमेरकी प्रतियोंमें परस्पर असंख्य पाठभेद हैं, इसलिये इसका संपादन कार्य बहुत ही समय और श्रमकी अपेक्षा रखता है। शारीरिक स्वास्थ्य और आयुष्यकी परिमितताका खयाल भी बीच-बीचमें मनमें उठना रहता था। उधर ग्रन्थमालाके संरक्षक और संस्थापक बाबू श्री बहादुर सिंहजीका स्वास्थ्य भी कई दिनोंसे गिरता जा रहा था और वे क्षीणशक्ति होते जा रहे थे। उनके स्वास्थ्यकी स्थिति देख कर मेरा मन और भी अनुत्साहित और कार्य-विरक्त बनता जा रहा था।

इसी असेमें, सुहृद् विद्वद् डॉ० उपाध्येजी बंबईमें मुझसे मिलने आये और ४-५ दिन मेरे साथ ठहरे। उन दिनोंमें, डॉ० उपाध्येने मेरे संपादित हरिभद्रसूरिके धूर्तारव्यान नामक ग्रन्थका इंग्रेजीमें विशिष्ट ऊहापोहात्मक विवेचन लिख कर जो पूर्ण किया था, उसे मुझे दिखाया और मैंने उसके लिये अपना संपादकीय संक्षिप्त प्रास्ताविक वक्तव्य लिख कर इनको इंग्रेजी भाषानुवाद करनेको दिया। इन्हीं दिनोंमें इनके साथ कुवलयमालाके प्रकाशनके विषयमें भी प्रासंगिक चर्चा हुई। कुवलयमालाको सुन्दर रूपमें प्रकाशित

करनेका मेरा चिरकालीन उत्कट मनोरथ बना हुआ है पर शारीरिक दुर्बलावस्था, कुछ अन्य कार्यासक्त आन्तरिक मनोवृत्ति और चाहू अनेक ग्रन्थोंके संपादन कार्यको पूर्ण करनेका अतिशय मानसिक भार, आदिके कारण, मैं अब इस ग्रन्थका अति श्रमदायक संपादन करनेमें समर्थ हो सकूंगा या नहीं उसका मुझे सन्देह था। अतः डॉ० उपाध्येजी — जो इस कार्यके लिये पूर्ण क्षमता रखते हैं, — यदि का इस भार उठाना स्वीकार करें तो, मैंने यह कार्य इनको सौंप देनेका अपना श्रद्धापूर्ण मनोभाव प्रकट किया।

डॉ० उपाध्ये अपने प्रौढ पाण्डित्य और संशोधनात्मक पद्धतिके विशिष्ट विद्वान्के रूपमें, भारतीय विद्याविज्ञान विद्वन्मंडलमें सुप्रसिद्ध हैं। इतःपूर्व अनेक महत्त्वके ग्रन्थोंका, इनने बड़े परिश्रमपूर्वक, बहुत विशिष्ट रूपमें संपादन एवं प्रकाशन किया है। इसी सिंधी जैन ग्रन्थमालामें इनके संपादित 'बृहत्कथाकोष' और 'लीलावई कहा' जैसे अपूर्व ग्रन्थ प्रकाशित हो चुके हैं। इनके द्वारा 'कुवलयमाला' कहा का संपादन सर्वथा उत्तम स्वरूपमें होनेकी मुझे पूर्ण श्रद्धा थी। अतः मैंने इनको इसका भार उठानेके लिये उत्साहपूर्वक प्रेरित किया। इनने बड़ी नम्रता एवं आत्मीयताके साथ मुझसे कहा कि 'यदि आपको मेरे कार्यसे पूर्ण सन्तोष है, तो इस सेवाका सहर्ष स्वीकार करनेमें मैं अपने जीवनका एक बहुत ही श्रेयस्कर कार्य समझूंगा' इत्यादि। चर्चाके परिणामस्वरूप इनने बड़े उत्साह और सद्भावपूर्वक इस कार्यका स्वीकार किया।

कुछ दिन बाद, कुवलयमालाकी जो प्रतिलिपि आदि सामग्री मेरे पास थी, उसको मैंने कोल्हापुर डॉ० उपाध्येजीके पास भेज दी। पर उस समय इनके हाथमें, 'लीलावई कहा' का संपादन कार्य चालू था— जो सन् १९४९ में जा कर समाप्त हुआ। उसके बाद सन् १९५०—५१ में, वास्तविक रूपसे इस ग्रन्थका मुद्रण कार्य प्रारंभ हुआ। बंबईके नि० सा० प्रेसके मैनेजरके साथ बैठ कर, मुझे इसके टाईप आदिके बारेमें फिरसे विशेष परामर्श करना पडा। क्योंकि २० वर्ष पहले जब मैंने (सन् १९३१—३२ में) इस ग्रन्थका मुद्रण कार्य प्रारंभ किया था तब इसके लिये जिस साईंझके कागज आदि पसन्द किये थे उनकी सुलभता इस समय नहीं रही थी। अतः मुझे साईंझ, कागज, टाईप आदिके बारेमें समयानुसार परिवर्तन करना आवश्यक प्रतीत हुआ और तदनुसार ग्रन्थका मुद्रणकार्य प्रारंभ किया गया— जो अब प्रस्तुत स्वरूपमें समाप्त हुआ है।

जैसा कि मुखपृष्ठ परसे ज्ञात हो रहा है— यह इस ग्रन्थका प्रथम भाग है। इसमें उद्योतन सूरिकी मूल प्राकृत कथा पूर्ण रूपमें मुद्रित हो गई है। इस विस्तृत प्राकृत कथाका सरल संस्कृतमें गद्य-पद्यमय संक्षिप्त रूपान्तर, प्रायः ४००० श्लोक परिमाणमें, रत्नप्रभसूरि नामक विद्वान्ने किया है जो विक्रमकी १४ वीं शताब्दीके प्रारम्भमें विद्यमान थे। जिनको प्राकृत भाषाका विशेष ज्ञान नहीं है, उनके लिये यह संस्कृत रूपान्तर, कथावस्तु जाननेके लिये बहुत उपकारक है। अतः इस संस्कृत रूपान्तरको भी इसके साथ मुद्रित करनेका मेरा विचार हुआ और उसको डॉ० उपाध्येजीने भी बहुत पसन्द किया। अतः उसका मुद्रण कार्य भी चालू किया गया है। इसके पूर्ण होने पर डॉ० उपाध्येजी ग्रन्थके अन्तरंग— बहिरंगपरीक्षण, आलोचन, विवेचन वगैरेकी दृष्टिसे अपना विस्तृत संपादकीय निबन्ध लिखेंगे जो काफी बडा हो कर कुछ समय लेगा। अतः मैंने इस ग्रन्थको दो भागोंमें प्रकट करना उचित समझ कर, मूल ग्रन्थका यह प्रथम भाग सिंधी जैन ग्रन्थमालाके ४५ वें मणिरत्नके रूपमें विज्ञ पाठकोंके करकमलमें उपस्थित कर देना पसन्द किया है। आशा तो है कि वह दूसरा भाग भी यथाशक्य शीघ्र ही प्रकाशित हो कर विद्वानोंके सम्मुख उपस्थित हो जायगा।

ग्रन्थ, ग्रन्थकार और ग्रन्थगत वस्तुके विषयमें डॉ० उपाध्येजी अपने संपादकीय निबन्धमें सविस्तर लिखने वाले हैं, अतः उन बातोंके विषयमें मैं यहां कोई विशेष विचार लिखना आवश्यक नहीं समझता।

यह जो मैंने अपना किञ्चिद् वक्तव्य लिखा है वह केवल इसी दृष्टिसे कि इस ग्रन्थको, वर्तमान रूपमें प्रकट करनेके लिये, मेरा मनोरथ किनना पुराना रहा है और किस तरह इसके प्रकाशनमें मैं निमित्तभूत बना हूँ।

*

प्रायः १२०० वर्ष पहले (बराबर ११८० वर्ष पूर्व) उद्योतनसूरि अपर नाम दाक्षिण्यचिह्न सूरिने वर्तमान राजस्थान राज्यके सुप्रसिद्ध प्राचीन ऐतिहासिक स्थान जाबालिपुर (आधुनिक जालोर) में रहते हुए, वीरभद्रसूरिके बनवाए हुए, ऋषभदेवके चैत्य (जैनमन्दिर) में बैठ कर, इस महती कथाकी भव्य रचना की। ग्रन्थकारने ग्रन्थान्तमें अपने गुरुजनों एवं समय, स्थान आदिके बारेमें जानने योग्य थोड़ी-सी महत्त्वकी बातें लिख दी हैं। शायद, उस समय इस ग्रन्थकी १०-२० प्रतियां ही ताडपत्रों पर लिखी गई होंगी। क्यों कि ऐसे बड़े ग्रन्थों का ताडपत्रों पर लिखना—लिखवाना बड़ा श्रमसाध्य और व्ययसाध्य कार्य होता था। इस ग्रन्थकी प्रतियोंकी दुर्लभताके कारण अनुमान होता है कि पीछेसे इस कथाका वाचन-श्रवणके रूपमें विशेष प्रचार नहीं हुआ। कारण, एक तो कथाका विस्तार बहुत बड़ा है। उसमें पत्तेके अन्दर पत्ते वाले कदली वृक्षके पेड़की तरह, कथाके अन्दर कथा, एवं उसके अन्दर और कथा—इस प्रकार कथाजालके कारण यह ग्रन्थ जटिल-सा हो गया है। दूसरा, ग्रन्थमें इतने प्रकारके विविध वर्णनों और विषयोंका आलेखन किया गया है कि सामान्य कोटिके वाचक और श्रोताओंको उनका हृदयंगम होना उतना सरल नहीं लगता। अतः विरल ही रूपमें इस कथाका वाचन-श्रवण होना संभव है। यही कारण है कि इस ग्रन्थकी पीछेसे अधिक प्रतियां लिखी नहीं गईं। हरिभद्रसूरिकी **समराइचकहा** की एवं उससे भी प्राचीन कथाकृति, **वसुदेवहिंडी** आदिकी जब अनेक प्रतियां उपलब्ध होती हैं तब इस कथाकी अभी तक केवल दो ही प्रतियां उपलब्ध हुई हैं। इनमें जेसलमेर वाली ताडपत्रीय प्रति विक्रमकी १२ वीं शताब्दी जितनी पुरानी लिखी हुई है और यद्यपि पूना वाली कागजकी प्रति १६ वीं शताब्दीमें लिखी गई प्रतीति होती है, पर है वह प्रति किसी विशेष प्राचीन ताडपत्रीय पोथीकी प्रतिलिपिमात्र। ये दोनों प्रतियां परस्पर भिन्न मूलपाठ वाली हैं। हमारा अनुमान है कि ये जो भिन्न भिन्न पाठ हैं, वे स्वयं ग्रन्थकार द्वारा ही किये गये संशोधन-परिवर्तनके सूचक हैं। ग्रन्थकारने जब अपनी रचनाके, सर्वप्रथम जो एक-दो आदर्श तैयार करवाये होंगे, उनका संशोधन करते समय, उनको जहां कोई शब्दविशेषमें परिवर्तन करने जैसा लगा वहां, वह वैसा करते गये। एक आदर्शमें जिस प्रकारका संशोधन उनने किया होगा उसकी उत्तरकालीन एक प्रतिलिपिरूप जेसलमेर वाली प्रति है, और दूसरे आदर्शमें उनने जो संशोधन-परिवर्तन आदि किये होंगे, उसकी उत्तरकालीन प्रतिलिपिरूप वह प्राचीन ताडपत्रीय प्रति है जिस परसे पूना वाली कागजकी प्रतिका प्रत्यालेखन किया गया है।

प्राचीन ग्रन्थोंके संशोधनकी दृष्टिसे कुवलयमालाकी ये दोनों पाठभेद वाली प्रतियां बहुत ही महत्त्वकी जानकारी कराने वाली हैं। इन दो प्रतियोंके सिवा और कोई प्रति उपलब्ध नहीं हुई है, अतः यह कहना कठिन है कि कौनसी प्रतिका विशेष प्रचार हुआ और किसका कम। पर इससे इतना तो ज्ञात होता ही है कि इस कृतिका प्रचार विशेष रूपमें नहीं हुआ।

*

ग्रन्थकारको अपनी रचनाके महत्त्वके विषयमें बड़ी आत्मश्रद्धा है। वे ग्रन्थके अन्तिम भागमें कहते हैं कि—“जो सज्जन भावयुक्त इस कथाको पढेगा, अथवा वंचावेगा, अथवा सुनेगा, तो, यदि वह भव्य जीव होगा तो अवश्य ही उसको सम्यक्त्वकी प्राप्ति होगी, और जिसको सम्यक्त्व प्राप्त है, तो उसका वह सम्यक्त्व अधिक स्थिर—दृढ होगा। जो विदग्ध है वह प्राप्तार्थ ऐसा सुकवि बन सकेगा। इस लिये प्रयत्नपूर्वक सब जन इस कुवलयमालाका वाचन करें। जो मनुष्य देशी भाषाएं, उनके लक्षण और धातु आदिके भेद जानना चाहते हैं, तथा वदनक, गाथा आदि छन्दोंके भेद जानना चाहते हैं, वे भी इस कुवलयमालाको अवश्य पढ़ें।

जो इन बातोंको नहीं जानते, वे भी इसकी पुस्तक ले कर उसका वाचन करावें जिससे उनको कविताकी निष्पुणताके गुण ज्ञात होंगे—इत्यादि। जिस भगवती ही देवीने मुझे यह सब आख्यान कहा है उसीने इसकी रचना करवाई है—मैं तो इसमें निमित्तमात्र हूँ। यदि इस ग्रन्थके लिखते समय, ही देवी मेरे हृदयमें निवास नहीं करती, तो दिनके एक प्रहरमात्र जितने समयमें सौ-सौ श्लोकों जितनी ग्रन्थरचना कौन मनुष्य कर सकता है।” इत्यादि—इत्यादि।

*

सचमुच ग्रन्थकार पर वाग्देवी भगवती ही देवीकी पूर्ण कृपा रही और उसके कारण आज तक यह रचना विद्यमान रही। नहीं तो इसके जैसी ऐसी अनेकानेक महत्त्वकी प्राचीन रचनाएं, कालके कुटिल गर्भमें विलीन हो गई हैं, जिनके कुछ नाम मात्र ही आज हमें प्राचीन ग्रन्थोंमें पढने मिलते हैं, पर उनका अस्तित्व कहीं ज्ञात नहीं होता। पादलिप्त सूरिकी **तरंगवती** कथा, गुणाढ्य महाकविकी पैशाची भाषामयी **बृहत्कथा**, हलिक कविकी **विलासवती** कथा आदि ऐसी अनेकानेक महत्त्वकी रचनाएं नामशेष हो गई हैं।

प्राकृत वाङ्मयका यह एक बड़ा सद्भाग्य समझना चाहिये कि ही देवीकी कृपासे इस दुर्लभ्य ग्रन्थकी उक्त प्रकारकी दो प्रतियां, आज तक विद्यमान रह सकीं; और इनके कारण, अब यह मनोहर महाकथा शतशः प्रतियोंके व्यापक रूपमें सुप्रकाशित हो कर, केवल हमारे सांप्रदायिक ज्ञानभंडारोंमें ही छिपी न रह कर, संसारके सारे सभ्य मानव समाजके बड़े बड़े ज्ञानागारोंमें पहुंच सकेगी और सैंकड़ों वर्षों तक हजारों अभ्यासी जन इसका अध्ययन-अध्यापन और वाचन-श्रवण आदि करते रहेंगे।

जिस तरह ग्रन्थकार उद्योतन सूरिका मानना है कि उनकी यह रचना हृदयस्थ ही देवीकी प्रेरणाके आध्यात्मिक निमित्तके कारण निष्पन्न हुई है; इसी तरह मेरा क्षुद्र मन भी मानना चाहता है कि उसी वागपिछात्री भगवती ही देवीकी कोई अन्तःप्रेरणाके कारण, इस रचनाको, इस प्रकार, प्रकट करने-करानेमें मैं भी निमित्तभूत बना होऊंगा। कोई ४४-४५ वर्ष पूर्व, जब कि मेरा साहित्योपासना विषयक केवल मनोरथमय, अकिञ्चित्कार, जीवन प्रारंभ ही हुआ था, उस समय, अज्ञात भावसे उत्पन्न होने वाला एक क्षुद्र मनोरथ, धीरे धीरे साकार रूप धारण कर, आज जीवनके इस सन्ध्या-स्वरूप समयमें, इस प्रकार जो यह फलान्वित हो रहा है, इसे अनुभूत कर, यह लघु मन भी मान रहा है कि उसी माता ही देवीकी ही कोई कृपाका यह परिणाम होना चाहिये।

*

यद्यपि इस कथाको, इस प्रकार प्रकाशित करनेमें, मैं मुख्य रूपसे निमित्तभूत बना हूँ; परन्तु इस कार्यमें मेरे सहृदय विद्वत्सखा डॉ० उपाध्येजीका सहयोग भी इतना ही मुख्य भागभाजी है। यदि ये इस कार्यको अपना कर, संपादनका भार उठानेको तत्पर नहीं होते, तो शायद यह कृति, जिस आदर्श रूपमें परिष्कृत हो कर प्रकाशमें आ रही है, उस रूपमें नहीं भी आती। मैंने ऊपर सूचित किया है कि जेसलमेर वाली ताडपत्रीय प्रतिकी प्रतिलिपि स्वयं करा लेने बाद, सन् १९४३-४४ में ही मेरा मन इसका संपादन कार्य हाथमें लेनेको बहुत उत्सुक हो रहा था; पर शारीरिक शिथिलता आदिके कारण कभी कभी मेरा मन उत्साहहीन भी होता रहता था। पर डॉ० उपाध्येजीने जब इस भारको उठानेका अपना सौत्सुक उत्साह प्रदर्शित किया तब मेरा मन इसके प्रकाशनके लिये द्विगुण उत्साहित हो गया और उसके परिणामस्वरूप यह प्रकाशन मूर्त स्वरूपमें आज उपस्थित हो सका।

डॉ० उपाध्येजीको इसके संपादन कार्यमें कितना कठिन परिश्रम उठाना पडा है वह मैं ही जानता हूँ। जिन लोगोंको ऐसे जटिल और बहुश्रमसाध्य ग्रन्थोंके संपादनका अनुभव या कल्पना नहीं है, वे इसके श्रमका अनुमान तक करनेमें भी असमर्थ हैं। ‘नहि बन्ध्या विजानाति प्रसूतिजननश्रमम्’ वाली विज्ञानोक्ति

इसमें सर्वथा चरितार्थ होती है। पिछले ७-८ वर्षोंसे डॉ० उपाध्येजी इस ग्रन्थके संपादन कार्यमें सतत व्यग्र बने रहे हैं। कई बार इनको इसमें अनुत्साह उत्पन्न करने वाले प्रसंग भी उपस्थित होते रहे। ज्यों ज्यों समय बीतता जा रहा था, उसे देख कर, मैं भी कमी कमी व्याकुल होता रहा हूँ कि क्या यह रचना मेरे जीते-जी प्रसिद्धिमें आ सकेगी या नहीं। पर माता ही देवीकी कृपासे आज मेरा चिर मनोरथ इस प्रकार सफल होता हुआ जान कर अन्तर्मन एक प्रकारकी 'कुछ' सन्तोषानुभूतिसे समुल्लसित हो रहा है।

*

१ इस आशुतिका अन्तिम फार्म जब मेरे पास आया तब मुझे एका-एक इस ग्रन्थका, प्रस्तुत - मूलग्रन्थात्मक प्रथम भाग, तुरन्त प्रकट कर देनेका विचार हो आया और उसको मैंने डॉ० उपाध्येजीको सूचित किया। इनने भी इस विचारको बहुत पसन्द किया और ता. २९, अप्रैल, ५९ को, मुझे नीचे दिया गया भावनात्मक पत्र लिखा। इस पत्र द्वारा विज्ञ पाठकोंको इसका भी कुछ इंगित मिल जायगा कि इस कथाके संपादन कार्यमें डॉ० उपाध्येजीको कितना शारीरिक और मानसिक - दोनों प्रकारके कठोर परिश्रमका सामना करना पड़ा है।

I obey you and accept heartily your suggestion to issue the Part First of the *Kuvalayamālā*. As desired by you, I am sending herewith by return of post, the face page, the Preface and the page of Dedication.

You alone can appreciate my labours on this works:

I have tried to be very brief in the Preface. The Notes for the longer Preface were ready, and I just took those items which could not and should not be omitted. If you think that I have left anything important, please give me your suggestions so that the same can be added in the proofs.

Dr. Alsdorf, Dr. A. Master and others in Europe are very eager to see the work published. From June I can definitely start drafting the Intro.; and you will please do your best to start printing of the Sanskrit Text. I have spent great labour on that too. Unless this text is printed soon, some of my observations in the Notes cannot be sufficiently significant. So let the printing start early. You may approve of the types etc. and send to me the specimen page. I shall immediately send some matter. I send the press copy in instalments, because now and then I require some portion here for reference.

I fully understand your sentiments and thrilling experience on the publication of the *Kuvalayamālā*. You know, I paid my respects to Girnar on my way back from Somanāth. That early morning Dr. Dandekar, Dr. Hiralal and myself started climbing the hill at about 3 o'clock: If I had seen the height before climbing I would not have dared to undertake the trip. Luckily the dark morning did not disclose the height. Well the same thing has happened in my working on the *Kuvalayamālā*. If I had any idea of the tremendous labour the text-constitution demanded, perhaps I would not have undertaken it. It is really good that you also did not tell me that, from your own experience. There is a pleasure in editing a difficult text. I enjoyed it for the last six or seven years. The work was heavy, exacting and irritating; still I could do it using all my leisure for the last six or seven years. I really wonder what sustained my spirits in this strenuous work - at least you know how strenuous it is: it must be something spiritual, perhaps the same Hreedevi behind the scene! I know, the Second Part is still to come; but I find all that within my reach, within a year or so.

यहां पर यह 'कुछ' शब्दका प्रयोग इसलिये हो रहा है कि यदि आज इस महतीप्रतिष्ठाप्राप्त और युग-युगान्तर तक विद्यमान रहने वाली सिंधी जैन ग्रन्थमालाके संस्थापक और प्राणपोषक स्व० बाबू श्री बहादुर सिंहजी सिंधी विद्यमान होते तो उनको इससे भी अधिक आनन्दानुभव होता, जितना कि मुझको हो रहा है। पर दुर्भाग्यसे वे इस प्रकाशनको देखनेके लिये हमारे सम्मुख सदेह रूपमें विद्यमान नहीं हैं। इस लिये मेरी यह सन्तोषानुभूति 'कुछ' आन्तरिक खिन्नतासे संमिश्रित ही है। योगानुयोग, इन शब्दोंके लिखते समय, आज जुलाई मासकी ७ वीं तारीख पड रही है। इसी तारीखको आजसे १५ वर्ष (सन् १९४४ में) पूर्व, बाबू श्री बहादुर सिंहजीका दुःखद स्वर्गवास हुआ था। उनके स्वर्गवाससे मुझे जो आन्तरिक खेद हुआ उसका जिक्र मैंने अपने लिखे उनके संस्मरणात्मक निबन्धमें किया ही है। सिंधी जैन ग्रन्थमालाका जब कोई नया प्रकाशन प्रकट होता है और उसके विषयमें जब कभी मुझे 'यत्किञ्चित् प्रास्ताविक' वक्तव्य लिखनेका अवसर आता है, तब मेरी आंखोंके सामने स्वर्गीय बाबूजीकी उस समय वाली वह तेजोमयी आकृति आ कर उपस्थित हो जाती है, जब कि उनने और मैंने कई कई बार साथमें बैठ बैठ कर, ग्रन्थमालाके बारेमें अनेक मनोरथ किये थे। दुर्दैवके कारण और हमारे दुर्भाग्यसे वे अपने मनोरथोंके अनुसार अधिक समय जीवित नहीं रह सके। इन पिछले १५ वर्षोंमें ग्रन्थमालामें जो अनेक महत्त्वके ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं और जिनके कारण आज यह ग्रन्थमाला आन्तरराष्ट्रीय ख्यातिको प्राप्त कर, विश्वके अनेक विद्वानों एवं प्रतिष्ठानोंका समादर प्राप्त करने वाली हो बनी है, इसके यदि वे प्रत्यक्ष साक्षी रहते, तो मैं अपनेको बहुत ही अधिक सन्तुष्ट मानता।

*

पर, बाबूजीकी अनुपस्थितिमें, उनके सुपुत्र बाबू श्री राजेन्द्र सिंहजी सिंधी और श्री नरेन्द्र सिंहजी सिंधी अपने पूज्य पिताकी पुण्यस्मृतिको चिरस्थायी करनेके लिये, उनकी मृत्युके बाद, आज तक जो इस ग्रन्थमालाके कार्यका यथाशक्य संरक्षण और परिपोषण करते आ रहे हैं, इससे मुझे बाबूजीके अभावके खेदमें अवश्य 'कुछ' सन्तोष भी मिलता ही रहा है। यदि इन सिंधी बन्धुओंकी इस प्रकारकी उदार सहानुभूति और आर्थिक सहायता चाहू न रहती, तो यह कुवलयमाला भी, आज शायद, इस ग्रन्थमालाका एक मूल्यवान् मणि न बन पाती। इसके लिये मैं इन सिंधी बन्धुओंका भी हृदयसे कृतज्ञ हूँ। मैं आशा रखता हूँ कि भविष्यमें भी ये बन्धु अपने पूज्य पिताकी पवित्रतम स्मृति और कल्याणकारी भावनाको परिपुष्ट करते रहेंगे और उसके द्वारा ये अपने दिवंगत पिताके स्वर्गीय आशीर्वाद सदैव प्राप्त करते रहेंगे।

अन्तमें मैं कुवलयमालाकारकी अन्तिम आशीर्वादात्मक गाथा ही को यहां उद्धृत करके अपनी इस कुवलयमालाके प्रकाशनकी कथाको पूर्ण करता हूँ।

इय एस समत्त च्चिय हिरिदेवीए वरप्पसाएण ।

कइणो होउ पसण्णा इच्छियफलया य संघस्स ॥

अनेकान्त विहार, अहमदाबाद
जुलाई ७, सन् १९५९
आषाढ शुक्ल १, सं. २०१५

—मुनि जि न वि ज य

आभार - प्रदर्शन

*

प्राकृत भाषाकी इस अद्भुत महाकथाके प्रकाशनमें जो मुद्रण संबन्धी व्यय हुआ है, उसका अर्ध भाग, भारत सरकारने देनेकी कृपा की है । तदर्थ सरकारके प्रति हम अपना धन्यवाद पूर्वक सादर कृतज्ञ भाव प्रकट करना चाहते हैं ।

— मुनि जिनविजय

उज्जोयणसूरिविरइया कुवलयमाला

५

1

॥ ॐ नमो वीतरागाय ॥

§ १) पढमं णमह जिणिंदं जाणं णञ्चंति जमिम देवीओ । उब्बेहिर-बाहु-लया-रणंत-मणि-वल्लय-तालैहिं ॥

8 पुरिस-कर-धरिय-कोमल-गलिणी-दल-जल-तरंग-रंगंतं । णिव्वत्त-राय-मज्जण-बिंबं जेणप्पणो दिट्ठं ॥ 3

वसिउं चिरं कुलहरे कला-कलाव-सहिया णरिंदेसु । धूय व्व जस्स लच्छी अज्ज वि य सयंवरा भमइ ॥ ४

6 तव-तविय-पाव-कलिणो णाणुप्पत्तीए जस्स सुर-णिवहा । संसार-णीर-णाहं तरिय ति पणञ्चिरे तुट्ठा ॥ 6

जस्स य तित्थारंभे तियस-वहत्तण-विमुक्क-माहप्पा । कर-कमल-मउलि-सोहा चरणेसु णमंति सुर-वहणो ॥

9 उडिभण्ण-चूय-मंजरि-रय-मारुय-विलुलियंबरा भणइ । माहव-सिरी स-हरिसं कोइल-कुल-मंजुलालावा ॥ 9

अहिणव-सिरीस-सामा आयंञ्चिरे-पाडलच्छि-जुयलिल्ला । दीहुण-पवण-णीसास-णीसहा गिम्ह-लच्छी वि ॥

12 उण्णय-मारुय-पओहर-मणोहरा सिहि-फुरंत-धम्मिल्ला । उडिभण्ण-णवंकुर-पुलय-परिगया पाउस-सिरी वि ॥ 12

वियसिय-तामरस-मुही कुवलय-कलिया विलास-दिट्ठिल्ला । कोमल-मुणाल-वेल्लहल-बाहिया सरय-लच्छी वि ॥

15 दे सुहय कुण पसायं पसीय एसेस अंजली तुज्झ । णव-णीलुप्पल-सरिसाए देव दिट्ठीए विणिप्पसु ॥ 15

हय जो संगमयामर-कय-उउ-सिरि-राय-रहस-भणिओ वि । ज्ञाणाहि णेय चलिओ तं वीरं णमह भतीए ॥ अहवा ।

18 बुज्झंति जत्थ जीवा सिज्झंति य के वि कम्म-मल-मुक्का । जं च णमियं जिणेहि वि तं तित्थं णमह भावेण ॥ 18

जाह-जरा-मरणावत्त-सुत्त-सत्ताण जे दुहत्ताणं । भव-जलहि-तारण-सहे सब्बे चिय जिणवरे णमह ॥ सब्बहा,

18 § २) इह कोह-लोह-माण-माया-मय-मोह-महाणुत्थल्ल-मल्ल-णोल्लणावडण-चमडणा-मूढ-हिययस्स जंतुणो तहा-संकिलिट्ठ-

परिणामायास-सेय-सलिल-संसरग-लगा-कम्म-पोगालुग-जाय-वण-कसिण-कलक-पंकाणुलेवणा-मारुय-भावस्स गुरु-खोह-पिंडस्स

The references 1), 2), etc. are to the numbers of the lines of the text, put on both the margins.

1) JP उं नमो after the symbol of bhale which looks like Devanāgarī ६०. 2) P नमह, P नचंति, P जंमि, J उब्बिहिरवाहु, P नालेहिं. 3) J विम्बं. 4) P सहिया, J धूय. 5) J गुरुगहणणियमसमयंमि, P -नियम, P यंमि, J इन्त. 6) J णाणुप्पत्तीए P नाणुप्पत्तीह, JP -निवहा, JP -नीरनाहं. 8) J पवित्तिय, J णेव्वाण P निव्वाण, P इहं or इहुं, J पढमं for पणमह, J om. अहवा. 9) P उब्भिन्न, J चूय, J यम्बरा भमइ । सहरिस वसंतलच्छी कोइल. 10) P आयंवर P न्ह, P नीसास. 11) J धम्मेहा, P उब्भिन्नव. 12) J वाहिया. 13) P लीलालि, J सल्लिआलइआ, J मल्लिभ P निरंतरुडिभण्ण. 14) J महुअरि, J पिअंगु, J रिअ. 15) P नवनीलु, P दिट्ठिए विणिप्पसु. 16) J कयजसिरि, J ज्ञाणाउ P नमह, J om. अहवा. 17) P णावत्तरिय(वित्त)सं, P दुहत्ताण, P सब्बे विय, J चिय, P नमह, P अहवा for सब्बहा, J repeats here दे सुहय कुण पसायं पसीय एसेस अंजली तुज्झ. 18) J बुज्झन्ति, P अ for य, P कंम, J कलि for मल P तं च नमिउं, P नमह भतीए. 19) J रमडणा. 20) P णाम आं, J गरुव, J पिण्डं.

1 व जलरिम इति नरए चेव पडणं । तथ वि अणेय-कस-च्छेय-ताव-ताडणाहोडण-घडण-विहडणाहिं अवगय-बहु-कम्म-किट्टस्स 1
जव-सुवणणस्स व अणट्ट-जीव-भावस्स किंश्चि-मेत्त-कम्म-मलस्स तिरिय-लोए समागमणं । तथ वि कोइल-काय-कोइलया- 2
कमल-केसरी-कोसिएसु वग्ग-वसह-वाणर-विच्छुएसु सुय-गावय-गोइय-गावी-गोण-गोहिया-मयर-मच्छ-कच्छ-भ-गच्छ-चक्-तरच्छ- 3
च्छमल-भल्लंकि-मय-महिस-मूसएसुं सस-सुणउ-सुवर-सिवा-सुय-सारिया-सलभ-सउणेसु, तदा पुइइ-जल-जलणाणिल-गोच्छ- 4
गुम्म-वली-लया-वणस्सइ-तसाणेय-भव-भेय-संकुलं भव-संसार-सागरमाहिंडिउण तहाविह-कम्माणुपुव्वी-समायद्धिओ कह-कह 5
6 वि मणुयत्तणं पावइ जीवो ति । अवि य । 6

§ ३) बहु-जम्म-सहस्स-णीरए बहु-वाहि-सहस्स-मयरए । बहु-दुक्ख-सहस्स-मीणए बहु-सोय-सहस्स-गकए ॥

परिसए संसारए जलहि-समे हिंडिउण पावएहिं । पावइ माणुस-जम्मयै जीवो कह-कह वि पुव्व-पुण्णएहिं ॥

9 तथ वि सुय-जवणे-बडवर-चिलाय-खस-पारस-भिल-सुरंढोइ-ओकस्स-सुवर-पुलिंद-सिंघलाइसु परिभमंतस्स दुलहं चिय 9
सुकुल-जम्मं ति । तथ वि काण-कुंट-मुंट-अंध-बहिर-कल-ल्लायगमो^{११} हाइ । तमो एवं दुलह-संपत्त-पुरिसत्तणेण पुरिसेण 9
पुरिसत्थेसु आयरो कायवो ति । अवि य । 9

12 रुइमि भव-समुदे तुलग-लद्धमि कह वि मणुयत्ते । पुरिसा पुरिसत्थेसुं णिउणं अह आयरं कुणह ॥ 12

§ ४) सो पुण तिविहो । तं जहा । धम्मो अत्थो कामो, केसिं पि मोक्खो वि । एएहिं विरहियस्स उण पुरिसस्स 12
महल्ल-दंसणाभिरामस्स उच्छु-कुसुमस्स व णिप्फलं चेय जम्मं ति । अवि य । 12

15 धम्मत्थ-काम-मोक्खाण जस्स एक्कं पि णत्थि भुयणमि । किं तेण जीविणं कीडेण व दइ-पुरिसेणं ॥ 15

एए चिय जस्स पुणो कह वि पहुप्पंति सुकय-जम्मस्स । सो चिय जीवइ पुरिसो पर-कज-पसाहण-समत्थो ॥

इमाणं पि अहम-उत्तिम-मज्झिमे णियच्छेसु । तथत्थो कस्स वि अणत्थो चेव केवलो, जल-जलण-णरिंद-चोराइणं साहा- 17
रणो । ताण चुक्को वि धरणि-तल-णिहिओ चेव खयं पावइ । खल-किविण-जणस्स दुस्सील-मेच्छ-हिंसयाणं च दिण्णो 18
पावाणुबंधओ होइ । कह वि सुपत्त-परिगहाओ धम्म-कलं पावइ काम-कलं च । तेण अत्थो णाम पुरिसस्स मज्झिओ पुरिसत्थो । 18
कामो पुण अणत्थो चेव केवलं । जं पि पर्यं पक्खवाय-गढभ-णिडभर-मूढ-हियएहिं भणियं कामसत्थयारहिं जहा 'धम्मत्थ- 19
कामे पडिपुण्णे संसारो जायइ' ति, तेसिं तं पि परिकप्पणा-मेत्तं चिय । जेण एयंत-धम्म-विहदो अत्थ-क्खय-कारमो य कामो, 21
तेण दुग्गय-रंढेकल्ल-पुत्तओ विव अट्टट्ट-कंठयाभरण-वल्लय-सिंगार-भाव-रस-रसिओ ण तस्स धम्मो ण अत्थो ण कामो ण जमो 21
ण मोक्खो ति । ता अलं इमिणा सव्वाहमेण पुरिसाणत्थेणं ति । धम्मो उण तुलिय-धणवइ-धण-सार-धण-फलो । तहा 22
24 णरिंद-सुर-सुंदरी-णियं-ब-बिंबुत्तंग-पमोहर-भर-समालिंगण-सुहेलि-णिडभरस्स कामो वि धम्माणुबंधी य । अत्थो धम्माओ चेव, 24
मोक्खो वि । जेण भणियं ।

लहइ सुकुलमि जम्मं जिणधम्मं सब्ब-कम्म-णिजरणं । सासय-सिव-सुह-सोक्खं मोक्खं पि हु धम्म-लाभेण ॥

27 तेण धम्मो चेव एत्थ पुरिसत्थो पवरो, तहिं चेव जुजइ आयरो धीर-पुरिसेण काउं जे । अवि य । 27

अत्थउ होइ अणत्थउ कामो वि गलंत-पेम्म-विरसओं य । सब्बत्थ-दिण्ण-सोक्खउ धम्मो उण कुणह तं पयत्तेण ॥

§ ५) सो उण गोविंद-खंड-रंदारविंदणाइ-गइंद-णाइंद-चंद-कविल-कणाद-वयण-विसेस-वित्थर-विरयणो बहुविहो लोय-

1) P जलमि ज्हाति, P चिय णेयकयच्छेय, J 'वोडणाधुण. 2) P सुवन्नस्स वाणट्ट, J तथ कोइया, J कोल्लु भा. 3) J गण्ड, P गाय for गावी, J गोहिआ P गोहिय, P तरछाछ. 4) J मअ, P मूसएय, J सुणउ संवर P ससउणसंवर, J सुय, P सउणेसु J सउणसिपईयु, P णानिल J 'गोच्छ P गुच्छ. 5) J 'रसई, J भवमयमेय, P संकुदम्, P om. सागर, J 'दिण्डि', J वि तहाविह, J समाअट्टिओ. 6) J मणुयत्तणं, J अवि अ. 7) J नरए, P नीरए, J बहुसोयमज्जममुइइ बहुमाणतरंगए संसारए जलहिं सम हिण्डि. 8) P हिंडिउण य पावइ, J माणुस्स, J वि पुण्णएहिं P वि पुव्वपुण्णएहिं. 9) J मुरुडोण्डवोक्त, J दुलहं चेव अरियवेंतं ति । 10) J काणकोट्टमण्टअन्ध, P कल्लल्ला, J संपत्तभारियत्तणे पुरिसेण. 12) P कंदमि, P लद्धमि, J मणुयत्ते, P निउणं, J तह for अह. 13) J सो उण, J एएहिं रहियस्स पुव. 14) J 'णाहिरा', P जंम. 15) P एकं, J भुअणमि P भुयणमि, J डडुपुरिसेण. 16) J कहउ पहुप्पंति सुकय, P जंमस्स. 17) J मज्झिमे वियारेसु । P om. चेव केवलो, P नरिंद, P 'राइंग. 18) J 'यलणिहितं P तल्लनिहिओ, P वधइ for पावइ, J किमिण, J दिण्णं. 19) J धम्मकालं. 20) J कामा उण, P केवलम्, J एअं, P एणंतपक्खवायगंतनिभर, J हियएहिं. 21) J पडिपुण्ण, P संपावइ for संसारो जायइ, P om. तेसिं, J 'कम्मणा, J चिय, J जेण एअंतधम्म P जेण अत्थो धम्म. 22) J रण्डेकल्ल पुत्त विअं, J has a marginal note thus: विचिस्तकप्पयामं पाठांतरं with a reference to अट्टट्ट, J कंठया P कंठिया, P न तस्स 23) P न मोक्खो, J अलमिमिणा, J 'ण ति ॥ छ ॥, P धणप्फलो, J सव्वहा for तहा. 24) P नरिंद, P णियं, P मुहेलि, P om. य, J मोक्खो वि for अत्थो, J चेय. 25) J om. मोक्खो वि. 26) J कुसलमि P सुकुलमि, P 'धम्मे, P निज्जं. 27) P om. एत्थ, J धीरण काउं. 28) Here in J उ looks like ओ. P अत्थो, P अणत्थओ, J विअलंत, P पेम्मं, P दित्र, J मोक्खउ for सोक्खउ. 29) J रंदारविंदणागिंदगइंदवंदकविलकणाय, J लोअ.

- 1 पसिद्धो । तापं च मञ्जु मणीण व कोत्थुहो, गयाण व सुर-गभो, समुदाण व खीरोवही, पुरिसाण व चक्कहरो, हुमाण व कप्प- 1
पायवो, निरीण व सुरगिरी, सुराण व पुरंदरो, तथा सच्च-धम्मण उवरीं रेहइ जिणयंद-भासिओ धम्मो ति । सो उण चउ-
2 ष्विहो । तं जहा । दाणमइओ, सीलमइओ, तवोमइओ, भावणामइओ ति । तत्थ पढमं चिय पढम-तित्थयर-गुरुणा इमिणा 3
चेव चउत्थिवह-धम्म-कमेण सयल-विमल-केवलं वर-णाणं पि पावियं । जेण अविभाविय-णिण्णुणय-जल-यल-विवराइ-भरिय-
भुवणेणावाल-काल-जलहरेण विय वरिसमाणेण णीसेस-पणइयण-मणेरहवमहिय-दिण्ण-विहव-सारेण पवत्तिओ पढमं तेलोक्क-
4 बंधुणा 'भो भो पुरिसा दाणमइओ धम्मो' ति । पुणे 'सुर-सिद्ध-गंधव-किण्णरोरय-णर-दइ-पच्चकखं सव्वं मे पावं अकर- 6
णिज्जं' ति पइण्णा-मंदरमारुहतेण पयासिओ तेलोक्क-गुरुणा सीलमइओ धम्मो ति । पुणे छट्टम-दसम-दुवाळस-मासद-
मास-संवच्छरोववास-परिसंठिएण पयासिओ लोए 'तवोमइओ धम्मो' ति । तहिं चिय एगत्तासरणत्त-संसार-भाव-कम्म-
9 वगणायाण-बंध-मोक्ख-सुह-दुक्ख-णारय-णारामर-तिरिय-गह-गमणागमण-धम्म-सुक्क-ज्जाणाइ-भावणाओ भावयंतेण भासिओ 9
भगवया 'भूवणामइओ धम्मो' ति । तओ ताव अमहारिसा तारिसेहिं दाण-सील-तवेहिं दूरओ चेव परिहरिया, जेण धण-
सत्त-संधयण-वजिया संपयं । एसो पुण जिणवर-वयणवबोहओ जाय-संवेग-कारणो भावणामइओ सुह-करणिज्जो धम्मो ति ।
12 कइ । जाव महा-पुरिसालिय-दोस-सय-वयण-वित्थरावद्ध-हलबोल-वडिय-पहरिसस्स दुज्जण-सत्थस्स मज्झ-गया पर-मम्म- 12
मगण-मणा चिट्ठमह, ताव वरं जिणयंद-समण-सुपुरिस-गुण-कित्तणेण सहलीकयं जम्मं ति । अवि य ।

जा सुपुरिस-गुण-वित्थार-मइलणा-मेत्त-चावडा होमो । ता ताव वरं जिणयंद-समण-वरियं कयं हिषए ॥

- 15 इमं च विचिंतिऊण तुभे वि णिसामेह साहिज्जमाणं किंचि कहावत्थुं ति । अवि य । 15

मा दोसे चिय गेणहइ विरले वि गुणे पयासह जणस्स । अक्ख-पउरो वि उयही भण्णइ रयणायरो लोए ॥

- 16 § ६) तओ कहा-बंधं विचिंतेमि ति । तत्थ वि 16

- 18 पालित्तय-सालाहण-छप्पणय-सीह-गाय-सदेहिं । संखुद्ध-सुद्ध-सारंगओ व्व कह ता पयं देमि ॥ 18

णिम्मल-मणेण गुण-भरुयण परमत्थ-रयण-सारेण । पालित्तएण हालो हारेण व सहइ गोटीसु ॥

चक्काव-सुवल-सुहया रम्मत्तण-राय-हंस-कय-हरिसा । जस्स कुल-पव्वयस्स व त्रियरइ गंगा तरंगवई ॥

- 21 भणिइ-विलासवइत्तण-चोल्लिके जो करेइ हलिए वि । कव्वेण किं पउत्थे हाले हालो-वियारे व्व ॥ 21

पणइहि कइयणेण य भमरेहि व जस्स जाय-पणइहिं । कमलायरो व्व कोसो विलुप्पमाणो वि हु ण मीणो ॥

सयल-कलागम-णिलया सिक्खाविय-कइयणस्स मुहयंदा । कमलासणो गुणइो सरस्सई जस्स वइकहा ॥

- 24 जे आरह-रामायण-दलिय-महागिरि-सुगम्म-कय-मग्गे । लंघेइ दिसा-करिणो कइणो को वास-धम्मीए ॥ 24

छप्पणयाण किं वा भण्णउ कइ-कुंजराण भुवणम्मि । अण्णो वि छेय-भणिओ अज्ज वि उवमिज्जए जेहिं ॥

लायण-वयण-सुहया सुवण-रयणुजला य बाणस्स । चंदावीडस्स वणे जाया कायंबरी जस्स ॥

- 27 जारिसयं विमलंको विमलं को तारिसं लहइ अत्थं । अमय-मइयं व सरसं सरसं चिय पाइयं जस्स ॥ 27

नि-पुरिस-वरिय-पसिद्धो सुपुरिस-वरिएण पायडो लोए । सो जयइ देवगुत्तो वंसे गुत्ताण राय-रिसी ॥

बुहयण-सहस्स-दइयं हरिवंसुप्पत्ति-कारयं पढमं । वंदामि वंदियं पि हु हरिवरिसं चेय विमल-पयं ॥

- 30 संणिहिय-जिणवरिंदा धम्मकहा-बंध-विक्खिय-णरिंदा । कहिया जेण सुकहिया सुलोयणा समवसरणं व ॥ 30

सत्तूण जो जस-हरो जसहर-वरिएण जणवए पयडो । कलि-मल-पभंजणो चिय पभंजणो आसि राय-रिसी ॥

1) P °गयो. 2) J °म्माण, P om. भासिओ, J om. धम्मो. 3) J तओम°, P°मईओ (last three) J °ढमं ति°. 4) P कम्मेण, P om. वरणाण. 5) P भुयणे काउ, J विअ, J °माणेण सेस P °समाणे णीसेस, J विविह for विहव, J पढमं तेलोक्क P पढमतेल्ल. 6) J मोहो पु°, P पुरिस, P किन्नरोरयणायर. 7) P मंदिर, P °मईओ, J पुणो च्छ°. 8) J तओ, for तवो, P °मईओ, J चिअ P तिय, P °सरणत्ता, P सहाव for भाव. 9) P नरामर, P धंम, J ज्ञाणाईभावणाउ, J °यन्तेण, P भाविओ. 10) J ति। छ।, J चेय for चेव. 11) P संपयं, J उण, J बोइ for वोहओ, P जाइ, P °मईओ, J सुर for सुह, J ति। छ।. 12) P °रावड, P वडिय य हरिसदुज्जण. 13) J चिट्ठमहं, P ता वरं. 14) J गुण, P वित्थर, J om. ता. 15) J च विचिंति P च विंतिऊणं, P निसा°, J वत्थु ति. 16) P पंससइ जिणस्स, J उअही. 17) J कहावद्धं, J om. ति. 18) P साहलाहण, J च्छप्प°, P सदेण 1, J P °गउ. 19) P निम्मलगुणेण, J गरुअ ण, P गुरुयएयण. 20) J जुअल, P रंमं, P कुलपव्वं, P तरंगमई. 21) J भणिई P भणिय, J वो (वो) लिक्के P चोक्किले, J has a marginal gloss मदिरा on the word हाल. 22) P °इहिं, J कइअणेण, P °रेहिं, P न for ण. 23) P -निलया, P कइयणो सुसुह°, P °सणा गुणइा. 24) P om. कय, J °धम्मीए P वंमीए. 25) P छप्पन्न°, P भइह, P कय for कइ, J भुअणंमि P भुवणंमि, P अओ. 26) P लायण, P सुयण, P °बीणस्स. 27) J को अण्णो (=हुअणो on the margin) for the 2nd विमलं को, J मइअं व P °मइयं च, J चिय पाययं P विय पाइयं. 28) P तिउरिस. 29) J दइअं, P हु हरिवंसं चेव. 30) J सणिहिय P सन्निहिय, P नरिंदा, J सुकहियाउ सु°, P वा for व। 31) P जसहरि वरिएहिं, P मलयभंजणो, P पभंजणो.

- 1 जेहि कए रमणिजे वरंग-पउमाण चरिय-वित्यारे । कह व ण सलाहणिजे ते कइणो जहिय-रविसेणे ॥ 1
जो इच्छइ भव-विरहं भवविरहं को ण वंदए सुयणो । समय-सय-सत्य-गुरुणो समरमियंका कहा जस्स ॥
- 3 अण्णे वि महा-कइणो गरुय-कहा-बंध-चितिय-मईओ । अभिमाण-परकम-साहसंक-विणए विहंतेमि ॥ 3
प्याण कहा-बंधे तं णत्थि जयमि जं कह वि चुक्कं । तह वि अणतो अत्थो कीरइ एसो कहा-बंधो ॥
- § ७) ताओ पुण पंच कहाओ । तं जहा । सयलकहा, खंडकहा, उल्लावकहा, परिहासकहा, तहा घरा कहिय सि ।
6 प्याओ सव्वाओ वि एत्थ पसिद्धाओ सुंदर-कहाओ । प्याण लक्खण-धरा संकिण-कह ति णायव्वा ॥ 6
कथइ रुवय-रइया कथइ वयणेहि ललिय-दीहेहिं । कथइ उल्लावेहिं कथइ कुलएहिं णिम्मविया ॥
कथइ गाहा-रइया कथइ दुवईहिं गीइया-सहिया । दुवल-चकलएहिं निलय तह भिणएहिं च ॥
- 9 कथइ दंडय-रइया कथइ णाराय-तोडय-णिबद्धा । कथइ वित्तेहि पुणो कथइ रइया तरंगेहिं ॥ 9
कथइ उल्लावेहिं अवरोप्पर-हासिरेहिं वयणेहिं । माला-वयणेहिं पुणो रइया विविहेहिं अणेहिं ॥
पाइय-भासा-रइया भरहट्टय-देसि-वणय-णिबद्धा । सुद्धा सयल-कह खिय-तावस-जिण-सत्य-वाहिला ॥
- 12 कोऊहलेण कथइ पर-वयण-वसेण सकय-णिबद्धा । किंचि अवबंस-कया दाविय-पेसाय-भासिला ॥ 12
सव्व-कहा-गुण-जुत्ता सिंगार-मणोहरा सुरइयंगी । सव्व-कलागम-सुहया संकिण-कह ति णायव्वा ॥
प्याण पुण मज्जे एस खिय होइ एत्थ रमणिजा । सव्व-भणिइण सारो जेण इमा तेण तं भणिमो ॥
- 15 § ८) पुणो सा वि तिबिहा । तं जहा । धम्म-कहा, अत्थ-कहा, काम-कहा । पुणो सव्व-लक्खणा संपाइय-तिवग्गा 15
संकिण ति । ता एसा धम्म-कहा वि होऊण कामत्थ-संभवे संकिणत्तणं पत्ता ।
ता पसियह मह सुयणा खण-मेसे देह ताव कणं तु । अब्भयिया य सुयणा अवि जीयं देति सुयणाण ॥ अणं च ।
- 18 सालंकारा सुहया ललिय-पया मउय-मंजु-संलावा । सहियाण देइ हरिसं उव्वूढा णव-वहु चेव ॥ 18
सुकइ-कहा-हय-हिययाण तुम्ह जइ वि हु ण लगए एसा । पोढा-रयाओ तह वि हु कुणइ बिसेसं णव-वहु व्व ॥ अणं च ।
णजइ धम्माधम्म कज्जाकजं हियं अणहियं च । सुव्वइ सुपुरिस-चरियं तेण इमा जुजए सोउं ॥
- 21 § ९) सा उण धम्मकहा णाणा-विह-जीव-परिणाम-भाव-विभावणत्थं सव्वोवाय-णित्तं गेहिं जिणवरिं देहिं चउत्थिहा 21
भणिया । तं जहा । अक्खेवणी, विक्खेवणी, संवेग-जणणी, णिव्वेय-जणणि ति । तत्थ अक्खेवणी मणोणुकूला, विक्खेवणी
मणो-पडिक्कूला, संवेग-जणणी णाणुप्पत्ति-कारणं, णिव्वेय-जणणी उण वेरगुप्पत्ती । भणियं च गुरुणा सुहम्म-सामिणा ।
- 24 अक्खेवणि अक्खित्ता पुरिसा विक्खेवणीए विक्खित्ता । संवेयणि संविग्गा णिव्विण्णा तह चउत्थीए ॥ 24
जहा तेण केवलणा अरणं पविसिउण पंच-चोर-सयाइं रास-णखण-च्छलेण महा-मोह-गह-गहियाइं अक्खिविउण इमाए
चच्छरीए संबोहियाइं । अवि य ।
- 27 संबुज्झह किं ण बुज्झह एत्तिए वि मा किंचि मुज्झह । कीरउ जं करियव्वयं पुण तुक्कइ तं मरियव्वयं ॥ इति धुवयं । 27
कसिण-कमल-दल-लोयण-चल-रेहंतओ । पीण-पिहुल-थण-कडियल-भार-किलंतओ ।
ताल-चलिर-वलयावलि-कलयल-सहओ । रासयमि जइ लवभइ जुवई-सत्थओ ॥
- 30 संबुज्झह किं ण बुज्झह । पुणो धुवयं ति । तओ अक्खित्ता । 30
असुइ-मुत्त-मल-रुहिर-पवाह-विरुवयं । वंत-पित्त-दुग्गंवि-सहाव-विलीणयं ।

1 > P जेहि, P न, J जडिअ, P सेणो. 2 > P को न वंधए, J सुअणो, J सवर°. 3 > P अत्रे, J गरुअ, J चित्तिअमईआ, P अहिमाण, P संकवियणे. 4 > J बंधे, P नत्थि जयमि कहवि, J कविचि चुक्कं, J कहावडो. 5 > P puts numbers after each kabā, J खण्ठ°, P व/कहिय, J कहिअ ति. 6 > P प्याउ सव्वाउ एत्थ, J प्याण P प्याण, P संकिण, P ति व णायव्वा ॥छा॥. 7 > P कथय (in both the places), P वयणेहि, P दियएहिं ।, J adds कथइ उल्लावेहिं on the margin in a later hand [उल्लावेहिं], P कुलएहिं निम्मविया. 8 > P रइया, J दुवतीहि, P तियलिय, P भिन्न°. 9 > J दण्डय (?), P नाराय, J चित्तेहि P वित्तेहि. 10 > P हासिरेहिं, J अणेहिं P अत्रेहिं. 11 > J पायय, P वणयणिबद्धा, J बाहिला. 12 > P निबद्धा, J कया, P दो विय. 13 > P कलागुण, J इयंगी, P संकिण, P णायव्वा, J भणिमो ॥ छ ॥. 15 > J संपाडिअ P संपाडिय. 16 > J कामअत्थ, P संकिण°. 17 > J पसिय महइ सुअणा P पसियह महासुयणा, P देसु, J कण ति P कणं तु, J सुअणा, J जीवं देति सुअणाण, P अत्रं. 18 > J मउय, P मंजुललावा, P नव, J येव for चेव. 19 > J सुकय, P जय वि हु न लगए, P पोढ. P नव, P अत्रं. 20 > P नजइ, J धम्माधम्मं, J हिअं, J इअं. 21 > P सो उण, P णाणा, P विभावणसव्वो°, P जेण°. 22 > J भणिआ, J संवेयणी, J णिव्वेयणी ।, P निव्वेय, P णाणुकूला. 23 > J संवेय, P जण जण, J भणिअं, P सुहंम. 24 > J विक्खेवणीय P विक्खेवणीए, P निव्विअ, J संजमइ ति ॥ for तह etc. 25 > J अरणं पइसिं, P अरत्रं, P रक्खणल्लेण, J हिआइं, P मोहगहमाहिं. 26 > P हियाणि. 27 > JP किण, J एत्तिए, P तुक्कइ, J मरिअ°. 28 > P लोयण वलारहंतओ, P पिहुलवणकडियल, J कडिअल, P किरंतओ. 29 > J चलिअ, P वयलावलि, P रासयमि, J जुअतीसत्थओ. 30 > JP किण, J om. ति, P ततो for तओ. 31 > J मंस for वंत, P पित्तं, P विरुवयं ।

- 1 मेय-भज-वस-फोफस-हुङ्ग-करकयं । चम्म-मेस-पच्छायण-जुवई-सत्थयं ॥ 1
संजुज्झह किं ण बुज्झह । तभो विक्खित्ता ।
- 3 कमल-चंद-णीलुप्पल-कंति-समाणयं । मूढएहि उवमिज्झह जुवई-अंगयं । 3
थोवयं पि भण कत्थह जह रमणिज्जयं । असुइयं तु सव्वं चिय इय पच्चकखयं ॥
संजुज्झह किं ण बुज्झह । तभो संविग्गा ।
- 6 जाणिज्जण एयं चिय एत्थ असारए । असुइ-मेत्त-रमणूसव-कय-वावारए । 6
कामयमि मा लग्गह भव-सय-कारए । विरम विरम मा हिंइह भव-संसारए ॥
संजुज्झह किं ण बुज्झह ।
- 9 एवं च जहा काम-णिब्बेओ तहा कोह-लोह-माण-मायादीणं कुत्तित्थाणं च । समकालं चिय सव्व-भाव-वियाणएण गुरुणा 9
सव्वण्णुणा तहा तहा गायंतेण ताई चोराणं पंच वि सयाई संमरिय-पुव्व-जम्म-वुत्तताई पडिवण्ण-समण-लिंगाइं, तहा कयं
जहा संजमं पडिवण्णाइं ति । ता एत्तियं एत्थ सारं । अम्हेहि वि एरिसा चउठिवहा धम्म-कहा सुमाठत्ता । तेण किंचि
12 काम-सत्थ-संबद्धे पि भण्णिहिइ । तं च मा गिरत्थयं ति गणेज्जा । किंतु धम्म-पडिवत्ति-कारणं अक्खेवणि ति काऊण 12
बहु-मयं ति । तभो कहा-सरीरं भण्णह । तं च केरिसुं ।

§ १०) सम्मत्त-लभ-गरुयं अवरोप्पर-णिब्बइत्त-सुहि-कज्जं । णिव्वाण-गमण-सारं रइयं दक्खिण्णइंधेण ॥

- 15 जह सो जाओ जत्थ व जह हरिओ संगएण देवेण । जह सीह-देव-साहू विट्ठा रण्णमि सुण्णमि ॥ 15
जह तेण पुव्व-जम्मं पंचणह जणाण साहियं सोउं । पडिवण्णा सम्मत्तं सगं च गया तवं काउं ॥
भोत्तूण तत्थ भोए पुणो वि जह पाविया भरहवासे । अण्णोणमयाणंता केवलिणा बोहिया सव्वे ॥
- 18 सामणं चरिज्जणं संविग्गा ते तवं च काऊणं । कम्म-कलंक-विमुक्का जह मोक्खं पाविया सव्वे ॥ 18
एयं सव्वं भणिमो एएण कमेण इह कहा-बंधे । सव्वं सुणेह सुयणा साहिजंतं मए एण्हं ॥
एयं तु कहा-करणज्जयस्स जह देवयाणं मह कहियं । तह चित्थरेण भणिमो तीणं पसाएण णिसुणेह ॥
- 21 तत्थ वि ण-याणिमो चिय केरिस-रूवं रएमि ता एयं । किं ता वंके रइमो किं ता ललियक्खरं काइं ॥ जेण, 21
सुद्धो ण सुणइ वंके छेओ पुण हसइ उज्जुयं भणियं । उज्जुय-छेयाण हियं तम्हा छेउज्जुयं भणिमो ॥
अलं च इमिणा विहव-कुल-बालियालोल-लोयण-कडक्ख-विकखेव-विलास-वित्थरेण विय गिरत्थएणं वाया-पवित्थरेणं । एयं
24 चियं कहावत्थुं ता णिसामेह । अत्थि चउसागरुज्जल-मेहला । 24

§ ११) अहह, पम्हुट्टं पम्हुट्टं किंचि, पत्तियह, तं ता णिसामेह । किं च तं । इं,

समुहमइसुंदरो चिय पच्छा-भायमि मंगुलो होइ । विज्ज-गिरि-वारणस्स व खलस्स बीहेइ कह-लोओ ॥

- 27 तेण बीहमाणेहिं तस्स थुइ-चाओ किंचि कीरइ ति । सो व बुज्जणु कहसउ । इं, सुणउं जहसउ, पढम-दंसणे चिय 27
भसणसीलो पट्टि-मासासउ व्व । तहेव मंडलो हि अपच्चमिण्णायं भसइ, मयहिं च मासाइं असइ । खलो घई
मायाहि वि भसइ । चउप्फंडंतइं च पट्टि-मासाइं असइ ति । होउ काएणं सरिसु, णिच्च-करयरण-सीलो छिड्ड-पहारि व्व ।
- 30 तहेव वायसो हि करयरेतो पउत्थ-वइया-यणहो हियय-हरो, छिड्डेहिं च आहार-मेत्तं विलुपइ । खलो घई पउत्थ-वइया 30
कुल-बालियाण विज्ज-संपयाणेहिं दुक्ख-जणउ, अच्छिड्डे वि जीवियं विलुप्पइ । जाणिउ खरो जहसउ, सुयण-रिद्धि-दंसणे

- 1) J मय, J वसफो, J पच्छाअणजुअती. 2) J किण्ण, P किं न बुज्झहा. 3) P नीलु, P एहिं, J जुवरी-
4) P भणहइ तत्थ जह, P नु for तु, J इअ. 5) J किण्ण P किं न बुज्झहा, J संविग्गाउ P संकिग्गा. 6) J चिय एत्थ
P चियत्थ, P रमणसववावारए. 7) JP 'यंमि, J हिण्डह. 8) J om. किं न बुज्झह of P. 9) P निव्वेओ, P
मायाईणं तु ति, J चिअ, J विभाण. 10) P 'व्वच्छुणा, P गाइएण, J ताण चोराण, J om. च, P सयाणि, J 'रिअ, P 'वन्न,
P लिगाणि. 11) P संयमं, J पवण्णाइ ति, P पवन्नयं ति, J एत्तिअं, J वि एआ. 12) P 'सत्थपडिबद्धं, P भण्णिहिइं, P मा
निरं, P भाणजा. 14) J गरुअं, P -निव्वं, J गेव्वाण P णि, J रइअं, J दक्खिण्णइंधेणं P दक्खिण्णं ॥ छ ॥. 15) P च
for व, J जह परिओसं, P जह हिओ व सं, J रण्णमि सुण्णमि P रण्णमि सुण्णमि. 16) P पंचणह, J 'हिअं, P 'वन्ना,
P संमत्तं. 17) P अन्नोन्नययाणंतो, J बोहिआ. 18) P सामन्नं, J च काऊणं P व काऊणं, P पाविआ. 19) J 'बंदे, J सुअणा
साहिपंतं. 20) P कहं, P तत्थ for तह, P निसुणेसु. 21) P वि न, J ललियक्खरं. 22) P न याणइ, J तसइ, J हुं ।
उज्जुअ, J हिअं, J 'उज्जुअं. 23) J वि for विइव, J बालिआं, J लोअण, J विअ P चिअ, P वायाए वि. 24) J एयं
चिअं P पत्थुरयं, P ति निसा ॥ छ ॥, for ता etc., P सागरजल. 25) J om. one पम्हुट्टं, J पसिअह, P निसामेह, P व
for च, P हुं. 26) J चिअ, J भावमि P भायंमि, P विज्जं, P कयलोओ । 27) P सो व्व, उ in J at times looks
like ओ, P 'णो कहसओ, P हुं, P जइसुओ. 28) P 'सालो, J तहे मण्डं, J om. हि, J 'अभिण्णाअं P 'व्वभिन्नाहयइं, P
'मयाहिं स मा, P घयं मायहे. 29) J 'फंडं P 'प्फंडंतहं, J चंमट्टिमासं, P सरिसओ निच्चं. 30) J तहे, P 'यरंतो, P
बइयाण होइ हिययरो, P घयं, J 'वइया...बालिआण P बालियाण. 31) P संपयाणेहिं, P जणओ (even in J sometimes
उ looks like ओ), J जीविअं P जीविय विलुपओ, P जाणिओ, P जइसइओ, J सुअण.

- 1 शिञ्जइ, णिल्लजो महल्लेण च सहे उल्लवइ । तहेव रासहो हि इमं तण-रिद्धि-महल्ले असिउं ण तीरइ ति चित्तए शिञ्जइ, 1
अविभाविजंत-अक्खरं च उल्लवइ । खलो घइ आयहो किर एमहल्ल-रिद्धि जायल्लिअ ति मच्छरेण शिञ्जइ, पयइ-दोसक्ख-
- 3 रालावं च उल्लवइ । अवि कालसप्पु जइसउ, छिड्डु-मग्गण-वावडो कुडिल-गइ-मग्गो व्व । तहेव भुयंगमो हि पर-कयाई 3
छिड्डाई मग्गइ, सव्वहा पोहेणं च कसइ । खलो घइ सइ जे कुणइ छिड्डाई, थड्डो व्व भंमइ । खित्तेमि, हूं, विसु जइसउ,
पमुहरसिउ जीयंतकरो वि । तहेव महुइरउ मुहे, महुइरं मंतेहिं च कीरइ रसायणं । खलो घइ मुहे जे कडुपउ मंतइ,
6 षडियइ वि विसंघडइ । हूं, बुज्जइ, वट्टइ खलु खलो जि जइसउ, उज्जिअय-सिणेहु पसु-भत्तो य । तहेव खलो वि वराभो 6
पीलिजंतो विमुक्क-गेहु अयाणंतो य पसुहिं खजइ । इयरु घइ एक्कए जे मुक्क-गेहु, जाणंतो जे पसु तह वि खजइ । किं च
भण्णउ । सव्वहा खलु असुइ जइसउ, विसिट्ठ-जण-परिहरणिज्जो अपरिप्फुड-सहावड-खुड्डु-मंडली-गिणिगिणाविउ व्व ।
- 9 तहे सो वि वरउ किं कुणउ अण्णहो जि कस्सइ वियारु । खलो घइ सइ जे बहु-वियार-भंगि-भरियल्लउ ति ॥ सव्वहा 9
मह पत्तियासु एयं फुडं भणंतस्स संसयं मोतुं । मा मा काहिंसि मेसिं उग्ग-भुयंगेण व खलेण ॥ जेण,
जारजायहो दुज्जणहो दुट्ट-तुरंगमहो जि । जेण ण पुरओ ण मग्गओ हूं तीरइ गंतुं जि ॥ अवि य ।
- 12 अकए वि कुणइ दोसे कए वि णासेइ जे गुणे पयडे । विहि-परिणामस्स व दुज्जणस्स को वा ण बीहेइ ॥ अहवा । 12
कीरउ कहा-णिबंधो भसमाणे दुज्जणे अगणिउण । किं सुणएहिं धरिज्जइ विसंखलो मत्त-करिणहो ॥

§ १२) होति सुयण चिय परं गुण-गण-गरुयाण भायणं लोए । मोत्तूण णई-णाइं कथं व णिवसंतु रयणाइं ॥

- 15 तेण सज्जण-सत्थो च्चेय एत्थं कहा-बंधे सोउमभिउत्तो ति । सो व सज्जणो कहसउ । रायहंसो जइसउ, विसुद्धो-भय- 15
पक्खो पय-विसेसण्णुओ व । तहेव रायहंसो वि
- उब्भट्ट-जलयांबवर-सहेहिं पावइ माणसं दुक्खं । सज्जणु पुण जाणइ जि खल-जलयहं सभावाइं ॥
- 18 तेण हसिउं अच्छइ । होइ पुण्णिमाइंदु जइसउ, सयल-कला-भरियउ जण-मणाणंदो व्व । तहे पुण्णिमायंदो वि कलंक- 18
सुसिओ अहिसारियाण मण-वुम्मिओ व । सज्जणो पुण अकलंको सव्व-जण-दिहि-करो व्व । अवि मुणालु जइसउ, खंदिजंतो वि
अक्खुडिय-गेह-तंतु सुसीयलो व, तहेव मुणालु वि ईसि-कंडूल-सहाउ जल-संसग्गि वड्डिओ व्व । सज्जणु पुण महुइरसहाउ
21 वियड्डु-वड्डिय-रसो व्व । हूं, विसागओ जइसउ, सहाउण्णउ अणवरय-पयइ-दाण-पसरो व्व । तहे विसागओ वि मय- 21
वियारेण च्चेप्पइ, दाण-समए व्व सामायंत-वयणो होइ । सज्जणु पुण अजाय-मय-पसरु देंतहो व्व वियसइ वयण-कमलु ।
होउ मुत्ताहारु जइसउ, सहाव-विमलो बहु-गुण-सरो व्व । तहेव मुत्ताहारो वि छिड्डु-सय-णिरंतरो वण-वड्डिउ व्व । सज्जणो
24 पुण अच्छिड्डु-गुण-पसरो णायरउ व्व । किं बहुणा, समुहो जइसओ, गंसीर-सहाओ महत्थो व्व । तहेव समुहो वि 24
उक्कलिया-सय-पडरो णिक्क-कलयलाराकुवेविय-पास-जणो व्व तुग्गय-कुडुंबहो जि अणुहरइ । सज्जणु पुण मंथर-सहाओ महु-
महुइर-वयण-परितोसिय-जणवउ व्व ति । अवि य ।

1) J दिज्जइ P जिज्जइ नि°, P सहेण, J तहे, J दिहमुत्तगरिद्धिमहल्ल असिउं ण, P वा इमं नृगरिद्धिमहलं पासिउं न, P वित्तए.

- 2) J तक्खरं, J मल्ल एइं, P om. आयहो, J किं एमहल्ल P किर महल्ल, J जायल्लिअ P जाएल्लण, P दोसाखर-यादुं च. 3) P जइसओ, P om. गइ, J व for व्व, J तहे भुयंगमो डि P भुयंगो वि. 4) P छिदाइ मग्गणं, J सव्वरं, P पोहेणं व कमइं, P घइ सय जे छिदाइ कुणइ, P थड्डो, J व for व्व, P खित्तेमि, P जइसओ (in J उ looks like ओ). 5) P रसिओ, J जीयंतकरो वि P जीयंतहरो व्व, P मुहुर for महुइर, P व for च, P रसायण, P घयं मुहे जे कडुपउ, J कडुअउ मंतउं व. 6) P षडियइं वि विसंघडति, P हो for हूं, P om. बुज्जइ, P खलो for खलु, P om. जि, P जइसओ, P सिणेहो, J व for य, J तह खलो, P om. वि, J वरउ. 7) P पीडिजंतो, J णेहो, J व for य, P पसुहिं for पसुहिं, J इयरु P इयो, J घइं P धयं, P एक्कपयमुक्कणेहो, J जाणइ जे, P ज्जे एसु. 8) J om. सव्वहा, P खलो, P जइसओ, P परिहरणिज्जो, P फुड, J गड for खुड्डु, J मण्डली, J व for व्व. 9) P अण्णहेव कस्सइ, J विभार, J विभार, P भंगभरियउ, J भरियल्लउ. 10) J पत्तियासु, P गुयणा for एयं, J भणन्तस्स, J भुयंगेण, P वि (for व) खलेण 11) J ज्जाअहो, P जेण नरायहो, P जि for जि, P 2nd line thus: ह ण अंगेणएण पच्छिए गंतुं हूं तीरइ. 12) P न for ण. 13) P कीरइ, J णिवड्डो P निबंधो, P माणो, J णाहो ॥ छ ॥ 14) J होन्ति सुयण च्चिय, J गरुआण भाअण, P निव°, P रयणाइं. 15) J च्चेअ P च्चेय, J बडे, P मभिमउत्तो, P सोव्व, P कइसओ (in J उ and ओ look alike), P तइसओ. 16) P ण्णउ व्व, J तहे. 17) P माणस, P सज्जणो, J पुणु, P जे for जि, J सहावइं P सभावाहिं. 18) JP होउ, J मायंदु P माइंदो जइसयल, P हरिओ for भरियउ, J adds जग्गण जणं, J om. व्व, P तहेय पुं, P माइंदो. 19) P अहिसारियाणदूसिउं व्व, P जइसओ. 20) J डियनरंतु सुसीयलो, P व्व for व, J तहे, P ईसकंडूलसहावो, J वड्डिओ व P वड्डिउ व्व, P सज्जणो पुण, P सहावो. 21) J वियड, J रसो व, P हु, J सहाउण्णओ P सहाउण्णउ, J व for व्व. 22) J विभारेण, J व for व्व, P सज्जणो पुण, J व for व्व, J विभसइ. 23) P होइ, P हारो, P सओ, P गुणसीरो, J व for व्व, J तहे, J om. सय, JP निरंतरो, J व for व्व. 24) P अच्छिड्डुगुणपसरो णोयं, J व हि for व्व किं, J समुइ, P सहावो, J व for व्व, J तहे. 25) J लिआ, J णिच्चु P निच्च, P बुवेवियपासजाणो, J व for व्व, P कुटुंबहो, P om. जि, P सज्जणो, J पुण्णिमथिर. 26) J om. व्व.

- 1 सरलो पियंमो दक्षिणमो चाई गुण्णुमो सुहवो । मह जीमिण वि चिरं सुयणो चिय जियठ लोयमि ॥ अहवा । 1
गुण-साथरमि सुयणे गुणाण अंतं न चैव पेच्छामि । रयणाई रयण-दीवे उच्चैः को जणो तरइ ॥ 3
3 एत्थं च उण ण कोइ दुज्जणो, उपेक्खइ सज्जणं च केवल्यं । तद्दे णिसुणंतु भवरय त्ति । 3

§ १३) अत्थि दव-मेरु-णाहिं कुल-सेलारं समुह-णमिलं । जंबुदीवं दीवं लोए चकं व णिक्खित्तं ॥ अवि य ।
तस्सेव दाहिणदे बहुए कुल-पण्यए विल्लंघेऽं । वेयद्वेण विरिक्कं सासय-वासं भरदवासं ॥

- 6 वेयद्व-दाहिणेणं गंगा-सिंधूय मज्जयारमि । अत्थि बहु-मज्ज-देसे मज्जिम-देसो त्ति सुपसिद्धो ॥ 6
सो य देसो बहु-धण-धण-समिद्धि-नाडिवय-पामर-जणे, पामर-जण-अद्वावाणय-गीय-मणहरो, मणहर-गीय-रव-रसुकंठिय-
सिद्धिउलो, सिद्धिउल-केया-रवावद्ध-हलबोलुडिभजमाण-कंदल-णिहाओ, कंदल-णिहाय-गुंजंत-भमिर-भमरठलो, भमरठल-
9 भमिर-शंकार-राव-वित्तथ-हरिणउलो, हरिणउल-पलायंत-पिक्क-कलम-कणिस-कय-तार-रवो, तार-रव-संकिउट्टीण-कीर-पंखा- 9
भिवाय-दलमाण-तामरसो तामरस-केसरुच्छलिय-बहुल-तिगिच्छि-पिंजरिजंत-कलम-गोवियणो, गोवियण-महुर-गीय-रव-रसा-
खिप्पमाण-पहिययणो, पहिययण-लडह-परिहास-हारि-हसिजमाण-तरुणियणो, तरुणियणाबद्ध-रास-मंडली-ताल-वस-खलिर-
12 वलय-कलयलारावुदीबिजंत-मयण-मणोहरो त्ति । अवि य । 12

बहु-जाइ-समाइणो महुरो अत्यावगाढ-जइ-जुतो । देसाण मज्जदेसो कहाणुबंधो व्व सुकइ-कओ ॥

- § १४) तस्स देसस्स मज्ज-भाए वूसइ-खय-काल-भय-पुंजियं पुण्णुपत्ति-सूसमेक-वीयं पिव, बहु-जण-संवाह-मिलिय- 14
15 हला-हलारावुप्पाय-सुहिय-समुह-सह-गंभीर-सुवमाण-पडिरव, तुंगा-भवण-मणि-तोरणाबद्ध-धवल-धययडु-सुवमाण-संसुह- 15 2
मुह-रवि-सुरय-परिहरिजंत-भुवण-भाणं, गाणा-मणि-विणिम्मविय-भवण-भित्ति-करंविजंत-किरणाबद्ध-सुर-चाव-रम्म-णहयलं,
महा-कसिण-मणि-घडिय-भवण-सिहर-पपा-पडिबद्ध-जलहर-वंदं, णिहय-करयल-ताडिय-मुरव-रविजंत-गीय-गजिय-णिणायं,
18 तविय-तवणिज-पुंजुजल-ललिय-विलासियण-संचरंत-विज्जु-लयं तार-मुत्ताहलुद्ध-पसरंत-किरण-वारि-धारा-णित्थरं णव-पाठस- 18
समयं पिव सव्व-जण-मणहरं सुववणं णयरं । जं च महापुरिस-रायाभिसेय-समय-समागम-वासवाभिसेय-समणंतर-संपत्त-
णल्लिणि-पत्त-णिक्खित्त-वारि-वावड-कर-पुरिस-मिहुण-पल्लहत्थिय-खलण-जुयलाभिसेय-दंसण-सहरिस-हरि-भणिय-साहु-विणीय-
21 पुरिस-विणयंक्रिया विणीया णाम णयरि त्ति । 21

- § १५) सा पुण कहसिय । समुहं पिव गंभीरा महा-रयण-भरिया य, सुर-गिरी विय थिरा कंचणमया य, भुवणं
पिव सासया बहु-वुत्ता य, सगं पिव रम्मा सुर-भवण-णिरतरा य, पुहइ विय वित्थिण्णा बहु-जण-सय-संकुला य, पायालं
24 पिव सुगुत्ता रयण-पदीवुजोइया य त्ति । अवि य । 24

चंद-मणि-भवण-किरणुच्छलंत-विमल-जल-हीरण-भएण । घडिमो जीए विहिणा पायारो सेउ-बंधो व्व ॥

- अत्थ य विवाणि-ममोसु वीहीओ वियडु-कामुय-लीलाओ डिय कुकुम-कप्परागरु-मयणा-भिवास-पडवाल-विच्छडाओ ।
27 काओ वि पुण वेला-वण-राईओ इव पला-लवंग-ककोलय-रसि-गडिभणाओ । अण्णा पुण इडम-कुमारिया इव मुत्ताहल- 27
सुवण्ण-रयणुजलाओ । अण्णा छंछइओ इव पर-पुरिस-दंसणं वित्थारियायं च कसण-धवल-दीहर-गेत्त-जुयलाओ । अण्णा
खलयण-गोट्टि-मंडली इव बहु-विह-पर-वसण-भरियाओ । तद्दा अण्णामो उण खोर-मंडलिओ इव संणिहिय-विडाओ

1) P वड, J दक्षिणयाचाई, J सुहओ, J चिय जिअउ, J लोअमि P लोयमि, J अवि य for अहवा. 2) JP रंमि, J सुअणो, JP न, J जेय, P पेक्खामि, P उच्चैयं. 3) P एत्थं पुण, J उपेक्खइ, J केवला, P तह, P निमुणंतु, JP त्ति ॥ छ ॥ 4) P णाही, P नेमिल, P चकं, P om. अवि य. 5) P बहुविदकुल, P अ for विं P वेयद्वनगवि. 6) J वारंमि, J मज्जदेसो, P य for सु. 7) J पभूत for बहु, J गडिवअ P गहिय. 8) P उलासमयकेया, P -निहाओ, P -निहाय, P उर for उल. 9) P उहरि. 10) P पक्खाभिवायइल्लण, J गोवियणो गोविअण, P रसखिप्प. 11) J पहिययणो पहिययण, P हासिज्ज, J गिअणो, J गिअणा, J मण्ड. 12) J हरो व त्ति, P माणहरो. 13) P क्वाबंधो, J कउ ॥ छ ॥ 14) P काले, J वंचियं P पुंजिवा, P पुण्णुपत्ति, J वीअं, J पवा. 15) P हलहला, J पुणयं, P पडिरवा, P संसुह. 16) P आया, P नाणामणिनिम्मविय, J विअ, P कराविजंत, P णावबद्ध, P नहयला. 17) P om. महा, J घडिअ, J has a danda after पपा, P बद्धा for वंदं J करअल, P ताडियसुरवरगिजंत, P निनाया. 18) P सिणीयण, P लया, J ताल, P हउट्टप, P णवरवारि, P णिवरा, P महा for णव. 19) J om. सव्व, P मणोहरा, P मुववइ, P नयरी, P जा य महारिस, P सेयमणंतर. 20) J om. नल्लिणि of P, P निक्खि, J om. कर, J पल्लहत्थिय. 21) P विणीयंक्रिया, P नाम, P नयरि. 22) P सिया, P समुहो विय, J गिरि विअ, P च for य. 23) P वुत्ता च, P निरं, J व for विय, P विच्छन्ना, J om. सय. 24) J सुगुत्ता, P पईवु, J ज्जोइय त्ति ॥ छ ॥ 25) P लंघण for हीरण, P घडिय व्व जीय, J व ॥ छ ॥ 26) J om. य, J विमणि, J वीहीओ विअडुकामुअ P वीही-विहय त्ति कामुअ, J विय, P चयणाहिवास, P पडिवासविच्छडाओ. 27) P चिय for इव, P कंकोलय, P गतणाउ, P कुमारियाउ चिय. 28) P विव for इव, P दंसणथ for दंसणे, J वित्थारियायं च कसिण, P नेत्त, J जुअं P अन्ना. 29) J मण्ड, P मंडलीओ इय, J विविद्ववुयर for बहु etc., J याओ ॥ छ ॥, P अन्ना उण, J मण्ड, J सण्णि, P सन्निहिय.

- 1 कच्छउड-गिक्खित्त-सरस-गहवयाओ य । अण्णा गाम-जुवईओ इव रीरिय-संख-वल्लय-काय-मणिय-सोहाओ कच्छूर-वयण- 1
गिम्महंत-परिमलाओ य । अण्णा रण-भूमीओ इव सर-सरासणभभसं-चक्क-संकुलाओ मंडल्लग-गिचियाओ य । अण्णा मत्स-
3 मायंग-वडाड इव पलंबंत-संख-खामर-वंटा-सोहाओ ससेवूराओ य । अण्णा मलय-वण-राईओ इव संगिहिय-विबिह-ओसहीओ 3
बहु-चंदणाओ य । अण्णा सज्जण-पीईओ इव सिणेह-गिरंतराओ बहु-खज्ज-पेज्ज-मणोहराओ य । अण्णा मरहट्टिया इव उडाम-
हल्लिही-रय-पिंजराओ पयड-समुग्गय-पओहर-मणोहराओ य । अण्णा णत्तण-भूमिओ इव ससुराओ संगिहिय-महुमासाओ त्ति ।
6 § १६) अवि य । 6
जं पुवईएँ सुणिज्जइ दीसइ जं चित्तियं च हियएण । तं सव्वं चिय लब्भइ मग्गिजंतं विवणि-मग्गे ॥ जत्थ य ।
जुवईयण-गिम्मल-मुह-मियंक-जोण्हा-पवाह-पसरेण । घर-वावी-कुमुयाई मउलेंउं णेय चाएँति ॥
9 गिम्मल-माणिक्क-सिहा-फुरंत-संकंत-सूर-कंतेहिं । दिव-राई-गिक्खिसेसाई णवरि वियसंति कमलाई ॥ 9
जल-जंत-जलहुरोथय-गहंगणाहोय-वेखविजंता । परमथ-पाउसे वि हु ण माणसं जंति घर-हंसा ॥ ॥ मेग्ग-कउसा ॥
कर-ताच्चिय-मुरव-रवुक्क-लंत-पडिसइ-गज्जिउकंटा । गिम्हम्मि वि हल्लबोलेंति जत्थ मत्ता घर-मऊरा ॥
12 णेउर-रव-रस-चलिया मग्गाल्लगंत-रेहिरा हंसा । जुवईहिं सिक्खविजंति जत्थ बाल व्व गइ-मग्गे ॥ 12
अणिए विलासिणीहिं विलास-अणियम्मि मंजुले वयणे । पडिअणिएहिं गुणेइ व घर-पंजर-सारिया-सत्थो ॥
जत्थ य पुरिसो एकेकमो वि मयरवओ महिलियाण । महिला वि रई रइ-वम्महेहिं ठाणं चिय ण लउं ॥
15 इय जं तत्थ ण दीसइ तं णत्थि जयम्मि किंचि अच्छरियं । जं च कहासु वि सुव्वइ तं संगिहियं तहिं सव्वं ॥ 15
अह एक्के चिय दोसो आउच्छ-गियंत-बाह-मइलाइ । दइया-मुहाई पहिया दीणाई ण संभरंति जहिं ॥
§ १७) जत्थ य जणवए ण दीसइ खलो विहलो व । दीसइ सज्जणे समिद्धो व, वसणं णाणा-विण्णाणे व, उच्छाहो
18 धगे रणे व, पीई दाणे माणे व, अडभासो धम्मे धम्मे व त्ति । जत्थ य दो-मुहउ णवर मुइंगो वि । खलो तिल-वियारो वि । 18
सूयओ कयइ-कुसुमुग्गामो वि । फरुसो पत्थरो वि । तिक्खओ मंडल्लगो वि । अंतो-मलिणे चंदो वि । अमणसीलो
महुयरो वि । पवसइ हंसो वि । चित्तलओ बरहिणओ वि । जल्लु कीलालो वि । अयाणओ बालओ वि । चंचलो वाणरो वि ।
21 परोवयावी जल्लणो वि त्ति । जत्थ य 21
पर-लोय-तत्ती-रय णवर दीसंति साहु-मडरय । कर-भगइ णवर दीसंति वर-करिहिं महहुमइं ॥
दंडवायाई णवरि दीसंति छत्ताण य णक्खणइं । माया-वंचणाई णवरि दीसंति इंदियालिय-जणइं ॥
24 विसंवयंति णवर सुविणय-जंपियइं । खंडियइं णवरि दीसंति कामिणियणहो अहरइं । दड-बइइं णवरि दीसंति कणय- 24
संगहेहिं महारयणइं । क्लामोडिय घेप्पंति णवर पणय-कलह-कय-कारिम-कोव-कुविय-कंत-कामिणियणहो अहरइं वियङ्ग-
कामुएँहिं त्ति । अहवा ।
27 कह वणिज्जइ जा किर तियसेहिं सक्क-वयणेण पठम-जिण-णिवासत्थं गिम्मविया सा अउज्ज त्ति ॥ 27
§ १८) तम्मि य राया
दरियारि-वारण-वडा-कुंभ-थल-पहर-दलिय-मुत्ताहलो । मुत्ताहल-गिवह-दलंत-कंत-रय-धूलि-घवल-करवालो ॥

1) P निक्खित्त, P अन्ना, P रीरीया, J वया for वयण. 2) P निम्मं, P अन्ना, J सरासणभभस P सराणभभसं, J मण्हं, J गिचिआउ P निच्चिआओ, P अन्ना. 3) P निय for इव, J अ for य, P अन्ना, J मलय, J राइउ, J सण्णिं P सन्निं, P विबिहोसं. 4) P अन्ना, J पीतीओ इव P पाईतो यव, P निरं, J पेम्म for पेज्ज, P अन्ना, J मरहट्टिया P मरहट्टियाओ. 5) J adds य before पयड, P समुग्ग for समुग्गय, J सण्णिं P सन्निं. 7) J हिररण JP ॥ छ ॥, P जीए च for जत्थ य. 8) J जुवईअण P जुईयण, P निम्मल, J कुमुआई P नेय चार्थति. 9) P गिम्मल, P संकंतरविकरग्गेहिं, J क्रन्तेहिं, J दिअ, P निव्विं, J णवरं P नवरि, J विअसंति. 10) P णसंगणानोय, P न. 11) JP गिम्हंमि, P जत्त. 12) P नेउर, P सं for रस, P जुयईहिं. 13) J विलाण, J अणियं पि P वइयंमि, J सारिआ. 14) J चिअ, P न. 15) P न, P नत्थि, JP जयंमि, J ण for वि, JP सण्णिं. 16) P च्चियं, P नियत्तवाह, P न. 17) P व्व for व, P व्व for व, J वसणु णाणा, P वसणन्नाणे विण्णाणे च, J उच्छाहु. 18) J पीती, JP माणे च, J धम्मे । धम्मे च त्ति ॥ छ ॥, P धम्मे धम्मे च, P नवर, P तिलवयारो. 19) J सूअउ P सूअओ, J केअइ P केइ, P कुसुमं, J फरस, J तिक्खउ P तक्खओ, J मण्हं P मंडलो वि, J सीलु. 20) J बरहिणउ P विरहिणो, J बालउ वालउ वि, P विव for वि, J चवलु वी (य)णवो वि for चंचलो etc., P वानरो. 21) P व for वि, J त्ति ॥ छ ॥, J om. य. 22) J लोअ, P मरय, P भगई नवर, P करहिं, P महाहुमइं. 23) P दंडवायइं नवरि, J adds on the margin छत्ताण...नवर दीसंति, P नक्खणइं, P वंचणयं, J नवर P नवरि. 24) J जंपिअइं, J खण्डिअइं, P नवरि, J णिअणहो, P णीणहहो, J णवर P नवरि. 25) P रयाणइं, J वलयामोडिय घेप्पति, P क्लामोडिय, P नवर, P म कारियकोव, J कुविअ, J कामिणिअणहो P कामिणीअणहो. 26) J ति ॥ छ ॥, P एहिं त्ति. 27) P निवां, P निम्मं, P सा विउं, J त्ति ॥ छ ॥ P त्ति ॥ छ ॥. 28) P तंमि, J om. य. 29) P वारणावड, P निवह, P धूलिचवल.

- 1 करवाल-सिहा-णिजिय-महुत-सामंत-णिवह-णय-चलणो । चलण-जुयल-मणि-विणिविय-कंत-महा-मउड-घडिय-सुपीडो ॥ 1
ति । णवरं पुण ससि-वंस-संभवो वि होऊण सयं चेष सो चोरो मुद्ध-ळडह-विलासिणि-हियय-हरणेहिं, सयं चेष पर-कलत्तरओ
3 दरिय-रिबु-सिरी-बलामोडिय-समाकडुणेहिं, सयं चेष सो वाडो पडिवक्ख-णरिंद-वंड-वाडणेहिं ति । जो य दोगच्च-सीय- 3
संतावियाण दहणो, ण उण दहणो । गियय-पणइणि-वयण-कुमुयायराणं मयलंछणो, ण उण मय-लंछणो । विणिजयासेस-
पुरिस-रूवेणं अणंगो, ण उण अणंगो । दरियारि-महिहर-महावाहिणीणं जलही, ण उण जलही । सुयण-वयण-कमलायराणं
6 तवणो, ण उण तवणो ति । जो य घण समओ बंधुयण-कयंबयाणं, सरयागमो पणइयण-कुमुय-गहणाणं, हेमंतो पडि- 6
वक्ख-कामिणी-कमलिणीणं, सिसिर-समओ गिय-कामिणी-कुंद-रुइयाणं, सुरहि-मासो मित्तयण-काणणाणं, गिम्हायवो
रिबु-जलासयाणं, कय-जुओ गियय-पुहइ-मंडले, कलि-कालो वहरि-णरिंद-रजेसुं ति । अणणं च ।
9 सरलो महुरो पियंबवो चाई दक्खो दक्खिणो दयाल्ल । सरणागव-वच्छलो संविभागी पुव्वाभिमासि ति ॥ 9
संतुट्ठो सक्कल्लेसु, ण उण किंतीसु । लुद्धो गुणेषु, ण उण अत्थेषु । गिद्धो सुहासिएसु, ण उण अकजेसु । सुसिक्खिओ
कलासु, ण उण अलिय-चाडु-कवड-वयणेषु । असिक्खिओ कडुय-वयणेषु, ण उण पणइयण-संमाणेषु ति । अहवा ।
12 गहिय-सगाह-दलम्मि तम्मि अचुण्णए वियड-वच्छे । णंदण-वणे व्व कत्तो अंतो कुसुमाण व गुणाणं ॥ 12
अह सो गिय-साहस-खग्ग-मेत्त-परिवार-पणय-सामंतो । वच्छथल-दद-वम्मो ददधम्मो णाम णरणाहो ॥
- § १९) तस्स य महुमहस्स वे लच्छी, हरस्स व गोरी, चंदस्स व चंदिमा, एरावणस्स व मय-लेहा, कोल्लुहस्स व
15 पभा, सुरगिरिस्स व चूला, कप्पतरुणो इव कुसुम-फल-समिद्ध-तरुण-साहिया, पसंसिया जणेणं अवहसिय-सुर-सुंदरी-वंड- 15
लायण-सोहस्स अंतैरिया-जणस्स मज्जे एक्क चिय पिययमा पियंगुसामा णाम सयंवर-परिणीया भारिय ति । अह तीए
तस्स पुरंदरस्स व सईए भुंजमाणस्स विसय-सुहे गच्छइ कालो, वचंति दियहा च ।
- 18 § २०) अह अण्णम्मि दिवसे अब्भंतरोवत्थाण-मंडवमुवगयस्स राइणो कइचय-मेत्त-मंति-पुरिस-परिवारियस्स पिय- 18
पणइणी-सणाह-वाम-पासस्स संकरस्स व सव्व-जण-संकरस्स, एक्क-पए चेष समागया पिहुल-णियंब-तड-पिडण-विसमंदोल-
माण-मंडलग्ग-सणाह-वामंस-देसा वेल्लुहल-णियय-बाहु-रुइया-कोमलावलंबिय-वेत्तलया पडिहारी । तीय य पविसिऊण कोमल-
21 करयलंगुली-दल-कमल-मउलि-ललियंजलिं उत्तिमंगे काऊण गुरु-णियंब-विंब-मंथरं उंसुंग-गरुय-पओहर-भरोवणामियाए 21
ईसि णमिऊण राइणो विमल-कमल-चलण-जुवलयं विण्णत्तं देवस्स । 'देव, एसो सबर-सेणावइ-पुत्तो सुसेणो णाम । देवस्स
चेय आणाए तहया मालव-णरिंद-विजयत्थं गओ । सो संपयं एस दारे देवस्स चलण-दंसण-सुहं पत्थेइ ति सोडं देवो 27
24 पमाणं' ति । तओ मंतियण-वयण-णयणावलोयण-पुव्वयं भणियं राइणा 'पविसउ' ति । तओ 'जहाणवेसि' ति ससंभम- 24
मुट्टिऊण तुरिय-पय-णिकखेवं पहाइया दुवार-पाली उयसपिऊण य भणिओ 'अज पविससु' ति ।

- § २१) तओ पविट्ठो सुसेणो । दिट्ठो य णरवइणा वच्छथलाभोय-मंडलग्गाहिघाय-गरुय-वणाबद्ध-दीहर-धवल-खोम-
27 वण-पट्टओ ति, तियस-णाहो इव पोंडरीय-वयणोवलोहिओ, पहरिस-वस-वियंभमाण-वयण-सयवत्तेणं साहेतो इव सामिणो 27
जय-लच्छि सेणावइ-सुओ ति । उवसपिऊण य पणमिओ णेण राया । राइणा वि 'आसणं आसणं' ति आइसमाणेण
पसारिय-दीहर-दाहिण-भुया-दंड-कोमल-करयलेणं उत्तिमंगे छिक्खिऊण संमाणो । तओ कय-देवी-पणामो असेस-मंतियण-
30 कय-जहारुह-विणओ य उवविट्ठो आसणे । सुहासणत्थो य ^{रमुदया} हिययवभंतर-वर-भरिय-उव्वरंत-पहरिसामय-णीसंद-विंदु-संदोहं 30

1) J corrects मणि into मण and adds हर on the margin in a later hand, P विणिम्मविय, P सुवीडो.

- 2) P संभमो, P होउ, P सिणी, P नेहिम्, P चेव. 3) J दरियारिंसं, J यमाकडुं, J वीडो for वाडो P सयमेव वाडो,
J वडुणेहि ति, P दोगच्च. 4) P पणइणी. 5) P भाएण for रूवेण. 6) J om. ति, J बंधुअण P बंधूयण, P कयंबाणं,
J सरयगमो, P गहयाणं. 7) J कामिणि, J कामिणीणं, P लयाणं. 8) P किय, J सु ति. 9) P दक्खिओ, P
पुव्वाभिमासी वे ति. 10) P 'ट्ठो कलं, P लुद्धा, J सुहासिए, P सुसुक्खिओ. 11) P अलिया, J कवड for कडुय, J
पणइणसम्मा, P संमायणं. 12) P संग्राह, P फलंमि, P तंमि । अबुण्णए, P नंदणवणं व. 13) P ददधम्मो ददधम्मो.
14) P 'महुस्स. 15) P पहा, P समिद्धा, J पव for अव. 16) P सोहग्गअं, J 'रियाण, P एक्के चिय, P पिया
for पिययमा, J परिणिया, J तीय. 17) J सुहेहि य, P दिहहा, P om. य. 18) P अंत्ति दियहे, P मंडलमु, P
पुरिपरि, J वारयस्स, J वियपिय for पिय. 19) P जणपए, J चेष, J पिडुण, J णियंबयट्ठिक्क, P विसअंदोलण.
20) J देसे, P निययनिअय, P om. य, P सित्तण. 21) P करयंगुली, P मउलललियमंगे, P गरुयनियंब, J -गुरुय, P
मारावणा. 22) P अव for ईसि, P om. कमल, P जुयलं विन्नत्तं, P om. देवस्स, J om. देव, P वइणो उतो, P
सुसेणे नामा ।, P देवपासे चेव. 24) J पमाणो, J om. ति ।, P वयणलीलावणोवणा, P om. भणियं, P जं आणं. 25)
J 'भमुट्ठि', J पयणुक्खेवं P निकखे, J दुआरं, J उअसं, P अज्जउत्त. 26) J 'थलोभयसमण्ड', P -गुरुय. 27) P
दियस, P विससमाण, P वज्जेणं, P विय for इव. 28) P वइओ तो ति, P om. य, P रायणो वि, J आसणट्ठि आइ.
29) J 'रिया दीहं दा', J मुअदण्ड, J करेणं, J सम्मा P समा, P देवि. 30) J om. कय, P व for य, P उपविट्ठो,
P या for य, P om. वर, P भरिउव्वं, J णिसंद.

1 पिव मुंचमाणेणं निद्ध-धवल-विलोल-पम्हल-चलंत-गयण-जुवलेणं पलोहजण राइणा 'कुमार, कुसलं' ति पुच्छिओ । सविणयं 1
पणमिजण उत्तिमंगेण 'देवस्स चलण-जुयल-दंसणेणं संपयं खेमं' ति संखत्तं कुमारेण ।

3 § २२) पुच्छिओ राइणा 'मालव-गरिदेण सह तुम्हाणं को बुत्ततो' ति । भणियं सुसेणेण । 'जयउ देवो । इओ 3
देव-समाएसेणं तहिं चैय दिवसे दरिय-महा-करि-तुरय-रह-णार-सय-सहस्सुच्छलंत-कलयलाराव-संचह-पुट्टमाण-णहयलं गुरु-
भर-दलंत-महियलं जण-सय-संबाह-संभमाण-दिसावहं उइ-पोइरीय-संकुलं संपत्तं देवस्स संतियं बलं । जुज्झं च समावत्तं ।

6 तओ देव, सर-सय-णिरंतरं खगगा-खणखणा-सह-बहिरिय-दिसिवहं दलमाण-संगाह-च्छणच्छणा-संचहुट्टेत-जलण-जाला- 6
कराल-भीसणं संपलगं महाजुद्धं । ताव य देव, अम्ह-बलेणं विवडंत-छत्तयं णिवडंत-विधयं पडंत-कुंजरं रडंत-जोहयं खलंत-
आसयं फुरंत-कोतयं सरंत-सर-वरं दलंत-रह-वरं भगं रिउ-बलं ति । तओ घेप्पंति सार-भंडारयाइं सेणिएहिं । ताणं च मज्जे
9 एक्को बालो अबाल-चरिओ पंच-वरिस-भेतो तस्स राइणो पुत्तो ससत्तीए जुज्झमाणो गहिओ अम्हेहिं । तओ देव, एस सो 9
दुवारं पाविओ अम्हेहिं' ति । राइणा भणियं 'कथ सो, पवेसेसु तं' । 'जहाणयेसु' ति भणमाणो णिगओ, पविट्टो य तं घेसुं
भणियं च 'देव, एस सो' ति ।
उत्तीआरा

12 § २३) कुमारो वि भविस्स-महा-गंधगओ विय अदीण-विमणेहिं दिट्ठि-वाएहिं पलोएंतो सयलमत्थाण-मंडलं उवगओ 12
राइणो सयासं । तओ राइणा पसरंततर-सिणेह-णिडभर-हियणुण पसारिओभय-दीहर-भुया-दंडेहिं गेण्हिजण अत्तणो उच्छंओ
भिवेसिओ, अवगुहो य एसो । भणियं च णरवइणा 'अहो वज्ज-कटिण-हियओ से जणओ जो इमस्स वि विरहे जियइ' ति ।

15 देवीए वि पुत्त-णेहेणमवल्लोइजण भणियं 'घण्णा सा जुयई जीए एस पुत्तओ, दारुणा य सा जायस्स विरहम्मि संधीरए 15
अत्ताणयं' ति । मंतीहिं भणियं 'देव, किं कुणउ, एरिसो एस विहि-परिणामो, तुह पुण्ण-विलसियं च एयं । अवि य ।
कस्स वि होंति ण होंति व अहोंति होंति व कस्स वि पुणो वि । एयाओं संपयाओ पुण्ण-वसेणं जणवयम्मि ॥

18 § २४) एत्यंतरम्मि हिययदभंतर-गुरु-दुक्ख-जलण-जालावलि-तत्तेहिं बाह-जल-लवेहिं रोविउं पयत्तो कुमारो । तओ 18
राइणा ससंभमेण गलिय-बाह-विंदु-प्पवाहाणुसारेणावल्लोइयं से वयणयं जाव पेच्छइ जल-तरंग-पव्वालियं पिव सयवत्तयं ।
तओ 'अहो, बालस्स किं पि गरुयं दुक्खं' ति भणमाणस्स राइणो वि बाह-जलोलियं णयण-जुवलयं । पयइ-करुण-हिययाए
21 देवीओ वि पलोट्टो बोह-पसरो । मंतियणस्स वि णिवडिओ असु-वाओ । तओ राइणा भणियं । 'पुत्त कुमार, मा अडिइ 21
कुणसु' ति भणमाणेण णियय-पटंसु-अंतेण पमज्जियं से वयण-कमलयं । तओ परिणोवणीय-जलेण य पक्खालियाइं
णयणाइं कुमारस्स अत्तणो देवीय मंतियणेणं ति ।
संस्मरित

24 § २५) भणियं च राइणा 'भो भो सुर-गुरु-प्पमुहा मंतिणो, भणइ, किं कुमारेण मह उच्छंण-गाएण रुणं' ति । 24
तओ एक्केण भणियं 'देव, किमेत्थ जाणियव्वं । बालो खु एसो माया-पिह-विउत्तो विसण्णो । ता इमिणा दुक्खेण रुणं' ति ।
अणणेण भणियं 'देव, तुमं पेच्छिज्ज गियए जणणि-जणए संभरियं' ति इमिणा दुक्खेण रुणं' ति । अणणेण भणियं 'देव,
27 तहा जं आणियं ति, कथ राया देवी य कं वा अवयंतरमणुभवन्ति, इमिणा दुक्खेण रुणं' ति । राइणा भणियं 'किमेत्थ 27
वियारेण, इमं चैव पुच्छामो' । भणिओ य राइणा 'पुत्त महिंदकुमार, साहह महं कीस एयं तए रुणयं' ति । तओ ईसि-
ललिय-महुर-गंभीरक्खरं भणियं कुमारेण । 'पेच्छइ, विहि-परिणामस्स जं तारिसस्स वि तायस्स हरि-पुरंदर-विक्कमस्स एयस्स
30 एरिसे समए अहं सत्तुयणस्स उच्छंण-नाओ सोयणिज्जो जाओ ति । ता इमिणा मह मण्णुणा ण मे तीरइ बाह-पसरो रुंभि- 30
मन्थर

1) P °णेण निद्धं, P पम्हलं, P नयणजुवलेणं, P सविणय पणउत्तिं. 2) P has जुयल twice. 4) P °एसेण, P
चैव दिवहे, P सहसुं, P फुट्टमाण. 5) J संवाह, P कड्डमाणदिसीं, P देवसत्तियं, P जुद्धं. 6) P दरलं, P सत्राह, P च्छणसं.
7) J देवम्हबलेण, J om. विवडंतछत्तयं, P बलितविधयं. 8) P रिपु, P भंडारयाइं, J ताणिएहिं for सेणिएहिं. 9) P
चरिउ, P ससुत्ती. 10) P पवियो, J °हिं ति, P पवेससु, P °वेस ति, J अ for य which P om. 11) J णियं व
for भणियं च. 12) P गंधराओ, J विअ P विव, P om. दिट्ठिवाएहिं, P पलोयंतो, P उवागओ. 13) J om. तओ, J
राइणा वि, P °रंतसिणेह, P गिन्दि. 14) P च राइणा, J कटिणो से. 15) P देवीय, J जीय, P सा जा इमस्स, P तं धीरेइ
for संधीरए. 16) P मंतीहिं, P विहसियं. 17) P इ for वि, J वि for व, P अह होंति व कस्स वी पुणो हुंति ।, P पुज्ज-
18) P °वली, J तत्तेहि. 19) J बाहा, P 'पवाहा', P °नोवियं, P वयणं, P तरलजलरंपव्वां. 20) J तओ बालस्स
अहो किं, P जुयलयं, P पइ for पयइ. 21) P देविय, P पलोट्टिओ बाहु, P निवाओ for वाओ, P ततो, P अडिइ. 22)
P अदंतेण, P om. य. 23) P नयणीइ. 24) P 'पमुहा, J om. मह. 25) J वि भणियं, J -पितिविं. 26) P
'भरिय ति, J ति ता इमिणा. 27) P तहा तंमि समए ण याणीयइ कथ, J देवी वा कं P देवी य वा, P अवयंतरं अणुहवन्ति-
28) P पुच्छामि, P om. य, J ताय for पुत्त, P साइमहं, J om. महं, J एयन्तए, P रुवइ ति, P इसि. 29) P महुयर,
P तारिसयस्स, P om. एयस्स. 30) P -गणस्स उत्संग, P मण्णुणा, P om. मे, P मंति for रुंभि.

१ 'कण' ति । तत्रो राहणा विम्ब्याबद्ध-रस-पसर-स्विप्पमाण-हियएण भणियं । 'अहो, बालस्स अहिमाणो, अहो सावहुंभत्तणं, 1
अहो वयण-विण्णासो, अहो फुडक्खरालावत्तणं, अहो कज्जाकज्ज-वियारणं ति । (सम्बहा विम्हावणीयं एयं, जं इमाए वि अह-
३ त्थाए पुरिसो बुद्धि-वित्थरो वयण-विण्णासो य' ति भणमाणेण राहणा पलोइयाइं मंति-वयणाइं) । तत्रो मंतीहिं भणियं । 3
'देव, को एत्थ विम्हओ । जहा गुंजाहल-फल-प्पमाणो वि जलुणो दहण-सहावो, सिद्धत्थ-प्पमाणो वि बहर-विसेसो गुरु-
सहावो, तथा एए वि महावंस-कुल-प्पसूया रायउत्ता सत्त-पोरुस-माण-प्पमाण-प्पभूय-गुणेहिं संबद्धिय-सरीरा एव होति ।
6 अण्णं च देव, ण एए पयइ-पुरिसा, देवत्तण-चुया सावसेस-सुह-कम्मा एत्थ जायंति' ति । तत्रो राहणा भणियं 'एवं 6
चिय एयं, ण एत्थ संदेहो' ति ।

§ २६) भणियो य साणुणयं कुमारो राहणा 'पुत्त महिंदकुमार, मा एवं चित्तसु जहा अहं तुम्हाणं सत्तु । जं सच्चं
७ अस्ति ण उण संपर्यं । जत्तो च्छेय तुमं अम्हाण गेहे समागओ, तत्रो च्छेव तुह दंसणे मित्तं सो राया संवुत्तो । तुमं च मम 9
पुत्तो ति । ता एवं जाणिकण मा कुणसु अद्धिइं, मुंचसु पडिवेक्खे-बुद्धिं, अभिरमसु एत्थ अप्पणो गेहे । अवि य जहा
सच्चं सुंदरं होहिइ तथा करेमि' ति भणिकण परिहिओ से सयमेव राहणा रयण-कंठओ, विण्णं च करे करेणं तंबोलं ।
12 'पसाओ' ति भणिकण गहियं, समप्पिओ य देव-गुरुणो । भणियो य मंतिणो 'एस तए एवं उवयुरियव्वो जहा ण कुरुहरं 12
संभरइ ति । सम्बहा तथा कायव्वो जहा मम अउत्तस्स एस पुत्तो हवइ' ति । तत्रो कंचि कालं अच्छिकण समुट्ठिओ
राया आसणाओ, कय-दियह-वावारस्स य अइकंतो सो दियहो ।

§ २७) अह अण्णमिम दियहे बाहिरोवत्थाण-मंडवमुवगयस्स दरिय-महा-णरिंद-वंद्र-मंडली-परिगयस्स णरवइणो 15
सुर-गिरिस्स व कुल-सेल-मज्झ-नायस्स, आगया धोय-धवल-दुगुल्ल-जुवल्लय-णियंसणा मंगल-गीवा-सुत्तमेत्ताहारण-रेहिरा ललिय-
मुणाल-धवलज्जल-केस-कलाविद्या सरय-समय-ससि-दोसिणा-पवाह-पूर-पव्वाल-धवला इव छण-राइं सुमंगला णाम राहणो 16
अंतैउर-महत्तरि ति । दिट्ठा य राहणा पोढ-रायहंसी विय ललिय-गइ-मग्गा । आगंतण य ताए सखियं उवरिम-वत्थइत्त- 18
ठइय-वयणाए वर-रयण-कौडलालंकिए विविह-सत्थत्थ-वित्थर-सयणणे दाहिण-कण्णे किं पि साहियं । साहिकण णिक्खंता । उवत्त
तत्रो राया वि किंचि विभावज्जमाण-हिययम्भतर-वियंभंत-वियुप्पणा-सुण्ण-णयण-जुयलो खणं अच्छिकण विसज्जियासेस- 19
21 णरिंद-लोओ समुट्ठिओ आसणाओ, पयट्ठो पियंगुसामाए वास-भवणं । 21

§ २८) चिंतियं च णरवइणा 'अहो इमं सुमंगलाए साहियं जहा किर अज्ज देवीए पियंगुसामाए सुबहुं पि रुण्ण-
माणाए अलंकारो विय ण गहिओ आहार-वित्थरो, अमाणो विय अवलंबिओ चिंता-भारो, परिमलिय-पत्त-लेक्खं पिव विच्छायं
24 वयण-कमलयं, माणसं पिव दुक्खं अगीकयं मोणयं ति । किं पुण देवीए कोव-कारणं हवेज्ज' ति । अहवा सयं च्छेव चित्तेमि । 24
'महिल्लणं पंचहिं कारणेहिं कोवो संजायइ । तं जहा । पणय-खल्लणं, गोत्त-खल्लणं, अविणीय-परियणं, पडिवक्ख-
कल्लहणं, सासु-विथत्थणं ति । तत्थ ताव पणय-क्खल्लणं ण संभाविज्जइ ति । जेण मह जीवियस्स वि एस च्छेय सामिणी,
27 अक्खउ ता धणस्स ति । अह गोत्त-खल्लणं, तं पि ण । जेण इमीए च्छेय गोत्तेण सयलमंतेउरिया-जणमहं सदेमि ति । अह 27
परियणो, सो वि कंहिंचि मम वयण-खंडणं कुणइ, ण उण देवीए ति । पडिवक्ख-कल्लहो वि ण संभाविज्जइ । जेण सच्चो
च्छेव मम भारियायणो देवयं पिव देवी मण्णइ ति, तं पि णरिथि । सेसं सासु-भंडणं, तं पि दूराओ च्छेव णरिथि । जेण अम्ह
30 जणणी महाराहणो अण्णारुहिय देवी-भूय ति ता किं पुण इमं हवेज्ज' । चिंतयंतो संपत्तो देवीए वास-भवणं, ण उण 30

1) P रायणा वयणवि, J om. रस, P वस for पसर, J -स्विप्प. 2) P विजासत्तणं, J *रालवत्तणं, P *वणीयमेयं, P इमाए व उवत्थारिए परिसी बुद्धि- 3) J om. य, P पुलो, P ततो. 4) P om. हल, P *त्थप्प. 5) J प्पसुता । रायपुत्ता । संते पोरुसे । माणप्पभूतीहिं सह संबद्धिय, P च्छेव for एव, J होति ति । 6) J om. ण, J चुआ एव, P सुभ- 8) P ता for पुत्त, P अम्हं, J तुम्हाण, JP सत्तु. 9) J जाउ च्छेव तुम्हं अम्हाणं, P मित्तत्तं, P संवुत्तं । 10) P अद्धेदुं, P पडिवज्ज-, अहिर, J om. एत्थ, J गेहं for गेहे, J om. अवि य. 11) P सच्चं, J होहि ति, J करीहामो, J राहणा वयणे, J करे करेण P करं कं. 12) P om. ति, P om. य, [भणियो] added by Ed., P जह णं. 13) P हवउ, J किंचि. 14) J य after आसणाओ, P om. य, P om. सो. 15) P जुरिंदचंद्र. 16) J र for व, P दुगूल, P om. जुवल्लय. 17) P om. समय, P पच्छालण- 18) J महंतैउर महंतारिअत्ति । P om. य. 19) ठइय in J looks like a later correction, P ठइय, P *णाए व वर, J कोण्डला P कुंडला. 20) P किं for वि, J om. वि, J विअंभंत omitted by P, P *प्पणसुत्त. 21) P समुवट्ठिओ. 22) J इमं मम मुं, P अत्त for रुण्ण. 23) J यमाणो विअ P मोणो चिय, P om. परि, P लेखं. 24) J *कयमाण ति । ता किं, J *जं ति । J om. च्छेव. 25) J संजायइ ति । P जायइ । P *क्खल्लणं, P *क्खल्लं, P *णीयं. 26) J सासवि, J *क्खल्लणं P जल्लणं, P *वियइ, P om. वि, P च्छेव or व्चेव. 27) P ता वण्णस्स, P णो for ण, J इमीय, J अहवा for अह. 28) J कहवि मम, P देवीउ, P खल्लणं पि for कल्लहो वि, J *विज्जइ ति P संभावीयइ. 29) P om. च्छेय, J om. देवी, P om. ति, J om. तं पि णरिथि, P नरिथि ससं, P दूराओ, P जेणम्ह. 30) P *राहणा, P अणुसंभिय, P एयं for इमं, P देवीवास, P तत्रो ण for ण उण.

1 विट्टा देवी । पुच्छिया एका विलासिणी 'कथ्य देवि' ति । तीए ससंभमं भणियं 'देव' कोवहरयं पविट्ट' ति । गभो कोव- 1
इरयं । विट्टा व जेण देवी उम्मूलिया इव थल-कमलुणी, मोविया इव वण-लया, (उक्खुविया इव कुसुम-मंजरी । पेच्छमाणे
३ उवगभो से समीवं । तभो पट्टसुय-मसुरदंत-णीमियणीसहो कोमल-करयला गुरु-वण-जहण-अरुवहण-खेय-णीसास-णीसहा ३ द
सणियं सणियं अलसायमाणी अबभुट्टिया आसणाओ । दिण्णं च राहणो णिययं चेष आसणं ति । उवविट्टो राया देवी थ ।

§ २९) तभो भणियं च राहणा 'पिए पिए अकोवणे, कीस एयं अकारणे चेष सरय-समयासार-वारि-धारा-हयं पिव 6
६ पल्लुयं कोमल-बाहु-लहया-मुणाल-गालालीणं समुव्वहसि वयण-कमलयं ति । कीस एयं अणवरय-बाह-जल-पवाह-गयण- 6
७ 'पणाल-गाल-वस-पव्वालियं पिव थणवट्टं समुव्वहसि । णाहं किंचि अवराह-ट्टाणमप्यणो संभरामि ति । ता पसिय पिए,
साह किं तुभ ण संमाणो बंधुयणो, किं वा ण पूइओ गुरुयणो, किं ण महिओ सुर-संधो, किं वा ण संतोसिओ पणइ-
९ वगो, अहवाविणीओ परियणो, अहवा पडिक्खो सवत्ती-सत्यो ति । सब्बहा किं ण पइपिइ मए भिच्चम्मि थ पिययमाए, 9
जेण कोवमवलंबिऊण ठियासि ति । अहवा को वा वियड-दाढा-कोडि-कराल-भीम-भासुरं कयंत-वयण-मज्जे पविसिऊण
इच्छइ । अहवा णहि णहि, जेण तुमं कोविया तस्स सुवण्णइ-सहस्सं देमि । जेण कोवायं-वयण-जुवलं सयवत्त-संपत्ता-
१२ इरित्त-सिरी-सोहियं किंचि णिवोल्लियाहर-दर-फुरंत-दंत-किरण-केसरालं कज्जल-सामल-बिलसमाण-मुमया-लया-भमर-रिच्छोलि- 12
रेहिरं चारु-गयण-कोस-बाह-जल-महु-बिंदु-णीसंदिरं अउव्व-कमलं पिव अदिट्ट-उव्वयं मम दंसयंतेण अवकरंतेणावि
उवकयं तेण ।

§ ३०) तभो ईसि-वियसिय-विहडमाणाहरउडंतर-फुरंत-दंत-किरण-सोहियं पहसिऊण संलत्तं देवीए । 'देव, तुह पसा- 15
एण सव्वं मे अत्थि किंतु णवर सयल-धरा-मंडल-णरिंद-वंद्र-मंडली-मउड-मणि-णिहसण-मसणिय-चलण-जुयलस्स वि महा-
राहणो पिय-पणइणी होऊण इमिणा कजेण विसुरिमो, जं जारिसो एस तीए धण्णाए कीए वि जुयइए पिय-पुत्तओ सिणेह-
१८ भायणं महिंदकुमारो तारिसो मम मंद-भागाए तइयं पि णाहेण णरिथ । इमं च भावर्यतीए अत्ताणयस्स उवरिं णिवेओ, 18
तुह उवरिं मम कोवो संजाओ' ति । तभो राहणा हियएण पहसिऊण चित्तियं । 'अहो पेच्छइ अविवेइणो महिलायणस्स
असंबद्ध-पलवियाइ । अहवा,

21 एरिसं चेष अल्लिया-मल्लियासंबद्ध-प्यल्लविएहिं । हीरंति हिययाइं कामिणीहिं कामुययणस्स' ति ॥ 21
चित्तयंतेण भणियं 'देवि, जं एयं तुह कोव-कारणं, एत्थ को उवाओ । देव्वायत्तमेयं, ण एत्थ पुरिसयारस्स अवसरो,
अण्णस्स वा । भण्णइ थ ।

24 अत्थो विज्जा पुरिसत्तणाइं अण्णाइं गुण-सहस्साइं । देव्वायत्ते कजे सव्वाइं जणस्स विहदंति ॥ 24
ता एवं ववत्थिए कीस अकारणे कोवमवलंबसि' । एवदत्थियते

§ ३१) तभो भणियं देवीए 'णाह, णाहमकजे कुविया, अवि थ कजे चिय । जेण पेच्छइ सयल-धरा-मंडलभंतरे 27
जोय-जोयणी-सिद्ध-तंत-मंत-सेवियस्स महाकालस्स व तुज्ज देव-देवा वि आणं पडिच्छंति, तह वि तुह ण परिसी चिंता 27
संपज्जइ । किं जहं महाराओ उज्जमं च काऊण किंपि देवयं आराहिऊण वरं पत्थेइ, ता कहं मम मणोरहो ण संपज्जइ ति ।
ता पसिय मम मंद-भागिणीए, कीरउ पसाओ' ति भणमाणी णिवडिया से चलण-जुवलए राहणो । णिवडमाणी चेष अवलं-
३० विया दीहरोभय-बाहु-डंडेहिं पीणेसु भुवा-सिहरेसु । तभो वण-गएण व कर-पभार-कलिया मुणालिणि व्व उक्खिऊण 30

1 > P पुच्छिया य, P चेडिया for विलासिणी, J भणियं ति, P पविट्टेत्ति. 2 > P om. थल, P इव चलयणया, P °डियाच.
3 > J om. से, P °सरयदं, P करलया, J om. घण, P °स्वेय, P णीसास twice. 4 > P °णियमल, J णियं, P om. चेष, P
om. ति. 5 > J om. च, J कोवणे. 6 > P °नालालीलं, P कयण, J °यन्ति ।, P °पवाहपवाह. 7 > P °प्यणाल, P
नालयसरपव्वा, P °वट्टमुव्वं, P °रावि ति. 8 > J तुभ ण P तुह न, J °अणो P जणो for यणो in both places, JP किण्ण, P
सुरं, P ता for वा, P पणय-. 9 > P आउण for अहवा, P अह प, P सवत्ति, J किण्ण P किं वा ण, P om. य. 10 > P
om. ति, P चियड, P °मज्ज. 11 > J सुवण्णट्ट, J कोवासंयवणं P °यंचणं, P जुयलं, P सयपत्त. 12 > J सिरी, J हरहर
P हरंत for हर, P om. दर, P विमलसं, P °नुमयालिया, JP रिच्छोलि. 13 > P कोवसवाह, P निसं, P पुव्वं for
उव्वयं, J अपकरंते P अवकरंते. 15 > विहसिय, J °उट्टंतर. 16 > P किंतु एकं नवर, J मण्डव, P नरिंदवंद्र, J °इसणा-
17 > P वि होऊण, J तीअ, P कीअ, P जुवईपिय, पियय-. 18 > J °दयकु, P तए व for तइयं वि, P णाहे णित्थि ति ।, P om.
च. 19 > P उवरि, J om. मम, J संजाओ P जाउ, P अविवेगिणो. 20 > P om. अहवा. 21 > P °याहिं कामिणीहिं
कामुअजणस्स य ति for the whole stanza: एरिसं...ति ॥ 22 > P चित्तियं, J जं तए एयं, J om. तुह, P कोव ओवा,
P देवाय. 24 > J some marginal addition of missing words, P °सत्तणं च अत्ताइं. 26 > P om. णाह, P पेच्छइ,
P °भंतरे. 27 > J जोयणी P जोयणो, P वि न तुह. 28 > P महाराउ, P om. च, P om. वरं. 29 > P पसिय, P भाइणीय,
J णिवडिया, P णिवडिया, P om. से, P जुवयले. 30 > J टण्डेहिं P डंडेहिं, P भयासिइ, P करिभार, P उक्खुवि.

1 आरोबिया वाममिम ऊरुयमिम । तओ ससज्जस-सडकंप-रुजावणय-वयण-कमला भणिया राहणा । 'पिए, जं तुमं भणस्ति 1
 तं मए अवस्सं कायम्वं । तेण भिसुं च विसायं, मा कुणसु अडिइं, णिब्भच्छेहि सोगं, परिहरसु संतावं, मज्जसु जहिच्छियं,
 3 भुजसु भोयणं ति ।

§ ३२) सव्वहा जइ वि पिए,

- णिस्सियास्ति-छेय-धारा-गलंत-रुहिर-रुव-छिमिच्छिमायंतं । तिणयण-पुरओ हुणिऊण नियय-मंसं भुय-प्फलिहा ॥
- 6) जइ वि तिसूल-णिवडिय-महिसोवरि-णिमिय-चारु-चलणाए । कच्चाहणीए पुरओ सीसेण बळिं पि दाऊण ॥ 6
 जइ वि वर-वडु-माणस-परिस-वस-किलिकिलंत-वेयाले । गंतुं महा-मसाणे चिकेऊणं महामंसं ॥
 उज्जंत-बहल-परिमल-फुरंत-स्सिर-सयल-मिसिमिसायंतं । धरिऊण गुग्गुलं सुयणु जइ वि साहेमि भत्तीए ॥ 9
 9 नियय-बहु-रुहिर-विच्छडु-तप्पणा तुट्ट-भूय-सुर-संघं । आराहिउं फुडं चिय रोइं जइ माइ-सत्थं पि ॥ 9
 इय सुयणु तुज्ज कजे पत्थेऊणं पुरंवरं जइ वि । तह वि मए कायम्वो तुज्जं पिय-पुत्तओ एक्को' ॥
 इय णरवइणा भणियं सोऊणं हरिस-णिब्भरा देवी । भणितं 'महा-पसाओ' ति णिवडिया चलण-जुवलमिम ॥
- 12 § ३३) तओ समुट्ठिओ राया आसणाओ देवी थ । कय-मज्जण-भोयणा थ संवुत्ता । णरवइणा वि आइट्टा मंतिणो 12
 'सिग्घमागच्छह' ति । आपसाणंतरं आगया उवइट्टा उवविट्टा जहारहेसु आसणेसु सुहासणत्था थ । भणिया थ राहणा 'भो 2
 हो सुर-गुरु-पमुहा मंतिणो, अज्ज एरिसो एरिसो थ वुत्तते' । देवीए कोव-कारणं अत्तणो पइज्जारुहणं सव्वं साहियं । 'तओ 2
 15 एयमिम एरिसे वुत्तंते किं करणीयं ति मंतिऊण साहह तुब्भे किं कीरउ' ति । तओ मंतीहिं भणियं 'देव,
 तण-मेत्तं पिव कज्जं गिरि-वर-सरिसं अत्तिसंताणं । होइ गिरी वि तण-समो अहिओय-सकक्खसे पुरिसे ॥
 तेण देव, जं तए चित्तियं
- 18 तं कुविय-कयंतेण वि हु अण्णहा णेय तीरण काउं । कुविओ वि जंबुओ कुणइ किं व मण तस्स केसरिणो ॥ 18
 भण्णइ थ देव,

जाव थ ण देंति हिययं पुरिसा कजाइं ताव विहडंति । अह दिण्णं चिय हिययं गुरुं पि कज्जं परिसमत्तं ॥

- 21 तओ देव, जं तए चित्तियं तं तह च्छेय । सुंदरो एस्स एरिसो देवस्स अज्जवसाओ । जेण भणियं किर रिसीहिं लोय-सत्थेसु 21
 'अउत्तस्स गइं णत्थि' ति । अण्णं च देव, सव्वाइं किर कजाइं पिइ-पिंड-पाणिय-पयाणाइंणि विणा पुत्तेण ण संपडंति पुरि-
 साणं । तहा महा-मंदर-सिहरोयरि-परुड-तुंग-महावंसो विय उम्मूलियासेस-तरु-तमाल-साल-मालेण पलय-कालुग्घाय-
 24 मारुण विय रिबुजणेण राय-वंसो बहूहिं णाणुणामण-वियत्थणाहिं उम्मूलिजइ, जइ ण पुत्तो वड-मूल-बंधण-सरिसो हवइ 24
 ति । भण्णइ थ ।

जस्स किर णत्थि पुत्तो विजा-विक्कम-धणस्स पुरिसस्स । सो तह कुसुम-पसिद्धो फल-रहिओ पायओ चेव ॥

- 27 ता देव, सुंदरो एस्स देवस्स परक्कमो, किंतु किंचि विण्णवेमि देवं । चिट्ठंतु एए ससिसेहर-सामि-महामास-विक्कय-कच्चायणी- 27
 समाराहण-प्पमुहा पाण-संसय-कारिणो उवाया । अत्थि देवस्स महाराय-वंस-प्पसूया पुव्व-पुरिस-संणेज्जा रायसिरी भगवइं 27
 कुल-देवया । तं समाराहिउं पुत्त-वरं पत्थेसु' ति । तओ राहणा भणियं 'साहु, हो विमल-बुद्धि साहु, सुंदरं संलत्तं ति ।
 30 जेण भण्णइ

1 > P वामयमिम, J सेउकंप. 2 > J अवस्स, P 'वं ति ।, P अधिइं, J णिब्भत्थेहिं P निब्भच्छेहिं, P सोयं, P जहिच्छं. 4 >
 P पिए जइ वि. 5 > J -च्छेय, P -च्छिमिच्छिमायंतं, J 'यंत, J पुरओ ।, P 'ऊण हुयासणं नियमासं, J 'मांसं (?), P भुयफ्लिया ।
 6 > P निवाडिय, J नियय. 7 > J वेयालो. 8 > P फुट्टंत, J -सिहरं, P -सिमिसिमायंतं, P सुयलणु, P वि वाममिम भित्तीए. 9 >
 P नियवाहु, J विच्छडंत', P 'हियं, P माणसत्थं. 10 > J कए। for कजे. 11 > P जुयलंमि. 12 > P भोयणो, P om. थ, P
 'वुत्तो ।. 13 > P 'गच्छं ति ।, P om. उवइट्टा, P सहासं. 14 > P भो for हो, P -प्पमुहा, P -अज्जि एरिसो वु', P पइण्णारु'
 P om. सव्वं. 15 > J om. तुब्भे, P देवा. 16 > P gives here the verse जाव...परिसमत्तं instead of तणमेत्तं...
 पुरिसे, P 'त्तवन्नाणं, J होतिं शि', P व for वि, P तणसोमो, J सहिउव्वस P अहिओयस, P पुरिसो. 17 > P तओ for तेण.
 18 > P om. हु, J अण्णहा, J जंबुओ किं कुणइ किं व भणइ, P च for व, J om. तस्स P तंसि. 20 > P has here the
 verse तणमेत्तं.....पुरिसे ॥ instead of जाव.....परिसमत्तं', P थ नादंति, P ताइं वि'. 21 > P एसो, P om. एरिसो, J
 'स्तज्जवसाओ, P सत्थेसु जहा अ'. 22 > J देव किर सव्वाइं कजाइं, J पिति- P पिइं, J 'डंति ति पुरि'. 23 > J
 सिहरोअरोअरिपडमंतुंग, P 'रोयरप', J वि for विय, P तमालमाल, P पेलय', J कालुग्घय. 24 > J रिबुजणेण P रिबुजणेणा, P
 नामुण्णामण, P वियडुणाहि, P om ण, J गूढ for मूल. 26 > P समिद्धो for पसिद्धो, P पावयं चेव. 27 > P तेण for देव, P
 सुंदरो देवस्स एस्स पर', J एससिसिर (some correction seen), P सामिहामंस, J विक्कयं कच्चाइणि. 28 > P 'मारुहणं, J,
 om. प्पमुहा, J भगवइ. 29 > P 'राहिय, P मणिओयं, J om. साहु (second).

1 पुष्य-पुरिसाणुचरियं जं कम्ममणिदियं इवह लोए । पुसेण वि कायखं तं चिय एसो जणे गियमो ॥ 1
अण्णं च सयल-तेल्लोक्क-णरिद-चंद्र-पथ्यणिज्ज-दरिसणाए भगवईए रायसिरीए दंसणं पि दुल्लहं, अच्छड ता वरो ति । दंसणेण
३ चेय तीए सव्वं सुंदरं होहि' ति भणिऊण समुट्ठिओ राया महासणाओ मंतियणो य । 3

§ ३४) अह अण्णमि पूस-णक्खत्त-मुत्ते भूय-दियहे असेस-तिय-चउक्क-चच्चर-सिवाडग-सिवाणं खंद-हंद-गोविद-चंद-
तियसिंद-गइंद-गाइंदारविदणाहाणं तथा जक्ख-रक्खस-भूय-पिसाय-फिणर-फिपुरिस-महोरगाईणं देवाणं वल्लिं दाऊण
6 तथा चरग-परिवायथ-मिक्खभोय-गिगंथ-सुक्क-तावसाईणं दाउं जहारहं भत्त-पाण-णियंसणाईयं, तथा दुग्गय-दुक्खिय-पंथ-
7 कप्पच्छियादीणं मणोरहे पूरिऊणं, तथा सुणय-सउण-कायल-प्पमुहे पुण्ण-मुहे काऊण, भायंत-सुइ-भूओ घोय-धवल-दुगुल्लय-
णियंसणो सिथ-चंदण-सुमण-मालाहरो पासट्टिय-परियणोधरिय-कुसुम-बलि-पडल्लय-णिहाओ पविट्टो राया देवहरयं । तथ य
9 जहारिहं पूहऊण देवे देवीओ य, तओ विरहओ मणि-कोट्टिमयले चंदण-गोरोयणा-दोव्वंकुर-गोर-सिद्धत्य-सत्थियक्खय-
सिय-कुसुमोवयार-णिरंतरो परम-पवित्तेहिं कुसुमेहिं सत्थरो ति । तओ पेसियासेस-परियणो राया निसण्णो कुस-सत्थरे,
णिसमिऊण य कमल-मउल-कोमलेहिं अणवरय-महाधणु-जंत-समायडुण-किणंक-कट्टिणिएहिं करेहिं अंजलिं काऊण इमं
12 थुइ-कुल्लयं पडिउमारद्धो । 12

§ ३५) 'जय महुमह-वच्छत्थल-हारंदोलि-रुलंत-दुल्लिए । जय कोत्थुह-रयण-विसट्टमाण-फुड-किरण-विच्छुरिए ॥
जय खीरोय-महोवहि-तरंग-रंगंत-धवल-तणु-वसणे । जय कमलायर-महुयर-रंगंत-कल-कणिर-कंचिल्ले ॥
15 जय खगगा-णिवासिणि णरणाह-सहस्स-वच्छ-दुल्लिए । जय कोमल-कर-पंकय-गंधायडिय-भमंत-भमरउले ॥ 15
देवि णिसुणेसु वयणं कमला लच्छी सिरी हिरी किती । तं चिय रिद्धी णेष्वाणी णिव्वुइ-संपया तं सि ॥
ता दायच्चं मह दंसणं ति अउमंतरे ति-रत्तस्स । अहवा पडिच्छियच्चं सीसं मह मंडलगाओ' ॥
18 ति भणिऊण य अवणउत्तमंणेणं कओ से पणामो । काऊण य णिवण्णो कुस-सत्थरे, टिओ य रायसिरीए चेय गुण-गहण-
वावड-हियओ एकमहोरत्तं दुइयं जाव तइयं पि । तइय-दियहे य राहणा अदिण्ण-दंसणामरिस-वस-विलसमाण-कसिण-
कुडिल-भुमया-लएणं आवड-मिउडि-भंगुर-भीम-वयणेणं ललिय-विलासिणी-कमल-दल-कोमल-करयलालिहण-दुल्लिओ
21 कवलिओ दीहर-कसिण-कुडिल-कंत-कौतल-कलावो, गहियं च पउर-वहरि-करि-कुंभ-सुत्ताहलुइलणं दाहिण-हत्थेण खगा-रयणं । 21
भणियं च 'किं बहुणा

जइ सग्गो पायाले अहवा खीरोयहिमि कमल-वणे । देवि पडिच्छसु एयं मह सीसं मंडलगाओ' ॥

24 ति भणिऊण समुक्करिसिओ णियय-संधराभोए पहारो । ताव य हा-हा-रव-सइ-गडिभणं काउं थंसिओ से दाहिणो भुयादंडो ॥ 24
उण्णामिय-वयणेण णियच्छियं राहणा, जाव पेच्छइ
वयण-मियकोहामिय-कमलं कमल-सरिच्छ-सुर्विजर-थणयं ।
27 थणय-भरेण सुणामिय-मज्झं मज्झ-सुराय-सुपिहुल-णियंवं ॥ 27
पिहुल-णियंवं-समंधर-ऊरुं ऊरु-भरेण सुसोहिय-गमणं ।
गमण-विराविय-णउर-कडयं णउर-कडय-सुसोहिय-चलणं ॥ ति । अवि य ।

30 | असलालि-सुहुल-हल्लोल-वाउलिजंत-केसरुपीले । कमलमि पेसियच्छि लच्छी अह पेच्छइ णरिदो ॥ 30
दट्टूण य अवणउत्तमंणेण कओ से पणामो ।

1 > J 'साण च', P 'मंणदियं सहइ, P य for वि, P जणो. 2 > P 'तइल्लोक्क, P 'चंद्र, P om. भगवईए, P वावारो for ता वरो, P 'णेणं तीए चेव सव्वं. 3 > P होहिइ ति, P समुट्ठिओ, P सीदा' for महा'. 4 > P अउमि दियहे पू', P दियहो, P चच्चरे, P खंड, J om. चंद्र. 5 > J गइंदारवि', J भूत for भूय, P देववाणं, P दाऊणं. 6 > P चरयपरिवाय भिक्खु', P पाणं, P दुग्गह-. 7 > P 'डियाणं, J सुणया-, P कायप्प', P परितुट्टे for पुण्णमुहे, J सुखीहोउं, J दुग्गुल्लय- P दुगुल्लि'. 8 > P 'हणो, J पास परिअणधरिअ, J om. य. 9 > P om. देवे, P थिरइओ, P गोरोयणो, P 'व्वंकुर, P सिद्धसत्थियकयसिय. 10 > J पेसिओ परिअणो, P य राया, J कुसुम for कुस. 11 > J 'महाकड्डुण, J किणकडि', J om करेहिं. 13 > P वत्थल, P लुलंत, P किरण repeated. 14 > P महोयहि, P 'रुगत. 15 > P 'नाहस्स. 16 > P कमलच्छी सिरिहिरी तथा किती, P णिव्वाणि निव्वुइ. 18 > P भणिऊण, P om. य, P निसण्णो, P सत्थरो, P om. य, J 'सिरी तीए, P चेवायुण. 19 > P तइ for तइय, J राहणो, P नरिस for मरिस, J रस for रिस. 20 > J भंगुरु, J 'सिणि, P 'लाणिहण. 21 > J कवलीओ, P 'इल्लण. 23 > P सग्गो. 24 > P om. काउं. 25 > P य नियच्छियं, P जा for जाव. 26 > P मिणंथको', P 'सर्विजर. 28 > P सुमंधरकरं. 29 > P विराइय. 30 > J भमरालि, P 'रुपीलो. 31 > J अवणउत्तं'.

1 § ३६) भणियं च रायलच्छीए 'भो भो गरिंद, अणेष-पडिवक्ख-संदणुहलण-पडर-रिउ-सुंदरी-वेद्व-वेहव्व-दाण-दक्खं 1
कीस एयं तए खग्गा-रयणं जयसिरी-कोमल-भुय-लयाळिगण-फरिस-सुह-दुल्लिए गिय-खंधराभोए आयासिज्जह' । तओ गर-
3 वड्डणा भणियं 'देवि, जेण तिरत्तं मम गिरसणस्स तह वि दंसणं ण देसि' ति । तओ ईसि-वियसिय-सिय-दसण-किरण- 3
विभिज्जंताहर-रायं भणियं रायसिरीए 'अहो महाराय दढवम्म, तिरत्तेणं चिय एस् एरिसो तवस्सी असहणो संवुत्तो' ।
भणियं च राहणा 'देवि,

0 मण्णइ हु तण-समाणं पि परिभवं मेरु-मंदर-सरिच्छं । को वि जणो माण-धणो अवरो अवरो चिय वराओ' ॥ 6
तओ भणियं रायलच्छीए 'सव्वहा भणसु मए किं कज्जं' ति । राहणा भणियं 'देवि,

सव्व-कलागम-णिलओ रज्ज-धुरा-धरण-धोरिओ धवलो । गिय-कुल-माणक्खंभो दिज्जउ मह पुत्तओ एक्को' ॥

9 तओ सपरिहासं सिरीए संलत्तं । 'महाराय, किं कोइ मम समण्णिओ तए पुत्तओ जेणेवं मं पर्येस्सि' । भणियं च राहणा 'ण 9
समण्णिओ, गिययं च्ये देसु' ति । लच्छीए भणियं 'कुओ मे पुत्तओ' ति । तओ राहणा ईसि हसिउण भणियं
'देवि, भरह-सगर-माहव-णल-णहुस-मंधाइ-दिलीम-प्पमुह-सव्व-धरा-मंडल-पत्थिव-सत्थ-वित्थय-वच्छत्थलाभोय-पल्लक-सुह- ८००/

12 सेज्जा-सोविरीए तुह एक्को वि पुत्तो गत्थि' ति । संलत्तं सिरीए 'महाराय, कओ परिहासो । 12

रूपण जो अणणो दाणे धणओ रणमि सुरणाहो । पिहु-वच्छो मह वयणेण तुज्ज एक्को सुओ होउ' ॥

ति भणिउण अदंसणं गया देवी ।

15 § ३७) गरवड्ढे वि लद्ध-रायसिरी-वर-प्पसाओ णिग्गओ देवहरयाओ । तओ षहाय-सुह-भूओ महिउण सुर-संवं, पण- 15
मिउण गुरुयणं, दक्खिउण विप्पयणं, संमाणिउण पणइयणं, सुमरिउण परियणं, कं पि पणामेणं, कं पि पूयाए, कं पि विण-
एणं, कं पि माणेणं, कं पि दाणेणं, कं पि समालिंगणेणं, कं पि वायाए, कं पि दिट्ठीए, सव्वं पहरिस-णिभरं सुमुहं काउण

18 णिसणो भोयण-मंडवे । तत्थ जहाभिरुहयं च भोयणं भोत्तण आयंत-सुह-भूओ णिग्गओ अढमंतरोवत्थाण-मंडवं । तत्थ 18

य त्राहिस्ता मंतिणो । समागया कय-पणामा य उवविट्ठा आसणेसुं । साहिओ य जहावत्तो सयलो सिरीए समुल्लावो । तओ
भणियं मंतीहिं 'देव, साहियं च्ये अरुहेहिं, जहा

21 जावय ण देंति हिययं पुरिसा कज्जाईं ताव विहडंति । अह दिण्णं चिय हिययं गुरुं पि कज्जं परिसमसं ॥ 21

तं सव्वहा होउ जं रायसिरीए संलत्तं' ति ।

§ ३८) तओ समुट्ठिओ राया । गओ पियंगुसामाए मंदिरं । विट्ठा य देवी गियम-परिदुब्बलंगी । अढमुट्ठिउण दिण्णं
24 आसणं, उवविट्ठो राया । साहियं च राहणा सिरी-वर-प्पयाणं । तओ पहरिस-णिभराए भणियं च देवीए 'महापसाओ' ति । 24
तओ समाइट्ठं वट्ठावणयं । जाओ य गयरे महुसवो । एवविह-खज्ज-पेज्ज-मणोहरो छणमओ विय वोलीणो सो दियहो । तावय,

कुंकुम-रसारुणंगो अह कत्थ वि पत्थिओ ति णाउं जे । संझा-दुईं राईएँ पेसिया सुर-मग्गेणं ॥ श्री

27 णिं पसारिय-करो स्रो अणुराय-णिभरा संझा । इय चित्तिउण राई अणुमग्गेणव संपत्ता ॥ श्री 27

संझारुं समाससं रत्तं दट्ठण कमल-वण-णाहं । वड्ड गुरु-मच्छरेण व सामायंतं मुहं रयणी ॥

पक्ख-विलय-दंसण-गुरु-कोवायाव-जाय-संतावे । दीसंति सेय-विंदु व्व तारया रयणि-देहम्मि ॥

1 > P महलुइलण, P चंद्रलेहव्व. 2 > P जयसिरी, P भुय for भुय, J फरस, P om. सुह, P नियकंधरा.
3 > P जेणं, P om. मम, P तहा वि, P विहसियदसण. 4 > P विहिज्जंता, P om. राय, P दढधंम तिरत्तेरणं चिय परिसो तं सि
असहणो जाओ । 6 > P य for हु, P तणय, P जीवियं for परिभवं, P मंदिर. 7 > P देवि सुणसु सव्व. 8 > P धारिओ, P
मह पोत्तओ. 9 > P कोवि, P तओ for तए, J ममं for मं. 10 > P च्ये, P पुत्तिउ, P विहसिउण. 11 > J महवि for
माहव, J मंधाइ P मंधाय, P दिलीपपमुह. 12 > P सेज्जो, P तु for तुइ, P om. ति, P हासो । अहवा. 13 > P रूपेण, P
दाणेण धणउरंमि, P वच्छ मज्ज व, J होहि. 15 > P सिरी. 16 > P कि for कं (throughout). 17 > J om. कं (P
किं) पि दाणेणं. 17 > P निभरसमुहं काउणं. 18 > P र्हअं जहारुहं च भुत्तण भोयण, J सुभुई. 19 > J तत्थ वाहराविता,
P य आसीणा आसणेसुं, J साहियं च जहावित्तं, P om. सयलो, P सिरीए, J सहमुल्लावो. 20 > P om. देव, P चेहिं for च्ये.
21 > P नंदेति, P विय for चिय. 22 > P ता for तं, J om. ति. 23 > P समुवट्ठिओ. 25 > P छणमओ विय.
26 > J रसारुणंगो P रसारुणंगे, P अकत्थव प, P माउं for णाउं, P पिसिया सुरि. 27 > P राई इयमग्गेणं व. 28 > J
संझासमोसरतं, J मुहुं for मुई. 29 > J विलिय, P यास जायसंतावा.

- 1 उत्तार-सारयाए बिलुलिय-सम-णियर-कसिण-केसीए । चंद-कर-धवल-दसणं राईएँ समच्छरं हसियं ॥ 1
पुव्व-दिसाएँ सहीय व दिण्णा णव-चंद-चंदण-णिहाली । रवि-बिरह-जल्ल-संतावियमि वयणमि रयणीए ॥
- 3 ससियर-पंदर-देहा कोसिय-हुंकार-राव-णित्यामा । अह झिजिउं पयत्ता रूण राई विणा रविणा ॥ २४
अरुणाएण-पीउट्टिं आरुंभिर-तारयं सुरय-सीणं । दट्टण पुव्व-संभं राई रोसेण व विलीणा ॥ २५
इय राई-रवि-संज्ञा-तिण्हं पि हु पेच्छिउं इमं चरियं । पल्लथ-दुद्ध-धवलं अह हसियं वियह-लच्छीए ॥
- 6 § ३९) तओ एयमि एरिसे अवसरे धोव-धवल-पडच्छाए सुवित्थिण्णे पल्लंके पसुत्ता दुद्ध-धवल-जल-तरल-कळोल- 6
माला-पव्वाल्लिए खीरोय-सायरुच्छंणे व लच्छी पियंगुसामा देवी सुविणं पेच्छह । तं च केरिसं ।
जोण्हा-पवाह-पीरोह-पूर-पसरंत-भरिय-दिसियकं । पेच्छह कुमुयाणंदं सथलं पि कलंक-परिहीणं ॥
- 9 अह बहुल-परिमलायद्वियालि-हलबोल-णिभर-दिसाए । कुवल्लयमालाएँ दढं अवगूढं चंदिमा-णाहं ॥ 9
तओ जावय इमं पेच्छह तावय पहय-पदु-पडह-पडिरव-संखुद्ध-विउद्ध-मंदिरुज्जाण-वावी-कलहंस-कंठ-कलयलाराव-रविजंत-
सविलेस-सुह-सुहेणं पडिबुद्धा देवी । पाहाउय-मंगल-तर-रवेणं पडिबुद्धिज्जण थ णियय-भावाणुसरिस-सुमिण-वंसण-रस-
18 वस-पहरिसुच्छलंत-रोमंभ-कंचुव्वहण-पहाए देवीए आगतूण विणओणय-उत्तमंगाए साहियं महाराइणे जहा-दिट्टं महा-12
सुविणयं ति । तओ राया वि हियय-द्विय-संवयंत-देवी-वर-प्पसाओ अमय-महासमुद्धे विथ मज्जमाणो इमं भणिउमाढत्तो ।
'पिए, जो सो रायसिरीए भयवईए तुह दिण्णे पुत्त-वरो सो अज्ज णूणं तुह उदरत्थो जाओ' ति । तओ देवीए संलत्तं ।
15 'महाराय, देवयाणं अणुगगहेणं लच्छीए वर-प्पसाएणं गहाणं साणुकूलत्तणेणं गुरुयण-आसीसाए तुह य प्पभावेणं एवं चेय 15
एयं इच्छियं मए पडिच्छियं मए अणुमयं मए पसाओ महं' ति भणमाणी णिवडिया राइणे च्चलण-जुयलए ति ।

- § ४०) तओ राया कयावस्सय-करणीओ महिउण सुर-संघं दक्खिउण य दक्खिणज्जे पृहउण पूयणिउजे संमाणिउण
18 संमाणिज्जे वंदिउण वंदिणिजे णिकंतो बाहिरोवत्थाण-भूमिं, णिसण्णे तविय-तवणिज्ज-रयण-विणिम्मविए महरिहे सीहासणे । 18
आसीणस्स य आगया सुर-गुरु-सरिसा मंतिणो, उच्चिट्टा कण-णारिंदस्स व महारारिंदा, पणमंति दुग्गइय-सरिसा महावीरा,
उग्गाहेति आऊ-सत्थं धण्णंतरि-समा महावेजा, सत्थिकारंति चउवयण-समा महाबंभणा, सुहासणत्था वास-महरिसि-समा
21 महाकइणो, विण्णवंति छम्मूह-समा महासेणावइणो, पविसंति सुक्क-सरिसा महापुरोहिया । णिय-कम्म-वावडाओ अवहमिय- 21
सुर-सुंदरी-वंद-लायण्णाओ वारविलासिणीओ ति । केएत्थ पायय-पाढया, केइत्थ सक्कय-पाढया, अण्णे अवबंस-जाणिणो,
अण्णे भरह-सत्थ-पत्तट्टा, अण्णे विसाहिल-मय-णिउणा, अण्णे इस्सत्थ-सत्थ-पाढया, अण्णे फरावेडु-उवज्झाया, अण्णे
24 सुरिया-पवेस-पविट्टा, अवरं बाणय-सत्ति-चक्क-भिड्डिमाल-पास-जुद्ध-णिउणा, अण्णे पत्त-छेज्ज-पत्तट्टा, अण्णे चित्तयम्म-कुसला, 24
अण्णे हय-लक्खण-जाणिणो, अण्णे गय-लक्खणणू, अण्णे मंतिणो, अण्णे धाउ-वाइणो, अण्णे जोइसिणो, अण्णे उण सउण-
सत्थ-पाढया, अण्णे सुविणय-विंयाणया, अण्णे नेमित्तिय ति । अवि थ ।
27 सा णत्थि कळा तं णत्थि कोउयं तं च णत्थि विण्णाणं । जं हो तत्थ ण दीसइ मिलिए अत्थाणिया-मज्जे ॥ 27

- § ४१) तओ तम्मि एरिसे वासव-सभा-संणिहे मिलिए महत्थाणि-मंडले भणियं राइणा । 'ओ ओ मंतिणो, अज्ज
एरिसो एरिसो य सुविणो देवीए दिट्टो पच्छिम-जामे, ता एयस्स किं पुण फलं' ति । तओ भणियं सुविण-सत्थ-पाढएहिं ।
30 'देव, एयं सुविणय-सत्थेसु पटिज्जइ जहा किर महा-पुरिस-ज्जणणीओ ससि-सूर-वसह-सीह-गय-प्पमुहे सुमिणे पेच्छंति, 30

- 1 > P बिलुलिय, J चंद्र P थंद, P -संमण. 2 > P सहियं व, P चिर for रवि. 3 > P पंदुर, P णिच्छामा. 4 > P
-पाणोट्टिं आरुंभिर, J संज्ञा P संज्जं, P रोसेण वोलीणो. 5 > P उ for हु, P -हच्छीए [= इत्थीए?]. 6 > P धोइ-, P
पडवच्छाइए, P सुविच्छिण्णं. 7 > P सुमिणं. 8 > P -वीरोह, P सयणं पि. 9 > P अइ for अह, P अवऊढं. 10 > P जाव
इमं, J om. पहय, P विउद्धसुद्धमंदिरुज्जाणो वावि. 11 > P पहाओ य I, P *सरस. 12 > P कंचउव्वहणरोहाए, P गंतूण
विणयावणउत्तमंगाण. 13 > J हियअद्वियमहासंवयंत वरं, P पसाउ ति, P मज्जमाणा, J भणिउं समाढत्तो. 14 > P भगवईए, P
अजुत्तणं, P उअरत्थो, P संलत्ति. 15 > P अणुगगहो णं लच्छीय वरपहाणेणं महणाणं साणुं, P गुरूणं आं, J चेव. 16 > P मे
for मय, J पसाओ ति महं, J om. राइणे, J जुवलत्ति. 17 > J om. य, P दक्खिणज्जे, P पूरणिज्जे. 18 > P भूमी, P
तविणिच्छो, P विणम्मविह महरिह. 19 > P नरिंदसमा महां, P महा for महावीरा. 20 > P आउसत्थं, P *बंभणो. J महारिसि, P
om. समा. 22 > J वंदं P विद, J -णीयण्णाओ, P केएय पाइय, P om. के इत्थ सक्कयपाढया, P अवबंस. 23 > P भरह, P
ईसत्थपाढया, J om. अण्णे फरावेडुउवज्झाया. 24 > J कय for बाण, P भिड्डिला. 25 > P गयलक्खणं अजे, J om. उण.
26 > P -वाढया अजे सुविणसत्थ-, J वीणया for वियां, P नेमित्तय. 27 > P हो जत्थ, P अत्थाणमज्जंमि. 28 > P सन्निये, P
मंडवे. 29 > J om. य, P *देवीए पच्छिमजामे दिट्टो, J पुण हलन्ति, J प्पमिण, J om. सत्थ. 30 > P सुमिणसत्थे.

1 तेण एयस्स एरिस्स सवल-चंद-वंसणस्स महापुरिस-जम्मं साहेत्ति' ति । राइणा भणियं 'देवीए पुत्त-जम्म-फलं सिरीए 1
चेव साहियं भगवईए । जो पुण सो ससी कुवलयमालाए अबगूढो तं किंचि पुच्छिमो' । तओ भणियं सुमिण-सत्थ-पाठपहिं
3 'इव, तेण एसा वि तुह दुइया धूया भविस्सइ' ति । तओ देव-गुहणा भणियं 'देव, जुजइ एयं, जइ कुवलयमाला 3
केवला चेय दीसेज्ज मिण्णा चंदाओ, ता होज इमं । एसा पुण तं चेय मियंके अवगूहिऊण टिया, तेण एसा का वि
एयस्स राय-पुत्तस्स पुव्व-जम्म-गेह-पडिबद्धा कुवलयमाला विय सब्ब-जण-मणोहरा पिययमा होहि ति । तीए चेय
6 समालिंणिओ एस दिट्ठो' ति । भणियं च राइणा 'एयं संभाविजइ' । तओ टिया किंचि कालं विविह-णरिंद-केसरि- 6
कला-कलाव-सत्थ-विण्णाण-विजा-कहासुं । समुट्ठिओ राया कय-दियह-वावारी कय-राइ-वावारी य अच्छिउं पयसो । विपारं कले

§ ४२) अह देवी तं चेय दियहं वेत्तण लायण-जल-पवइया इव कमलिणी अहिययरं रेहिउं पयत्ता ।

७ अणुदियह-पवइमाण-कला-कलाव-कलंक-परिहीणा विथ चंदिमा-णाह-रेहा सब्ब-जण-मणोहरा जाया । तथा परिवइमाण-दाण- ७
दया-दक्खिण्ण-विजा-विण्णाण-विणय-णाणाभिमाणा सुसंमया गुरुयणस्स, पिययमा राइणो, सुपसाया परियणस्स, बहुमया
सवत्ति-सत्थस्स, दाण-परा बंधु-वग्गस्स, सुमुहा पउर-जणस्स, अणुकूला साहुयणस्स, विणीया तवस्सीणं, साणुकंपा
12 सब्ब-पाणि-गणस्स जाव गढं समुव्वइइ ति । 12

अह तीएँ डोहलो सुंदरीएँ जाओ कमेण चित्तमिम । जो जं मग्गइ तं चिय सब्बं जइ विजए तस्स ॥

संपुण्ण-दोहला सा पणहयणभहिय-दिण्ण-धण-सारा । लद्ध-रइ-प्पसरा वि हु सुपुरिस-गढं समुव्वइइ ॥

16 § ४३) सब्बहा महा-पुरिस-गढं समुव्वहिउमाढत्ता । कहं । 16

अंतो-णिहित्त-सुपुरिस-मुणाल-धवलुच्छलंत-जस-णिवहो । धवलेइ व तीएँ फुडं गढं-भरापंडु-गंडयले ॥

मंदर-गिरि-वर-गरुयं तमुव्वहंतीय भार-खिण्णाए । अलसायंति अलंबिय-मुणाल-मउयाइँ अंगाइँ ॥

18 तुंगं समुव्वभइयरं तीय वहंतीय अप्पणो गढं । सामायंति मुहाइँ ऊणिस-गहियाण व थणाण ॥ 18

आपूरमाण-गढंभा अणुदियहं जइ पवइए देवी । तह सरय-जलय-माल व्व रेहए पुणयंदेण ॥ एते मते

11 अह देल-थवणं पि कयं संमाणिजंत-गुरुयणं रम्मं । णच्चिर-विलासिणीयण-जण-णिवहुइाम-पूरंतं ॥

21 अह तिहि-करणमिम सुहे णक्खत्ते सुंदरमिम लग्गमिम । होरासुइ-मुहासुं उच्च-स्थाणमिम गह-चके ॥ 21

वियसंत-पंकय-मुहो कुवलय-कलिया-दुरंत-णयण-जुओ । सरय-सिरीए सरो इव जाओ रुहरो वर-कुमारो ॥

§ ४४) अह तमिम जाय-मेत्ते हरिस-अरिजंत-वयण-कमलाणं । अंतउर-विलयाणं के वावारा पर्यट्टेति ॥

24 'हला हला पउमे, विरएसु मरगय-मणि-सित्ति-त्थलुच्छलंत-कसिण-किरण-पडि प्फलंत-वहलंभयार-पत्थार-रेहिरे मणि-पईवय- 24
णिहाए । पियसहि पुरंदरत्ते, सयं चेव किं ण पडियगसि सयल-भवण-सित्ति-संकंत-कंत-चित्तयम्म-संकुलाओ पोण्णिमायंद-

रिंछोलि-रेहिराओ मंगल-दप्पण-मालाओ ति । हला हला जयसिरी, किं ण विरएसि सरय-समय-ससि-दोसिणा-मऊहोहा- ५५

27 मिय-सिय-माहूपे महाणील-कोटिम-तलेसु णलिणी-दलेसु धवल-मुणालिया-णिवहे व्व भूइ-रक्खा-परिहरंतए । पियसहि 27

हंसिए, हंसउल-पक्खावली-पम्ह-मउइयं किं ता ण गेणहसि चामरं । वयंसि सिद्धत्थिए, गोर-सिद्धत्थ-करंबियाओ दे विरएसु 28

अहिणवक्खय-णंदावत्त-सयवत्त-पत्तलेहाओ । तुमं पुण सुहइए, रिउ-सुहइ-करि-वियड-कुंभयड-पाडण-पडुं गेणहसु बालयस्स

30 देवीए य इमं रक्खा-मंडलगं' ति । 30

1) J तेणयरस, P व for चंद, J om. वंसणस्स, P साइइ, J om. ति, J राइणो, J जम्महलं. 2) P भगवतीए, P अवऊढो
P किंणि, P गुविमणयपसत्थ. 3) J देवत्तेणं P देवत्तण, P तुह दइया, J जुजए. 4) J दिसेज्ज, P एसा उण, P चेयं, J मियंके
P मियंका, J ट्टिया. 5) P उत्तस्स, P मणहरा, P होहिइ ति, J writes ति twice, P चेव. 6) P om. एस, P संभारिजइ, P
कंपि for किंचि. 7) P कहासु, P राईवावारी. 8) P चेव, P अहयवर. 9) J परियइमाण. 11) J सत्थरस य दाण, P
वरा for परा, P समुहा, J साधुअणस्स. 12) J पाणिअणस्स, J om. ति. 13) P दोहलो, J सुंदरीय. 14) P संपत्तदो,
'भइय, P -पसरा, P सपुरिस. 15) J तथा for महा, J कह. 16) J जहा (for जस) corrected as मह, J तीय, J
J 'वंदुगण्डभले P वंडगंडयरे। 17) P om. 'य, J मउआइँ P समउयाइँ. 18) P अत्तणो, P भूनिय for ऊणिस. 19) J
P आऊरमाण, P हे देवी, P जलइ. 20) P फलद्वणं व कयं सामाणिजंत. 21) P सुहो, P भग्गंमि, P होरासुइसुहासुं उच्चस्था-
णमि गहसत्थे. 22) P -फुरंत, P रुहरो अह कुं, J has three letters after कुमारो ॥ which look like the Nos.
६ and ३ with छ in the middle. 23) P बहु for के, P पवट्टेति. 24) J 'त्थलुच्छलंतकिरण, J मणिमईवय. 25) J
P निवहे, J पुरंदरयत्ते, J -भुअण, P कंति-, J चित्तयम्मस्स संकुला. 26) P रंछोलि, P जयसिरी, J ससिणासऊहोहामियमाहूपे।
27) P -लएसु for तलेसु, J om. णलिणीदलेसु, J मुणालिया इव्व, J भूई. 28) J हंसिए, P मऊयं, P किन्न for किं ता ण,
J तु सुरदेहा for दे, J has a marginal note in a later hand: किं न विरएसि रक्खापुट्टलियाओ । पाठांतरं. 29) J
J 'खयणंदावत्ता, J om. सयवत्त, P वियारण for वियड, P पडुयं for पडु.

1 § ४५) इय जा विलासिणियणो पडिहारीए गिउंजए ठाणे । वद्धाविया सरहसं उद्धावह ता गरिदस्स ॥ कइं । 1

8 रहसुहाम-विसंदुल-गमणं गमण-खलंत-सुणउर-चलणं । 3

चलण-चलंतुत्तावल-हिययं हियउत्तावल-फुरिय-णियंबं ॥ 3

फुरिय-णियंब-सुवजिर-रसणं रसण-विलग-पभोहर-सिचयं । 3

सिचय-पडंत-सुलजिर-वयणं वयण-भियंकुजोइय-भवणं ॥ ति । अवि य । 3

6 विथय-णियंब-गुरु-भार-मंथरुवहण-खेय-सुटिया वि । उद्धावह णरवइणो विलया वद्धाविया एका ॥ 6

ताव य सा संपत्ता णरवइणो वास-भवणं । भणियं च णाए 'देव, पियं पियं णिवेएमि सामिणो, सुहं-सुहेणं वो देवी संपयं 6

कुमारं पसूय' ति । ताव य राइणो पियंवइया-वयण-परितोसर-रस-वस-रोमंभ-कंसुओवहण-समूससंत-भुयासु सविसेसं गाड- 6

9 इए वि समोयारिऊण सयं चेव विलएइ पियंवइयाए कडय-कंठय-कुंडलाइए भाहरण-णिहाए । समाइट्टं च राइणा वद्धावणयं । 9

आएसाणंतरं च, 9

पवण-पहय-भीसणुवेळ-संचल-मच्छ-च्छडाघाय-मिजंत-गंभीर-धीरुच्छलंताणुसहाभिपूरंत-लोयंत-संखुद्ध-कीलाल-णाहाणुवोसं 12

समुद्धाइयं तुर-सइं [तहा] ॥ 12

पवर-विलय-हत्थ-पम्मुक्क-गंधुदुरुदुवमणुलसंतेण कप्पूर-पूरुच्छलंतेण कथूरिया-रेणु-राएण संछण-सूरं दिसा-मंडलं तक्खणं 12

चेय तं रेहिरं राइणो मंदिरं । 12

16 मय-रस-वस-धुमिरं णच्चमाणेण पीण-स्थणाभोग-घोलंत-हाराण तुइंत-मुत्तावली-तार-मुत्ता-गलंतेक-विंदु 16

व्व लायणणयं ॥ 16

सरहस-विलया-चलंतावडंतेहिं माणिक-सारंतराणेउरेहिं तहा तार-तारं रणंतेहिं कंची-कलावेहिं ता किंकिणी-ताल-माला- 16

18 रवारद्ध-गंधव-पूरंत-सइं दिसा-मंडलं ॥ अवि य ॥ 18

णच्चंत-विलासिणि-सोहणयं मलहंत-सुखुजय-हासणयं । गिजंत-सुसुंदर-मणहरयं इय जायं तं वद्धावणयं ॥ 18

§ ४६) तावय खग्गागा-धारा-जलण-जालावली-होमियाइं णीसेस-डइं वइरि-विस-सुटुमंकराइं ति । तेण णथि 21

21 बंधणं । तह वि विमुक्काइं पंजर-सुय-सारिया-सउण-सत्थाइं । दिजंति मय-जलयलिय-बहल-परिमलाय-धियालि-गुंजंत-कोव- 21

गुलेगुलेंताओ वियरंत-महामाथंग-मंडलीओ । पणामिजंति सजल-जलय-गंभीर-सइं हेसा-रवहं हसंतीओ इव दरिय-वर-तुरय- 21

24 वेदुर-मालाओ । उवणिजंति महासामंताणं गुरु-चक्क-गेमी-घणघणाराव-बहिरिय-दिसिवहाओ हारि-रहवर-णियर-पत्थारीओ । 24

24 समपिजंति सेवयाणं महापडिहारेहिं गाम-णयर-खेड-कब्बड-पट्टणाणं पत्तलाओ ति । अवि य । 24

सो णथि जस्स दिजइ लक्खं ऊणं च दिजए णय । तह णरवइणा दिणं जह गेणहंत चिय ण जाया ॥ 24

तह वि दिजंति महामणि-णिहाए, विक्खिपिजंति थोर-मुत्ताहले, अवमणिजंति तुगुल्य-जुवलए, उज्जिजंति रलय-कवलए, 27

27 फालिजंति कोमले णेत्त-पट्टए, णियंसिजंति चित्त-पडिणिहाए, पक्खिविजंति सुवण्ण-चारिमे, पसाहिजंति कडय-कौडले, 27

अवहथिजंति कणय-कलधोय-थाल-संकरे, कणच्छिजंति वाम-लोयण-इंत-कडच्छिणहिं दीणार-णाणा-रूवय-करंबय-कयारुक्केर 27

ति । अवि य । 27

30 तं णथि जं ण दिजइ णूणमभावो ण लडभए जं च । ण य दिजइ ण य लडभइ एकं चिय णवर दुव्वयणं ॥ 30

णच्चइ णायर-लोओ हीरइ उवरिल्लयं सहरिसाहिं । अण्णोण्ण-बद्ध-रायं रायंगणयमि विलयाहिं ॥ 30

1) J विलासिणीओ P विलासिणी य लेणो, P पडिहारी निउंजए ठाणे, P उद्धावह ता, J om. कइं. 2) P सुहाम P चरण. 3) J हिययुत्ता. 4) P सुलजिर. 5) P कुज्जाविय. 6) P वद्धावह. 7) P य संपत्ता स नरं, J पियं only once, P cm. वो. 8) J पम्मुक्क, J राइणा, J 'तोसवसरसरो', P भुयासविसेपमाइए वि समोआयरि. 9) J विलइए J om. कडयकंठयकुंडलाइए, P निवहाए. 11) P भीसणुवेळसंसमच्छुत्थटा, P मिजंतगंभीरवीरं. 13) J विलया, J प्पमुक्क P पमुक्क, J माणहसंतेण, J om. कथूरियारेणुराएण. 14) P रेहिरं राइणा. 15) J मयवसरस, P नच्चमाणेण, P 'भोयघोलंत. 16) J विक्खिपइ. 17) P वडन्ना for चलंता, P सारंतरं, J किंकिणि, P ताला. 19) P सुसुंदरमणुहरयं. 20) P खग्गागागा, P भोमियाइं, P इडाइं, P कुराए वि. 21) P तहा वि विमुक्काइं पंजरि, P जलोआलिय, P कोवगुणेंताउ विय मत्तमहा. 22) J जलयर, P सइंसारवहसंतीओ. 23) P उवणिजंत. 24) P पडिहारेहिं गामानयर. 25) P जहा, J गेणहंत. 26) P विक्खिपइ, P कंबलय. 27) J कोमल, P नेत्तपट्टए तियसिजंति, P चित्तवडि, P सुवण्णचारिमे. 28) P कणयकणाहायथालसंकरे, J 'रुक्केरोत्ति P कयारुक्केवंति. 30) P जिजइ, J मभावे, J एकधिय, P नवरि.

1 § ४७) जावय एस बुसतो तावय राहणा सहाविओ सिद्धत्थ-संवच्छरिओ । आपसाणंतरं च समागतो धवल-जुवलय- 1
 2 णियंसणो वंदिया-सिद्धत्थ-रोयणा-रहरि-सुह-मियंको हरियाल-हरिय- (हरियाले फुडं दुब्बंकरं) पवित्तुत्तमंगो । आंगत्तण य उण्णा-
 3 मिव-दाहिण-करयलेणं सत्थिकारिओ राया, वद्धाविओ पुत्त-जम्म-भुदणं । उवविट्ठो य परियणोवणीए आसणे ति । तओ 3
 4 भणियं राहणा 'भो भो महासंवच्छर, साह कुमारस्स जम्म-णक्खत्तस्स गहाणं दिट्ठि' ति । संवच्छरेण भणियं 'देव, जहाणवसे 3
 5 ति, णिसुणेसु संवच्छरो एस आणंदो, उवू सरय-समओ, मासो कत्तिओ, तिही विजया, वारो बुहस्स, णक्खत्तं हत्थो,
 6 रासी कण्णो, सुकम्मो जोगो, सोम-ग्गह-णिरिक्खियं लमं, उच्च-ट्टाण-ट्टिया सव्वे वि गहा । उड्ड-मुहा होरा, एक्कारस-उण-ट्टिया 6
 7 सुहयरा पाव-गहय ति । अवि य ।

गह-रासि-गुणम्मि सुहे जाओ एयम्मि एरिसे जेण । होइ कुमारो चक्की चक्कि-समो वा य राय' ति ॥

9 § ४८) अह णरवहणा भणियं 'अहो महासंवच्छर, काओ रासीओ के वा रासि-गुण ति, जं भणसि एरिसे रासि- 9
 10 गुणम्मि जाओ कुमारो' ति । भणियं संवच्छरेणं 'देव, रासीओ तं जहा । मेसो विसो मिट्ठुणो कक्कडो सिंघो कण्णो तुलो 9
 11 विच्छिओ धणू मगरो कुंभो मीणो ति । एयाओ रासीओ, संपयं एयासु जायस्स गुणे पुरिसस्स महिलाए वा णिसामेह ।
 12 मेसस्स ता वदंते । 12

णिच्चं जो रोग-भागी णरवह-सयणे पूहओ चक्खु-लोलो, धम्मत्थे उज्जमतो सहियण-वलिओ ऊरु-जंघो कयण्णू ।

सूरो जो चंड-कम्मे पुणरवि मउओ वल्लहो कामिणीणं, जेट्ठो सो भाउयाणं जल-णिच्चय-महा-भीरुओ मेस-जाओ ॥

16 अट्टारस-पणुवीसो चुको सो कह वि मरह सय-वरिसो । अंगार-चोहसीए कित्थिय तह अड्ड-रत्तम्मि ॥ १ ॥ 16

भोगी अत्थस्स दाया पिड्डल-गल-महा-गंड-वासो सुमित्तो, दक्खो सच्चो सुई जो सललियं-गमणो दुट्ट-पुत्तो कलत्तो ।

तेयसी भिच्च-जुत्तो पर-जुवइ-महाराग-रत्तो गुरुणं, गंडे खंधे व्व विण्हं कुजण-जण-पिओ कंठ-रोगी विसम्मि ॥

18 चुको चउपयाओ पणुवीसो मरह सो सयं पत्तो । मगसिर-पहर-सेसे बुह-रोहिणि पुण्ण-खेत्तम्मि ॥ २ ॥ 18

मिट्ठणू चक्खु-लोलो पडिवयण-सहो मेहुणासत्त-चित्तो, कारुण्णो कण्ण-वाही जण-णयण-हरो मज्झिमो कित्ति-भागी ।

गंधव्वे णट्ट-जुत्तो जुवइ-जण-कए भट्ट-छाओ धणइओ, गोरो जो दीहरंगो गुण-सय-कलिओ मेहुणे रासि-जाओ ॥

21 जह किर जलस्स चुकह सोलस-वरिसो मरेज्ज सो उसीती । पोसे मिगसिर-वारो बुहम्मि जलणे जले वा वि ॥ ३ ॥ 21

रोगी सीसे सुबुद्धी धण-कणग-जुओ कज्ज-सारो कयण्णू, सूरो धम्मेण जुत्तो विबुह-गुरु-जणे भत्तिमंतो किसंगो ।

जो बालो दुक्ख-भागी पवसण-मणसो भिच्च-कजेहिं जुत्तो, खिप्पं-कोवी सधम्मो उदय-सत्ति-समो मित्तवंतो चउत्थे ॥

24 जह कह वि वीसओ सो चुकह पडणस्स जियइ सो उसीती । पोसे मिगसिर-सुके राईए अड्ड-जामम्मि ॥ ४ ॥ 24

माणं-माणी सुखंती गुरुयण-विणओ मज्ज-मास-पिओ य, देसादेसं भमंतो वसण-परिगओ सीय-भीरु किवालू ।

खिप्पं-कोवी सुपुत्तो जणणि-जण-पिओ पायडो सव्वलोए, सिंघो जाओ मणूसो सुर-गिरि-सरिसो णाण-विज्जाण पुज्जो ॥

27 जह जीवह पंचासो मरह वसंते सएण वरिसाणं । णक्खत्तम्मि मघासुं सणिच्छरे पुण्ण-खेत्तम्मि ॥ ५ ॥ 27

धम्मिट्ठो बुद्ध-भावे धण-कणग-जुओ सव्व-लोयस्स इट्ठो, गंधव्वे कव्व णट्टे वसण-परिगओ कामिणी-चित्त-चोरो ।

दाया दक्खो कवी जो पमय-जण-कए छाय-भंसेण जुत्तो, इट्ठो देवाण पुज्जो पवसण-मणसो कण्ण-जाओ मणूसो ॥

30 सत्थ-जलाणं चुको तीसह वरिसो जिएज्ज सो उसीती । मूलणं वइसाहे बुह-चित्ता-पुण्ण-खेत्तम्मि ॥ ६ ॥ 30

तओ देव, एरिस-गुण-जुत्तो रायउत्तो । एसो ण केणह पाव-गहणेण णिरिक्खिओ, तेण जहा-भणियं रासि-गुण-वित्थरं पावह ।

जेण सुह-गुण-णिरिक्खिओ तेण अच्चंत-सुह-फलोदओ भवइ' ति ।

1) P om. सिद्धत्थ, J om. च, J आगतो P समागतो, P धोयधवलंसुय- for धवल etc. 2) J वंदिया, P सिद्धरोवणा, J हरिताल हरिआले फुडं दुब्बंकरं । अविचुत्तं P हरियालहरियहरियालिया फुडं कुरु पवित्तुत्तं, P एत्तामिय. 3) J वणिप. 4) P जहाणवसे ति. 5) P संवत्सरो, P उज, P कत्तिगोत्तिही, P बुद्धवारो for बुहस्स. 6) J सुकम्मो, P निरक्खियं, P सव्वगहा, P-ट्टाण. 7) P-ग्गह ति. 8) J चक्कीममो जहा राय, P महाराय for राय. 10) P संवत्सरेण. 11) P विच्छिओ, P ति । अवि य । एसो उ रासीओ 12) P जा for ता. 13) P धम्मत्थिय, J सहियणवलिओ P म देणव-वलिओ. 14) J कम्मो, P जो for सो. 15) J ॥ छ ॥ P ॥ १ ॥. 16) P लद्ध for दुट्ट. 17) P तेजस्सी, P जुयइ, J कण्णे खेदे व for गंडे etc., P विध for विण्हं. 19) P मिट्ठुणो, J मेहुणासत्तु-, P नयणधरो. 20) J कूप for जुत्तो, P भट्ट-, JP छाओ. 21) P जम्मस्स, JP सो सीतो (अवग्रह is put here because J puts it once below), P मिगसिर. 22) P कणय-, P भत्तिवंतो. 23) P लिच्चं for खिप्पं, P सुधम्मो. 24) P किर जम्मस्स for कह वि वीसओ सो, P पडमेस्स, P सो सीति ।, P पत्तो for पोसे. 25) J मांस, P परिगतो. 26) P सिंघो जाओ, P गिरिसुर-, P नामपेज्जेण for णाणविज्जाण. 27) J वसंतोसतेण. 29) J दक्खेक्खिओ, J छायाभंसेण, P मणुस्सो. 30) J जएज्ज सोउसीती (note J uses अवग्रह here) P सोसीही, J वेसाहे, P बुहचित्ता. 31) P गुणो for गुणजुत्तो, J om. रायउत्तो, P निरक्खिओ, J य for जहा, J रासी- 32) P निरक्खिओ, P हवउ for भवइ.

- 1 § ४९) भणियं च राहणा 'अह केण एस एरिसो गुण-वित्यरो भणियो' ति । भणियं च संवच्छरिण 'देव, आसि 1
किर को वि सच्चण्णु भगवं दिव्व-णाणी, तेण एयं सुस्सिमाणं साहियं तेहि वि अण्णेसि ताव, जाव वंगाल-रिसिणो । संपयं
3 तेहिं एयं भणियं । तेण एयं वंगाल-जायगं भणण्ह' ति । भणियं च राहणा 'सुवरं एयं, ता सेसं पि उदाहरणं गिसुणेमि' 3
त्ति । संवच्छरेण भणियं 'देव गिसुणेसु ।
अत्थागे रोसमंतो फुड-वियड-वओ सोय-दुक्खाण भागी, पत्तटो जो वणिज्जे गिय-घर-महिला सूर-चित्तो विरागी ।
6 देवाणं भत्तिमंतो चिर-सुहिय-महा-मित्त-वच्छल्ल-जुत्तो, गिच्च-क्खंती-पवासो चल-गयण-धणो बाल-भावे तुलम्मि ॥ 6
कुड्डीणं चुक्को वीसह-वरिसे मरेज्ज सो सीती । जेट्ठे सिव-खेत्तम्मि य अणुराहंगार-दियहम्मि ॥ ७ ॥
कूरो जो पिंगलच्छो पर-घर-मणसो साहसा साहियत्थो, सूरु माणेण जुत्तो सयण-जणवए गिट्टरो चोर-चित्तो ।
9 बालो जो विप्प-पुत्तो जणणि-परिजणे दुट्ट-चित्तो मणूसो, भागी अत्थस्स जुत्तो पुणरवि विहलो विच्छिण होह जाओ ॥ 9
अट्टारस-पणुवीसो जइ चुक्कइ चोर-सत्थ-सप्पाणं । जेट्टम्मि सिवे खेत्ते अंगारे सत्तरो मरह ॥ ८ ॥
सूरु जो बुद्धि-जुत्तो जण-गयण-हरु सत्तवंतो य सच्चो, सिप्पी जेउण्णवंतो धण-रयण-धरो सुंदरा तस्स भज्जा ।
12 माणी चारित्त-जुत्तो सललिय-वयणो छिड्ड-पाओ विहण्णु, तेयस्सी थूल-देहो गिय-कुल-महणो होह जाओ धणम्मि ॥ 12
पढमट्टारस-दिवसे चुक्को सो सत्तसत्तरो मरह । सवणे सावण-मासे अणसणण्णं मरह सुक्के ॥ ९ ॥
सीयाल्ल दंसणीओ जण-जणणि-पिओ दास-भूओ पियाणं, चाई जो पुत्तवंतो पर-विसय-सुही पंडिओ दीह-जीवी ।
15 मण्णे कोऊहलो जो पर-महिल-रओ लंछिओ गुज्झ-भागे, गेजेसुं जुत्त-चित्तो बहु-सयण-धणो काम-विधम्मि जाओ ॥ 15
वीसह-वरिसो चुक्को सत्तरि-वरिसो मरेज्ज सूत्तेणं । भहवयम्मि य मासे सयभिस-णक्खसे सणि-दियहे ॥ १० ॥
दाया दिट्ठीएँ लोलो गय-सुरय-सणो थड्ड-दिट्ठी कयग्घो, आलस्सो अत्थ-भागी करयल-चवलो माण-विजाहि जुत्तो ।
18 पुण्णो साल्ल-कुच्छी पर-जण-धणदो गिहभओ गिह-कालं, कुंभे जाओ मणूसो अवि पित्ति-जणणी-विक्किणे सत्तिवंतो ॥ 18
सो चुक्को वग्घाओ अट्टारसओ जिण्णु चुलसीति । रेवइ अत्तिणमासे आइच्च-दिणे जले जाइ ॥ ११ ॥
सूरु गंभीर-चेट्टो अइपडु-वयणो सज्जणणं पहाणो, पण्णा-बुद्धी-पहाणो चल-चवल-गई कोव-जुह-प्पहाणो ।
21 गव्वेणं जो पहाणो इयर-जणवयं सेवण्णं नेय चाई, मीणे जाओ मणूसो भवइ सुह-करो बंधु-वग्गस्स णिच्चं ॥ १२ ॥ 21
देव, एए गुणा थिरा, आउ-प्पमाणं पुण काल-भेएणं जं सुयं ति भणियं । तं तिण्णि पछाइं, दुवे पळे, एक पळे, पुव्व-कोडीओ,
पुव्व-लक्खाइं, वास-कोडीओ, वास-लक्खाइं सहस्साइं सयाइं वा । गियय-कालाणुभावाओ जं जहा भणियाइं तं तथा
24 भवंति । तओ देव, एरिसं एयं वंगाल-रिसी-णिहिट्ठं । जइ रासी बल्लिओ रासी-सामी-गहो तदेव, सव्वं सच्चं । अह एए ण 24
बलिया कूरगह-गिरिक्खिया य होति, ता किंचि सच्चं किंचि मिच्छं' ति ।
§ ५०) तओ भणियं राहणा 'एवमेयं ण एत्थ संदेहो' ति । 'ता वीसमसु संपयं' ति आइट्ठं च राहणा संवच्छरस्स
27 सत्त-सहस्सं रुवयाणं । समुट्ठिओ राया कय-मज्जणे उवचित्तो आवाणय-भूमी । सज्जिया से विविह-कुसुम-वण्ण-विरयणा 27
आवाणय-भूमी, सज्जियाइं च अहिणव-कंदोद-रेणु-रंजियाइं महु-विसेसाइं, दिण्णाइं च कप्पूर-रेणु-परिसप्पंत-धवल्लो आसव-
28 विसेसाइं, पिज्जंति अहिणव-जाई-कुसुम-सुरहि-परिमलायद्वियालि-रुयाराव-रुणरुणंताओ गिहभर-रसमुकंठियाओ सुराओ
30 ति । पाऊण य जहिच्छं संलीणो भोयणत्थाणि-मंडवं । तत्थ जहाभिरुद्धयं भोत्तूण भोयणं उवगओ अत्थाण-मंडवं ति । एवं 30

1 > J पुण for एस, P संवत्सरेण, J om. देव. 2 > J कोइ, J भगवान् P भयवं, P सुसीसाणं, P साहितेण अण्णेसि, P वंगालं. 3 > P om. एयं, P वंगाल एयं जायगं भण्ह ति, J om. ति, P सिसं, J उदाहं. 4 > J om. ति, P संवत्सरेण. 5 > P अत्थोणे, P फुडवयणवन्तो, J रओ for वओ, P सोग-, P जो सविज्जो. 6 > P भत्तिवंतो, P सुहिय-, P निच्चंक्खंती. 7 > P कुड्डीदीणं, P वीसनिवरिमो, J सीतो P सीओ, J स for य, P अणुरायंगण, J गारा-. 8 > J कूरोज्जो, P om. घर, J सातिभत्थो. 9 > P विय for परि, P मणुस्सो, P जुत्तो for पुत्तो. P विच्छिण. 10 > J अट्टारसं, P जेट्टम्मि व सिवखेत्ते. 11 > P धणो for धरो. 12 > J छिड्ड (डु?) पाओ, P भावो, P होति जाओ धणुमि. 13 > P -दियहे, J मरति, P सुक्को. 14 > P कुज्जणजणपिओ, J चाइत्तो पुत्तं, P परवसय. 15 > P मळे कोऊहले, J कोतूहलो, P भावे for भागे J बहुजणसुधणो होह मगरम्मि l, P कामविधेमि. 16 > P वीसति, P सत्तरिवासो, J णक्खत्त P तक्वत्ते, P दियहो. 17 > J दिट्ठीय लोलो, P -णसणो धड्डदिट्ठी. 18 > P धणओ, P मणुस्सो, J जणणो णिक्खिवो सत्तवंतो. 19 > P धम्माओ for वग्घाओ, P रेवति, P दिण जले जाइं. 20 > P सूरु, J गंभीरकोट्टो, P अतिपडवणो सेज्जं. 21 > J P सेवते, P मणुस्सो, P सुहयरो. 22 > P एते, J थिरा for थिरा, P सतंति for सुयं ति, P दुव्वे for दुवे, J दुवे पळे पुव्वं. 23 > P om. वासकोडीओ, J सहस्सा सयाइं, P तं for जं. 24 > P भवंति ति, P om. एयं वंगालरिसी, P रासिचलिओ रासीसामीगहो, J तदेव P ता देव, P ते for एए. 25 > J कूरगह, P निरिक्खिया, J om. य. 26 > P तओ राहणा भणियं, P om. एवमेयं. 27 > J सयसहस्सं, P विरयणी. 28 > P om. च, J परिअपंत P धरपंत, P आसविसेसाइं पिज्जह. 29 > P कुमयसुरद्विपरि, J om. रुया P रुया, J रुणुह, J गिहभरंठियाओ. 30 > P पाऊणयं, P अलीणो for संलीणो, J भोअणत्थाणमण्डवं ति एवं च P मंडवंमि.

1 च विविह-खज-वेज-दाण-विष्णान-परियणालाव-कहासुं अहकंतो सो दियहो । एपुणं चैय कमेणं सेस-दिवसा वि ताव जाव 1
संपुण्णो बारसो दियहो । तथ राहणा सदाविया वास-महारिसि-समा महा-बंभणा । संपूहउण भणियं राहणा 'एयस्स 1
३ बालस्स किं णामं कीरउ'ति । तेहिं भणियं 'जं चैय महाराहणो रोयह'ति । भणियं राहणा 'जह एवं ता णिसामेह 3
दियाहणो ।

कुवलयमाला चंदो दोणिण वि दिट्ठाई जेण सुमिणम्मि । णामं पि होउ तम्हा कुवलयचंदो कुमारस्स ॥

6 जेण य सिरीए दिण्णो गुरु-साहस-तोसियाए रहुसेणं । सिरिदसो ति य तम्हा णामं बिहयं पि से होउ ॥' 6

§५१) एवं च कथ-णामधेओ पंच-धाई-परिक्खित्तो अणेय-णरवह-विलया-सहस्स-धवल-लोयण-माला-कुमुय-वण-संड- २५५
मुद्ध-मियंकओ विय वड्डित्तं पयत्तो । अवि य ।

9 हत्थाहत्थिं घेप्पह पिजह णयणेहिं वसह हिययम्मि । अमयमहओ व्व वड्डिओ एसो णूणं पयावइणा ॥ 9

अह ललियक्खर-महुरं जं जं कुमारस्स णीइ वयणाओ । सुकह-भणियं व लोए तं तं चिय जाह वित्थारं ॥ किं बहुणा, 9
चंक्रमिएहिं तह पुलहएहिं हसिएहिं तस्स ललियएहिं । चरिएहिं राय-लोओ गयं पि कालं ण लक्खेह ॥

अणुदियह-वड्डमाणो लायणोयर-समुह-णीसंदो । अट्ट-कलो व्व मियंको अह जाओ अट्ट-वरिसो सो ॥ 12
अह तिहि-करणम्मि सुहे णक्खत्ते सुंदरम्मि लगम्मि । सिय-चंदण-वासहरो लेहायरियस्स उवणीओ ॥
जत्थ ण दीसइ सरो ण य चंदो णेय परियणो सयलो । तम्मि पएसम्मि कयं विज्जा-धरयं कुमारस्स ॥

15 लेहायरिय-सहाओ तम्मि कुमारो कलाण गहणट्टा । बारस वरिसाई ठिओ अदीसमाणो गुर्यणं ॥ 15
अह बारसम्मि वरिसे गहिय-कलो सयल-सत्थ-णिम्माओ । उकंठियस्स पिउणो णीहरिओ देव-धरयाओ ॥

तो कय-मज्जोवयारो धोव-धवल-हंसगभ-णियंसणो सिय-चंदण-वच्चिय-सरीरो सुपसत्थ-सुमण-माला-धरो णियय-वेस-सरिस-
18 पसाहण-प्पसाहिय-गुरु-जण-मगालगो आगओ पिउणो चलण-जुयल-समीवं कुमारो । उयसप्पिउण य गरुय-सिणेह-णिभ- 18
रुकंठ-पूरमाण-हियय-भर-गरुहएण विय कओ से राहणो पणामो । तओ राहणा वि असरिस-णेह-चिर-विरह-वियंभमाण-बाह-
जल-णिभर-णयण-जुवलएणं पसारिय-दाहिण-बाहु-दंडेण संलत्तं 'उवज्जाय, किं अभिगओ कला-कलाओ कुमारेण ण व'
21 ति । भणियं च उवज्जाएण 'देव, फुडं भणिओ, ण गहिओ कला-कलाओ कुमारेण' ति । तओ राहणा गुरु-वज्ज-पहार- 21
णिहउइलिय-कुंभत्थेण विय दिसा-कुंजरेण आउड्डिय-थोर-दीहर-करेण भणियं 'कीस ण गहिओ' । उवज्जाएण भणियं
'देव, मा विसायं रोणह, साहिओ जहा ण गहिओ' ।

§५२) 'आसि किर एत्थ पदम-पत्थिवो कय-धम्मामहम्म-अवत्थायारो भयवं पयावई । तेण किर भरह-णरिंद-प्पमुहस्स 24
णियय-पुत्त-सयस्स साहिओ एस कला-कलाओ । तेहिं वि महा-मईहिं गहिओ । तओ तेहिं वि अण्णोण-णियय-पुत्त-णत्तुयाणं ।
एवं च देव, कमेण णरणाह-सहस्सेसु रायपुत्त-सएसु राय-कुमारिया-णिवहेसु य महामईसु संचरमाणो पारंपरेण एस कला-
27 कलाओ एयं कालंतरमुवागओ । तओ अणुदियहं हाणीए कालस्स ण कोइ तारिसो कला-कलाव-नाहण-धारण-समत्थो एत्थ 27
पुइइ-मंडले अत्थि ति । तओ देव, असरणेण पत्थीण-कुल-वंस-णाहेण दुस्सील-महिला-सत्थेण विय कला-कलावेणं चैव संपयं
सयंवरं गहिओ कुमारो ति । तेण णाह, भणिओ ण गहिओ कुमारेण कला-कलाओ' ति । तओ सविसेस-जाय-पहरिसेण
30 गहिओ कुमारो राहणा, ठविओ य उच्छंओ, उवउढो य णेह-णिभरं, चुंभिओ उत्तिमंओ, पुच्छिओ य 'पुत्त कुमार, कुसलं 30
तुह सरीरस्स' । तओ सविणय-पणउत्तमंओण 'देवस्स चलण-दंसणेणं संपयं कुसलं' ति संलत्तं कुमारेण ति । भणियं च
राहणा 'उवज्जाय, काओ पुण कलाओ गहियाओ कुमारेण' ति । उवज्जाएण भणियं 'देव, णिसुणिजंतु । तं जहा ।

1) P दिवसो एतेणं चैव, P सेसदियहा. 2) P महारिसि, P महावंतणा, P भणिया. 3) P चैव मं महा, J एयं for एवं
5) P कुवलयमाला चंदो कुमारस्स for the entire verse कुवलयमाला etc., J नामंमि. 6) P जेणे य सिरीय, P रहसेणा,
सिरिपुत्तो वि य, P सीयं for बिहयं. 7) P किय for कय, P धाई, P आणेइनरवई. 9) P हत्थाहत्थाहत्थं, P अमहम, P पयावइणो.
10) P वयणीओ, P च for व, P वित्थरमुवेह for जाह वित्थारं. 11) J चंक्रमिएहिं P वक्रमि. 12) P वट्टमाणो
लायणोयर. 13) J वासधरो. 14) परियणे सयणे, P विज्जाहरहं. 15) P वासाई for वरिसाई, J ट्टिओ, P असीसमाणो.
16) P बारसमे, P कला. 17) P धोयधवल, P गभिमि, J सुपसत्थो, P समणमालाहरो, J णियपवेस, P सरियस. 18) J
पसाहणसमाहियगुरुणमग्गा, J om. जुयल, J कुमारो ति उवस, P om. य, P गरुय, J णिभरकंठ P निभररुकंठा. 19)
P हिययभगण ति य. 20) P संलत्तत्तम्, P गहिओ for अभिगओ, J कुमारेण ति य । 21) J कलाओ, P पहरनिहलियकुमं.
22) J रेण विय आउड्डियं, P om. थोर, P दीह for दीहर, P कीस न कहिओ. 23) J जह for जहा, J गहिआओ. 24) J
पत्थिवो P पदमरिथवो, P धम्म for हम्म, J हम्मधवत्थारो, P पमुहस्स तिययस्स साहिओ. 25) P तेहिं मिचेहिमिमहामइगहिओ,
P तेहिं मि अज्जाणनियय. 26) P नरनाह ससोसुरायउत्त, P महामइसु, J परंपरेण, J एक for एस. 27) J एवं for एयं
J सुवगओ, P न कोइ, P धारणा. 28) P दुसील, P कलावे य संपयं. 30) J om. उवउढो य. 31) J पणउत्त,
P सविणसंपणामिओ उत्तिमंओण, P कुमारेण ति. 32) P उण for पुण, J णिसुणेज्ज तुमं for णिसुणिजंतु.

- 1 आलेखं णट्टं जोइसं च गणियं गुणा य रयणाणं । वागरणं वेय-सुई गंधर्वं गंध-जुत्ती च ॥ 1
- संखं जोगो वारिस-गुणा य होरा य हेउ-सत्थं च । छंदं वित्ति-गिरुत्तं सुमिणय-सत्थं सउण-जाणं ॥
- 3 आउजाणं तुरयाणं लक्खणं लक्खणं च हत्थीणं । वत्थुं वट्टा खेडुं गुहागयं ईदजालं च ॥ 3
- दंत-कयं तंब-कयं लेप्पय-कम्मार्हं वेय विणिओगो । कम्मं पत्त-च्छेज्जं फुल्ल-विही अल्ल-कम्मं च ॥
- घाउच्चाओ अक्खाइया य तंताइं पुप्फ-सयडी य । अक्खर-समय-णिघंटो रामायण-भारहाइं च ॥
- कालायस-कम्मं सेक्क-णिण्णओ तह सुवण्ण-कम्मं च । चित्त-कला-जुत्तीओ जूर्यं जंत-प्पओगो य ॥ 6
- वाणिज्जं मालाइत्तणं च खारो य वत्थ-कम्मं च । आलंकारिय-कम्मं उयणिसयं पण्णयर-तंतं ॥ 7
- सव्वे णाडय-जोगा कहा-णिबंधं फुडं धणुव्वेओ । देसीओ सुव-सत्थं आरुहयं लोग-वत्ता य ॥
- ओसोवणि तालुग्घाडणी य मायाओ मूल-कम्मं च । लावय-कुक्कड-जुई सयणासण-संविहाणाइं ॥ 9
- काले दाणं दक्खिण्णया य मउयत्तणं महरया य । बाहत्तरी कलाओ वसंति समयं कुमारम्मि ॥'
- § ५३) तओ भणियं राइणा 'उवज्जाय, एताणं कलाणं मज्जे कयरा पुण कला विसेसओ रायउत्तेण गइया परिणया 12 वा, कहिं वा अहिओ अन्भासो' ति । भणियं च उवज्जाएण 'देव, 12
- जं जं दावेइ कलं हेलाएँ कह वि मंथरं राय-सुओ । णजइ तहिं तहिं चिय अहिययरं एस णिम्माओ ॥ तह वि स्रोहग्ग-पठम-इंधं सयल-कला-कामिणीण मण-दइयं । सुपुरिस-सहाव-सुलहं दक्खिण्णं सिक्खियं पठमं ॥ तओ देव,
- 15 णियय-कुल-माण-पिसुणं गुरु-कुल-वासस्स पायडं कज्जं । लच्छीएँ महावासं दुइयं विणयं अदुइयं से ॥ 15
- जाणइ काले दाउं जाणइ महरत्तणं मउयया य । एक्कं णवरि ण-याणइ वेसं पि हु अप्पियं भणिउं ॥ 16
- सव्व-कला-पत्तट्टे एक्को दोसो णरिद-कुमरम्मि । पणइयण-अमित्ताण य दाउं पि ण-याणए पट्ठिं ॥'
- 18 ताव य राइणा 'सुंदरं सुंदरं' ति भणमाणेण जलहर-पलय-काल-वियलंत-कुवलय-दल-ललिय-लायण्णा वियारिया रायउत्त-18
- देहम्मि दिट्ठी । दिट्ठो य अणवरय-वेणु-वायणोगा-लगंत-लंछणा-लंछिओ महासेल-सिहर-इंतो विय तुंगो वामो अस-मिहरो ति । परंति
- तहा अणुदियह-बाहु-जुइ-जोगा समय-भुया-समप्फोडण-किण-कटिणियं दिट्ठे लच्छीय मंदिरं पिव वच्छयलं, तहा अणवरय-
- 21 धणुजंत-कट्टणा-कटिण-गुण-वाय-कक्कसं वामं भुया-फलहं, दाहिणं पि विविह-असिधेणु-अविसेस-बंधण-जोगाल-क्खिजमाण-21
- किणकियं पेच्छइ ति । तहा अणवरय-सुरय-ताडण-तरलियाओ दीह-कटिणाओ पुल्लइ अंगुलीओ ति । अणेय-णट्ट-करणंगहार-21
- चलण-कोमलाइं सेसयाइं पि से पलोएइ अंगयाइं । सिंगार-वीर-बीहच्छ-करुण-हास-रस-सूययाइं णयणाणि वि से
- 24 जिज्जाइयाइं, अणेय-सत्थ-वित्थर-हेउदाहरण-जुत्ति-सावइं वयणयं ति । अवि य । 24
- दीसंति कला कोसल-जोगा संजणिय-लंछणं पयडं । पेच्छइ सुणाल-मउयं रायगं अह कुमारस्स ॥

- § ५४) दट्टण य णेह-णिभरं च भणियं राइणा 'कुमार पुत्त, तुह चिर-विओग-दुब्बलंगी जणणी तुह दंसणासा-
- 27 विमुज्जंत-संधारिय-हियया ददं संतप्पइ । ता पेच्छसु तं गंतूणं' ति । एवं च भणिय-मेत्ते राइणा 'जहाणवेसि' ति भणमाणो 27
- समुट्ठीओ राइणो उच्छंगाओ, पयट्टो जणणीए भवणं । ताव य पहावियाओ बड्ढर-वावण-खुज्जा-वडभियाओ देवीए
- वडावियाओ ति । ताव य कमेण संपत्तो जणणीए भवणं । दिट्ठा य णेण जणणी । तीए वि चिर-विओग-दंसणाणंद-बाह-भर-
- 30 पप्पुयच्छीए दिट्ठो । समुहं उयसप्पिऊण य णिवडिओ से राय-तणओ जणणीए चलण-जुयलए । तीए वि अबयासिओ सुह-30
- सिणेह-णिभर-हिययाए, परिउंविओ उत्तमंगे, कयाइं सेस-कोउथाइं । उयारिऊण य पलोट्ठीओ से पाय-मूले दहि-फल-

- 1 > P चूट for णट्टं, P om. च, P वायरणं वेयसुत्ती. 2 > P यंखजोगो वारिसणगुणा, P वित्ती, P समयसत्थं. 3 > J आउजाणं तुरअलक्खणं, P वत्थुवट्टाखेडुं. 4 > J दंतजालं दंतकयं P दंतकम्मं तंबकम्मं, J 'कयं लेप्पयं लेप्पयक', J 'च्छेज्जं अस्स (ह्र) कम्मं च फुल्लविहिं धाउच्चायं, P फुल्लविही. 5 > P अक्खाइयाइं तं', P पुप्फसडी, J पय for समय. 6 > P सुवन्नकरणं च, J -पओगो P पपओगा. 7 > J अल्ल for वत्थ, P 'कारियं, J पण्ण for पण्णयर. 8 > J णागर for णाडय, P नाडयजोगो कहानिउदं, J लोभवत्ता P लोगजुत्ता. 9 > J ओसोवणी तालुग्घाडणी, P तालुग्घाडणा य पासाओ, P कुक्कड. 10 > P बाहत्तरी. 11 > P om. एताणं, J om. पुण, P रायपुत्तेण. 12 > P च for वा, P अन्भासो. 13 > P हेलाय विकह व, P नेज्जइ. 14 > P तदो for तओ. 15 > P नियकुलकम्मण, P लच्छीय, J महावासं, J अइदुइअं. 16 > P मडशरत्तणं समउ', P नवर न जाणइ, P वेसि पि, P अप्पियं. 17 > J पत्तट्टो, J पण्णइयण P पण्णइ पणमित्ताण, P दाउं चिय नयण एट्ठि. 18 > P om. ति, J लायण्ण. 19 > P वायणलगंतलंछण, P वासो for वामो. 20 > J जुक्कजोगो, P समलुया समप्फोडणकेण, J मंदिरयं, J वच्छयलं. 21 > P कट्टिणा, P 'ग्घायं, J वामसुआदलिहं, P मुयप्फलिहं, J असिधेणु अविसेसं, P पनेस for अविसेस. 22 > J तदा for तहा, P मुखताडण, J वलिअउ for तरलियाओ, P दीहर for दीह, J कटिणीओ, P पुल्लइ, P नट्टकरणमहावहावरलक्खण. 23 > P पि सेसयाइं से, J पुल्लइ, P अंगाइ, P बीभत्स, P सुइयाइं, P नि सेस निज्जा'. 24 > P सत्थरत्थ, J जुत्तीवयणं अत्ति, J om. अवि य. 25 > P 'सुइयं रायां अंगं कुमा'. 26 > P नेय for णेह, J णिभरं भणियं च, P विरइविउलियं for चिरविओग. 27 > P एवं भणियमेत्तो. 28 > P ताविय, P वाणणयखुज्जा. 29 > P विओय. 30 > P भरहपणुयच्छीए, J पप्पुयच्छीए, P समुहं, P om. य, P वियवयासिया, J अइ for सुह. 31 > P परिउंविओ उत्तिमंगे, J से for सेस, P om. य, J कडक्खय.

- 1 अक्षय-णियरो । तत्रो कयासेस-मंगलो परिसेस-माह-जणस्स जहारिहोवयार-कय-विणय-पणामो णिवेसिओ जणणीए णिय-
उच्छंणे । भणिओ य 'पुत्त, दढ-वज्ज-सिल्लिका-णिम्मवियं पिब तुह हिययं सुपुरिस-सहाव-सरिसं, ता दीहाउओ होहि' । 'माऊण
3 सईणं रिसीणं गाईणं देवाणं वंभणाणं च पभावेणं पिउणो य अणुहरसु' ति भणिऊणं अहिणंविओ माह-जणेणं तु । 3
- § ५५) ताव य समागओ पडिहारो णरवहणो सयासाओ । आगंतण य पायवडणुट्टिएणं विण्णत्तं महा-पडिहारोणं
'कुमार, तुमं राया आणवेह जहा किर संगाम-समय-धावण-वहण-खलण-चलण-पडिहत्थ-जोग्गाणिमित्तं थोवं-थोवेसुं चय थोवे
6 वियहेसुं णाणा-तुरंगमा आवाहिजंति, ता कुमारो वि आगच्छउ, जेण समं चेव वाहियालीए णिगच्छामो' ति । तत्रो 'जं
आणवेह ताओ' ति भणमाणेण पेसिया कुवलय-दल-दीहरा दिट्ठी जणणीए वयण-कमलम्मि । तत्रो भणियं च से जणणीए ।
'पुत्त, जहा मेहावीओ आणवेह तहा कीरउ' ति भणमाणीए विसजिओ, उवागओ राहणो सयासं । भणियं च राहणा ।
'भो ओ महासवह, उयुट्टवेह तुरंगे । तत्थ गरुलवाहणं देसु महिंदकुमारहो, रायहंसं समप्येह वोप्परायहो, रायसुयं
9 सूरसेणहो, ससं पुणं देवरायहो, मंगुरं रणसाहसहो, हूणं सीलाहसहो, चंचलं चारुदत्तहो, चवलं बलिरायहो, पवणं च
भीमहो, सेसे सेसाणं उवट्टवेह तुरए रायउत्ताणं, महं पि पवणावत्तं तुरंगमं देसु ति । अवि य
- 12 कणयमथ-घडिय-खल्लिणं रयण-विणिम्मविय-चारु-पल्लणं । तुरियं तुरंगमं देह कुमारस्स उयहिकल्लोलं' 12
ताव य आपसाणंतरं उवट्टविओ कुमारस्स तुरंगमो । जो व केरिसओ । वाउ-सरिसओ, गमणेक्क-दिण्ण-माणसो । मणु-
जहसओ, खण-संपत्त-वूर-देसंतरो । जुवह-सहाउ-जहसओ, अहणिरह-चंचलो । खल-संगह-जहसओ, अत्थियो । चोरु-जहसओ,
16 णिच्चुव्विगो ति । अवि य (खलु-णरिंद-जहसं) णिच्चुव्वेण कण्ण-जुवल्लुएणं, पिप्पल-किसलय-समेण चलचलंतेण सिर-
चमरेण, महामुरुक्खु-जहसियए खमखमंतियए गीवए, परिहव-कुविय-महामुणि-जहसएण फुरुफुरंतेण णासउडेण, महादह-
जहसएण गंभीरावत्त-मंडिएण उरत्थलेण, विमुणि-मग्गु-जहसएण माणप्पमाण-जुत्तेण मुहेण सुपुरिस-बुद्धि-जहसियए
18 थिर-विसालए पट्टियए, वेस-महिल-पेम्म-समेण अणवट्टिएण चलण-चउक्केण । अवि य ज-न-न-न-
जलहि-तरंग व्व चलं विज्जुलया-विलसियं व दुल्लकवं । गजिय-हंसा-रावं अह तुरयं पेच्छए पुरओ ॥ 18
- § ५६) दट्टण य तुरंगमं भणियं राहणा 'कुमार, किं तए णजए तुरय-लक्खणं' । ताहे भणियं कुमारेणं 'गुरु-चलण-
21 सुस्सूसा-फलं किंचि णजह' ति । भणियं च राहणा 'कहवय तुरयाणं जाईओ ति, किं वा माणं, किं वा लक्खणं, अह 21
अवलक्खणं' ति । कुमारेण भणियं 'देव, णिसुणंसु । तुरयाणं ताव अट्टारस जाईओ । तं जहा । माला हायणा कलया
खसा कक्कासा टंका टंकासा सारीरा सहजाणा हूणा सेंधवा चित्तचला चंचला पारा पारावया हंसा हंसगमणा वत्थव्वय ति
24 एत्तियाओ चेव जाईओ । एयाणं जं पुण वोलाहा कयाहा सेराहाइणो तं वण्ण-लंछण-विसेसेण भण्णइ । अवि य । 24
आसस्स पुण पमाणं पुरिसंगुल-णिम्मियं तु जं भणियं । उक्किट्टवयस्स पुरा रिसीहिं किर लक्खणणूहिं ॥ जन्म अएन
वत्तीस अंगुलाइं मुहं णिडालं तु होइ तेरसयं । तस्स सिरं कंसं तो य होइ अट्टट्ट विच्छिण्णं ॥
27 चउवीस अंगुलाइं उरो हयस्स भणिओ पमाणेणं । असीति से उस्सेहो परिहं पुण तिउणियं वेति ॥ तत्रो देव, 27
एयप्पमाण-जुत्ता जे तुरया होति सव्व-जाईया । ते राईणं रजं करंति लाहं तु इयरस्स ॥ अणं च ।
निरं रंधे उवरंधम्मि य आवत्ता णूण होति चत्तारि । दो य पमाण-णिडाले उरे सिरं होति दो दो य ॥
30 दस णियमेणं एए तुरयाणं देव होति आवत्ता । एत्तो ऊणहिया वा सुहासुह-करा विणिहिट्ठा ॥ 30

1 > J परिसमागयस्स जगस्स जहारिहोवयारा, P जणसीए उत्संमे. 2 > J वज्जले for वज्ज, P हियवयं सुपुरिस, J दीहाउयं होह. 3 > P सतीणं, J माहजणेण । ताव. 4 > P 'रो ति नरं', J णरवहसया. 5 > P om. तुमं, P महाराया for राया, P om. वहण, J om. चलण, P चंचलण परिहत्थ, P थोयथोयसुं, विरय for चय. 6 > P वाहयालीए, P तहाओ जहाणवेह. 7 > J 'वेत्ति ताओ ति, J णिनेसिया for पेसिया, P om दल. 8 > J जहाणवेह तहा, J उवागओ, P राहणा समासं. 9 > P अवट्टवेह तुरंगमे, P रायहंसु, J om. रायसुयं. 10 > J सेसं for समं, P रणसाहसहूण, J सिला, P चारुयत्तहो, P om. च. 11 > J सेसो सेसाण उवट्टवेहा, P पवणवेत्तुं. 12 > P खलणं, P 'गमं तु देय कुमारस्स य उअहि'. 13 > J उवट्टिओ, P जो ताव सो केरिसो बाओ जहसओ. 14 > J सहाउ, P om. अह, P संगो for संगइ, P अथिरओरो. 15 > P om. अवि य, J जहसेणा P जहसएण, P निच्चत्थदएणं, P जुवल्लं, P किसलजहसएणं सीसेण चलचलं, P om. सिरचमरेण. 16 > P महामुरुक्खुरुक्खुजहसिआए खमखमंतियए गीवाए, J जहसिय, P पुरुफुरंतेण, P महहहो. 17 > P विवणि, P जुत्तेण अणेण सु पुरिस', P जहसियाए थिरविलासीए पट्टीए. 18 > P महिला, P पेमं for पेम्म, P चउक्कएण. 19 > P चं for व्व, P हसारावं, J तुरिओ for पुरओ. 20 > P नज्जइ किंचि तुरंगलक्खणं । तत्रो भणियं, J om. चलण. 21 > P सुस्सूसाराहणफलं, P कह for कहवय, P om. ति, P om. वा before लक्खणं, P om. अह. 22 > P च ति for ति, P सुणेसु, J तुरियाणं, P अट्टारस, J साला for माला, P भाइला कलाया for हायणा etc. 23 > P साहजाणा, P सेंधवा, P चित्ता', P पैरा पैरावत्ता. 24 > P om. एत्ति, P वत्तलंभेणं, J भणंति for भण्णइ. 25 > J सुण for पुण, P 'गुणनिम्मयं, P कर for किर. 26 > P तेरसया, P स for य. 27 > P ऊरो, P य for प', P अस्सीति, J om. से, P om. तत्रो देव. 28 > J एयप्पमाण, P जाईओ, 29 > P व for य, J has a marginal note प्रपान उपरित्तोः possibly for the word आवत्ता, J उरं. 30 > J एते, P आवत्तो, J अहिया वा P ऊणहिया य वसुहा.

- 1 पोहूमि लोयणाण य मज्जे षोणाएँ जस्स आवत्तो । रूस्सइ अबस्स सामी अकारणे बंधु-वग्गो य ॥ 1
भुय-गयण-मज्जयारे आवत्तो होइ जस्स तुरयस्स । सामी षोडय-पालो य तस्स भत्तं ण अजेइ ॥
- 3 णासाएँ पास-लग्गो आवत्तो होइ जस्स तुरयस्स । सो सामियं च णिहणइ खलिय-पडिण् ण संदेहो ॥ 3
जाणूसु जस्स दोसु वि आवत्ता दो फुडा तुरंगस्स । खलिय-पडिण् णिहणइ सो भत्तारं रण-मुहम्मि ॥
कण्णेषु जस्स दोसु वि सिप्पीओ होति तह णुलोमाओ । सो सामियस्स महिलं दूमेइ ण एत्थ संदेहो ॥
- 6 ता देव, एते असुह-लक्खणा, संपयं सुह-लक्खणेमे णिसामेहि ति । 6
संघाडएसु जइ तिण्णिसु द्विया रोमया णिडालम्मि । जण्णेहिँ तस्स पडु दक्खिणेहिँ णिच्चं जयइ सामी ॥
उवरंघाणं उवरिँ आवत्तो जस्स होइ तुरयस्स । वड्डेइ कोट्टयारं धणं च पड्ढणे ण संदेहो ॥
- 9 बाहूसु जस्स दोसु वि आवत्ता दो फुडा तुरंगस्स । मंडेइ सामियं भूसणेहिँ सो मेहली तुरओ ॥' 9
§ ५७) जाव य एयं एत्तियं आस-लक्खणं उदाहरइ कुमारो कुवलयचंदो ताव राहणा भणियं । 'कुमार, पुणो वि सत्था सुणिहामो' ति भणमाणो आरूढो पवणावत्ते तुरंगमे राया । कुमारो वि तम्मि चैव समुदकल्लोले वलग्गो तुरंगमे ।
- 12 सेसा वि महा-सामंता केहत्थ तुरंगमेसुं, केहत्थ रहवरेसुं, केहत्थ गयवरेसुं, के एत्थ वेसरेसुं, अण्णे करहेसुं, अवरे णरेसुं, 12
अवरे जंपाणेसुं, अवरे जंगएसुं, अण्णे झोलियासुं ति । अवि य ।
हय-गय-रह-जोहेहिँ य बहु-जाण-सहस्स-वाहणाहणं । रायंगणं विरायइ क्वं पि डु मडह-संचारं ॥ अत्य-संचार-मी रुँइ
- 15 तओ उहंड-पुंडरीय-सोहिओ चलंत-सिय-चारु-चामरागय-हंस-सणाहो हर-हार-संख-फेण-धवल-णियंसण-सलिल-समोत्थओ 15
सरय-समय-सरवरो विय पयट्टो राया गंतुं । तस्स मग्गणुलग्गो कुमार-कुवलयचंदो वि । तम्मि पयट्टे सेसं पि उद्धाहयं बलं ।
- 18 रहवरा, कुंजराणं कुंजरा वि, पहाविया भीया णियय-हत्थारोहाणं ति । ताव य केरिसं च तं दीसिउं पयत्तं बलं । अवि य । 18
/ तुंग-महागय-सेलं चलमाण-महातुरंग-पवणिल्लं । णजइ उप्पायम्मि व पुडवीए मंडलं चलियं ॥
तओ फुरंत-खगयं चलंत-कुंजरिल्लयं । सुतुंग-चारु-चिंधयं फुडं तुरंगमिल्लयं ॥ १९
- 21 सुसेय-छत्त-संकुलं खलंत-संदणिल्लयं । तुडंत-हार-कंठयं पहावियं ति तं बलं ॥ 21
ओसरइ देह पंथं अह रे कहं णिट्टो सि मा तूर । कुप्पिहिइ मज्ज राया देह पसाएण मगं मे ॥
जा-जाहि तूर पसरसु पयट्ट वच्चाहि अह करी पत्तो । उच्छलिय-कलयल-रवं मग्गालगं बलं चलियं ॥
- 24 तओ एवं च रह-गय-णर-तुरय-सहस्स-संकुलं कमेण पत्तो राय-मगं । ताव य महाणइ-पूरो विय उत्थरिउं पयत्तो महा-राय- 24
मग्ग-रच्छाओ ति ।
अह णयरीएँ कलयलो परियट्टइ जिय समुह-णिग्गोसो । कुवलयचंद-कुमारो चंदम्मि व णीहरंतम्मि ॥
- 27 णीहरइ किर कुमारो जो जत्तो सुणइ केवलं वयणं । सो तत्तो च्चिय धावइ जहुज्जयं गो-गाहे व्व जणो ॥ 27
अइकोउय-रहस-भरंत-हियय-परियलिय-रुज-भय-पसरो । अह धाइ दंसण-मणो णायर-कुल-बालिया-सत्थो ॥
ताव य कुमारो संपत्तो धवलट्टालय-सय-सोहियं णयरी-मज्जुहेसं रायंगणाओ ति ।
- 30 § ५८) ताव य को वुत्तंते णायरिया-जणस्स वट्टिउं पयत्तो । 30
एक्का णियंब-गरुइं गंतुं ण चएइ दार-दंसम्मि । सहियायणास्स रूस्सइ पढमं चिय दार-पत्तस्स ॥
अण्णा धावंति च्चिय गरुय-थणाहार-भोय-सुडियंगी । णीससइ च्चिय णवरं पिययम-गुरु-विरह-तविय व्व ॥

1 > J सुआवत्ता P होइ आवत्तो ।, P आकरणे. 2 > P भुययाणे मज्जयाए, P 'त्तो जस्स होइ तु', P बालो for पालो, J सज्जइ P अज्जेति. 3 > J सामाय P णाहीए पासग्गो, P 'त्तो जस्स होइ तु', P तो for सो, P om. च, P निहणय. 4 > J चडिण्ण. 5 > P वि सिप्पीओ होति आणुलो, P दूसेइ. 6 > P मुदलक्खणा मेति निसामेइ ति. 7 > P सिघाड', J द्विता, P ता जाण for जण्णेहिँ, J बहु for पडु, P जयति. 8 > J उवरंगणं, P आवत्ता, P होति, P वड्डेइ कोट्टयारं, P पड्ढणो. 9 > P यस्स, J डुडा for फुडा, P मंडेहिँ, P भूसणाहिँ, J तुरंगो. 10 > P एयं च एत्तियं, P उदाहरइ कुमार, P पुणो बीसत्था. 11 > P समारूढो for आरूढो, P य for चैव. 12 > P om. केहत्थ रहवरेसुं, J om. केहत्थ गयवरेसुं के एत्थ वेसरेसुं. 13 > P झोलियासु ति. 14 > P वाहणाइन्नं, P वियारइ. 15 > P पुंडरीय, P चामररायहंस, J समत्थओ. 16 > J तम्मि पयट्टो, P सेसं पसेसं पि. 17 > P निद्धय, P om. णराणं, J वेगसराणं वेगसरा. 18 > P य for भीया णियय-, P इत्थिय for हत्था. 19 > P उप्पायं पिय पुहइय. 20 > P खगगयं, J om. चलंतकुंजरिल्लयं. 21 > J सदिणिल्लयं P सं gap, J तुट्टंत P उट्टंत, J पहावियं तं बलं ति P चलति for बलंति. 22 > P कुप्पिही. 23 > J रवो for रवं, J तओ (on the margin) for बलं 24 > P संपत्तं for पत्तो, J महाणइपहो. 25 > P मग्गच्छाउ. 26 > P कुमारो. 27 > P जुत्तो for जत्तो. 28 > P रहभरंति, J इय for अह. 29 > P सयलसाहिअं नयरिमग्गुहेसं. 30 > P चड्डिउपयट्टो. 31 > P न एक्का नियंबगरुयी तुंगं न, P रूस्सइ. 32 > P धावंत, P थणाभायभोय.

- 1 एका लजाप्र वरं आभिज्जह कोउएण दारदं । अंदोलह व्व बाला गयागएहिं जण-समकलं ॥
अण्णा गुरुण पुरओ हियएणं चेष णिग्गया बाहिं । लेप्पमहय व्व जाया भणिवा वि ण जंपए किंचि ॥
- 2 गुरुयण-वंचण-तुरियं रच्छा-मुह-पुलयणे व तच्छिच्छं । एकाए णयण-जुयलं सुत्ताहं व चोलोह ॥ १५५५ ॥ श्री ३
- 3 गमण-रय-खुडिय-द्वारा धणवट्ट-लुठंत-मोसिय-पयारा । अण्णा विमुंचमाणी धावह लायण-बिंदु व्व ॥
पसरिय-गईए गलिया चलणालग्गा रसंत-मण्णिरसणा । मा मा अगणिय-लजे कीय वि सहिय व्व वारेह ॥
- 4 वियलिय-कडि-सुत्तय-चलण-देस-परिखलिय-गमण-मग्गिहा । करिणि व्व सहह अण्णा कणय-महा-संकलं-दुहया ॥ १५५६ ॥ श्री ४
- 5 इय जा तूरंति वटं णायर-कुल-बालियाओ हियएणं । ता णयरि-राय-मग्गं संपत्तो कुवलयभियंको ॥
- 6 ताव य का वि रच्छा-मुहम्मि संठिया, का वि दार-देसदए, का वि गवक्खएसुं, अण्णा मालएसुं, अण्णा चोपालएसुं,
7 अण्णा रायंगणेसुं, अण्णा णिज्जहएसुं, अण्णा वेहयासुं, अण्णा कओलवालीसुं, अण्णा हम्मिय-तलेसुं, अण्णा भवण-सिहरेसुं, 9
अण्णा धयग्गेसुं ति । अवि य । श्री ५
- जसो पसरह दिट्ठी णज्जह पुर-सुंदरीण वयणेहिं । उप्पाउगम-ससि-बिंब-संकलं दीसए भुयणं ॥ श्री ६ ॥ श्री ५
- 12 तओ के उण आलावा सुठिवउं पयत्ता । 'हला हला, किं णोल्लेसि इमेणं दिसा-करि-कुंभ-विग्गभमेणं ममं पओहर-भारेणं' । 12 ॥
'सहि, दे आमुंच सुपट्टि-देसम्मि तंहुविय-सिंहडि-कलाव-सच्छहं केस-भारं' । 'अह सुत्थिए, मणयं वालेसु कणय-कवाड-अल्प
संपुड-वियडं णियंबयडं । पसीय दे ता अंतरं, किं तुह चेष एक्कीए कोउयं' । 'अह अहव्वे, उक्खुडियाए हारलयाए दारुणे
16 मा मोडियाइं कणय-तल-वत्ताइं' । 'अह वज्जा मे मुसुमूरियं कुंडलं' । 'हा भवडिय-णिग्गिणे, जियउ कुमारो । अलजिए, 15
संजमेसु धण-उत्तरिज्जं' ति । श्री ७
- 18 अह सो एसो चिय पुरओ मग्गेण होह सो चेष । कथ व ण एस पत्तो णूण एसो चिय कुमारो ॥
इय जा महिला-लोओ जंपह अवरोप्परं तु तुरमाणो । ता सिरिदत्तो पत्तो जुवईणं दिट्ठि-देसम्मि ॥ ताव य, 18
एक्कम्मि अण्णयाओ सलोणए तम्मि दीह-धवलाओ । सरियाओ सायरम्मि व समयं पडियाओ दिट्ठीओ ॥
- § ५९) तओ करिसाहिं उण दिट्ठीहिं पुलहओ कुमार-कुवलयचंदो जुवईयणेणं । श्री ८
- 19 णिहय-सुरय-समागम-राई-परिजग्गणा-किंलंताहिं । वियसंत-पाडलापाडलाहिं, काणं पि सवियारं ॥ श्री ९
- 20 दइयाणुराय-पसरिय-गंहुसासव-मएण मत्ताहिं । रत्तुप्पल-दल-रत्ताहिं पुलहओ काण वि विलक्खं ॥ श्री १०
- 21 पिययम-विदिण्ण-वासय-खंडण-संताव-गलिय-बाहाहिं । पउम-दलायंबिर-तंबिराहिं काणं पि दीणाहिं ॥ श्री ११
- 22 साहीण-दइय-संगम-वियार-विगलंत-सामलंगीहिं ॥ णीलुप्पल-मालाहिं, व ललियं विलयाण काणं पि ॥ श्री १२
- 23 इम्मि-पसरंत-कोउय-मयण-रसासाय-धुम्ममाणाहिं । णव-वियसिय-चंदुज्जय-दल-मालाहिं व काणं पि ॥ श्री १३
- 24 रहस-वलंतु-व्वेहिर-धवल-विलोलाहिं पम्हलीलाहिं । णव-वियसिय-कुंद-समप्पभाहिं सामाण जुवईणं ॥ श्री १४
- 25 दिह्दिदिलियाण पुणो पसरियमासण-कोउहलाहिं । कसणोयय-तारय-सच्छहाहिं ताविच्छ-सरिसाहिं ॥ श्री १५
- एवं च णाणा-विह-वण्ण-कुसुम-विसेस-विणिम्मविय-मालावलीहिं व भगवं अइट्टउव्वो विव विरूव-विरूविय-रूवो भोमालिओ
दिट्ठि-मालाहिं कुमारो । अवि य । श्री १६
- 30 णीलुप्पल-मालियाहिं कमल-दलेहिं सणेहयं वियसिय-सिय-कुसुमएहिं अहिणव-पाडल-सोहयं । श्री १७
'रत्तुप्पल-णिवहएहिं तह कुंद-कुसुम-सोहयं अच्चियओ णयणएहिं कुसुमेहिं व सो मयणओ ॥
- अंगम्मि सो पएसो ण्थि कुमारस्स बाल-सेत्तो वि । भुमया-धणु-प्पमुक्का णयण-सरा जम्मि णो पडिया ॥ श्री १८
- 33 तओ कुमार-कुवलयचंदं उहिसिय किं भाणिउं पयत्तो जुवइ-जणो । एकाए भणियं 'हला हला, रूवेण णज्जह अण्णो कुमारो । 33
अण्णाए भणियं 'मा विलव मुदे,

- 1) P लज्जाइ, P दारंतं for दारदं. 2) P गुरुयण, P चेष. 3) P पुलयणेण तच्छिच्छा, P तमणजलं. 4) J (ग)
मणिरयण, P रह for रय, J वट्ट, P लुठंत, P लावण. 6) P विडडिय, P खलियतुरियगमिग्गिहा, P करणि, P कणयमयं संखलं.
8) P मुहं संठिया, P दारमदेसदंतएसुं, P आलएसुं. 9) P रायासणेसुं, P कओलवासीसुं, P अमियपलेसुं for हम्मियं, P om.
अण्णा before भवण. 10) P धयग्गएसु ति. 11) J सुर for पुर, P दीसह भुवणं. 12) P om. तओ, J विंभेणं,
P om. ममं. 13) J देयासुं च, P पट्टदेसम्मि, P सुत्थिए, P कवाडसंपुडं नियंबयडं. 14) P तादे for दे ता, P णय for चेष,
P उक्खुडिया हारलया दारुणे मोडियाइं कणयवत्ताइं. 15) P वज्जा मे, P हा हा यवडिया. 16) J संजमेसु धणुत्तरिज्जयं ति.
17) P चेष for चेष. 18) P om. तु, P तुरयमाणो, J जुवईयण. 19) P धवलो. 20) J पुण पुलहओ दिट्ठीहिं,
J यणेण । अवि य । 21) P परिजग्गिणा किंलंतीहिं, J कोवं for काणं. 22) P मयण for मएण, J कोवि व for काण वि.
23) P विहत्त, J गंडण, J खलियवात्ताहिं, J काहिं for काणं. 24) P विलयंतसामलत्ताहिं, J विलयाहिं काहिं पि । 25) P
वियलियचंदुज्जल, J काहिं for काणं. 26) P पम्हलीलाहिं, J समप्पहाहिं. 27) J दिह्दिदियाण, P पसरियमासंतु
कोउयहिलाहिं, P कसिणोअत्तरेय, P ताविच्छ. 28) P अविट्टपुव्वो, P विरूववियरूवो. 30) J णीलुप्पलमालीआहिं, P विहसिय,
P कुसुमएहिं. 32) P य देसो for पएसो, J पम्मुक्का. 33) P जुवईयणो, J मए कीए भणियं. 34) P लव for विवव.

- 1 होज अणंगो जह पहरह दीण-जुवह-सथमि । एसो पुण बहरि-गइंद-दंत-सुसुमुरण कुणह' ॥ 1
अण्णेक्काए भणियं 'सहि, पेच्छ पेच्छ णज्जह वच्छत्थलाभोगेण णारायणो' ति । अण्णाए भणियं । ^{वृथक्}
- हा 3 'सहि होज फुंडं णारायणो ति जह गवल-कज्जल-सवण्णो । एसो पुण तविय-सुवण्ण-सच्छहो विहडए तेण ॥' 3
अण्णेक्काए भणियं 'कंतीए णज्जह हला, पुण्णिमायंदो' ति । अण्णाए भणियं ।
'हूँ हूँ घडह मियंको सामलि जह शिज्जह जह य मय-कलंकिल्लो । एसो उण सयल-कलंक-वज्जिओ सहइ संपुण्णो ॥'
- 6 अण्णेक्काए भणियं 'सत्तीए पुरंदरो य णज्जह' । अण्णेक्काए भणियं । ^{करुहा} 6
'ओ ए पुरंदरो खिय जह अच्छि-सहस्स-संकुलो होज । एसो उण कक्खड-बलिय-पीण-दढ-सललिय-सरीरो ॥'
अण्णेक्काए भणियं 'अंगेहिं तिणयणो णज्जह' । अण्णेक्काए भणियं 'हला हला, मा एवं अलियं पलवह ।
- 9 होज हरेण समाणो जह जुवई-धडिय-हीण-वामद्धो । एसो उण सोहइ सयल-पुण्ण-चउरंस-संटाणो ॥' 9
अण्णेक्काए भणियं 'सहि, णज्जह दितीए सूरु' ति । अण्णाए भणियं ।
'सहि सबं धिय सूरु चंडो जह होज तविय-भुवणयलो । एसो उण जण-मण-णयण-दिहियरो अमयमइओ व्व ॥'
- 12 अण्णाए भणियं 'हला हला, णज्जह सुद्धत्तणेण सामिकुमारो' । अण्णाए भणियं । 12
'सबं होज कुमारो जह ता बहु-खंड-संधडिय-दहो । रुवाणुरूव-रुवो एसो उण ककसो सहइ ॥'
इय किंचि-मेत्त-धडिओ देवाणं वि कह वि जाव मुद्धाहिं । विहडिज्जह ता बहु-सिक्खियाहिं जुवईहिं सिरिणिलओ ॥'
- 15 § ६०) ताव य कुमार-कुवलयचंद-रुव-जोव्वण-विलास-लायण्ण-हय-हिययाओ किं किं काउमादत्ताओ णायर-तरुण- 15
जुवाणीओ ति । ^{जात्राविशेष}
एका वायइ धीणं अवरा वव्वीसयं मणं छिवइ । अण्णा गायह महुरं अण्णा गाहुल्लियं पढइ ॥
- हा 18 देइ मुरवमि पहरं अण्णा उण तिसरियं छिवइ । वंसं वायइ अण्णा छिवइ मउंदं पुणो तहा अण्णा ॥ ^{एरं} 18
उच्चं भासइ अण्णा सदावइ सहियणं रुणरुणेइ । हा ह ति हसइ अण्णा कोइल-रडियं कुणइ अण्णा ॥
जह णाम कह वि एसो सहं सोऊण कुवलय-दलच्छे । सहसा विलोल-पम्हल-ललियाइं णिएइ अच्छीणि ॥
- 21 तओ कुमार कुवलयचंदस्स वि ^{वि} 21
जत्तो वियरइ दिट्ठी मंथर-धवला मियंक-लेह व्व । अच्चो वियसंति तहिं जुवईयण-णयण-कुमुयाइं ॥ ^{एरं-अरुव}
- तओ कुमार-कुवलयचंद-पुलहयाओ कं अवत्थं उवगायाओ णायरियाओ ति ।
- 24 अंगाइं वलंति समुससंति तह णीससंति दीहाइं । लज्जंति हसंति पुणो दसणेहिं दसंति अहराइं ॥ 24
दंसंति णियंबयइं विलियं पुलपंति ईसि वेवंति । अत्यक्क-कण्ण-कंहुयणाइं पसरंति अण्णाओ ॥
आलिंगयंति सहियं बालं तह सुंबयंति अण्णाओ । दंसंति णाहि-दसं सेयं गेण्हंति अवराओ ॥
- 27 इय जा सुंदरिय-जणो मयण-महा-मोह-मोहियाहियओ । ताव कमेण कुमारो बोलीणो राय-मग्गाओ ॥ ति । 27
कमेण संपत्तो विमणि-मग्गं अणेय-दिसा-देस-वणिय-णाणाविह-पणिय-पसारयाबद्ध-कोलाहलं । तं पि बोलेऊण पत्तो वेणेण चव
वाहियालिं । अवि य । ^{योईइई} ^{विमय-वहन}
- 30 सखलिय-आस-प्यसरं समुज्जयं णिव्विलिय-परिसुद्धं । दीहं सज्जण-मेत्ति व्व वाहियालिं पलोएइ ॥ 30
दट्ठण य वाहियालिं धरियं एक्कमि पदंसे सयल-बलं । णीहुरिओ पवणावत्त-तुरंगमारुडो राया, समुह-कल्लोल-तुरयारुडो
कुमारो य । ताव य ^{तरंगमार्ग} ^{रेजो} ^{कृपाव} ^{हमण}
- हा 33 धावंति वलंति समुच्छलंति वग्गंति तह णिमज्जंति । पलय-पवणोवहि-समे महि-लंबण-पच्छले तुरए ॥ 33
तओ णाऊण त्रमाणे तुरंगमे पमुक्को राइणा कुमारेण य । णवरि य कह पहाइउं पयत्ता ।
पवणो व्व तुरिय-गमणो सरो व्व दढ-धणुय-जंत-पम्मुक्को । धावइ पवणावत्तो तं जिणइ समुहकल्लोलो ॥
- 36 तं तारिसं दट्ठण उद्धाइयं बलमि कलयलं । 36

1 > P होज्जंगो, P उण. 2 > P om. पेच्छ पेच्छ णज्जह, P सहिच्छत्थलाभोगेण नज्जह णारा°. 3 > P गवलस्स वज्जो.
4 > P पुण्णिमायंदो. 5 > P जय अमय, P सयलं. 6 > J om. य. 7 > P होज्जा. 8 > P नज्जत्ति, P पलवह अलियं.
9 > JP जुवइ, P एसो पुण. 10 > P om. सहि, णज्जह दितीए etc. to सामिकुमारो । अण्णाए भणियं । 11 > J दीहियरो.
14 > P om. वि after देवाणं. 15 > P कुवलयचंदो, P om. इय, P om. one किं. 16 > P जुवई इत्ति. 17 > J वायई,
J अण्णा for अवरा. 18 > P मुरवमि, P अण्णाउ तिसरियं, P छिवइ मुद्धा, P om. तहा. 19 > P सदावइ, P रुणरुणेति, J हा,
हंति. 20 > P निमेइ. 22 > P रेह for लेह, J जुवइयण. 25 > P दंसेइ, J निअंथतंडं, P दुलापंति, J अत्थक्कण्डकण्डुअणारं,
P कडुयाइं पकरंति, P अवराओ for अण्णाओ. 26 > J अण्णाओ for अवराओ. 27 > P जाव सुंदरियणो, J om. मोह,
J मोहिय°. 28 > P विवणि, P अत्रे य, P वणिया, P पणय, J बोलेऊणा, P वेएण, J om. चव. 30 > P अक्खलिय आसपसरं,
P मेत्ति वाहियालिं. 31 > P om. य, P वाहियालिं, J धारिअं, P पपसे, P सयलंबणनीहं, P कल्लोलयारुडो. 33 > J पच्छए.
34 > P om. णाऊण, P त्रमाणो, P पहाइयं पयत्तो. 35 > J तिरिय for तुरिय, JP पमुक्को. 36 > J om. कलयलं.

- 1 जय जय जयइ कुमारो कुवलयचंदो समुद्रकल्लोले । कच्छि-सहोदर-तुरण् आरूढो तियसणाहो व्व ॥ 1
- § ६१) जावय जय-जय-सह-गम्भिणं जणो उल्लवइ तावय पेच्छताणं तक्खणं समुप्पइओ तमाल-दल-सामलं 3 गयणयलं तुरंगमो । 3
- 2) भावइ उप्पइओ विय उप्पइओ एस सच्चयं तुरओ । एसेस एस वच्चइ दीसइ अहंसणं जाओ ॥ 4
- इय भागिरस्स पुरओ जणस्स उच्छलिय-बहल-बोलस्स । अक्खित्तो तुरएणं देवेण व तक्खणं कुमरो ॥ 5
- 6 अह णह-लंघण-तुरिओ उद्धावइ दक्खिणं दिसा-भागं । पट्टि-णिवेसिय-वक्की गरूढो इव तक्खणं तुरओ ॥ 6
- ध्रवंतस्स य तुरियं अणुध्रवंति व्व महियले रुक्खा । दीसंति य धरणिधरा ओमंथिय-मल्लय-सरिच्छा ॥ 7
- पुरिसा पिपीलिया इव णयराइ ता ण णयर-सरिसाइं । दीसंति य धरणियले सराय-अहाय-मेत्ताओ ॥ 8
- 9) दीसंति दीहराओ भवलाओ तंस-वंक-वलियाओ । वासुइ-णिम्मोयं पिव महा-णईओ कुमारेणं ॥ 9
- तओ एवं च हीरमाणेणं चितियं कुमार-कुवलयचंदेण । 10
- 11) 'अव्वो जइ ता तुरओ कीस इमो णहयलम्मि उप्पइओ । अह होज्ज कोइ देवो कीस ण तुरयत्तणं मुयइ ॥ 11
- 12 ता जाव णो समुइ पावइ एसो रएण हरि-रूढो । असिधेणु-पहर-विहलो जाणिजउ ताव को एतो ॥ 12
- जइ सच्चं चिय तुरओ पहार-वियलो पडेज महि-पीढे । अह होज्ज को वि अण्णो पहओ पयडेज णिय-रूढं ॥'
- एवं च परिचित्तिज्जण कुमारेण समुक्खया जम-जीह-संणिहा छुरिया । णिवेसिओ य से णिइयं कुच्छि-पएसे पहरो 15 कुमारेण । तओ 15
- णिवडंत-रुहिर-णिवहो लुलंत-सिरि-चामरो सिट्ठिल-देहो । गयणयलाओं तुरंगो णिवडइ मुच्छा-णिमीलियच्छो ॥ 16
- थोवंतरेण जं चिय ण पावए महियलं सरिरेण । ता पासम्मि कुमारो मच्चु व्व तेण से पडिओ ॥ 17
- 18 तुरओ वि णीसइंगो धरणियलं पाविज्जण पहरंतो । मुसुमूरियंगमंगो समुज्झिओ णियय-जीएण ॥ 18
- तओ तं च तारिसं उज्झिय-जीवियं पिव तुरंगमं पेच्छिज्जण चितियं कुमारेण । 19
- 'अव्वो विम्वहणीयं जइ ता तुरओ कइं च णह-गमणो । अहवा ण एस तुरओ कीस विवण्णो पहारेण ॥'
- 21 § ६२) तओ जाव एवं विम्वह-खित्त-हियओ चितितं पयत्तो, ताव य णव-पाडस-सज्ज-जलय-सद्-गीमीर-धीरोरहि- 21
- महुरो समुद्धाइओ अदीसमाणस्स कस्स वि सहो । 'ओ ओ, णिम्मल-ससि-वंस-विभूसण कुमार-कुवलयचंद, णिसुणेसु मह 22
- वयणं । 22
- 24) गंतव्वं ते अज्ज वि गाउय-मेत्तं च दक्खिण-दिसाए । तत्थ तए दट्टव्वं अट्ट-पुव्वं च तं किं पि ॥' 24
- इमं च सोज्जण चितियं कुमार-कुवलयचंदेण । 'अहो, कइं पुण एस को वि णामं गोत्तं च वियाणइ मइं ति । अहवा कोइ 25
- एस देव्वो अरूवी इह-ट्टिओ विय सव्वं वियाणइ । दिव्व-णाणिणो किर देवा भवंति' स्ति । भणियं च इमिणा 'पुरओ ते 26
- 27) गंतव्वं । तत्थ तए किं पि अदिट्ट-पुव्वं दट्टव्वं' ति । ता किं पुण तं अदिट्ट-पुव्वयं होहि स्ति । दे दक्खिण-दिसाहुत्तो चेय 27
- वच्चांमि । 'अलंघणीय-वयणा किर देवा रिस्सिणो य होति' स्ति चितियं च तेण । पुलहया णेण चउरो वि दिसि-विदिसी- 28
- विभागा, जाव पेच्छइ अणेय-गिरि-पायव-वल्ली-लया-गुविल-गुम्म-दूसंचारं महा-विज्जाडविं ति । जा व कइसिया । पंडव- 29
- 30) सेण्ण-जइसिया, अज्जणालंकिया सुभीम व्व । रण-भूमि-जइसिया, सर-सय-णिरंतरा खग-णिचिय व्व । णिसायरि-जइसिया, 30
- भीसण-सिवारावा दुव-मसि-मइलंगा व । सिरि-जइसिया, महागइंद-सणाहा दिव्व-पउमासण व्व । जिणिंद-आण-जइसिया, 31
- महव्वय-दूसंचारा सावय-सय-सेविय व्व । परमेसरथाणि-मंडलि-जइसिया, रायसुयाहिट्टिया अणेय-सामंत व्व । 32
- 33) महाणयरि-जइसिया, तुंग-सालालंकिय सप्पागार-सिहर-दुलंघ व्व । महा-मसाण-भूमि-जइसिया, मय-सय-संकुला जलंत- 33

1) P कल्लोले, P सहोदर. 2) P जाव जयासह. 4) P वच्चइ for भावइ J चेय for एस. 5) P भागिरस्स, P इल for बहल, P om. व. 6) P उद्धावइ, P भायं, P गरूढो. 7) P वि for य तु, J मच्छिय but मंथिय is written on the margin. 8) P पिपीलिया, J यव for इव, J नयराइ (corrected as नयराइ on the margin) P नयणाइ, J सराय (इ?) 11) P नहयलं समुप्पइओ, J कोवि, P दिव्वो for देवो. 12) P नएण for रएण, J विअलो. 13) P विहलो, P वीढे, P कोइ. 14) P जमइ for जम, P विवेसिओ सो निइयं, P पहारो. 16) J ललंत सिअचा°, J गयणाओ. 17) P थोयंतरेण इच्चिय २. P मच्चु, JP 'त्तेण. 18) P वी for वि, P पहहरत्तो. 19) P जीयं, P om. पिव, P om. चितियं. 20) J ताओ for ता, J om. तुरओ. 21) P एव, P repeats पयत्तो. 22) P अदीणमा°, P om. कस्स, P सहा, P वीस for वंस, P निसुणे मुहवयणं. 24) P तत्थु तए, P अदिट्ट. 25) J कुमारेण for कुमार, P एयं for एस, J कोवि for कोइ. 26) P अरूई रूहट्टिओ ट्टे सव्वं, P एवंविहा for देवा. 27) J om. तए, P पुव्वं for पुव्वयं, J स्ति होहि स्ति, P ददक्खिणा for दे eto. P विय for चेय. 28) P अलंघणिय, P देवया for देवा, P य हवंति, P om. णेण, P om. वि, P दिसीविभाया. 29) P पेच्छइ किर पायवाणेय, P om. गिरिपायव, P गुहिलगुंमदुसंचारा, P विज्जाडविं ति, P om. कइसिया. 30) J सेण्णो, J अज्जणालंकिय-सुभीमं च P अज्जणोल°, P सिरनिरंतर, J णिचिअं च P निच्चय व्व. 31) P सिवारावदवदमसिमइलंगव्व, JP सणाह, JP पउमासणं च. 32) J दूसंचारय P दुसंचारा, P सा साविया सवियं वा, J सेवियं च, J सामंतं च. 33) P हेसागारसीहदुलंघं च, J संकुलं च P संकुल.

- 1 घोरणल व्व । लंकाउरि-जइसिया, पवच-वंद्र-मज्जत-महासाल-पलास-संकुल व्व ति । अवि य कर्हिचि मत्त-मावंग- 1
भज्जमाण-चंदण-वण-णिम्महंत-सुरहि-परिमला, कर्हिचि घोर-वग्घ-चवेडा-घाय-णिहय-वण-महिस-रुहिराणा, कर्हिचि दरिय-
2 हरि-णहर-पहर-करि-सिर-गीहरंत-तार-मुत्तावयर-णिरंतर-रेहिरा, कर्हिचि पक्कल-महा-कोल-दाडाभिघाय-घाइजंत-मत्त-वण- 3
महिसा, कर्हिचि मत्त-महा-महिस-जुज्जंत-गवल-संवट्ट-सइ-भीसणा, कर्हिचि पुलिंद-सुंदरी-वंद्र-समुष्ठीयमाण-गुंजाहला,
कर्हिचि व्व-इज्जमाण-वेणु-वण-फुडिय-फुड-मुत्ताहलुज्जला, कर्हिचि किराय-णिवहाणहम्ममाण-मय-कुला, कर्हिचि पवय-
6 वंद्र-संचरंत-बुक्कार-राव-भीसणा, कर्हिचि खर-फरुस-वीरि-विराव-राविया, कर्हिचि उइड-तडुविय-सिंहंदि-कलाव-रेहिरा, 4
कर्हिचि महु-मत्त-मुइय-भमिर-भमर-संकार-राव-मणहरा, कर्हिचि फल-समिद्धि-मुइय-कीर-किलिकिलेंत-सइ-सुंदरा, कर्हिचि
7 वाल-मेत्त-मुज्जंत-हम्ममाण-चमर-चामरि-गणा, कर्हिचि उद्दाम-संचरंत-वण-तुरंग-हेसा-रव-गग्भिणा, कर्हिचि किराय-ईभ-
9 हम्ममाण-महु-भामरा, कर्हिचि किंणर-मिहुण-संगीय-महुर-गीयायणणर-रस-वसागय-मिलंत-णिच्चल-ट्टिय-गय-गवय-मयउल 8
ति । अवि य ।

- सललिय-वण-किंकिराया तथा सलई-वेणु-हिंताल-तालाउला साल-सज्जणा-णिब-वब्बूल-बोरी-कयंबंब-जंब-महापाडला-
12 सोग-पुण्णाग-णागाउला ।
कुसुम-भर-विभग्ग-फुलाहिं सालाहिं सत्तच्छयामोय-मज्जंत-णाणा-विहंगेहिं सारंग-वंद्रेहिं कोलाहलुद्दाम-संकार-णिहाय-
माणेहिं ता चामरी-सेरि-सत्थेहिं रम्माउला ।
16 पसरिय-सिरिचंदणा^{मोय}-लुद्धालि-संकार-रावाणुबज्जंत-दप्पुद्धरं सीह-सावेहिं हम्मंत-मायंग-कुंभत्थलुच्छल-मुत्ताहलुग्घाय- 15
सवर-णियर-सइ-गइभ-पूरंत-बोक्कार-वीहच्छ-सारंग-धावंत-वेयाणिलुद्धय-फुल्लिह-साहीण-साहा-विलग्गावडंतेहिं फुलेहिं सा
साहिय, ति । अवि य । 18
बहु-सावय-सेविय-भीसणयं बहु-रुक्ख-सहस्स-समाउलयं । बहु-सेल-णई-सय-दुग्गमयं इय पेच्छइ तं कुमरो वणयं ॥ ति
§ ६३) तं च तारिसं पेच्छंतो महा-भीसणं वणंतरं कुमारो कुवलयचंदो असंभंतो मयवइ-किसोरओ इव जाव थोवंतरं
21 वच्चइ ताव पेच्छइ खेलेति वग्घ-वसहे सुइए कीलंति केसरि-गइंदे । मय-दीविणं वि समयं विहरंति असंकिय-पयारे ॥
पेच्छइ य तुरय-महिसे सिंगगुल्लिहण-सुह-णिमीलच्छे । कोल-वराहे राहे अवरोप्पर-केलि-कय-हरिसे ॥
24 हरि-सरहे कीलंते पेच्छइ रणं-दुरेह-मज्जारे । अहि-मंगुसे य समयं कोसिय-काए य रुक्खमो ॥
अण्णोण-विरुद्धाहिं वि इय राय-सुओ समं पलोएइ । वीसंभ-णिब्भर-रसे सयले वण-सावए तथ ॥
तओ एवं च परिसं वुसंतं पुलोइउण चितियं कुमार-कुवलयचंदेण । 'अवो, किं पि विम्हावणीयं एयं ति । जेण
27 अण्णोण-विरुद्धाहिं वि जाई पटिज्जंति सयल-सत्थेसु । इह ताई चिय रइ-संगयाई एयं तु अच्छरियं ॥
ता केण उण कारणेण इमं परिसं ति । अहवा चिंतेमि ताव । हुं, होइ विरुद्धाण वि उप्पाय-काले पेम्मं, पेम्म-परवसाण कलहो
त्ति । अहवा ण होइ एसो उप्पाओ, जेण सिणिद्ध-स्सरा अवरोप्परं केलि-मुइया संत-दिसिटागसु चिट्ठंति, उप्पायए पुण
30 दित्त-स्सरा दित्त-ट्ठाण-ट्टिया य अणवरयं सुइ-विरसं करयरेति सउण-सावय-गणा । एए पुण एवं ति । तेण जाणिमो ण 30
उप्पाओ ति । ता किं पुण इमं होज्जा । अहवा जाणियं मए । कोइ एत्थ महारिसी महप्पा संगिहिओ परिवसइ । तस्स
भगवओ उवसम-प्यभावेण विरुद्धाणं पि पेम्मं अवरोप्परं सउण-सावयाणं जायइ' ति । एवं च चिंतयंतो कुमार-कुवलयचंदो
33 जाव वच्चइ थोवंतरं ताव

अइ-णिद्ध-बहल-पत्तल-भीलुव्वेहंत-किसलय-सणाहं । पेच्छइ कुवलयचंदो महावडं जलय-वंद्रं व ॥

- 1) J व for व्व, P चंद्र for वंद्र, J संकुलं च. 2) P सुरभि, J हह for घाय, J om. णिहय. 3) P नियर for णिरंतर, P om. मत्त. 4) P गुंजाफला. 5) P वेणुषण for वेणुवण, P कर्हि किराय, P णुग्गममाणमयउला. 6) J चिरिविराय, J तडुवि, P तडवियट्ट. 7) P om. भमिर, J दल for फल, P किलिमिलंत. 8) P तुरंगमहिंसारव. 9) P द्वियागय. 11) P नव for वण, J किंकिराय, P माउला for तालाउला, P सज्जणा, P वब्बूलया, P कयंबंबइववाह्यासोयपुण्णायात्तायाउला. 13) P विहग, J फुलेहिं, P नवंत for मज्जंत, P संकाराणिहायमणिहहो. 14) P सरि for सेरि. 15) P बुज्जंतदुप्पुद्धरं, J मुत्ताहलुग्घाय, P मुत्ताफलुग्घायफेरंतकुज्जतारहिं च सा. 16) J om तारेहिं सा. 17) P बोक्काहिं वीभच्छ, J वेताणिलुद्धय, J वहीलया for फुल्लिह, P विवग्गावडं, P om. फुलेहिं, J सु for सा. 18) P om. अवि य. 19) P सहस्सउ समा, J om. ति. 20) P कुमारकुव, P मयमवई किसोरोउविजइ जाव. 22) P खेलेति, P मुरया, P मेयदीवणं समयं, P पयारो. 23) P तुरियमहिसे, P लेहणा, P वराहराहे. 24) P कीलंते, J दुरेय P दुरेहि, P मंगुसेहि, P om. य. 25) J व for वि, P रायमयमयं पलो. 26) J एयं for एवं, P पुलइउण, P इमं ति । तेण for एयं etc. 27) J कह for रइ. 28) P हुं. 29) P परिसो for एसो, J जेण ण, P जेणासिद्ध, P ट्ठाणे महप्पा, P om. 'सु चिट्ठंति, उप्पायए to एत्थ महारिसी. 32) J भगवतो, J सवण for सउण, P जाय ति, J एयं for एवं, P विचितयंतो. 34) P निद्धता, P नीलवेहंत, J चंद्र व्व P चंद्रं व.

- 1 बद्ध-जडा-पडभारं लंबत-कलाव-कुडिया-कलियं । पवण-वस-धरयरंतं तावस-थेरं व वड-रुक्खं ॥ 1
 बद्ध-विय-कय-कोकाहल-साह-पसाहा-फुरंत-सोहिहं । बंभाणं व णियच्छइ पढमं कप्पाण पारोहं ॥
- 3 तओ तं च पेच्छिअण तं चेव दिसं चलिओ त्ति अचलिय-चलंत-खोयणो राय-तणओ । 3
 § ६४) ता चित्तियं च 'अहो इमो वड-पायवो रमणीओ मम णयण-मणहरो, ता एयं चेय पेच्छामो' । चित्तयंतो संपत्तो वड-पायव-पारोह-समीवं, जाव पेच्छइ
- 6 तव-णियम-सोसियंगं तथा वि तेएण पज्जलंतं च । धम्मं व सरूवेणं रूविं पिव उवस्समं साहुं ॥ 6
 अवि थ आवासं पिव लच्छीए, घरं पिव सिरीए, ठाणं पिव कंतीए, आयरं पिव गुणाणं, खाणिं पिव खंतीए, मंदिरं पिव बुद्धीए, आययणं पिव सोम्मयाए, णिकेयं पिव सरूवयाए, हम्मियं पिव दक्खिणयाए, घरं पिव तव-सिरीए त्ति । किं बहुणा,
- 9 मय-वंकत्तण-रहिए अउव्व-चंदे व्व तम्मि दिट्ठम्मि । चंद-मणियाण व जलं पज्जरइ जियाण कम्म-रयं ॥ 9
 जावय कुवलयचंदो णिज्जायइ तं मुणिं पुलहयंगो । ताव बिइयं पि पेच्छइ दिव्वायारं महा-पुरिसं ॥
 णिव्वणगेइ य णं सो तं पुरिसं वाम-पासमल्लीणं । चंदाइरेय-सोम्मं कंतिहं दियह-णाहं व ॥
- 12 चलणंगुलि-णिम्मल-णह-मज्ज-पसरंत-पडिहय-प्पसरो । जस्स मियंको णूणं जाओ लज्जाए रमणियरो ॥ 12
 ललितउणय-णिम्मल-णिक्कलंक-सोहेण चरण-जुयलेण । कुम्मो वि णिज्जिओ णूण जेण वयणं पि गुप्पेइ ॥
 दीहर-थोर-सुकोमल-जंघा-जुयलेण णिज्जिओ वस्सं । सोयइ करिणो वि करो दीहर-सुंकार-ससिएहिं ॥
- 15 अइककस-पीण-सुवट्टिएण ओहामिओ णियंवेण । वण-वासं पडिवण्णो इमस्स णूणं मयवइ वि ॥ 15
 अइपीण-पिट्ठल-ककड-कणय-सिलाभोय-रुइर-वच्छेण । एयस्स विणिज्जिओ हामिएण सामो हरी जाओ ॥
 पिट्ठ-दीह-णयण-वंतं फुरंत-दिय-किरण-केसर-सणाहं । दट्ठूण इमस्स मुहं लज्जाए व मउलियं कमलं ॥
- 18 अइणिद्ध-कम्मिण-कुंचिय-मणहर-सोहेण केस-भारेण । णूणं विणिज्जिया इव गयणे भमरा विरंठंति ॥ 18
 इय जं जं किंचि वणे सुंदर-रूवं जणम्मि सयलम्मि । अक्खिउणं तं चिय सो चिय णूणं विणिम्मविओ ॥
 एवं च चित्तयंतेण कुमार-कुवलयचंदेण मुणिणो दाहिण-पासे वियारिया कुवलय-दल-सामला दिट्ठी । जाव य
- 21 आवलिय-दीह-लंगूल-रेहिरं तणुय-मज्ज-रमणिञ्जं । उदुय-केसर-भारं अइ सीहं पेच्छए तइयं ॥ 21
 तक्खण-गइंद-विइविय-कुंभ-णक्खग्ग-लगा-मुत्ताहं । भासुर-मुह-कुहरंतर-ललंत-तणु-दीह-जीहालं ॥
 भीसण-कराल-सिय-दंत-कनि-करवत्त-कत्तिय-गइंदं । णह-कुलिस-घाय-पडल-पल्लथिय-मत्त-वण-महिसं ॥
- 24 इय पेच्छइ सो सीहं कराल-वयणं सहाव-भीसणयं । तह वि पसंत-मुह-मणं रिसिणो चलण-प्यहावेण ॥ 24
 § ६५) तओ तं च दट्ठूण चित्तियं रायउत्तेण । अहो
 धम्मो अत्थो कामो इमिणा रूवेण किं च होज्जाउ । अहवा तिण्ह वि सारं लोयाण इमं समुद्धरियं ॥ 27
 27 ता जारिसं पुण लक्खेमि एयं तं जं भणियं केणइ देव्वेण जहा ।
 गंतव्वं ते अज वि गाउय-मेत्तं च दक्खिण-दिसाए । तथ तए दट्ठव्वं अदिट्ठ-पुव्वं व तं किं पि ॥
 एत्थ य एस को वि महरिसी, दोण्ह वि णरिं व-मइंदाणं मज्जाट्टिओ तव-तेएण विप्पमाणो साहतो विय
- 30 अत्तणो मुगिदत्तणं दीसइ । सुव्वइ य सत्थेसु जहा किर देवा महारिसिणो य दिव्व-णाणिणो होति । ता इमं 30
 सयल-त्तेलोक्क-वंदिय-वंदणिञ्जं वंदिय-चलण-सुवलं गंतूण पुच्छिमो अत्तणो अस्सावहरणं । केणाहं अवहरिओ, केण वा कारणेण,
 को वा एस तुरंगमो त्ति चित्तयंतो संपत्तो पिट्ठल-सिलावट्ट-संठियस्स महामुणिणो सयासं । आयरिओ य सज्जल-जलय-
- 33 गंभीर-सह-संका-उडुंड-तंडविय-सिंहिणिणा भीर-महुरेण सरेणं साहुणा 'भो भो सस्ति-वंस-मुहयंद-तिलय कुमार-कुवलयचंद, 33
- 1) J कुलाव, P धरंत. 2) J कल for कय, P सीहा for साहपसाहा, J न्यसाहा, P -मेइहं, P पारोव्वं. 3) J चेय, J तियवलिय for त्ति अचलिय. 4) P om. ता, J णयणमणरोहो, P चित्तयंतो. 6) P धम्मं रूवसरूवेण रूवं पिव चउसमं-साहु । 7) P ट्ठाणं, P आयरयं, P खाणी विय, J किंतीए for खंतीए, P मंदरं. 8) P णिकेवणं पिव. 9) P मयं, P रहियं. 10) J ताव वित्तियं P ताव य विइयं, P om. पि. 11) P सोमं. 12) J मउइ P मयूर. 13) J णिव्वण for णिम्मल, P कम्मो वि णिव्वउत्तण, P गुत्तेइ. 14) P व for वि, P रसिएहिं. 15) P सुवंकिएण. 16) J अइपिट्ठलपीणककड, P सिलाभोय, P वच्छेण, P विज्जिओ हामियाए. 17) P वत्त, P लज्जाए मउ. 18) J विरंठंति P विरंठंति. 19) P पसो for सो, P णूण निम्मविओ. 20) P चित्तियं तेण, P चंदेणल for दल, P om. य. 21) P नंगूल, J तणुय, J उदुअ P अदुय, P सीहं अइ inter. 22) J मुत्तोइ, P ललंत. 23) P वत्तिय for कत्तिय, P कुलिय, P पडलथिय. 24) P पसरंतमणहरं रिसिणा, P न्यहावेण. 26) J किंच होज्जाओ P किंचि होज्जाणु, P तिण्ण, P सारो, P इंदरिउं. 27) P एतं for एयं तं. 28) P मुहं for व तं. 29) P महारिसि, P गइंदाणं, P साहेतो विअत्तणो. 30) P om. य, P किरि, P महिरिसिणं. 31) P चळणग्गजुयलं, P आसावहरणं, J केण अहं. 32) P om. त्ति, P चित्तियं तो, J om. संपत्तो, P आयासिओ, P om. य, P om. जल. 33) P उडुंडतंडविय, J सिहिण्डिणा P सिंहिणिणा, P कुवलय for कुमार.

- 1 सागयं तुह, आगच्छसु' स्ति । ततो नाम-गोत्त-कित्तण-संभाविय-गाणाहसएण रोमच-कंसुव्वहण-रेहिरणेण विणय-पणएण 1
पणमियं णेण सयल-संसार-सहाव-मुणिणो महासुणिणो चलय-जुवलयं ति । भगवया वि सयल-भव-भय-हारिणा सिद्धि-
3 सुह-कारिणा लंभिओ धम्मलाह-महारयणेणं ति । तेण वि दिव्व-पुरिसेण पसारिओ ससंभमं सुर-पायव-किसलय-कोमलो माणिक्- 3
कडयाभरण-रेहिरो दाहिणो करयलो । ततो राय-सुएणावि पसारिय-भुय-करयलेण गहियं से ससंभमं करयलं, ईसि
विणउत्तमणेण कओ से पणाम्मे । भयवइणा वि दरिय-मत्त-महावण-करि-वियड-गंडयल-गालिय-भय-जलोहणा-णिम्महंत-बहल-
6 केसर-जडा-कडप्पेण उव्वेहमाण-दीह-गंगूलेणं पसंत-कण्ण-जुयलेणं ईसि-मउत्तियच्छिणा अणुमणिणो राय-तणओ । कुमारेण 6
वि हरिस-वियसमाणाए सुहजंततर-सिणेहाए पुलइओ णिड-भवलाए दिट्ठीए । उव्विट्ठो य गाहूरे मुणिणो चलय-जुवलय-
संसिए खंदमणि-सिलायले ति । सुहासणथो य भणिओ भगवया 'कुमार, तए चित्तियं, पुच्छामि णं एयं मुणिं जहा कंणाई
9 अवहरिओ, किं वा कारणं, को वा एस तुरंगमो ति । एयं च तुह सव्वं चेय सवित्थरं साहेमो, अवहिएण होयव्वं' ति । 9
भणियं च सविणयं कुमारेण । 'भयवं, अइगरुओ खेय पसाओ जं गुरुणा मह हियइच्छियं साहिज्जइ' स्ति भणिउण कर-
यलंगुली-णह-रयण-किरण-जाला-संवलिंयंत-कयंजली ठिओ रायउत्तो । भगवं पि
- 12 अविलंबिओ अचवलो वियार-रहिओ अणुव्वमडाडोवो । अह साहिउं पयत्तो भव्वाणं हियय-णिव्ववणं ॥ 12
- § ६६) संसारम्मि अणंते जीवा तं णत्थि जं ण पावेंति । णारय-तिरिय-णरामर-भवेसु सिद्धिं अपावेंता ॥
जस्स विओए सुंदर जीयं ण धरेंति मोह-मूढ-मणा । तं खेय पुणो जीवा देसं दट्ठुं पि ण चयंति ॥
15 कह-कह वि मूढ-हियएण वड्ढिओ जो मणोरह-सएहिं । तं चिय जीवा पच्छा ते चिय खयर व्व छिंदंति ॥ 15
जो जीविएण णिक्कं गियएण वि रक्खिओ ससत्तीए । तं चिय ते चिय मूढा खग्ग-पहारेहिं दारेंति ॥
जेणं चिय कोमल-करयलेहिं संवाहियाई अंगाई । सो चिय मूढो फालइ अब्बो करवस-जंतोहिं ॥
18 आसा-विणडिय-तणहलुएहिं पिय-पुत्तओ स्ति जो गणिओ । संसारासार-रहइ-भामिओ सो भवे सत्तू ॥ 18
पीयं थणय-च्छीरं जाणं मूढेण बाल-भावम्मि । विसमे भव-कंतारे ताणं चिय लोहियं पीयं ॥
जो चलय-पणामेहिं भत्तीए धुओ गुरु स्ति काऊणं । णिइय-पाय-प्पहरेहिं मुणिणो सो चिय वराओ ॥
21 जस्स य मरणे रुव्वइ बाह-भरंतोत्थएहिं णयणेहि । कीरइ मय-करणिज्जं पुणो वि तस्सेय मंसोहिं ॥ 21
भत्ति-बहु-माण-जुत्तेण पूइया जा जणेण जणणि स्ति । संजाय-मयण-मोहेण रमिया एस महिल स्ति ॥
पुत्तो वि य होइ पई पई वि सो पुत्तओ पुणो होइ । जाया वि होइ माया माया वि य होइ से जाया ॥
24 होइ पिया पुण दासो मरिउं दासो वि से पुणो जणओ । भाया वि होइ सत्तू सत्तू वि सहोयरो होइ ॥ 24
मिच्चो वि होइ सामी सामी मरिउण हवइ से मिच्चो । संसारम्मि असारे एस गइ होइ जीवाणं ॥
इय कुमार, किं वा भणणउ ।
- 27 खर-पवणाइइं विसमं पत्तं परिभमइ गिरि-णिउंजम्मि । इय पाव-पवण-परिहट्ठिओ वि जीवो परिभमइ ॥ 27
तेण कुमार, इमं भावेयव्वं ।
ण य कस्स वि को वि पिया ण य माया जेय पुत्त-दाराइं । ण य मिसं ण य सत्तू ण बंधवो सामि-मिच्चो वा ॥
30 णिययाणुभाव-सरिसं सुहमसुहं जं कयं पुरा कम्मं । तं वेदंति अहुण्णा जीवा एएण मोहेण ॥ 30
बद्धंति तत्थ वि पुणो तेसिं चिय कारणेण मूढ-मणा । भव-सय-सहस्स-भोज्जं पावं पावाए जुड्डीए ॥ अहवा ।
जह बालुयाए बाला पुलिणे कीलंति अलिय-कय-धरया । अलिय-वियप्पिय-माया-पिय-पुत्त-परंपरा-मूढा ॥
33 कलइं करंति ते चिय भुंजंति पुणो घराघरिं जंति । बाल व्व जाण बाला जीवा संसार-पुलिणम्मि ॥ 33

1 > P कंचउव्वहण, P विणयप्पण'. 2 > P जुवलयं, J सय for भय. 3 > P धम्मलाभिओ for लंभिओ, P धम्मलाभ. 4 > P कडयाहरण, P पसारिउभय. 5 > P विणिमित्तं', P महवयणा, P om. गंड. 6 > P जडाजहप्पेण, P दीहरलंगूलेणं पसमंत, P अणुमओ, P कुमारेणा. 7 > J हरी वियसमाणा सुह', P पुलोइओ, J om. धवलाए, P दिट्ठाए । उयविट्ठो, P मुणिणा, P जुवलयसं'. 8 > J has a marginal note: समीवे-पा. on the word संसिए, P सिलायलय ति, P भयवया. 9 > P om. स्ति, P एयं वा तुरंगमाहरणापरिवलंत कयंजली for एयं च तुह सव्वं etc. to संवलियंतकयंजली. 10 > J चिय for खेय. 11 > P रायपुत्तो, J adds something like भगवं पि in later hand. 12 > P अवलंबिओ, P साहियं, P निव्वहणं. 13 > P पावेंति, P अपावेंता. 14 > P जायं for जीयं. 15 > P om. two lines: तं चिय जीवा to रक्खिओ ससत्तीए. 16 > P चिय जीवा मूढा. 17 > P om. three lines from य कोमल to गणिओ सं. 20 > P चलयण-, P -पहारेहिं. 21 > P त्थएण वयणेण. 22 > P जणणजणिणि, P महिल for महिल. 23 > P सो for विय, P होई, P से for सो, P विय से पुणो जाया. 24 > P पुण दोसो. 25 > P सो भवे for इवइ से, J om. संसारम्मि to जीवाणं । 27 > P पवणाइइं, J वसमं, P परिहट्ठिओ. 28 > P इमं संभावे'. 29 > J सत्तू. 30 > P वेयंती अन्ने जीवा. 31 > P बंधंति. 32 > P बाले, J अणियकयधरए, J पिदि for पिय. 33 > P भंजंति, P घरिं घरिं जंति, J बालो व्व.

- 1 तत्रो कुमार कुवलयचंद, एयमि एरिसे बसारे संसार-बासे पुण कोह-माण-माया-लोह-मोह-मूढ-माणसेहिं अग्नेहिं चय जं 1
समणुयुयं तं तुमं तुरंगावहरण-वेरंतं एगमणो साहिज्जंतं गिसामेहिं सि ।
- 2 § ६७) अथि बहु-जणवाढ-जूय-संकुलो अणवरय-होम-धूम-धूसर-नायणगणो महिसि-वंद्र-सय-संचरंत-कसिण-च्छवी 3
गो-सहस्स-वियरंत-धवलायंभिर-वेरंतो णील-तण-वण-सास-संपया-पम्हलो लोयण-जुयलं पिब पुहई-महिलाए वच्छो णाम
जणवमो । जत्थ य
- 6 पवण-पहल्लिर-पुंहुच्छु-पत्त-सिलिसिलिय-सह-वित्तथं । पसरइ रणुदेसं मय-जूहं पुणण-तरलच्छं ॥ 6
पुणण-तरलच्छ-दंसण-णिय-दइया-संभरंत-गयण-जुओ । अच्छइ लेप्प-मओ विय सुणण-मणो जत्थ पहिययणो ॥
पहिययण-दीण-पुल्लयण-विम्हय-रस-पम्हुसंत-कायव्वो । अच्छइ पामरि-सत्थो चल-णिच्चल-धरिय-गयण-जुओ ॥
- 9 णिच्चल-गयण-जुयं चिय कुवलय-संकाए जत्थ अहिलेइ । अगणिय-केयइ-गंधा पुणो पुणो भमर-रिंछोली ॥ 9
महुय-रिंछोलि-मिलंत-भमर-रुणुरणिय-सह-जणियण । मयणेण जुवाण-जणो उक्कटुलथं रुणुरणेइ ॥
इय किंचि-मेत-कारण-परंपरुणण-कज्ज-रिंछोली । जमि ण समप्पइ चिय विम्हय-रस-गट्ठिभणा णवरं ॥
- 12 जत्थ य पिसुणिज्जंति सालि-नृण-महाखलेहिं कल्लम-रिद्धीओ, साहिज्जंति सुर-भवण-मंडवेहिं जणस्स धम्म-सीलत्तणाइं, सीसंति 12
उच्छिट्ठाणिट्ट-मल्लएहिं गाम-महा-भोज्जाइं, उप्पालिज्जंति उद्ध-भुय-दंड-जुवल-सरिसेहिं केवल-जंतवाएहिं उच्छुवण-साम-
ग्गीओ, लंघिज्जंति महा-समुद्द-सच्छमेहिं तलाय-बंधेहिं जणवय-विहवइं पि, सुइज्जंति जत्थ पट्ठिप्पवा-मंडवासत्तायारेहिं दाण-
15 वइत्तणाइं, वज्जिज्जंति खर-महुर-फस्स-महाघंटा-सद्देहिं गोहण-समिद्धीओ सि । जहिं च दिय-वर-खंडियाइं दीसंति कमल- 15
कंसरइं विलासिणीयण-अहरयं व, राय-हंस-परिगयाओ दीसंति महत्थाण-मंडलीओ दीहियाओ व, कीलंति राय-सुया पंजरेसु
रायंगणे व, दीसंति चक्कायाइं सरिया-पुल्लिणेषु रहवरेसु व, सेवंति सावया महारण्णाइं जिण-भवणइं व सि । अवि य ।
- 18 सरिया-जल-तरलच्छं सरोद्ध-तिलयं तमाल-धम्मेलं । सुद्ध-दिय-चारु-सोहं व वहइ धरणीए तं देसं ॥ ति 18
§ ६८) तत्थथि पुरी रग्गा कोसंबी सग्ग-णयर-पडिबिंबा । तुंगहालय-मंदिर-त्तोरण-सुर-भवण-सोहिल्ला ॥
धवलहर-सिहर-काणण-भममाण-पवंग-जणिय-लच्छीए । कीलासेलं ति इमं जीय गिसम्मंति गयणयरा ॥
- 21 गंभीर-णीर-फरिहा-समुद्द-पायार-वेइया-कलिया । जंबुदीवं मण्णे सहसा दिट्ठा सुरेहिं पि ॥ 21
रां व-तुरय-नामण-संताव-जाय-मुह-फेण-पुंज-धवलहए । कोडि-पडागा-णिवहे जा मारुय-चंचले वहइ ॥
जमि भवणग्ग-लग्गं णह-लंघण-णीसह-गिसम्मंतं । अहिसारियाओ वंदं पणय-सगळं उवलइंति ॥
- 24 हम्मिय-तलेसु जमि य मणि-कोट्टिम-विष्कुरंत-पडिबिंबा । पडिस्सिहि-जायासंका सहसा ण गिलेंति सिहिणो वि ॥ 24
इय कंचियं व भणिमो जं जं चिय तत्थ दीसए णवरं । अण्ण-णयरीण तं चिय णीसामणं हवइ सव्वं ॥
जत्थ य फरिहाओ वि णत्थि जाउ ण विमल-जल-भरियओ । विमल-जलइं जे णत्थि जाइं ण सरस-तामरस-विहूसियइं ॥
- 27 सरस-तामरसइं जे णत्थि जाइं ण हंस-कुल-चंचु-सुणियइं । हंसउलइं जे णत्थि जाइं ण णीलुप्पल-दल-भूसियइं ॥ 27
णीलुप्पलइं जे णत्थि जाइं ण भमिर-भमरउल-खुंभियइं । भमरउलइं जे णत्थि जाइं ण कुसुम-रेणु-पिंजरियइं ॥
कुसुमइं जे णत्थि जाइं ण णिम्महंत-बहल-मयरंद-परिमलाइं ति । अवि य ।
- 30 जलहि-जलयरमि रेहेज्ज व महु-महणस्स वल्लहा । अहव तिकूढ-सेल-सिहरोयरि लंका-णयरिया इमा ॥ 30
अहव पुरंदरस्स अलया इव रयण-सुवण्ण-भूसिया । इय सा भमरएहिं पुल्लज्जइ विम्हियएहिं णयरिया ॥
§ ६९) तं च तारिसं महाणयरिं पिय-पणहणिं पिब परिमुंजइ पुरंदरदत्तो णाम राया ।
- 33 तुंग-कुल-सेल-सिहरे जो पणइ-सउणयाण विस्सामो । जह-चित्थिय-दिण्ण-फलो दढ-मूलो कप्प-रुक्खो व्व ॥ 33

1 > P संसारे. 2 > P तुरंगमापहरण, J गिसाहेमि. 3 > P जत्रवाडुच्छुआसंकुलो. 4 > P वियलंत, J धवलायंपिर P धवलायंपिर, J बहलो for पम्हलो, J जुवलं, P पुहइ, J वच्छा P वच्छ. 5 > J om. य. 6 > J पुण्णुच्छु, P सिलिसिय, P पसरइ, P चुन्न for पुण्ण. 7 > P चुन्न for पुण्ण, P सुज्जणो. 8 > P पुल्लय, J पामरी. 10 > P महुवर, J भमिर, P उक्कटुल्यं रुणुरणेइ, 12 > P तत्थ for जत्थ, P तण for तण (a line is added here on the margin), P सीलत्तणइं. 13 > P महोहिं सि गाम, P भोज्जइं, P उप्पालिज्जंति उद्ध, P कंबल for केवल, P उत्थुरयणसमग्गिओ संघिज्जंति. 14 > P om. पि, J सुणिज्जंति, P तत्थ for जत्थ, P मंडवसप्पायारेहितो पावइत्तणइं. 15 > P वयरिज्जंति, P घंट, P जहिं विंदियखरखंडियइं. 16 > P विलासिणी अहरइं, J om. व, P परिगयाओ, P महत्थाणि, P दीहिअउव्व, J य for व, P सुयसु पंजरोरेसु रायंगणेसु. 17 > P चक्कायाइं, P पुल्लिणेषु, P सावयमहारणइं, J om. अवि य. 18 > J सोहव्व, P सुइं च for व वहइ. 19 > J कोसंबि, P भवणे. 20 > P सिहण. 21 > J दरिहा for फरिहा. 22 > J धवलाय, P पडागा- 23 > P सारियतो, P उवलइंति. 24 > P हम्मियलेसु. 25 > P दीसय, P नीसमणं वहइ. 26 > J जत्थ व फरिहा, J भरियाओ, P विभूसियइं. 27 > P नवहंसउल, J चुण्णिआइं, P हंसउल्यं, J om. ण, P दलदूसियइं. 28 > P भमर for भमिर, P नव for ण. 29 > P कुसुमयं, P परिमलयं. 30 > P किं होज्ज for रेहेज्ज, J तिउड. 31 > P रवण for रयण, P पुल्लज्ज, J विम्हियण णयं. 32 > P पीयपणइणी, J om. णाम. 33 > P पणइंभयण सउणं, P वीसम्मो, P जय for जह, P मूलो for मूलो.

1 जो आकङ्क्षित-करवाल-किरण-जालावली-करालो रिउ-पणहणीहिं जलओ सुदुस्सहो पिय-विओबम्मि, दरिय-पुरंदर-करि-कुंभ- 1
विभ्रम-स्थण-कलसोवरि गुणाल-मउय-बाहा-लया-संदाणिओ गियय-कामिणि-जणेण, पञ्चक्ख-मंतु-दंसण-कथ-कोव-पसायण-
3 चलणालगो माणंसिणीहिं, णिच्च-पयत्तिय-दाण-पसारिय-करो पणइयणेणं, सच्चभाव-णेह-परिहास-सहत्थ-ताल-हसिरो मित्त- 3
मंडलेणं, सच्च-पसाय-सुमुहो भिच्च-वग्गेण, सविणय-भत्ति-पणओ गुरुयणेण । तस्सेय गुण-सायर-परिपयत्त-खेय-सुद्धिय-पसुत्तेहिं
सुविणंत्तरेसु वि एरिसो एरिसो य दीसइ त्ति । जस्स य अत्ताणं पिव मंतियणो, मंतियणो इव सहिययणो, सहिययणो विय
6 महिलायणो, महिलायणो विय विलासिणियणो, विलासिणियणो इव परिचणो, परिचणो विय णरिंद-लोओ, णरिंद-लोओ 6
इव सुर-सत्थो, सुर-सत्थो इव जस्स सच्च-गओ गुण-सागरो, गुण-सागरो इव जस-प्यभावो त्ति ।

अह एक्को विय दोसो तम्मि णरिंदम्मि गुण-समिद्धम्मि । जं सुह-पायव-मूले जिण-वयणे णत्थि पडिबत्ती ॥

9 तस्स य राइणो पारंपर-पुच्च-पुरिस-कमागओ महामंती । चउत्तिहाए महाबुद्धीए समालिंमिय-माणसो सुरु-गुरुणो इव गुरु 9
सच्च-मंति-सामंत-दिण्ण-महामंति-जय-सहो वासवो णाम महामंती । तं च सो राया देवयं पिव, गुरुं पिव, पियरं पिव, मित्तं
पिव, बंधुं पिव, णिद्धं पिव मण्णइ त्ति । अवि य

12 विजा-विण्णाण-गुणाहियाइ-दाणाइ-भूसणुक्केरे । चूडामणि व्व मण्णइ एक्कं विय णवर सम्भत्तं ॥ 12

जिण-वयण-बाहिरं सो पडिबज्जइ कास-कुसुम-लहुययरं । मण्णइ सम्महिट्ठिं मंदर-भाराओ गरुययरं ॥

तस्स य राइणो तेण मंतिणा किंचि बुद्धीए किंचि दाणेणं किंचि विक्रमेणं किंचि सामेणं किंचि भेषुणं किंचि विण्णाणेणं किंचि
15 दक्खिण्णेणं किंचि उवयारंणं किंचि महुरत्तणेणं सच्चं पुहइ-मंडलं पसाहियं पालयंतो चिट्ठइ त्ति । 15

§ ७०) तओ तस्स महामंतिणो वासवस्स अण्णम्मि दियहे कयावस्सय-करणीयस्स णहाय-सुईभूदस्स अरहंताणं

भगवंताणं तेलोक्क-बंधुं पूया-णिमित्तं देवहरयं पविसमाणस्स दुवार-देसम्मि ताव णाणा-विह-कुसुम-परिमलायद्वियालि-माला- 18
गुंजंत-मणहरेणं वंधावलेविणा पुप्फ-करंडएणं समागओ बाहिरुज्जाण-पालओ थावरो णामं ति । आगंतूण य तेण चलण-पणाम- 18
पञ्चट्टिणं उग्घाडिऊण पुप्फ-करंडयं 'देव, वद्धाविज्जसि, सयल-सुरासुर-णर-किणर-रमणीय-मणोहरो कुस्समबाण-पिय-बंधवो

संपत्तो वसंत-समओ' त्ति भणमाणेण महु-मय-मत्त-भमिर-भमर-रिंछोली-पंखावली-पवण-पक्खिण्णमाणुदुय-रय-णियरा समप्पिया
21 महामंतिणो सहयार-कुसुम-मंजरि त्ति । अण्णे च 'देव, समावासिओ तम्मि चेइय-उज्जाणे बहु-सीस-णण-परिचारो धम्मणंदणो 21
आयरिओ' त्ति । तं च सोऊण मंतिणा अमरिस-वस-विलसमाण-भुमया-लएणं आबद्ध-भिउडि-भीम-भासुर-वयणेणं 'हा अणज्ज'

त्ति भणमाणेणं अच्चोडिया स च्चिय विसट्ठंत-मयरंद-बिंदु-णीसंदिर-सहयार-कुसुम-मंजरी, णिवडिया य सेय-लओवरि कय-
24 रेणु-ल्लेण्णा । भणियं च मंतिणा 'रे रे दुरायार, असयण्णाणिविवेय सच्चं थावरय, वद्धावेसि मं पदमं, पहाणं सायरं च 24
वसंतं साहसि, भगवंतं पुण धम्मणंदणं पच्छा अप्पहाणं अणायरेण साहसि । कथं वसंतो, कथं वा भगवं धम्मणंदणो ।

जो सुरभि-कुसुम-मयरंद-लुद्ध-संकार-मणहर-रवेण । भमरावलीहिं हिययं मयणगिग-सगडिभगं कुणइ ॥

27 भगवं पुण नं विय मयण-जलण-जालावली-तविज्जंतं । णिच्चवइ णवरि हिययं जिण-वयण-सुहामिय-जल्लेणं ॥ 27
संसार-महाकंतार-कंसरी जो जणइ रे रायं । मूढ वसंतो कथं व कथं व भगवं जिय-कमाओ ॥

ता गच्छ, एयस्स अत्तणो तुच्चुद्धि-विलसियस्स जं भुजसु फलयं' ति । 'रे रे को एत्थ दुवारं' । पडिहारिण भणियं 'जिय देव' ।

30 मंतिणा भणियं । 'दवावेसु इमस्स चम्म-रुक्खस्स दीणारंणं अद्ध-लक्खं, जेण पुणो वि एरिसं ण कुणइ' त्ति भणमाणो 30
महामंती घेत्तूण तं चय सहयार-मंजरी आरूढो तुरंगमे, पत्थिओ य राय-पुरंदर-दत्तस्स भवणं, कज्जथिणा-जण-सय-सहस्सेहिं
अण्णिजमाणो ताव गओ जाव राइणो सीह-दुवारं । तत्थ य अचइण्णे तुरंगाओ । पइट्ठो य जत्थच्छइ पुरंदर-दत्तो । उवसप्पिऊण य

33 'कुसुम-रय-पिंजरंगी महुर-संकार-महुर-जंपिहा । दूइ व्व तुज्ज गौंदी माहव-लच्छीए पेसविया ॥' 33

1) J किरिउं for रिउ, P om. जलओ सुदुस्सहो पियविओयम्मि (which is added in J on the margin perhaps later).

2) J थणयरसोवरि, P वाहालिया. 4) P ससुहो, P परिपयंतक्खेय. 5) P omits one एरिसो, P repeats

जस्स, J सहिययणो इव. 6) J इव for विय throughout, P विलासिणिजणो (in both the places). 7) J सुर

(in both the places), P सच्चंमओ, P om. गुणसागरो, P जसप्यभारो. 8) P विय for विय. 9) P वि

for महा, 10) P मंसिसामंतिसामंत, P om. मंति, P जं for तं, P गुरुयणं for गुरुं, P adds सहोयरं पिव before

मित्तं. 11) P om. बंधुं पिव, P om. त्ति. 12) P णुक्केरो, P नवरि. 13) P 'दिट्ठो, P गुरुयं'. 14) P om.

य. 15) J दक्खिणेणं, P छ for त्ति. 16) P om. महा, P णहाइमईभूयस्स. 17) J भयवं, P जाव for

ताव. 18) P पुष्प, P वालओ, P पुष्प. 19) P om. णर. 20) P महुमत्तयमेत्त, J om. भमिर, P रिंछोलीपंखावली.

21) P तिवासिओ, P चेव for चेइय, P सस्स for सीसणण, P 'मंदणो नाम. 22) P वियसमाण, J भुसलयालएणं.

P भिउडिंममीमभासुयणेणं. 23) P विसट्ठमयरंदविदुनीसंदिरा, P सेअलिओ for सेयलउवरि. 24) P असिण्ण, J

पदमं for मं. 25) P साहेमि for साहसि, P भगवं, P अप्पहाणेणं अणायणेणं अणा. 26) P सुरहि, J 'वलीहिययं,

27) P तविज्जंति, P नयर for णवरि. 28) J भयवं. 29) P एयस्स बुद्धी, P om. जं, P फलं for फलयं त्ति,

J om. दुवारं. 30) J om. मंतिणा भणियं, J दवापसु, P सुरुक्खस्स केआरणे अद्धं, J om. वि. 31) P घेत्तंवेय,

P मंजरी, J तुरंगमो, P om. य, P राइणो पुरंदरयत्तस्स. 32) P om. य, P तुरंगमाओ, P पविट्ठो, P om. य, P

जत्थच्छप राया पुरंदरयत्तो उवसप्पिऊण या । 33) P दूव, P तुज्ज गौंदी.

- १ एवं भगमाणेण राहणो समप्पिया सहयार-कुसुम-मंजरी । राहणा वि सहरिसं गहिया । भणियं च । 'अहो
सख-जिय-सोख-जगभो वम्मह-पिय-बंधवो उऊ-राया । महुर-जुवइ-मणहरो अचो किं माहवो पत्तो ॥'
- ३ भणियं च मंतिणा 'जहाणवेसि देव, एह वच्चामो बाहिरुज्जाण-काणणं । तथ गंतूण पुल्लो जहिल्लं बाल-माहव-लच्छि' त्ति । ३
राया वि 'एवं होउ' त्ति भणमाणो समुत्थिओ, आरूढो य एक्कं वारुभासजं करिणिं । अण्य-जग-सय-सहस्स-संवाह-संकुलं
फाल्लंतो राय-मग्गं संपत्तो वेणेण तं चय काणणं । तं च करिसं ।
- ६ सहरिस-गरवइ-चिर-दिण्ण-दंसण-पसाय-गारवग्गवियं । उज्जाण-सिरीणं समं सहसा हिययं व ऊससियं ॥ ६
अवि य णच्छंतं पिव पवणुवेल्ल-कोमल-लया-भुयाहिं, गायंतं पिव णाणा-विहंग-कलयल-रवेहिं, जयजयावंतं पिव मत्त-कोहला-
राव-कंठ-कूविण्हिं, तज्जंतं पिव विलसमाण-चूपेक्क-कलिया-तज्जणीहिं, सदावंतं पिव रत्तासोय-किसलय-दलगा-हत्थण्हिं,
९ पणमंतं पिव पवण-पहय-विणमंत-सिहर-महासालुत्तमंगेहिं, हसंतं पिव णव-वियसिय-कुसुमदहासेहिं, रुपंतं पिव बंधण-खुडिय-
९ णिवडंत-कुसुमसु-धाराहिं, पदंतं पिव सुय-सारिया-फुडक्खरालावुल्लवेहिं, धूमायंतं पिव पवणुदुय-कुसुम-रेणु-रय-णिवहेहिं,
पजल्लंतं पिव लक्खा-रस-राय-सिलिसिल्लंत-मुद्ध-णव-पल्लवेहिं, उकंठियं पिव महु-मत्त-माहवी-मयरंदाभोय-मुदय-रुणरुणंत-
१२ महु-मत्त-महुर-जुयाणेहिं त्ति । अवि य । १२
उगाइ हसइ णच्चइ रूयइ धूमाइ जलइ तइ पठइ । उम्मत्तओ व्व दिट्ठो णरवइणा काणणाभोओ ॥
§ ७१) तं च तारिसं पेच्छमाणो णरवइ पविट्ठो चय उज्जाणे । वियारिया य णेण समंतओ कुवलय-दल-दीहरा
१५ दिट्ठी, जाव माहवि-मंडवमि पारमुज्जइ, धावइ बउल-क्खण्ण, रत्तासोययमि आरोहइ, सज्जइ चूय-सिहरण, दीहर-१५
तालयमि आरोहइ, ग्वज्जइ सिंदवारण, णिवडइ चंदणमि, वीसमइ खणे एला-वणुल्लण ।
इय णरवइणो दिट्ठी णाणा-विह-दुम-सहस्स-गहणमि । वियरइ अप्पडिफलिया महु-मत्ता महुराण पंति व्व ॥
१८ पेच्छइ थ णव-कुसुम-रेणु-बहल-मयरंद-चंद-णीसंद-विंदु-संदोह-लुद्ध-मुद्दागथालि-हलबोल-वाउलिज्जंत-उप्पुल्ल-फुल्ल-सोहिणो १८
साहिणो । तं च पेच्छमाणेण भणियं वासव-महामंतिणा । 'देव दरियारि-सुंदरी-वंद-वेहव-दागक्क-वीर, पेच्छ पेच्छ, एण
महुरा णाणावत्थंतरावडिया महु-पाणासव-रस-वसणा विणडिया । अवि य ।
२१ उय माहवीय कुसुमे पुणरुत्तं महुरो समलियइ । अहवा कारण-वसया पुरिसा वंके पि सेवंति ॥ २१
पत्त-विणिगूहियं पि हु भमरो अलियइ कुज्जय-पसूयं । दुज्जण-णिवहोत्थइया णज्जंति गुणेहिं सप्पुरिसा ॥
चंपय-कलियं मयरंद-वज्जियं महुरो समलियइ । आसा-बंधो होहि त्ति णाम भण कथ णो हरइ ॥
२५ धवलक्क-कुसुम-संसं कुंदे णो सुयइ महुर-जुवाणो । विमलक्क-गुणा वि गुणणुणुण्हिं णूणं ण सुवंति ॥ २५
अलीणं पि महुरिं पवणुवेल्लंत-दल-हयं कुणइ । अहव असोण अहणियमि भण कत्तियं एयं ॥
चूय-कलियाण भमरो पवणाइइइ कीरण विमुहो । णूणं रूटण-मीओ जुवइण ण वल्लो होइ ॥
२७ मोत्तण पियंगु-लयं भमरा धावंति बउल-गहणसु । अहवा वियलिय-सारं मलिण च्चिय णवर मुवंति ॥ २७
भम रे भम रे अहभमिर-भमर-भमरीण सुरय-रस-लुहो । इय पणय-कोव-भणरी भमरी भमरं समलियइ ॥
एवं साहेमाणो णरवइणो वासवो महामंती । महुरारि-भमर-विलसियं लोव-सहावं च बहु-मग्गं ॥
३० एवं च परिभममाणेण तमि काणणे महामंतिणा वियारिया सुहमत्थ-दंसणा समंतओ दिट्ठी । वित्तियं च वासवेणं । 'सव्वं ३०
इमं परिभमियं पिव काणणे, ण य भगवं सो धम्मणंदणो दीसइ, जं हियणु परिट्ठविय एस मए इहाणिओ राया । ता
कहिं पुण सो भगवं जंगभो कप्प-पायवो भविस्सइ । किं वा सुत्तय-पोरिसिं करिय अण्णत्थ अइक्कंतो होहिइ त्ति । ता ण
३३ सुंदरं कयं भगवया । ३३

१) J ति for एवं. २) P सव्वज्जिय, J उराया for उऊराया, P जुयइ. ३) P 'देव जहाणवेति एहि, J रज्जाणे, P जहियए. ४) P एक्कं वारुपमज्जियं करिणी, P om. सहस्स. ५) P वेणं, P चेव. ६) P दंसणा, J सिरीय समयं, ७) J पवणुवेल्लं P पवणुवेह, P लयाहिं, P कलरविट्ठि, P कोइलकलकलराव. ८) P 'वोविण्हिं तज्जंतं, P सदावंतं, P इथेहिं, ९) P वणमंतं, J रूअंतं, J पिव वदण. १०) J कुसुमसुएहिं, J सूअ, P 'ल्लविण्हिं. ११) J सिलिसिल्लंत, P मास for मत्त. १२) P जुवाणएहिं त्ति, J om. ति. १४) P णरवइं तंमि च्चिय पविट्ठो उं, P om. थ, P दीहदिट्ठी. १५) P माहवमंडवं त्ति, J आगेहइ. १६) J विज्जइ for व्ज्जइ, P वीसम खणं एलावणुल्लण. १७) P दिट्ठिया, P गहणयमि, P अप्पडिफलिअया. १८) J om. णवकुसुम etc. to विणडिया । अवि य उ, P मयरिंदचंदनीसंदा, P बलबोलवाउलिज्जति उप्पुल्लं, P फुल्लसाहिणो सोहिणो. १९) P पिच्छमाणेण, P 'मंतिणो. २०) P महुरा. २१) P पुणरुत्तं, P समुलियइ. २३) P नाम तण किंच नो, J भरइ for हरइ. २४) J कुंदे णा P कुंदे तो, J जुवाणो, P गुणा वि twice. २५) P पिव महुरि, P पवणुवेल्लंत, P अमोय इय णियंमि. २६) J महुरो for भमरो, J कंठण P रूहण, J चय for होइ. २७) P मलिणि, J णवर मुवंति. २८) P सुरयमुरल्लो. २९) J वासओ, P लोय. ३०) J om. च, J परिगवमाणेण P परिभममां, J सुरमसत्थं, P दंसमणा, P सव्वमिं. ३१) J परिभवियं, J om. पिव, P काणणे, P परिट्ठविया. ३२) P सुत्तत्थपोसिसी, P होहि त्ति, P ण य सुंदरयं.

- 1 कण्णाणं अमय-रसं दाऊण य दंसणं अदंतेणं । दावेऊणं वर-णिहिं मण्णे उप्पाडिया अच्छी ॥ 1
अहवा जाणियं मए । एत्थ तण-वच्छ-गुम्म-वल्ली-लया-संताणे सुपुप्फ-फल-कोमल-दल-किसलयंकुर-सणाहे बहु-कीडा-
3 पथंग-पिवीलिया-कुंथु-तस-थावर-जंतु-संकुले भगवंताणं साधूणं ण कप्पइ आवासिउं जे । ता तम्मि सव्वावाय-विरहिण 3
फासुए देसे सिंदूर-कोट्टिम-तले सिस्स-गण-परिवारो होहिइ भगवं' ति चिंतयंतेण भणिओ महामंतिणा णरवई । 'देव, जो सो
तए कुमार-समए सिंदूर-कोट्टिमासण्णे सहत्थारोविओ असोय-पायवो सो ण-याणियइ किं कुसुमिओ ण व' स्ति । राइणा
6 भणियं । 'सुंदरं संलत्ते, पयइ तहिं चेष, वच्चामो' ति भणमाणेण गहियं करं करेण वासवस्स । गंतुं जे पयत्तो णरवई 6
सिंदूर-कोट्टिमयलं, जाव य थोवंतरमुवगओ ताव पेच्छइ साहुणो ।

§ ७२) ते य केरिसे ।

- 9 धम्म-महोवहि-सरिसे कम्म-महासेल-कटिण-कुलिसत्थे । खंति-गुण-सार-गरुए उवसग्ग-सहे तरु-समाणे ॥ 9
पंच-महव्वय-फल-भार-रेहिए गुत्ति-कुसुम-चंचइए । सीलंग-पत्त-कलिए कप्पतरु-रयण-सारिच्छे ॥
जीवाजीव-विहाणं कजाकज-फल-विरयणा-सारं । साधूण समायारं आयारं के वि झायंति ॥
12 स-समय-पर-समयाणं सूइजइ जेण समय-सवभावं । सूतयडं सुयगडं अण्णे रिसिणो अणुगुणंति ॥ 12
अण्णेत्य सुट्टिया संजममि गिसुणंति के वि ठाणंमं । अण्णे पढंति अण्णा समवायं सव्व-विजाणं ॥
संसार-भाव-मुणिणो मुणिणो अण्णे वियाह-पण्णत्ती । अमय-रस-मीसियं पिव वयणं चिय णवर धारंति ॥
15 णाया-धम्म-कहाओ कहंति अण्णे उवासाग-दसाओ । अंतगड-दसा अवरं अणुत्तर-दसा अणुगुणंति ॥ 15
जाणय-पुच्छं पुच्छइ गणहारी साहए तिलोय-गुरू । फुड पण्हा-वागरणं पढंति पण्हाइ-वागरणं ॥
वित्थरिय-सयल-तिहुयण-पसत्थ-सत्थत्थ-अत्थ-सत्थाहं । समय-सय-दिट्ठिवायं के वि कयत्था अहिजंति ॥
18 जीवाणं पण्णवणं पण्णवणं पण्णवंति पण्णवया । सूरिय-पण्णत्तिं चिय गुणंति तह चंद-पण्णत्तिं ॥ 18
अण्णाइ य गणहर-भासियाइं सामण्ण-स्वलि-कयाहं । पथेय-सयंबुद्धेहिं विरइयाइं गुणंति महिरिसिणो ॥
कत्थइ पंचावयवं दसह चिय साहणं परुवंति । पच्चक्खणुमाण-पमाण-चउक्कयं च अण्णे वियारंति ॥
21 भव-जलहि-जाणवत्तं पेम्म-महाराय-णियल-णिइलणं । कम्मट-गंठि-वज्जे अण्णे धम्मं परिकहंति ॥ 21
मोहंधयार-विणो पर-वाय-कुरंग-दरिय-केसरिणो । णय-सय-स्वर-णहरिहे अण्णे अह वाइणो तत्थ ॥
लोयालोग-पयासं दूरंतर-सण्ह-वत्थु-पज्जायं । केवलि-सुत्त-णिवद्धं णिमित्तमण्णे वियारंति ॥
24 णाणा-जीउप्पत्ती-सुवण्ण-मणि-रयण-धाउ-संजोयं । जाणंति जणिय-जोणी जोणीणं पाहुडं अण्णे ॥ 24
अट्ठि-सय-पंजरा इव तव-योसिय-चम्म-मेत्त-पडिबद्धा । आबड-किडिगिडि-रवा पेच्छइ य तवमिसणो अण्णे ॥
ललिय-वयणत्थ-सारं सव्वालंकार-णिव्वडिय-सोहं । अमय-प्पवाह-महुरं अण्णे कव्वं विइंतेति ॥
27 बहु-तंत-मंत-विजा-वियाणया सिद्ध-जोय-जोइसिया । अच्छंति अणुगुणंता अवरं सिद्धंत-साराइं ॥ 27
मण-वयण-काय-गुत्ता गिरुद्ध-णीसास-णिच्चलच्छीया । जिण-वयणं झायंता अण्णे पडिमा-नाया मुणिणो ॥
अवि य कहंति पडिमा-गया, कहंति चियम-ट्टिया, कहंति वीरासण-ट्टिया, कहंति उक्कुडियासण-ट्टिया, कहंति गोदोह-
30 संटिया, कहंति पडमासण-ट्टिय स्ति । अवि य । 30

इय पेच्छइ सो राया सज्झाय-रए तवस्सिणो धीरि । णित्थिण्ण-भव-समुद्दे रुंदेण जिणिंद-पोएणं ॥

- § ७३) ताणं च मज्जे सव्वाणं चय णक्खत्ताणं पिव पुण्णिमायंदो, रयणाणं पिव कोत्थुओ कंतीए, सुराणं पिव
33 पुरंदरो सत्तीए, तरुणं पिव कप्पपायवो सफलसण्णेणं, सव्वहा सव्व-गुणंहिं समालिंमिओ चउ-णाणी भगवं भूय-भविस्स-33

1 > P संसणं for संसणं, P णिही, J अच्छि. 2 > P न एत्थ, J सणाह, J कीटपयंग. 3 > P साधूणं, P अवरसिउं, J om.
जे, P सव्वावयरहिया. 4 > J om. देसे, P कोट्टिमयलो, J यण for गण, JP चिंतयंतेण, J भणियं. 5 > P संममए for समए, P
सहत्थरो, P न याणइ. 6 > P पयट्टा, J चय, P om. जे. 7 > P om. य, J थोवंतरं गओ. 8 > P केरिसां. 9 > P महोवहि,
P उयसग्ग. 11 > P साहुण, J आयारे. 12 > P मयजइ, P मयगटं, J सुययडं P सुयगटं. 13 > J ठाणंमं P ठाणंमं, P
पढंति अत्रे षणा. 14 > P विवाह, J पि for पिव, P नवरि. 15 > P कहंति. 16 > P ज्ञाणइ, J तिलोय, P वागरण, P पण्हाइ
वागरण. 17 > P सत्थसत्थत्थ for सत्थत्थ, P सत्थ for अत्थ, P वि वयत्था, J अभिजंति. 18 > P पत्तत्ति चिय, P पत्तत्ति.
19 > J पथेयदसयबुद्धेहि विरयाइं, P पत्तय, P महारिसिणो. 20 > P साहारणं for साहणं, J पच्चक्खणुं, P चउक्कमण्णे. 22 >
P वाइ for वाय, P न्यरिहे, P वाइणा. 23 > P लोयालोय, P पज्जंत, J णिवंधं, P वियारंति. 24 > जीवुप्पत्ती, J जाणित्ति. 25 >
P अट्ठिमय, P पच्छइ. 26 > P धणयच्छ for वयणत्थ, P निवडिया, P विइंतेति, J has a marginal note: च विरइं पा-
(which means that च विरंति is a पाठान्तर). 27 > P जोईसा, P अच्छंति अणुगुणंसा. 28 > P विरुद्ध for गिरुद्ध,
P झाणंता. 29 > P पटिंमं टिया, P नियमं टिया, P वीरासणं टिया कहिं उक्कुडियासणं टिया. 30 > P पोमासणं टिया, P om.
त्ति. 31 > P सिज्झाय, P विच्छिन्नतवसमुद्दे. 32 > P om. च, P चेष, P पुण्णिमायंदो, P कोत्थुओ. 33 > P om. सव्वहा.

- 1 भव-वियाणभो विट्टो णरवइणा धम्मणंदणो णाम आयरिओ । इट्टण य पुच्छियं णरवइणा 'भो भो वासव, कं उण इमे 1
पुरिसे पुरिसे' । भणियं च वासवेण 'एण् सयल-तेलोक्क-वंदिय-वंदणिज्ज-चलण-जुयले महाणुभावे महाणाणिणो मोक्ख-मग्ग-
3 मुणिणो भगवंते साहुणो इमे' ति । भणियं च राइणा 'एसो उण को राया इव सस्सिरीओ इमाणं मज्झ-गभो दीसइ' ति । 3
भणियं च मंतिणा 'देव, एसो णं होइ राया देसिओ । कहं । संसाराडवीए जर-भरण-रोगायर-मल-दोग्गस-महा-वण-गहणे
मूढ-सोग्गइ-दिसि-विभागणं णिइय-कुत्थि-तित्थाहिव-पावोवएस-कुमग्ग-पत्थियाणं कंदुग्गुसिय महा-णयर-पंथ-देसिओ भव-
6 जीव-पहियाणं भगवं धम्मणंदणो णाम आयरिओ ति । ता देव, देवाणं पि वंदणीय-चलण-जुयलो इमो, ता उव- 6
सपिउज्ज वंदिमो, किंचि धम्माहम्मं पुच्छिमो' ति । 'एवं होउ'ति भगमाणो राया पुरंदरदत्तो वासवस्स करयलालग्गो
चेय गंतु पयत्तो । गुरुणो सयासं उवंगतूण य मंतिणा कय-कोमल-करयल-कमल-मउलेण भणियं ।
9 जय तुंग-महा-कम्मट्ट-सेल-सुसुमूरणमि वज्ज-सम । जय संसार-महोवहि-सुघडिय-वर-जाणवत्त-सारिच्छ ॥ 9
जय दुज्जय णिजिय-काम-बाण खंतीयं धरणि-सम-रूव । जय घोर-परीसह-सेण-लड-णिहलण-जय-सइ ॥
जय भविय-कुसुय-वण-गहण-ओहणे पुण्ण-चंद-सम-सोह । जय अण्णण-महातम-पणासगे सूर-सारिच्छ ॥
12 देव सरणं तुमं चिय तं णाहो बंधवो तुमं चेव । जो सव्व-सोक्ख-मूलं जिण-वयणं दंसि सत्ताणं ॥ 12
ति भगमाणो तिउण-पयाहिणं करेऊणं णिवडिओ से भगवओ च्चलण-जुवलयं वासवो ति राया वि पुरंदरदत्तो ।
दरिसण-मेत्तेणं चिय जण-मणहर-वयण-सोम्म-सुह-रूव । सइ-वंदिय-बहुयण-चलण-कमल-तुज्जं णमो वीर ॥ ति
15 अण्णि, भगवया वि धम्मणंदणेणं सयल-संसार-दुक्ख-क्खय-कारिणा लंभिओ धम्मलाह-महारयणेणं ति । 15

- § ७४) भणियं च भगवया 'सागयं तुम्हाणं, उवविसइ' ति । तओ 'जहाणवेह' ति भगमाणो पणउत्तमंगो
भगवओ णाइदूरे तम्मि चेय पोमराय-मणि-सरिसुल्लसंत-किरण-जाले सिंदूर-कोट्टिमयले णिसण्णो राया । वासवो वि अणु-
18 जाणाविउं भगवंतं तहिं चेय उवविट्टो । एयमि समये अण्णे वि समागया णरवर-चट्ट-पंथि-कप्पडियाइणो भगवंते 18
णओकारिऊण उवविट्टा सुहासणत्था य । गुरुणा वि जाणमाणेणावि सयल-तिहुयण-जण-मणोगयं पि सुह-दुक्खं तह वि लोय-
समायागे ति काऊणं पुच्छियं सर्ग-सुह-वट्टमाणि-वुत्तंतं । विणय-पणय-उत्तमंगेहिं भणियं 'भगवं, अज्ज कुसलं तुम्ह
21 चलण-दंसणेणं' ति । चिनियं च राइणा । 'इमस्स भगवओ सुण्णिदस्स असामण्णं रूवं, अण्णण-सरिसं लायणं, असमा हि 21
कित्ती, असाधारणा दित्ती, असमा म्मिरी, सविसेसं दक्खिणं, उइमं तारुणं, महंता विज्जा, अहियं विण्णाणं, साइसयं णाणं ।
सव्वहा सव्व-गुण-समालिगण-सफल-संपत्त-मणुय-जम्मस्स वि किं वेरग्ग-कारणं समुप्पणं, जेण इमं पुरिसं एगंत-दुक्खं
24 पव्वज्जं पवण्णो ति । ता किं पुच्छामो, अहवा ण इमस्स एत्थियस्स जणस्स मज्जे अत्ताणं गाम-कूडं पिव हियएणं हसावेस्सं' 24
ति चिंतयंतो गुरुणा भणिओ ।

- 'एण् णरणाह णवरं चउगइ-संसार-सायरं घोरं । वेरग्ग-कारणं चिय सुलहं परमत्थ-रूवेणं ।
27 जं जं जयमि मण्णइ सुह-रूवं राय-मोहिओ लोओ । तं तं सयलं दुक्खं भणति परिणाय-परमत्था ॥ 27
तिण्हा-छुहा-किरंता विमय-सुहासाय-मोहिया जीवा । जं चिय करंति पावं तं चिय णाणीण वेरग्गं ॥
जेण पेच्छ, भो भो णरणाह,
30 जे होंति णिरणुकपा वाहा तह कूर-कम्म-वाउरिया । केवट्टा सोणहिया महु-घाया गाम-घाया य ॥ 30
णरवइ-सेणावइणो गाम-महाणयर-सत्थ-घाया य । आहेडिया य अण्णे जे विय मासासिणो रोहा ॥
दंति वणमि दवग्गं खणंति पुहई जलं पि बंधंति । धाउं धमंति जे च्चिय वणस्सई जे य छिंदंति ॥
33 अण्णे वि महारंभा पंचेदिय-जीव-घाइणो मूढा । विउल-परिग्गह-जुत्ता खुत्ता बहु-पाव-पंकमि ॥ 33

1 > J आयरिओ ति, P इमे केरिसा पुरिसा. 2 > P om. च, P एए तियलोक्कं सयलं वंदिय, P सोग्गइ for मोक्ख. 3 > J मज्जे गओ. 4 > P om. णं होइ राया देसिओ । कहं ।, P संसाराडईए, J रोगायमल. 5 > J दिसी, P निइय, P तित्थाहिवोवएस, J कडुज्जुमियमहा P कंडुजुयं सिवमहा. 6 > P पयाहिणं for पहियाणं, P वंदणिय, J ताओ अवसपिऊण, P उरसपिऊण वंदामो. 7 > P कंचि धम्माधम्मं, J एवं ति होउ, P पुरंदत्तो, P करयललगो. 8 > P मंतिणि. 9 > J समा P समं, P महोयहि, P om. वत्त. 10 > P खंतीयं, J रूवा P रूवं, J सेण. 11 > P समसोहे, J सारिच्छा. 12 > P वि तं for the second तुमं. 13 > P तिउणं, J वासओ, P om. ति. 14 > P दंसण for दरिसण, P मयणसोम, J सुहरूवे, J सइं P सय. 15 > P om. वि, P धम्मलाभ, P om. ति. 16 > P उवविसइ, P जहाणवेवु, P पणयउत्तिमंगो. 17 > P नारइ दूरंमि चेव, P सरसुल्लसंत, P जाले कोट्टिमसिंदूरमयले नीसणो. 18 > P चेव, P नरवईचट्टपंथ, P भगवंतं. 19 > J om. वि after गुरुणा, P om. जण. 20 > P पुच्छिओ, P वट्टमाणी, J पणमुत्तं. 21 > P नरवइणा for राइणा, P असामन्नरूवं, J अण्णण- P om. सरिसं, P om. हि. 22 > J हि कन्ती (?), P असाधारणा, J अविसेसं, J काहणं for तारुणं, J विण्णाणं ति, J om. साइसयं णाणं P साइसयं णाणं. 23 > J समालिगणं, P दुरुत्तरं for दुक्खं. 24 > P om. ति, P पुच्छिमो, P एयस्सय एत्थियमज्जे अत्ताणं गामउडं, J हसाधस्सं. 26 > P सागरे. 28 > P तण्हा, P नाणेण. 29 > P पिच्छा. 30 > P कोवट्टा सोणिहया. 31 > P नरवट्ट, P मंसासिणो. 32 > P दहग्गी for दवग्गि, P खणं च पुं, P च for पि, P जे विय वणस्सयं. 33 > P च for वि, P मूला.

- 1 बहु-कोहा बहु-लोहा माइछा माण-मोह-पडिबद्धा । गिंदण-गरहण-रहिया आलोयण-णियम-परिहीणा ॥ 1
एए करैति कम्मं मह कुल-णीइ त्ति गिच्छिय-मईया । अवरै भणंति वित्ती अग्हाण कया पयावइणा ॥
3 अवरै वि व्वय-रहिया अवरै धम्मो त्ति तं व्विय पवण्णा । अवरै अवरं दाएंति मूढयं चैय मूढ-मणा ॥ 3
जीविय-हेउं एवं करैति अग्हाण होहिइ सुहं ति । ण य जाणंति वराया दुक्खमसाहारणं णिरए ॥
पिय-पुत्त-भाइ-भइणी-माया-भजाण जा-कए कुणइ । ते वि तडे व्विय णहाया भुंजइ एकल्लओ दुक्खं ॥
6 गुरु-वेयण-दुक्खत्तो पुरओ व्विय सयल-बंधु-वग्गस्स । मरिऊण जाइ णरयं गरुएणं पाव-कम्मणं ॥ 6

§ ७५) केरिसा ते पुण णरया । अवि य ।

णक्खत्त-सूर-रहिया घोरा घोरंधयार-दुप्पेच्छा । अइउण्हा अइसीया सत्तसु पुढवीसु बहु-रूवा ॥

- 9 कहिंवि मेअ-मज्ज-वस-प्फेफसाउला । कहिंवि रत्त-पित्त-पूर-पसरंत-णिणया । कहिंवि मास-खेल-पूय-पूरिया । कहिंवि 9
वज्ज-नुंड-पक्खि-संकुला । कहिंवि कुंभीपाय-पच्चंत-जंतुया । कहिंवि संचरंत-वायसाउला । कहिंवि घोर-सीह-सुणय-संकुला ।
कहिंवि चलमाण-चेचु-कंक-भीसणा । कहिंवि णिवडंत-सत्थवाह-संकुला । कहिंवि कच्चमाण-तंब-तउय-ताविया । कहिंवि
12 पच्चमाण-पाणि-दुग्गंध-गंध-गडिभणा । कहिंवि करवत्त-जंत-फालिज्जमाण-जंतुया । कहिंवि णिवडंत-घोर-कसिण-पत्थरा ॥ 12
कहिंवि णरयवालायडिय-सुद्धभमाण-जलण-जालालुक्खिय-दुक्ख-सइ-सय-संकुल त्ति । अवि य ।

जं जं जयमि दुक्खं दुक्ख-ट्टाणं च किंचि पुरिसाणं । तं तं भणंति णरयं जं णरयं तथ किं भणिमो ॥

- 15 अह तमि भणिय-पुव्वे पत्ता सत्ता खणेण दुक्खत्ता । पइसंति णिक्खुडेसुं संकड-कुडिलेसु दुक्खेण ॥ 15
जह किर भवगे भित्तीय होइ घडियालयं मडह-दारं । णरयमि तह व्विय णिक्खुडाइं वीरेण भणियाइं ॥
मुत्त-जल-जल-सलोहिय-पूय-वसा-वच्च-खेल-वीहच्छा । दुद्धंसण-बीहणया चिलीणया होंति दुग्गंधा ॥
18 अह तेसु णिक्खुडेसुं गेण्हइ अंतोमुहुत्त-मेत्तेण । कालेण कम्म-वसओ देहं दुक्खाण आवासं ॥ 18
अइभीम-कसिण-देहो अच्छी-कर-कण-णासिया-रहिओ । होइ णपुंसग-रूवो अलक्खियक्खो कह वि किंचि ॥
जह जह पूरइ अंगं तह तह से णिक्खुडे ण माणइ । जह जह ण माइ अंगं तह तह वियणाउरो होइ ॥
21 कह कह वि वेयणत्तो चल-चलणच्छेत्थं करमाणो । अह लंबिउं पयत्तो कुडुडिच्छाओ तुच्छाओ ॥ 21
ता दिट्ठो परमाहम्मिण्हिं अण्णहिं णरय-पालेहिं । धावंति ते वि तुट्ठा कलयल-मइं करेमाणा ॥
मारोइ लेह छिंदह कइह फालेह भिंदह सरेहिं । गेण्हइ गेण्हइ एयं पावं पासेहिं पाणसुं ॥
24 एवं भणमाण व्विय एक्के कुंतेहिं तथ भिंदंति । अवरै सरेहिं एत्तो अवरै छिंदंति खग्गेहिं ॥ 24
एवं विलुपमाणो कड्ढिजंतो वि काल-पासेहिं । णिवडंतो वज्ज-सिलायलमि सय-सिकरो जाइ ॥
णिवडंतो व्विय अण्णे लोह-विणिम्मविय-तिक्ख-सूलासु । भिजइ अवरो णिवडइ धस त्ति घोराणले पाओ ॥
27 णिवडिय-मेतं एक्कं सहसा छिंदंति तिक्ख-खग्गेहिं । अवरै सरेहिं तह पुण अवरै कंतेहिं भिजंति ॥ 27
मुसुमूरेंति य अण्णे वजेणं के वि तथ चूरेंति । के वि णिसुंभंति दढं गय-पत्थर-लउड-घाण्हिं ॥
जंतसु के वि पीलंति के वि पोएंति तिक्ख-सूलासु । कर-कर-कर त्ति छिंदंति के वि करवत्त-जंतेहिं ॥
30 छमछमछमस्स अण्णे कुंभीपागोसु णवर पच्चंति । चडचडचडस्स अण्णे उक्कत्तिजंति विलवंता ॥ 30

§ ७६) एवं च कीरमाणा हा हा विलवंति गरुय-दुक्खत्ता । कह कह वि बुडवुडेंता सणियं एवं परंपंति ॥

पसियह पसियह सामिय दुक्खत्तो विण्णवेमि जा किं चि । किं व मए अवरद्धं साहह किं वा कयं पावं ॥

- 33 दाऊण मिये पहरं अह ते जंपंति णिट्ठर-सरेण । रे रे ण-यणइ सुद्धो एस वराओ समुज्जओ ॥ 33

1 > P नयण for णियम. 2 > J कुलणीति त्ति, P मईय. 3 > P om. अवरै वि व्वयरहिया, J वि व्वय-, P धम्मं ति, P दाणं ति for दाएंति. 4 > P हेऊ, J एयं, P तग्गान for अग्हाण, P नरए. 5 > P जं for जा. 6 > P गुरुएणं पुव्व-. 7 > P उण ते for ते पुण. 8 > P उय सीया for अइसीया. 9 > P वसापुण्णमा, J मंय (?) खेल. 10 > P कुंभ for कुंभी. 11 > P कहिं वि बलमाण-चेचुकंक, J वि. णिवडंत P निवडंत, J तउमय. 12 > J पटि for पाणि, P दुद्धं, P om. गंध. 13 > J णरयवालाय-यंथियसुद्धभमाण, P छत्तमाण for सुद्धभमाण, P सय for मइ. 15 > P निकडेसुं संकल-. 16 > P मइहवारं नयरमि तह व्विय निकुटाइं वीरंति. 17 > P om. वच्च. 18 > P निकुडेसुं. 19 > P om. कण, P नपुंसय. 20 > P निकडे ण, J मायाइ. 21 > P वेयणिल्लो चलचललेत्थं, P अव for अह, P कुच्छाओ for तुच्छाओ. 22 > P अह रोइ for अण्णेहिं, P निरय for णरय, P पावंति ते य तुट्ठा. 23 > P छिंदह for भिंदह, P एंति for एयं, P पाडेसु for पाणसुं. 24 > P भणमाणे, P एक्केकंतेहिं, P adds सरे before सरेहिं, P om. एत्तो. 25 > P य for वि, P जायइ. 26 > P अण्णे for अण्णे, P पावो for पाओ. 27 > P मेत्तो एक्को, P om. तह पुण, P भिंदंति. 28 > P अवरै for अण्णे, P पूरंति for चूरेंति. 29 > J पीलंति अवरै, for पीलंति के वि, P पूयंति for पोएंति, P मूलेण, J करैति for कर त्ति. 30 > J छमंति for छमस्स, P कुंभीपायसु नवरि, P वरिसंता for विलवंता. 31 > P विर्येति गरुय. 33 > P अवरै for अह ते, P सरेहिं, J याणइ for यणइ (emended). J समुज्जओ P समुज्जओ.

- 1 जीवे मारेसि तुमं जइया रे पाव णिइओ होउं । तइया ण पुच्छसि चिय कस्स मए किंचि अवरद्धं ॥ 1
मंसं खाइसि जइया जीवाणं चडचडस्स फालेउं । तइया ण पुच्छसि चिय कस्स मए किंचि अवरद्धं ॥
- 8 अलियं जंपसि जइया रे पावय पावएण हियएणं । तइया मुद्ध ण-याणसि भणसि मए किं कयं पावं ॥ 3
गेणहसि अदिणयं चिय जइया रे मूढ णिग्घिणो होउं । तइया ण पुच्छसि चिय कस्स कयं किं व अवरद्धं ॥
परदार-मोहिय-मणो जइया रे रमसि अण्ण-जुवईहिं । तइया मूढ ण-याणसि भणसि मए किं कयं पावं ॥
- 6 गेणहसि परिगहं रे जइया असराल-लोह-पडिबद्धो । तइया मूढ ण-याणसि भणसि मए किं कयं पावं ॥ 6
रे रे खेलसि जइया रत्तो आहेइयं सराय-मणो । तइया मूढ ण-याणसि एक्कस्स कए बहुं चुक्को ॥
आलप्पाल-पसत्तो सुयणे पीडेसि रे तुमं जइया । तइया मूढ ण-याणसि एक्कस्स कए बहुं चुक्को ॥
- 9 णिय-जाइ-मओम्मत्तो णिंदसि रे सेसयं जणं जइया । तइया मूढ ण-याणसि एक्कस्स कए बहुं चुक्को ॥ 9
रोदाणुबद्ध-चित्तो मारेसि इमं ति परिणओ जइया । तइया जाणसि सव्वं संपइ मुद्धो तुमं जाओ ॥
मोत्तूण हरि-हराई जइया तं भणसि को व सव्वण्णू । तइया सव्वं जाणसि एण्हिं रे मुद्धओ जाओ ॥
- 12 वेय-विहाण-विउत्तो जइया तं भणसि णत्थि सो धम्मो । तइया सव्वं जाणसि एण्हिं रे अयाणओ जाओ ॥ 12
पावारंभ-णियत्ते णिंदसि ते साहुणो तुमं जइया । तइया तं चिय जाणसि अण्णो पुण अयणओ सव्वो ॥
ण य संति के वि देवा ण य धम्मं मूढ जंपसे जइया । तइया चित्तेसि तुमं मं मोत्तुं ण-याणए अण्णो ॥
- 15 मारेह पसुं दारेह महिसयं णत्थि पाव-संबंधो । तइया चित्तेसि तुमं मं मोत्तुं ण-याणए अण्णो ॥ 15
इय भणमाणेहिं चिय फाडेउं चडयडस्स सव्वंगो । विक्खिपंपति बलीओ मासम्मि सरुहिर-माँसाओ ॥
सो वि बहु-पाव-वसओ छिण्णो खइरं व खंडखंडेहिं । संगलइ गलिय-देहो पारय-रस-सरिस-परिणामो ॥
- 18 हा इ त्ति विलवमाणो छुब्भइ जलगम्मि जलिय-जालोले । खर-जलग-ताव-तत्ते सामिय तिसिओ त्ति वाहरइ ॥ 18
अह ते वि णरय-पाला आणे आणे जलं ति जंपता । आणंति तंब-तउयं कढमाण-फुल्लिग-दुप्पेच्छं ॥
अह तम्मि दिण्ण-मेत्ते गुरु-दाह-जलंत-गलय-जीहालो । अलमलमलं ति सामिय णट्टा णट्टा हु मे तण्हा ॥
- 21 अह ते वि णिरणुकंपा मास-रसो वल्लहो त्ति जंपता । अक्कमिउणं गलए संडास-विडंबिओट्टाणं ॥ 21
धगधगधगंत-घोरं गलियं गलयम्मि देंति ते लोहं । तेण य विलिज्जमाणा धावंति दिसादिसी तत्तो ॥
खर-जलग-गलिय-तउ-तंब-पूरियं तंब-ताविय-तडिल्लं । वेयरणिं णाम णइं मण्णंता सीयल-जलोहं ॥
- 24 धावंति तत्थ धाविर-मगालगंत-घोर-जम-पुरिसा । हण णिहण भिंद छिंदह मारे मारे त्ति भणमाणा ॥ 24
अह वेयरणी पत्ता झस त्ति झंपाउ देंति धावंता । तम्मि विलिणा लीणा पुणो वि देहं णिबद्धंति ॥
नो तम्मि हीरमाणा डज्जंता कलुणयं विलवमाणा । कह कह वि समुत्तिण्णा परिसडिय-लुलंत-सव्वंगा ॥
- 27 अह जलग-ताव-तवियं पेच्छंति कलब-वालुया-पुलिणं । सिसिरं ति मण्णमाणा धावंता कह वि पेच्छंति ॥ 27
तत्थ वि पउलिज्जंता उव्वत्त-परत्तयं करेमाणा । डज्जंति सिमिसिमेत्ता रेणूए चम्म-खंड व्व ॥
असि-चक्क-सत्ति-तोमर-पत्तल-दल-सिलिसिलेत्त-सहालं । छायं ति मण्णमाणा असिपत्त-वणम्मि धावंति ॥
- 30 जाव य धावंति तहिं सहसा उद्धाहओ महावाओ । खर-सक्कर-वेय-पहार-पत्थरुघाय-वोमीसो ॥ 30
अह खर-मारुय-पहयं अमि-पत्त-वणं चलंत-साहालं । मुंचइ सत्थ-प्परं भिंदंति अंगमंगाइं ॥
छिण्ण-कर-चरण-जुयला दो-भाइजंत-सिर-कवालिल्ला । कौत-विणिभिण्ण-पोट्टा दीह-लुलंतंत-पढभारा ॥
- 33 गुरु-डाह-डज्जमाणा पेच्छंति तमाल-सामलं जलयं । किर णिव्वेइ एत्तो सीयल-जल-सीय-रोहेण ॥ 33

1 > P रह for रे, P has some additional lines after अवरद्धं like this : गेण्हमि अदिणयं चिय जइ वा रे मूढ णिग्घिणो होउं । तइया न पुच्छसि चिय कस्स मए किंचि पारद्धं ॥ 2 > J om. the gāthā: मंसं etc., P फालिउं 3 > P om. ten lines from नइया मुद्ध etc. to पीडेसि रे तुमं जइया. 9 > J जाइमयम्मत्तो, P संजणं for सेसयं. 10 > P मारेसि. 11 > J हरिहराई, J अयाणओ for मुद्धओ. 13 > P अयाणओ. 14 > P धम्मो, P तइया for जइया, P मम for मं, P न याणए. 15 > J ण आणए, P न याणए. 16 > P चडचडस्स, P मंसामि for मासम्मि, J माँसाओ P मीसाउ. 17 > P य हु for बहु, P खइरो व्व. 18 > P जालउले, P तत्तो. 19 > P आणह आणह जलं, P जंपंति, J आणंति तउअं तंबं कढ°. 20 > JP गलंत for जलंत (emended), P जीहाला, P सामिय सामिय नट्टाउ मे. 21 > P तह for अह, P भणमाणा for जंपंता, P देंती for गलय, P विडिंवि°. 22 > P गलयं, J गलियंमि, J ते सित लोहं, P से लोहं, P तेण वि विभिन्नमाणा, P दिसादिमि. 23 > P निवह for तंब, P कडिल्ल for तडिल्ल, P नेंति for णाम. 24 > P लगंति ज घोर. 25 > J देंति तावंता, J णिबद्धंति P निबद्धंति. 26 > J ते for तो, J ललंत for लुलंत. 28 > P सिमिसिगंता रेणूए मंसखंड वा. 29 > P धावंतं. 30 > P पावंति for धावंति, P सरता, P उद्धावई, J प्यहार, P वामीसो. 31 > P पयारं छिंदंति. 32 > P ललंतं च गुरुभारा. 33 > P सीयजल.

- 1 जाव असि-चक्र-तोमर-पूरे पूय-वसा-रुहिर-मुत्त-विच्छिद्धे । अगिंगाला-मुम्सुर-णिवहे अह वरिसए जलभो ॥ 1
तह तेण ते परद्दा वेयालिय-पञ्चए गुहाहुत्ता । धावंति धावमाणा दीणा सेल्लेहिं हम्मता ॥
- 3 पत्ता वि तत्थ केई गुरु-वज्ज-सिलाभिघाय-दलियंग्गा । पविसंति गुहाएँ मुहं बितियं णरयं व घोर-तमं ॥ 3
§ ७७) अह पलय-काल-जलहर-गज्जिय-गुरु-राव-दूसहं सद्दं । सोऊण परं भीया पडिवह-हुत्तं पलार्यति ॥
तत्थ वि पलायमाणा भीम-गुहा-कडय-भित्ति-भाएहिं । मुसुमूरियंगमंगा पीसंते सालि-पिट्टं थ ॥
- 6 कहकह वि तत्थ चुक्का णाऊणं एस पुच्च-वेरि त्ति । वेउच्चिय-सीह-सियाल-सुणय-सउणेहिं घेप्यंति ॥ 6
तेहिं वि ते खजंता अँछ-वियंछं खरं च विरसंता । कहकह वि किंचि-सेसा वज्ज-कुडंगं अह पविट्टा ॥
अह ते वियण-परद्दा खण-मेत्तं ते वि तत्थ चिंतंति । हा हा अहो अकजं मूढेहिं कयं तमंभेहिं ॥
- 9 तद्दुओ च्चिय मह कहियं णरए किर एरिसीओ वियणाओ । ण य सहहामि मूढो एण्हिं अणुहोमि पञ्चखं ॥ 9
हा हा भणिओ तद्दुया मा मा मारेसु जीव-संघाए । ण य विरमामि अहण्णो विसयामिस-मोहिओ संतो ॥
मा मा जंपसु अलियं एवं साहूण उवहंमंताणं । को व ण जंपह अलियं भणामि पयं विमूढ-मणो ॥
- 12 साहंति मज्ज गुरुणो पर-द्वं णेय घेपए किंचि । एवमहं पडिभणिमो सहोयरो कत्थ मे दव्वं ॥ 12
साहंति साहुणो मे पर-लोय-विरुद्धयं पर-कलत्तं । हा हा तत्थ कहंतो पर-लोओ केरिसो होइ ॥
जइ णे भणंति गुरुणो परिग्गहो णेय कीरए गुरुओ । ता कीस भणामि अहं ण सरइ अहं विणा इमिणा ॥
- 15 जइ णे भणंति साधू मा हु करे एत्तियं महारंभं । ता कीस अहं भणिमो कह जियउ कुडंबयं मज्ज ॥ 15
संपह तं कत्थ गयं रे जीव कुडंबयं पियं तुज्ज । जस्स कए अणुदियहं एरिस-दुक्खं कयं पावं ॥
तद्दुया भणंति गुरुणो मा एए णिहण संवर-कुरंगे । पडिभणिमो मूढप्पा फल-साग-सरिच्छया एए ॥
- 18 इय चिंतंति तहिं चिय खण-मेत्तं के वि पत्त-सम्मत्ता । गुरु-दुक्ख-समोच्छइया अवरे एयं ण चाएंति ॥ 18
अह ताण तक्खणं चिय उद्दावइ वण-द्वो धमधमेत्ते । पवणाइइ-कुडंगो दहिउं चिय तं समाढत्तं ॥
अह तत्थ डज्जमाणा दूमह-जालोलि-संवलयि-गत्ता । सत्ता वि सउम्मत्ता भमंति णरयमि दुक्खत्ता ॥ अवि य ।
- 21 सर-कौत-समागम-भीसणए दुसहाणल-जाल-समाउलए । रुहिरारुण-पूय-वसा-कलिण सययं परिहिंइइ सो णरए ॥ 21
इय दुक्ख-परंपर-दूसहए खण-मेत्तं ण पावइ सह सुहए । कय-दुक्ख-कम्म-विमोहियया भम रे सुह-वज्जिययं जियया ॥
सव्व-त्थोवं कालं दस-वास-सहस्साइँ पढमए णरए । सव्व-वहुं तेत्तीसं सागर-णामाण सत्तमए ॥
- 24 एयं च एरिसं भो दिट्ठं वर-णाण-दंसण-धरेहिं । तं पि णरणाह अण्णे अलियं एयं पयंपंति ॥ 24
§ ७८) अण्णे भणंति मूढा सग्गो णरओ व्व वेण भे दिट्ठो । अवरे भणंति णरओ वियइ-परिकप्पिओ एसो ॥
जे च्चिय जाणंति इमं णरयं ते च्चैय तत्थ वच्चंति । अह्णे ण-याणिमो च्चिय ण वच्चिमो के वि जंपंति ॥
- 27 अण्णाणं अण्णाणं ण-याणिमो को वि एस णरओ त्ति । अवरे भणंति अवरा जं होही तं सहीहामो ॥ 27
संसार-णगर-कयवर-सुयर-सरिसाण णत्थि उव्वेओ । किं कोइ डोव-डिंभो पडइय-सहस्स उत्तसइ ॥
अणुदियहमि सुणंता अवरे गेपंति णो भयं धिट्ठा । भेरी-कुलीय पारावय व्व भेरीएँ सडेणं ॥
- 30 णरय-गइ-णाम-कम्मं अवरे वंयंति णेय जाणंति । ता ओदिमंति मूढा अवरे जस्सोवरिं रोसो ॥ 30
अवरे चिंतंति इमं कल्लं विरमामि अज्ज विरमामि । ताव मरंति अउण्णा रहिया ववसाय-सारेणं ॥
दे विरम विरम विरमसु पावारंभाओ दोग्गइ-पहाओ । इय विलवंताणं चिय साहूणं जंति णरयमि ॥
- 33 ता णरणाह सयण्णे जो वा जाणाइ पुण्ण-पावाइ । जो जाणइ सुंदर-मंगुलाइँ भावेइ सो एयं ॥ 33
णरए णेरइयाणं जं दुक्खं होइ पच्चमाणाणं । अरहा तं साहेज्ज व कत्तो अम्हारिसा मुक्खा ॥

1 > J कुंत for तोमर, P पूर for पूय, P om. मुत्त, P अगिंगाला, P नियरे for णिवहे. 3 > P गुहाभिमुहं नार्थतरयं च घोरः. 4 > J भीता P भीया. 5 > P °यंगवंगी, J विस्मंते, P सालियिउं. 6 > P नयणेहिं for सउणेहिं. 7 > P तहं मि ते खजंता अच्छिविअच्छक्खरं, P वज्जकुडंगो पयंसंति ॥ वज्जकुडंगोपविट्टा खणमेत्तं तत्थ किंचि चिंतंति । 8 > P अहा for अहो, J धम्महिं for मंभेहिं. 9 > P तत्तो for तद्दुओ. 10 > P संघायं, J विसयाविस, P संते. 11 > P मुहं for एयं. 12 > P om. °ए किंचि, P सहोअरं. 13 > P om. पर, P भणामो for कइंतो. 14 > P नो for णे, P परिग्गओ, J गरुओ, P तरइ for सरइ. 15 > P णो for णे, P साहू साहुकारे, P जियइ. 17 > P सायरससिच्छया एते. 18 > P चिंतंति, P गुरुदत्तसमो-एतेच्छं, P चार्यति. 19 > P उव्वावइ. 20 > P °भाणो, P सांलितंगा, P सिरयंमि. 21 > J हीसणए P भीसणाए, J पूअसमा P पूइवसा. 22 > P पाविय, P भमिरे, P वज्जिय जं. 23 > P त्थोयं, P सहस्साइँ मं. 24 > J एरिसो, P दिट्ठि, P नारनाह, P एयं ति जंपंति. 25 > J वियदपरियप्पिओ. 26 > P वुच्चंते. 27 > P होहि त्ति तं. 28 > P नयर, P repeats कयवर, P उव्वेवो, P के वि for कोइ, P पडिइयसहसउच्चियइ. 29 > J दट्ठा for धिट्ठा, P कुलीय पारावइ व्व भीरीय सडेण. 30 > J गइ, P ता for ताओ, J अइसंति P उदिसंतु, J जस्सोवरी P जस्सावरिं. 31 > P चिंतंति इमो, P विरमामि सकयसंकेया, P ववसारेयसारेण. 32 > P om. विरम. 33 > J जे वा जाणंति, P जो जीणइ, P सो एयं. 34 > P जुं for जं, P मुक्का.

- 1 § ७९) कह-कह वि आउयंते उव्वटो किंचि-मेत्त-कम्म-मलो । पइसइ तिरिक्ख-जोणि मणुओ वा जो इमं कुणइ ॥ 1
तव-भंग-सील-भंग काम-रई-राग-लोह-कूडत्तं । कूड-सुल-कूड-माणं कूडं टंकं च जो कुणइ ॥
- 3 पसु-महिस-दास-पेसा जे य किलिस्संति दुक्ख-तण्हत्ता । पर-लोय-गिरावेक्खा लोयं खाएति दुस्सीला ॥ 3
एण् सव्वे मरिउं अकय-तवा जंति तिरिय-जोणिमि । तिरियाणुपुग्गि-रउजू-कड्ढिजंता बइल्ल व्व ॥
तथ तस-थावरत्ते संपुण्णापुण्ण-थूल-सुहुमत्ते । वियलेंदिय-पंचेंदिय-जोणी-भेए बहु-वियप्पे ॥
- 6 जल-जलणाणिल-भूमी-वणस्सइ चैय थावरं पंच । विय-तिय-चउ-पंचेंदिय-भेए य जंगमे जाण ॥ 6
दुवय-चउप्पय-भेया अपयापय-संकुला चउ-वियप्पा । पसु-पक्खि-सिरीसिव-भमर-महुयराई बहु-वियप्पा ॥
जल-थल-उभय-चरा वि य गयण-चराई य हॉति बहु-भेया । गरणाह किंचि सोक्खं इमाण सव्वं पुणो दुक्खं ॥
- 9 खोड्डण-खणण-विदारण-जलण-तह-द्वमण-बंध-मोटेहिं । अवरोप्पर-सथेहि य थावर-जीवाण तं दुक्खं ॥ 9
छिजंति वणस्सइणो वंक-कुहाडेहिं गिहय-जणेणं । लुब्बंति ओसहीओ जोध्वण-पत्ता दुहत्ता य ॥
छुब्भंति कडयठंते उयए जीवा उ बीय-जोणिमि । मुसुमूरिजंति तहा अवरं जंत-प्पओगेणं ॥
- 12 गिहय-समस्थ-दढ-बाहु-दंड-पविद्ध-असि-कुहाडेहिं । गरणाह तरुयत्ते बहुसो पव्हत्थिओ रण्णे ॥ 12
खर-पवण-वेय-पविद्ध-गरुय-साला-णमंत-भारेण । भग्गो वणमि बहुसो कडयड-सदं करमाणो ॥
पज्जलिय-जलण-जाला-कराल-डउत्त-पत्त-पच्चभारो । तडतडतडस्स डड्डो गरवइ बहुसो वण-दवेण ॥
- 15 कथइ वज्जासणिणा कथइ उम्मूलिओ जल-रण्णं । वण-करि-करेण कथइ भग्गो गरणाह रुक्खत्ते ॥ 15
§ ८०) गंतूणमचापंतो लोलंतो कटिण-धरणिवट्टमि । कथइ एस त्ति खइओ दुइंदियत्तमि पक्खीहिं ॥
खर-णर-करह-पसूहि य रह-सयड-तुरंग-कटिण-पाण्हिं । दिट्ठि-विट्ठणो तेइंदियएसु बहुसो गिसुडो हं ॥
- 18 उरग-भुर्यंगम-कुक्कड-सिहि-सउण-सण्हिं असण-कज्जमि । विलवंतो च्चिय खइओ सहसाहुत्तो भय-विसण्णो ॥ 18
खर-दिणयर-कर-संताव-सोसिए तणुय-विरय-जंबाले । मच्छत्तणमि बहुसो कायल-सउणेहिं खइओ हं ॥
बहुमो गलेण विट्ठो जाल-परदो तरंग-आइदो । जलयर-सण्हिं खदो बद्धो पावेण कम्मेणं ॥
- 21 मयर-खर-णहर-दाविद्य-तिक्खग्ग-कराल-दंत-करवत्ते । कथइ विसमावत्ते पत्तो गियं-कम्म-संतत्तो ॥ 21
कथइ अहि त्ति दट्ठं मारे-मारह पाव-पुरिसंहिं । खर-पत्थर-पहरेहिं गिहओ अकथावाराहो वि ॥
कथइ मिहीहिं खइओ कथइ णउलेहिं खंड-खंड-कओ । ओसहि-गद्धाइदो बद्धो मंतेहिं उरयत्ते ॥
- 24 गिट्टर-वग्घ-चवेडा-फुड-णहर-विदारिओ मओ रण्णे । महिसत्तणमि कथइ गुरु-दूसह-भार-दुक्खत्तो ॥ 24
हरि-खर-णहर-विदारिय-कुब्भल-संगलंत-रुहिरोहो । पडिओ वणमि कथइ पक्खि-वलत्तो सउणएहिं ॥
गुरु-गहिर-पंक-खुत्तो सरवर-मज्झमि दिणयर-परदो । ताव तहिं चिय सुक्को तावस-थरो व्व जुण्ण-गओ ॥
- 27 कथइ वारी-बद्धो बद्धो घण-लोह-संकल-सण्हिं । तिक्खंकुस-वेलु-पहार-तज्जणं विसहियं बहुसो ॥ 27
अइभारारोहण-णिसुटियस्स रण्णे बइल्ल-रूवस्स । जीय-सणाहस्स वि कोल्लुएहिं मासं महं खइयं ॥
कथइ विसमावडिओ मुसुमूरिय-संधि-बंधणो दुहिओ । तण्हा-खुहा-किलंतो सुसिऊण मओ अकय-पुण्णो ॥
- 30 कथइ णंगल-जुत्तो सयड-पुरा-धरण-जूरण-पयत्तो । तोत्तय-पहर-परदो पडिऊण टिओ तहिं चैय ॥ 30
डहणंकरण-बंधण-ताडणाइं वह-छेज-णत्थणाइं च । पसु-जम्ममुवगण्णं गरवइ बहुमो वि सहियाइं ॥
हरिणत्तणमि तक्खण वियायइ-मय-तणं पमोत्तणं । सावय-सहस्स-पउरे वणमि विवलाइयं बहुसो ॥
- 33 कथइ य जाय-मेत्तो मुद्धत्तणएण जणणि-परिहीणो । दढ-कोडंडायडिय-बाणं वाहं समहीणो ॥ 33

1 > P कह व आउयंते, P पइसति, P जोणी, J जं for जो, P कुणय. 2 > P कामरती, P कुडुत्तं. 3 > J जे किलिस्संति P जोइ किलिसेइ, P निगपेक्खा, P खायंति. 4 > J तिरियाणुपुग्गि-रउजू. 5 > P थावरत्तो ते पुत्रापुत्र. 6 > P तेय for चैय, J विइ, P भेएणं for भेए य. 7 > P दुणाय, J अपयापय, P सिरीसिव भमरामहुयरवहुविइवियप्पा. 8 > P गयणचरा चैय. 9 > P खोड्डण, P विदारणजालणतहधमण. 10 > P °सराइओ कुहाडिवाएण निइय, P लुब्बंति, P वि for य. 11 > P कडकडंते उदए जीवा तु बीय. 12 > J पविद्ध, P सिय for असि. 13 > P पविद्ध, P साला निमंतभावेण. 14 > P दड्डो. 15 > J रयेणं, P करकरेण. 16 > P °चार्यंतो, P वसत्थि for एस त्ति, J विइंदियं तम्मि. 17 > P रहसड. 18 > P om. भुर्यंगम, P विवलाइत्तो खइओ. 19 > J विअर for विरय, P जंबोले, P काइल. 21 > P दारिय for दाविद्य. 23 > P ओसहिं गंधारदो, P उयरत्ते. 24 > P विदारिओ, P सार for भार. 25 > J कर for खर, P विवारिय, P पत्थिवलुत्तो. 26 > P गुरुणं. 27 > P कथइ वीराबंधो, P तिक्खंकुसाबलपहार, P विसहिउं पयत्तो. 28 > P मयं for महं. 29 > J असिऊण for सुसिऊण. 30 > P णंगलहुजुत्तो, P चैव for चैय. 31 > P तहा for वह. 32 > P हरित्तणमि, J विआयमयतण्णयं, P मयतणयं, P विवला इओ. 33 > P om. य, P कोयंटा, P बाणवाहं.

- 1 नोयस्स दिण्ण-कण्णो कथ्ह पिहओ सरेण तिक्खेणं । कथ्हइ पलायमाणो भिण्णो सेल्ल-प्पहारेहिं ॥ 1
- कथ्हइ धावंतो च्चिय पडिओ विसमभिम गिरि-वर-मसम्मि । कथ्हइ वण-दव-जाळावलीहिं डडो गिरुच्छाहो ॥
- 8 णो णिब्भएण च्चिण्णं तणं पि णो चेय पाणियं पीयं । ण य णिब्भएण सुत्तं णरणाह मयत्तणमि मए ॥ 3
- सस-संबर-महिस-पसुत्तणम्मि पुरिसेहिं मंस-लोहेणं । मंसं बहुसो खहयं फालेउं अंगमंगाइं ॥
- सर-सत्ति-सेल्ल-सव्वल-णिहय-णिक्खित्त-सर-पहारेहिं । बहुसो अरण्ण-मज्जे जीएण णिएण वि विमुक्को ॥
- 6 सुय-सारिय-सउणत्ते लावय-तित्तिर-मयूर-समयम्मि । पंजरय-पास-महयं बहुसो से बंधणं पत्तं ॥ 6
- तण्हा-सुहा-किल्लेतेहिं णवर वृच्चं पि वंफियं बहुसो । जो उण णिवसइ गम्भे आहारो तस्स तं चेय ॥
- कजाकजं बहुसो गम्मागम्भं भयाणमाणेण । णरवइ भक्खाभवक्खं परिहरियं णो भमंतेण ॥ अवि य ।
- 9 दुक्खं जं णारयाणं बहु-विविह-महा-घोर-रूवं महंतं, होज्जा तं तारिसं भो तिरिय-गह-गयाणं पि कसिं चि दुक्खं । 9
- छेजे बंधे य घाए जर-मरण-महावाहि-सोगुहयाणं, णिच्चं संसार-वासे कह-कह वि सुहं साह मज्जं जियाणं ॥
- अंतोमुहुत्त-मेत्तं तिरियत्तं को वि एत्थ पावेइ । अण्णो दुह-सय-कलिओ कालमणंतं पि बोलेइ ॥
- 12 तिरियत्तणाउ मुक्को कहं पि णिच्छुब्भए मणुय-जम्भे । मणुओ व्व होइ मणुओ कम्माइ इमाइ जो कुणइ ॥ 12
- § ८१) ण य हिंसओ जियाणं ण य विरइं कुणइ मोह-मूढ-मणो । पयइ-मिउ-सहवो जो पयइ-विणीओ दयालू, य ॥
- तणु-कोह-माण-माया जीया विरमंति जे कसाएसु । मूढ-तव-णियाणंहिं य जे होंति य पाव-परिणामा ॥
- 15 दट्टण य साहुयणं ण वंदिरे णय णिदिरे जे य । रंडा दूभग तह दुक्खिया य बंधं धरेमाणी ॥ 15
- सीउण्ह-सुपिवासाइएहिं अवसस्स णिज्जराए उ । तिरियाण य मणुयत्तं केसिं पि अकाम-वसयाणं ॥
- दारिहेण वि गहिया धणिय-परद्धा तहा सया थद्धा । सणियाणं पडिउणं मरंति जलणे जल्ले वा वि ॥
- 18 जे पर-सत्ति-णियत्ता णवि थद्धा णय दोस-गहण-परा । ण महारंभ-परिगहण-इंभया णय जे चोरा ॥ 18
- ण य वंचया ण लुद्धा सुद्धा मुद्धा जणे ण दुस्सीला । मरिउण होंति एए मणुया सुकुले समिद्धे य ॥
- जे उण करंति कम्मं णरय-तिरिक्खत्तणस्स जं जोगं । पच्छा विरमंति तहिं कुच्छिय-मणुया पुणो होंति ॥
- 21 मणुयाउगं णिब्भइ पुत्तिं पच्छा करंति जे पावं । ते णरय-तिरिक्ख-समा पुरिसा पुरिसन्ध-परिहीणा ॥ 21
- णरणाह इमे पुरिमा तिरिया वा एय-कम्म-संजुत्ता । देवा णेरहया वा मरिउं मणुयत्तणे जंति ॥
- जायंति कम्म-भूमीसु अहम-भूमीसु के वि जायंति । आरिय-जणम्मि एक्के मेच्छा अवरे पुणो होंति ॥
- 24 सक-जवण-सबर-बब्बर-काय-मुहंढोड्डु-गोड-कप्पणिया । अरवाग-हूण-रोमस-पारस-खस-न्वागिया चंय ॥ 24
- डोंबिलय-लउस-बोक्कस-भिल्ल-पुल्लिंदंध-कोत्थ-भररूया । कोंचा य दीण-चंचुय-मालव-द्विल्ला कुडक्खा य ॥
- किक्कय-किराय-हयमुह-गयमुह-खर-तुरय-मंडगमुहा य । हयकण्णा गयकण्णा अण्णे य अणारिया बह्वे ॥
- 27 पावा पर्यंढ-चंडा अणारिया णिग्घणा णिरासंसा । धम्मो त्ति अक्खराइं णत्रि ते सुविणे वि जाणंति ॥ 27
- एए णरिंद भणिया अण्णे वि अणारिया जिणवरंहिं । मंदर-सरिसं दुक्खं इमाण सोक्खं तण-समाण ॥
- चंडाल-भिल्ल-डोंबा मोयरिया चंय मच्छ-बंधा य । धम्मत्थ-काम-रहिया सुह-हीणा ते वि मेच्छ व्व ॥
- 30 § ८२) आरिय-कुले वि जाया अंधा बहिरा य होंति लहाया । रुद्धा अजंगम च्चिय पंगुलया चलण-परिहीणा ॥ 30
- धणमंतं दट्टणं दूरं दूमेति दुक्खिया जे य । रूविं च मंद-रूवा दुहिया सुहियं च दट्टणं ॥
- णरणाह पुरिस-भावं महिला-भावं च के वि वंचंति । मोहरिग-सिमिसिमेता णपुंसयत्तं च पावंति ॥
- 33 दीहाउया य अण्णाउया य आरोग्ग-सोक्ख-भागी य । सुभगा य दूभगा वि य अवरे अयसाइं पावंति ॥ 33

1 > J दिण्णयण्णो, P कथ्हइ धाययमाणो. 2 > P णइ for वर, P दडुओ. 3 > J णिब्भएण for णिब्भएण. 4 > P मांस लोभेण, P मांसं. 5 > J प्पहारेहिं, P मजे जीए नीएण. 6 > P सउणत्तो, J पानाईयं, J णे for मे, J पत्तो. 7 > P णाम for णवर, P भक्खियं for वंफियं, P जो पुण, P गत्तो for गम्भे. 9 > P गमाणं for गयाणं. 10 > P महाबोहियोगुहयाणं. 12 > P तिरियत्तणओ चुक्को, J कहिं पि, P पि नच्छुब्भए, P मणुउ for मणुओ, P om. होइ. 13 > J विरइं, P न विरइं, J पयइमि महवो, P निउ for मिउ. 14 > J अइ for तणु, J लोहेण कया वि for जीया, J णियाणहि. 15 > P साहुयणं, P रंडायर-दुभगा दु. 16 > P वासाइयाउ अवसस्स, J वि for य. 17 > J व for वि, P इद्धा for थद्धा. 18 > J परिगहइंभया. 19 > P सुकुले समिद्धे. 20 > P जे पुण. 21 > J मणु भाउअं, P पुच्छी पुच्छा करंति. 23 > J अकम्म for अहम. 24 > J सय for सक, P खसखोसिया, P चंय. 25 > P डोंबय, J बोक्कस P बोक्कस, J पुल्लिय अंध, P पुल्लिंदंधकोंभभररूया, P य वीण, P कुलक्खा. 26 > P किक्कयकराय, P हयमुहा गयमुहा, JP तुरया. 27 > P चंडा for चंडा. 28 > P मंदिर. 29 > P मेअ for चंय. 30 > J होंति कलाय, J हों लहाया, J रुद्धायंरामच्चिय, P कहा for रुद्धा. 31 > J दूमेद, J रूवं for रूवि. 32 > P मोहपि सिमिसिमेता, J वंचंति for पावंति. 33 > P उ for य in the first two places.

- 1 सुजा य पंगुला वामणा य अवरे य होनि हीर्णगा । मूया बहिरा अंधा कई वाहीहिं अभिभूया ॥ 1
- संजोय-विष्पओगे सुह-दुख्खाइं च बहु-पगाराई । बहुसो णरवर जम्मण-मरणाणि बहुणि पावति ॥
- 3 एयं विय पज्जंत णरवर वेरग-कारणं पदमं । जं असुहम्मि वसिज्जइ णव-मासे गम्भ-वासम्मि ॥ 3
- असुह-मल-मुत्त-पउरे छिवाडिया-मास-पेसि-समयम्मि । बहुसो अहं विलीणो उवरे विय पाव-कम्महिं ॥
- 6 बहुसो पवुत्थवुद्दया-गयवुद्दयाणं च गम्भ-संयूओ । खर-खार-मूल-डहो गल्लिओ रुहिरं व णिक्खंतो ॥ 6
- अण्णो गम्भ-नाओ विय जणणीए मयाए जीवमाणो वि । डज्जइ चडफडंतो दुसह विय जलण-जालाहिं ॥
- अवरो संपुण्णतो कह वि विवण्णो तहिं अकय-पुण्णो । परिच्छेयंगमंगो कड्दिज्जइ जणणि-जोणीए ॥
- कह-कह वि विणिक्खंतो अंतो-संतोस-सासमुज्जंतो । वुण्णो तथ विवण्णो बहुसो रुण्णो अकय-पुण्णो ॥
- 9 जायंतेण मए विय अणंतसो गरुय-वेयणायल्लो । णीया जणणी णिहणं चलच्चुवेल्लिर-ससल्लो ॥ 9
- कथइ य जाय-मेत्तो पंसुलि-समणी-कुमारियाहिं च । चसो जीवंतो विय फरिहा-रच्छा-मसाणेसु ॥
- तथ वि विरसंतो विय खइओ बहु-साण-कोल्लुयाईहिं । थणयं च अलभमाणो कथइ सुसिओ तहिं चेव ॥
- 12 कथइ जायंतो विय गहिओ बाल्लगगहेण रोहेण । तथ मुओ रुयमाणो माऊए रोयमाणिए ॥ 12
- कथइ कुमार-भावं पडिवण्णो पुण्ण-लक्खणावचवो । सयण-सय-दिण्ण-दुक्खो विहिणा जम्मंतरं णीओ ॥
- कय-दार-संगहो हं बहुसो बहु-सयण-मणहरो पुत्वि । दुग्गय-मणोरहो इव सय-हुत्तं मच्चुणा णीओ ॥
- 15 जुवईयण-मणहरणो बहुसो दढ-पीण-सल्लिय-सरीरो । सिद्धत्थ-कंदली विय टस त्ति भग्गो कयंतेण ॥ 15
- पर-दार-चोरियाइसु गहिओ रायावराह-कज्जेण । छेयण-लंछण-ताडण-डहणं कण-मारणं पत्तो ॥
- दुग्भिक्ख-रक्ख-खइए जणम्मि णरणाह मे खुत्तेण । खइयं माणुस-अंसं जण-सय-परिणिदिं बहुसो ॥
- 18 बहु-रइय-चीर-मालो उच्छिट्ठाणिट्ठ-खप्पर-करगो । कय-डिंभ-कलयलो हं बहुसो उम्मत्तओ भमिओ ॥ 18
- खदुया-मोत्थय-पहराहओ वि दीणत्तणं अमुंचंतो । सरणं अविदमाणो जणस्स पाएसु पडिओ हं ॥
- कथइ महिलत्तणए दूसह-पइ-णहमसहमाणिए । दालिह-कलह-तवियाए तीए रुण्णं धव-मणाए ॥
- 21 वेहव्व-न्मियाए दूसह-पइ-णहमसहमाणिए । उर-पोट्ट-पिट्ठेणं णिरत्थयं तं कयं बहुसो ॥ 21
- पिययम-विलीय-दंसण-ईसा-वस-रोस-मोहिय-मणाए । णरणाह मए अप्पा इस त्ति अयइम्मि पक्खित्तो ॥
- दुस्मीलत्तण चिंधं पाव-फलं कुसुम-पल्लवुट्ठभेयं । णासाहर-कण्णाणं छेयं तह भेयणं सहियं ॥
- 24 त्रिसम-सवत्ती-मंतावियाए पइणा अलीढ-गणियाए । णरणाह मए अप्पा विलंबिओ दीण-वचनाए ॥ 24
- बहुली व परिगयाए सिंसिरे जर-कंध-उत्थय-तणूए । दुग्गय-धरिणीए मए बहुसो तण-सत्थरं सुइयं ॥
- वमियं त्रिसमावत्ते हल्लिर-कल्लोल-यीइ-पउरम्मि । तिमि-मयर-मच्छ-कच्छव-भमंत-भीमे समुद्दिम्मि ॥
- 27 एयाणि य अण्णाणि य णरवर मणुयत्तणम्मि दुक्खाइं । पत्ताइं अणंताइं विसमे संसार-कंतारे ॥ 27
- मिर-दुह-जर-वाहि-भगंदराभिभूएहिं दुक्ख-कलिएहिं । सास-जलोदर-अरिसा-लूया-विष्फोड-फोडेहिं ॥
- णिट्ठमच्छण-अवमाणण-तज्जण-दुक्खयण-बंध-घाएहिं । फेडण-फाडण-फोडण-घोलण-घण-घंसणाहिं च ॥
- 30 साणफोडण-तोडण-संकोयण-डहण-झाडणाहिं च । सूलारोवण-बंधण-मदण-करि-चमदणाहिं च ॥ 30
- सीस-च्छेयण-भेयण-लंबण-तडिवडण-तच्छणाहिं च । खल्लुकत्तण-वोडण-जलणावलि-डहण-वियणाहिं ॥
- णरवइ णरय-सरिच्छं बहुसो मणुयत्तणे वि णे दुक्खं । सहियं दूसहणिजं जम्मण-मरणारइद्दिम्मि ॥ अवि य ।
- 33 § ८३) दूसह-पिय-विओय-संताव-जलण-जालोलि-त्तावियं । अप्पिय-जण-संगमेण गुरु-वज्जासणिए व्व ताडियं ॥ 33
- अइदारिद-सोय-चिंता-गुरु-भार-भरेण भगयं । भीसण-खास-सास-वाही-सय-वेयण-दुक्ख-पउरयं ॥

- 1) J य मंगुला, J अद्धा केई, P अदिहूया. 2) P संजोग, P "ओगा सुहुदुं", P पयाराइं, P मरणाणि य पावइ बहुणि । 3) P प्रमथंमिव जज्ज. 4) P मासपिडि, P उयरे. 5) P पउत्थवइआगइवयायाणं, P मूउडहूओ, P रुहिरं. 6) J जणणीय मयाय P जणणीइ समाइ. 7) J उण्णो for पुण्णो, P कडिज्जइ. 8) P संत for सास, P वुव्वो for वुण्णो. 9) J वेयणायाहो, P चल्लवेल्लिर. 10) P कुमारियाणं च, P रच्छा सुसाणे य । 11) P कोल्लुयादीहिं, P चेव. 12) P तथ मओ. 14) P मणहरो विय सथं. 15) P सल्लिय, P विय टस त्ति. 16) P राहावराह-चहणं. 17) P जणिमि P "णाह रे मे. 18) P उच्छिट्ठां. 19) P खदुया, P पहगहओ. 20) P परिपूतियाए for तवियाए, J तीय रुण्णं, J धवि (?) for धव, P रुण्णं चिइ विणोउ । 21) P पइणोहम, P उरपोट्टपिट्ठमनिर. 22) P निक्खित्तो for पक्खित्तो. 23) J विद्धं for विंधं, J छेयम छएण मे सहियं, P तह भोयणं. 24) P पइणो. 25) P बहुलीए परिगहियाए, J कंधरोत्थय. 26) P भीमावत्ते for विसमावत्ते, P कच्छभममंति. 28) P जल for जर, P भगंदराहिंभू, P सल for सास, P जलोयरहरिसाल्लुयाहिं वि. 29) P निम्मच्छणाव, J तह for घण. 30) P साडणफोडण, P संकोडण, J झाडणाइं P उओडणाहिं, J चमदणा किं व. 31) P च्छेदणभेदण, J तथहाणिं च, P खल्लुकत्तण, P दहण. 32) P बहुसो व मणुं, P मए for वि णे. 33) J जालोलि-अतविअयं, P ताविअयं, P वज्जाअसं, J ताडिअअं P ताडिअयं. 34) P गिरि for गुरु, J सोस for सास, P वाहि.

- 1 णरवर एरिस-दुक्खयँ मणुयत्तणयं पि णाम जीवाण । वीसमउ कथ हिययं वायस-सरिसं समुद्-मज्झमि ॥ 1
एको मुहुत्त-मेत्तं सव्व-त्थोवं तु भुंजए आऊ । पल्लाई तिणिण पुरिसा जियंति उक्कोस-भावेण ॥
- 3 तम्हा देवत्तणयं इमोहिँ कम्मोहिँ पावए मणुओ । तिरिओ व्व सम्मविट्ठी सुर-णारह्या ण पावेंति ॥ 3
जल-जलण-तडीवडणं रज्जु-विस-भक्खणं च काऊणं । कारिसि-बाल-तवाणि य विविहाई कुणंति मूढ-मणा ॥
सीउणह-सुप्पिवासाय सकाम-अकाम-णिज्जराए य । मरिऊण होंति देवा जइ सुद्धा होंति भावेण ॥
- 6 जे उण सणियाण-कडा माया-मिच्छत्त-सल्ल-पडिवण्णा । मरिऊण होंति तिरिया अट्टज्जाणमि वट्टता ॥ 6
तथ वि वंतर-देवा भूय-पिसाया य रक्खसा अवरे । जे मणुयाण वि गम्मा किंकर-णर-सरिसया होंति ॥
सम्मत्त-बद्ध-मूला जे उण विरया व देस-विरया वा । पंच-महव्वय-धारी अणुव्वए जे य धारेंति ॥
- 9 कम्म-मल-विमुक्काणं सिद्धाणं जे कुणंति वंदणयं । पूयं अरहंताणं अरहंताणं च पणमंति ॥ 9
पंचायार-रयाणं आयरियाणं च जे गया सरणं । सुत्तथोज्जायाणं उज्जायाणं च पणमंति ॥
सिद्धि-पुरि-साहायाणं संजम-जोएहिँ साहु-करणाणं । पयईए साहूणं साहूणं जे गया सरणं ॥
- 12 ते पुरिस-पोडरीया देहं चहुऊण कलमलात्रासं । दिय-लोय-विमाणसु मणहर-रूवसु जायंति ॥ 12
चल-चवल-कांडल-धरा पलंब-वण-माल-रेहिर-सरीरा । वर-रयणाहरण-धरा हवंति देवा विमाणमि ॥
ताण वि मा जाण सुहं सययं णरणाह कामरूवीणं । होइ महंतं दुक्खं देवाण त्रि देव-लोयमि ॥
- 15 जे होंति णाडइहा गोब्बा तह किंकरा य पडिहारा । भिच्चा भडा य भोज्जा अभिओगाणं इमं दुक्खं ॥ 15
अइतिकख-कोडि-धारा-पुरंत-जालावली-जलायंतं । तं पुरिस-वज्जहरं वज्ज हरंतं सुरा दट्टुं ॥
पच्छायाव-परद्धा हियएण इमाइं णवरि चिंतेंति । हा हा अहो अकज्जं विसयासा-मोहिएण कयं ॥
- 18 जइ तइया विरमंतो अविराहिय-संजमो अहं होंतो । इंदो व्व होज्ज इहइं इंद-सरिच्छो व्व सुर-राया ॥ 18
अव्वो संपइ एसो किंकर-पुरिसो इमाण हं जाओ । तव-सरिसं होइ फलं साहू सच्चं उवइसंति ॥
सरिसाण य सम्मत्तं सामणं सेविंयं समं अग्गे । अज्जवसाय-गुणेणं एमो इंदो अहं भिच्चो ॥
- 21 विसयासा-मोहिय-माणसेण लद्धे जिणिंद-वयणमि । ण कओ आयर-भावो चुक्को एयं विसय-सोक्खं ॥ 21
बहु-काल-संचिओ मे जो वि कओ संजमो बहु-वियप्पो । सो वि अकारण-कुविएण णासिओ णवर मूढेण ॥
लोए पूया-हेउं दाण-णिमित्तं च जो तवो चिण्णो । सो धम्म-सार-रहिओ भुस सग्गिओ पुरियो जाओ ॥
- 24 तडि-जलण-वारि-मरणे बाल-तवे अज्जियं च जं धम्मं । तं कास-कुसुम-सरिसं अवहरियं मोह-वाएण ॥ 24
स च्चिय संजम-किरिया तं सीलं भाव-मेत्त-परिहीणं । तं कीड-खइय-हिरिमिंथ सच्छहं कह णु णोमारं ॥
विबुह-जण-णिंदिएसुं असार-नुच्छेसु असुइ-पउरेसु । खण-भंगुरेसु रज्जइ भोएसु विडंबण-समेसु ॥
- 27 जीवो उण मणुयत्ते तइया ण मुणइ विसय-मूढ-मणो । जइ एयं जाणंतो तं को हियएण चिंतेंतो ॥ 27
इय ते किंकर-देवा देवे दट्टुण ने महिड्डीए । चिंताणल-पज्जलिया अंतो-जालाहिँ डज्जंतं ॥
- (८४) जे तथ महिड्डीया सुरवइ-गरिसा सुरा सुकय-पुण्णा । छम्मास-सेस-जीविय-समए ते दुविस्वया होंति ॥
30 कुसुमं ताण मिलायइ छाया परिमलइ आसणं चलइ । विमणा य वाहणा परियणो य भाणं विलंघेइ ॥ 30
पुरिस-णिमित्त-पिसुणिय-चवणं णाऊण अत्तणो देवो । भय-वुण्ण-दीण-वयणो हियएण इमाइं चिंतेंइ ॥
हा हंस-गढभ-मउए देवंग-समोत्थयमि मयणमि । उववज्जिऊण होहिइ उप्पत्ती गढभ-वासमि ॥
- 33 वियसिय-सयवत्त-समे वयणं दट्टुण नियस-विलयाणं । हा होहिइ दट्टुव्वं थुडुक्कियं पिसुण-वग्गस्स ॥ 33
तामरस-सरस-कुवलय-माले वावी-जलमि णहाऊण । हा कह मजेयव्वं गाम-तलाए असुइयमि ॥

1 > J जीवयाण. 2 > J मेत्तयं, P त्वोयं, P आउं. 3 > P नुरनेग्ग्या न पावेंति. 4 > J तवावि य. 5 > J वात्ताअस-
कामसकामाणि° P वासाअकामसकाम, P हियएणं for भावेण. 6 > P सल्लपरिमत्ता । 7 > P भूया य पिसाय रक्खसा. 8 >
P विरियव्व, P धारेंति. 9 > P विण्यमुक्का जे सिद्धाणं कु°. 10 > P उवज्जायाणं. 11 > P पुरसाधयाणं. 12 > P पोडराया, P
J रूपसु. 13 > P धण for वण. 14 > P सययं य नरनाह कामरूवाणं, P लोयमि. 15 > P अभित्थाणं. 16 > P अत्ति-
तिकख, P जलयलंतं. 17 > P चिंतेंति, J विसयाविसमो°. 18 > J णिरसंको for विरमंतो, P महं for अहं. 20 > J सामण्णु.
21 > J भाओ. 23 > P पूयाहिउं, P तुम for मुस. 24 > P तडिजालानलमरणे. 25 > J हिरिमिच्छ P हिरिमिंथ, P णु निस्सारं.
27 > P जीवो पुण, P मोह for विसय. 28 > P पज्जलिय, P उज्जल for अंतो. 29 > P तो for जे, P महिड्डीया. 30 >
P परियणा. 31 > P चलणं for चवणं, J भयदीणपुणवयणो P भयचुव्वदीणविमणो. 33 > P सिय for सय, P वियलाणा
for विलयाणं, P थुडुक्कियं. 34 > P मालो वावी-

- 1 मंदार-पारियायय-विथसिय-णव-कुसुम-गोच्छ-वैचहए । वसिउं दिव्वामोए हा कह होहं असुइ-गंधो ॥ 1
फालिय-मणि-णिम्मबिए जलंत-बेरुलिय-संडिए भवणे । वसिऊण वसियच्चं जर-कडय-कए उडय-वासे ॥
- 3 तेलोक-तुंग-विंता-नुमे व्व णमिऊण जिणवरं एत्थ । णूण मए णवियच्चं मूढाणं अण्ण-पुरिसाणं ॥ 3
विथय-णिदंब-पुल्लिणे रमिउं हंसो व्व तियस-विलयाण । हा मणुय-लोय-पत्तो होहं महिलो कुमहिलो व्व ॥
वर-पोमराय-मरगाय-कक्केयण-रयण-रासि-विक्खित्तो । णूणं किविणो घेच्छं वराडियं धरणिवट्टाओ ॥
- 6 गंधव्व-ताल-तंती-संबलिय-मिलंत-महुर-सहेणं । बुज्झंतो होही सो संपइ खर-णिट्टर-सरेहिं ॥ 6
सुर-सेलमि पयासं जिण-जम्मण-मंगलमि वट्टंते । तं तथ णच्चियं मे तं कण ण सलहियं बहुसो ॥
हा दिणयर-कर-परिमास-वियसियंयुरुह-सरिस-मुह-सोहं । सुरगिरि-सिर-मउड-समं कइया उण जिणवरं दच्छं ॥
- 9 दर-दलिय-कुवलउप्पल-विसट्ट-मयरंद-बिंदु-संदुमियं । थण-जुयलं हो सुर-कामिणीण कइया पुणो दच्छं ॥ 9
तियसिंद-विलासिणि-पणय-कोव-पव्विद्व-कमल-राहलं । पउम-महापउमाइसु दहेसु मह मज्जणं कत्तो ॥
तं णवर खुडइ हियए जं तं णंदीसरे जिणिंद-महे । तीय महं पेसविथा दिट्ठी धवलुज्जल-विलोला ॥
- 12 सुंदरयर-सुर-सय-संकुले वि रंगमि णच्चमाणीए । सहि-वयण-णिघेसिय-लोयणाए तीण चिंरं दिट्ठो ॥ 12
समवसरणमि पत्तो विविह-विणिम्मविय-भूसणावयवो । सुरलोय-णिमिय-लोयण-धवलुज्जल-पमहलं दिट्ठो ॥
हा सुर-णरिंद-णंदण हा पंडय रुह-भइ-सालवण । हा वक्खार-महागिरि हिमवंत कहिं सि दट्टव्वो ॥
- 15 हा सीए सीओए कंचण-मणि-घडिय-नीर-तरु-गहणे । हा रम्मय धरणीहर फुरंत-मणि-कंचण-धराणं ॥ 15
हा उत्तर-देव-कुरु हा सुर-सरिए सरामि तुह तीरं । रयणायर-दीवसुं तुज्झं मे कीलियं बहुसो ॥
इय विलवंतो चिय सो थोवथोवं गलंत-कंतिहो । पवणाहओ व्व दीवो इत्ति ण णाओ कहिं पि गधो ॥ अवि य ।
- 18 एवं पलावेहिं दुहं जणंतो, पासट्टियाणं पि सुराण णिच्चं । वज्जासणी-घाय-हओ व्व रुक्खो, पुण्णक्खए मच्चु-वसं उवेइ ॥ 18
दस वास-सहस्साइं जहण्णमाउं सुराण मज्झमि । उक्कोसं सव्वट्टे सागर-णामाहं तेत्तीसं ॥]
- § ८५) तओ भो भो पुरंदरदत्त महाराय, जं तए चितियं 'एयस्स मुणिणो सयल-रूव-जोव्वण-विण्णाण-लायण्ण-
- 21 संपण्ण-सफल-मणुय-जम्मस्स वि किं पुण वेरगं, जेण एयं एरिसं एयंत-दुक्खं पव्वज्जं पव्वणो' ति । ता किं इमं पि एरिसं 21
संसार-दुक्खं अणुहविऊण अण्णं पि वेरग-कारणं पुच्छिजइ ति ।
णरणाह सव्व-जीवा अणंतसो सव्व-जाइ-जोणीसु । जाया मया य बहुसो बहु-कम्म-परंपरा-मूढा ॥
- 24 एयं दुह-सय-जलयर-तरंग-रंगत-भासुरावत्तं । संसार-सागरं भो णरवर जइ इच्छसे तरिउं ॥ 24
भो भो भणामि सव्वे एयं जं साहियं मए तुज्झ । सदहमाणहिं इमो उवणसो मज्झ सोयव्वो ॥ अवि य ।
मा मा मारसु जीए मा परिहव सज्जणे करेसु दयं । मा होह कोवणा भो खलेसु मेत्तिं च मा कुणह ॥
- 27 अलिए विरमसु रमसु य सव्वे तव-संजमे कुणसु रायं । अदिण्णं मा गेण्हह मा रजसु पर-कलत्तमि ॥ 27
मा कुणह जाइ-गव्वं परिहर दूरण धण-मयं पावं । मा मज्जसु णाणं बहु-माणं कुणह जह-रूवे ॥
मा हससु परं दुहियं कुणसु दयं णिच्चमेव दीणमि । पूणह गुरुं णिच्चं वंदह तह देवए इट्ठे ॥
- 30 संमाणसु परियणं पणइयणं पेसयेसु मा विमुहं । अणुमण्णह मित्तयणं सुपुरिस-मग्गो फुडो एसो ॥ 30
मा होह णिरणुकंपा ण वंचया कुणह ताव संतोसं । माण-त्थइ। मा होह णिक्खिवा होह दाण-परा ॥
मा कस्स वि कुण णिंदं होजसु गुण-णेण्हणुज्जओ णिययं । मा अप्पयं पसंसह जइ वि जसं इच्छसे धवलं ॥
- 33 बहु-मण्णह गुण-रयणे एक्कं पि कयं सयं विचित्तिसु । आलवह पढमयं चिय जइ इच्छह सज्जणे मोत्तिं ॥ 33
पर-वसणं मा णिंदह णिय-वसणे होह वज्ज-घडिय व्व । रिन्हीसु होह पणया जइ इच्छह अत्तणो लच्छी ॥

1 > P विचइए, P वसिओ. 2 > J तडय for उडय. 3 > P om. तुंग, P नमियव्वं, P अन्नदेवाणं ॥ 4 > J होहम for होहं.
5 > P पउम for पोम, P कक्केयण, P किमिणो घेत्यं वडाणियं. 6 > P बोहिस्सं for होही सो. 7 > P साहियं for सलहियं
8 > P दाहिणकरपरि° for हा दिणयरकरपरि°, P मुहहोहं, P om. सिर, P समं से कइयाओ जिणवरिदत्थे । 9 > P दरि for दर
P मिंद° for संदु°, P om. हो, P गुरं वरकामि°. 10 > J दूहेसु महु मज्जणं. 11 > P नरवर for णवर, P महं for महे. 12 > P
om. सुरसय, P नच्चमाणीओ, P निमेसिय. 13 > J °लोयणिम्मिय. 14 > P नंदण for णरिंद, J णंदण पंडय तरुक्खपभूर-
सालवणे. 15 > J सीतोदे, P धरणिगरा सोहियफुट्टकंचण. 16 > P तुज्झ मए कीलियं. 17 > P थोवंथोवं, P चि for पि.
18 > P दुहं जुणंतो, J वज्जासणी, P रुस्सो पुणक्खए वच्चुवसं. 20 > P पुरंदरयत्त. 21 > P पण्णा for संपण्ण, J सफलजम्म-
मणुयस्स वि, P वेरयं for वेरगं, P एतं for एयं, P पव्वओ ति । तो किं. 22 > P अणुभविऊणं अत्तमि वे°. 24 > P तुरंग,
for तरंग, P तो for भो. 25 > J सं for जं, J तुज्झं for तुज्झ, P मज्ज for मज्झ. 26 > P मारसु जिए, P कोहणाहो खलेहिं.
27 > P तह for तव, P अनिज्ज for अदिण्णं. 28 > P माणं बहुमायं मा कुणसु रूवे for the 2nd line. 29 > P पयं for
परं, J दयं णिच्च णिच्च दी°, P गुरु for गुरुं. 30 > J फुडं for फुडो. 31 > JP -थइ। 32 > J कस्सइ कुण णिंदं होज गुण, P
गेण्हसु जुओ, P इह सि for जइ वि. 33 > P मणय for मण्णह, P पि चित्तिसु for विचित्तिसु. 34 > P लच्छि ।

- 1 अल्लियह धम्म-सीलं गुणेषु मा मच्छरं कुणह तुब्भे । बहु-सिक्खिए य सेवह जइ जाणह सुंदरं लोए ॥ 1
मा कडुयं भणह जगे भदुरं पडिभणह कडुय-भणिया वि । जइ गेण्हउण इच्छह लोए सुहयत्तण-पढायं ॥
- 3 हासेण वि मा भण्णउ णवरं जं भम्म-वेहयं वयणं । सच्चं भणामि एत्तो दोहरं गण्ठि लोयम्मि ॥ 3
धम्मम्मि कुणह वसगं रामो सत्थेसु णिउण-भणिएसु । पुणरुत्तं च कलासुं ता गण्ठिजो सुवण-मज्जे ॥
इय णरवह इह लोए एयं चिय णूण होइ कीरंतं । धम्मत्थ-काम-मोक्खाण साहयं पुरिस-कजाणं ॥
- 6 ता कुणसु आयरं भो पढमं काऊण जं इमं भणियं । ततो सावय-धम्मं करेसु पच्छा समण-धम्मं ॥ 6
ता कलि-मल-सयल-कलंक-वज्जिओ विमल-णाण-कंतिलो । वच्चिहिसि सिद्धि-वसही सयल-किलेसाण वोच्छेयं ॥
जत्थ ण जरा ण मच्चू ण बाहिणो णेय सव्व-दुक्खाइं । तिहुयण-सोक्खाण परं णवरं पुण अणुवमं सोक्खं ॥ अवि य ।
- 9 संसारं दूर-पारे जलहि-जल-समे भीसणावत्त-दुक्खे, अच्चंतं-वाहि-पीडा-जर-मरण-मयाबद्ध-दुक्खाइ-चक्के । 9
मजंताणं जियाणं दुह-सय-पउरे मोह-मूढाण ताणं, मोत्तुं तं केवलं भो जिणवर-वयणं गण्ठि हत्थावलंबो ॥' ति
§८६) एत्थंतरम्मि कहंतरं जाणिऊण आबद्ध करयलजलिणा पुच्छिओ भगवं धम्मणंदणो वासव-महामंतणा, भणियं
12 च णेण । 'भगवं, जो एस तए अइह एयंत-दुक्ख-रूवो साहिओ चउ-गइ-लक्खगो संसारो, एयस्स पढमं किं णिमित्तं, जेण एए 12
जीवा एयं परिभमंति' ति । भणियं च गुरुणा धम्मणंदणेण । 'भो भो महामंत, पुरंदरदत्त महाराय, णिसुणेसु, संसार-परि-
भमणस्स जं कारणं भणियं तेलोक्क-बंधूहिं जिणवरेहिं ति ।
- 15 कोहो य माणो य अणिग्गहीया, माया य लोहा य पवइमाणा । चत्तारि एए कस्मिणा कसाया, सिंचंति मूलाइं पुणभवस्स ॥ 15
अण्णाणंओ जीवो पडिवज्जइ जेण विसम-दोग्गइ-मग्गे । मूढो वज्जाकजे एयाणं पंचमो मोहो ॥
तत्थ कोहो णाम जं वेणइ अवरइ वा अणवरइ वा मिच्छा-वियप्पेहिं वा भावयंतस्स परस्स उवरिं बंध-घाय-कस-च्छेय-
- 18 तज्जणा-मारणाइ-भावां उववज्जइ तस्स कोहो ति णामं । जो उण अहं एरिसो एरिसो ति तारिसो ति य जाइ-कुल-बल-विज्जा- 18
धणाइहिं एमो उण ममाहमो किं एयस्स अहं विसहामि ति जो एरिसो अज्जवसाओ अहं ति णाम सो माणो ति भण्णइ ।
जो उण इमेणं पओगेणं इमेण वयण-विष्णागेणं इमेणं वियप्पेणं एयं परं वंचेमि ति, तं च सकारेणं णिक्कारेणं वा, सव्वहा
- 21 वंचणा-परिणामो जो एत्तो सव्व-संसारं माया माय ति भण्णइ । जो उण इमं सुंदरं इमं सुंदरयं एयं गेण्हामि इमं ठावेमि 21
एयं रक्खामि ति सव्वहा मुच्छा-परिणामो जो सो लोहो ति भण्णइ । तत्थ जो सो कोवो भो चउप्पयारो सव्वण्णूहिं भग-
वंतेहिं परूविओ । तं जहा । अणंताणुबंधी, अप्पच्चक्खाणवरणो, पच्छक्खाणवरणो, मंजलणो चय । तत्थ य
- 24 पव्वय-राइ-सरिसो पढमो बीओ उ पुढवि-भेय-समो । बालुय-रेहा तइओ होइ चउत्था य जल-रेहा ॥ 24
पव्वय-राइ-सरिच्छे कोवो जम्मे वि जस्स जो हवइ । सो तेण किण्ह-लेमो णरवर णरयं समल्लियइ ॥
खर-पुढवी-भेय-समो संवच्छर-मेत्त-कोह-परिणामो । मरिऊण णील-लेमो पुरिसो तिरियत्तणे जाइ ॥
- 27 बालुय-रेहा-सरिसो मास-चउक्केण कोह-परिणामो । मरिऊण काउ-लेमो पुरिसो मणुयत्तणमुवेइ ॥ 27
जल-रेहा-सारिच्छा पुरिसा कोहेण तेउ-लेस्साए । मरिऊण पक्ख-मेत्ते अह ते देवत्तणमुर्वति ॥
माणो वि चउ-वियप्पो जिगेहिं समयम्मि णवर पण्णविओ । णामेहि पुढव-भणिओ जं णाणत्तं तयं सुणइ ॥
- 30 ण णमइ सेलत्थंओ ईसिं पुण णमइ अत्थिओ थंभो । कह-कह वि दारु घट्टिओ सबमो चिय होइ वेत्तमओ ॥ 30
सेलत्थंभ-सरिच्छेण णवर मरिऊण वच्चए णरए । किंचि पणामेण पुणो अट्टिय-थंभेण तिरिएसु ॥
दारुय-थंभ-सरिच्छेण होइ मागेण मणुय-जम्मम्मि । देवत्तणम्मि वच्चइ वेत्तलओ णाम सम-माणो ॥
- 33 माया वि चउ-वियप्पा वंस-कुडंगी य मंदग-विसाणा । धणुओरंय-सरिच्छा ईसिं वंकाउ गप्पडिया ॥ 33

1 > P अअज्जियहिय for अल्लियह, P ह for य before सेवह 2 > P जणं for जगे, P पढायं. 3 > P व for वि, P नरवर जं. 5 > P नरवर for णरवइ, J चिय होइ णूण कीरंतं, P साहसं for साहयं. 6 > P तो for भो, P जइ for जं. 7 > P वसगं for वसही. 8 > P बाहिणा णेय, P तदुयणसोक्खाउ परं. 9 > P जलदिसममहाभी, P मयाणंक्खिक्खाइं. 10 > P ते for तं. 11 > P om. कहंतरं, J भयवं. 12 > P एमो for एस, J om. अइह, P om. एयंतं, P लक्खणं, J एएण for एए. 13 > J om. एयं, P पुरंदरयत्त, P परिभमणस्स. 14 > P बंधू for बंधूहिं, P om. 'हि जिणवरेहिं etc. to अणवरइ वा. 15 > J अणिग्गहीया. 17 > P दधघायतज्जणमा. 18 > P कोवो for कोहो, P om. ति तारिसो ति. 19 > J कीस for किं, P om. अहं, J विसहमि P विसहामो, J एरिस अज्जवसाओ सो माणो. 20 > P जो पुण, P वयणभिन्नासेणं, P एयं परतंनमित्तं. 21 > P सा for जो एत्तो, J संसारमाया, P इमं न सुंदरं इमं च न सुंदरं एयं, P ठावेमि इमं न देमि एयं. 22 > P लोमो, J om. भगवंतेहिं. 23 > J अप्पच्चक्खाणो, P om. तत्थ य. 24 > P विइओ, J adds उ later, J पुढवीभेय, J जलरेहो. 25 > राइ for राइ, P जस्स जो पढइ. 26 > P तिरियत्तणं, J जाइ P जायइ. 27 > P मरिसा नाम, P परिणामा, P कोउलेमा, P मणुयत्तणे जंति. 28 > J जलरेहामरिसो उण पुरिसा कोहेण तउ तेउ, P-सारिच्छा कीलंतणणट्ट कोवसम्भावो । मरिऊण तेउलेसा पुरिसा देवत्तणे जंति. 29 > P नामेण for णामेहि, J णाणं तं for णाणत्तं. 30 > P उण for पुण. 31 > P उणो for पुणो. 32 > P दारुत्थंभ, J सममाणो. 33 > P मंदंगवसाणा, P धणउरंयसरिच्छा ईसिं च काउ खप्पडिया, J सरिच्छो ईसी.

- 1 वंस-कुहंगो अह्वंक-वलय-समाभो अवस्स णरयमि । जाइ तिरिएसु णवरं मय-सिंग-समारुं लेसाए ॥ 1
धणुओरप-सरिच्छो माया-बंधेहिं होइ मणुयत्तं । होइ अवस्सं देवो ईसी-वंकारुं मायाए ॥
- 3 लोहो वि चउ-वियप्पो किमि-राओ होइ णीलि-राओ य । कहम-राय-सरिच्छो होइ चउत्थो हलिदि व्व ॥ 3
पढमेण होइ णरयं बीएण भणंति णवर तिरियत्तं । तइएण मणुय-जोणिं होइ चउत्थेण देवत्तं ॥
कोवो उब्बेयणओ पिथ-बंधव-णासणो णरवारिद । कोवो संतावयरो सोग्गइ-पह-रुंभओ कोवो ॥
- 6 § ८७) अवि य कुबिओ पुरिसो ण गणेइ अत्थं णाणत्थं, ण भम्मं णाभम्मं, ण कम्मं णाकम्मं, ण जसं णाजसं, ण 6
किस्सी णाकिस्सी, ण कज्जं णाकज्जं, ण भक्खं णाभक्खं, ण गम्मं णागम्मं, ण वच्चं णावच्चं, ण पेयं णापेयं, ण बलं णाबलं,
ण दोग्गइ ण सोग्गइ, ण सुंदरं णासुंदरं, ण पच्छं णापच्छं ति । अवि य ।
- 9 बुहयण-सहस्स-परिणिदियस्स पयईएँ पाव-सीलस्स । कोवस्स ण जंति वसं भगवंतं साट्ठणो तेण ॥ जेण, 9
मिच्छा-वियप्प-कुबिओ कोव-महापाव-पसर-पडिबद्धो । मारइ भायरं भइणियं पि एसो जहा पुरिसो ।’
अभियं च णरवइणा ‘भयवं, ण-यागिमो को वि एस पुरिसो, केरिसो वा, किं वा इमेण कयं’ ति । अभियं च गुरुण ।
- 12 “जो एस तुज्ज वामो दाहिण-पासमि संठिओ मज्झ । भमरंजण-गवलाभो गुंजाफल-रत्त-णयण-जुओ ॥ 12
तिवल्लि-तरंग-णिडालो-भीमण-भिउडी-कयंत-सारिच्छो । भुमयावलि-भंगिल्लो रोस-फुरंताहरोट्ट-जुओ ॥
दइ-कट्ठिण-णिट्ठरंगो बीओ कोवो व एस संपत्तो । एएण कोव-गाहिणुण जं कयं तं णिसामेहि ॥
- 15 § ८८) अथि बहु-कणय-घडियं फुड-रयण-फुरंत-विमल-कंतिह्ले । दमिल्लाण कंचि-देसं पुहईय व कांडलं एक्कं ॥ 15
उत्तत्त-कणय-मइया फरिहा-पायार-रुचिर-गुण-सोहा । तम्मि पयासा णयरी कंची कंचि व्व पुहईए ॥
तीए थि य महाणयरीए पुव्वदक्खिणा-भाए तिगाउय-भेत्ते रगडा णाम संणिवेमो । सो य केरिसो । विंझाडइ-जइसओ दरिय-
- 18 मत्त-महिस-संकुलो, हर-णिलओ जइसओ उद्दाम-वसह-डेकंत-रेहिरु, मलय-महागिरि-जइसओ दीहर-साहि-सय-संकुलु, 18
णहंगणाभोउ जइसओ पयड-गहवइ-सोहिओ ति । अवि य ।
धण-धणण-सालि-कलिओ जण-सय-वियरंत-काणणो रम्मो । रगड ति संणिवेमो गोउल-सय-मिलिय-गोट्टयणो ॥
- 21 तम्मि य जम्म-दलिहो बहुलीय-रुयंत-परिगओ चंडो । कलहाबद्ध-कलयलो सुसम्मदेवो ति वसइ दिओ ॥ 21
तस्स य भइसम्मो णाम जेट्टउत्तो । सो य बालत्तगे चैय चंडो चवलो असहणो गव्विओ थट्टो णिट्ठुरो णिट्ठुर-वयणो सच्च-
डिंभाणं चैय दुट्ठरिसो अणवराहिणो अण्णे डिंभे य परिताडयंतो परिभमइ । तस्स तारिसस्स दट्ठूण सव्भावं पयई व डिंभेहिं
- 24 कयं णामं चंडलोमो ति गुण-णिष्फणं णामं । ता णरणाह, सो उण एसो । इमस्स य गुरुयणेण सरिस-गुण-कुल-सील-माण- 24
विहव-विष्णणाण-विज्जाणं बंधण-कुलाणं बालिया बंधण-कणयया पाणिं गाहिया । ते वि तस्सेव कुडुंब-भारं णिक्खिक्खिअण मूढ-
लोग-वाया-परंपरा-सुद्धा दूसह-दालिह-णिब्बेय-णिक्खिक्खणा रंगाय तिथयत्ता-णिमित्तं विणिग्गया माया-पियरो ति । एसो वि
- 27 चंडलोमो कय-णियय-वित्ती जाय जोव्वणं समारुद्धो । सा वि णंदिणी इमस्स महिला तारिसे असण-पाण-पावरण-णियंसणा- 27
दिए असंपडंतं विविह-विलासे तथा वि जोव्वण-विसट्टमाण-लायण्णा रेहिउं पयत्ता । अवि य ।
भुंजउ जं वा तं वा परिहिंजउ जं व तं व मल्लिणं वा । आउरिय-लायणं तारुणं सव्वहा रम्मं ॥
- 30 तओ तम्मि तारिसे जोव्वणं वट्टमाणो सा णंदिणी केरिसा जाया । 30
जत्तो जत्तो वियरइ तत्तो तत्तो य कस्मिण-धवलार्हिं । अच्चिजइ गाम-जुवाण-णयण-णीलुप्पलालीहिं ॥
- § ८९) तओ इमो चंडलोमो तं च तारिसं पेच्छमाणो अखंडिय-कुल-सीलाय वि तीय अहियं ईसा-मच्छरं 33
33 समुव्वहिउमाडत्तो । भण्णइ य,

1 > P अह्वंकवलयओ वच्चर अवस्स, P जाति for जाइ, P संग for सिंग, P मायाए for लेसाए. 2 > P धणउरं, J मायावडे उ होइ, P ईसि. 3 > J राइ for राय, P हलिद व्व. 4 > J वितिएण for बीएण, P भवत्ति for भणंति, P तइए माणुसजोणी. 5 > J कोहो, P उब्बेवणओ, J रुंभओ कोओ. 6 > J ण अणत्थं P नाणत्थं, J om. णाभम्मं, P नकामं for ण कम्मं, J णाभकम्मं P नोक्कामं, P न यसं, J णा अजसं P णोयसं. 7 > J णा अकिस्ती, J णा अकज्जं, J णा अभक्खं, J णा अगम्मं. 8 > P सोयई for सोग्गई, P न पर्यं नापयं ति. 9 > P बहु for बुह. 10 > J मेच्छामिअप्प, P पावपडलपसरद्धो. 11 > P om. केरिसो वा, J किमेण for किं वा इमेण. 12 > J P वामो (?), J वासमि for पासमि, P गवलातो for गवलाभो. 13 > J भुमयावल-. 14 > P रूवी for बीओ, P व्व for व, P हियएण for गहिएण, P निसामेह. 15 > J दमिल्लेण कंचि देसं पुहवीय P दमिल्लकंति निवेसं पु. 16 > J इय for रुचिर. 17 > J तीय य कंचीय महा, J दक्खिणे P पुव्वदक्खिणा. 18 > P उम्मत्त for मत्त, P हरिणलओ, P वसभडेकंतरेहिरु, P सडि for साहि. 19 > P नहंगनाहोउ. 20 > P वियरत्तकाणरणारामो, P ओल for गोउल. 21 > P बहुलीव-, J कलहोववद्ध. 22 > P रुद्धसोपो for भइसम्मो, P चैव चंडो. 23 > P णो वि अण्णे, P om. य, P तस्स य तारिसयस्स, P सभावपइयं च डिंभेहिं. 24 > P निष्फणं नामं, P ताण for ता, P om. य, P सीलनाणविहवविज्जाविक्काणं. 25 > P पाणी गहिया, J तस्सेय P तस्सेवि. 26 > P वाय for वाया, P दारिहनिब्बेय, P तिथयत्ताए निमित्तं, P मापियरो. 27 > P सो for सा, P पाणे for पाण, J णिजसणादि अअसं. 28 > P वि विहव, P -जोसट्टमाणलायण रेहिउं पयत्ते, J om. अवि य. 29 > P भुंजउ, P परिहिंजउ इ व वत्थं वा, P रुणं for रम्मं. 30 > J वट्टमाणे, P णो for सा. 31 > P वत्तो for the first तत्तो. 32 > P अखंडिय, J कुलसीलाय वि तीय यहियं P कुलसीलयवित्तीय अहियं. 33 > J om. भण्णइ य.

- 1 जे धणिणो होंति णरा वेस्सा ते होंति णवरि रोराणं । दट्ठण सुंदरयं ईसाए मरंति मंगुलया ॥ 1
- णवर, अहिओ इमाणं अहम-णर-णारीणं ईसा-मच्छरो होइ । अवि य ।
- 3 अत्थाणाभिणिवेसो ईसा तह मच्छरं गुण-समिद्धे । अत्ताणम्मि पसंसा कुपुरिस-मगो फुडो एसो ॥ 3
- तओ एवं णरणाह, तीय उवारं ईसं समुव्वहमाणस्स वच्चइ कालो ।
- अह धवल-कास-कुसुमो गिम्मल-जल-जलय-रेहिर-तरंगो । सरणं विणिम्मविओ फलिय-मइओ व्व जिय-लोओ ॥
- 6 जोण्हा-जलेण पञ्चालियाइं रेहंति भुयण-भायाइ । पलओव्वेहिर-भीसण-खीरोय-जलाविलाइं व ॥ 6
- दर-लुव्वमाण-कलमा दर-कुसुमिय-सत्तिवण्ण-मयरंदा । दर-वियसमाण-णीमा गामा सरयम्मि रमणिजा ॥
- णिप्फण-सव्व-सासा आसा-संतुट्ट-दोगाय-कुहुंवा । देकंत-वसह-रुइरा सरयागम-सुहिया पुहई ॥
- 9 तओ एयं च एरिसं पुहई अवलोइऊण परितुट्टा णड-णट्ट-सुट्टिय-चारण-गणा परिभमिउं समाढत्ता । तम्मि य गामे एकं 9
- णड-पेडयं गामाणुगामं विहरमाणं संपत्तं । तत्थ पहाण-मयहरो हरयत्तो णाम । तेण तस्स णडस्स पेच्छा दिण्णा,
- णिमंतियं च णेण सव्वं गामं । तत्थ छेत्त-बहुल-जुय-जंत-जोत्त-पगह-गो-महिस-पसु-वावडाण दिवसओ अणवसरो दट्ठण
- 12 तेण राईए पढम-जामे पस्संते कलयले सट्ठिए गो-वगो संजमिए तण्णय-सत्थे पसुत्ते हिंभयणे कय-सयल-धर-वावारा गीय- 12
- मुरय-सइ-संदाणिया इव णिक्खंतुं पयत्ता सव्व-गामउडा । अवि य ।
- गहिय-दर-रुइर-लीवा अवरं वच्चंति मंथिया-हत्था । परिहिय-पाउय-पाया अवरं डंगा य धेत्तुण ॥
- 15 § ९०) एसो वि चंडसोमो गिय-जाया-रक्खणं करेमाणो । कोऊहलेण णवरं एयं चिंतेउमाढत्तो ॥ 15
- ‘अव्वो जइ णडं पेच्छओ वच्चामि, तओ एसा मे जाया, कहं अह इमं रक्खामि । ता णडो ण दट्ठव्वो । अह एयं पि णेज,
- ण जुजइ तम्मि रंगे बहु-सुंदर-जुवाण-सय-संकुल-णयण-सहस्स-कवलियं काउं जे । सो वि मम भाया तहिं चैव तं णडं
- 18 दट्ठुं गओ त्ति । ता जं होउ तं होउ । इमीए सिरिसोमाए भेणीए समप्पिऊण वच्चामि णडं दट्ठुं । समप्पिऊण, कौटिं 18
- धेत्तुण गओ एसो चंडसोमो सो । चिर-णिगाए य तम्मि सिरिसोमाए भणियं ‘हला णदिणि, रमणीओ को वि एसो
- णच्चिउं समाढत्तो, ता किं ण खणं पेच्छामो’ । णदिणीए भणियं ‘हला सिरिसोमे, किं ण-याणासि णिययस्स भाउणो चरिय-
- 21 चेट्ठियं जेण एवं भणसि । णाहं अत्तणो जीएण णिविण्णा । तुमं पुण जं जाणसि तं कुणसु’ त्ति भणमाणी ठिया, सिरिसोमा 21
- पुण गया तं णडं दट्ठुं ति । तस्स य चंडसोमस्स तम्मि रंगे चिरं पेच्छमाणस्स पट्ठीए एकं जुवाण-मिहुणं मंतेउं समाढत्तं ।
- भणियं च जुवाणं ।
- 24 ‘सुंदरि सुमिणे दीससि हियए परिवससि धोलमि दिसासु । तह वि हु मणोरहेहिं पच्चक्खं अज्ज दिट्ठामि ॥ 24
- तुह सोहग्ग-गुणिधण-वड्ढिय-जलणावली महं कामो । तह कुणसु सुयणु जह सो पसमिजइ मंगम-जलेण ॥’
- एयं मंतिजमाणं सुयं चंडसोमेण आसण-संठिएणं । दिण्णं च णेण कण्णं । एत्थंतरम्मि पडिभणिओ तीए तरुणीए सो जुवाणो
- 27 ‘बालय जाणामि अहं दक्खो चाईं पियंवओ तं सि । दट्ट-सोहिओ कयण्णू णवरं चंडो पई अम्ह’ ॥ 27
- § ९१) एयं च सोऊण चंड-सहायणणा जाय-संकण चित्तियं चंडसोमेणे । ‘ण्णं एसा सा दुरायारा मम भारिया ।
- ममं इहागयं जाणिऊण इमिणा केण वि विडेण सह मंतयंती ममं ण पेच्छइ । ता पुणो णिसुगेमि किमेत्थ इमाणं णिप्फणं
- 30 दुरायाराणं’ ति । पडिभणियं च जुवाणं । 30
- ‘चंडो सोम्मो व्व पई सुंदरि इंदो जमो व्व जइ होइ । अज्ज महं मिलियव्वं धेत्तव्वा पुरिस-वज्झा वा’ ॥

1) P वेसाते for वेस्सा ते, J inter. णवरि होति, P नवर रोराण, P सुंदरयणं. 2) P इमाणमहा, J -णारीणं इमाणं ईसा. 3) J अत्थाण अभि. 4) J एयं for एवं, P वच्चए. 5) J फलियमइय P फालिहमइउ. 6) P पञ्चालियाइं, P पलओव्वेहिर, J व्व for व. 7) P कलमाणकलमादर कुसुमयसत्तिवण्णे मरंदा, J णीवा for णीमा. 8) P निप्पन्न, P संतुट्टराणयकुहुंवा । देकंतवसदि, P गहिया for सुहिया. 9) P सुट्टिय for मुट्टिय, P मासे for गामे. 10) J णडपेडयं, P गामवियरमाणं, P तम्मि य for तत्थ. 11) J च मे णेण सव्वगामं, P ते य for तत्थ, J -वहुलजुयं P छयलजुय, P om. जोत्त, P महिसि, P अवसरो. 12) P पसंते, P वावरो. 13) J इय for इव. 14) P पाया for पाया, P उ for य. 15) P चित्तियं. 16) P णड for णडं, J कह, P इमं च रक्खामि, P om. ता, J णेज्जा. 17) P -जायाणसयसुकुले, J om. तहिं चैव. 18) P संहोउं for तं होउ, P भणीए for भेणीए, P दट्ठुं for दट्ठुं, J om. समप्पिऊण, J कौटिं P कौटि. 19) J om. सो, J om. य, P भेदिणी, J को वि च (य?) एसो P को विउ एसो. 20) P णच्चिउमाढत्तो, J भाउअस्स चरिमचेट्ठिअं. 21) P जीविएण, J om. पुण, P ट्ठिओ for ठिया. 22) P उण for पुण, P पट्ठी एकं ति जुवाणमिहुणयं मंते समाढत्तं (J adds ए after पट्ठि later and it has some letter, not easily identified, between एकं and जु, J समाढत्तो. 25) P जाला for जलणां, P महक्कामो, P कुण for कुणसु. 26) P एयं च, मंति, J आसण-ट्टिएणं. 27) P बालय जणोमि, P मज्झ for अम्ह. 28) J om. चंडसहायणणा, P जाया से केण. 29) P मममिहागयं, P इमिणा य नो केण. 30) P om. च, P जुवाणं. 31) P सोमो, JP जसो for जमो, P इह होज्ज for जइ होइ, P adds नो before धेत्तव्वा, P om. वा.

- 1 भणियं च तरुणीए । 'जह एवं तुह गिच्छओ ता जाव मंइ पई इह कहिं पि णड-पेच्छणयं पेच्छइ ता अहं गिय-गेहं गच्छामि, 1
तथ्य तए मम मंगालगणेणं चैय अगंतव्वं' ति भणिऊण णिगया, धरं गया सा तरुणी । चिंतियं च चंडसोमेणं 'अरे, स
3 चिय एसा दुरायारा, जेण भणियं इमीए 'चंडो मह पइ' ति । अण्णं च 'इह चैय पेच्छणए सो कहिं पि समागओ' ति । 8
ण तीए एथ्य अहं दिट्ठो ति । ता पेच्छ दुरायारा दुस्सीला महिला, एण्णं चैय खणेणं एमहंतं आलप्पालं आदत्तं । ता किं
पुण एथ्य मए कायव्वं' ति । जाव य इमं चिंतेइ चंडसोमो हियएणं ताव इमं गीययं गीयं गाम-णहीए ।
5 जो जसु माणुसु वल्लहउं तं जह अण्णु रमेइ । जह सो जाणइ जीवइ व सो तहु प्राण लएइ ॥ 6
§ ९२) एयं च गिसामिऊण आबद्ध-तिवलि-तरंग-विरहय-भिउडी-णिडालवट्टेणं रोस-फुरफुरायमाणाहरेणं अमरिस-वस-
विलसमाण-भुवया-लएणं महाकोव-कुविण्णं चिंतियं । 'कहिं मे दुरायारा सा य दुस्सीला वबइ अवस्सं से सीसं गेण्णामि'
9 ति चिंतितो समुट्ठिओ, कोटिं घेत्तूण गंतुं च पयत्तो । महा-कोव-धमधमायमाण-हियओ गियय-घराहुत्तं गंतूण य बहल- 9
तमोच्छइए सयले भूमि-भागे घर-फलिहस्स पट्टि-भाए आयारिय-कोटी-पहार-सज्जो अच्छिउं समादत्तो । इओ य उक्खेड्ढे
पेच्छणए सो तस्स भाया भइणी य घर-फलिहय-दुवारंण पविसमाणा दिट्ठा णेणं चंडसोमेणं । दट्ठुण य अवियारिऊण पर-
12 लोयं, अगणिऊण लोगाववायं, अयाणिऊण पुरिस-विसंसं, अबुज्झिऊण णीइ, अवहत्थिऊण सुपुरिस-मगं, सब्बहा कोव-विस- 12
वेय-अंधेण विय पहओ कोकीए सो भाया भइणी वि सिरिसेमा । ते य दुवे वि गिवडिया धरणिवट्टे । 'किर एसो सो पुरिसो,
एसा वि सा मम भारिय' ति 'आ अणज्ज' ति अणमाणो जाव 'सीसं छिंदांमि' ति कोटी आभामिऊणं पहाविओ ताव
15 य झण ति फलिहए लग्गा कोटी । तीय य सहेण बिउद्धा सा कोट्टय-कोणाओ णदिणी इमस्स भारिया । भणियं ससंभमाए 15
तीए 'हा हा दुरायार, किमेयं तए अज्झवसियं' ति घाइया ते गियय-बहिणि ति भाया वि' । तं च सोऊण ससंभमेण
गिरुविया जाव पेच्छइ पाडियं तं भइणीयं ति तं पि भाउयं ति । तओ संजाय-गरुय-पच्छायावेणं चिंतियं णेण ।
18 'हा हो मए अकजं कह णु कयं पाव-कोव-वसएणं । मिच्छा-वियप-कपिय जाया अलियावाराहेणं ॥ 18
हा बाले हा वच्छे हा पिइ-माया-समपिण मज्झ । अह भाउणा वि अंते केरिसयं संपयं रहयं ॥'
एयं च चिंतियं 'हा हतोसिह' ति अणमाणो मुच्छिओ, पडिओ धरणि-वट्टे । णदिणी वि विसण्णा ।
21 हा मह देयर वल्लह हा बाले मह वयंसि कथ्य गया । हा दइय मुंच मा मा तुमं पि दिण्णं ममं पावं ॥ 21
§ ९३) खण-मेत्तस्स य लद्ध-सण्णो विलविउं पयत्तो चंडसोमो ।
हा बालय हा वच्छय कह सि मए गिरिघणेण पावेणं । भाउय वच्छल मुद्धो गिवाइओ मूढ-हियएणं ॥
24 हा जो कडियल-वूडो बालो खेलाविओ संगहेणं । कह गिहएण सो चिय छिण्णो सथेण फुरमाणो ॥ 24
हा भाउय मह वल्लह हा भइणी वच्छला पिउ-विणीया । हा माइ-भत्त बालय हा मुद्धय गुण-सयाहण ॥
चलियस्स निथयत्तं मंगालगो जया तुमं पिउणो । पुत्त तुमं एस पिया भणिऊण समपिओ मज्झ ॥
27 जणणीए पुण भणिओ ओ अंताल्लहणे ममं एसो । पुत्त तुमे दट्ठवो जीयाओ वि वल्लहो वस्सं ॥ 27
ता एवं मज्झ समपियस्स तुह एरिसं मए रहयं । पेच्छ पियं पिय-वच्छय कोव-महारक्ख-गहिण्णं ॥
वीवाहं वच्छाए कारेंतो संपयं किर अउण्णो । चिंतिय-मणोरहाणं अवसाणं केरिसं जायं ॥
30 किर भाउणो विवाहं णव-रंगय-चीर-बद्ध-विंधालो । परितुट्ठो णच्चिस्सं अप्फोडण-सह-दुल्लिओ ॥ 30
जाव मए चिय एयं कुविण्ण व पेच्छ कयं महकम्मं । अण्णहयं चिंतियं मे घडियं अण्णाए घडणाए ॥

1 > P कइ for कहिं, P ण for णड, P ताव for ता, J णिभअ for गिय, P वच्चामि for गच्छामि. 2 > J om. धर गया, J अवरे for अरे. 3 > P इह पेच्छणए चैय कहिं. 4 > P अहमेत्थ for एथ्य अहं, P तो for ति । ता, J महिलए for महिला, J एमहंतं आलपालं P महंतं एयं आलपालं, P समादत्तं for आदत्तं. 5 > J inter. मए एथ्य, P गायनतीए. 6 > P माणस for माणुसु, P om. सो, P वि for व, J सो looks like सो, P तहो पाण. 7 > P एवं च, P तिवली, P विलहय, J P वट्टेणं, J फुरफुरा, P om. वस. 8 > J विलस for विलसमाण, P भुवया, P कोवेण कुविण्ण चिंतियं च ।, P om. सा, P दुरसीला, P om. से. 9 > P om. ति, P चिंतितो, J कोकी P कोटी, P om. च, P हियओ आगओ निययपराहुत्तो. 10 > P तमोत्थईए, J भूमिभाए, P फलिहयपट्टि, J कोकी for कोटी, P अज्जिउं for अच्छिउं, P उक्खेडिण पेच्छणए. 11 > P भइणीया घरफरिहय, J दट्ठुणं अवि, P परिलोयं. 12 > J ऊण य पुरिस, J अवउज्झिऊण य णीइ, P णीइ, P कोवि विसवेयंघण विय. 13 > P om. कोकीए, P पहणी for भइणी, P सिरिसेमा, P विनिविडिया, P एम for एसो, P repeats पुरिसो. 14 > J om. आ, J अणज्जं ति, J कोकी for कोटी, P आभामिऊण 15 > J om. य, P खण for झण, J कोकी for कोटी, P om. य, P om. सा. 16 > P किमेयं तए अज्झवसियं, J ए for ते, J भइणीए ति, J om. भाया वि. 17 > P पाडियं तं भइणीयायरे ति । 18 > P हा हा मए, J कयं पेच्छ पाववसएणं । मिच्छावियपियं पिय जाया. 19 > P पिय for पिइ, P पियं ते for वि अंते, J रमियं for रहयं. 20 > P repeats हा. 21 > J मुंच इमा मा, P दीणं मए पावं. 22 > P विलविउं पलविउं पयत्तो. 23 > J हा बाला य, P वच्छ न नाओ निवाडिओ. 24 > P कडियल, P सिणेहेणं, P फरु for फुर. 25 > J पिउविणीए, J माए for माइ, P गुणसमाहण. 26 > J मंगामगो. 27 > P पुणो for पुण, J एसो for वरसं. 29 > P पुवाहं for वीवाहं, J अवसारणं. 30 > J चिद्धालो, J णच्चिस्सं, P अप्फोडण. 31 > J om. कयं, P पेच्छइ एयं कयंतेण । हा अण्णह चिंतियं घटाविअं अण्णाए (the page has its ink rubbed very much).

- 1 जह वि पडामि समुदे गिरि-टंके वा विसामि पायाले । जलणे व्व समाकहिमो तहा वि सुद्धी महं गथि ॥ 1
 कह गोसे चिय पढमं कस्स व हलियस्स णवर वयणमहं । दुंसेहामि अहण्णो कय-भइणी-भाइ-णिहणं तो ॥
- 3 ता णवरं मह जुत्तं पयं चिय पय्य पत्त-कालं तु । एणसिं चय चियाणलमि अप्पा विछोडुं जे ॥ 3
 इय जाव विलविण चिय ता दूसह-कलुण-सद-विहाणो । जल-ओदरं दाउं अवर-समुदं गओ चंदो ॥
 सोऊण रुण-सहं महिलत्तण-थोय-मउय-हिययाए । बाह-जलं-थेवा इव तारा चियलंति रयणीए ॥
- 6 ताव य कोवायंबो दुज्जय-पडिवक्ख-पडिहय-पयावो । पाडिय-चंडयर-करो उइओ सूरु णरवइ व्व ॥ 6
 § ९४) तओ मए इमाए पुण वेलाए णाहदूरमुग्गए कमत्तार-पिय-बंधवे चक्काय-कामिणी-हियय-हरिसुप्पायए सूरु समाससिचा मुच्छाए तओ भणिओ जेणं । 'मा एवं विलवसु, जह वि मया इमे' ति । तह वि पच्छायाव-परदो जलणं
- 9 पविसामि ति कय-णिच्छओ इमो चंडसोमो दीण-विमणो मरण-कय-ववसाओ गुरु-पाव-पहर-परदो इव णिक्कतो गामाओ, 9
 गओ मसाण-भूमिं, रह्या य महंती महा-दारुणहिं चिया । तथ य तिल-घथ-कप्पास-कुंभ-पटभार-वोच्छाहिओ पजलिओ
 जलिओ जलण-जलावली-पटभारो । एयंतरमि चंडसोमो आबद्ध-परियरो उइओ जलियं चियं पविसिउं । ताव य
- 12 गेण्हह गेण्हह रे रे मा मा वारेह लेह णिवडंनं । इय णिसुय-सद-समुदं बलिय-जुवागेहिं सो धरिओ ॥ 12
 भणियं च णेण 'भट्टा भट्टा, किं मए पाव-कम्मणे जीविणं । अवि य ।
- धम्मथ-काम-रहिया बुहयण-परिणिंदिया गुण-विहणा । ते होति मय-सरिच्छा जीवंत-मयलया पुरिसा ॥
- 15 ता ण कजं मह इमिणा पिय-बंधव-णिहण-कलुस्सिणं बुहयण-परिणिंदिणं अणप्पणा इव अप्पणा' । भणियं च हल- 15
 गोडल-छल-संवट्टिणहिं पिय-पियामह-परंपराए-कैक्कासंबद्ध-वंड-खंड-संवडिय-मणु-वास-वस्मीय-मकंड-महरिसि-भारह-पुराण-
 गीया-सिलोय-वित्त-पण्णा-सोतिय-पंडिणहिं 'अथेय पायच्छित्तं, तं च चरिऊण पाव-पहिणीओ अच्छसु' ति । भणियं च
- 18 चंडसोमेणं 'भगवंतो भट्टा, जह एवं ता देसु मह पायच्छित्तं, जेण इमं महापावं सुज्जह' ति । ता एकेण भणियं । 'अका- 18
 मेन कूतं पापं अकामेनैव शुद्धयति' । अण्णण भणियं असंबद्ध-पलाघिणा । 'जिघांसंतं जिघांसीयाञ्च तेन ब्रह्महा भवेत्' ।
 अण्णण भणियं । 'कोपेन यत्कृतं पापं कोप एवापराध्यति' । अण्णण भणियं । 'ब्राह्मणानां निवेद्यात्मा ततः शुद्धो भवि-
 21 ध्यति' । अण्णण भणियं । 'अज्ञानाद्यत्कृतं पापं तत्र दोषो न जायते' । 21
- § ९५) एवं पुच्चावर-संबंध-रहियवरोप्पर विरुद्ध-वयणमणुगाहिरिं सव्वहा किं कयं तस्स पायच्छित्तं महा-बदर-
 भट्टेहिं । सयलं घर-सव्वरुसं धण-घणण-वत्थ-पत्त-सयणासण-डंड-भंड-दुपय-चउप्पयाइयं वंभगाणं दाऊण, इमाइं च घेत्तुं, जय
- 24 जिय ति अहव अट्टिताइं भिक्खं भंमंतो कय-मीस-तुंड-मुंडणो करंका-हथो गंगा-दुवार-हंमंत-ललिय-भट्टेप्पर-वीर-भट्ट- 24
 सोमेसर-पहास-पुक्खराइसु तित्थेसु पिंडयं पक्खालयंतो परिभमसु, जेण ते पावं सुज्जह ति ।
- तं पुण ण-यणंनं चिय जेण महा-पाव-पसर-पडिवदो । मुच्छइ एस फुडं चिय अप्पा अप्पेण कालेण ॥
- 27 जह अप्पा पाव-मणो बाहिजल-धोवणं किं तस्स । जं कुंभारी सूया लोहारी किं घयं पियउ ॥ 27
 सुज्जउ णाम मलं चिय णरणाह जलेण जं सरीरमि । जं पुण पावं कम्मं तं भण कह सुउहणं तेण ॥
 किंतु पवित्तं सय-सेवियं इमं मण-विमुद्धि-करयं च । एतिय-मेत्तेण कओ तथ भगो धोय-वत्तीए ॥
- 30 जं तं तित्थमि जलं तं ता भण कयिमं सहवेण । किं पाव-फेडण-परो तस्स महावो अह ण व ति ॥ 30
 जह पाव-फेडण-परो होज सहवेण तो दुवे पक्खा । किं अंग-संगमेण अहवा परिचिंतियं हरइ ॥
 जह अंग-संगमेण ता एण मयर-मच्छ-चक्काइं । केवट्टिया-मच्छंवा पढमं सगं गया णता ॥

1 > P विसामि for विसामि, P महं मत्ती. 2 > P गोम, P वयणमुद. 3 > J महं जं, P कालंमि । P एणसिं चय चियाणलमि, J विछोडु P विछोडुं. 4 > P जाव विलवउ चिय ता, J जयओयारं. 5 > P थोव, P जयथेवा, J इय for इव. 6 > P दुज्जण for दुज्जय. 7 > J पुण for मए, P पहरिमु for हरिमु. 8 > P समासाओ भो पुच्छित्तो । तओ, P भणिय for भणिओ, P विच्छेसु जीविया इमे, J मेत्ती for इमे ति, P om. तह वि पच्छायाव.....पविसामि ति. 9 > J इय णिसुयं. 10 > J om. गओ, P भूमि for भूमि, P वारेह for महंती, J वंछहिओ. 11 > P om. जलिओ, P जलिय for जलण, P उइओयं, P चिइं पविसिउं. 12 > J गेण्ह गेण्ह रे, P हंती for मा मा, J णिसुयिय, P तित्थेसु, J समुदं. 13 > P महा भट्टा, P कमेण. 14 > P जीवंतो महलया. 15 > J इवप्पणो. 16 > J थय for छल, P संवट्टिणहिं, J गएकैकोमवडं P गए एकैकोमबंध, P om. संवखंड, P मणुय for मणु, P वंसीय. 17 > J वित्तं, P विद्धवणा for वित्तपण्णा, J पंडिणहिं, P om. च after भणियं. 18 > P ताए for ता, P मे for मह, P repeats महापायच्छित्तं जेण इमं, P तओ for ता. 22 > P संबडेहिं अवरोप्पर, J वयणमणुगाहिरिं P वयणमेतुनाहिरिं, P वट्ट for बदर. 23 > P सयलयर, P पथ for पत्त, J णयाइयं P णयादियं, J णिसुयं for इमाइं च घेत्तुं जय जिय ति अहव अट्टिताइं भिक्खं. 24 > J मुण्ड for मुंडणो, P हथे, P ललियाभंदसरवीर-महा. 25 > J om. सोमेसर, P पभासपुक्खा, P पिंड for पिंडयं, P एयं for ते, P सुज्जय ति. 26 > P नयणंनं चिय, P पडिवदो, J मुंचद. 27 > P बाहिरमलधोअणेण, P जह for जं, P पियउ. 28 > P जलेण तं सरीरं ति, P जेण for तेण. 29 > P om. here the verse किंतु पवित्तं etc. but gives it below, included in the foot notes. 30 > J -यरो for -परो, P महावो for महावो. 31 > J महावो तओ दुवे. 32 > P तो for ता, P चक्काया । J केवट्टिया, J P मच्छदा.

- 1 अहव परिचिंतियं चिय कीस इमो दूर-दक्खिणो लोओ । आगच्छइ जेण ण चिंतिऊण सग्गं समारूहइ ॥ 1
अह पावणो त्ति ण इमो विसिट्ठ-बुद्धीएँ होज्ज परिगहिओ । तत्थ वि विसिट्ठ-बुद्धी-परिगहियं होज्ज कूव-जलं ॥
- 3 अह भणसि होज्ज तं पि हु तित्थे गमणे णिरत्थयं होज्ज । अह तं ण होज्ज तित्थे पुण होहिइ पत्थ को देऊ ॥ 3
जुत्ति-वियारण-जोगं तम्हा एयं ण होइ विबुहाण । मूढ-जण-वयण-वित्थर-परंपराए गयं सिद्धी ॥
जं पुण मयस्स अंगट्ठियाईं छुभंति जण्हवी-सलिले । तं तस्स होइ धम्मं पत्थ तुमं केण वेलविओ ॥
- 6 ता पत्थ णवर णवर एस वराओ अयाणुओ सुद्धो । पाव-परिवेडिओ चिय भामिज्जइ मंद-बुद्धीहिं ॥” 6
एयं च सोऊण सव्वं सच्चयं तं णियय-पुच्च-वुत्तं, पुणो वि
विणय-रहअंजलिउडो भत्ति-भराऊरमाण-सवभावो । संवेग-लद्ध-बुद्धी वेरगं से समहीणो ॥
- 9 उद्धाइओ भगवओ चलण-जुय-हुत्तं, घेत्तूण भगवओ चलण-जुयलं करयलेहिं, अवि य, 9
संवेग-लद्ध-बुद्धी बाह-जलोयलण-धोय-गुरु-चलगो । मुण्णिणो चलणालग्गो अह एयं भणित्तामाडत्तो ॥
‘भयवं जं ते कहियं मह दुच्चरियं इमं अउण्णस्स । अक्खर-मेत्तेण वि तं ण य विहइइ तुम्ह भणियाओ ॥
- 12 ता जह एयं जाणसि तह णूण वियाणसे फुडं तं पि । जेण महं पावमिणं परिसुज्झइ अकय-पुण्णस्स ॥ 12
ता मह कुणसु पसायं गुरु-पाव-महा-समुह-पडियस्स । पणिवइय-वच्छल चिय सप्पुरिसा होंति दीणम्मि ॥’
एवं च पायवडिओ विलवमाणो गुरुणा भणियो ‘महमुह, णिसुणेसु मज्झ वयणं । एवं किल भगवतेहिं सव्वण्णहिं सव्व-
- 16 नित्थयरिंहिं पण्णवियं परुवियं ‘पुंवि खलु भो कडाणं कम्माणं दुप्पडिकंताणं वेयइत्ता मोक्खो, णत्थि अवेयइत्ता, तवसा 15
वा झोसइत्ता’ । तेण तुमं कुणमु तवं, गेण्हमु दिक्खं, पडिवज्जसु सम्मत्तं, णिदसु दुच्चरियं, विरमसु पाणि-वहाओ, उज्झसु
परिगहं, मा भणसु अलियं, णियत्तसु पर-दव्वे, विरमसु कोवे, रज्जसु संजमे, परिहरसु मायं, मा चिंतेसु लोहं, अवमण्णसु
- 18 अहंकारं, होमु विणीओ त्ति । अवि य । 18
एवं चिय कुणमाणो ण हु णवर इमं ति जं कयं पावं । भव-सय-सहस्स-रइयं खगेण सव्वं पणासेसि ॥’
एयं च सोऊण भणियं चंडमोमेण ‘भयवं, जइ दिक्खा-जोगो हं, ता महं देसु दिक्खं’ ति । गुरुणा वि णाणाइसणं उवसंत-
- 21 खविय-कम्मो जाणिऊण पवयण-भणिय-समायारेण दिक्खिओ चंडसीमो त्ति ॥ २१ ॥ 21
§ ९.६) भणियं च पुणो वि गुरुणा धम्मणंदणेण ।
‘माणो मंतावररो माणो अत्थस्स णासणो भणियो । माणो परिहव-मूलं पिय-बंधव-णासणो माणो ॥
- 24 माणत्थदो पुरिमो ण-याणइ अप्पणं णाणप्पणं, ण पियं णापियं, ण बंधुं णाबंधुं, ण सत्तुं णासत्तुं, ण मित्तं णामित्तं, ण 24
सज्जणं णासज्जणं, ण स्यामियं णासामियं, ण भिच्चं णाभिच्चं, ण उवयारिणं णाणुवयारिणं, ण पियंवर्यं णापियंवर्यं, ण पणयं
णापणयं, ति । अवि य
- 27 लहुयत्तणम्म मूलं सोगइ-पह-णासणे अणत्थयरं । तेणं चिय साहहिं माणं दूरेण परिहरियं ॥ 27
माण-महा-गह-गहिओ मरमाणो पेच्छणं ण वारइ । अवि सायरं पियं भारियं पि एसो जहा पुरिमो ॥’
भणियं च राइणा ‘भयवं, बहु-पुरिस-संकुले ण-याणियो को वि एस पुरिसो’ त्ति । भणियं च धम्मणंदणेण ।
- 30 “जो एस मज्झ वामे दाहिण-पासम्मि संठिओ तुज्झ । एकुण्णामिय-भुमओ वित्थारिय-पिट्ठल-वच्छयलो ॥ 30
गव्व-भर-मउलियच्छो परियंकावद्ध-उवभडाडोवो । ताडंता धरणियलं पुणो पुणो वाम-पाएण ॥
उत्तत्त-कणय-वण्णो आयंवि-दीहरच्छिवत्त-जुओ । रीढा-पेसवियाए तुमं पि दिट्ठीए णिज्झाइ ॥
- 33 इमिणा रूवेण इमो माणो व्व समागओ इहं होज्ज । एएण माण-मूढेण जं कयं तं णिसामेह ॥ 33

2) P वामणो for पावणो, P बुद्धीय होज्ज, J होऊण for होज्ज, J तत्र विसिट्ठा बुद्धी, J होउ for होज्ज (sometime उ and ऊ look similar). 3) P मंवा for तित्थे, J णिरत्थयो. P मयं for तित्थं. 4) P गय, P has here the verse किंतु पविर्त्तं तियमिदस्सेविंयं मणवे-बुद्धिकयं च । एतियमेत्तेण कओ तस्स भरो वो अवतीए — compare the readings with the verse in J noted above, p. 48, foot-note, 29. 5) J पुण एयस्स. 6) P om. णवर, P अयाणओ सुद्धो, P परिवेडिओ, J पाव for मंद. 7) J सचयं P सम्भयं, P तिययं for णियय, J om. वि. 8) J रइयविणय अजलीउडो, J संवेयलद्ध. 9) P जुयलहुत्तो, P omits अवि य. 10) J संवेय, P om. धोय, P चलणजुयललग्गो. 11) P भगवं, P तेहिं for ते, J मत्तेण for मेत्तेण. 12) P मि for ति. 14) P अह मह मुणेमु मह वयणं, P किर for किल. 15) J दुप्परकंताणं, P वेइत्ता. 16) J व for वा, J ज्जोसइत्ता. 17) P भणेसु, P विरज्जमु. 18) J अहंकारो. 20) P भगवो, P दिक्खाए जोगो अहं ता महं, P om. ति, P णाणाइसण उवं. 21) P खइय. 22) J तु for च before पुणो. 23) P मूलो, P बंधुविणासणो. 24) P माणत्थदो, P अप्पयं णाणप्पयं, P न बंधू नाबंधुं, J ण सत्तुं णासत्तुं. 25) P नाउवयारिणं, P पियं for पियं in both places. 27) P पणनासणं अणत्थकरं. 28) P मारियं for मायरं, J पिया for पियं. 29) P भगवं. 30) P वामो for वामे, P एकुण्णामियममि ओवत्थारिय, P वत्थयलो. 31) J गंध for गव्व, P उत्ताडोवो, P -व्पाएण. 32) P वेत्त for वत्त, P निज्झायइ. 33) J इहं for इमो, P समागणो, P होज्जा, P निसामेहि.

- 1 § १७) अस्थि णर-णारि-बहुलो उववण-वण-पउम-संढ-रमणिज्जो । गाउय-मेत्त-ग्गामो गामासण्ण-ट्टिय-तलावो ॥ 1
 जो सूसम-पढम-णरिं-णियय-सुय-दिण्ण-णाम-चिंघालो । छक्खंड-भरह-सारो णाममवंती-जणवओ त्ति ॥
 3 सो य केरिसो अवंति-जणवओ । जत्थ य पहिण्हिं परिभममाणेहिं सयले वि देसे दिट्ठइं एक्को व दोणिण व तलायइं जाइं 3
 ण घण-घडिय-कसण-पत्थर-णिबद्धइं, दोणिण व तिण्णि व दिट्ठइं रुक्खइं जाइं ण सरस-साउ-महल्ल-पिक्क-घण-फलइं, तिण्णि
 व चयारि व दिट्ठइं गामइं जाइं ण गणिज्जति थोव-वीहियइं, चत्तारि व पंच व दिट्ठइं देवउलइं जाइं ण सुंदर-विलासिणी-
 6 यणाबद्ध-संगइ-गीयइं, पंच व छ व दिट्ठउ विलासिणिओ जाओ ण धरिय-धवलायवत्त-माऊर-छत्त-चामराडंबराओ त्ति । 6
 अवि य ।

बहु-रयण-णियर-भरिओ वियरंतुदाम-मुइय-संखउलो । गिम्मल-मुत्ता-पउरो मालव-देसो समुहो व्व ॥

9 तस्स देसस्स मज्झ-भाए

धवलहर-णिम्मलवभा फुरंत-मणि-विमल-किरण-तारइया । सरए व्व गयण-लच्छी उज्जेणी रेहिरा णयरी ॥

- जा य गिम्ह-समए जल-जंत-जलहर-भरोरलि-णिसुय-सहरिस-उडंड-तडुविय-पायडिजंत-धर-सिंहडि-कुल-संकुला फुड-पोमराय-
 12 इंद्रोवय-रेहिरि व्व पाउस-सिरि-जइसिय । पाउस-समए उण फलिह-मणि-विणिम्मविय-धर-सिहरवभ-धवला विमलिंदणील-12
 फुरमाणो इंद्रोवर-संकुलं व सरय-समय-सिरि-जइसिय । सरय-समए उण दूसइ-रवि-किरण-णियर-संताविय-पज्जलंत-सूरकंत-
 जणिय-तिव्वायवा आसार-वारि-धारा-धोय-णिम्मल-सिय-कसिण-रयण-किरण-संबलिय-सिरीस-कुसुम-गोच्छ-संकुल व्व गिम्ह-
 15 समय-सिरिहि अणुहरइ त्ति । जहिं च णयरीहिं जुवइ-जुवाण-जुवलेहिं ण कीरंति सुह-मंडणइं । केण कजेण । सहाव-लायण्ण-15
 पसरंत-चंद्रिमा-कलुसत्तण-अएण । जहिं च कामिणियणेण ण पिज्जति विविहासवइं । केण कजेण । सहाव-सुरय-विलास-
 वित्थर-भंग-अएण । जहिं च विलासिणीहिं विवरीय-रमिरीहिं ण बज्जंति रणंत-महामणि-मेहलउ । केण कजेण । सहाव-
 18 कलकंठ-कुविय-सदामयासा-लुडेहि त्ति । अवि य । 18

अइतुंग-गोउराइं भवणुज्जाणाइं सिहर-कलियाइं । एक्केकमाइं जीए णयरी-सरिच्छाइं भवणाइं ॥

§ १८) तीए य महाणयरीए उज्जेणीए पुव्वुत्तेरि दिसाभाग-विभाए जोयण-मेत्ते पएसे कूववंदं णाम गामं अणय-घण-

- 21 धण-समिद्धि-मद्विय-पामर-जणं महाणयर-सरिसं । तत्थ एक्को पुव्व-राय-वंस-पसूओ कहं पि भागहेज्ज-परिहीणो सयण-21
 संपया-रहिओ खेत्तभडो णाम जुण्ण-ठक्कुरो परिवसइ । एरिस चिय एसा मुणाल-दल-जल-तरल-वंचला सिरी पुरिमाणो ।
 अवि य ।
 24 होऊण होइ कस्स वि ण होइ होऊण कस्सइ णरस्स । पढमं ण होइ होइवि पुण्णकुस-कड्डिया लच्छी ॥ 24
 तस्स य एक्को चिय पुत्तो वीरभडो णाम णियय-जीयाओ त्ति वल्लहयरो । सो तं पुत्तं घेत्तुण उज्जेणियस्स रणो ओलरिगउं
 पयत्तो । दिण्णं च राइणा ओलगमाणस्स तं चेव कूववंदं गामं । कालेण य सो खेत्तभडो अणय-रण-भय-मंधट्ट-वहरि-वीर-
 27 तरवारि-दारियावयवो जरा-जुण्ण-सर्गरो परिपक्किउण अममत्थो तं चेय पुत्तं वीरभडं रायउले समपिऊण घरे चेय चिट्ठिउं 27
 पयत्तो । रायउले वि तस्स पुत्तो चेय अच्छिउं पयत्तो । तस्स य से पुत्तस्स सत्तिभडो णाम । सो उण सहावेण थदो माणी
 अहंकारी रोसणो विहवुम्मत्तो जोव्वण-मद्विओ रूव-माणी विलास-मइओ पुरिसाभिमाणी । तस्स य एरिसस्स सव्वेणं चेय
 30 उज्जेणणं रायउत्त-जणं सत्तिभडो त्ति अमण्णिऊण माणभडो त्ति से कयं णामं । नेण णराणाह, सो उण एसो माणभडो । 30
 अह अणमि दिवहे उवविट्टे सयले महाराय-मंडंटे णिय-णिय-त्थाणेषु समागओ माणभडो । तओ राइणो अवंतिवद्धणस्स
 कय-डेसि-णामोकारो णिययासुण-ट्टाण-पेमियच्छि-जुओ जाव पेच्छइ तमि ठाण पुलिंद-रायउत्तं उवविट्टं । तओ वलिओ तं
 33 चय दिमं । भणियं च णण 'भो भो पुलिंद, मज्झ संतियं इमं आसणट्टाणं, ता उट्टसु तुमं' । पुलिंदेण भणियं 'अहं अयाणतो 33

- 1) P गामोसण्ण, J तलावो. 2) J जा for जो, J चिंघालो. 3) P अवंती, J परिभवमा, P सयले चिय दोस दिट्ठइं, P तलायवम जाइं. 4) P कसिणपत्थर-मिच्छोवडइं, J दोणिण वि तिण्ण, P दो for दोणि, J ट्टियइं for दिट्ठइं, J मरमाउ, J मह for मण, J फयं. 5) P चत्तारि, J गामाइं, J om. जाइं, P om. ण, P गणिज्जति, J चयारि, P पंच वि (for व), J व दिट्ठइं देवउलइं P वि देवउलइं न दिट्ठइं. 6) J यणावद्धसंगीयइं P संगरगीयइं, P व छ विणिदिट्ठउ विलासिणीओ, P धवलायवत्त, J मापूर for माऊर. 8) P सुयए for सुय, J वयो for पउरो, P माउवदंयो. 10) P निम्मलवत्ता. 11) P दो for जा य, P सहरिसह-रिसउदं, J उडुंड, P तंडविय, J पीडिजंत, J पोमराडं मावय P पोमरायविदुरोउ व पाउस. 12) J व for व (emended), P जह-सिया, P om. मणि, J धवयवमल. 13) P फुरमाणो वीवरासंकुल, P सिरि जइसिया, J सर for सरवंत. 14) J तिव्वायव्व । P तिव्वायव आमारि, J सकुंठे व. 15) J ति for ति, P om. सुड. 16) P कलुसण, P कामिणीयणेण, P om. ण. 17) P रम-रीहि, P मेरलाओ. 18) P सहासायलु, J लुडेहि, J om. त्ति. 19) P गायगाइ, P णयर. 20) J तीय य, J om. उज्जे-णीए, P दिसाभाए. 21) P सरिच्छे for सरिसं, J पसूओ, P कहं ति भागहेज्ज, P सयल for सयण. 22) P खत्तहट्टो for खेत्तभडो, J om. परिवसइ, P एरिस, P एस for एसा, P तरलवंचला, J om. सिरी. 24) P होउं न होइ, P कस्स न होइ, J पुण्णकुस, P कुट्टिआ for कड्डिया. 25) J एक्को चय, P पुरिभो for पुत्तो, J om. वीरभडो णाम, P निय for णियय, P धेत्तु उज्जेणयस्स. 26) J दिण्णं for दिण्णं, P om. य, P सो वत्तउओ, P स for मय. 27) J दरिया, P तं चेव, J सत्तिभडं for वीरभडं, P चेव. 28) P गउले, J om. वि, P om. चय, J om. तस्स य से पुत्तस्स सत्तिभडो णाम. 29) P विहवुमत्तो, J भवमाणी for रूवमाणी, J सुडओ P मइओ, P पुरिसाभिमाणी, P एरिसयस्स. 30) P om. first त्ति, P om. नेण. 31) J om. दिवहे, J महाराउ, P नियनिययट्टाणेषु, P राइणा अवंतिवद्धणस्स य कय. 32) P om. ट्टाण, P पेरियच्छीओ तं जाव, P रायउत्ति, P तओ वलिओ. 33) P om. चय, J om इमं, P आसणत्थाणं.

1 इहोवविट्टो, ता खमसु संपथ, ण उणो उवविसिस्सं' । तन्नो अण्णेण भणियं 'अहो, एवं परिभवो कीरइ वरायस्स' । चित्तियं 1
 च माणभडेण 'अहो, इमिणा मह पुल्लिदेण परिहओ कओ । ताव जीवियं जाव इमाणं परिभवं सहिजइ त्ति । अवि य ।
 3 जाव य अमग्ग-माणं जीविजइ ताव जीवियं सफलं । परिहव-परिमल्लिय-पयावस्स भण किं व जीवेणं ॥ अण्णे च । 3
 ताव य मंदर-गरुओ पुरिसो जा परिहवं ण पावेह । परिभव-तुलाएँ तुल्लिओ तणु-तणुय-तणाओँ तणुययरो ॥'
 एवं एरिसं चित्तिऊण समुक्खया जम-जीहा-संगिहा छुरिया । ताव य अवियारिऊण कज्जाकज्जं अयाणिऊण सुंदरासुंदरं
 6 अर्चित्तऊण अत्तणो मरणामरणं 'सव्वहा जं होउ तं होउ' त्ति चित्तिऊणं पहओ वच्छत्थलाभोए पुल्लिदो इमिणा रायउत्तो 6
 त्ति । अवि य ।

ण गणेइ परं ण गणेइ अप्पयं ण य होत्तमहाहोत्तं । माणमउम्मत्त-मणो पुरिसो मत्तो करिवरो व्व ॥

9 तं च विणिवाइऊण णिक्खंतो लहुं चेव अत्थाणि-संडवाओ । ताव य 9

गेणहइ गेणहइ को वा केण व मारेह लेह रे धाह । उद्धाइ कलयल-रओ सुहियत्थाणे जलणिहि व्व ॥

§ ९९) एत्थंतरिमि एसो माणभडो उद्धाइओ णियय-गामहुत्तं । कयावराहो भुयंगो इव झत्ति संपत्तो णियय-धरं

12 भणिओ य तेण पिया 'बप्पो बप्पो, मए इमं एरिसं वुत्तंतं कयं । एयं च णिसामेउं संपयं तुमं पमाणं किमेत्थ कायव्वं' ति । 12
 भणियं च वीरभडेणं 'पुत्त, जं कयं तं कयं णाम, किमेत्थ भणियव्वं । अवि य ।

कज्जं जं रहस-कयं पढमं ण णिवारियं पुणो तम्मि । ण य जुजइ भणिऊणं पच्छा लक्खं पि वोलीणं ॥

15 एत्थ पुण संपयं जुत्तं विदेस-गमणं तयणुप्पवेसो वा । तत्थ तयणुप्पवेसो ण वडइ । ता विदेस-गमणं कायव्वं । अण्णहा 15

णत्थि जीवियं । ता सिग्गं करेह सज्जं जाण-वाहणं' । सज्जियं च । आरोविद्यं च गेहिं सयलं सार-भंडोवक्खरं । पत्थिया य

णम्मया-कूलं बहु-वंस-कुडंग-रुक्ख-गुम्म-गुविलं । इमो पुण कइवय-पुरिस-परिकय-परिवारो वारिजंतो वि पिउणा कुलउत्तयाए

18 पुरिसाहिमाण-गाहोओ त्ति चेव गामे पर-बलस्स थक्को । 18

अव्वो दुहा वि लाहो रणंगणे सूर-यीर-पुरिसाण । जइ मरइ अच्छराओ अह जीवइ तो सिरी लहइ ॥

एवं चित्तयत्तस्स समागयं पुल्लिदस्स संतियं बलं । ताव य,

21 एस्स एस गेणहइ मारे-मारह रे दुरायारं । जेणह सामिओ च्चिय णिहओ अकयावराहो वि ॥ 21

एयं च भणमाणा समुद्धाइया सव्वे समुत्थ-रिउ-भडा । इमो य आयडिय-खग्ग-रयणो कइ जुज्झिउं समाडत्तो ।

वेलं उप्पइओ च्चिय पायालयलम्मि पइसए वेलं । कइया वि धाइ तुरियं चक्काइट्टो व्व परिभमइ ॥

24 § १००) एवं च जुज्झमाणेणं थोवावसेसियं तं बलं इमिणा । तह दूसह-पहरंतो-गुरु-क्खय-णीसहो पाडिओ तेहिं 24

उच्छूदो य तस्स णियएहिं पुरिसेहिं मिलिओ णियय-पिउणो । ते वि पलायमाणा कइ कइ वि संपत्ता णम्मया-तीर-लग्गं

अण्य-वेल्लया-गुम्म-गोच्छ-संकुलं वण-महिस-विसाण-भज्जमाण-वह-वेदं उद्दाम-वियरंत-पुल्लि-भीसणं एकं पञ्चत्तिय-गामं । तं

27 चैय दुग्गं समस्सइऊणं संटिया ने तत्थ । इमो य माणभडो गुरु-पहर-परदो कइ कइ वि रूढ-वणो संवुत्तो । तत्थ तारिसे 27
 पञ्चेते अच्छमाणेणं वोलिओ कोइ कालो । ताव य

कच्चिय-मुहल-सिलीमुह-दुप्पेच्छो कोइला-कलयलेणं । च्य-गाइंदासुदो वसंत-राया समलीणो ॥

30 अह्णीणरिमि वसंतं णव-कुसुमुम्भेय-रइयमंजलिया । सामंता इव पणया रुक्खा बहु-कुसुम-भारेण ॥ 30

रेहइ किंसुय-गाहणं कोइल-कुल-गेज्जमाण-सहालं । णव-रत्तंसुय-परिहिय-णव-वर-मरिसं वणाभोयं ॥

साहीण-पिययमाणं हरिसुप्फुल्लिइं माहव-सिरीण । पहिय-धरिणीण णवरं कीरंति मुहाइं दीणाइं ॥

33 सुव्वइ गामे गामे कय-कलयल-डिंभ-पडहिया-सहो । विविह-रसत्थ-विरइओ च्चरि-सहो समुद्धाइ ॥ 33

पिजइ पाणं रिजइ य गीययं बद्ध-कलयलारावं । कीरइ मयणांभो पेसिजइ वल्लहे दूई ॥

1) P अजेहिं for अण्णेण, P परिहवो कवरायरस. 2) P om. च, P परिहवो, P ता जीवितं जाव, J परिहवं P परिभवो

3) P परिमलय-, J पयावयस्स, P भण कस्स जीयणं. 4) P मंदर-गुरुओ, P परिहव-, P तणुयाउ for तणुयतणाओ. 5) J एयं च

परिसं, P उक्खया for समुक्खया, J जमजीइमणिणइ, P अवयारिऊण, P सुंदरं चित्तिऊण. 6) P सव्वहा जं होउ त्ति, P रायपुत्तो

8) J अप्पयं णो य होत्तमहाहोत्तं, P दांतं for होत्तं, J माणमउम्मत्त P मणं मउम्मत्त. 9) J च विवाइऊण, P गयत्थणे for

अत्थाणि. 10) J धावह P धाय, P सुहिओ अत्थाणे. 11) P मो for एसो, P गामाहुत्तो, J च्छओँ for भुयंगो, P अत्ति for

झत्ति. 12) P om. य, P णेण for तेण, P बप्पो बप्प, P om. एरिसं, P एवं च. 13) J भणिअं for भणियव्वं. 14) P

जं कइ वि रहसइयं पढमं. 15) P एत्थं पुण, P वि एस for विदेस, P तणुयपवेसो वा. 16) P आरोहियसयलसार, J भंढारवक्खरं

17) J णम्मयाकुलं, P कुडुंग, P om. परिकय, P कुणउत्तया पुरिसाभिमाण. 18) J चैय गामे. 19) J लामो, P रणंगणो

धीरवीर, J सिरी लहइ. 20) P चित्तियत्तस्स, P पुल्लिदसंतियं. 21) P om. रे. 22) J च्चिय for च, P संमरित्तु for

समुत्थरिउ, P वि for य, P संपत्तो for समाडत्तो. 23) P इव for च्चिय, P पायालयलम्मि, J चक्काइदं व. 24) J om. तं, J

पहरंतो गुरु, P पहरंतो सुग्गं नीसहा पाडिओ तेहिं उच्छूदो तस्स. 25) P om. पुरिसेहिं, P मिलिओ for मिलिओ, P तीरं

लग्गं. 26) J वेसलया for वेल्लया, P नियरंत for वियरंत, J पञ्चत्तियागामं. 27) P दुग्गं, P वि for य after इमो), J पहर-

पारदो, P तारिसो. 29) J 'मुहरवेच्छिओइला. 30) P तवकुसुमुम्भेयइयमंजलिया. 31) J कैनुअगहणं, P -गिज्जमाण, P तव-

रत्तसुरलसपरिहिय, P वणाभोए. 32) P मीदीण, J पिययमाणीहरिमुं, J धरिणीण णवरं. 33) P om. कय, P डिंभजणपडिहया, P

विरइओ, J समुद्धाह. 34) P om. य, P वल्लहो.

1 § १०१) तत्रो एयमि एरिसे वसंत-समणु तरुवर-साहा-णिबद्ध-दृढ-दीह-माला-वक्त्रलय-दोला-हिंदोलमाण-बेह्लहल-
विलासिणी-विलास-गिजमाण-मणहरे महु-मास-माहवी-मयरंदाभोय-मुहय-मउम्मत्त-महुयर-रुहराराव-मणहर-रुणरुणेत-जुवल-
3 जुवह-जगे सो माणभडो गाम-जुवाण-वंद-समगो अंदोलणु अंदोलैउमाढत्तो । भणियं च जुवाण-जगेण तालं दाऊण 'भो भो 3
गाम-वोद्रहा णिसुणेह एकं वयणं ।

'जो जस्स हियय-दइओ णीमंके अज्ज तस्स किर गोत्ते । गाण्यव्वमवस्सं एत्थ हु सवहो ण अण्णस्स ॥'

6 पडिवण्णं च सव्वेणं चेय गाम-जुवाण-जगेणं । भणियं च सहत्थ-वाल-हसिरेहिं 'रे रे सच्चं सच्चं सुंदरं सुंदरं च संलत्तं । जो 6
जस्स पिओ तस्स इर अज्ज गोत्ते गाण्यव्वं अंदोलयारूढण्हिं ण अण्णस्सम । अवि य ।

सोहग-मउम्मत्ता ज च्चिय जा दूहवाओ महिलाओ । ताणं इमाण णवरं सोहगं पायडं होइ ॥'

9 एवं च भणिणु णियय-पियाणं चेय पुरओ गाइउं पयत्ता हिंदोलयारूढा । तत्रो को वि गोरीयं गायइ, को वि सामलियं, 9
को वि तणुयंगी, को वि णीलुप्पलच्छी, को वि पउम-दलच्छि त्ति ।

§ १०२) एवं च परिवाडीणु समारूढो माणभडो अंदोलणु, अक्खित्तो य अंदोलणु जुवाण-जगेण । तत्रो णियय-
12 जायाणु गोरीणु मय-सिलंबच्छीणु पुरओ गाइउं पयत्तो इमं च दुवइ-खंडलयं । 12

परहुय-महुय-सह-कल-कूविय-सयल-वणंतरालणु । कुसुमामोय-मुहय-मत्त-भमरउल-रणंत-सणाहणु ॥

बहु-मयरंद-वंद-णीसंदिर-भरिय-दिसा-विभायणु । जुवइ-जुवाण-जुवल-हिंदोलिर-गीय-रवाणुरायणु ॥

15 एरिसयमि वसंतणुं जइ सा णीलुप्पलच्छिया पमइं । आरिणिजइ मुदिय सामा विरहसुण्हिं अंगेहिं ॥ 15

एयं सामाणु गोत्ते गिजमाणं सुण्णिऊणं सा तस्स जाया सरिस-गाम-जुवई-तरुणीहिं जुण्ण-सुरा-पाण-मउम्मत्त-विहलालाव-
जपिरीहिं काहिं वि ह्मिआ, काहिं वि णोलिया, काहिं वि पहया, काहिं वि णिज्जाइया, काहिं वि णिदिया, काहिं वि तजिया,

18 काहिं वि अणुसोइय त्ति । भणिया य 'हला हला, अम्हे चिंतेमो तुज्ज जोच्चण-रूय-लायण-वण्ण-विण्णण-णाण-विलास-
लास-गुण-विणयक्खित्त-हियओ एस ते पइं अण्णं महिलियं मणसा वि ण पेच्छइ । जाव तुमं गोरी मयच्छि च उज्जिउं
अण्णं कं पि साम-सुंदरं कुवलय-दलच्छि च गाइउं समाढत्तो, ता संपयं तुज्ज मरिउं जुजइ' त्ति भणमाणीहिं णोलिजमाणी ।

21 ते खेह्हाविउं पयत्ता । इमं च णिसामिऊणं चिंतिउं पयत्ता हियणु णिहित्त-सह्हा चिव तवस्सिणी 'अहो इमिणा मम पिययमेणं 21
सहिययणस्स वि पुरओ ण च्छाया-रक्खणं कयं । अहो णिदक्खिणया, अहो णिल्लजया, अहो णिणोहया, अहो णिपिवा-
सया, अहो णिभयया, अहो णिगिघया, जेण पडिवक्ख-वण्ण-खलण-पडिभेयं कुणमाणेण महंतं दुक्खं पाविया । ता
24 महं एवं वियाणिय-सोहगाणु ण जुत्ते जीविउं । अवि य । 24

पडिवक्ख-गोत्त-कित्तण-चजासणि-पहर-घाय-दलियाणु । दोहग-दूमियाणु महिलाणु किं घ जीणं ॥

इमं च चिंतिऊण तस्स महिला-वंदस्स मज्जाओ णिक्खमिउं इच्छइ, ण य से अंतरं पावइ । ताव य

27 बहु-जुवईयण-कुंकुम-वास-रउइय-धूल-महलंगो । वच्चइ छणमि पहाउं अवर-समुइ-द्रहं सूरु ॥ 27

जह जह अलियइ रवी तुरियं तुंगमि अत्थ-सिहरमि । तह तह मगालगं धावइ तम-णियर-रिवु-सेण्णं ॥

सयल-णिरुद्ध-दिसिवहो पूरिय-कर-पसर-दूसह-पयावो । निमिरेण णरिंदेण व खगेण सूरु वि कह खविओ ॥

30 अत्थमिय-सूर-मंडल-सुण्णे णहयल-रणंगणाभोणु । वियरइ कज्जल-सामं रक्खस-वंदं व तम-णिवहं ॥ 30

§ १०३) एयमि एरिसे अवसरे दरिउम्मत्त-दिसा-करि-कमिण-महामुहवडे विय पलंविणु अंधयारे णिगया जुवइ-
सन्थाओ सा इमस्स महिला । चिंतियं च णाणु । 'कहिं उण इमं दोहग-कलक-दूमियं अत्ताणं वावाइउं णिष्णुया होहं ।

33 अहवा जाणियं मणु, इमं वण-संडं, एत्थ पविसिऊण वावाइस्सं । अहवा ण एत्थ, जेण सव्वं चेय अज्ज उज्जाण-वणंतरालं 33

1) तरुवर, P डोला for दोला. 2) J मणहरे, J om. मुख्य, J मयुग्मत, P मुख्यमणुत्त for मउम्मत्त, J P रुहरारवमणं, J रुणरुणेत. 3) जणो for जणे, P अंदोलिण, P भो भो भो. 4) J गामवाडुगा. 5) J रिधररुवो, P समते. 6) J णाय-डिवण्णं for पडिवण्णं, P जुवाणवणेण, J महत्थयाल, P हसिरेहिं, J om. च. 7) P तरम किर, P om. अज्ज, P अंदोलयारूढेहिं. 8) P मओम्मत्ता. 9) P चेव, J पवत्ता P पयत्ता, P हिंदोलयारूढो को कोवि गोरीयं, J कोइ for कोवि, J गाययइ, P सामलिं. 10) J सामलियं for तणुयंगी. 11) J om. च, P अक्खित्तमा, J अंदोलउ. 12) P जाणु for जायाणु, P सिलिबच्छीणु. 13) P वणंतरालोण, P भमरउल for भमरउल, J रणंतमयमणाइण. 14) P मंदं for वंद, P दिमाविदायण, P रवाणुराईण. 15) P नइया for जइ सा, J णिलुप्पलच्छिया P नीलुप्पलच्छिया, J पयतणम P पयतणण for पयतं (emended), J P मुदिया, J विरहसुण्हिं अंगेहिं, P विरहसुण्हिं. 16) P एवं च सा, P om. सा, J मरिगा, J मयुग्मत, P पाणमत्तविहलालीव. 17) J काहिं वि in all places, P काहिं वि in all places, P om. काहिं वि पहया, P मिज्जाइया, J om. काहिं वि णिदिया काहिं वि तजिया. 18) P अणुसोचिय, J अम्हेहिं चिंतेमो, P तुज्ज for तुज्ज, P लावण विज्जाणेण य विवासारुणविणयविकवत्त-हियया अत्रं. 19) P तुमं गोरी, P उज्जिय अत्रं किं पि मणभडो. 20) P पयत्तो for समाढत्तो. P नीलिजमाणी खेह्हा. 21) P पयत्ता for पयत्ता, P मम पिण्ण सदियायणस्स पुरओ. 22) P निदक्खिणया अहो णिल्लच्छया. 23) J निविणयया. 24) J एयं. 26) P निक्खविओ for णिक्खमिउं, P निय for ण य. 27) J वासरुधुल्लिमइअंगो (note the form of अणु), P रुइय. 28) P निवु for निवु. 29) J अयल for सयल, P मरिंदेण, P सूरु कर्त. 30) P सुण्ण for सुण्णे, P रणंगणोहोण, P रक्खसं. 31) J om. दरि, P दरियुग्मत, P महामुहवडे वि विये अंधं, J om. अंधयारे, J ताओ before जुवइ-. 32) P इ only for इमस्स, P चिंतियं, P कइं पुण, J दूसिउं, P इत्ताणं for अत्ताणं. 33) P अवि य for अहवा. J om. अज्ज, P om. उज्जाण.

- 1 उववणं पिव बहु-जण-संकुलं । एत्थ मह मणोरहाणं विग्घं उप्पज्जइ त्ति । ता घरे चेय वासहरयं पविसिउं जाव एस एत्थ 1
बहु-जुवईयण-परिवारो ण-याणइ ताव अत्ताणयं वावाएमि । चित्तयंती भागया गेहं । तत्थागया पुच्छिया सासुयाए 'पुत्ति,
3 कत्थ पइ' । भणियं च तीए । 'एस भागओ चेय मह मगगालग्गो त्ति' भणमाणी वासहरयं पविट्ठा । तत्थ पविसिउण गुह- 3
वृसह-पडिक्ख-गोत्त-वज्ज-पहर-दलियाए य विरइओ उवरिल्लएण पासो, णिबद्धो य कीलए, समारूढा य आसणेसु, दाऊण
य अत्तणो गलए पासयं भणियं इमीए ।
- 6 'भो भो सुणेह तुब्भे तुब्भे च्चिय लोण-पालया एत्थ । मोत्तूण णियय-दइयं मगसा वि ण पत्थिओ अण्णो ॥ 6
तुब्भे च्चिय भणह फुडं जइ णो एत्थं मए जुवाणाणं । धवल्लुवेळिर-पंभल-णयण-सहस्साई खलियाइं ॥
मज्झं पुण पेच्छसु वल्लहेण बह एरिसं पि जं रइयं । पिय-सहि-समूह-मज्झ-ट्टियाए गोत्तं खलंतेण ॥
- 9 ता तस्स गोत्त-खलणुल्लसंत-संताव-जलण-जलियाए । कीरइ इमं अउण्णाएँ साहसं तस्स साहेज्जा ॥ 9
भणमाणीए च्चलण-तलाहयं पक्खित्तं आसणं, पूरिओ पासओ, लंबिउं पयत्ता, णिग्गया णयणया, णिरुद्धं णीसासं, वंकीकया
गीवा, आयट्टियं धमणि-जालं, सिट्ठिलियाइं अंगयाइं, णिब्बोलियं मुहं ति । एत्थंतरम्मि इमो माणभडो तं जुवई-वंद्रे
- 12 अपेच्छमाणो जायासंको घरं भागओ । पुच्छिया य णेण माया 'भागया एत्थ तुह वहु' त्ति । भणियं च तीए 'पुत्त, भागया 12
सोवणयं पविट्ठा' । गओ इमो सोवणयं जाव पेच्छइ दीवुज्जोए तं वीणं पिव महुरक्खरालाविणी णिय-उच्छंग-संग-दुल्लियं
वील-कीलयावल्लिणी । तं च तारिसिं पेच्छिउण समंभमं पहाविओ इमो ततोहुत्तं । गंतूण य णेण छर त्ति छिण्णो पासओ
- 15 छुरियाए । णिवडिया धरणिवट्टे, सित्ता जलेणं, वीइया पोत्तणं, मंवाहिया हत्थेणं । तओ ईसि णीससियं, पविट्ठाइं 15
अच्छियाइं, चलियं अंगेण, वलियं बाहुलयाहिं, फुरियं हियणं । तओ जीविय त्ति णाऊण कहकह वि समासत्था ।
§ १०४) भणियं च णेणं ।
- 18 'सुंदरि किं किं केण व किं व वरद्धं कया तुमं कुविया । कह वा केण व कत्थ व किं व कयं केण ते होज्ज ॥ 18
जेण तए अत्ताणं विलंबयंतीएँ सुयणु कोवेणं । आरोवियं तुल्लगे मज्झं वि जीयं अउण्णस्स ॥'
एवं च भणिया पिययमेणं ईसि-समुच्चलमाण-मुणाल-कोमल-बाहुलइयाए, ईमि-वियसंत-रत्त-पम्हल-धवल-विलोल-लोय-
21 णाए, दट्टूण पिययमे पुणो तत्त्वणं चेय आबद्ध-भिउडि-भंगुराए विरजमाण-लोयणाए, रोस-वस-फुरमाणाधराए संलत्तं नीए । 21
'अब्बो अब्बेहि गिल्लज वच्च तत्थेव जत्थ सा वसइ । कुवलय-दल-दीहर-लोल-लोयणा साम-सामलेगी ॥'
इमं च सोऊणं भणियं माणभडेणं ।
- 24 'सुंदरि ण-याणिमो च्चिय का वि इमा साम-सुंदरी जुवई । कत्थ व विट्ठा कहया कहिं व केणं व ते कहियं ॥ 24
इमं च णिमामिउण रोसाणल-सिमिसिमेत-हिययाए भणियं तीए ।
'अह रे ण-याणसि च्चिय जीए अंदोलयावल्लगेणं । वियसंत-पम्हलच्छेण अज गोत्तं समणुगीयं ॥'
- 27 एवं च भणिउण महासुण्णारण-मुणी विय मोणमवल्लिउण टिय त्ति । 'अहो मे कुविया एसा, ता किमेत्थ करणीयं । 27
अहवा सुकुविया वि जुवई पायवडणं णाइवत्तइ त्ति पडामि से पाएसु' चिंतउण भणियं च णेणं ।
'दे पमिय पमिय सामिणि कुणसु दयं कीस मे तुमं कुविया । एयं माणत्थइं सीसं पाएसु ते पइइ ॥'
- 30 त्ति भणमाणो णिवडिओ से च्चलण-जुवलए । तओ दुगुणयरं पिव मोणमवल्लिबियं । पुणो वि भणिया णेण । 30
'दे सुयणु पमिय पमियसु णराहियाणं पि जं ण पणिवइयं । तं पणमइ मह सीसं पेच्छसु ता तुज्झ च्चलणेसु ॥'
तओ तिउणयरं मोणमवल्लिबियं । पुणो वि भणिया णेण ।
- 33 'दरियारि-मंडलगाहिघाय-सय-जजरं इमं सीसं । मोत्तूण तुज्झ सुंदरि भण कस्स व पणमए पाए ॥ 33

1) P मम for मह, P वासपरयं. 2) J जुवईअणपरिभणयाणइ ताव य अत्ता, P परिवारा य ण, J तथागया, P सासुए J पुत्तय for पुत्ति. 3) P चेय महालग्गो त्ति. 4) P दडिया इव विर, J उवरिल्लयेण, P खीलए, P om. य in both places. P गले पासं भणियमिमीए. 6) J णिगुणइ for सुणेह, P तुब्भं तुब्भि, J लोअपाय्या, J णिअअदयओ. 7) P धवल्लुवेळिरपम्हर-नयण. 8) J विअं P पियं (पि जं ed.). 9) P स्वउणुल्लसंताव, J जवियाए, P कइ वि ता for साहसं, J साहेज्जा. 10) J पक्खिअं, P आसणं, J णिग्गया णयणया, P निरुद्धं णीसासो । वकीगया. 11) P आयट्टियं धणिजालं, J धम्मजिजाअं सिट्ठिलयाइं, P अंगयाइं, J णिब्बोलियं मुहं मि । P निब्बोलिमइ त्ति । P जुवइ, J वंदे for वंदे. 12) P om. य, P वहुय त्ति, J पुत्तय for पुत्त, 13) J गओ य इमो, J महुरा-अविणी णिययुच्छंग, P अत्तंग. 14) P लील for वील, P तारिसं, P पहाइओ, P तत्ताहुत्तो, J om. णेण, P ज्झइ for छर, P पासाओ. 15) P वीया पोत्तणं, P हत्थेहि । 16) P अंगेहि, P बाहुलइयाहिं. 18) J केण व, करस व किंव अवगद्धं, J कत्थ वा किं, J होज्जा. 19) J विलविअतीए, P विलंबयंतीय मुयण कोवेण. 20) J om. च, P समु-वेलमाण, P धवल-वल्- 21) P आबद्धा, J फुरंतमाणधराए P फुरमाणवमाएहराए, P om. सं उत्तं तीए. 22) P तत्थ य for तत्थेव, J दीवकल्लोत्त. 24) J कत्थ वि विट्ठा, J कइ व, P कहं व तेणं. 26) J याणइ for याणसि, P समणुगीयं । 27) P ट्टिय त्ति, P मम for मे. 28) J जुवई, J णाइवत्तइ त्ति P नाइवत्तय त्ति. 29) P माणत्थइं, P तं for ते 30) J om. त्ति, P जुवलए, J तेण for णेण. 31) P om. मुयणु, P यं for जं, P पणमइ । जं तं for पणिवइयं । जं तं, P तुज्झा. 32) P निगुणतरं मोणमवल्लिउण पुणो. 33) P मंडलगाभिघायसयजुजरं, P पणवए.

- 1 § १०५) ता एवं भगिया ण किञ्चि जंपइ । तओ समुद्वाहओ इमस्स माणो महंतो । 'अहो, एसा एरिसी जेण 1 एवं पि पसाहज्जमाणी वि ण पणाम-पसार्य कुणइ । सब्वहा एरिसाओ चैय इमाओ इत्थियाओ होति ति । अवि य ।
- 3 खण-रत्त-विरत्ताओ खण-रूखण-खण-पसज्जणाओ य । खण-गुण-गेण्हण-मणसा खण-दोसगहण-तल्लिच्छा ॥ 3
- सब्वहा चल-चवल-विजु-लह्याणं पिव दुब्बिलसियं इमाणं । तं वञ्चामि णं बाहिं । किमेसा ममं वञ्चंते पेच्छिऊण पसज्जह 4 ण व' ति विचिंतिऊण पयट्ठो माणभडो, णिक्खित्तो वास-घराओ । णीहरंतो य पुच्छिओ पिउणा 'किं पुत्त, ण दिण्णं से पडि- 6 वयणं' । णिगओ बाहिं गंतुं पयत्तो । तओ चित्तियं इमस्स महिलाए 'अहो, एवं वज्ज-कडिण-हियया अहं, जेण भच्चुणो तहा 6 पाय-पडियस्स ण पसण्णा । ता ण सुंदरं कर्यं मए । अवि य ।
- अकय-पसाय-विलक्खओ पुणरुत्त-पणाम-सब्वहा-खवियओ वि । अच्चो मज्झ पियल्लओ ण-यागिओ एस पत्थिओ कहिं पि ॥ 9
- 9 ता इमस्स चैय मग्गालग्गा वञ्चामो' ति चिंतिऊण णीहरिया वास-घरयाओ । पुच्छिया य सासुयाए 'पुत्ति, कत्थ चलिया' । 9 नीए भगियं । 'एसो ते पुत्तो कहिं पि रुट्ठो पत्थिओ' ति भगमाणी तुरिय-पय-णिकखेवं पहाइया । तओ ससंभमा सा वि थेरी मग्गालग्गा । चित्तियं च तेण इमस्स पिउणा वीरभडेण । 'अरे सब्वं चैय कुडंबयं कत्थ इमं पत्थियं' ति चित्तियंतो 12 मग्गालग्गो सो वि वीरभडो । इमो य घण-निमिरोत्थइए कुहिणी-मग्गो वञ्चमाणो कह-कह वि लक्खिओ तीए । बहु-पायव- 12 साहा-सहस्मंधारस्स पञ्चत-गाम-कूवस्स तडं पत्तो । तथ अवलोइयं च णेण पिट्ठओ जावोवलक्खिया णियय-जाय ति । तं च पेच्छिऊण चित्तियमणेण । 'दे पेच्छामि ताव ममोवरि केरिसो इमीए सिगेहो' ति चित्तियंतेण समुक्खित्ता एका गाम-कूव- 15 तड-मंठिया सिला । समुक्खिविऊण य दढ-भुय-जंत-पविद्धा पक्खित्ता अयडे । पक्खिविऊण य लहुं चैय आसण-संठियं 15 तमाल-पायवं समलीणो । ताव य आगया से जाया । मिला-सह-संजणिय-संकाए अवलोइयं च इमीए तं कूर्यं । जाव दिट्ठं विट्ठियण-सिला-घाउच्छलंत-जल-तरल-वेविर-तरंगं । कूवं तं पिव कूवं सुचवंतं पडिसुय-रवेण ॥
- 18 तं च तारिस्सं दट्ठण पुलइयाइं नीए पासाइं । ण य दिट्ठो इमो तमाल-पायवंतरिओ । तओ चित्तियं । 'अवस्सं पत्थ कूवे मह 18 दट्ठण पक्खित्तो अप्पा होहिइ । ता किमेत्थ करणीयं । अहवा
- सो मह पसाय-विमुहो अगणिय-परिसेस-जुवइ-जण-संगो । एत्थ गओ गय-जीवो मज्झ अउण्णाए पेम्मंधो ॥
- 21 सयणे परिभूयाओ दोहग्ग-कलंक-दुक्ख-तवियाओ । भत्तार-देवयाओ णारीओ हांति लोयम्मि ॥' 21
- चित्तियण तीए अप्पा पक्खित्तो तहिं चैय अयडे । दिट्ठा य णिवडमाणी तीए थेरीए । पत्ता ससंभमंता । चित्तियं तीए 'अहो, णूण मह पुत्तओ पत्थ कूवे पडिओ, तेण एसा वहु णिवडिय ति ।
- 24 हा हा अहो अकज्जं देव्वेण इमं कर्यं णवर होज्जा । दावेउं णवर णिहिं मण्णे उप्पाडिया अच्छी ॥ 24
- ता जइ एवं, मए वि ता किं जीवमाणीए दूमह-पुत्त-सुण्हा-विओय-जलण-जालावलि-तवियाए' ति भणिऊण तीए थेरीए पक्खित्तो अप्पा । तं च दिट्ठं अणुमग्गालग्गेण थर-वीरभडेण । चित्तियं च णेण । 'अरे, णूणं मह पुत्तो सुण्हा महिला य 27 णिवडिया । अहो आगओ कुलक्खओ । ता सब्वहा वइरि-गइंद-दंत-मुसलेसु सुहं हिंदोलियं मए, उरुभड-अड-सहस्स-अमि 27 घाय-घणम्मि वि वियारियं, पुणो धणु गुण-जंत-पमुक्क-मिलीमुह-संकुटे रणे । एण्हं एत्थ दइ-वइवेण वसाणमिणं णिरुवियं । ता मह ण जुजइ एरिसो मज्झ । तहा वि ण अण्णं करणीयं पेच्छामि' ति चिंतिऊण तेण वि से पक्खित्तो अप्पा । एयं च 30 सब्वं दिट्ठं वुत्तंतं इमिणा माणभडेण । तहा वि माण-महारक्खस-पराहीणेणमणिवारियं, ण गणिओ पर-लोओ, ण संभरिओ 30 धम्मो, ण सुमरिओ उवयारो, अवहत्थिओ मिण्हो, अवमाणिओ से पेम्म-बंधो, ण कया गुरु-भत्तो, वीसरियं दक्खिण्णं, पम्हुट्ठा दया, परिचत्तो विणओ ति । ते मए जाणिऊण संजाय-पच्छायाओ विलविउं पयत्तो ।

1 > P परिं for एवं, J अहो एरिसा जेण. 2 > P कुणइ ति सब्वहा, P चैय उमाओ अन्थियाओ, P om. ति. 4 > P सब्वहा, J ता for तं, J किमेस. 5 > J ति चिंतिऊण, P गम्भरयाओ for यामपराओ, J om. य, P पुच्छिऊणो कि. 6 > P हं for अहं, J ग्ग for जेण, J तहा वि पा. 7 > J मे for मए. 8 > P पणरुत्त, P सब्वहु for सब्वहा, P खविओ, J पिपल्लओ, P एस कर्यं पि पत्थिओ. 9 > J वासहरयाओ, P मामए, J पुत्त for पुत्ति. 10 > J वि से थेरी. 11 > P रिउणो, J कुडंबयं, P om. कत्थ. P पत्थिय ति, J om. चित्तियंतो मग्गालग्गो etc. to णिययजाय ति. 13 > P पाया for साहा (ed.), P अवलोइउं च णेणपरिपट्ठिओ, P णिययजाइ ति. 14 > P दे पेच्छामि, J om. इमीए, P चित्तिय तेण, J एगाम-. 15 > P संसिया for संठिया, J om. य, P भुया for भुय, P पविट्ठा for पविद्धा, P adds य before अयडे. 16 > P संका for संकाए, J कूवं । जावय दिट्ठं. 17 > P घायउच्छलंत, J तं पि कूवसुचवंतयइणुअ, P सुचवंतं. 18 > J तीय, P एत्थं. 19 > J पविट्ठो for पक्खित्तो, P होहीइ. 20 > J गयजीओ, J पेम्मडो P पेम्मंधो. 21 > P देवयाए. 22 > P चित्तियं for चित्तियण, P तहिं चैय, P दिट्ठो, P तीय थेरीय, P ससंभंता चित्तियंती. 23 > P मा for एसा. 24 > P देव्वेण, P दावेऊ णवर निही मण्णे उप्पाडिऊण अच्छीणि. 25 > P एव, P om. वि, P जलणजातवियाएउ ति, P om. थेरीए. 26 > P परिक्खित्तो. 27 > P ताव for ता. 28 > P जंतु for जंत, J जंतमुक्कभोक्क, J दट्ठण, P वसणमिणं, P निरुवियमहं. 29 > P ता हा for तहा वि. 30 > P om. वुत्तंतं, P माणमाणक्खसा पराहीणेण न निवारियं, J परलोओ. 31 > P उवयारहरो, J पेम्मावडो P पेम्माबंधो. 32 > J चत्तो विणओ ते य मए जाणिं.

- 1 § १०६) 'हा ताय पुस-वच्छल जाएण मए तुमं कहं तविओ । मरणं पि मज्झ कजे णवरं णीसंसयं पत्तो ॥ 1
 धी धी अहो अकजं आयर-संवद्धियस्स मायाए । बुद्धत्तणमि तीए उवयारो करिसो रहओ ॥
- 3 हा हा जीए अप्पा विलंबिओ मज्झ गेह-कलियाए । तीए वि दइयाए मए सुपुरिस-चरियं समुच्चुदं ॥ 3
 वज्ज-सिलिका-वडियं णूण इमं मज्झ हियवथं विहिणा । जेणेरिसं पि दंठं फुट्टइ सय-सिकरं णेय ॥
 ता पुण किमेत्थ मह करणीयं । किं इममि अयडे अत्ताणं पक्खिवामि । अहवा णहि णहि,
- 6 जलणमि सत्त-हुत्तं जलमि वीसं गिरिमि सय-हुत्तं । पक्खिसे अत्ताणे तद्वा वि सुद्धी महं णत्थि ॥ 6
 § १०७) 'ता एयं एत्थ जुत्तं कालं । एए मएल्लए कूवाओ कड्डिऊण सक्कारिऊण मय-करणिज्जं च काऊणं वेरग्ग-मग्गा-
 वडिओ विसयाओ विसयं, णयराओ णयरं, कब्बडाओ कब्बडं, मडंबाओ मडंबं, गामाओ गामं, मढाओ मढं, विहाराओ
 9 विहारं परिभममाणो कहिं पि तारिसं तुलगोणं कं पि गुरुं पेच्छिहामो, जो इमस्स पावस्स दाहिइ सुद्धिं' ति चिंतिऊण तम्हाओ 9
 च्ये टाणाओ तित्थं तित्थेण भममाणो सयलं पुहइ-मंडलं परिभमिऊण संपत्तो महुराउरीए । एत्थ एकमि अणाह-मंडवे
 पविट्ठो । अवि य तत्थ ताव मिलिएल्लए कोट्टीए वलक्ख खइयए दीण दुग्गय अंधलय पंगुलय मंदुलय मडहय वामणय
 12 छिण्ण-णासय तोडिय-कण्णय छिण्णोट्टय तडिय कपडिय देसिय नित्थ-यत्तिय लेहाराय धम्मिय गुग्गुलिय भोया । किं च 12
 बहुणा । जो माउ-पिउ-रुट्टेअओ सो सो सब्बो वि तत्थ मिलिएल्लओ ति । ताहं च तेषु मिलिएल्लयहं समाणहं एकैकमहा
 आलावा पयत्ता । 'भो भो कयरहिं तित्थे दे चेवा गयाहं कयरा वाहिया पावं वा फिट्टइ' ति । एकैण भणियं । 'अमुक्का
 15 वाणारसी कोट्टिएहिं, तेण वाणारसीहिं गयहं कोढो फिट्टइ' ति । अण्णेण भणियं । 'हुं हुं कहिओ बुत्तंतओ तेण जंपि- 15
 एल्लउ । कहिं कोढं कहिं वाणारसि । मूलत्थाणु भडारउ कोढइ जे देइ उद्दालइजे लोयहुं ।' अण्णेण भणियं । 'रे रे जइ
 मूलत्थाणु देइ जे उद्दालइजे कोढइ, तो पुणु काइं कज्जु अण्णायु कोट्टियल्लउ अच्छइ ।' अण्णेण भणियं । 'जा ण कोट्टिएल्लउ
 18 अच्छइ ता ण काइं कज्जु, महाकाल-भडारयहं छम्मासे सेवणण कुणइ जण मूलहेजे फिट्टइ' । अण्णेण भणियं । 'काइं 18
 इमेण, जत्थ चिर-परुडु पावु फिट्टइ, तं मे उहिसह तित्थं' । अण्णेण भणियं । 'प्रयाग-वड-पडियहं चिर-परुडु पाय वि हत्थ
 वि फिट्टिं' । अण्णेण भणियं । 'पाव पुच्छिय पाय साहहि' । अण्णेण भणियं । 'खेडु मेल्लहं, जइ पर माइ-पिट्ट-वह-कयइं पि
 21 महापावाइं गंगा-संगमे ण्हायहं भइरव-भडारय-पडियहं णासंति ।' 21
 § १०८) तं च सुयं इमेण माणभडेण । तं सोऊण चिंतियं मणेण । 'अहो सुंदरं इमिगा संलत्तं । ता अहं माइ-पिट्ट-
 वह-महापाव-संततो गंगा-संगमे ण्हाइऊण भइरवमि अत्ताणयं संजिमो जेण इमस्स महापावस्स सुद्धी होइ' ति चिंतयंतो
 24 महुरा-णयरीओ एम एयं कोसंबी संपत्तो ति । ता 24
 णरवर ण-याणइ च्चिय एम वराओ इमं पि मूठ-मणो । जं मूठ-वयण-चित्थर-परंपराए भमइ लोयं ॥
 पडियस्स गिरियडाओ सो विहइइ णवर अट्टि-संघाओ । जं पुण पावं कम्मं समयं तं जाइ जीवेण ॥
- 27 पडण-पडियस्स पत्थिव पावं परियलइ एत्थ को हेऊ । अह भणसि सहावो च्चिय साहसु ता केण सो दिट्ठो ॥ 27
 पच्चक्खेण ण घेपइ किं कज्जं जेण सो अमुत्तो ति । पच्चक्खेण विउत्ते ण य अणुमाणं ण उवमाणं ॥
 अह भग्गि आगमेणं तं पुण सव्वण्णु-भामियं होज्ज । तस्स पमाणं वयणं जइ मण्णसि तो इमं सुणसु ॥
- 30 पडण-पडियस्स धम्मो ण होइ तह मंगुलं भवइ चित्तं । सुद्ध-मणो उण पुरिसो घरे वि कम्मक्खयं कुणइ ॥ 30
 तम्हा कुणह विसुद्धं चित्तं तत्र-णियम-सील-जाएहिं । अंतर-भावेण विणा सव्वं भुस-कुट्टियं एयं ॥''
- § १०९) एवं च गित्तामिऊणं माणभट्टो विउडिऊण माण-बंधे णिवडिओ से भगवओ धम्मणं दणस्स चलण-जुवलए ।
 33 भणियं च णेण । 'भगवं 33

1) J महा for कर्त्त. 2) P धिद्धी, J नग्गा for आय. 3) P जीए अणो, P तीय for तीए, P om. मए, P सव्वुरिम, P समुच्चुदं. 4) P विक्का, P जं परिमं, J दंठुं हुट्टइ, P सियसक्कर निय. 5) ता उण, P मओ for मउ, P करणीयं ति, J जो for कि. 6) P सत्तहुत्तं. 7) J जत्तं काठं P जुत्तकाठं, P कूयाओ, P om. च, P मग्गपट्ठिओ. 8) P नग्गाओ नग्गं. 9) P किं पि गुरुवं पे, P om. पावस्स, P दाहीय for दाहिइ, J सुद्धि ति (?) P सुद्धि ति, P तओ च्ये टाणाओ. 10) P पुहइमंडलं, P तत्थ for एत्थ. 11) J मिलियालय, P मिलिएल्लय कोट्टियवलक्खण दीग्गययं, P मंडलय. 12) P चाणियताडियकज्जए. J देविय for देमिय, P लेहारिय, P गुग्गुलियाभोय. 13) P माउपीउ, P om. सो सो, P च्चिय for वि, P मिरियडओ, P तत्थ for तेषु, J मिलिएल्लय मडसमाणउ, P एकैकमहं. 14) J देवा for दे चेवा, J वाहिं for वाहिया, P व for वा, J फिट्टइ. 15) J वाणारसी गयाणं कोडु फिट्टइ ति, P om. ति, P काइं उवउत्तुं आओ तणए जंपियल्लय. 16) P त्थाण भगइओ कोढइ देइ जो, J कोढइ जे देइ, J उद्दालि लोयहुं, P लोयहं । अण्णेण. 17) P मूलत्थाणु, J देइ उद्दालइज्जं, J ता for तो, P पुण, P कज्ज अण्णायु कोट्टिएल्लउ छइ । ताणं काइं कज्जउ. 18) J महाकाल भडारउ छम्मास, P भडारयहं छम्मासे सेव न करइ, P मूलहोअे. 19) P तत्थ for जत्थ, J चिरपरुडु पाउ, J तुब्बे for तं मे, J तित्थ, P प्रयागवडे पडिहयं चिरं. 20) J अरे पाव, P पावे पुच्छिउं पाय सोहसि, P खदुमेल्लिहुं जइ परमायपियवहुकयाइं पि पावाइं, J माइ पिइ. 21) P फिट्टिं before गंगा, P पडिहयं, J णासहि ति. 22) P च गिसुयं, P तं च सोऊण, P ता अलं माइपियवइपावमहासंतता. 23) J अत्ताणं, P अत्ताण-यंमि भग्गिमो, P होउ, P चित्तियंतो. 24) J एय for एयं. 25) J इमं विमूढ- . 26) J पडिअरसइ गिरि, P महिट्ट (डु) for अट्टि. 27) P गिरिव. 28) J कज्जे, P विउत्तो. 29) P भणि for भणमि, P होज्जा, P repeats वयणं. 30) P पडणवडियस्स, P जइ for तह, P यह वि for भवइ, P वि पावक्खयं करइ. 31) P जोगेहिं, P सव्वं तुसमुद्धियं एयं. 32) J एयं च, P विउडिऊण, J माणवधं P माणबंधे, P सेस भगवओ, P जुवणए. 33) J तेण for णेण.

- 1 दुक्ख-सय-णीर-पूरिय-तरंग-संसार-सागरे घोरे । भव-जण-जाणवत्तं चलण-जुयं तुज्ज अहीणो ॥ 1
जं पुण एयं कहियं मह बुत्तं तण अपुण्णस्स । तं तह सयलं बुत्तं ण पुत्थ अलियं तण-समं पि ॥
- 3 ता तं पसियसु मुणिवर वर-णाण-महातवेण दिपंत । पाव-महापंक-जलोवहिम्मि धारेसु खिपंतं ॥ 3
भणियं च गुरुणा धम्मणंदणेण ।
'सम्मत्तं णाण तवो संजम-सहियाइं ताइं चत्तारि । मोक्ख-पह-पवण्णाणं चत्तारि इमाइं अंगाइं ॥
- 6 पडिवज्जइ सम्मत्तेण जं जह गुरु-जणेण उवइट्ठं । कज्जाकजे जाणइ णाण-पईवेण विमलेण ॥ 6
जं पावं पुव्व-कयं तवेण तायेइ तं णिरवसेसे । अण्णं णवं ण बंधइ संजम-जमिओ मुणी कम्मं ॥
ता सयल-पाव-कल्लिमल-किल्लेस-परिवज्जिओ जिओ सुटो । जत्थ ण दुक्खं ण सुहं ण वाहिणो जाइ तं सिद्धिं ॥'
- 9 इमं च सोऊण भणियं माणभडेणं । 'भगवं, कुणसु मे पसायं इमेहिं सम्मत्त-णाण-तव-संजमेहिं जइ जोगो' ति । गुरुणा वि 9
णाणाइसण्णं उवसंत-कसाओ जाणिऊण पव्वाविओ जिग-वयण-भणिय-विहीए माणभडो ति ॥ ९ ॥
§ ११०) भणियं च पुणो वि गुरुणा धम्मणंदणेण ।
- 12 'माया उव्वेययरी सज्जण-सत्थमि णिंदिया माया । माया पावुप्पत्ती वंरु-विंवका भुयंगि च ॥ 12
माया-परिणाम-परिणओ पुरिसो अंधो इव बहिरो विव पंगू इव पसुत्तो विय अयाणओ विय बालो विय उम्मत्तो विय
भूय-गहिओ इव सव्वहा माइह्लो । किं च ।
- 16 सज्जण-सरल-समागम-वंचण-परिणाम-तग्गय-मणाए । मायाए तेण मुणियो णरणाह ण अप्पयं देंति ॥ 16
माया-रक्खसि-गहिओ जस-धण-मित्ताण णासणं कुणइ । जीयं पि तुलगं मि व णरवर एमो जहा पुरिसो ॥'
भणियं च णरवइणा 'भगवं, ण-याणिमो को वि एम पुरिसो, किं वा इमेण कयं' ति । भणियं च धम्मणंदणेण गुरुणा ।
- 18 "जो एम तुज्ज वामे पच्छा-भायमि संटिओ मज्ज । संकुइय-मडह-देहो मंडो कम्मण-च्छवी पावो ॥ 18
जल-बुव्वुय-सम-णयणो दिट्ठो जो कायरो तण होइ । णिज्जाइ य पेच्छंतं बगो व्व जो कुंचिय गीओ ॥
कम-सजो मजारो माया इव एम दीसए जो उ । माया-मोण एगुण जं कयं तं णिसामेहि ॥
- 21 § १११) अत्थि बहु-गाम-कलिओ उज्जाण-वणंतराल-रमणिज्जो । आहत्त-महाभोजो भोज-मउग्गीय-गोजयणो ॥ 21
जो य रेहइ णिरंतर-संठिणहिं गामेहिं, गामइं मि रेहंति तुंग-संठिणहिं देव-कुंठेहिं, देवउलइं मि रेहंति धवल-संठिणहिं
तलाणहिं, तलायइं मि रेहंति पिहुल-दलेहिं पउमिणी-मंडेहिं, पउमिणि-संडइं मि रेहंति वियमिय-दलेहिं अरविंदेहिं,
- 24 अरविंदइं पि रेहंति महु-पाण-मत्त-मुइय-महुयर-जुवाणएहिं ति । 24
इय एकेकम-सोहा-संघडिय-परंपराए रिंछोली । जमि ण समप्पइ चिय सो कासी णाम एमो ति ॥
तमि य णयरी अइ-तुंग-गोउरा कणय-घडिय-वर-भवणा । सुर-भवण-णिरंतर-साल-सोहिया सम्म-णयरि च ॥
- 27 जहिं च णयरिहिं जणो देयणओ अत्थ-संगह-परो य, कुणंति विल्लामिणीओ मंडणइं भय-वियारइं च, ण सिक्खविज्जंति 27
कुलयण-लज्जियव्वइं गुरुयण-भत्तिओ य, सिक्खविज्जंति जुवाणा कला-कलावइं चाणक-सत्थइं च । अवि य ।
जा हरिस-पणय-सुरवइ-मउड-महा-रयण-रइय-चलणस्स । वस्सा-सुयस्स जम्म-णयरी वाणारसी णाम ॥
- 30 § ११२) नांय य महाणयणए वाणारसीए पच्छिम-दक्खिण दिसा-विभाग सालिगगामं णाम गामं । तहिं च एको 30
वइस्स-जाइं परिवसइ गंगाइच्चो णाम । तमि य गामे अणय-धण-धण-हरिण-सुवण-ममिद्ध-जगे वि सो चैय एको जम्म-
दरिहो । कुसुमाउह-मरिसमसरिम-रुव-पुरिसयणे वि सो चैय एको विरुओ । महु-महुर-वयण-गगारिरे वि जणमि सो चैय
33 एको दुव्वयण-विमो । सरय-समय-संपुण-समि-मिरी-मरिस-दंसण-मुहस्स वि जगस्स सो चैय एको उव्वयणज-दंसणो । 33

1 > P भवजलहि for भवजण 2 > P अउण्णस्स, P वत्तं for बुत्तं. 3 > P om. गारा, J ज्जोयहिअअग्गि, P सुणोत्तं.
5 > J संजमममियाइं. 6 > JP जजा, P सुव्वयणेण, P कज्जाकजे. 8 > J सयलकम्मकिल्लेस, J जोउ, J तत्थ for जत्थ, P सुक्खे
for दुक्खे. 9 > P भणियं for भगवं, J om. मे, P नाणसमव, J जोगो, P इ for वि. 10 > J णाणाइसण्णं, J पवाविओ, P
माणभडो ति । प्रवज्जितो माणभट । भणियं. 11 > P om. च, P om. गुरुणा. 12 > J उव्वेययरी, J पावुप्पत्ति. 13 > J
अंधो इवा बहिरो विवा पंगू इवा, P बहिरो इव पंगू विय पसुत्तो, P इव for विय thrice, P उम्मत्तओ. 14 > P भूयगहिहो,
P माइह्लओ । किंचि. 16 > P जीयं च तुलगंमी सरवर. 17 > J भयवं, P इमे for इमेण 18 > JP वामो, P कसिणच्छवी.
19 > P जिट्ठो for दिट्ठो, P पेच्छंतो, P कुंचियगीओ. 20 > P मायामएण, P निसामेद. 21 > J भोजसयागीय, P गोज-
इणो. 22 > J गामइमि, P गामाइमि चिय रंठिंति, J om. रेहंति, P देवउलेहि देवलइं चिय रेहंति तलसिठिइहं तलाएहिं तलाइं
चिय रेहंति. 23 > P संटइं वि, P अरविंदेहिं. 24 > P मय for मुइय, J जुवाणएहिं. 26 > J णभरीए, P नयनीए for णयरी,
J गोपुरा. 27 > P जेइं चिय for जहिं च, P मंडणइं मयणवियारियं च सिक्खंति कुलं. 28 > P भत्तिउव्व सिक्खं, P जुवाणकलां,
P माणिक for चाणक, P om. अवि य. 29 > P नरवइ for सुरवइ, J णामा. 30 > P om. य, P दिसामाए. 31 > P वइस्सजाइं,
P om. य, P अण्णय, J om. सुवण, P समिद्धे जिणे सो. 32 > P कुसुमसरिम, J om. मसरिम, P पुरिसयणो, J चैय एको,
P गगारिरे, P व for वि, P om. जणमि, P सो चैय. 33 > J सरयसमयंसण, P सो चैय.

- 1 सरस-सरक-संलाविराणं पि सो चेष एको जरड-कुंरंग-सिंग-भर-अंगुर-जंपिरो । तण-मेत्तुवयारि-दिण्ण-जीवियाणं पि मज्जे 1
सो चेष कयग्घो । सम्बहा सज्जण-सय-संकुले वि तम्मि गामे सो चेष एको दुज्जणो त्ति । तस्स य तारिसस्स असंबद्ध-
2 पलाविणो वंकयस्स णिहयस्स णिहक्खिण्णस्स णिक्खिवस्स णिरणुकंपस्स बहु-जण-पुणरुत्त-विप्पलुद्ध-सज्जणस्स समाण-गाम- 3
जुवाणएहिं बहुसो उवलक्खिय-माया-सीलस्स गंगाइच्चो सि अवमण्णिज्जण मायाइच्चो कयं णामं । तथो सम्बत्थ पइट्ठियं
सहासं च बहुसो जणो उल्लवइ मायाइच्चो मायाइच्चो त्ति । सो उण णरवर, इमो जो मए तुज्ज साहिओ त्ति । अह तम्मि चेष
6 गामे एको वाणियओ पुव्व-परियल्लिय-विहवो थाणू णाम । तस्स तेण सह मायाइच्चेण कह वि सिणेहो संलग्गो । सो य 6
सरलो मिउ-मइवो द्वात्त कयणू मुद्धो अवंचओ कुलुगओ दीण-वच्छलो त्ति । तहा विवरीय-सील-वयणाणं पि अवरोप्परं
देव-वसेण बहु-सज्जण-सय-पडिसेहिज्जमाणेणावि अत्तणो चित्त-परिसुद्धयाए कया मेत्ती । अवि य ।
7 सुयणो ण-याणइ चिय खलाण हिययाईं होंति विसमाईं । अत्ताण-सुद्ध-हिययत्तणेण हिययं समप्पेह ॥ 9
जो खल-तरुर-सिहरम्मि सुवइ सम्भाव-ण्णिभरो सुयणो । सो पडिओ चिय बुज्जइ अहव पडंते ण संदेहो ॥

§ ११३) एवं च ताणं सज्जण-दुज्जणाणं सम्भाव-कवडेण णिरंतरा पीई वड्डिउं पयत्ता । अण्णम्मि दियहे वीसत्था-

- 12 लाव-जंपिराणं भणियं थाणुणा । 'वयस्स, 12
धम्मत्थो कामो वि य पुरिसत्था तिण्णि णिमिया लोए । ताणं जस्स ण एकं पि तस्स जीयं अजीय-समं ॥
अम्हाण ताव धम्मो णत्थि चिय द्वाण-सील-रहियाणं । कामो वि अत्थ-रहिओ अत्थो वि ण दीसए अम्हं ॥
15 ता मित्त फुडं भणिमो तुल्लग-रुगं पि जीवियं काउं । तह वि करेमो अत्थं होहिइ अत्थाओ सेसं पि ॥' 15
भणियं च मायाइच्चेण । 'जइ एवं मित्त, ता पयट्ठ, वाणारसिं वच्चामो । तत्थ जूर्यं खेल्लिमो, खत्तं खणिमो, कण्णुं तोडिमो,
पंथं मूसिमो, गंठिं छिण्णिमो, कूडं रइमो, जणं वंचिमो, सम्बहा तहा तहा कुणिमो जहा जहा अत्थ-संपत्ती होहिइ' त्ति ।
18 एवं च णिसामिज्जण महा-गहं-दंत-जुवल-जमलाहएण विय तरुरेणं पकंपियाईं कर-पल्लवाहं थाणुणा । भणियं च णेण । 18
'तुज्ज ण जुज्जइ एयं हियएणं मित्त ताव चिंतेउं । अच्छउ ता णीसंकं मह पुरओ एरिसं अण्णिउं ॥'
एवं च भणिएण चिंतियं मायाइच्चेण 'अरे अजोगो एसो, ण लक्खिओ मए इमस्स सम्भावो, ता एवं भणिस्सं' । इस्सि-
21 उण भणियं च णेणं 'णहि णहि परिहासो मए कओ, मा एत्थ पत्तियायसु त्ति । अत्थोवायं जं पुण तुमं भणिहस्सि तं 21
करेहामो' त्ति । भणियं च थाणुणा ।

'परिहासेण वि एवं मा मित्त तुमं कयाइ जंपेजा । होइ मंहतो दोसो रिसीहिं एयं पुरा भणियं ॥

- 24 अत्थस्स पुण उवाया विसि-गमणं होइ मित्त-करणं च । णरवर-सेवा कुत्तलत्तणं च माणप्पमाणेसुं ॥ 24
धाउव्वाओ मंतं च देवयाराहणं च कम्मिं च । सायर-तरणं तह रोहणम्मि खणणं वणिज्जं च ॥
णाणाविहं च कम्मं विजा-स्सिप्पाईं णेय-स्वाहं । अत्थस्स साहयाइं अण्णियाइं च एयाइं ॥

- 27 § ११४) ता वच्चिमो दक्खिणावहं । तत्थ गया जं जं देस-काल-वेस-जुत्ते तं तं करिहामो' त्ति समं मंतिज्जण अण्णम्मि 27
दियहे कय-मंगल्लोवयारा भाउच्छिज्जण सयण-णिद्ध-व्रगं गहिय-पच्छयणा णिग्गया दुषे वि । तत्थ अणेय-गिरि-सरिया-सय-
संकुलाओ अड्डेओ उल्लेधियुण कह कह वि पत्ता पइट्ठाणं णाम णयरं । तहिं च णयरे अणेय-धण-धण्ण-रयण-संकुले महा-
28 सग-णयर-सरिसे णाणा-वाणिजाईं कयाइं, पेसणाइं च करेमाणेहिं कह कह वि एक्केकमेहिं विठत्ताईं पंच पंच सुवण्ण-सह- 30
स्साइं । भणियं च णेहिं परोप्परं । 'अहो, विठत्तं अम्हेहिं जं इच्छामो अत्थं । एयं च चोराइ-उवह्वेहिं ण य णेउं तीरइ
सएस-हुत्तं । ता तं इमेण अत्थेण सुवण्ण-सहस्स-मोलाइं रयणाइं पंच पंच गेण्हिमो । ताइं सदेसं गयाणं सम-मोलाइं
23 अहिय-मोलाइं वा वच्चिहिं' त्ति भणिज्जण गहियं एक्केकं सुवण्ण-सहस्स-मोहं । एवं च एयाइं एक्केकस्स पंच पंच रयणाइं । 33

1) P सरलसरस, J सो चेष, P om. एको, P om. भर, P मेत्तुवयरी, P om. मज्जे सो चेष etc.....to तस्स य तारिसस्स. 3) J वंकय तिहं, J णिहक्खिणस्स, P निरणुकंपस्स, P विप्पलुद्ध. 5) P बहुजणो, J उल्लवइ व माया, P सोऊम for सोउण, P चेष. 6) P संपगं. 7) P कुलमाओ, J सीलरयणाणं, P अवरोप्परं देववसेण. 8) P अत्तणो चिय पड्डिसुद्ध-याए. 10) P सुयइ. 11) P कवड for कवडेण, J पीती, P पड्डिओ for वड्डिउं, J विसत्थालाव P वीमत्थालावकवडनिरंतरा पीई जंपि. 13) P पुरिसत्थो. 14) P तम्हा न for अम्हाण. 15) J जइ जिअं for जीवियं, P जीविउं for जीवियं, P अत्थो होही. 16) P om. च, P खेल्लिमो, P कण्णं. 17) P मूसिमो, P छिदिमो for छिण्णिमो, P om. one तहा, J होहिति त्ति. 18) J तरुरेण, P तरुरेणं एयं पियाईं करयल्लवल्लरं. 19) P हियएण वि ताव मित्त चिंतेउं. 20) P भणिज्जण, J लक्खित्तो. 21) J om. त्ति, J अत्थोवायं जं ण पुण तुमं, P एत्थोवायं पुण जं तुमं भणसि तं. 23) P एयं सा मित्त. 24) P उण. 25) P मंतं देव, J केत्ति चि for च कैसिच. 26) P सप्पाइ णेग, P साहणाइं, J om. अण्णियाइं च. 27) P गयाणं जंमं कालदेसवेसजुत्तं तं करीहामो त्ति समं. 28) P सयल्लिद्धवगो गच्छिहिय, J पच्छेया for पच्छयणा, P सिरि for गिरि. 29) P विलंघियुण, P नयणं for णयरं, J om. णयरे, P om. अणेय, J om. धण. 30) J वणिजाइं, P वरणिजाइं कम्मं च करेमाणेहिं पेसणेण कह. 31) P om. अहो, P जहिच्छाए for जं इच्छामो, P एवं च चोराउव्वेहिं, P तीरइ विसयाइत्तं. 32) J ततो for ता तं, P om. one पंच, P सपसं गयाइं, P सरिस for सम, J सममोलाइं च वच्चिहंति. 33) P वच्चिहिति J आईं for एयाइं, P पंचपं for second पंच.

- 1 ताई च दोहि मि जगेहिं दस वि रयणाईं एकम्मि चय मल-धूली-धूसरे कप्पडे सुबद्धाईं । कयं च गेहिं वेस-परियत्तं । 1
 कयाईं मुंडावियाईं सीसाईं । गहियाओ छत्तियाओ । लंथियं डंडयगगे लाबुयं । धाउ-रत्तयाईं कप्पडाईं । विलग्गाविया सिक्कए
 3 करंका । सव्वहा विरहओ दूर-तित्थयत्तिय-वेसो । ते य एवं परियत्तिय-वेसा अलक्खिया चोरेहिं भिक्खं भममाणा पयट्ठा । 3
 कहिंचि मोल्लेणं कहिंचि सत्तागारेसु कहिंचि उद्ध-रत्थासु भुंजमाणा पत्ता एकम्मि संगिबेसे । तत्थ भणियं थाणुणा 'भो भो
 मित्त, ण पारेमो परिसंता भिक्खं भमिज्जणं, ता अज्ज मंडए कारावेउं आहारेमो' । भणियं च मायाइब्बेण 'जइ एवं, ता
 6 पविससु तुमं पट्ठणं । अहं समुज्जुओ ण-याणिमो कय-विक्रयं, तुमं पुण जाणसि । तुरियं च तए आगतं वं ।' भणियं च 6
 थाणुणा 'एवं होउ, किं पुण रयण-पोत्तइं कहं कीरउ' ति । भणियं च मायाइब्बेण 'को जाणह पर-पट्ठणण थिईं । ता
 मा अवाओ को वि होहि ति तुह पघिट्ठस्स मह चेव समीवे छिट्ठउ रयण-कप्पडं' ति । तेण वि एवं भणमाणेण समप्पियं तं
 9 रयण-कप्पडं । समप्पिज्जण पघिट्ठो पट्ठणं । चित्तियं च मायाइब्बेण । 'अहो, इमाईं दस रयणाईं । ता एत्थ महं पंच । जइ पुण 9
 एयं कहिंचि वंचेज्ज, ता दस वि महं चेव हवेज्ज' ति चित्तियं तस्स बुद्धी समुप्पण्णा । 'दे वेत्तूण पखायामि । अहवा ण महंती
 वेला गयस्स, संपयं पावइ ति । ता जहा ण-याणइ तहा पलाइस्सामि' ति चित्तियं गहियाओ णेण रच्छा-धूली-धूसरो अवरो
 12 तारिसो चय कप्पडो । णिबद्धाईं ताईं रयणाईं । तम्मि य चिरंतणे रयण-कप्पडे णिबद्धाईं तप्पमाणाईं वट्ठाईं दस 12
 पाहाणाईं । तं च तारिसं कूड-कवडं संघडंतस्स सहसा आगओ सो थाणू । तस्स य हल्लफलेण पाव-मणेण ण णाओ कत्थ
 परमत्थ-रयण-कप्पडो, कत्थ वा अलिय-रयण-कप्पडो ति । तओ णेण भणियं 'वयंस, कीस एवं समाउलो ममं दट्ठणं' ति ।
 15 भणियं मायाइब्बेण । 'वयंस, एस एरिसो अत्थो णाम भओ चय पक्खवो, जेण तुमं पेच्छिज्जण सहसा एरिसा बुद्धी जाया 15
 'एस चोरो' ति । ता इमिणा भएणं अहं सुसंभंतो' । भणियं च थाणुणा 'धीरो होहि' ति । तेण भणियं 'वयंस, गेणह
 एयं रयण-कप्पडं, अहं बीहिमो । ण कज्ज मम इमिणा भएण' ति भणमाणेण अलिय-रयण-कप्पडो ति काउण सव्व-रयण-
 18 कप्पडो वंचण-बुद्धीए एस तस्स समप्पिओ । तेण वि अविपपेण चय चित्तेण गहियाओ । अवि य, 18
 वंचेमि ति सयणहं वग्धी अल्लियइ मय-सिल्लिबस्स । अणुधाइ मय-सिल्लिबो मुद्धो धणयं विमग्गंतो ॥

§ ११५) तओ तं च समुज्जुय-हिययं पाव-हियएण वंचिज्जण भणियमणेण । 'वयंस, वच्चामि अहं किंचि अब्बिलं

- 21 मग्गिज्जण आगच्छामि' ति भणिज्जण जं गओ तं गओ, ण गियत्तइ । इमेण य जोयणाईं बारम-मेत्ताईं दियहं राईं च गंतूण 21
 गिरुवियं णेण रयण-कप्पडं जाव पेच्छइ ते जे पाहाणा तत्थ बद्धा किर वंचणत्थं तम्मि कप्पडे सो चय इमो अलिय-रयण-
 कप्पडो । तं च दट्ठण इमो वंचिओ इव लुंचिओ इव पहओ इव तत्थो इव मत्तो इव सुत्तो इव मओ इव तहाविहं अणा-
 24 यक्खणीयं महंतं मोहमुवगओ । स्वग-मेत्तं च अच्छिज्जण समाप्त्यो । चित्तियं च णेण । 'अहो, एरिसो अहं मंदभागो जेण 24
 मए चित्तियं किर एयं वंचिमो जाव अहमेव वंचिओ' । अवि य,
 जो जस्स कुणइ पात्रं हियएण वि कह वि मूढ-मणो । सो तेणं चिय हम्मइ परचुप्पिफडिण व सरेण ॥
 27 चित्तियं च णेण पाव-हियएणं । 'दे पुणो वि तं वंचेमि समुज्जुय-हिययं । तहा करेमि जहा पुणो मग्गेण विलरगइ' ति 27
 चित्तियंतो पयट्ठो तस्स मग्गालग्गो । इयरो वि थाणू कुलउत्तओ तत्थेव य पडिवाल्यंतो खणं मुहुत्तं अद्धपहरं पहरं दियहं
 वि जाव ण पत्तो ताव चित्तियं पयत्तो ।
 30 'अब्बो सो मह मित्तो कत्थ गओ णवर होज जीय-समो । किं जियइ मओ किं वा किं वा देव्वेण अवहरिओ ॥' 30
 तं च चित्तियं अणोसित्तं पयत्तो । कत्थ ।

रच्छा-चउक्क-निय-चउरेसु देवउल तह तलाएसु । सुण्ण-घरेसु पवासु य आराम-विहार-भोट्टेसु ॥

- 33 जया एवं पि गवेममाणेण ण संपत्तो तथा विलविउं पयत्तो । 33

1 > P ताईं दोहिं वि जगेहिं, P एकम्मि, J धूली, P बद्धाईं for सुबद्धाईं, J om. कयं, J om. वेसपरियत्तं. 2 > P om, कयाईं, P मुंडावियं सिरे, P छत्तीओ, P दंडयगे, J धाउरत्तया P धाउरत्ताईं, J कपाडाईं च. 3 > P विरिओ, P ते एवं, P चोरिहिं, J om. पयट्ठा. 4 > J om. कहिं चि उद्धरत्थानु, J पयत्ता for पत्ता. 5 > P मंडये काराविउं. 6 > P पविम तुमं, J om. तुमं. J अहमुज्जुओ P समुज्जओ. 7 > J पुण इमं रयण, P रयणोत्तकप्पडं कह, P जाणउ परपट्ठणायं का वि ट्ठीति । 8 > P को वि तुह होइ तुह. 9 > P adds य before पघिट्ठो, P जउ उण अहं कहिंचि. 10 > J वंचेज्जा, P दस वि चेव मह हवेज्ज ति चित्तियंतस्स. 11 > P om. गयस्स, J ता for तहा, P पखाइस्सं ति. 12 > P चेव कप्पडो । बद्धाईं, J तप्पमाणाईं P दसपाहणाईं. 13 > P कवडं घडंतरस्स, J थाणुं, P हल्लफलेण, J पावमाणेण, P om. ण. 14 > J परमत्थकप्पडो, J व for वा. 15 > P च before मायां, P om. एम. 16 > P सुसंभंतो, P होइयि ति, P गेणह for वयंस. 17 > J adds ति before अहं, P बीहिमो. 18 > J om. एस. 19 > J अणुधाइ. 20 > J भणियं भणणेण. 21 > P तं गओ जं गओ, J गंतूण for इमेण य, P दियहराईए गंतूण. 22 > J पेच्छइ, P ते पाहाणा तत्थ किर बद्धा, P कप्पडो. 23 > P om. लुंचिओ इव, P दट्ठो for तत्थो, P मओउ इव, J अणाविकखणीयं. 24 > P महंतं, P चिय for च, P एरिमं मंद. 25 > P चित्तियं एयं किर वंचेमि. 26 > P हियएण, P केण for कह, P मोहमूढ. 27 > J पुणे for पुणो, J वंचेमि ति समुज्जाय, P समुज्जय, P adds वि after पुणो. 28 > P पट्ठो, J थाणुं P थाण, J om. य, P पडिवाल्यंतो, P अद्धपहरं. 29 > P णो for ण. 30 > J सो कोइ मह, P जीयइ मओ वा. 32 > J inter. तिय and चउक्क, P चउक्कु for तलाएसु. 33 > J om. वि.

- 1 'हा मित्त मित्त-बच्छल छल-वज्जिय जिय-जियाहि वास-सयं । कथ गओ कथ गओ पडिवयणं देसु तुरियं ॥ 1
अध्वो केणइ दिट्ठो सरल-सहाओ गुणाण भावासो । मज्झ वयंसो सो सो साहसु वा केण वा दिट्ठो ॥'
- 3 एवं च विलवमाणस्स सा राई दियहो य अहकंते । राईए पुण कहिं पि देवउले पडिऊण पसुत्तो । राईए पच्छिम-जामे केण 3
वि गुज्जर-पहियएण इमं धवल-दुवहयं गीयं । अवि य ।
जो णवि विहुरे विभज्जणउ धवलउ कइइ भारु । सो गोढंगण-मंडणउ सेसउ व्व जं सारु ॥
- 6 इमं च गिज्जमाणं सोऊण संभरिया इमा गाहुल्लिया थाणुणा । 6
पिय-विरहे अप्पय-दंसगे य अथक्खए विवसीसु । जे ण विसण्णा ते च्चिय पुरिसा इयरा पुणो महिला ॥
ता एथ विसाओ ण कायणो । सव्वहा जइ कहिंवि सो जीवइ तो अवस्सं गेहं आगमिस्सइ । अह ण जीवइ, तो तस्स य
- 9 माणुसाणं समुप्पेस्सं रयणाणि ति चिंतिऊण पयट्ठो अत्तणो णयराभिमुहो, वच्चमाणो कमेण संपत्तो णम्मया-तीरं । ताव सो 9
वि मायाइच्चो विलक्खो दीण-विमणो भट्ट-दह-लच्छीओ संपत्तो पिट्ठो दिट्ठो अणेण । दट्ठूण य पसारिओभय-बाहुणा गहिओ
कंटे रोइउं पयत्तो ।
- 12 हा मित्त सरल सज्जण गुण-भूसण मज्झ जीय वर-दइय । कथ गओ मं मोत्तुं साहसु ते किं व अणुभूयं ॥ 12
§ ११६) इमो वि कवड-कय-रोवणो किं पि किं पि अलियक्खरालावं रोइऊण गाढयं च अवगूहिऊण उवविट्ठो
पुरओ, पुच्छिओ थाणुणा । 'भणसु ता मित्त, कथ तुमं गओ, कथ वा संठिओ, किं वा कयं, कइं व मज्झ विउत्तो, जेण
- 15 मए तहा अण्णेमिज्जमाणो वि ण उवलद्धो' ति । भणियं च णड-पडिसीसय-जडा-कडप्प-तरंग-भंगुर-चल-सहावेण इमिणा 15
मायाइच्चेणं । 'वर-वयंस, णिसुणेसु जं मए तुह विओए दुक्खं पावियं । तइया गओ तुह सयासाओ अहं घरं घरेण भम-
माणो पविट्ठो एक्कमि महंते पासाए । तथ मए ण लद्धं किंचि । तओ अच्छिउं कं पि वेलं णिगंतुं पयत्तो जाव पिट्ठो
- 18 पहाइएहिं रोस-जलण-जालावली-मुज्झंतेहि धूमंधयार-कसिणेहिं भीसणायारेहिं जम-दूवेहिं व खुड्डया-पहार-कील-चवेडा- 18
घाय-दंडप्पहारेहिं हम्ममाणो 'किं किमेयं' ति 'किं वा मए कयं' ति भणमाणो, 'हा मित्त, हा मित्त, कथ तुमं गओ, मह
इमा अवत्य' ति विलवमाणो तओ 'चोरो' ति भणमाणेहिं णीओ एक्कस्स तमि घरं घर-सामिणो सगासं । तथ तेण भणियं
- 21 'सुंदरो एस गहिओ, सो चेय इमो चोरो, जेण अग्हाणं कौंडलं अवहरियं । ता सव्वहा इममि उवघरए णिरुंभिऊण 21
धारेह जाव रायउले णिवेएमि । तओ अहं पि चिंतिउं पयत्तो । 'अहो,
पेच्छह विहि-परिणामं अण्णह परिचिंतियं मए कज्जं । अण्णह विहिणा रइयं भुयंग-गइ-वंक-हियएण ॥
- 24 तओ वयंस, 24
ण वि तह डज्जइ हिययं चोर-कलंकंज जीय-संदेहे । जइ तुज्ज विरह-जालोलि-दीवियं जलइ णिदुमं ॥'
तओ 'अहो अकयावराहो अकयावराहो' ति विलवमाणो णिच्छुओ एक्कमि घर-कोट्टए, ण य केणइ अण्णेण उवलक्खिओ
- 27 तथ वयंस, तुह सरीरे मंगुलं चिंतेमि जइ अण्णहा भणिमो, एसियं परिचिंतेमो । 27
जइ होइ णाम मरणं ता कीस जमो इमं विलवेइ । पिय-मित्त-विप्पउत्तस्स मज्झ मरणं पि रमणिज्जं ॥
§ ११७) एवं च चिंतयंतस्स गओ सो दियहो । संपत्ता राई । सा वि तुह समागम-विंता-सुमिण-परंपरा-सुह-सुत्थि-
- 30 यस्स झत्ति बोलीणा । संपत्तो अवरो दियहो । तथ मज्झणइ-समए संपत्ता मम भत्तं घेत्तुं एक्का वेस-विलया । तीय य 30
मम पेच्छिऊण सुंदर-रूवं अणुराओ दया य जाया । सा य मए पुच्छिया 'सुंदरि, एक्कं पुच्छिमो, जइ साहसि फुडं' । तीए
भणियं 'दे सामसुंदर, पुच्छ वीसत्यं, साहिमो' । मए भणियं 'कीस अहं अणवराही गहिओ' ति । तीए संलत्तं 'सुहय,
- 33 इमाए णवमीए अहं च ओरुद्धा देवयाराहणं काहिइ । तीए तुमं बली कीरिहिसि, चोरं-कारेण य गहिओ मिसं दाऊण' । 33

1 > P om. मित्त, J om. छल, P om जिय, P पडिवयणं for the 2nd कथ गओ. 2 > P केण वि, P सहाओ, J inter. सो सो and साहसु. 3 > J राइ, P उण for पुण, P राईए, P inter. केण & जामे. 4 > J -पहिएण, P -दुवहयं. 5 > P सज्जणओ (for मज्जं) धवलओ कइइ भारो, P मंडणओ सेसओ, P तद्धिय for व्वं जं (?). 7 > P इयरे for इयरा. 8 > P पि for चि, J आगच्छिरिस्सइ, J तो तओ तस्स य माणुरसाणं, P om. य. 9 > P अहमणो for अत्तणो. 10 > P पट्ठीओ for पिट्ठो, P पसारिणोभयबाहुणा. 11 > P राइउं. 12 > P मज्झ हिययदइया, J अणुभूयं. 13 > P -रोइणो, J रोत्तण गाढं अव. 14 > P आ for ता, J कथ व, P कइ व. 15 > P तहा वि, P लद्धो for उवलद्धो, P भणियं for भणियं, P पडिसीसया. 16 > P om. णिसुणेसु, P तुहं. 17 > P किं पि कालं निगंतुं, J जा for जाव. 18 > P पहाविपहिं, P मुज्झंत धूमं, J जमदूपहि, P व खुड्डया, P कीलचवेडपायदंडप्पहारेहिं हंसमाणो. 20 > J सयासं. 21 > P एस तए गहिओ, P जेणग्हाणं, P उवघरए निरुंभिऊण धारेहि. 23 > P विहिपरिणामो. 25 > P संदेहो, P अह for जइ. 26 > J विलवमाणो for अहो, P om. 2nd अकयावराहो, P घरं for घर, P अण्णेण उ उव. 27 > P चिंतेमो । लइ अज्जहा भणिओ, P परं for परि. 28 > P होज्ज, P पि वमणिज्जं. 29 > P सो for सा, P सुत्थियस्स. 30 > P बोलीणो, P मज्झणहमए. 31 > P om. सुंदरं, P om. सुंदरि, P पुच्छामो, P adds मह before फुडं. 32 > P adds अ before कीस, P om. अहं, J अणवराही. 33 > P उभट्टा for ओरुद्धा, P काहिहीति for काहिइ, P चोर-

1 तत्रो सविसेस-जाय-जीविय-मपणं मए पुच्छिया 'सुंदरि, ता को उण मम जीवणोवाओ' ति । तीए भणियं । 'णत्थि तुह 1
जीवणोवाओ । सामिणो दोज्जं ण करेमो । तद्वा वि तुम्हं मज्जेण मह महंतो सिगेहो । ता मह वयणं णिसुणेसु । अत्थि 2
3 एको उवाओ, जह तं करेसि' । मए भणियं 'साह, केरिसो' । तीए संलत्तं 'हिज्जो णवमीए सच्चो इमो परियणो सह 3
सामिणा णहाइत्तं वचीहि त्ति । तत्रो तम्मि समए एकद्वय-मेत्ते रक्खवाले जइ कवाडे विहडेत्तं पलायसि, तत्रो चुक्को, ण अण्णह' 4
त्ति भणंती णिमगया सा । मए चित्तिंयं । 'णीहरंतो जइ ण दिट्ठो, तो चुक्को । अह दिट्ठो, तो पुवं मरणं' ति चित्तिज्जण तम्मि 5
6 वियहे णिक्खंतो । तत्रो ण केणइ दिट्ठो । तत्रो मित्त, तम्हा पलायमाणो तुमं अण्णेसिद्धं पयत्तो । ताव एकेण देसिएण 6
साहियं जहा एरिसो एरिसो य देसिओ एको गओ इमिणा मरणेणं । एयं सोज्जण तुह मग्गालगो समागओ जाव तुमं एत्थ 7
दिट्ठो णम्मया-कूले । ता मित्त, एयं मए अणुहूयं दुक्खं, संपयं सुहं संबुत्तं ति । अवि य ।

9 मित्तेहिं जाव ण सुयं सुहं व दुक्खं व जीव-लोचम्मि । सुयणाण हिय-लगं अच्छइ ता तिक्ख-सल्लं व ॥' 9
एयं च णिसामिज्जण बाह-जल-पप्पुयच्छेण भणियं थाणुणा । 'अहो

अज्जं चिय जाओ हं अज्जं रयणाहं णवर पत्ताहं । जं सव्व-सोक्ख-मूलं जीवंतो अज्ज संपत्तो ॥'

12 § ११८) एवं च भणिज्जण कथं मुह-धोवणं । कयाहार-किरिया य उत्तिण्णा जल-तरल-तरंग-रंगंत-मत्त-मायंग-मज्ज- 12
माण-मयरहाहोय-दाण-जल-णीसंद-बिंदु-परिपपयंत-चित्तल-जलं महाणहं णम्मयं ति । थोवंतरं च जाव वचंति ताव अण्ये-
वेच्छि-लया-गुविल-गुम्म-वूसंचाराए महाडवीए पणट्ठो मग्गो भव-सय-सहस्स-गुविल-संचारे संसार-कंतारे अभवियाणं पिब 13
15 णिम्मलो जिणमग्गो । तत्रो ते पणट्ठ-मग्गा मूढ-दिसिवहा भय-वेविर-गत्ता उम्मत्तगा विय अणिरुविय-गम्माग्मा तं 15
महाडविं पविसिद्धं समाडत्ता । जा पुण कइसिय । अवि य ।

बहु-विह-कुसुमिय-तरुवर-कुसुमासव-लुद्ध-भमिर-भमरउला । भमिर-भमिरोलि-गुंजा-महुर-सरुग्गीय-मिलिय-हरिणउला ॥

18 हरिणउल-णिच्चल-ट्टिय-दंसण-धावंत-दरिय-वण-वग्घा । वण-वग्घ-दंसणुपियथ-हत्थि-णासं-वण-महिसा ॥ 18

वण-महिस-वेय-भजंत-सिंग-सण्हावडंत-तरु-णिवहा । तरु-णिवह-तुंग-सहुच्छलंत-पडिसुत्त-बुद्ध-वण-सीहा ॥

वण-सीह-मुक्क-दीहर-परिकुविओरलि-हित्थ-हित्थउला । हित्थउल-संभमुम्मुक्क-भीम-सुंकार-कुविय-वण-सरहा ॥

21 वण-सरह-संभम-भमंत-सेस-सय-सउण-सेण-वीहच्छा । सउण-सय-सावयाराव-भीम-सुववंत-गरुय-पडिसहा ॥ 21

अवि य । कर्हिचि करयरंत-वायसा कुलकुलंत-सउणया रणरणंत-रणया चिलिचिलेंत-वाणरा रुणरुणंत-महुरया घुरुघुरंत-
वग्घया समसमेंत-पवणया भमभमेंत-जळणया कडकडंत-साहिया चिरिचिरंत-वीरिया दिट्ठा रण्णुहेसया । अवि य ।

24 बहु-बुत्तंत-पयसिय-भव-सय-संबाह-भीम-दुत्तारं । संसाराडइ-सरिसं भमंति अडइ अभविय व्व ॥ 24

§ ११९) तत्रो एवं च परिभमंताण तम्मि समए को कालो वट्ठिं पयत्तो । अवि य ।

वित्थिण्ण-भुवण-कोट्टय-मज्ज-गयं तविय-पच्चयंगारं । उय धम्मइ पवणेणं रवि-विंबं लोह-पिंडं व ॥

27 सयल-ज्जण-कम्म-सक्खी भुवणभंतर-पयत्त-वावारो । गिम्हम्मि रयी जीए कुविय-कथंतो व्व तावेइ ॥ 27

एयारिसे य गिम्ह-समए वट्टमाणे का उण वेला वट्ठिं पयत्ता ।

अवरोवहि-वेला-वारि-णियर-तणु-सिसिर-सीयरासत्ता । णहयल-गिरिवर-सिहरं रवि-रह-तुरया वलमंति ॥

30 सिसिर-णरिदम्मि गए दूसह-घण-सिसिर-बंधण-विमुक्को । तावेइ अवर-णिकरे संपइ सरो णरवइ व्व ॥ 30

1 > J सुंदरी, P ता का मग जीवणोवाओ, P तुमं for तुह. 2 > J om. ण, P वि ममं तुज्ज मज्जेण महंतो, P महं. 3 > P होज्जा णवमी सच्चो. 4 > J सामिणो, J वचीहि ति P वचिहि ति, P तम्मि समए एकद्वयमेत्ते, P जइ वाडे विहडाविउं. 5 > P भणिउं for भणंती, J जइ णिक्खंतो ता चुक्को, P om. ति. 6 > P ता for ताव. 7 > J सोउं for एयं सोज्जण, P तुमं न दिट्ठो एत्थ नम्मया. 8 > P एवं for एयं. 10 > J -पप्पुयच्छेण, P adds व before थाणुणा. 12 > P एयं for एवं, P कयमुहधावण-कयाहारा तुरिया, J जलयतरंगं. 13 > P मयरहावाय, J चित्तजलला महाणहणम्मयं, P मलं for जलं, P om. च, P तावय, J ताव अणय. 14 > J गुहिल, P दुस्संचागा महाडइए, J पणट्ठमग्गा, P om. सय, J गुहिल, P संसारे. 15 > P तेण for ते, P मूढदिसि विवहाया भय, P उम्मत्तगो विय निरुविय, P om. तं. 16 > P महाडइ, P पुण केसिया. 17 > P कुसुमयतरुवर, J om. भमिर, P भमिरोल, P सरुग्गीय. 18 > P धोवंत, P दंसणुपियथ, J मत्त (on the margin) for हत्थि. 19 > P -भेयभजंतसंग, J णिवट्ट for णिवह, P भत्तु for तुंग, P वणसीह. 20 > J संभमुम्मुक्क P संभामुक्क, J सहारा for सरहा. 21 > J सेस for सेससय, J वीहच्छा for वीहच्छा. 22 > P करयरंत, J adds कर्हिचि before कुलकुलंत, P रुणरुणंतभमरया, J घुरुघुरंत. 23 > P कडकडंत, P रण्णुहेसिया, J om. अवि य. 24 > P बहु for बहु. 26 > P विच्छिन्नवण, J पिण्डव्व. 27 > J सयलजल P सयजण, P जीवे for जीए. 28 > P om. य, P गिम्हम्मण का उण. 29 > P अवरोवहि. 30 > P तावेइ य घरणिघरो संपइ, P नरिदो for णरवइ.

- 1 बालो दंसण-सुहवो परिवर्तुतो तवेह् कह् सूरो । सव्वो चिय् णुण वणे जोव्वण-समयम्मि बुप्पेच्छो ॥ 1
- तन्नो एयम्मि एरिसे समए वट्टमाणे ते दुबे वि जणा वूसह-रवि-किरणपरदा अहो-गिम्ह-तत्त-वालुया-वज्जमाणा वूसह-तणहा- 2
- 3 भर-सूसमाण-तालुव-तला दीहदाण-खेय-परितत्ता छुहा-भर-क्खाम-णिण्णोयरा मूढ-विसिवहा पणट्-पंथा पुलिंद-भय-वेधिरा 3
- सिंघ-वग्घ-संभेता मयतण्हाज्ज-तरंग-वेळविज्जमाणा जं किंचि णिण्णयं दट्टण जलं ति धावमाणा सव्वहा अण्य-दुक्ख-सय- 4
- संकुले एविट्ठा तम्मि कंतारे इमं पि ण-याणंति कत्थ वच्चिमो, कत्थ वा आगया, क्हिं वा वट्टामो त्ति । एयम्मि अवसरं 5
- 6 बहु-दुक्ख-कायर-हियएणं भणियं थाणुणा । मित्त-गरुय-दुक्ख-भर-पेळिज्जमाण-हियवओ भणित्तं पयत्तो । 'ओसरह् य मे 6
- छुहा-तणु-उदरस्स वड-बट्ठो वि णियंसणा-बंधो । ता इमं रयण-कण्णं गेणह्, मम क्हिंचि णिवडिहह् त्ति । ता तुमं चेष 7
- गेणहसु, जेण णिच्चुय-हियओ गमिस्सं' ति । चित्तियं च मायाह्चणं । 'अहो, जं मए करियव्वं तं अण्णया चेष इमिणा कयं, 8
- 9 समप्पियाहं मज्झ रयाणहं । ता दे सुंदरं कयं । संपयं इमस्स उवायं चित्तिमो' त्ति णिरुक्खियाहं पासाहं जाव दिट्ठो अण्य- 9
- वरिस-सय-सहस्स-परूढ-साहा-पसाह-वित्थिण्णो महंतो वड-पायओ । वलिया य तं चेष दिसं । जलं ति काऊण संपत्ता कह्- 10
- कह् वि तत्थ, जाव पेच्छंति । अवि य, 11
- 12 तण-णिवहोच्छइय-मुहं ईसिं लक्खिज्जमाण-परिवेदं । विसम-तडुट्टिय-रुक्खं गहिरं पेक्खंति जर-कूवं ॥ 12
- बंधुं पिव चिर-णट्ठं रज्जं पिव पावियं गुण-समिद्धं । अमय-रसं पिव लद्धं दट्ठं मण्णंति जर-कूवं ॥ 13
- पलोइयं च गेहिं सव्वत्तो जाव ण क्हिंचि पेच्छंति रज्जुं अण्णं वा भंडयं जेण जलं समाहरंति कूवाओ । तन्नो चित्तियं 14
- 15 इमिणा दुट्ठ-बुद्धिणा मायाह्चणं । 'अहो सुंदरो एस् अवसरो । जइ एयम्मि अवसरं एयं ण णिवएमि, ता को उण 15
- एरिसो होहिह् अवसरो त्ति । ता संपयं चेष इमं विवाडेमि एत्थ कूवे, जेण महं चेष होति दस वि इमाहं रयाणहं' । 16
- चित्तियंतेण भणियो थाणु इमिणा मायाह्चणं । 'मित्त, इमं पलोएसु । एत्थ जुण्ण-कूवे क-दूरे जलं ति, जेण तस्स पमाणं 17
- 18 वेल्ली-रुया-रज्जुं कारेमि' त्ति । सो वि तवस्सी उज्जुओ, एवं भणियो समवलोइउं पयत्तो जुण्ण-कूवोवरं । इमिणा वि माया- 18
- ह्चणं पाव-हियएणं माया-मूढ-मणेणं अणवेक्खिज्जण लज्जं, अवमाणिऊण पीहं, लोविऊण दक्खिण्णं, अवहत्थिऊण पेम्मं, 19
- अयाणिऊण कयणुत्तणं, अजोइऊण परलोयं, अवलोइऊण सज्जण-मगं, सव्वहा मायाए रायत्त-हियएणं णिहयं णोल्लिओ 20
- 21 इमिणा सो वराओ । णिवडिओ सो वस त्ति कूवे । पत्तो जलं जाव बहु-रुक्ख-दल-कट्ट-पूरियं किंचि-सेस-जंबालं दुग्गं व 21
- थोय-सत्थिलं पेच्छह् कूवोदरं थाणु । णिवडिओ य तम्मि जंबाले, ण पीडा सरिरस्स जाया । 22
- § १२०) तन्नो समासत्थेणं चित्तियं णेण थाणुणा । अव्वो,
- 24 पठमं चिय दारिहं पर-विसओ रण्ण-मज्झ-परिभमणे । पिय-मित्त-विप्पओगो पुण एयं विरइयं विहिणा ॥ 24
- एयं पुण मम हियए पडिहायह् जहा केण वि णिहयं णोल्लिओ हं एत्थ णिवडिओ । ता केण उण एत्थ अहं णोल्लिओ होज्ज । 25
- अहवा किं एत्थ वियपिण्ण । मायाह्चो चेष एत्थ संणिहिओ, ण य कोइ अण्णो संभावीयह् । ता किं मायाह्चणं इमं 26
- 27 कयं होज्जा महासाहसं । अहवा णहि णहि, दुट्ठ मे चित्तियं पाव-हियएणं । 27
- अवि चलह् मेरु-चूला होज्ज समुहं व वारि-परिहीणं । उगमह् रवी अवि वारुणीए ण य मित्तो एरिसं कुणह् ॥ 28
- ता धिरत्थु मज्झ पाव-हिययस्स, जो तस्स वि सज्जणस्स एयं एरिसं असंभावणीयं चित्तमि । ता केण वि रक्खसेण वा भूएण 29
- 30 वा पिसाएण वा देव्वेण वा एत्थ पक्खित्तो होज्जा । एवं चित्तिऊण ठिओ । पयईं चेष इमा सज्जाणं । अवि य । 30
- मा जाणण जाणह् सज्जाणो त्ति जं खलयणो कुणह् तस्स । णाऊण पुणो मुज्झह् को वा किर एरिसं कुणह् ॥ 31
- अवरद्धं ति विद्याणह् जाणह् काउं पडिपियं सुयणो । एक्कं णवरि ण-याणह् दक्खिण्णं कह् वि लंघेउ ॥ 32
- 33 तन्नो एयं जाणमाणो वि सो मूढो तं चिय सोइउं समाढत्तो । 33

1) P दंसणसुहवो, P परिवर्तुतो. 3) P सूसमाणा, J तालुभवला P तालुवतलो, J खाम for क्लाम, P णिकञ्जोयरा. 4) P सिंह for सिंघ, P om. सय. 5) J inter. तंमि and एविट्ठा, P न याणंति कत्थ वागया क्हिं वा वट्टामो त्ति. 6) P गुरुय, P उत्थुरइय for ओसरह् य. 7) J उअरस्स, P दडबंधो, P गिण्हव for गेणह, P क्हं वि णिवडीहह, P चेष. 8) J णिच्चुयअहिअओ, P om. ति, P वे for जं. 9) P om. दे, P चित्तमि for चित्तिमो. 10) J om. सय, P om. य, P तिसं for दिसं, P om. one कह. 12) P होरथइय, P ईसि for ईसि, J तडुट्टिय P तडक्खिय, P पेच्छंति. 13) P दिट्ठं for णट्ठं, P लद्धं. 14) P पलोवियं, J सव्वं तो P सव्वत्तो, J ण किंचि पेच्छंति ताव रज्जुं वा अण्णं P न पेच्छंति क्हिंचि रज्जु अण्णं. 15) J दुट्ठदुड्ढिणा, P एव for एस्, J एयंमि for एयं. 16) P om. first चेष. 17) P चित्तियंतेण भणियं, J थाणु, J om. इमिणा मायाह्चणं etc. to थोयसत्थिलं पेच्छह् कूवोदरं थाणु ।, P मित्तं. 18) P उज्जओ. 20) P कयणुत्तणं. 21) P सा वराओ. 22) P om. य. 23) P om. णेण. 24) P परिवसओ, P परितवणं, J विप्पओओ P विप्पओओ, P एयं. 25) P हिययस्स पडिहाह् जहा केणावि, J णोल्लिओ, P om. हं एत्थ to अहं णोल्लिओ. 26) J किमेत्थ, J एय (?) for चेष, P ण कोइ उण्णो संभावियह. 27) P होज्ज, P om. one णहि. 28) J om. मित्तो. 29) P मम for मज्झ, P वाए for वा. 30) P विक्खित्तो for पक्खित्तो, P ठिओ, P चेष. 31) J मा जाणमयाणह. 32) P पडिपियं सुयणो, J णवर. 33) P तं चेष य सोइउं.

- 1 हा कह मित्तो होहिह वसणावडिओ अरण्ण-मज्झमि । पिय-मित्त-विप्यहूणो मओ व्व गिय-व्ह-पडमट्टो ॥ 1
- § १२१) एवं च सो सज्जणो जाव चित्तिं पयत्तो, ताव णरणाह, इमो वि मायाइओ किं काउमाडत्तो । चित्तिं च 8
- णेण 'अहो, जं करियव्वं तं कयं । संपयं णीसंको दस वि इमाइं रयणाइं अत्तणो गेण्हिमो, फलं च भुंजिमो' । चित्तयत्तस्स 3
- 'हण हण हण' ति 'गेण्हह गेण्हह' ति समुद्धाइओ महंतो कलयलो । पुरओ भय-वेबिर-हियण्ण य से णिरुवियं जाव विट्ठो 6
- अणेय-मिळ-परिवारो सबरसेणो णाम पल्लिवइं । तं च दट्टण पलाइउं पयत्तो । पलायमाणो य धणु-जंत-पमुक्क-सरेहिं
- 6 समाहओ णिवडिओ गहिओ । णिरुवियं च विट्ठं रयण-पोत्तयं, समप्पियं च जेहिं चोर-सेणावइणो । णिरुवियं च जेण जाव 6
- पेच्छइ दस रयणाइं महग्घ-मोलाइं । भणियं च जेण 'अरे, महंतं कोसल्लियं अम्हाण इमेणं आणियं, ता मा मारेसु, 6
- बंभिऊण पक्खिवह एक्कमि कुडंणे । कयं च जेहिं चोर-पुरिसेहिं जहाइट्टं ।
- 9 § १२२) सो य चोर-सेणावइं णियय-पल्लीए ससंसुहं वव्वंतो संपत्तो तमुदेसं । तत्थ भणियं च जेण 'अरे अरे, तण्हा 9
- वाहिउं पयत्ता । ता किं इममि पएसे कहिंचि जलं अत्थि । भणियं च एक्केण चोरेण । 'देव, एत्थ पएसे अत्थि जुण्णं कूवं, 9
- ण-याणीयइ तत्थ केरिसं जलं' ति । भणियं च सेणावइणा । 'पयट्ट, तत्थेव वव्वामो' ति भणता संपत्ता तम्मि पएसे । उव- 9
- विट्ठो य वड-पायवस्स हेट्टओ सेणावइं । भणियं च जेण 'रे, कडुह पाणियं, पियामो' । आएसाणंतरं च वित्थिण्ण-सायवत्तेहिं 12
- पलास-दलेहि य सीविओ महंतो पुडओ । दीह-दढ-वलो-लयाओ य संधिऊण कया दीहा रज्जू । पत्थर-सगओ ओयारिओ 12
- पुडओ तम्मि कूवे जाव विट्ठो थाणुणा । भणियं च थाणुणा । 'अहो, केण इमं ओयारियं । अहं एत्थ पक्खित्तो देव्वेणं । ता 12
- ममं पि उत्तारेह' । साहियं च सेणावइणो । 'एत्थ कूवे को वि देसिओ णिवडिओ । सो जंपइ 'ममं समाकडुह' ।' सेणाव- 15
- इणा भणियं 'अलं अलं ता जलेणं, तं चेय कडुह वरायं' । उत्तारिओ य सो तेहिं । विट्ठो य सेणावइणा । भणिओ य 15
- 'भण हो कत्थ तुमं, कहं वा इहागओ, कहं वा इह णिवडिओ' ति । भणियं च जेण । 'देव, पुव्व-देसाओ अग्गे दुवे जणा 15
- दक्खिणावहं गया । तत्थ दोहिं वि पंच पंच रयणाइं विट्ठाइं । अग्गे आगच्छमाणा इमं अडइं संपत्ता, पंच-पव्वमट्टा 18
- तण्हा-सुहा-परिगय-सरिआ इमं देसंतरमागया । तण्हाइएहि य विट्ठो इमो जुण्ण-कूवो । एत्थ मए णिरिक्खियं कं-दूरे जलं 18
- ति । ताव केण वि पेएण वा पिसाएण वा रक्खसेण वा गिइयं णोल्लिओ णिवडिओ जुण्ण-कूवे । संपयं तुम्हेहिं उत्तारिओ' 18
- ति । इमं च सोऊण भणियं सेणावइणा । 'तेण दुहएण तुमं पक्खित्तो होहिस्सि' । भणियं च थाणुणा 'संतं पावं । कहं सो 21
- जीयाओ वि वल्लहस्स मज्झ एरिसं काहिइ' । भणियं च सेणावइणा 'संपयं कत्थ सो वट्टह' ति । थाणुणा भणियं 'ण- 21
- याणामो' । तओ हसियं सव्वेहिं चोर-पुरिसेहिं । 'अहो समुज्जुओ मुद्धो वराओ बंभणो, ण-याणइ तस्स दुट्टस्स दुट्ट-भावं 21
- वा अप्पणो चित्त-मुद्धत्तणं वियाणंतो । भणियं च सेणावइणा 'सो चेय इमस्स सुमित्तो होहिइ जस्स इमाइं रयणाइं 24
- अग्गेहिं अक्खित्ताइं' । तेहिं भणियं 'सव्वं संभावियइ' ति । भणिओ य 'बंभण, केरिसो सो तुह मित्तो' । भणियं च 24
- थाणुणा । 'देव,
- 27 कसिणो पिंगल-णयणो मडहो वच्छ-त्थलम्मि णीरोगो । णिमंसुओ य वयगे एरिसओ मज्झ वर-मित्तो ॥' 27
- तओ सव्वे वि हह ति हसिउं पयत्ता चोर-पुरिसा । भणियं च सेणावइणा । 'अहो सुंदरो भट्टो दंसण-सुहओ सव्व-लक्खण- 27
- संपुण्णो मित्तो तए लद्धो । एरिसो तुम्हेहिं पि मित्तो कायव्वो । सव्वहा बंभण, तेणं चिय तुमं पक्खित्तो । ता जाणामि 27
- दिट्ठाइं अप्पणाइं रयणाइं' । तेण भणियं 'देव, जाणामि' । दंसियाइं से सेणावइणा पक्खिण्णाणियाइं । तेण भणियं 'इमाणि 30
- मज्झ संतियाणि । पंच इमाइं तस्स संतियाइं । कत्थ तुम्हेहिं पावियाइं । ण हु मित्तस्स मे णिवाओ कओ होहिइ' । तेहिं 30
- भणियं । 'तस्स इमाइं अग्गेहिं अक्खित्ताइं । सो य बंधेऊण कुडंणे पक्खित्तो । ता गेण्हसु इमाइं अप्पणाइं पंच । जाइं 30
- पुण तस्स दुरायारस्स संतियाइं ताइं ण समप्पिमो' ति भणमाणेण पंच समप्पिययाइं । भणिओ य 'वच्च इमाए वत्तिणीए । 33

1 > P होही, J गिअळइ P नियज्जु. 2 > P om. जाव, P ता for ताव, P om. वि. 4 > J भणति for हणत्ति, P गेण्ह 33

गेण्ह, P समुद्धाइओ. 5 > P परियरो सबरो नाम, J om. य, J धणुज्जत्त. 6 > P णिवट्ठिं, J om. च. 7 > P अग्गे इमेण. 8 > P 33

बंधेऊण पक्खिवह. 9 > P पल्लिव, P om. च, P अरे रे. 10 > P ता किमिं वि पएसे किपि चि वि जलं, P भणियं for भणियं, 33

P om. अत्थि, J जुण्णकूवं P जुज्जे कूव न याणिमो य तत्थ. 12 > P कडुह for कडुह. 13 > J om. महंतो, P om. य, P 33

पत्थरस्स, J उआयारिओ. 14 > P फुडओ फुओ तंमि, P विट्ठा वु थाणुणा । अहो केण, J केण मओयारियं, P देव्वेणं. 15 > P 33

om. पि, P इमं for ममं. 16 > P om. one अलं, P ताव for ता, P चेय, P भणिओ. 17 > P वा गइहागओ, P गओ for 33

णिवडिओ, J जाणा for जणा. 18 > P मि for वि, P संवत्तो, J पंचमट्टा. 19 > P तण्हाइएहिं, P om. य, P inter. णिरिक्खियं 33

and कं-दूरे जलं. 20 > P om. ति, J तुम्हेहिं for तुम्हेहिं. 21 > J व after भणियं (first), J एत्थ for तुमं, J होहिस्सि. 33

22 > P जीयवल्लहस्स, J om. एरिसं. 23 > P अहो अहो उज्जुओ वराओ मुद्धो बंभणो, P om. दुट्टस्स, J om. दुट्टभावं. 24 > 33

P सेणावइणो, P होही, P रयणाइं for रयणाइं. 25 > P संभावीय ति, J om. ति, P om. य, J केविसो, P तुह सुमित्तो. 27 > 33

J विट्ठल for पिंगल, J गिळिओ for णीरोगो, P सो for वर. 28 > P जओ for तओ, J वि हह ति हति P विय हहह ति, 33

P भट्टा, J दंसरमुःयं महक्कवण (letters not clearly readable). 29 > J तुम्हेहिं for तुम्हेहिं, P जेण for तेणं. 33

30 > J जेण इमाइं मज्झ संतियाइं । पंच, P om. भणियं. 31 > J संतियाइं for संतियाइं, P कत्थ तुमे पावियाणि, J मित्तस्सस्स से 33

णिवाओ, J होहिउइ (1). 32 > J om. अग्गेहिं, J वि for य, P inter. पक्खित्तो and कुडंणे, P गेण्हसु. 33 > P om. 33

ताइं ण, J om. पंच, P om. वच्च, P वत्तणीए.

1 एकं पुण भणिमो ।

जारिसओ सो भित्तो अण्णो वि हु तारिसो जह हवेज्ज । उग्ग-विसं व भुयंगं वूरं दूरेण परिहरसु ॥'

1

3 इति भणिज्जण विसज्जिओ ।

3

§ १२३) सो वि थाणू कुडंगे कुडंगेण तं अण्णिसमाणो परिभमह । ताव दिट्ठो गेण एकम्मि कुडंगे । केरिसो ।

दढ-वल्ली-संदाणिय-बाहु-जुओ जमिय-चलण-पुवलिहो । पोट्टलो ओव णिबद्धो अहोमुहो तम्मि पक्खित्तो ॥

6 तं च दट्ठण हा-हा-रव-गडिभणं 'मित्तं, का इमा तुह अवत्थ' ति भगमाणेण सिट्ठिलियाइं वंधणाइं, संवाहियं अंगं, बद्धाइं च 6

वण-मुहोइं कथा-कप्पडेहिं, साहियं च णिय-जुसंतं । 'पंच मए रयणाइं पावियाइं । तत्थ मित्तं, अट्टाहजाइं तुज्झ अट्टाहजाइं मज्झ । तह वि पजसंतं, ण काइ अट्टिइं कायव्व' ति भणमाणेण ताव णीओ जाव अट्टे-पेरंत-संठियं गामं । तत्थ ताव

9 पडियरिओ जाव रुद्धवणो । तम्मि य काले चित्थियं गेण मायाइच्चेण । 'अहो,

9

हिम-सीय-चंद-विमलो पए पए खंडिओ तहा सुयणो । कोमल-मुणाल-सरिसो सिणेह-तंतू ण उक्खुडइ ॥

ता एरिस्स वि सज्जणस्स मए एरिसं ववत्सियं । धिरत्थु मम जीवियस्स । अवि य ।

12 पिय-मित्त-बंधणा-जाय-दोस-परियलिय-धम्म-सारस्स । किं मज्झ जीवियणं माया-णियडी-विमूढस्स ॥ 12

ता संपयं किमेत्थ करणीयं । अहवा दे जलणं पविसामि' ति चित्थयंतेण मेलिया सब्बे गाम-महयरा । कोउय-रस-गडिभणे

य मिलिओ सयलो गाम-जणो । तत्थ मूलियं वुत्तंतं सब्बं जहा-वत्तं साहियं सयल-गाम-जणस्स, जहा णिगया घराओ, जहा

15 विट्ठत्ताइं रयणाइं, जहा पढमं वंचिओ थाणू, जहा य कूबे पक्खित्तो, जहा चोरेहिं गहिओ, जहा पण्णविओ थाणुणा । 15

§ १२४) तओ एवं साहिज्जण भणियं मायाइच्चेण । 'अहो गाम-महत्तरा, महापावं मए कयं मित्त-दोज्झं णाम । ता

अहं जलियं हुयासणं पविसामि । देह, मज्झ पत्तियह, कट्टाइं जलणं च' ति । तओ भणियं एक्केण गाम-महत्तरं ।

18 'एट्टु एहउं दुम्मणस्साहुं । सब्बु एउ आयरिउ, तुज्झ ण उ वंकु चलितउं । प्रारद्धउं एवु प्रइ सुगति । प्रोतु वर भ्राति संप्रतु ॥' 18

तओ अण्णंण भणियं ।

'जं जि विरइदु धण-लवासाए । सुह-लंपडेण तुडभइं । दुत्थट्ट-मण-मोह-लुद्धउं । तुं संप्रति बोलितउं । एतु एतु प्रारद्धु भलउं ॥'

21 तओ अण्णेण भणियं चिर-जरा-जुण्ण-देहेण । 21

'एत्थ सुज्झति किर सुवणं पि । बइसाणर-मुह-गतउं । कउं प्रातु मित्तस्स वंचण । कावालिय-व्रत-धरणे । एउ एउ सुज्जेज्ज णहि ॥'

24 तओ सयल-द्रंग-सामिणा भणियइ जेट्ट-महामयहरेण । 24

'धवल-वाहण-धवल-देहस्स सिरे भ्रमिति जा विमल-जल । धवलजल सा भडारी । यति गंग प्रावेसि तुहुं । मित्र-द्रोज्झु तो णाम सुज्झति ॥'

27 एवं भणिए सब्बेहिं चैय भणियं । 'अहो, सुंदरं सुंदरं संलत्तं । ता सुंच जलण-पवेस-णिच्छयं । वच्चसु गंगं । तत्थ ण्हायंतो 27

अणसणेणं भरिहिमि, तथा सुज्झिहिसि तुहं पावं' ति । विसज्जिओ गाम-महयरेहिं । सिण्ह-रुयमाणेण य थाणुणा

अणुणिज्जमाणो वि पत्थिओ सो । अणुदियह-पयाणेण य इहागओ, उवविट्ठो" ति । एवं च साहियं णिसामिज्जण

30 णिवडिओ चलण-जुयलए भगवओ धम्मणंदणस्स । भणियं च णेणं मायाइच्चेणं । 30

'माया-मोहिय-हियण्ण णाह सब्बं मए इमं रइअं । मोत्तण तुमं अण्णो को वा एयं वियाणेज्ज ॥ ता सब्बहा

माया-मय-रिउ-सूयण-मूरण-गुरु-तिक्ख-कोव-कुंतस्स । सब्ब-जिय-भाव-जाणय सरणमिणे ते पवण्णो मि ॥

33 ता दे कुणसु पसायं इमस्स पावस्स देसु पक्खित्तं । अण्णह ण धारिमो च्चिय अप्पाणं पाव-कम्मं वा ॥' 33

1 > P भणामो 4 > P om. कुडंगे, P जाव for ताव. 5 > J वलि, P वाह, J संजमिय for जमिय. 7 > J णिज्ज for णिय, P तुह for तुज्झ. 8 > P मग्ग for मज्झ, P तुह for तह, J काई, P अत्थद्वितीया for अट्टिइ, J अण्णिओ for णीओ, P अइ for अट्टे. 9 > P पडियरिओ, J कालेण for काले. 11 > P वि मए जगरस एरिसं विठ्ठियं, J om. मए. 12 > J पाव for दोस. 13 > J पविंसामो, P चित्थियंतेण. 14 > P सब्बहा for सब्बं, J जहावित्तं, P जहा पविडत्ताइं. 15 > P चोरेहिं for चोरेहि. 16 > P मयहरा for महत्तरा. 17 > P कथाइं for कट्टाइं. 18 > J दुम्मणस्साहुं (?), P एउ पहउं होउ मणुस्साइं सब्बु एउ आयरिउं तुज्झा न उ वंकु वलियउं, J सब्बं जे पुंजाअरिदु (letters rubbed) तुज्झाणउं वंकु चलितउं, J प्रारद्धउं, P प्रारद्धओ एउ J प्रइ सुगइ प्रोतु वरप्रा (भ्रा ?) ति संप्रतु, P भ्रातु वर, P संप्रइ. 20 > J थु जे for जं जि, P विरइओ for विरइदु, J धणलव-सातमुहलंपडेए, P om. तुडभइं, P हु तुट्टमाणमोहिं एयुं मणुस्सेणं लद्धउं, P बोलियउं एउ एउ प्रारद्धु. 21 > P जुज्ज. 22 > P सुज्झइ, J सुवणं व बइसा, P सुवणं, P नरमुहयउं. रेयुं प्रातु, J पाउ for प्रातु, J कामात्थिव्रतधरणे एतु पाउ दुज्जे प्पणादिय, P व्रयधरणे, P सुज्जेज्ज णहि. 24 > P भणियं for भणिअइ, P om. जेट्टमहामयहरेण(रेणी ?). 25 > P देवस्स for देहस्स, P भ्रमती धवलजलयं, J विमलजलधवलजल सा, P यदि गंगा, P तुं हुं मित्रद्रोज्झ तो नाम सुज्झइ । एवं च भणिए. 27 > P om. ओ सुंदरं, J पवेसं णिं, P निच्छयं, P हो पत्तो for ण्हायंतो. 28 > P तदा सुज्झिहिसि तुह, J om. ति. 29 > P अणुमणिज्जमाणो, P एत्तो for सो, P य before ति, J एयं च. 30 > P वलणकमलए. 31 > J inter. इमं and मए, J om. ता सब्बहा. 32 > P सूयण for मूरण, P पवण्णो. 33 > P कम्मं तु ।

- 1 § १२५) इमं च णिसामिऊण गुरुणा धम्मणंदणेण भणियं । 1
 'जे पिययम-गुरु-बिरह-जळण-पज्जलिय-ताव-तवियंगा । कत्तो ताणं ताणं मोत्तुं भाणं जिणिंदाणं ॥
 3 जे दूसह-गुरु-दारिह-विहुया दलिय-सेस-धण-विहवा । कत्तो ताणं ताणं मोत्तुं भाणं जिणिंदाणं ॥ 3
 दोगाव-पंक-संका-कळंक-मल-कलुस-दूमियप्पाणं । कत्तो ताणं ताणं मोत्तुं भाणं जिणिंदाणं ॥
 सव्व-जण-णीदियाणं बंधु-जणोहसण-दुक्ख-तवियाणं । कत्तो ताणं ताणं मोत्तुं भाणं जिणिंदाणं ॥
 6 जे जम्म-जरा-मरणोह-दुक्ख-सय-मीसणे जण जीवा । कत्तो ताणं ताणं मोत्तुं भाणं जिणिंदाणं ॥
 जे इहणंकण-ताडण-वाहण-गुरु-दुक्ख-सायरोगाढा । कत्तो ताणं ताणं मोत्तुं भाणं जिणिंदाणं ॥
 संसारमि असारे दुह-सय-संबाह-वाहिया जे य । मोत्तुं ताणं ताणं कत्तो वयणं जिणिंदाणं ॥
 9 तन्नो एवं सव्व-जण-जीव-संघायस्स सव्व-दुक्ख-दुक्खियस्स तेलोकेकल-पायवाणं पिव जिणाणं भाणं पमोत्तण ण अणं सरणं 9
 तेलोके वि अत्थि ति । इमं च वयणं आराहिऊण पुणो
 जत्थ ण जरा ण मच्च ण वाहियो णेय सव्व-दुक्खाहं । सासय-सिव-सुह-सोक्खं अहरा सोक्खं पि पाविहिसि ॥'
 12 एवं च भणियं णिसामिऊण भणियं कयंजलिउडेणं मायाइक्खेणं । 'भगवं जइ एवं, ता देसु मे जिणिंद-वयणं, जइ अरिहो सि' । 12
 भगवया वि धम्मणंदणेण पलोइऊण णाणाइसएणं उवसंत-कसाओ सि पव्वाविओ जहा-विहाणेणं गंगाइओ सि ॥ ॐ ॥
 § १२६) भणियं च पुणो वि गुरुणा धम्मणंदणेण ।
 15 'लोहो करेइ भेयं लोहो पिय-मित्त-णासणो भणियो । लोहो कज्ज-विणासो लोहो सव्वं विणासेइ ॥ 15
 अवि य लोह-महा-गह-गहियो पुरिसो अंधो विय ण पेच्छइ समं व विसमं वा, बहिरो विय ण सुणेइ हियं अणहियं वा,
 उम्मत्तो विय असंबद्धं पलवइ, बालो इव अणं पुच्छिओ अणे साहेइ, सलहो विय जलंतं पि जलणं पविसइ, झसो विय
 18 जलणिहिमि वियरइ ति । 18
 इय असमंजस-घडणा-सज्जण-परिहार-पयड-दोसस्स । लोहस्स तेण मुणिणो थेवं पि ण देंति अवयासं ॥
 लोह-परायत्त-मणो दव्वं णासइ घायए मित्तं । णिवडइ य दुक्ख-गहणे पथिव एसो जहा पुरिसो ॥'
 21 भणियं च राइणा पुरंदरदत्तेण । 'भगवं बहु-पुरिस-संकुलाए परिसाए ण-याणिमो को वि एस पुरिसो, किं वा इमेणं कयं' 21
 ति । भणियं च भगवया ।
 "जो तुज्ज पट्टि-भाए वामे जो वासवस्स उवविट्ठो । मंस-विवजिय-देहो उच्चो सुक्को व ताल-दुमो ॥
 24 अट्टि-मय-पंजरो इव उवरीं तणु-मेत्त-चम्म-पडिबद्धो । दीसंत-पंसुत्तीओ तणु-दीहर-चवल-नीवालो ॥ 24
 खल्लइय-चम्म-वयणो मरु-कूव-सरिच्छ-गहिर-णयण-जुओ । अच्छइ वेयालो इव कम-सज्जो मंस-खंडस्स ॥
 लोहो व्व सरूवेणं णरवर पत्तो इमो इहं होज्जा । एएण लोह-मूढेण जं कयं तं णिसामेह ॥
 27 § १२७) अत्थि इममि चेय लोए जंबूदीवे भारहे वासे वेयइ-दाहिण-मज्झिम-खंडे उत्तराबहं णाम पदं । तत्थ तक्क- 27
 सिंला णाम णयरी ।
 जा पदम-पया-पत्थिव-पुत्त-पयावुच्छलंत-जस-भारं । धवलहर-सिहर-संपिंडियं व एयं समुव्वहइ ॥
 80 जहिं च णयरिहिं एक्कु वि ण दीसइ मइलु कुवेसो व । एक्कु वि दीसइ सुंदर-वत्थ-णियत्थो व । नेणिण ण अत्थि, जो कायरो 30
 तण्हाभिभूओ व । दोणिण वि अत्थि, सूरउ वयणओ व । तिण्णिण णव लळमंति, खलो मुक्खु ईसालुओ वि । तिण्णि
 चोवलळमंति, सज्जणु वियट्ठो वीसत्थो व ति । जहिं च णयरिहिं फरिहा-बंधो सज्जण-दुज्जणहं अणुहरइ, गंभीरत्तणेण
 33 अणवयारत्तणेण व । सज्जण-दुज्जण-समो वि पायारु अच्चुणउ वंक्क-वलिय-गमणो व । जहिं च वसिसु दीव-समुइ-जइसओ, 33
 असंखेज्जो पवडुमाण-वित्थरो व ति । अवि य ।
 कह सा ण वण्णणिज्जा वित्थिण्णा कणय-वडिय-पायार । पदम-जिण-समवसरणेण सोहिया धम्म-चक्का ॥

1 > P inter. भणियं and गुरुणा धम्मणंदणेण. 3 > P repeats गुरु. 5 > J बंधुजगमयणदुक्ख. 6 > P मरणेण नाह दुक्ख-
 J P मीसणो, P om. जण. 7 > P दहणंकण, J वयणं for आणं. 8 > J दोहिया. 9 > P तिलोकेकवायं. 10 > P वि य नत्थि ति ।
 P om. वयणं. 11 > P सासयं. 12 > P adds इक्खेणं after जइ, P ति for मि. 13 > P adds जहाविओ after पव्वाविओ.
 16 > P लोमगहियो य पुरिसो. 17 > P उम्मत्तओ, P साहइ सलसो, P पिव for पि, P ऊसो for झसो. 19 > P थोवं, P उवयाणं
 for अवयासं. 20 > P om. य, P दुक्खगहण. 22 > P om ति. 23 > P वामो, P विसजियदेहो वच्चो सुक्को व्व ताडदुमो. 24 > P
 धवल for चवल. 25 > P चम्मधमणो, P मास for मंस. 26 > P एतेण. 27 > P जंबूदीवे, P मज्झिमे खंडे उत्तरा नाम. 29 > P
 जो for जा, P संपिंडियव्य तेरियं म्मु. 30 > P एक्कु न दीसइ एक्कु दीसइ मयलकुचेलो सुंदर, J एक्को वि दीसइ सुंदर, P व्व for व.
 31 > J तण्हाभिभूओ P तण्हाविभूओ, P सूरु देउणउ वि, P नोवलळमंति, P मुक्खो ईसालुओ व ति. 32 > P चोवलळमंति सज्जणो
 वियट्ठो वीसत्थो, J चि for च, P फरिह, J बंदो. 33 > P अणोवयारं, P om. व, P पायारो अच्चुणओ, P चि for व, P
 जयसओ. 34 > P परिवट्ठमाण, J वित्थारो. 35 > P सो for सा, P समवसरणेव.

1 नीप य णयरीप पच्छिम-दक्खिणे दिसा-भाए उच्चत्थलं णाम गामं, सग्ग-णयरं पिव सुर-भवणेहिं, पायालं पिव विविह-रयणेहिं, 1
 गोट्टंगं पिव गो-संपयाए, धणय-पुरी थिय धग-संपयाए ति । तम्मि गामे सुह-जाईओ धणदेवो णाम सत्थवाहउत्तो । तत्थ
 3 तस्स सरिस-सत्थवाहउत्तेहिं सह कीलंतस्स वच्चए कालो । सो पुण लोह-परो अत्थ-गहण-तल्लिच्छो मायायी वंचओ अलिय- 3
 वयणो पर-दुब्बावहारी । तओ तस्स एरिसस्स तेहिं सरिस-सत्थवाह-जुवाणएहिं धणदेवो ति भवहरिउं लोहदेवो ति सं
 पहट्ठियं णामं । तओ कय-लोहदेवामिहाणो दियहेसु वच्चंतेसु महाजुवा जोग्गो संयुत्तो । तओ उद्धाईओ इमस्स लोभो बाहिउं
 6 पयत्तो, तम्हा भणिओ य जेण जणओ । 'ताय, अहं तुरंगमे घेत्तूण दक्खिणावहं वच्चामि । तत्थ बहुयं अत्थं विद्वेमो, जेण 6
 सुहं उच्चंजामो' ति । भणियं च सं जणण । 'पुत्त, कस्सिण ते अत्थेण । अत्थि तुहं महं पि पुत्त-पवोत्ताणं पि विउलो
 अत्थ-सारो । ता देसु क्विण्णाणं, विभयसु वणीमयाणं, दक्खेसु बंभगे, कारावेसु देवउले, खाणसु तलाय-बंधे, बंधात्रेसु
 9 वावीओ, पालेसु सत्तायारे, पयत्तेसु आरोग-सालाओ, उद्धरेसु दाण-विहले ति । ता पुत्त, अलं देसंतर-गएहिं' । भणियं 9
 च लोहदेवेणं । 'ताय, जं एत्थ चिट्ठहं तं साहीणं चिय, अणं अपुव्वं अत्थं आहरामि बाहु-बलेणं' ति । तओ तेण चिंतियं
 सत्थवादेणं । 'सुंदरो चय एस उच्छाहो । कायन्वमिणं, जुत्तमिणं, सरिसमिणं, धम्मो चय अम्हाणं, जं अउव्वं अत्थागमणं
 12 कीरइ ति । ता ण कायवो मए इच्छा-भंगो, ता दे वच्चउ' ति चिंतियं तेण भणिओ । 'पुत्त, जइ ण-ट्ठायसि, तओ वच्च' । 12
 § १२८ एवं भणिओ पयत्तो । सज्जीकया तुरंगमा, सज्जियाइं जाण-वाहणाइं, गहियाइं पच्छयणाइं, चित्तविया
 आडियत्तिया, संटविओ कम्मयर-जणो, आउच्छिओ गुरुयणो, वंदिया रोयणा, पयत्तो सत्थो, चलियाओ वलत्थाउ ।
 15 तओ भणिओ सो पिउणा । 'पुत्त, दूरं देसंतरं, विसमा पंथा, णिट्ठरो लोओ, बहुए दुज्जणा, विरला सज्जणा, दुप्परियलं भंडं, 15
 दुद्धरं जोव्वणं, दुल्लिओ तुमं, विसमा कज्ज-गई, अणत्थ-रुई कयंतो, अणवरद्ध-कुद्धा चोर ति । ता सव्वहा कहिंचि
 पंडिणं, कहिंचि मुक्खेणं, कहिंचि दक्खिणेणं, कहिंचि णिट्ठरणं, कहिंचि दयलुणा, कहिंचि णिक्रियेणं, कहिंचि सूरणं, कहिंचि
 18 कायरणं, कहिंचि चाइणा, कहिंचि किमणेणं, कहिंचि माणिणा, कहिंचि दांगेणं, कहिंचि वियट्ठेणं, कहिंचि जडेणं, सव्वहा 18
 णिट्ठर-इंड-सिराहय-भुयंग-कुडिलंग-त्रंक-हियणं । भवियव्वं सज्जण-दुज्जणाण चरिणं पुत्त समं ॥'

एवं च भणिउण णियत्तो सो जणओ । इमो वि लोहदेवो संपत्तो दक्खिणावहं वेण वि कालंतरेण । समात्तामिओ सोप्पारए
 21 णयरं भइसंटी णाम जुण-संटी तस्स गेहम्मि । तओ वेण वि कालंतरेण महग्घ-मोह्ला दिण्णा ते तुरंगमा । विट्तं महंतं 21
 अत्थ-संचयं । ते च घेत्तूण सदेस-हुत्तं गंतुमणो सो सत्थवाह-पुत्तो ति । तत्थ य सोप्पारए पुरवरं इमो समाचारो देसिय-
 वाणिय-मेलीए । 'जो कोइ देसंतरागओ वत्थव्वो वा जम्मि दिसा-देसं वा गओ जं वा भंडं गहियं जं वा आणियं जं वा
 24 विट्तं तत्थ तं देसिय-वणिणहिं गंतूणं सव्वं साहयव्वं, गंध-तंबोल-मल्लं च घेत्तव्वं, तओ गंतव्वं' ति । एसो पारंपर-पुराण- 24
 पुरंसत्थिओ ति । पुणो जइया गंतुमणो तइया सो तेणय भइसंटीणा सह तत्थ देसिय-मेलीए गओ ति । देसिय-वाणिय-
 मेलीए गंतूण उव्विट्ठो । दिण्णे च गंध-मल्लं तंबोलाइयं ।

§ १२९ तओ पयत्तो परोप्परं समुल्लावो देसिय-वणियाणं । भणियं च णहिं । 'भो भो वणिया, कत्थ दावे देसे वा 27
 को गओ, केण वा किं भंडं आणियं, किं वा विट्तं, किं वा पच्चाणियं' ति । तओ एकेण भणियं । 'अहं गओ कोसलं तुरंगमे
 घेत्तूणं । कोसल-रणा मह दिण्णाइं महंताइं भाइल-तुरंगेहिं समं गय-पोययाइं । तओ तुम्ह पभावणं समागओ लद्ध-लाहो'
 30 ति । अणणेण भणियं । 'अहं गओ उत्तरावहं पूय-फलाइयं भंडं घेत्तूणं । तत्थ लद्ध-लाभो तुरंगमे घेत्तूण आगओ' ति । 30
 अणणेण भणियं । 'अहं सुत्ताहले घेत्तूण पुव्व-देसं गओ, तओ चमरे आणिओ' ति । अणणेण भणियं । 'अहं बारवई गओ,
 तत्थ संखंधं समाणियं' ति । अणणेण भणियं । 'अहं बब्बरउलं गओ, तत्थ चेलियं घेत्तूणं, गय-दंताइं मोत्तियाइं च घेत्तुं

- 1) J तीय य, P om. य, J णयमीय. 2) P om. धणयपुरी थिय धगसंपयाए, P तम्मि य गामे सुहंजाईओ. 3) P वच्चइ, J सो उण, P अत्थगहण. 4) P ति से अर, P लोभदे. 5) J "देवामिहाणो, J जोगो, P उद्धात्थ. 6) P om. य, P तुरंगं घेत्तूण, P पभूयं for बहुयं, P विद्वेमो. 7) P उच्चंजामि, P कस्सिण ते, P पवोत्ताणं पिउत्तो. 8) P किमणाणं, P विभयववणियमयाणं, P बंभणाणं कारो, J कारोप. 9) P आरोगमात्तामात्ताओ. 10) J om. न, P लोभदेवेणं, P जं एत्थं तं साहीणं चिट्ठहं चिय, J आराहामि, P om. ति. 11) J एसो, J om. जुत्तमिं, P अम्हाणं अंजं अउव्वअत्था. 12) P त दे for तादे, J धित्तयेणे, P पुत्ति for पुत्त. 13) P चित्तविया. 14) P कंमारयजणो. 15) J भणिअं से, P पिउणो. P दूरं, P निट्ठवरो. 16) P अणगुरुत्ती कयंतो. 17) P दक्खिणेणं कहिं चिय वियहेणं कहिंचि, P णिक्रियेणं. 18) P क्विण्णेणं, P om. कहिंचि माणिणा, P वियहेणं. 19) P "इंदागारावायभुयंगकुडिलवंक, P दुज्जणयरणं, P समं । एयं. 20) P से जणउ, P लोभदेयो, P सेमावासिओ. 21) P टित्ता for दिण्णा ते. 22) P घेत्तूण देसहुत्तं, J उत्तो, P om. ति. 23) P कोइ देसिओ देसं, P om. वा, J जम्मि दिसा देसा वागओ P जंमि वा जंमि दिसादेसे वा जं गओ. 24) P inter. साहेयव्वं & सव्वं, P तंबोले, P घेत्तूणं तओ, J तगो for तओ, J एसा for एसो. 25) P पुरिसत्थ इत्ति, P तेण य भरोट्ठणा, P देसिमेलीए, J देसियमेलए गंतूण. 26) P उव्विट्ठो ति, J om. न. 27) P om. भणियं, P भो भो देसियवणिया. 28) P inter. भंडं & किं, P तुरंगे घेत्तूण. 29) P om. मह, J om. महंताइं, J भाइलतुरंगमेहिं, P समं मयपोत्तयाइं, P तुम्हा. 30) P पूयफलाइं, P भंडं, J घेत्तू, P समागओ for आगओ. 31) P । महं सुत्ताफले, J तत्थ for तओ, J आणिय ति, P बारवई. 32) P inter. बब्बरउलं & अहं, P तत्थ before गयदंताइं, P गयदंता मोत्ति, P घेत्तूण for घेत्तुं.

- 1 समागमो' ति । अण्णेण भणियं । 'अहं सुवण्णदीवं गमो पलास-कुसुमाहं घेत्तूणं, तत्थ सुवण्णं घेत्तूण समागमो' ति । 1
अण्णेण भणियं । 'अहं चीण-महाचीणोसु गमो महिस-गवले घेत्तूण, तत्थ गंगावडिओ णेत्त-पट्टाहयं घेत्तूण लद्ध-लाभो णियत्तो'
3 ति । अण्णेण भणियं । 'अहं गमो महिला-रज्जं पुरिसे घेत्तूण, तत्थ सुवण्ण-समतुलं दाऊण आगमो' ति । अण्णेण भणियं । 3
'अहं गमो रयणदीवं णिब-पत्ताहं घेत्तूण, तत्थ रयणाहं लद्धाहं, ताहं घेत्तूण समागमो' ति । एवं च णिसामिऊण सव्वेहिं
चेय भणियं । 'अहो, सुंदरो संववहारो, णिब-पत्तेहिं रयणाहं लद्धंति, किमण्णेण वणिजेण कीरइ' ति । तेण भणियं ।
6 'सुंदरो जस्स जीवं ण वल्लहं' ति । तेहिं भणियं 'किं कज्जं' । भणियं च णेण । 'एवं तुव्वमेहिं भणियं 'किं कज्जं' ति । जेण 6
दुत्तारो जलही, दूरे रयणदीवं, चंडो मारुओ, चवला वीईओ, चंचला तरंगा, परिहत्था मच्छा, महंता मयरा, महग्गहा
गाहा, दीहा तंतुणो, गिलणो तिमिगिली, रोहा रक्खसा, उद्धाविरा वेयाला, दुल्लक्खा महिहरा, कुसला चोरा, भीमं
9 महासमुदं, दुल्लहो मग्गो, सव्वहा दुग्गमं रयणदीवं ति, तेण भणिमो सुंदरं वणिजं जस्स जीवियं ण वल्लहं' ति । तओ 9
सव्वेहिं वि भणियं । 'अहो दुग्गमं रयणदीवं । तहा दुक्खेण विणा सुहं णत्थि' ति भणमाणा समुट्टिया वणिया ।

§ १३०) इमं च तस्स हियण पइट्टियं लोहदेवस्स । आगमो गेहं, कयं भोयणाह-आवस्सयं । तओ जहा-सुहं
12 उचविट्ठाणं भणियं लोभदेवेण । 'वयंस भइसेट्टि, महंतो एस लाभो जं णिब-पत्तेहिं रयणाहं पाविजंति । ता किं ण तत्थ 12
रयणदीवे गंतुमुज्जमो कीरइ' ति । भहेण भणियं । 'वयंस,

जेत्तिय-मेत्तो कीरइ मणोरहो णवर अत्थ-कामेसु । तत्तिय-मेत्तो पसरइ ओहट्टइ संघरिजंतो ॥

15 ता विट्तं तए महंतं अत्थ-संचयं, घेत्तूण सएसं वच्च । किं च, 15

मुंजसु देसु जहिच्छं सुयणे माणोसु बंधवे कुणसु । उद्धरसु दीण-विहलं दव्वेण इमं वरं कज्जं ॥

ता पटुत्तं तुह इमिणा अत्थेणं' ति । इमं च सोऊण भणियं इमिणा लोहदेवेण । 'अवि य,

18 जइ होइ गिरारंभो वयंस लच्छीए मुच्चइ हरी वि । फुरिओ च्चिय आरंभो लच्छीय य पेसिया दिट्ठी ॥ 18

आलिगियं पि मुंचइ लच्छी पुरिसं ति साहस-विहूणं । गोत्त-क्खलण-विलक्खा पिय व्व वइया ण संदेहो ॥

कज्जंतर-दिण्ण-मणं पुरिसं णाउं मिरी पलोएइ । कुल-बालिया णव-वहु उज्जाए पियं व वक्खित्तं ॥

21 जो विसमरिम वि कज्जे कजारंभं ण मुंचए धीरो । अहिसारिय व्व लच्छी णिवउइ वच्छत्थले तस्स ॥ 21

जो णय-विक्कम-बद्धं लच्छिं काऊण कज्जमारुहइ । तं चिय पुणो पडिच्छइ पउत्थवइय व्व सा लच्छी ॥

काऊण समारंभं कज्जं सिट्ठिलेइ जो पुणो पच्छा । लच्छी खंडिय-महिल व्व तस्स माणं समुच्चइइ ॥

24 इय आरंभ-विहूणं पुरिसं णाऊण पुरिस-लच्छीए । उज्जिज्जइ णीसकं दूहव-पुरिसो व्व महिलाहिं ॥ 24

तओ वयंस, भणिमो 'पुरिसेण सव्वहा कज्ज-करगेक्क-वावड-हियणण होइयव्वं, जेण सिरी ण मुंचइ । ता सव्वहा पयट्ट, रयण-
दीवं वच्चाओ' ति । भइसेट्टिणा भणियं 'वयंस,

27 'जइ पायाले वभिओ महासमुदं च लंघिमो जइ वि । मेरुमि आरुहामो तह वि कयंतो पुलोएइ ॥ 27

ता सव्वहा गच्छ तुमं । मिज्जउ जत्ता । अहं पुण ण वच्चामि' ति । तेण भणियं 'कंस तुमं ण वच्चसि' । भइसेट्टिणा

भणियं । 'सत्त-हुत्तं जाणवत्तेण समुदे पविट्ठा । सत्त-हुत्तं पि मह जाणवत्तं दलियं । ता णाहं भारी अत्थस्स । तेण भणिमो

30 ण वच्चिमो समुदं' ति । लोहदेवेण भणियं । 30

'जइ घडिये विहडिज्जइ घडियं घडियं पुणो वि विहउइ । ता घडण-विहडणाहिं होहिइ विहडफडो देवो ॥

तेण वयंस, पुणो वि करियव्वो आयारो, गंतव्वं तं दावं' ति । तेण भणियं । 'जइ एवं ता एक्कं भणिमो, तुमं एत्थ जाणवत्ते

33 भंडवइ, अहं पुण मंदभागो ति काऊण ण भवामि' ति । इमेण य 'एवं' ति पडिचणं । 33

2 > P तत्थ संगवडिओ णेत्तपट्टाहं. 3 > P inter. गमो and णेत्तं, P पुरिसं, P सुवण्णसमतुलं, J समतुलं दाऊणमागमो.

4 > P om. गमो, P adds गमो after घेत्तूण, J एवं for एवं. 5 > J किमण्णेण कोणइ. 6 > J om. जेण 7 > P दुत्तारो,

J रयणदीवं, P चवलाओ वीइएओ, P परिच्छमच्छा. 8 > P गिराओ, P उद्धाविरा 9 > P दुग्गमरणं. 10 > P तहा दुक्खेहिं

विणा, J om. वणिया. 11 > P लोभदेवस्स, J आगया गेहं. 12 > J लोभदेवेण, P पावीयति, J किण्ण P किण्ण. 13 > J रयणदीवं.

P गंतुमुज्जमं, J om. ति. 14 > J जत्तिय, P सव्वरिजंतो. 15 > P गच्छ for वच्च. 16 > P नवर for वरं 17 > P ता

पटुत्तं. P लोहदेवेण, P om. अवि य. 18 > P आरंभो रंभो लच्छीअ य. 19 > P थं विमुच्चइ, P विहीणं । गोत्तलक्खण,

J विलक्खो. 20 > P दाउं for णाउं, J बाटिया णववहु P बाटिया य नववहु, P पियं व वज्जासिक्खत्तं. 21 > J विसं वि, P

निववइइ. 22 > J लच्छी, P पयच्छइ, P यो for सा. 24 > P विहीणं, J लच्छीअ. 25 > J -काणेक्क, P सिरीण न. 27 >

P आरुहामो, P पलोएइ. 28 > P पुण न वच्चामो 29 > P inter. पविट्ठो & समुदं (for समुदे पविट्ठा), P सत्तउत्तं ति दलियं

जाणवत्तं महं. 30 > P om. ण वच्चिमो, P समुग्गि । लोभदेवेण. 31 > P होहिइति षट्फडो दिव्वो । 32 > P करियव्वो

आयारो, J adds तं after गंतव्वं.

1 § १३१) तत्रो रयणदीव-कय-माणसेहिं सजियाई जाणवताई । किं च करिउं समाहत्तं । वेप्यंति भंडाई, उचयरिजंति 1
 निजामया, गणिजए दियहं, ठावियं लगं, गिरुविजंति गिमित्ताई, कीरति अवसुईओ, सुमरिजंति हट्ट-देवए, 1
 3 भुंजाविजंति बंभणे, पूहजंति विलिट्टयणे, अच्चिजंति देवए, सजिजंति सेयवडे, उडिभजंति कृवा-खंभए, संगहिजंति 3
 सयणे, वडिजंति कट्ट-संचए, भरिजंति जल-भायणे ति । एवं कुणमाणणं समागओ सो दियहो । तम्मि य दियहे 3
 कय-मज्जणा सुमण-विलेवण-वत्यालंकारिया दुवे वि जणा सपरियणा जाणवत्तं समारूढा । चालियं च जाणवत्तं । तओ 6
 6 पहायाई त्राई, पवादियाह संखाई, पगीयाई मंगलाई, पढंति बंभण-कुलाई आसीसा, सुमुहो गुरुयणो, दीण-विमणो 6
 दृश्यायणो, हरिस-विसणो भित्तयणो, मणोरह-सुमुहो सज्जण-जणो ति । तओ एवं च मंगल-थुइ-सय-जय-जया-सह-गह्म- 6
 पूरत-दिसिवहं पयट्टं जाणवत्तं । तओ पूरिओ सेयवडो, उक्खित्ताई लंबणाई, चालियाई आवेल्लयाई, गिरुवियं कण्हारोणं, 6
 9 लगं जाणवत्तं वत्तणीए, पवाइओ हियइच्छिओ पवणो । तओ जल-तरल-तरंग-रंगत-कळोल-माला-हेळा-हिंदोलय- 9
 परंपरारूढं गंतुं पयत्तं जाणवत्तं । कहं । कहिंवि मच्छ-पुच्छच्छाहउच्छलंत-जल-वीई-हिंदोलियं, कहिंवि कुम्म-पट्टि-संति- 9
 उच्छलंतयं, कहिंवि वर-करि-मयर-थोर-करायडियं, कहिंवि तणु-तंतु-गुणावत्तं, कहिंवि महा-विसहर-पास-संदाणिजंतयं 9
 12 गंतुं पयत्तं । जेण वि कालंतरेण तम्मि रयण-दीव लगं । उत्तिण्णा वणिया । गहियं दंसणीयं । दिट्टो राया । कओ 12
 पसाओ । वट्टियं सुंके । परियलियं भंडं । दिण्णा ह्य-सण्णा । विक्किणीयं तं । गहियं पडिभंडं । दिण्णं दाणं । पडिणियत्ता 12
 गियय-कूल-हुत्तं । पूरिओ सेयवडो । लग्गो हियइच्छिओ पवणो । भागया जाव समुह-मज्ज-देसं । तओ चित्तियं णेण 15
 15 लोह-मूढ-माणसेण लोहदेवेण । 'अहो, पत्तो जहिच्छिओ लाहो, भरियं णाणा-विह-रयणाणं जाणवत्तं, ता तडं पत्तस्स एस 15
 मज्ज भागी होहिइ ति । ता ण सुंदरं इमं' ति चित्तयंतस्स राईए बुद्धी समुपपण्णा । 'दे, एयं एत्थ पत्त-कालं मए कायव्वं' 15
 ति संठावियं हियएणं । समुट्टिओ लोहदेवो । भणियं च णेण 'वयंस, पावक्खालयं पविसामो, जेण विगंगमो आयव्वयं 15
 18 केत्तियं' ति । तं च सोऊण समुट्टिओ भइसेट्टी, उवविट्टो गिज्जहए । तथ इमिणा पावेण लोह-मूढ-माणसेणं अवलंबिऊण 18
 गिक्करुणत्तणं, अवमणिऊण दक्खिणणं, पडिवज्जिऊण कयघत्तणं, अणायरिऊण कयणुत्तणं, अवियारिऊण कज्जाकजं, 18
 परिच्छइऊण धम्माधम्मं गिहयं णोल्लिओ णेण भइसेट्टी । तावय वोलीणं जाणवत्तं ।

21 § १३२) खणेण य ति-जोयण-मेत्तं वोलीणं । तओ धाहावियं णेण । 21

अवि धाह धाह धावह धावह एमो इहं ममं मित्तो । पडिओ समुह-मज्जे हुत्तारे मयर-पउरम्मि ॥

हा हा एमो एमो गिलिओ चिय भीमणेण मयरेणं । हा कथ्य जामि रे रे कहिं गओ चय सो मयरो ॥

24 एवं अलियमलियं पलवमाणस्स उद्धाइओ गिजामय-लोओ परियणो य । तेहिं भणियं 'कथ कथ सो य गिवडिओ' । 24
 तेण भणियं । 'इहं गिवडिओ, मयरेण य सो गिलिओ । ता मए वि किं जीयमाणेणं । अहं पि एत्थ गिवडामि' ति 24
 भणमाणो उद्धाइओ समुहाभिमुहं महाधुत्तो । गहिओ य महल्लएहिं परियणेण य । तेहिं भणियं । 'एक्कं एस विणट्टो, 24
 27 पुणो तुमं पि विणस्सिहिसि, इमं तं जं पज्जलिए तण-भारयं पक्खित्तं । ता सव्वहा ण कायव्वमेयं । अवि य । 27

मा रूसह पुरिसाणं इमो णओ एस दुण्णओ च्व कओ । अवि जस्स कम्म-गिवहे पढं चिय देव्व-णिम्मविण ॥'

एवं च भणमाणेहिं संठाविओ इमो । गंतुं पयत्तं तं जाणवत्तं । सो उण भइसेट्टी इमिणा पाव-हियएणं गिहयं णोल्लिओ 30
 30 गिवडिओ अहोमुहो जलरासिमि । तओ झत्ति णिम्मगो, खणेण य उम्मगो । तओ जल-तरल-तरंग-वीह-कळोल-माला- 30
 हिंदोलयारूढो हीरिउं पयत्तो । तओ कहिंवि जल-तरंग-पव्वालिओ, कहिंवि वीई-हेल्लालिओ, कहिंवि तुंग-तरंगोयर- 30
 वगिराओ महा-मयरेण आसाइओ । तओ वियड-दाडा-करालं महा-मयर-वयण-कुहरंतरालं पविसंतो चिय अइसणं पत्तो ।

1) P च कीरिउं. 2) P दियहो, J om. ठावियं लगं, P विजिग्गाः for गिमित्ताई. 3) P सीयवडे उडिभजं वि कृवाथंभए.

4) P जलसंचए, J एवं च कुण, P कुणमाणेणं, P om. सो, P दियउहो, P om. य. 5) J चलियं. 6) P पवाइयाह, P समुहो, P om. दीणविमणो दृश्यायणो. 7) P मियत्तयणो दीणविमणो महिलायणो मणोरहसमुहो, P जयजय- J गयज P गंदम्म. 8) P om. जाणवत्तं, P सियवडो, P आवेल्लयाई, J कण्हारोणं. 9) P पवाओ, P रंगंता, P हिंदोलिय- 10) J पुच्छ, P हयुच्छलंत जलहिंदोलयं, P संट्टिउं. 11) P om. करि, P करायडियं, P गुणावत्तं ज्जत्तयं, J वास for पास. 12) J दीवे. 13) P सुंके, P विक्कीयं तं गहियं । गहियं तं भंडं । 14) P पुरिओ, J चित्तियं च. 15) P लोऽमूढेणं for लोहदेवेण, P पत्तो हियइच्छिओ लाहो भरियं, P om. णाणाविह. 16) J भविसति for होहिइ J om. मए. 17) P संठावियं, J पविसिमो, J विगणिमो, P विगणोमो आयव्वयं केत्तियं अजिज्यं ति. 18) J om. समुट्टिओ, J एत्थ for तथ. 19) P निक्करुणत्तणं, P कयघत्तं, J कअणुत्तणं P कयणुत्तरे. 20) P धम्मं for धम्माधम्मं. 21) P तिजोयति जोयण, J धाहाविओ य णेण, P अवि य after णेण. 22) J om. one धावह, P धाह पावह पावह, J महं for ममं. 23) P आ for हा (कथ), P जसि for जामि, J कहं for कहिं. 24) P उद्धाइं य for उद्धाइओ, P om. परियणो य, P om. य. 25) P om. य सो, P जीवमाणेणं. 26) P उत्थाओ समुहाभिमुहो, P पि स for एस. 27) P पुणो वि तुमं, J पि विणस्सिहिसि P पि से विणरिसिहिसि, P om. जं, P तणहारं पक्खित्तं. 28) P अवि जंगकम्मनिहणे. 29) J om. च, P संट्टिओ इमं च गंतुं, P सोऊण. 30) P निडिओ अहो जरासि, P जत्ति for झत्ति, J णिम्मगो, J उमुगो, P inter. तरंग and तरल, J वीई. 31) P जलतरलतरंग, P कहिं तुंग- 32) P om. मयर.

- १ दुज्जण-जण-हृत्थ-गभो विय णिक्खेवो कडयडाविभो णेणं । तओ अकाम-णिज्जराए जलणिहिमि महा-मयर-वयण-कुहर-दाढा- 1
मुसुमूरणेण वेइयं बहुयं वेयणिजं । तेण मओ संतो कत्थ गंतूण उववणो ।
- ३ § १३३) अत्थि रयणप्पभाए पुढवीए पढमे जोयण-सहस्से तत्थ वंतराणं भवणाइं, तेसु अप्पिद्धिओ रक्खसो 3
समुप्पणो । पउत्तं च णेणं विभंग-णाणं । 'अहो, केण उण तवेण वा दाणेण वा सीलेण वा इमा एरिसा देव-रिद्धी मए पाविय' 4
त्ति । जाव दिट्ठं णेण अत्ताणं मयरेण गिलियं । दिट्ठं च जाणवत्तं । जाणियं च णेण । 'अरे, इमेणं अहं पक्खित्तो एत्थ 5
लोह-मूढ-माणसेणं' ति । तओ चिंतिऊण पयत्तो । 'अहो पेच्छ पेच्छ, इमस्स दुरायारस्स साहसं । ण गणिओ णिद्धो 6
त्ति । ण मण्णिओ उवयारि ति । ण जाणिओ सज्जणो ति । ण चिंतियं सुकयं ति । ण इच्छिओ पिय-मित्तो ति । ण-ट्टविओ 7
अणुवगय-वच्छलो ति । सव्वहा 8
- ९ जो घडइ दुज्जणो सज्जणेण कह-कह वि जइ तुलगणेण । सो तक्खणं विरजइ तावेण हलिहि-रागो व्व ॥' 9
इमं च चित्तयंतस्स उट्ठाइओ तस्स कोवाणलो । चिंतियं च णेण । 'अरे इमिणा चिंतियं जहा एयं विणिवाइऊण एको चेय 10
एयं अत्थं गेपहामि । ता कहं गेपहइ दुरायारो । तथा करेसि जहा ण इमस्स, अण्णस्स हवइ' ति चिंतिऊण समागओ 11
१२ समुहं । तत्थ किं काउमाढत्तो । अवि य । 12
- सहस च्चिय खर-फरुसो उट्ठावइ मारुओ धमधमेत्तो । उच्छलिओ य जलणिही णच्चइ व तरंग-हत्थेहिं ॥
तओ किं जायं । समोत्थरिया मेहा । उल्लमंति कल्लोला । धमधमेत्ति पवणा । उच्छलंति मच्छा । उम्भुगगवंति कच्छभा । मज्जंति 13
१५ मयरा । अट्ठोइ जाणवत्तं । भग्गं कूवा-व्वेभयं । णिवडंति पत्थरा । उत्थरंति उप्पाया । दीसए विज्ज । णिवडंति उक्काओ । 14
गजए भीमं । फुट्टइ अंबरं । जलइ जलही । सव्वहा पलय-काल-भीसणं समुद्धाइयं महाणत्थं । तओ विसणो सत्थवाहो, 15
विमणो परियणो, असरणो जणो, मूढो गिज्जामय-सत्थो ति । तओ को वि णारायणस्स थयं पढइ । को वि चंडियाए पसुं 16
१८ भणइ । को वि हरस्स जत्ते उयाइएइ । को वि ब्रंभणाणं भोयणं, को वि माइणं, को वि रविणो, को वि विणायगस्स, 17
को वि खंदस्स, को वि जक्खस्स, को वि रेमतस्स, को वि बुद्धस्स, अण्णाणं च बहुविहं बहुविट्ठं उवाइय-सहस्से भणइ । 18
सत्थवाहो उण अट्ठणो अट्ठ-पड-पाउरणो भूय-कडच्छुय-हत्थो विण्णवेउं पयत्तो 'भो भो, देवो वा दाणवो वा जक्खो वा 19
२१ रक्खसो वा, किममंदिहिं कयं पावं, किं वा तुमं कुविओ । सव्वहा दिट्ठो कोवो, मंपयं पसायं पेच्छिमो' ति । तओ पहाइओ 20
पलय-पवण-संसुद्ध-मयरहर-भीसणो महासदो । किलिक्खिलंति वेयाला । णच्चंति जोइणीओ । पयत्ता विहासिया-संघाया । 21
ताणे चाणतरं 22
- २४ मुह-कुहर-विणिग्गउग्गिण्ण-जाला-करालाचलंतंत-पडभार-पचंत-गंधुक्कडं दीह-इंतावली-डक्क-रोवंत-डिंभं मिवारान्-भीमं भउत्त्वे- 23
वियासेम-लोयं महाडाइणी-णच्चणायइ-हामं ।
विरइय-णर-सीस-मालावयं तंडयं णच्चमाणस्स वेयाणिलुद्धय-संवट्ट-खट्टक्खडाराव-पूरंत-मुज्जंत-वेयाल-जालावली-रुद्ध-संचार- 24
मग्गं णरं दीसए । 25
- २७ पहसिय-सिय-भीम-दीहट्ट-हासुच्छलंतत्त-वदंधयारम्मि णायंतमच्चथ-दीहंकरं कंक-माला-महामाम-लुद्धाए गिद्धावलीए 26
समं सेवियं ।
- ३० खर-णहर-महा-पहाराहयदारियासेस-खजंत-जंतू-रवारान्-भीमं महा-हास-संसह-गट्टभ-पूरंत-वीअच्छ-पेच्छं महा-रक्खमं । ति । 30
§ १३४) तेण य मुह-कुहर-विणिग्गयग्गिण-जालावली-संचलित्तक्खरं पलय-जलहर-समेणं सडेणं भणियं । 'रे रे 31
दुरायार पाव कूर-कम्म णिइय णिक्करुण, भदमंदिं वरायं अणवराहं वाचाइऊण एव्वं वीमत्थं पत्थिओ' ति भणमाणेण 32
३३ समुक्खित्तं दाहिण-दीह-भुया-डंडेणं तं जाणवत्तं । समुद्धाइओ गयण-हुत्तं । तओ तं उप्पइयं जाणवत्तं करिम्मं दीप्पित्तं पयत्तं । 33

१ > P-जलहृत्थ- २ > P विइयं, J बहुवेयणिजं. ३ > J °प्राय, P पढमी, P गवणे. ४ > J विभंगं णाणे, P om. उण, P om. वा after तवेण. ५ > P brings एत्थ after इमेणं. ६ > J य पयो for पयत्तो. ७ > P अवयारो for उवयारि, P पियमित्तो. ८ > P अणुवगय- ९ > P घडइ सज्जणो दुज्जणमि, P जह for जइ, J विरइऊइ, J हलिहिराओ, P हलिइ- १० > P उट्ठाइओ, J कोवाणलो. ११ > P जहा इमरस, J इमरस ण अणरस. १३ > P उच्छिलिओ. १४ > P वि after तओ, P समोत्थया, P उम्भुगगंति, J कच्छभा. १५ > P मग्गं कूया- १६ > P फुट्ट य अंबरं । डलइ जलनिही, P महाअणत्थं. १७ > J णारायणट्टस्सयं P नारायणसत्थयं. १८ > J इणट्ठ for भणइ, P उवापड, J om. को वि before विणायगस्स, P विणायगस्स. १९ > P रेवंतस्स, P भणइ. २० > J om. अण्णो, P वड for अइ, P विज्जियं, J om. जक्खो वा. २१ > P पेच्छाणो, J om. ति. २२ > P पयत्तो. २४ > P चलंतपचमार- २५ > P महालाइणी. २६ > P °जयंतंतयं, P वेयाणिलुद्धसंवट्टक्खडाराव. २७ > P दीसते । २८ > P हासुच्छलंतवदंधयारविणमेत्तं. ३० > P कूर for खर, P repeats नहर. P खजंतजियंतंतपूरं, P महा हाससंगइग्गइ. ३१ > P संचलित्तक्खरपलय. ३३ > P भुयाडंडेणं, J उप्पइयं P समुप्पइयं, P अवि य after पयत्तं ।

- 1 पायालयलाओं समुद्रियं व गयणगगे समुप्यहयं । असुर-विमाण-सरिच्छं व दीसण जाण-वरवत्तं ॥ 1
ताव उप्यहयं जाव जोयण-सयं दुरुत्तरं । तओ रोस-वस-सिमिसिमेंत-हियण्ण अच्छोडियं कह दीसिउं पयत्तं । अवि य ।
- 3 गिवडंत-रयण-गिवहं मुत्ताहल-धवल-सोहिओऊलं । पुव्वंत-धया-धवलं कीला-सेलस्स खंडं व ॥ 3
तं च तारिसं गिहय-असुर-कर-णोहियं गिवडियं । आवडियं विथिण्णे महा-समुदुच्छेगे तं जाणवत्तं । अवि य ।
तह तं वेयावडियं समुह-मज्झमिम जाण-वरवत्तं । गिवडंतं चिय दिट्ठं पुणो ण णायं कहिं पि गयं ॥
- 6 पेच्छ मणि-गिम्मल-गुणंतमि समुहमिम कथ वि विलीगे । अहव गुण-भूसियाण वि संबंधो णथि जलहिमिम ॥ 6
तओ पलीगे भंडे, मया गिज्जामया, विणट्ठो परियणो, चुण्णियं जाणवत्तं । एत्थंतरे एस कह-कह वि णासग्ग-पत्त-जीविओ
जल-तरंग-वीईए किर भंडवई समुदेण विवज्जइ ति । तेण कह-कह वि तरल-जल-पेछण-घोल-णिञ्जोत्तिजंतो वि एक्कमिम
- 6 समुसूरिय-जाणवत्त-फलहयमिम विलग्गो । गहियं च णेण तं फलहयं । कह । 9
कोमल-दइयालिंण-फस-सुहासाय-जाय-सोक्खाहिं । बाहाहिं तेण फलयं अवगूढं दइय-देहं व ॥
तं च अवगूहिऊण समासथो । चिंतियं च णेण । 'अहो,
- 12 जं जं करेति पावं पुरिसा पुरिसाण मोह-मूढ-मणा । तं तं सहस्स-गुणियं ताणं देवो पणामेइ ॥ 12
अण्णहा कथ समुदे विणिवाइओ भइसेट्ठी, कथ व समुदाइओ रक्खस-रूची कथंतो । ता संपयं ण-याणामि किं पावियव्वं'
ति चिंतयंतो जल-तरल-तरंगावली-हेला-हिंदोलय-मालारूढो फलहण्ण हीरिउं पयत्तो । ता कहिंचि मच्छ-पुच्छ-च्छडा-छोडिओ,
15 कहिंचि पक्क-णक्क-मंकिओ, कहिंचि तणुय-तंतु-संजमिजंतओ, कहिंचि धवल-संखउलावली-विलुत्तिजंतओ, कहिंचि घण-विहुम-
दुम-वण-विमुज्जंतओ, कहिंचि विसहर-विम-दुयास-संताविजंतओ, कहिंचि महाकमठ-तिक्ख-णक्खावली-संलिहजंतओ ।
- § 1३५) एवं च महाभीमं जलगिहिमिम असरणो अयलो अमाणो उज्झिय-जीवियव्वो जहा भविस्स-दिण्ण-हियओ
18 सत्तहिं राईदिण्हिं तारदीवं णाम दीवं तथ लग्गो । आसथो सीयलेण समुह-वेला-पवणं । समुद्रिओ जाव दिमं पलोपइ
ताव य गहिओ कम्मिण-च्छवीहिं रत्त-पिंगल-ल्लोयगेहिं बद्ध-वृद्ध-हं जम-दूय-संणिहेहिं पुरिसंहिं । इमेण भणियं 'किं मम
गेणह' । तेहिं भणियं । 'धीरो होहि, अम्हाण एस गिज्जओ । जं को वि एरियो गेहं णेऊण मज्जिय-जिमिओ कीरइ' ति ।
- 21 एवं अण्णामेहिं णीओ गियय-घरं, अबभंणिओ मज्जिओ जिमिओ जहिच्छं । उवविट्ठो आसणे समासथो । तओ चिंतियं च णेण । 21
'अहो अकारण-वच्छलो लोओ एत्थ दीये । किं वा अहं सभग्गो' ति चिंतयंतो चिय सहसा उदाविण्हिं बद्धो । पच्छा बहु-
पुग्गिहेहिं बंधिऊण य मासलेसु पण्येसु छिंदिउं समादत्तो । मामं च चडचडस्स वद्धुए । छिण्णं मामं, पडिच्छियं रुहिरं । वियणा-
24 उरो य एतो चलचल-पेछणं कुणमाणो विलित्तो केण वि ओसह-द्वव-जोणं, उवसंता वेयणा, रूढं अंगं ति । एत्थंतरमिम पुच्छियं 24
वासवेण महामंतिणा भगवं धम्मगंदणो । 'भगवं, अह तेण महामामेण रुहिरेण य किं कुणंति ते पुरिस' ति । भणियं च
भगवया धम्मगंदणो । 'अत्थि समुदोयर-चारी अरिगयओ णाम महाविडो ऊरुगो ऊरुग-संठाणो वेलाउलेसु पाविजइ ति ।
27 तस्स परिक्खा मधुसिन्धयं गंधरोहयं च मत्थण कीरइ । तओ तं पगलइ । तं च गेण्हऊण ते पुरिसा महारुहरेण महामंसेण 27
विमंण य चारंति । तओ एट्ठो सो महाविडो सुव्वं सहस्संसेण पाविऊण हेमं कुणइ ति । तेण भो महामंति, तेहिं पुरिसंहिं
सो गहिओ । तओ पुणो वि अक्ख-भोज्ज-खज्ज-सएहिं संवडियं तस्स मामं जाव छम्मासे । पुणो पुणो उक्कत्तिय मंसं रुहिरं च
30 गालियं । वेयणत्तो पुणो वि विलित्तो ओसह-द्ववेहिं । पुणो वि सथो जाओ ति । एवं च छम्मासे छम्मासे उक्कत्तिय-मास-
खंडो वियलिय-रुहिरो अट्टि-सेसो महादुक्ख-समुह-मज्झ-गओ बारस मंवच्छराइं वसिओ ।

§ 1३६) अह अण्णमिम दियहे उक्कत्तिय-दंहेण चिंतियं अणेण लोहदंवेण । 'असरणो एस अहं णथि मे मोक्खो । ता
33 सुंदरं होइ, जइ मह मरणेण वि इमस्स दुक्खस्स होज्ज वीसामो' ति । चिंतयंतेण पुलइयं णेण गयणयलं जाव दिट्ठो 33

- 2) P उपाइउं, J निमिसिमिसिमेंत P^१ सिमित, J कइं अ दीसिउं. 3) P -सोहिउं ऊलं । धूयंत, J ऋणहव्व, P च for व,
4) J गिहअं गुरकर, P कर for कर. 5) J inter. तं & तह, P कहिं चि. 7) P रुंडं for मंटे. 8) P वीचीए, P मंहव्व
तीए ग समुदेण, P पेच्छणुवात्त-निब्बोत्तिं. 10) J गुणपाय, P जाणं for जाण, J दउयं for फलयं, P अवरूढं, P inter. देह
and दइयं. 11) J अवऊहिऊण, P समासथेण. 12) P करंति, P देवो पणामेइ. 13) J om. व, P संपयं न याणिमो पा किं.
14) P तरंगावलिजंतओ कहिंचि पणधिहुम etc. (portion from below) संताविजंतओ कहिवली हेलाहिंदोलयमालारूढ-
फलहओ, J P च्छडाछोडिओ. 15) P कहिं पक्कणक्क, P संन. 16) P -सलिहजंतओ. 17) P जीवियव्वओ भविस्स. 18) P
रायंदिण्हिं, P वेयाव वणेण. 19) P om. य, J कम्मण, J वद्धुए (?) P बद्ध for बद्धुए (emended), P सज्जिमेहिं. 20) P
सोइ for को वि, P मज्जिओ for मज्जिय. 21) P अक्खिमिय जिमिउं, P उवविट्ठो आसणो, J om. च. 22) J सरुगो, P बाहु
for बहु. 23) P वधेऊण मासलेसु, P समादत्ता, P om. च, J वद्धुए P वद्धुए, P मंसं पडिच्छियं. 24) P om. य, P चलुचलुवेणं
कुणमाणो. 25) P वामवमहा, J om. भगवं before अह, P -मंसेण, P om. ते. 26) P^१ विडो जरुगोजरसंठाणो. 27) P
तथ for तस्स, P गंधरोहं, P om. तओ. 28) P चारंति, J सोम for सो, P सुंन for सुव्वं, P कुणंति l. 29) P om. तओ,
P मोज्जएहिं, P मंसं, J om. one पुणो, J मासं. 30) J om. पुणो, P -द्ववेणं l, P om. ति, J om. च, J मासं खंतो.
31) P वसिउं l. 32) P अहो अक्खेति, J णेण for अणेण, P एत्थ for एस, J मो for मे. 33) P repeats सुंदरं, P चिंतियंतेण.

1 रुहिर-मास-गंधायद्विभो उवरि भममाणो भारंड-महापक्खी । तं च दट्टण आउलमाउले परिचणे गिक्खंतो बाहिं आयास-तले 1
दिट्ठो य तक्खणुकत्तिय-वहंत-रुहिर-गिबहो भारंड-महापक्खिणा, झड त्ति गिबडिज्जण गहिओ । हा-हा-रव-सद-गग्भिणस्स
3 परिचणस्स समुद्दाहो पुरओ च्चिय गयणंगण-हुत्तं । तओ गिसियासि-सामलेणं गयण-मग्गेणं पहाहो पुब्बुत्तर-दिसा- 3
विभायं । तथ्य किं काउमारओ । अवि य ।

पियह खणं रुहिरोहं लुंपह मासं पुणो खणं पक्खी । भंजह अट्टिय-गिबहं खणं खणं चट्टण मम्मं ॥

0 एवं च विलुप्पमाणो जाव गओ समुहुच्छंणे ताव दिट्ठो अण्णेण भारंड-पक्खिणा । तं च दट्टण समुद्दाहो तस्स हुत्तं । 6
सो य पलाहउं पयत्तो । पलायमाणो य पत्तो पच्छा पहाइएणं महापक्खिणा । तओ संपलगं जुद्धं । गिट्टुर-चंचु-पहर-खर-
णहर-मुह-वियारणेहिं य जुज्जमाणणं चुक्को चंचु-पुडाओ । तओ गिबडिउं पयत्तो ।

9 गिट्टुर-चंचु-पहारावडंत-संजाय-जीय-संदेहो । आसासिओ पडंतो गयणवहे सीय-पवणेण ॥ 9

गिबडिओ य धस त्ति समुह-जले । तओ तम्मि अहिणवुकत्तिय-मेत्ते देहे गिहय-चंचु-पहर-परदे य तं समुह-सलिलं कह
डहिउं पयत्तं । अवि य ।

12 जह जह लग्गह सलिलं तह तह गिद्धमयं डहइ अंगं । तुज्जण-दुव्वयण-विमं सज्जण-हियए व्व संपत्तं ॥ 12

तओ इमो तम्मि सलिले अणोरपारे डज्जंतो जलेणं, खजंतो जलयरेहिं, जल-तरंग-वीई-हथेहिं व णोलिज्ज-माणो समुदेणावि
मिच-वह-महापाव-कलुसिय-हियओ इव गिच्छुडभंतो पत्तो कं पि कूलं । तथ्य य खण-मेत्तं सीयल-समुह-पवण-पहओ ईसि

15 समूससिओ । गिरुवियं च णेणं कह-कह वि जाव पेच्छइ कं पि वेला-वणं । तं च करियं । 15

एला-लवंग-पायव-कुसुम-भरोणमिय-रुद्ध-संचारं । कप्पूर-पूर-पसरंत-बहल-मयरंद-नीधइं ॥

चंदण-लयाहरेसुं किंणर-विलयाओ तथ्य गायंति । साहीण-पिययमाओ वि अणिमित्तुकुठ-णडियाओ ॥

18 कयली-वणेसु जथ्य य समुह-मिउ-पवण-हल्लिर-दलेसु । वीसंभ-गिमीलच्छा कणय-मया गिच्च-मंणिहिया ॥ 18

§ 137) तस्स य काणणस्स विणिग्गएणं बहु-पिक्क-फल-भर-विविह-सुरभि-कुसुम-मासल-मयरंद-वाहिणा पवणेण समा-

सासिओ समुद्रिओ समुह-तडाओ परिभमिउमादत्तो तम्मि य काणणे । तओ करयल-दलिय-चंदण-किम्मलय-रमेण विलित्त-
21 मणेण अंगं । कयाहरो य संबुत्तो पिक्क-सुरहि-सुलह-साउ-फलेहिं । दिट्ठो य णेण परिभममाणेणं काणणस्स मज्ज-देसे महंतो
वड-पारोहो । तथ्य गओ जाव पेच्छइ मरगय-मणि-कौटिमयलं णाणाविह-कुसुम-गियर-रेहिरं मरय-ममए विय बहुल-पओसे

णहंरणं । तं च पेच्छिज्जण चिंतियं अण्णेणं । 'अहो, एवं किर सुव्वइ सत्थेसु जहा देवा सग्गे गिबमंति, ता ण ते सुंदरासुंदर-
24 विसेस-जाणया । अण्णहा इमं पणमं तेलोक्क-सुंदरं परिचचइउं ण सग्गे गिबमंति' । चिंतयंतो उवविट्ठो तम्मि वड-पायव-तले 24
त्ति । तथ्य गिसण्णेण य देव-णाम-कित्तणालद्ध-सण्णा-विण्णाण्णेणं चिंतियमाणं लोहदेवेणं । 'अहो, अत्थि को वि धम्मो जेण

देवा देव-लोएसु परिवसंति दिव्व-संभोगे त्ति । अत्थि य किं पि पावं जेण णरए णेरइया अम्ह दुक्खाओ वि अहियं दुक्ख-
27 सुव्वहंति । ता किं पुण मए जीवमाणेण पुण्णं वा पावं वा कयं जेण इमं दुक्खं पत्तो' त्ति चिंतयंतस्स हियए लग्गो सहस्य त्ति 27
तिक्ख-सर-सल्लं पिव भइसेट्ठी । तओ चिंतिउं पयत्तो । 'अहो,

अम्हारिसाणं किं जीविणं पिय-मित्त-गिहण-तुट्टाण । जेण कयणेण मए भइे गिहणं समुवणीओ ॥

30 ता विरथु मम जीविणं । ता संपयं किं पि तारिमं करेमि, जेण पिय-मित्त-वह-कलुसियं अत्ताणयं नित्यत्थाणम्मि वावाएमि, 30
जेण सव्वं सुज्जह'त्ति चिंतयंतो गिबणो । तओ सुगहि-कुसुम-मयरंद-बहल-परिमलुग्गार-वाहिणा समासासिज्जंतो मिसिर-

जलहि-जल-तरंग-रंगावली-विक्खिण्यमाण-जल-लव-जडेणं दक्खिण्णाणिलेणं तहिं चेर पसुत्तो वड-पायव-सलम्मि । खण-मेत्तस्स
33 य विबुद्धो ईमि विभासिज्जंत-खर-महुर-मुहुमेणं सरणं । दिण्णं च णेण सविसेमं कण्णं । 33

1 > P उवरि कममाणो भारंड, J प्रायास तले । P तले य । 2 > P तक्खणुकत्तिय, P भारंड, J inter. महा and भारंड,
J झस P डज्जट. 3 > P गयणांगण, P om. पहाहओ, P दिग्गभायं. 5 > P गणं घोट्टण रुहिरं ॥ 6 > J विलुप्पमाणो, P
समुहुच्छंणे ताव दिट्ठो समुहुच्छंणे ताव दिट्ठो अनेग भारंड, P समुद्दाहं तस्स. 7 > P संलग्गं, P-प्यहार- 8 > P कुहर for मुह,
P निवडियं. 9 > P-प्यहार, J धुयधरिय for संजाय, P गयणयले सीय, J सीयल. 10 > P om. तथो, P अहिणवुकत्तिय, P
निहयं, P परदेयं, P सलिलं अह दहिउं. 12 > P दट्ट, P-हिययं व । 13 > P अणोरपारो, P पुणो जिज्ज for व णोलिज्ज, P
समुद्दोणाविवित्तवह. 14 > J कलुसिओ इय, P निम्मच्छंतो, P ईसी. 17 > P सीहीण, J अणुस्सुत्तुकुठ- P अणमित्तुकण. 18 >
P कणेसु for वणेसु, J कणयमया. 19 > P बहुरपिक्क-एदर, P-सुरहि, P मासमयरंद-दट्टिणपवणेण. 20 > P समुद्रिओ, P
करयलयदलिय, P विलित्तमाणेणं. 21 > J कयाभागो, P-फलेहिं, J पवणेण for य णेण, P परिभम. 22 > J वडपारोहो, P
-कौटिमयले, P-नियरेहिरं, P विशा for विय. 23 > J णेण for अण्णेणं, P किर after जहा, P निवसति, P inter. ते and ण.
24 > P विस for विसेस, J परिच्छज्जण. 25 > J गिसण्णेण, P चिंतयमणेण, P धमो for धम्मो. 26 > P-संभोगो, P
नारइया । अहं दुक्खाओ. 27 > P संपत्तो for पत्तो, P सहस्य for सहस. 28 > P चिंतियं for चिंतिउं. 30 > P om. पि,
P om. अत्ताणयं, P अत्यत्थाणम्मि. 31 > P om. त्ति, P ताओ for तओ, P-कुसुमयरंद. 32 > P om. जलहि, P तरंगारंगा,
P तरेणं for जडेणं. 33 > P om. य, P विभाविज्जंत-खर-मुहु, P adds चाणयंति before दिवं च, J om. णेण.

- 1 § १३८) आद्यणिऊण य चित्तियं णेण । 'अरे, कयरीए उण भासाए एयं उल्लवियइ केणावि किं पि । हुं, अरे सक्कयं 1
ताव ण होइ । जेण तं अणय-पय-समास-णिवाओवसग्ग-विमत्ति-लिंग-परियप्पणा-कुवियप्प-सय-दुग्गमं दुज्जण-हिययं विव 1
३ विसमं । इमं पुण ण एरिसं । ता किं पाययं होउज्ज । हुं, तं पि णो, जेण तं सयल-कला-कलाव-माला-जल-कलोल-संकुलं 3
लोय-वुत्तं-महोयहि-महापुरिस-महणुग्गयामय-णीसंद-बिंदु-संदोहं संघडिय-एकेकम-वण्ण-पय-णाणारूव-विरयणा-सहं सज्जण-
वयणं विव सुह-संगयं । एयं पुण ण सुट्टु । ता किं पुण अबहंसं होहिइ । हुं, तं पि णो, जेण सक्कय-पायओभय-सुद्धा-
६ सुद्ध-पय-सम-विसम-तरंग-रंगंत-वगिरं णव-पाउस-जलय-पवाह-पूर-पव्वालिय-गिरि-णद्ध-सरिसं सम-विसमं पणय-कुविय-पिय- 6
पणइणी-समुल्लाव-सरिसं मणोहरं । एयं पुण ण सुट्टु । किं पुण होहिइ ति चित्तियंतेण पुणो समायणियं । अरे, अथि
चउत्था भासा पेसाया, ता सा इमा होहिंति । एथ वड-पायवोयंरं पिसायाण उल्लावो होइइ' ति ।
- ९ § १३९) 'ता पुण को इमाणं समुल्लावो वट्टइ' ति चित्तियतो ट्टो । अणियमण्णेण पिसाएण णियय-भासाए । 9
'भो एतं तए लप्पियते यथा तुभेहिं एतं पव्वय-नी-तीर-रम्म-वन-काननुय्यान-पुर-नकर-पत्तन-सत-मंकुलं पुयवी-मंडलं
भममानकेहिं कतरो पत्तेसो रमनिय्यो निरिक्खित्तो ति । एयं किं लपियं । तं अभिनवुडिभञ्ज-नव-चूत-मंजरी-कुसु-
12 मोतर-लीन-पवन-संचालित-मंदंमंदंदोलमानमुपांत-पातपंतरल-साखा-संघट्ट-वित्तासित-छच्चरन-रनरनायमान-तनुतर-पक्ख- 12
संतति-विघट्टनुद्धूत-विचरमान-रजो-सुल्ल-भिन्न-हितपक-विगलमान-विमानित-मानिनी-सयंगाह-गहित-विद्ययाथर-रमनो विद्या-
थरोपवनाभोगो रमनिय्यो' ति । अण्णेण अणियं । 'नहि नहि कामचार-विचरमान-सुर-कामिनी-निगिय्यमान-दइत-गोत्त-
15 कित्तनुल्लसंत-रोमंच-सेत-सलिल-पज्जरंत-पातालतरक-र-तुप्पल-चित्त-पिथुल-कनक-सिलंतलो तित्तस-गिरिवरो पव्वत-राजो 15
रमनिय्यतरो' ति । अण्णेण अणियं । 'कथमेतं लपितं सुलपितं भोति । विविध-कप्पतर-लता-निबद्ध-दोलक-समारूढ-
सुर-सिद्ध-विद्ययाथर-कंत-कामिनी-जनंदोलमान-गीत-रवाकञ्जन-सुख-निबभर-पसुत्त-कनक-मिक-युगलको नंदनवनाभोगो रमनि-
18 व्यतरो' ति । अवरंण अणियं । 'यत्ति न जानस्मि रमनिय्यारमनिय्यानं विसेमं, ता सुनेसु । उहाम-संचरंत-तिनयन-वसभ- 18
ढंकेता रयुप्पिथ-बुज्जंत-गोरी-पंचानन-रोस-वस-वित्तिन्न-विक्रम-निपात-पातित-तुंग-नुहिन-सित्त-सिसिर-सिला-सिखरो हिमवंतो
रमनीयतमो' ति । अण्णेण अणियं । 'नहि नहि वेला-तरंग-रंगंत-सलिल-वबुद्धूत-यिमिर-मारुत-विकिरिय्यमानेला-लवंग-
21 ककोलक-कुसुम-बहुल-मकरंदासुतित्त-मथुकर-कलकलारावुगिय्यमानेकेकम-पातप-कुसुम-भरो इमो एयेव वेला-वनाभोगो 21
रमनिय्यतमो' ति । अवरंण अणियं । 'अरं, किं इमकेहिं सब्बेहिं एयेव रामनीयकं हि । थं परम-रमनीयकं तं न उल्लपथ
तुभे । सग्गावतार-समनेतर-पतिच्छित्त-नव-तिभाग-नयन-जटा-कटापोतर-निवास-ससि-कला-निबूतामत्त-निवह-मधुर-धवल-
24 तरंग-रंगावली-वाहिनिं पि भगवतिं भगीरथिं उज्जिऊन जमिं पापक-सन-दुट्टप्पमो पि, किं बहुना मित्त-वथ-कतानिं पि 24
पातकानिं सिञ्जान-मेत्तकेनं थं सत-सक्करानिं पनस्संतं । ता स च्चेय रमनीया सुरनति' ति । तओ सब्बेहिं अणियं । 'यदि
एयं ता पयट्ठय तहिं चैय वच्चामो' ति भगमाणा उप्पइया धोय-खग्ग-णिम्मळं गयणयलं पि साय ति । इमस्स वि णरणाह,
27 हियवणं जहा दिव्वाणं पि पूयणीया सब्ब-पावहारी भगवइं सुरसरिया तम्मि चैय वच्चामो जेण मित्त-वह-कलुसियं अत्ताणयं 27

1) P om. य, P तेण for णेण, J कयलीए, P अणु for उण, P उल्लवीय ति केण वि, P हुं. 2) P तम अं, P समासनिवाओ-
वयसविमत्ति. 3) J om. ण, P पायं for पाययं, P सकुया. 4) P मणोयही, P मुद्दणुग्गया. P संदोह संघं, J संघडिय एकें,
P वनपायणाणारूव, P सुहं for सहं. 5) P वणं for वयणं, J किं अबहंसं, P अबभंसं होहिइ । हुं. P adds त before सक्कय.
6) J om. विगम, J जलयर (but r perhaps struck off), P जकरय for जलय, P पणयकुवियं विव पणं. 7) P तहा for
गुट्टु, P सम्मायत्रियं. 8) P वडपायवे, P om. होइइ ति । ता पुण को इमाणं समुल्लावो. 10) J एयं for एतं, P लप्पियते, J om.
एतं, J णाणती, P नदी for नीती, P om. तीर, P रंम, J वण P वन, P कामतुप्यान, J नकरपत्तदसत्त, P पुत्तन for पत्तन, J मण्डलं.
11) J के किं for केहिं, J निरिक्खित्तो P निरिक्खित्तो, P लप्पियज्जेते for लपियं, P om. तं, P om. नव, P भूतपंजरी. 12) J
लीण, J adds पवनसंचालित on the margin which is omitted in P. J 'दोलमानामुपात्तयातरुसंघट्ट P 'दोलमानश्रवपातपं,
J तरु for तरल, J om. माला, P संपयचित्तामित्तच्छयं. 13) J संनती, P विघट्टनु, J P चुण्ण, J विण्ण, P भिन्नाइतपंकाविं,
P विद्ययाथरो. 14) P रमनिज्जो, P अण्णेण, J अणियं, P कानकामचारविचारमान, P निच्चमानउदित्तगोत्त. 15) P रोमंचा,
J सयं for सेत, P पज्जरंत, J पाथांतरक P पातालनूक, P चिन for चित्त, P सिलातले. 16) J रमनिय्यातरो P रमनिज्जतरो, P
अण्णेण, J अणियं, P om. लपितं, J ति for ति (in भोति), P विविध, J adds तर before लता. 17) P विजाधर, J
'कत्राना, J णिग्भर, P सुल्लके नंदसो वना', J रमनिय्योतरो P रमनिज्जतरो. 18) J अणियं, P रमनिज्जारमनिज्जानां तासु तेसु
विसेसं उहाम- 19) J ढंकेता P टेकेता, J पंचाननं, J वास for रोस, J वित्तिण P वित्तिन, P पतित, J om. सिला, J हेमंतो
रमनीयतमो P हिमवंतो नामनीयतमो. 20) P अण्णेण, J अणियं, J लेवुद्धूत, P विरूत, J मारु for मारुत, P विकरिप्पमानेला
लवंग- 21) P बहुलमकरंदमतित्तमधुकराकलाकलारावुगिय्यमाने', J मथुकरतलकलारावुगिय्यमानेकेकेपातकुसुम- 22) J रम-
निय्योतमो P रमनिज्जतमो, P इमं काहिं, J om. सब्बेहिं, P एयेव for एयेव. 23) P पतीच्छित्तनभनव, J मट्टा for जटा, J कटा-
धात for कटापोतर, J निट्टुतामत्तनिवह, P मधुर. 24) J तरंगा, J वाहिनी पि भगवतिं भागीरथिं P वाहिनिं पि भगवती भगीरथी
उज्जिऊन जमिं, P रुद्धपसो for दुट्टप्पमो, P कांतानिं for वतानिं. 25) J सिञ्जानमेत्तकेनं P सिञ्जानमेत्तकेनपेवानत, J पतस्संति,
P सब्बे य रमयापुरतत्ती ति, J सब्बेहिं वि अणियं, J जइ for यदि. 26) P खगनिमालं, J P नरनाः. 27) J पूभणीयावहारी,
P पूयणीया । सब्बपावहारी भगवती, J adds ता before तम्मि, P ताइमि for तम्मि.

- 1 सोहेमो त्ति चित्तयंतो समुद्रिओ सुरणई-सुमुहो । तओ कभेण आगच्छमाणो इह संपतो, उवविट्ठो य इमरिम जण-संकुले 1
समवसरणे त्ति । इमं च सयलं बुत्तंतं भगवया साहिंयं णिसामिऊण लज्जा-हरिस-विसाय-विमुहिज्जंतो समुद्रिओ णिवडिओ
- 8 य भगवओ धम्मणंदणस्स चलण-जुवलए । भणियं च णेण । 3
'जं पुयं ते कहियं भगवं सव्वं पि तं तहं ज्ञेय । अलियं ण एत्थ वर-जस तिल-तुस-मेत्तं पि ते अत्थि ॥
ता भगवं दे जंपसु एत्थ मए किं च णाह कायव्वं । किं ता सुरसरियं चिय अहवा अणं पि पच्छित्तं ॥'
- 6 § १४०) भणियं च गुरुणा धम्मणंदणेण । 6
'जलणो इहइ सरीरं जलं पि तं चेय णवर सोहेइ । अंगट्टियाईं भंजइ गिरी वि णवरं णिवडियाणं ॥
देवाणुपिया जं पुण घण-कसिणं विरहयं पुरा कम्मं । तं पर-तवेण तप्पइ णियमा सम्मत्त-जुत्तेण ॥
- 9 ता उज्जिऊण लोहं होसु विणीओ गुरुण सय-कालं । कुणसु य वेयावच्चं सज्जाए होसु अहिउत्तो ॥ 9
खंतीए देसु चित्तं काउस्सगं च कुणसु ता उगं । विगई परिहर धीरो वित्ती-संखेवणं कुणसु ॥
पालेऊण वयाइं पंच-महासह-पढम-गरुयाइं । गुरुयण-दिट्ठेण तओ अणसणणं सुयसु देहं ॥
- 12 जत्थ ण जरा ण मच्च ण वाहिणो णेय सव्व-दुक्खाइं । सासय-सिव-सुह-सोक्खं अइरा मोक्खं पि पाविहिसि' ॥'' 12
इमं च णिसामिऊण पहरिस-वियसमाण-वयणेणं भणियं लोहेदेवेणं ।
'भगवं जइ ता जोग्गो इमस्स तव-संजमस्स ता देसु । मित्त-वहं मम पावं परिसुज्जइ जेण करणेणं ॥'
- 15 भगवया वि धम्मणंदणेण 15
पायवडियस्स सुहरं बाह-जलोलिया-मइल-गंडस्स । उवसंत-तिव्व-लोहे सामणं तेण से दिण्णं ॥
एवं च णाणाइसएणं णाऊण उवसंत-कसाओ पन्वाविओ लोह-देवो त्ति ॥ ॐ ॥
- 18 § १४१) भणियं च पुणो वि गुरुणा धम्मणंदणेण । 18
'मोहो कज्ज-विणासो मोहो मित्तं पणासए म्प्यं । मोहो सुगई रंभइ मोहो सव्वं विणासेइ ॥
अवि य मोह-मूढ-मगो पुरिमो अकज्जं पि कुणइ कज्जं पि ण कुणइ, अगम्मं पि वच्चइ गम्मं पि ण वच्चइ, अभक्खं पि
- 21 असइ भक्खं पि णासइ, अपेयं पि पियइ, पेयं पि ण पियइ, सव्वहा हिंयं पि णायरइ अहिंयं पि आयरइ त्ति । अवि य । 21
गम्मागम्म-हियाहिय-भक्खाभक्खाण जस्स ण विंणो । बालस्स व तस्स वसं मोहस्स ण साहुणो जांत ॥ जेण,
भहणं पि कुणइ भज्जं जणयं मारइ पेच्छ ईसाए । मोह-विमोहिय-चित्तो णरवर पुयो जहा पुरिमो ॥'
- 24 भणियं च णरवहणा । 'भयवं बहु-पुरिस-संकुलाए परिसाए, ण-याणिमो को वि एस पुरिसो' त्ति । भणियं च गुरुणा धम्म- 24
णंदणेणं ।
'जो एस तुज्ज दूरं दाहिण-देसस्मि वासवस्स भवे । ण सुणइ भणियं वयणे सुयं पि सम्मं ण-याणाइ ॥
- 27 पुरओवट्टिय-कज्जं ण पेच्छइ किं पि मउलियच्छीओ । जूय-जिओ जूययो व्यं ओ अह किं पि चिंतइ ॥ 27
लेप्पमइउ व्व वडिओ बाहिर-दीमंत-सुंदरावयवो । कजाकज्ज-वियारण-विमुहो थाणु व्व एस टिओ ॥
जो यो सुव्वइ मोहो तं च सरूवेण पेक्ख णरणाह । एण्ण मोह-मूढेण जं कयं तं णियामेह ॥
- 30 § १४२) अत्थि भुयणे पयासो कोसल-णरणाह-पुत्त-गोत्तंओ । कोसल-जणो जणाणं कोसल जण-णिवह-पूरंतो ॥ 30
जहिं च ससूयाओ सालीओ कुडुंविणीओ य, सवाणियइं गामाईं संबोलेइं च, सासाउलेइं पउत्थवहया-मुहं लेत्तइं च, असण-
संकुलेइं वणइं भोजइं च, दियवराहिट्टियओ सालीओ वाविओ य, सहलेइं तरु-सिहरइं सीमंतरइं च, धम्म-महासाहणजुवा
- 33 जुवाणा महामुणिदा य त्ति । अवि य । 33

सालिवण-उच्छु-कालिण, तम्मि य देसस्मि महियलवमइए । अत्थि पुगि पोरणा पवरा पर-चक्क-दुलंवा ॥

तहिं च तुंगाईं धवलहरइं ण गुरुयण-पणामइं च, दाहरइं पेम्मावेधइं ण कोवारंभइं, वंक-विवंकइं कामिणी-वेस-

1 > P नूनइं, J अओ for संसुहो, P इइं, J om. जण. 2 > J 'मएण त्ति, P सय', P विसया for विसाय, P om. णिवडिओ. 3 > P जुवलये. 4 > J या for ते (after ति). 5 > P om. च. 7 > P दहर, P कोमई for सोहेइ, P तवरं विनडियाण. 8 > P adds जीवेण बहुं before घण, P जंतेण. 9 > J गुरुयणस्य सयकालं, J अभिपुत्तो. 10 > P खंतीय, J काउस्सगं, P विगई, P धीरो विरो वित्ती- 11 > P पउत्थवहयाइं, J णवसणं. 12 > J तओ तव्व जत्थ for the first line जत्थ ण जरा etc., J पाविहिसि. 13 > P भणियं च लोहेदेवेण. 16 > J जयेकि- P जयेयात्थि, P एस्सं तिक्खयोओ त्ति सां, P सो for से. 17 > P repeats पन्वाविओ, P त्ति ॥ छ ॥ प्रव्रजि ती लोभदेवः तयुयो धमेन्द साचोवेण । अणयं etc. 18 > P om. वि. 19 > P सुगई. 20 > J om. कज्जं पि ण कुणइ. 21 > P अमई, P नासेइ, P interchanges the places of पेयं and अपेयं, J ण पियइ, J पि णायरइ त्ति, P om. त्ति. 22 > P विंणो. 23 > P ति सुज्जच्छइ जणयं, J पेच्छइ सार. 24 > P om. धम्मण-दणेणं. 26 > J om. three verses जो एस तुज्ज etc. to थाणु व्व एस टिओ ॥ 27 > P पूरओ वट्टियं, [पेच्छइं or मउलियच्छीओ] P अह किं कि. 29 > P मु for सो, J गिसामेदि. 31 > J सम्पउ P सजुओओ, P व for व. 32 > P 'राहिट्टियओ, P सायाओ, J व for य, P जन्वा for य, P 'साहणजुवाणमजं. 33 > P om. जुवाणा, J मुणिदा च त्ति, P मुणिदा व्व त्ति. 35 > P तुंगाईं, J om. व, P om. ण कोवारं इ. J वंकरं for वंकविवंकइं, J कामिण, J केसद (ह १) मरइं.

- 1 टमरइं ण चरियइं, थिरो पीह-पसाओ ण माण-बंधो, दीहरइं कामिणी-लोयणइं ण खल-संगइं ति । 1
 अवि कामिणियण-मुहयंद-चंदिमा-दुमिय-तुंग-धवलहरा । पढम-पुरी पोरणा पयडा अह कोसला णाम ॥
- ३ तम्मि य पुरवरीए कोसलो णाम राया, जो चंडो, चंड-मासणो, विणय-पणिमइय-सामंतो, सामंत-पणय-चलणो, चलण- 3
 चलंताचालिय-महिवीडो, महिवीड-णिवजियासेस-महिहरो वजहरो व्व । अवि य जस्स
 संभम-पलाण-वण-सज्ज-रोहरै तुरिय-भीय-विमणाहिं । रिउ-पणइणीहिं लीवे मूयलिज्जंति णामेण ॥
- 6 सो य राया कोसलो सामणणेण उडुंडो वि पारदारियाणं विसेसओ चंडो । अह तस्स पुत्तो विज्जा-विण्णाण-गुणातिहि- 6
 दाण-विक्रम-णीइ-रूव-जोव्वण-विलास-लास-णिदभरो तोसलो णाम अणिवारिओ वियरइ णियय-णयरीए । वियरमाणो य
 संपत्तो पक्खस्स महाणयर-सेट्ठिणो धवलहर-समीवं । तत्थ य गच्छमाणेण दिट्ठे जाल-गवक्ख-विवरंतरेण जलहर-विवर-विणियगयं
- 9 पिव ससि-बंधं वयण-कमलं कीय वि बालियाए । तओ पेसिया णेण कुवलय-दल-दीहरा दिट्ठी रायउत्तेण । तीए वि 9
 धवलयांवि-रेहरि-कज्जल-कसणुज्जला वियसमाणी । पेसविया णिय-दिट्ठी माला इव कसण-कमलाण ॥
 पृथंतरम्मि सहसा परदारालोव-जणिय-कांवेण । पंच सरा पंचसरेण तस्स हिययम्मि पक्खित्ता ॥
- 12 तओ णिइय-सर-णिघर-पहर-विघणा-विमुहेण परिमल्लियं वच्छयलं दाहिण-हत्थेणं । वामेण य अणभिलकयं उट्ठीकया तज्जणी- 12
 अंगुलि ति राय-तणणं । तीए य दाहिण-हत्थेणं संसिया खग्ग-वत्तणी । तओ रायउत्तो गंतुं पयो । चिंतियं च णेणं ।
 'अहो, रूवाणुरूवं इमीए वणिय-दुहियाए वियडुत्तणं' । चिंतयंतो संपत्तो णियय-धवलहरं । तत्थ य तीए वयडु-रूव-गुण-
- 15 विण्णाण-विलासावहरिय-माणसो तीए, संगमोवायं चिंतितं समाढत्तो । 15
 ताव य कुमुभ-णिग्गयय-राय-रत्तंबरो रवी रुहरो । णव-वर-सरिसो रेहइ संवंतो वारुणि णवरं ॥
 वारुणि-पंग-पमत्तो पल्लित्थिय-रुहर-कमल-वर-चसओ । अत्थइरि-पीढयाओ रवी समुदम्मि कह पडिओ ॥ ताव य,
- 18 सुपुग्गि-पयाव-वियले कुपुरिस-जण-दिण्ण-पयड-पसरम्मि । कलि-जुय-समे पओसं वल व्व पमरंति तम-णिवहा ॥ 18
 § १४३) तओ जामिणी-महामहिला-गवलंजण-भमर-कसिण-दीह-विधिण्ण-चिहुर-धम्मेल-विरलुणावडंत-पयड-तारा-
 णिय-मल्लिया-कुसुमोवयार-मिरि-मोहिण्ण गयणंणो बहले तमंधयार चिंतियं रायउत्तेण ।
- 21 राइं बहलं च तमं विममा पंथा य जाव चिंतियं । ताव वरं चिंतियं उ दुक्खेण चिणा सुहं णत्थि ॥ 21
 ति चिंतयंतो समुट्ठिओ । कयं णेण सुणियत्थं णियंमणं । णिवहा णेण कुवलय-दल-व्यामला छुरिया । गहियं च दाहिण-हत्थेण
 वरि-वीर-सुंदरं-माण-णिमुंभो खग्ग रयणे । पुग्गियं पउट्टे वसुणंदयं । सव्वहा कओ अहिंसारण-जोरगो वेसग्गहो । संपत्तो
- 24 धवलहरं । दिण्णे विज्जिक्खित्तं करणं । वल्लगो मत्त-वारणणं । समाखुटो पामाए । दिट्ठा य णेण सयल-परियण-रहिया णिमल- 24
 पज्जंतं लीट्ट-पइयुज्जाइयांसंम-गढभरयावराहुत्ता किं किं पि दाण विमगा चिंतयंती सा कुल-बालिय ति । तं च दट्ठण सणियं
 रायउत्तेण णिक्खित्तं वसुणंदयं वसुमइए, तस्सुविरि खग्ग-रयणे । तओ णिइय-पय-अंचारं उवगंतूण पमारिओभय-दीह-भुया-
- 27 डेणेण इइयाइं सं लोयणाइं रायउत्तेण । तओ फरिस-वस-ममूमसिय-रोभेच-कंचुयं समुव्वहंतीए चिंतियं तीए कुलबालि- 27
 याए जहा मम पुल्लइयं अंगं, पउम-दल-कोमल-ददिणाइं च करयलाइं, संधियणो ण संधिओ, तेण जाणिसो सो चय इमो-
 मह हियय-चोरो ति चिंतियं मंलत्तं तीए ।
- 30 'तुह फंसुव-रस-वम-रोभेचुवइय-मेय-राणहिं । अंगेहिं चिय सिट्ठे मण-सोहण मुंच एत्ताहे ॥' 30
 इय भणिए य हसमाणेण सिट्ठित्थं नयण-जुवल्लयं राय-तणणं । अब्भुट्ठिया य सा सवंभमं कुलबालिय ति । उवविट्ठो राय-

1) J पुराणा, J गायबडो, P संनयं ति. 2) JP अवि य कामिणी, J नेर for तुंग, P पुराणा. 3) P transposes राया before कोसलो, J वीणत्र for दिवय, J om. पणिमइय. 4) J चंडवां, P om. महिवीड, P-विणिज्जयासेस, P वजहरो, P om. जग्ग. 5) P सज्जे, P अवे [लीवे हि]. 6) P माहिलेण उग्गओ वि, J पर for पार, P विजाणयुणाहियाणण. 7) J अवि for रूव, P वारिओ य विघर-विघइ णियय. 8) P-सेट्ठिणा, J तत्थ गच्छमाणेण. 9) J तीय वि. 12) P adds य after विमुहेण, J उट्ठीकया. 13) P गवलंत्तेण for गयणणं, J तीय य. P om. य, J दाहिणे, J हत्थे for हत्थेणं, P om. गंतुं पयो. 14) P om. इमीए, P वियडुत्तणं, P तीय य वियडुत्तण. 15) P वि-मालावहरिय, P तीय for तीए. 16) P जाव य मल्लिकुमुभराय ववरा रवी, J णिगयय, P रहर, J सेवेतो, P वारुणी नवरं. 17) P गगसमित्तो, P रुदिरकमलकरवसओ अविहरि. 18) P कुपुरिस, J जल for जण, P पयट for पयड, P कलिजयसमे पउओ. 19) P विचिच्छ for विधिण्ण. 20) J सिहि for मिरि. 21) J चित्तो. 22) P समुट्ठिओ, J कयणंण णियत्थं, P णेण सुणियत्थं, J मामलफलाच्छुरिया, J om. च. 23) P माणं for माण, J अहिंसारिण, P वेसग्गहो. 24) P विरंणं for करणं. 25) P पज्जंतं, P पराहुत्ता, P om. पि, J दीणविमणं, J om. सा. 26) P निइय for णिइय, P om. दीह, J om. भुया. 27) P डेणेण, P हरिस for फरिस, J मूसलिअ for ममूमसिय, P कंचुयं, P समुव्वहंती चिय निं, J om. चिंतियं तीए. 28) J कोमलकदिणाइं P कगलरदिणाइं, J संधियणोसिण्णिओ, J om. मो. 29) P संकतीए for संकत्तं. 30) P om. वम, P सेयराहेहिं. Here, after एत्ताहे, P repeats इय भणिए पउसमाणेण सिट्ठित्थं नयणजुवल्लयं रायतणणं । अब्भुट्ठिया य सा सवंभमं कुलबालिइं अंगेहिं सिट्ठे मणमोहण मुंच एत्ताहे । 31) P हसमाणेण.

- 1 तणओ । भणियं च णेण । 'सामिणि, मह जीएण साविया, तं साह फुडं किं विचिंतेसि' । तीए भणियं । 'सुहय, एवं 1
विचिंतेमि । रायउत्त,
- 3 सीलं सलाहणिज्जं तं पुण सीलाओ होज्ज दुगुणं व । सीलेण होइ धम्मो तस्स फलं तं चिय पुणो वि ॥ 3
सीलेण विणा किं जीविणं तुमए विणा वि जीएण । इय चिंतेतीए तुमं वर-जस डोलायए हिययं ॥'
इमं च सोऊण भणियं रायउत्तेण । 'सुंदरि, जइ एवं तुमं सीलवई सील-मंग-विमणा य, ता अच्छ तुमं जहासुहं, वच्चामि'
6 त्ति भणमाणो वेत्तुं खगं समुद्रिओ, गहिओ य ससंभमं उवरिम-पट्टेसुयइंते कुलबालियाए । भणियं च तीए । 6
'हरिऊण मज्झ हिययं वच्चामि रे चोर तं मुहा कत्तो । कंटे मुणाल-कहिणं बाहु-लया-पासयं देमि ॥'
§ १४४) एवं भणिओ उवविट्ठो आसणं रायउत्तो । भणियं च कुलबालियाए । 'रायउत्त, जं एत्थ परमत्थं तं ता
9 णिसामेसु, पुणो जहा-जुत्तं करिहिसि । अत्थि इमीए चेय कोसला-पुरीए णंदो णाम महासेट्ठी । रयणरहा णाम तस्स भज्जा । 9
तीए उयरे अहं समुप्पण्णा । णामं च मे कयं सुवण्णदेवी । वल्लहा य जणणि-जणयाणं । तओ तेहिं दिण्णा विणहुयत्त-पुत्तस्स
हरिउत्तस्स । सो य मं परिणेतं दिसादेस-वणिजेणं जाणवत्तमारुहिउं लंकाउरिं गओ । तस्स अज्ज दुवालसमो वरिसो
12 सात्तिरेगो, गयस्स ण य से पउत्ती वि सुणीयइ त्ति । इमं च कुवियप्प-सय-भंगुरं विसय-मच्छ-कच्छबुक्कडे इंदिय-महामयर-12
समाउलं काम-महावत्त-दुत्तारं जोव्वण-महासागरं तरंतीए अवहरियं विण्णाणं, गलिओ गुरुयण-विणओ, परिमुसियं विवेग-
रयणं, पम्हुट्टं गुरु-वयणं, वीसरिओ धम्मोवएसो, अवहत्थियं कुलाभिमणं, उक्खुडिया लज्जा, अवगयं दक्खिणं, पणट्टं
15 सीलं, सव्वहा अणय-णरिंद-सुर-सुंदरी-पिट्ठ-पीण-णियं-ब-बिंबयड-णिवास-सुह-दुल्लिओ भगवं कुमुमाउहो बाहिउं पयत्तो । 15
तेण य बाहिज्जमाणीए समुप्पण्णं हियए वियपंतरं । अहो,
जर-मरण-रोग-रय-मल-किलेस-बहुलमि णवर संसारे । कत्तो अणं मोक्खं अचो पिय-संगमाहितो ॥
18 ममं च मंद-भाइणीए सो णत्थि । ता णिरत्थयं मय-समं जीविंयं जोव्वणं च धारिमो । चिंतिऊण मरण-कय-ववयाया । 18
§ १४५) तओ सुदिट्ठं जीव-लोयं करेमि त्ति चिंतयेती आरूढा जाल-नावक्खए । तत्थ य संपत्तीए तुमं मए दिट्ठो । तओ
रायउत्त, तुमं च दट्ठणं ण संका, ण भयं, ण लज्जा, ण माणो, ण गच्चो, णादेकारो, ण सुहं, ण दुक्खं, ण राइं, ण दिव्हो । सव्वहा
21 मुढा इव, सुत्ता इव, मत्ता इव, परायत्ता इव, मया विव, ण-याणिमो, ण सुणिमो, ण ज्ञपेमो, ण पंदिमो, ण वेइमो, ण वेइमो, इमं पि 21
ण-याणामि 'का मम अवत्थ' त्ति । एयावत्थाए य तए परामुसियं वच्छयलं, अत्तगो उट्ठीकया एक्का अंगुली । तओ मए पडिवणं
जहा रायउत्तेण कया तहा मह सण्णा कया । हियय-परिमासेण ताव कइयं जह पडिइयमि मे हिययस्स । अंगुलीय य साहियं
24 देसु एक्कं संगमं ति । तओ मए वि रहस्स-भेय-भीरुणाए तुज्जं देविया खगवत्तिणी जहा किर खग-महाओ पावेमि, तओ 24
सागयं ण अण्णह त्ति । तओ रायउत्त, तएभुइं तुह संगमासा-विणडिया धिणियत्त-यरण-णिच्छया सीलं वेग-विमणा मज्झम-वम-
वेवमाणा किं पि सुमिणंतर-वुत्तं पिव मण्णमाणी टिया जाय तुमं आगओ त्ति । तओ एत्थ ताव जत्तं जइ मह कुलहरं दुस्सील
27 त्ति परिहवो ण होइ । अणो च तहापिह-संविहाणणं जइ तुमं णाहो अवहत्थिय-लोयाववाओ संगच्छमि तओ तुह पच्छा, 27
अण्णहा वरं मम मरणे ति भणमाणी समालंगिया वण-मय-करणं व वणलया । एत्थंतरमि पयत्तियं तं किं पि जं बुहयण-
सय-परिणिदिंयं तरुणीयण-मण-मोइणं मोहणं ति । तओ तहा-मदभाच-महाणदभराण य परोपराणुराओ चिय समुगाओ
30 पुव्व-संज्ञाराओ, गुरुयणोवएसो चिय विवल्हं तरया, अवरोपर-हिययाइं व वेइं । च-इयाय-वुवलयाइं, लज्जा विव थोयाव- 30
सेसा रयणी, सूर-पुरिस-कय-संगमा इव रयणी-विलया कंचुहणं चिय बुक्कायिं जाय-संसेण । एत्थंतरमि रायउत्तो अवहणो
मंदिराओ रज्जु-पओण, जहागयं च पडिमओ त्ति । एवं च अणुविणं तस्स तहा परिवसेतरम संपत्तो अट्ठमो मामो । तहिं च कहिं

1) P om. for सामिणि, J किं विचिंतेमि. 2) J विचिंतेमि. 3) P दुगुं वा. 4) J चिंतेतीय. P डोलाय. 6) P गरिउं, P समंभम उवरिम-पट्टेसुयं. 7) P महं for सुग, J बाहुल्य, P देमि for देमि. 8) J adds व after एवं, J भणिओवविट्ठो. 9) J करिहो. P करिहिमि, P चेय. 10) P जोतर (उयरे?) for उयरे, P om. अट. J सुवण्णदेवा, P adds नामं च before जणणि, P जणिणि. 11) J हरिउत्तरया, P om. व. P जाणवत्तं मारुहिउं लंकाउरिं, P दुवारसमो. 12) J om. त्ति, P कच्छबुक्कडे. 13) J गुरुण for गुरुयण. 14) P पम्हुट्ट, P कुयादिमाणं. 15) J om. गुर, J सुंदरी, P विवट for उयड. 16) P बाहिज्जमाणीए, P होज्ज for अटो. 18) P म for ममं च, P निरवयममं, P च for च, P धारिमि. 19) P adds य before आरूढा, P om. य, P तुमं विदिट्ठो. 20) P दट्ठणं before रायउत्त, P om. य दट्ठण, P स वाहा. 21) P सुत्तादि, P om. मया विव, J याणिमो ण सुणिमो ण सुणिमो, J ज्ञपेमो for कंदिमो, P वेइमो for वेइमो. 22) P om. य, P 'मियं वच्छयं वच्छयलं अत्तगो, J बुट्ठीकया, P तओ for तओ. 23) P उंतेण कयं भा मज्झसण्णा, P जहा, P adds य before मे. 24) J अ for वि, P भय for मेय, P कुज्जं for तुज्जं, J समवत्तणी. 25) J णण्णह त्ति, J तएभुइं, P संगमासाय. 26) P कं पि, J ट्ठिया, J om. जाय तुमं etc. to संवच्छमि तओ तुह पच्छा. 29) P सट्ठस for मय, J तरुणीयण, P 'णुराओ. 30) J संज्ञाराओ गुरुयणोवएसो, P हिययड, J वि for व, P थोयावमेगी. 31) P सु for सूर, J य for उव, J repeats रयणी, P विवयाए, J य for विय, J जायसंसेण. 32) P मंदराओ, P om. च after एवं, P om. च (before कहिं).

1 पि तहाविह-कम्म-धम्म-भविष्यव्याण् तीण् उयरे गब्भो जाओ । अपुदियहोवहुत्त-लक्खण-दंसणेण गब्भेण य पयडीभूया, 1
जाणिया सहियणेण, पयडा कुलहरम्मि, वियाणिया बंधुयणेण । एवं च कण्ण-पारंपरेण विण्णायं णंदुसिट्ठिणा । तेणावि संजाय-
3 कोवेण को एवं मण् परिहावह् त्ति णितेइयं कोसलस्स महारण्णे । 'देव, मह दुहिया पउत्थवह्या । सा य रक्खिज्जती वि 3
केणावि अपुदियहं उवभुंजिज्जह् त्ति । तं च देवो दिव्वाए दिट्ठीए अण्णिस्सउ' त्ति । राइणा भणियं 'वच्च, अण्णिपायेमि' ।
आणत्तो मंती । उवलद्धं च मंतिणा । दिट्ठो तोसलो रायउत्तो । णिवेइयं तेण जहा 'देव, तोसलो रायउत्तो मण् उवलद्धो'
6 त्ति । तओ गुरु-कोव-फुर-फुरायमाणाहरेण आहट्ठो राइणा मंती । 'वच्च, सिग्घं तोसलं मोरसु' त्ति । मंती वि 'जहाणवेसि' त्ति 6
भणिऊण रायउत्तं घेत्तुं उवगओ मसाण-भूमिं । तत्थ य कजाकज्ज-वियारणा-पुव्वयं भणिओ मंतिणा । 'कुमार, तुह कुविओ
राया, वच्चो आणत्तो, ता तुमं मह सामी, कह विणिवाएमि । कज्जं च तए । ता वच्च, जत्थ पउत्ती वि ण सुणीयइ । ण तए
9 साहियच्चं जहा 'अहं तोसलो' त्ति भणिऊण विसज्जिओ । सो वि य कयावराहो जीविय-भय-भीरुओ पलाइओ, पत्तो 9
पलयमाणो य पाडलिउत्तं णाम महाणयरं, जत्थच्छण्णं सयं राया जयवम्मो । तत्थ हयर-पुरिमो विय ओलग्गिउं पयत्तो ।

§ १४६) इओ य कोसलापुरीण् तम्मि सा सुवण्णं देवा उवलद्ध-दुस्सीलत्तण-विधा परिविस्सिज्जमाणी वंधु-वरणेण णिदिज्जमाणी
12 जणेण रायउत्त-विरहुद्विग्गा य गब्भ-भर-विणडिया चिंतिउं पयत्ता 'कत्थ उण सो रायउत्तो' त्ति । तओ कह कह वि णायं 12
जहा मम दोसेण मंतिणा णिवाइओ त्ति । तं च णाऊण कह वि छलेण णिग्गया बाहिं घरस्स, तओ णयरस्स । राइए पच्छिम-
जामे पाडलिउत्तं अणुगामिओ सत्थो उवलद्धो । तत्थ गंतुं पयत्ता । सणियं सणियं च गब्भ-भर-णीसइंणी गंतुं अचापंती
15 पिट्ठओ उज्झिया सत्थस्स अणेय-ताल-हिंताल-तमाल-सज्जणुण-कुडय-कयंबंब-जंबू-सय-संकुले वणंतराले । तओ कमेण य वच्चती 15
मूढ-दिमा-विभाया पणट्ठ-पंथा तण्हाभिभूया छुहा-खाम-वयणा गब्भ-भर-मंथरा पह-पम-किलंता सिग्घ-सह-विहुया वध-वाय-
वेविरा पुलिंद-सह-भीरुया गिम्भ-तत्त-वालुया-पउलिया उवरि-दूसह-रवियर-संताविया, किं च बहुणा, दुक्ख-सय-समुह-
18 णिवडिया इत्थि-सहाव-कायर-इत्थियत्तणेण चवमाणी, थाणुं पि चोरं मण्णमाणी, रुक्खं पि गय-वरं विकप्पयंती, हरिणं 18
पि वग्घं, म्मयं पि सीहं, मिहिणं पि दीवियं, सच्चहा तणिए वि चालिए मारिय त्ति, पत्ते वि चलंते गिलिय त्ति, भय-
वेविर-थणहरा विलविउं पयत्ता ।

21 'हा ताय तुज्ज दइया आसि अहं बाल-भाव-समयम्मि । णण्हि कीस अधण्णाणं तं सि जाओ विगय-गेहो ॥ 21
हा माए जीयाओ वि वल्लहिया आसि हं तुहं दइया । णण्हि मं परितायसु विणडिज्जति अरण्णम्मि ॥
हा दइय कत्थ सि तुमं जस्स मण् कारणे परिच्चत्तं । सीलं कुलं कुलहरं लज्जा य जसं सहियणो य ॥
24 हा माए हा भाया हा दइया हा सहीओ हा देवा । हा गिरिणइ हा विंझा हा तरुवर हा मया एम ॥' 24
त्ति भणमाणी सुच्छिया, धस ति णिवडिया धरणियत्ते ।

ण्णंतरम्मि सूरुो मय त्ति णाऊण गरुय-दुग्घवत्तो । परिवियलियंसुवाओ अवर-समुह-इहं पत्तो ॥
27 थ्रेगीह व दिण-लच्छोय मग्ग-लग्गो रवी रह्य-पाओ । रत्तवर-णव-वहुं व संझं अणुवट्ठइ वरो व्व ॥ 27
तीय य मग्गालग्गा कम्मणसुय-पाउया पिय-सहि व्व । तिमिरंजणंजियच्छी राई रमणि व्व संपत्ता ॥

§ १४७) तओ एवं च विंझ-गिरि-सिहर-कुहरंतराल-तरुण-तमाल-मालाणिमे पसरिण् तिमिर-महा-गइंद-वंदे एयम्मि प्ररिसे
30 रयणि-समण्, णाणाविह-तरुवर-कुसुम-रेणु-मयरंद-विंदु-मासल-सुह-सीयलेण समासत्था सुरहि-वण-पवणेण सा कुलवालिया । 30
समासत्था य ण-याणण् कत्थ वच्चामि कत्थ ण वच्चामि, किं करेमि किं वा ण करेमि, किं सुदरं किं वा मंगुलं, किं कयं सुकयं

1 > J तीय for तीण, P वहुय for 'वहुत्त, P om. य (after गब्भेण), J पयटीहूआ. 2 > J अधियाणिया for वि जाणिया, P कज्जपरंपरेण. 3 > J om. एवं, P परिवय त्ति निवे कोदयं, J पउत्थवई. 4 > P उवभुंजउ, J दिव्वा (ए added on the margin) दिट्ठीए, P अण्णिपायेमि. 6 > J कुलकुलं, P रायणा. J om. मंती वि. 7 > J अणियं for भणिऊण, J वियारणा, P एवं तं भणिओ, J भणितो. 8 > J तुज्जं for तुमं, J कटि for कए. P न भणियइ त्ति, J adds य before तए. 9 > J भणिऊण, J om. य, J जीवियभिओ, J पलयउं, P पलारओ पयत्तो. 10 > P om. य, P पाडलियुत्तं. P जयवम्मो, J -पुरिस इव करस उलग्गिउं. 11 > P इवओ, P om. य, P inter. मग्गि and कोसलापुरीण, J om. सा, J सुवण्णदेवा ओलद्धदुस्सीलत्तणचिद्धा. 12 > P विणिवडिया. 13 > P णिवासिउ त्ति, P पुरस्स for धरस्स. 14 > P पाडलिपुत्त, P सत्थो लद्धो, P तत्थं. 15 > J संज्जणय P सज्जण, J कयंबंब, P जंबू. 17 > J वालुअपउत्तिया, P om. च. 18 > P कायरा, P adds चैव before वेवमाणी, J थाणुं for चोरं, P चियपायंती for विकप्पयंती. 19 > P पिव for पि, P ससं for समयं, P पिव दीवयं, P तणे वि चालिए, P चलंते. 20 > P थणाउत्तावलविउं. 21 > J अइण्णाए. 22 > P om. वि, P निवडिज्जती अरण्णम्मि. 24 > J ताया for भाया, P गिरिणइ, J हो विंझं, J तरुवर P तरुवर. 26 > P नय for मय, P गुरय. 27 > J थ्रेतीअ वि, P लच्छोमग्गं, J -याओ, P रत्तवरं, P om. व. 28 > P राई रमणि. 29 > J इरि for गिरि, J माणालि. 30 > P रुवर for तरुवर, J om. रेणु, P मासल, P om. य. 31 > P पयाए, P om. कत्थ ण वच्चामि, P करेमि, P om. किं वा ण करेमि.

1 होहिह् ति । एत्थतरम्मि गढम्मस्स जवमो मासो अह्कंतो, अट्ट य राह्दिणाह् । जवम-राह्-पढम-जामे तम्मि य समण् वट्टमाणे 1
वियसियं गियंवेण, वियणाह्यं णाहि-मंडलेण, सूलाह्यं पोटेण, थंभियं ऊरु-जुयलेण, चलियं अंगोहिं, उच्छलियं हियण्णं,
3 मउलियं अच्छीहिं, सब्वाहा आसण्ण-पसव-चिंधाह् वट्टिउं पयत्ताह् । तओ तम्मि महाभीमे वणंतरं राह्ण्ण असरणा अश्वला 3
भीया विसण्णा परिचत्त-जीवियासा जहा-भविष्य-दिण्ण-माणसा किमेयं ति पढम-पसूया कह् वि कम्म-धम्म-संजोण्ण
दर ति लीव-रूव-जुवल्यं पसूया । पच्छा जाव पेच्छइ ता एका दारिया, दुहओ दारओ ति । तं च पेच्छिऊण हरिस-
6 विसाय-विणडिज्जंत-हियवया पलविउं पयत्ता । 6

‘पुत्त तुमं गढम-गओ तेण विवण्णा ण एत्थ वण-वासं । अण्णह अवला-बालय अवला अवला फुडं होइ ॥

पुत्त तुमं मह् णाहो तं सरणं तं गई तुमं बंधू । दइण्ण विमुक्काण् माया-पिह्-विण्णउत्ताण् ॥

9 होइ कुमारीण् पिया णाहो तह् जोव्वणम्मि भन्तारो । थेरत्तणम्मि पुत्तो णत्थि अणाहा फुडं महिला ॥ ७
ताव पिउम्मि सिग्गहो जा दइओ णेय होइ महिलान् । संपिडियं पियाओ वि जाण् पुत्तम्मि संचरइ ॥’

एवं च जाव पलवइ ताव करयरेति वायसा, मूयलिज्जति घृया, चिलिचिलेति सउणया, बुद्धरेति वाणरा, विरवंति राहा
12 सिया, वियलंति तारया, पणस्सण् निमिरं, दीसण् अरुणारुणा पुव्व-दिसा । गियत्तंति गिसियरा, पसरंति पंधिया । एयम्मि 12
एरिसे समण् चिंतियमणाण् । ‘किं वा मण् करियव्वं संपयं । अह्वा ण मण् ताव मरियव्वं, पडियरियव्वो एस पुत्तो, अण्णहा
बाल-वज्जा संपजइ । कयाइ इमाओ चेय इमस्स दुक्खस्स अंतो हवइ ति । ता कहिचि गामे वा गोठे वा गंतूणं आसण्णे
15 पडियरियव्वं बाल-जुवल्यं’ति चिंनेमाण्णण् तोसलि-णामा रायउत्त-णामका मुहा सा परिहिया कंठे बालयस्स । बालियाय 15
वि गियय-णामका । तं च काऊण गियय-उत्तरिम-घण-वत्थइंतण् णिवहो दारओ, दुहय-दिसाण् य दारिया । कयं च
उभयवास-पोट्टल्यं । तं च काऊण चिंतियमिमीण् । ‘ये इमम्मि आसण्ण-गिरि-णिज्जर अत्ताणयं रुहिर-जरु-पूय-वसा-विलिसे
18 पक्खालिऊण वच्चांमि’ । चिंतयंती तम्मि चेय पण्से तं वासइंत-णिवहं बाल-जुवल्यं णिक्खविऊण उवगया गिज्जरणं । 18

§ १४८) एत्थतरम्मि वघी णव-पसूया वणम्मि भममाणो छाउव्वाया पत्ता मामत्थं डिंभ-रूवाणं राह्-भमण-विउला
पसूय-रुहोह-गंध-भाय-चित्ता । वासोभयंत-वद्धं गहियं तं बाल-जुवल्यं तीण् । सा य घेत्त्तणं तं ललमाणोभय-पोट्टल्यं
21 जहागयं पडियाया । वघंतीय य तीण् वणंतराले उज्जयणि-पाडलिउत्ताणं अंतराले महामग्गो, तं च लंघयंतीण् कहं पि मिट्ठि- 21
गंठि-बंधण-बद्धो उक्खुडिओ सो दारिया-पोट्टलो । णिवडिया मग्गम्मि सा दारिया । ण य तीण् वग्घियाण् सुय-सिग्गह-
णिधर-हिययाण् जाणिया गलिय ति । अह्गया सा । तेण य मग्गेण समागओ राइणो जयवम्मस्स संतिओ दूओ । तेण
21 सा दिट्ठा मग्गवडिया, गहिया य सा दारिया । घेत्त्तणं य गियय-भारियाण् ममपिया । तीण् वि जाय-सुय-सिग्गह-भर-णिधरं 24
परिवालितं पयत्ता । कमेण य पत्ता सा पाडलिउत्तं । कयं च णामं से वणदत्त ति । संवट्ठिउं पयत्ता । इओ य सा वघी
थोवंतरं संपत्ता गियय-गुहा, पारडि-णिग्गण्णं दिट्ठा राइणो जयवम्मस्स संतिण्ण रायउत्त-सवरसीण् । तेणावि दंमणाणंतं
27 वघो ति काऊण गुरु-सेह्ल-पहर-विहुरा णिहया, धरणिवट्टे दिट्ठे च तं पोट्टल्यं । मिट्ठिलियं रायउत्तेण, दिट्ठो य तथ् । 27

कोमल-मुणाल-देहो रत्तुपल-सरिम-हत्थ-कम-जुयलो । इंदीवर-वर-णयणो अह् बालो तेण सो दिट्ठो ॥

तं च उट्ठण् हरिस णिधर-माणसेण गहियो । घेत्त्तणं य उवगओ धरं । भणियं च तेण । ‘पिण्, एमो मण् पाविओ तुह पुत्तो’

30 ति ममपियो, तीण् गहियो । कयं च वद्धावणयं ‘पच्छण्ण-गढमा देयी पसूय’ ति । दुबालमसे दिक्खो णामं पि से विरह्यं 30
गुण-णिण्णणं वग्घदत्तो ति । सो वि तेण बालण्ण ममयं सवरसीहो पाडलिउत्तं पत्तो । तथ् य मग्ग रायउत्तंति समं कीलं-
तस्स मोह-पउरस्स से कयं णामं तेहिं मोहदत्तो ति । एवं च मोहदत्त कयाभिहणो संवट्ठिउं पयत्तो ।

1) J राह् दिणाहं, P राह्दिणा । जवमपयं रिणे जवमराउपढमे. 2) P विण्णायं नाभीमंडलेणं, J वंभियं for वलियं, J उच्छलियं. 3) P पसवण for पसव, J व (च?) before वट्टिउं, P असणं वयया. 4) J कहं (य for कइ वि, P om. कम्म. 5) P ति लीजुक्खयासूया, J om. पच्छा, P adds पेच्छंति before जाव, P om. पेच्छइ वा. 6) P विणडिज्जंतीविय-विया पलविउं पयत्ती. 7) P गढमगवो, P विवण्णण, J अवला for बालय P पिया for वक्या अवला. 8) P गयं for गई, P पिय for पिय, J विण्णमुक्काण् ॥ 9) P यत्तंमि पु and repeats जज्जाते तं सरणं etc. to जोय्यांति भन्तारो. 10) J ना विउत्तसिण्णहो वा, J विज्जाण P वि जाउ. 11) P वट्टइ, P करयाति, P घृयाया, P बुक्कारेति. 12) P वियरेति for विकरंति, P दीसण् for दीसा, P adds णिवहो after पयदिसा, P om. गियत्तंति गिसियरा etc. to सरियव्वं पडियरिय वो. 14) P बालवज्जा संपज्जति, P चय for चेय, P गोठे for गोठे, P आसण्णे परिवालियव्वं. 15) P गोराओणो रायउत्तम सामका, J वारियवि. 16) P om. गियय after काऊण, P उत्तरि for उत्तरिम, J om. घण, P तीण् for तीण, P बद्धो for विवहो, J om. य, P om. च. 17) P उववास, J चिंतियं मीमी, P जर for जर. 18) P चेय, J वासइं वाउ, P बालय जुवल्यमि णि, P जोव्वणया. 19) P छाउव्वाया, P राईममाणं वियोदा पसूय. 20) P गहोहोय, P बंध for बद्ध. 21) P पडियया, P तीण् वणंतवणंतमले उज्जयणीपाडलिउत्ताणं, P repeats महा, J च संवयंतीण्, P चि for चि. 22) J णिवडिओ, P तीय वग्घीय. 23) J नंदयाण्, P om. य, P जयवम्मस्स. 24) P om. य in both the places, J तीय for तीय, P om. भरिधर पारिवालितं etc. to पारडिगग्गणं. 26) P गिदिट्ठा for दिट्ठा, P सब्बसीलेण । 27) P दिट्ठिय for दिट्ठं न, J मिट्ठिल्ये. 28) P बालो for मुणालदेहो, J सवलवत्तण for सरिमहत्थ, P कय for कम्म. 29) P पडिह for हरिस, P स for एमो. 30) P मययंयिओ, P om. च. 31) P सवरसीहो पाडलिपुत्तं, P om. य, P रायउत्तंति. 32) J om. तेहिं, J adds एवं च मोहदत्तो ति ॥ before एवं च.

- 1 § १४९) इमा य से माया तम्मि वणे आगया गिज्जराओ जाव ण पेच्छइ तं बालय-जुवलय । अपेच्छमाणी 1
य मुच्छिया गिवडिया धरणिवट्टे । पुणो समासत्था य विलविउं पयत्ता ।
- 3 'हा पुत्त कथं सि तुमं हा बाले हा महं अउण्णाए । कथं गओ कथं गया साहह दे ता समुल्लवं ॥ 3
एत्थं चियं ते पत्तो कहं सि मए दुक्ख-सोय-तवियाए । एत्थं चियं मे मुचसि अब्बो तं कहं सि गिक्करुणे ॥
पेच्छइ महं देव्वेणं दंसैऊणं महाणिहिं पच्छा । उप्पाडियाइँ सहसा दोणिणं वि अच्छीणि दुहियाए ॥
- 6 पेच्छइ दइय-विमुक्का वणं पि पत्ता तहिं पि दुक्खत्ता । पुत्तेणं पि विउत्ता आदत्ता कहं कथंतेण ॥' 6
एवं च विलवमाणीए दिट्ठं तं वग्गीयं पयं । अहं वग्गीयं गहियं ति तं जाणिऊणं, 'जा ताणं गइँ सा ममं पि' तं चैयं वग्गी-
पयं अणुसरंती ताव कहिं पि समागया जाव दिट्ठं एक्कमि एएसे के पि गोट्ठं । तत्थं समस्सइया एक्कीए धरं आहीरीए । तीए
9 वि धूयं ति पडिवजिऊणं पडियरिया । तत्तो वि कहं पि गामाणुगामं वच्छंती पत्ता तं चैव पाडलिउत्तं णगरं । तत्थं 9
कम्म-धम्म-संजोएणं तहाविह-भविद्यव्वयाए तम्मि चैयं दूयहरे संपत्ता, जत्थच्छए सा तीए दुहिया । तीए साहु-धूयं ति
काऊणं समपिया । तं च मज्जयंती कालावयंती य तहिं चैयं अच्छिउं पयत्ता ता जाव जोव्वणं संपत्ता । जोव्वणे य
12 वट्टमाणी सा करिसा जाया । अवि य । 12
जं जं पुल्लए जणं हेलाए चलंत-णयण-जुवलेणं । तं तं वम्मह-सर-वर-पहार-विहुरं कुणइ सव्वं ॥
§ १५०) इम्मि एरिसे जोव्वणे वट्टमाणीए वणदत्ताए को उण कालो वट्ठिउं पयत्तो ।
- 15 तरुवर-साहा-बाहा-णव-पल्लव-हत्थ-कुसुम-णह-सोहो । पवणुवेल्लिर-हल्लिर-गच्चिर-सोहो णव-वसंतो ॥ 15
तओ तम्मि सुरवर-णर-किंणर-महुय-रमणी-मणहरे वसंत-समयम्मि मयण-नेरमीए वट्टमाणे महामहे संकप्प-वेहिस्स काम-
देवस्स बाहिरुजाण-देवउल-जत्तं पेच्छिउं माइ-समग्गा सहियण-परियरिया तहिं उज्जाणे परिभममाणी मयणूसवाएण दिट्ठा
18 मोहदत्तेण । जाओ से अणुराओ । तीयं वि वणदत्ताए दिट्ठो सो कहिं पि पुल्लओ । 18
जंभा-वम-वलिउव्वेळमाण-णव-कणइ-तणुय-बाहाए । तह तीए पुल्लओ सो लेप्पय-घडिओ व्व जह जाओ ॥
खणंतं च सुणण-णयण-जुयलो अच्छिऊणं चिंतिउं पयत्तो । सव्वहा
- 21 धणो को वि जुयाणो जयम्मि सो चैव लह-माहण्यो । धवल्लुवेल्लिर-णयणं जोवणयं पाविहिइ मीए ॥ 21
चिंतिऊणं सव्वभावं परिथाणणा-णिमित्तं च पटिया एका गाहुलिया मोहदत्तेण । 'वयंस, पेच्छ पेच्छ,
कह-कहं वि दंसणं पाविऊणं भमरो इमो महुयरीए । रंठंती चियं मरिहिइ संगम-सोक्खं अपार्वंती ॥'
24 इमं च सोऊणं चिंतियं वणदत्ताए । 'अहो, गिययाणुराओ सिट्ठो इमिणा इमाए गाहाए । ता अहं पि इमस्स गियय-भावं 24
पयडेमि' ति चिंतयंतीए भणियं ।
'अत्ता भमर-जुवाणे कहं वि तुलग्गेण पाविउं एसा । हांत-विओगाणल-तावियं व्व भमरी हणुरुगेइ ॥'
- 27 तीयं य सुवणणं देवाए अणुहूय-गिययाणुराय-दुक्खाए जाणिओ से अणुराओ । भणियं च तीए । 'पुत्ति, अइच्चिरं वट्टइ इहाग-27
याए, मा ते पिया जूरिहिइ, ता पयट्टं धरं वच्चाओ । अहं तुहं गरुयं कोउहल्लं, ता णिव्वत्ते मयण-महसवे णिज्जणे उज्जाणे
आगच्छियं पुणो वीसत्थं पुल्लोएहिमि उज्जाण-लच्छि भगवंतं अणंमं च' ति भणमाणी णिग्गया उज्जाणाओ । चिंतियं च
30 मोहदत्तेण । 'अहो, इमीयं वि ममोवरि अत्थि णोहो । दिण्णं च इमीए धाईए महं संरंयं जहा णिव्वत्ते मयण-महसवे 30
णिज्जणे उज्जाणे वीसत्थं अणंनो पेच्छियव्वो ति । सव्वहा तहियहं मए आगंतव्वं इम्मि उज्जाणम्मि' ति चिंतयंती सो
वि णिग्गओ । सा य वणदत्ता कह-कहं वि परायत्ता धरं संपत्ता देहेण ण उण हियणं । तत्थं वि गुरु-विरह-जलण-जालावली-
33 करालिज्जमाण-देहा करिसा जाया । अवि य । 33

1 > J वाच for बालय. 2 > J om. मुच्छिया, P मुच्छिया, J om. य. 3 > P साइमु दे, J दे ता अ संलावं. 4 > P संपत्तो for तं पत्तो, J inter. सोय and दुक्ख. 5 > P पेच्छ मए, P मज्जनिही, P सि for वि. 6 > P वणमि पत्ता, P पत्तेणं for पुत्तेण. 7 > P वग्गीयहियं, P यंति for तं, P चे for चैय. 8 > J कहियं पि, P कि पि for कं पि, P एक्कीय परं. 9 > P om. वि, P कहं पि, J om. तं चैय, P पाडलिपुत्तं, J णगरं, P adds य after तत्थ. 10 > P तहावियव्वयाए, J भविद्यव्वयाए य तम्मि, P adds गया before चैय, J दूयहरे, P om. संपत्ता, J तीय for तीए in both the places, P om. साहु. 11 > P कीत्यावती, P ताव for ता, P पत्तो for संपत्ता. 13 > P चलंतणयणजुयलेण, P सरपहरवियणविहुरं. 14 > P adds य before एरिसे, P धणदत्ताए. 15 > P तरुवर, P -नवसोहा l. 16 > P om. वर, P -विहिरस कामएवरस. 17 > P -जुत्तं for जत्तं, P सहियणियरिया, P मयणूसवाएण. 18 > P सो for से, P कहिचि पुल्लओ, J adds अवि य after पुल्लओ. 19 > P कणयणजुय, P -जडियव्व जहा. 21 > P जुवाणो, J -णयणो, J पाविहिइ इमीए, P पाडिती इमीए. 22 > P 'ऊण य सहावपरियाणा निमित्तं, P om. one पेच्छ. 23 > J इमी (अ) for इमो, P रंठंती, P मरिहइ, P जायंती. 24 > P om. इमाए, P om. पि, P नियभावं. 25 > J om. ति, P चिंतियं भणियं. 26 > P विओगाणल, J भाविअव्व for तावि, P हणुरुगेइ. 27 > P वि for य, P -निययाणुरादुक्खाए, P adds गया after से, J पुत्त for पुत्ति, J 'चिरं व इहागया माए पिया. 28 > P om. मा ते, P जूरिही ता, तुमं for तुह, P कोऊयं णिव्वत्ते ता मयण, J मयणे. 29 > J विसाथाए पलो, P -लच्छी, P अणंगवत्ति, J उज्जाणओ. 30 > J वाश्य, P om. महं, J जह. 31 > J om. ति, J om. सो. 32 > J वि वरायत्त. 33 > P 'ज्जमाणदेहा-

- 1 ता झाइ हसइ सूसइ सिज्जह ता पुलय-परिगया होइ । ता स्यइ सुयइ देहं हुं हुं महरकवरं भणइ ॥ 1
ता खलइ वलइ जूरइ गायइ ता पढइ किं पि गाहइ । उम्मत्तिय व्व बाला मयण-पिसाण्ण सा गहिया ॥
- 3 § १५१) एरिसावत्थाए य तीए अइकंते सो मयण-महाकंतर-सरिसो मयण-महूसयो । गरुय-समुकंठ-हलहला 3
पयत्ता तम्मि उज्जाणे गंतुं, ओइण्णा रच्छामुहम्मि । धोवंतरं च उवगया राय-मगंतराले य वट्टमाणी दिट्ठा णेण तोसलिणा
रायउत्तेण । देसंतर-परियत्तिय-रूव-जोव्वण-लायण-वण्णो ण पच्चभियाणिओ सुवण्ण-देवाए । सा वि तेण दूर-देसंतरासंभाव-
6 णिज्ज-संपत्ती ण-याणिया । केवलं तीए वणदत्ताए उवरीं बट्ठाणुराय-गय-दिट्ठिलो महा-मयण-मोह-गहियो इव ण कज्जं 6
मुणइ णाकज्जं, ण गम्मं णागम्मं । सव्वहा तीय संगमासा-विणडिओ चिंतितं पयत्तो । 'अहो,
सो च्चिय जीवइ पुरिसो सो च्चिय सुइओ जयम्मि सयलम्मि । धवळुवेळिर-लोयण-जुवळोएँ इमीएँ जो दिट्ठो ॥
- 9 ता कहं पुण केण वा उवाएण एसा अहारिसेहिं पावियव्व ति । अहवा भणियं च कामसय्ये कण्णा-संवरणे । रूव-जोव्वण- 9
विलास-लास-णाण-विण्णाण-सोहया-कला-कलावाइ-सएहिं धणियं साम-भेय-उवप्पयाणएहि य कण्णाओ पलोहिज्जति । अह ण
तहा वसीभवति, तओ परक्कमेणावि परिणीयव्वाओ, छलेण बलामोडीए णाणा-वेळवगेहि य वीवाहेयव्वाओ । पच्छा कुल-
12 महलणाए तस्सेय समप्पिज्जति बंधुवग्गेण । ता सव्वहा 12
जइ वि फुल्लिग-जलण-जालावलि-भासुर-वज्ज-हत्थयं । सरणं जाइ जइ वि अहवा विफुरंत-तिसुल-धारयं ॥
पायालोयारम्मि जइ पइसइ सत्ति-रवि-तेय-विरहियं । तह वि रमेमि अज्ज पीणुण्णययं थण-भार-त्तिहरयं ॥
- 15 अज्ज इमं मह सीसय्ये इमीएँ बाहु-उवहाण-ललियाए । दीसइ अहवा गिहय-खग्गपहाराहयं धरणियाए ॥ 15
ता सुंदरं चिय इमं, जं एसा कहिं पि बाहिरं पइरिकं पत्थिया । ता इमीएँ चैय मगालगो अलक्खिज्जमाण-हियय-गय-वव-
साओ वच्चामि' ति चिंतयंतो मगालगो गंतुं पयत्तो । मा वि वणदत्ता करिणि व्व सललिय-गमगा कमेण संपत्ता उज्जाणे ।
- 18 पविट्ठा य चंदण-एला-लयाहरंतरेसु वियरिउं पयत्ताओ । एत्थंतरम्मि अणुराय-दिण्ण-हियवणं अणवेक्खिउण लोयाववायं, 18
गलत्थिउण लज्जं, अवहत्थिउण जीवियं, अगणिउण भयं, चिंतियं णेण 'एम अवसरो' ति । चिंतयंतो पहाइओ गिक्कट्ठियामि-
भासुरो । भणियं च णेण मोह-मूढ-माणसेण । अवि य ।
- 21 'अहवा रमसु मए च्चिय अहवा सरणं च मग्गसु जियंती । धारा-जलण-कराला जा णिवट्ठि णेय खग्ग-लया ॥' 21
तं च तारिसं वुत्तंते पेच्छिउण हा-हा-रव-सइ-णिव्वरो सहियणो, धाहावियं च सुवण्णदेवाए ।
'अवि धाह धाह पावइ एसा कणावि मा ऐमइ धूया । मारिज्जइ विरसंती वादेण मइ व्व रण्णम्मि ॥'
- 24 एत्थंतरम्मि सहसा कइिय-करवाल-भासुर-च्छाओ । वग्गो व्व वग्गदत्तो णीहरिओ कयलि-धरयाओ ॥ 24
भणियं च णेण ।
'किं भायमि वण-मइ-लीव-वुण्ण-तरलच्छि लच्छि धरमाणे । रिउ-गयवर-कुम्भत्थल-गिहल्लगे मज्झ भुय-दंडे ॥'
- 27 आयारिओ य णेण सो तोसलो रायउत्तो । 'रे रे पुरिसाधम, 27
वुण्ण-मय-लीव-लोयण-काथर-हियाण तं सि महिलाण । पहरम्मि अलज्ज लज्जा कथं तुमं पवम्मिय होज्जा ॥
ता एहि मज्झ समुहं'ति भणमाणस्स कोवायविर-रत्त-लोयणो मयवइ-किमोरओ विय नतो-हुत्तं वलिओ तोसलो रायउत्तो ।
- 30 भणियं च णेण । 30
'सयल-जय-जंतु-जम्मण-मरण-विहाणम्मि वावड-मणेण । पट्ठुम्मिओ च्चिय णवरं जमेण अज्जं तुमं भरिओ ॥'
त्ति भणमाणेण पेसिओ मोहदत्तस्स खग्ग-पहारो । तेण य बहु-विह-करण-कला-कोसलेण वंचिओ से पहरो । वंचिउण य पेसिओ
33 पडिपहारो । णिवट्ठिओ खंधराओए खग्ग-पहारो, नाच य णीहरियं रुहिरं । तं च करिम्मं दाम्मिउं पयत्तं । अवि य । 33

1) P गायइ for झाइ, P जिज्जइ for भिज्जइ, J हुं हुं. 2) P वरुउ लउ for वउर, P जो for ता, P मण for मयण.
3) J वत्थाअ य, P सो मयणमहाकंतरसरिसो, P हलहला य पत्ता तम्मि. 4) P adds य before णेण. 5) J पविद्याणिओ,
P सुवन्नदेवयाए. 6) P संपत्ती, J -गहिट्ठिलो, P inter. मयण and मया, J कयं for कज्जं. 7) J ण कज्जं for णाकज्जं,
P संगमासायविणडिओ. 8) P जीवो for जीवइ, P चइ for चिय, P इमीएँ सो जा दिट्ठो. 9) P पावियव्व ति, J om. च, P
संठाणे for संवरणे. 10) J om. लास, P om. कया. P कयावाण्णयाएहि सएहि धणेहि य साम°, P उवप्पयाणेहि, J कत्ताओ
उपपलोभिज्जति, P अह तथा नत्थि अवसीहेति तओ. 11) J परिकमेणाय परिणीयव्वाओ, P परिणीयव्वा, P णाणावेळवगेहि य
वीवाहेयव्वा. 12) P तस्सेयमपि°. 13) P चयण for जलण, P चज्जययं, J अज्ज for जइ वि, J विफुरंत P विफुरंत.
14) P पयसति, P च्चिमेमि. 15) J बाहुवहाणललियाए, P गिहयं, P खग्गपहाराहयं, P अज्ज for जइ वि, J विफुरंत P विफुरंत.
P अलक्खिज्जमाणेहि चयगय. 17) J गंतुं for गंतुं, P उज्जाण, तं. 18) J पविट्ठाओ य, P om. य, J adds चंदण after
चंदण, P हियएणं अविवेक्खिउण. 19) P उज्जं for लज्जं, P om अगणिउण भयं, P तेण for णेण, P गिक्कट्ठियामि. 21) P
-जणकराला. 22) P सुवण्णदेवयाए. 23) P धाह for धाह धाह, P वरिसंती. 24) P तीहडिओ कयलिधरयाओ. 26) J
मय for मइ, J पुण्ण P पुण्ण, P रिबु. 27) J पुरिसाधम. 28) J पुण्ण for वुण्ण, J विहाण, P लज्जो, P पवम्मिओ.
29) P मज्झ for मज्झ, J कोवायविरत्त, P रत्तं न लोयणो मइ किमो°. 31) J जण for जय, J तु संभरिओ. 32) P
कोसलेण जं वाचिओ से पवाणो. 33) P खग्गपहारो तवयनीदनीहरियं.

- 1 खग-पहार-गिरंतर-संपत्तो रत्न-सोणिओप्यंको । हियय-गओ विव दीसइ पियाणुराओ समुच्छलिओ ॥ 1
 § १५२) तओ तं च विणिवाइऊण वग्घदत्तो वलिओ वणदत्ता-हुत्ते ।
- 3 तीय वि पिओ ति काउं अह जीविय-दायओ ति पडिवणणो । मिट्ठं च ओसहं चिय कुंभंड-घयं व णारीणं ॥ 3
 समासथो सहिसथो, तुट्ठा सुवण्णदेवा, समासासिया वणदत्ता, भणियं च णेण । 'सुंदरे, अज्ज वि तुह वेवण ऊरु-जुवल्यं, थरहरायइ हियवयं । ता ण अज्ज वि समस्ससहि, एहि इममि पवण-पहल्लिर-कयली-दल-विज्जमाण-सिसिर-मारुण बाल-
- 6 कयली-हरण पविसिउं वीसथा होहि'त्ति भणमाणेण करयल-गहिया, पवेसिया तमि आलिंगिया मोह-सूढ-माणसेण । जाव 6
 य रमिउमाइत्तो ताव य उट्ठाइओ दीह-महुरो सओ । अवि य ।
 मारेऊण पियरं पुरओ जणणीणं तं सि रे मूढ । इच्छसि सहोयरं भइणियं पि रमिऊण एत्ताहे ॥
- 9 इमं च गिसामिऊण पुलइया चउरो वि दिसावहा । चित्तियं च णेण । 'अरे, ण कोइ एत्थ दिट्ठि-गोयरं पत्तो, ता केण उण 9
 इमं भणियं किं पि असंबद्धं वयणं । अहवा होंति च्चिय महाणिहिमि घेप्पमाग उप्पाए ति । पुणो वि रमिउं समाइत्तो । पुणो वि भणियो ।
- 12 'मा मा कुणसु अकज्जं जणणी-पुरओ पिइं पि मारेउं । रमसु सहोयर-भइणिं मूढ महामोह-दयरण ॥' 12
 इमं च सोऊण चित्तियं च णेण । 'अहो, असंबद्ध-पलायी को वि, कहं कथ मम पिया, कहं वा माया, किं वा कयं मए, ता दे अणो कोइ भणइ णाहं' ति भणमाणेण तं चिय पुणो वि समाइत्ते । पुणो वि भणियं ।
- 15 'गिल्लज्ज तए एक्कं कयं अकज्जं ति मारिओ जणओ । एण्हं दुइयमकज्जं सहोयरं इच्छसे घेत्तुं ॥' 15
 तं च सोऊण सासंको कोव-कोऊहलावद्ध-चित्तो य समुट्ठिओ खगं घेत्तूण मरिगउं पयत्तो सहाणुसारेण । जाव णाइदूरे दिट्ठो रत्तासोय-पायवयले पडिमा-संलिओ भगवं पच्चक्खो इव धम्मो तव-त्तेण पज्जलंतो व्व को वि मुणिवरो । दट्ठण य चित्तियं
- 18 णेण । 'अरे, इमिणा मुणिणा इमं पलत्तं होहिइ ति । ण य अणो कोइ एत्थ एरिसे उज्जागे । एरिसो एस भगवं 18
 वीयरगो विय उवलक्खीयइ, ण य अलियं मंतेहिइ । दिव्व-णाणिणो सच्च-त्रयणा य मुणिवरा किर होंति' ति चित्तियंतो उवगओ मुणिगो सयासं । अभिवंदिऊण य चलण-जुवल्यं उवदिट्ठो णाइदूरे मोहदत्तो ति । एत्थंतरे समागया सुवण्णदेवा,
- 21 वणदत्ता, सहियणो य । णमिऊण य चलणे भगवओ उवावट्ठा पायमूले । भणियं च मोहदत्तेण । 'भगवं, तए भणियं जहा 21
 मारेऊण पियरं माऊण पुरओ भइणिं च मा रमसु । ता मे कहिं सो पिया, कहिं वा माया, कथ वा भइणि' ति ।
 § १५३) भणियं च भगवया मुणिणा । 'भो रायउत्त, गिसुगेसु । अत्थि कोसला णाम पुरी । तत्थ य णंदणो णाम
- 24 महासेट्ठी । तस्स सुवण्णदेवा णाम दुहिया पउत्थवइया दिट्ठा रायउत्तेण तोसलिणा, उवहुत्ता य । णायं रण्णा जहा य तीय 24
 गढभो जाओ । सव्वं जाणियं मंतिणा । जहा णिव्वासिओ तोसलो पाडलिउत्तं पत्तो । जहा य गुरुहारा सुवण्णदेवा वणं पविट्ठा, तत्थ बाल्य-जुवल्यं पमूया । जहा अवहरिओ दारओ दारिया य वग्घीण । पडिया पंथे दारिया, ग-िया दूएणं, वणदत्ता य से
- 27 णामं कयं । सो वि दारओ गहिओ सबरसीहेण पुत्तो ति संवट्ठिओ, वग्घदत्तो ति से णामं कयं । एवं च सव्वं ताव साहियं 27
 जाव सुवण्णदेवा मिलिया धूयाए ताव जा मारिओ तोसलो ति । रायउत्त, इमा तुह सा माया सुवण्णदेवा । एसा उण भइणी सहोयरा वणदत्ता । इमो सो उण तुम्हाणं जणओ । अत्थि य तुह तोसलि-णाम-मुट्ठका एसा मुदा । इमाए सुवण्णदेवाए
- 30 मुट्ठका धरि चिट्ठइ ति । ता सव्वहा मारिओ ते जणओ । संपंथं भइणी अभिलससि ति । सव्वहा धिरथु मोहस्स' । इमं च 30
 सोऊण भणियं सुवण्णदेवाए । 'भगवं, एवं जे तए साहियं' ति । वणदत्ता वि ट्ठिया अहोमुहा लजिया । मोहदत्तो वि गिधिवण काम-भोगो असुइ-समे माणुसं ति मण्णतो वरग-मग-लगो अह एयं भणिउमाइत्तो ।

1 > J पदारणभरं, P सोणियप्यंको, J 'पंको', P विय for विट्ठ. 2 > P वग्घदत्तो वलिओ. 3 > J वियो ति. 4 > P तुह चेर एव, J ऊरु. 5 > J सयरसियति; P समाससहिपटि, J वरहरि, J नरिजमाण- 6 > JP होहिइ ति, J पवेसियालिंगिया, P पेसिया for पवेसिया. 7 > P om. य after ताव. 8 > P मारेऊण वि पियरं, P सहोयरं. 9 > P adds से before चउरो, P दिमिवहा, P om. एत्थ. 10 > P असंबद्धवयण, P रमिउमाइत्तो, J समाइत्ता. 11 > J om. वि. 12 > P पियं वि, P भइणी. 13 > P अणेण for य णेण, P repeats कज्जं जणणीपुरओ etc. to असंबद्धपलायी को वि. 14 > P देव for दे, P को वि for कोइ, J om. भगइ, P पि आइत्तं. 15 > P गिल्लज्जकज्जं एक्कं जं माणिओ तए जणओ, P सहोयरं. 16 > P ससंको. 17 > P रत्तासोयसु पायव', J पायथले P पायवथेले. 18 > P तेण for णेण, P कोवि एत्थ, P om. एरिसे, J om. एस. 19 > P 'रागो अउवो लक्खीयइ, J विय उवलक्खीयइ, P अलीयं, P repeats सच्च, J om. किर. 20 > P समासं, P अभिवंदिवंदिऊण चलणजुययं, JP एत्थंतरे. 21 > J om. भगवओ, P उवावट्ठो. 22 > P पुरंऊ for पुरओ, J भइणी मा, P om. मे, P मे for सो, P om. कहिं वा, P adds का वा before मरिणि. 23 > P मुणिणो, P repeats भो, J om. य, P मंदो for णंदणो. 24 > J सुवण्णदेवा, J om. दुहिया, J 'वइयावई दिट्ठा, J णाया for णायं, P om. य before तीय. 25 > P साहियं मुणिणा for जाणियं मंतिणा (J is correcting मुणिणा into मंतिणा), P पाटलिपुत्ते, P om. य. 26 > P बालजुवल्य, J om. य, P दूतेण, J inter. णामं and से. 27 > P सबरसीलेण, P संवट्ठि, P om. ति, J om. से. 28 > P जाव for जा, J om. ति, P एस सो for इमा, P om. मा. 29 > J inter. उण and सो, P तोसलो, P मुदा for मुहा, J एसाए P शमीय, P सुवण्णदेवा मुदं घर चिट्ठइ. 30 > J परि for परि, P adds ता समुदा before ता सव्वहा, P om. ते, J अडिलसि ति. 31 > P om. सोऊण, P सुवण्णदेवाए, P एवं मम जं, J om. वि after मोहदत्तो. 32 > P अमृति रमं.

- 1 'चिकट्टं अण्णाणं अण्णाणं चैव दुत्तरं लोए । अण्णाणं चैय भयं अण्णाणं दुक्ख-भय-सूलं ॥
ता भगवं मह साहसु किं करियव्वं मए अउण्णेण । जेण इमं सयलं विय सुज्झइ जं विरहयं पावं ॥'
- 3 § १५४) भणियं च भगवया मुणिणा ।
'चइऊण घरावासं पुत्त-कलत्ताइं मित्त-बंधुयणं । वेरग्ग-मग्ग-लग्गो पव्वज्जं कुणसु आउत्तो ॥
जो चंदणेण बाहं आलिंपइ वासिणा य तच्छेइ । संथुणइ जो य णिंदइ तत्थ तुमं होसु समभावो ॥
- 6 कुणसु दयं जीवाणं होसु य मा गिहओ सहावणं । मा होसु सदो मुत्तिं चिंतेसु य ताव अणुदियहं ॥
कुणसु तवं जेण तुमं कम्मं तावेसि भव-सय-गिबदं । होसु य संजम-जमिओ जेण ण अज्जेसि तं पावं ॥
मा अलियं भण सव्वं परिहर सच्चं पि जीव-वह-जणयं । वहसु सुइं पाव-विवज्जणेण आकिंचगो होहि ॥
- 9 पसु-पंडय-महिला-विरहियं ति वसही णिसेवेसु । परिहरसु कदं तह देस-वेम-महिलाण संबद्धं ॥
मा य णिसीयसु समयं महिलार्हिं आसणेसु सयणसु । मा तुम-पओहर-गुरु-णियं-ब-विं-ब ति णिज्झासु ॥
मा मिहुणं रममाणं णिज्झायसु कुहु-ववहियं जइ वि । इय हसियं इय रमियं तीय समं मा य चिंतेसु ॥
- 12 मा भुंजसु अइण्हिं मा पज्जतिं च कुणसु आहारं । मा य कग्गसु विहूसं कामाहंकार-जणणिं च ॥
इय दस-विहं तु धम्मं णव चैव य वंभ-गुत्ति-चैचइयं । जइ ताव करेमि तुमं तं ठाणं तेण पाविहिमि ॥
जत्थ ण जरा ण मच्चू ण वाहिगो णेय माणसं दुक्खं । सासय-सिव-सुह-सोक्खं अहरा मोक्खं पि पाविहिमि ॥'
- 15 तओ भणियं च मोहदत्तेण । भगवं जइ अहं जोगो, ता देसु मह पव्वज्जं । भणियं च भगवया 'जोगो तुमं पव्वज्जाए,
किंतु अहं ण पव्वावेमि'ति । तेण भणियं 'भगवं, किं कज्जं'ति । भणियं च णेण भगवया 'अहं चारण-समणो, ण महं गच्छ-
परिग्गहो । तेण भणियं 'भगवं करियो चारण-समणो होइ' । भणियं च भगवया । 'भइमुह, जे विजाहरा संजाय-वेरग्गा
- 18 समण-धम्मं पडिवज्जंतं, ते गयणंण-चारिणो पुव्व-स्सिद्ध-विज्जा चैव होति । अहं च पट्टिओ सेतुंजे महागिरिवंरं सिद्धाणं 18
वदणा-णिमित्तं । तत्थ गयणयलेण वच्चमाणस्स कदं पि अहो-उवओगो जाओ । दिट्ठो य मए एम पुंसो तए घाइज्जंतो ।
णिरुवियं च मए अवहिणा जहा को वि एस इमस्स होइ ति जाव इह भवे चैव जणओ । तओ मए चिंतियं 'अहो कट्टं,
- 21 जेण एसो वि पुंसो 21
जणयमिणं मारुं पुरओ च्चिय एम माइ-भइयाणं । मोहमओ मत्त-मणो णिंठि अइणि पि गच्छिदिइ ॥
इमं च चिंतयंतस्स णिवाइओ तए एसो । चिंतियं च मए एकमकज्जं कयं णेण जाव दुइयं पि ण कुणइ ताव संबोदेमि णं ।
- 24 भवो य एस थोवावसेस-किंचि-कम्मो । जं पुण इमं मे चेट्ठियं तं किं कणउ वराओ । अवि य । 24
गित्थिण्ण-भव-समुटा चरि-म-सरीरा य होति तित्थयरा । कम्मणे तेण अवया गिह-धम्मं होति मूढ-मणा ॥
चिंतिऊण अवहण्णो संयोहिओ य तुमं मए'ति । भणियं च मोहदत्तेण 'भगवं, कदं पुण पव्वज्जा मए पावियव्वं'ति ।
- 27 भगवया भणियं । 'वच्च, कांसंवीण दक्खिणे पाप्पे राहणे पुरंदरदत्तस्स उज्जाणं सुद्ध-पग्ग-चेत-मत्तमीणं ममयसरियं 27
धम्मणंदणं णाम आयरियं पेच्छिदिमि । तत्थ सो सयं चैय णाऊण य तुमं वुत्तं पव्वावइस्सइ'ति भणमाणो समुप्पइओ
कुवल्लय-दल-सामलं गयणयलं विजाहर-मुणिवरो ति । तओ ओ ओ पुरंदरदत्त महाराय, एसो तं चैव वयणं मुणिगो
- 30 गेहिऊण चइऊण घरावासं मं अण्णिममाणो इहागओ ति । इमं च सयलं वुत्तं णिसामिऊण भणियं मोहदत्तेण 'भगवं, 30
एवमेयं, ण एत्थ तण-मेत्ते पि अलियं, ता देसु मे पव्वज्जं'ति । भगवया वि णाऊण उवसंत-मोहो ति पव्वाविओ
वग्घदत्तो ति ॥ ३३ ॥

1) J किं कट्टं for चिकट्टं, J चैय, P आण for लोए, P चैय कयं for चैय भयं । 2) P तु for साहसु. 4) P ते एमं for आउत्तो. 5) P बहुं अणुल्लिपइ, J व for य. 8) P अवि for वय, P जोगो, P तं. 9) J पव्वज्जाए, P विरहियं ति राइए सजिवेसेसु, P संबंधं ॥ 10) P विच्छीजियं for णिसीयं, J प ओहरणं. 11) P कुट्टयवहियं, P तीय. 12) P आहारो, P विभूसं, P जणसं च. 13) P गुत्तिवचदयं, J तुमं ता तट्ठाय. 14) P repeats त जरा, P अहं for अहरा. 15) P तओ for तओ, P भगवं, P जोगो for जोगो, P om. तद, P जोगो. 16) P om. भगवं. 17) P भइमुणइ, P वेरग्ग. 18) J सिद्धवेज्जा, P पत्थिओ, P सेतुंजे for सेतुंजे. 19) J गयणयले, P adds मच्चू before वच्चमाणस्स, J om. अहो, J om. तए. 20) P om. वि, P inter. इमस्स and एस, J om. तं. 21) J एसो for एसो, J om. वि. 22) J पत्थि-हिइ P वेच्छिहेति. 23) P सो for एसो, P तेण for णेण. 24) J वगओ । 25) P वित्थिण्ण, P चरसरिय. 26) J om. च, P पज्जाविक्खज्जा for पव्वज्जा, P om. मए. 27) J om. भगवया भणियं, J दक्खिणेण, P पुरंदरत्तस्स, P om. नेत्त. 28) P तुच्छ for तत्थ, J om. य, P वुत्तं । निसामिऊण तस्स राहणे प-वावदस्स ति. 29) J चैय. 30) J adds एस before मं, J मोहयत्तेण. 31) J एयं इमं for एवमेयं, P तिणमेत्तं, P ताव for ता.

- 1 § १५५) भणियं च पुणो वि गुरुणा धम्मणंदणेण । ततो भो भो वासवमहामंति, जं तए पुच्छियं जहा इमस्स चउ- 1
गइ-लक्खणस्स संसारस्स किं पढंमं णिव्वेय-कारणं ति । तत्थ इमे महामल्ला पंच कोह-माण-माया-लोह-मोहा परायत्तं जीवं 1
3 काऊण दोगाइ-पहमुवणेति । तत्थ इमाणं उदय-णिरोहो कायव्वो उदिण्णाणं वा विहली-करणं ति । तं जहा । 3
जइ अकोसइ बालो तहा वि लाभो ति णवर णायव्वो । गुरु-मोह-मूढ-मणसो जं ण य ताडेइ मे कह वि ॥
अह ताडेइ वि बालो मुणिणा लाभो ति णवर मंतव्वं । जं एस णिरासंसो ण य मे मारोइ केणं पि ॥
6 अह मारोइ वि बालो तहा वि लाहो ति णवर णायव्वो । जं एस णिव्वेव्वो महव्वए णेय णासेइ ॥ 6
इय पुव्वावर-लाभो चिंतेयव्वो जणेण णिउणेणं । रोहप्फलो य कोहो चिंतेयव्वो जिणाणाए ॥
माणं पि मा करेज्जसु एवं भायेसु ताव संसारे । आसि इमो अइयरो अहं पि दुहिओ चिरं आसि ॥
9 आसि इमो वि विअट्ठो आसि अहं चेय अयणओ लोए । आसि इमो वि सुखो पुहइय वि मंगुलो अहयं ॥ 9
सुकुलम्मि एस जाओ आसि अहं चेय पक्कण-कुलम्मि । आसि इमो बलवंतो अहयं चिय दुब्बलो आसि ॥
आसि इमो वि तवस्सी होहिइ वा दीहरम्मि संसारे । एसो बहुं लहंतो अहयं चिय वंचिओ आसि ॥
12 होऊण ललिय-कुंडल-वणमाला-रथण-रोहिरो देवो । सो चेय होइ णवरं कीडो असुइम्मि संसारे ॥ 12
होऊण चिरं कीडो भव-परिवाडीए कम्म-जोएण । सो चिय पुणो वि इंदो वज्जहरो होइ सम्मम्मि ॥
सो णरिथ जए जीवो णवि पत्तो जो दुहाइ संसारे । जो असुहं णवि पत्तो णिय-विरइय-कम्म-जोएण ॥
15 इय एरिसं असारं अथिरं गुण-संगमं इमं णाउं । ता कयरं मण्णतो गुणं ति माणं समुव्वहसि ॥ 15
माया वि कीस कीरइ बुहयण-परिणिदिय ति काऊण । कह वंचिज्जउ जीवो अप्प-समो पाव-मूढेहिं ॥
जह वंचिओ ति अहयं दुक्खं तुह देइ दारुणं हियए । तह चिंतेसु इमस्स वि एस चिय वंचणा पावं ॥
18 जइ वि ण वंचेसि तुमं माया-सीलो ति तह वि लोयम्मि । सप्पो व्व णिव्वियप्पं णिच्चं चिय होइ वीहणओ ॥ 18
तइहा मा कुण मायं मायं सयलस्स दुक्ख-वग्गस्स । इय चिंतिकुण दोसे अज्जव-भावं विभावेसु ॥
लोभो वि उज्जियव्वो एवं हिययम्मि णवर चिंतेउं । णाणाविहं तु अत्थं आसि महंतं महं चेय ॥
21 वेरुलिय-पउमरायं कक्केयण-मरगयाइं रयणाइं । आसि महं चिय सुइरं चत्ताइं मए अवसएणं ॥ 21
जइ ता करेसि धम्मं साहीणाणिं पुणो वि रयणाइं । अइवा रज्जसि पावे पयं पि कडिछयं णस्थि ॥
जइ णव महाणिहीओ रज्जं सयलं च मुंजए चक्की । ता कीस तुमं दुहिओ पावय पावेण चित्तेण ॥
24 कुणसु य तुमं पि धम्मं तुज्ज वि एयारिसा सिरी होइ । ता पर-विहव-विलक्खो ण लहिसि णिहं पि राईए ॥ 24
आलप्पालारंभं मा कुण विहवो ति होहिइ महं ति । पुव्व-कयस्स ण णासो ण य संपत्ती अविहियस्स ॥
अह परिचिंतेसि तुमं भत्तं पोत्तं व कह णु होजा हि । तत्थ वि पुव्व-कयं चिय अणुयत्तइ सयल-लोयस्स ॥
27 महिलायणे वि सुव्वइ पयडं आहाणयं णरवरिंद । जेण कयं कडियलयं तेण कयं मज्ज वत्थं पि ॥ 27
जेण कया धवल चिय हंसा तह बरहिणो य चित्तलया । सो मह भत्तं दाहिइ ण अणयारी तणं चरइ ॥
इय चिंतिकुण पावं मा मा असमंजसं कुणसु लोहं । पडिहण संतोसेणं तह चेय जिणिंद-वयणेणं ॥
30 मोहस्स वि पडिवक्खं चिंतेयव्वं इमं सुविहिएहिं । असुइ-कलमल-भरिए रमेज को माणुसी-देहे ॥ 30
जं असुइ-नुग्गंधं वीभच्छं बहुयणेण परिहरियं । जो रमइ तेण मूढो अब्बो विरमेज सो केण ॥
जं जं गुज्जं देहे मंगुल-रूवं ठविजए लोए । तं चेय जस्स रम्मं अहो विसं महुवरयं तस्स ॥
33 जं असइ ससइ वेयइ मउलइ णयणाइं णीसहा होइ । तं चिय कुणइ मरंती मूढा ण तहा वि रमणिजा ॥ 33

2) P om. णिव्वेय, P -लोभ- 3) P उवरज्जणं विहली. 4) P लाहो ति, J उ for य, P ताडेयं मं कह. 5) P मुणिणो लोभो, P मंतव्वो । जं निएस. 8) P संसारे, P repeats अइयरो, P om. आसि. 9) P अयणओ. 10) P सुकुलं पि, P चेव, P चिय. 11) P होही वा, P बहुं तो अइयं. 12) P चिय. 13) P परिवाडीय. 14) P जो यसुहं, J णय for णवि, P पत्तो न य वियरह. 15) P संगमं व नाऊणं ।, P गुणाभिमाणं. 16) P om. कीस, P वंचिज्जइ. 17) P अह for जह, J दुहवेइ for तुह देइ, P चित्तेइ, P पावा l. 18) P वंचेमि, P व्वि for व्व. 19) J -मग्गस्स ।, J विलग्गासु for विभावेसु. 20) P लोहो. 21) J -पोमराए, J -मरगए य रयणाइं. 22) J साहीणाणं P साहीणावि, P एवं पि. 23) P तुहं for तुमं. 24) P कुज्ज for तुज्ज, P मा for ता. 26) P 'त्तइ सव्वलोगस्स ॥. 28) P तह बरहिणो य चित्तलया ।, 29) P असमंजसं, P विमलेण for तह चेय. 30) P रमं महुव्वीहिं ।, J कलमल. 31) P वीभत्सं. 32) P मंगलरूयं व विरमणिजा ।, P om. ठविजए लोए etc. to मूढाण तहा वि. 33) J ज for जं.

- 1 जण-लज्जणयं पि तद्वा बहुयण-परिणिबियं चिल्लीणं पि । जं सोडीरा पुरिसा रमंति तं पाव-सत्तीए ॥ 1
जइ तीरइ काउं जे पबिहत्थो बिंदुएहिं जलणाहो । ता काम-राय-तित्तो इह लोए होज जीवो बि ॥
- 3 कट्ठिधण-तण-णिवहेहिं पुरिओ होज णाम जलणो वि । ता कामेहि बि जीवो हवेज्ज तित्तो ण संदेहो ॥ 3
उत्तुंग-पीण-पीवर-थण-भारोणमिय-तणुय-मज्जाहिं । सग्गे वि मए रमियं देवीहिं ण चेय संतोसो ॥
माणुस-जोणीसु मए अह उत्तिम-मज्झिमासु गेयासु । रमियं तद्वा वि मज्झं रोरस्स व णत्थि संतोसो ॥
- 6 इय असुई-संबंधं मुंचसु मोहं ति पाव रे जीव । चित्तिसु जिणवराणं आणं सोक्खाण संताणं ॥ 6
इह कोह-माण-माया-लोहं मोहं च दुह-सयावासं । परिहरियव्वं बहु-सिक्खिएण एयं जिणाणाए ॥ त्ति ।
§ १५६) एत्थंतरम्मि सूरुं सोऊणं धम्म-देसणं गुरुणो । पच्छायाव-परदो अह जाओ मउलिय-पयावो ॥
- 9 इमाए पुण वेलाए वट्टमाणीए अत्थगिरि-सिहर-संगमूसुएसु दिणयर-रह-वर-तुरंगमेसु अभिवंदिऊण भगवओ चलण-जुवलयं 9
राया पुरंदरदत्तो वासवो य महामंती पविट्टा कोसंबीए पुरवरीए । सेस-जणो वि जहागओ पडिगओ । साहुणो वि भयवंते
संपलग्गा णियएसु कम्म-धम्म-किरिया-कलावेसु । तओ
- 12 अत्थिहरि-णिहिय-हत्थो अहोमुहो णयण-हुत्त-पाइलो । मत्थुत्थल्लं दाउं वालो इव ववसिओ सूरु ॥ 12
संज्ञा-वहूणं णजइ गयणाहितो समुद्-मज्झम्मि । णिय-कर-रज्जु-णिवदो सूरु कुडओ व्व ओयरिओ ॥
अह मउलिय-पयावो तम-पडलंतरिय-किरण-दिट्ठिलो । संकुहय-करोइय-थेरओ व्व जाओ रवी एसो ॥
- 15 जायस्स धुवो मच्चू रिद्धी अवि भावई धुवं होइ । इय साहेतो व्व रवी णिवडइ अत्थगिरि-सिहराओ ॥ 15
पाडिय-चंडयर-करो कमसो अह तविय-सयल-भुवणयलो । सहसा अत्थाओ च्चिय इय सूरु खल-णरिंदो व्व ॥
अह दिणयर-णरणहे अत्थमिए णल्लिणि-मुद्द-विलयाहिं । पल्लत्थ-पंकय-मुहं अब्बो रोउं पिव पयत्तं ॥
- 18 दट्ठण य णल्लिणीओ रुयमाणीओ व्व मुद्द-भमरेहिं । अणुरुव्वइ बालेहि व सुहरं रुहरे जणणि-सत्थे ॥ 18
उयं मित्तस्स विओए हंस-रवुम्मुक-राव-कलुणाणं । विहडइ चक्काय-जुयं अब्बो हिययं व णल्लिणीणं ॥
सूर-णरिंदत्थवणे कुसुंभ-रत्तवराणुमग्गेण । कुल-बालिय व्व संज्ञा अणुमरइ समुद्-मज्झम्मि ॥
- 21 अवि य खल-भोइयस्स व वहू-पणइयण-पत्थिजमाणस्स ईसि अधयारिज्जंति मुहाइं तम-णिवदंण दिसा-वहूणं, मित्त- 21
विओयाणल-इज्जमाण-हिययाइं व आउलाइं विलवंति सउण-सत्थाइं, ईसालुय-णरिंद-सुंदरीओ इव पडिहय-दूरप्पसराओ
दिट्ठीओ त्ति । अवि य ।
- 24 अत्थं गयम्मि सूरुं तिहुयण-घर-सामिणं व्व कालगाए । रोवंति दिसि-वहूओ जण-णिवहुहाम-सहेण ॥ 24
§ १५७) ताव य को युत्तंतो पयत्तो भुवणयले । अवि य पडिणियत्तइं गोहणइं, णिग्गयाइं चोर-चंद्रइं, आवासियइं
पहिय-सत्थइं, उक्कंठियइं पंसुलि-कुलइं, संज्ञोवासणा-वावडइं मुणिवर-वंद्रइं, विरह-विहुरइं चक्कायइं, समूसमियइं
- 27 णारी-पुरिस-हियवयइं, गायती-जव-वावडइं बंभण-घरइं । मूएल्लिहोति कायल, पमरंति धूय, चिल्लिचिहोति पिंगलओ, 27
संकुर्यंति सउणा, वियरंति सावया, किल्लिकिल्लेति वेयाला, पणचंति डाइणीओ, परिकमंति भूया, रडंति भमुयओ
त्ति । अवि य ।
- 30 वरुंत्तरेसु सउणं णिहा-भर-मंथरे णिमैऊणं । कच्छंतरम्मि बाले मोवइ जणणि व्व वण-राइ ॥ 30
परिसए समयम्मि के उण उल्लावा कत्थ मोऊण पयत्ता । डडिअर-तिल-घय-ममिहा-नडत्तडा-महइं मंत-जाय-मंडवेसु,
गंभीर-वेय-पढण-रवइं बंभण-सालिसु, मणहर-अविस्सत्तिया-गेयइं रुद-भवणेसु, गल्लफोडण-रवइं धम्मिय-महेसु, घंटा-डम-
रुय-सहइं कावालिय-घरेसु, तोडहिया-पुक्करियइं चच्चर-सिंवेसु, भगवणीया-गुणण-घणीओ आवसहासु, सब्भूय-गुण-रइयइं
- 33 33

1 > P बहुयण- 2 > P चाओ for काउं, J पडललो, P तो for ता, P तसो 3 > P णाम णाम जलणो, J सि for वि, P जीवा, P तित्त- 4 > P adds पणपीवर before वणभारो. 5 > P अहमुत्तम, J तदवी, P वि for व, P संदेहो for संतोसो. 6 > J असुइयं संयोज्जा मुंच मोहो त्ति, P संदेहो. 7 > P लोभं, J जिणाणाए ति 9 > P adds य before पुण, J om. वट्टमाणीए, P दिणवर, P अभिवंदिऊण भगवतो चलणजुवलं. 10 > P कोसंबीपुरं, J om. वि, P om. पडिगओ, P भगवंतो संपल-याणियएसु. 12 > P अत्थगिरि, P om. मुहो, J मच्छुत्थल्लं P मत्थुत्थयं, P पयासिओ. 13 > P संज्ञावहू णजइ, P णियकरकेया बद्धो सूरु कुडओ, J ओसरिओ P ओयरिओ. 14 > J पयावा, J त्थोय for किण, P repeats कोइय, P वेय व्व. 15 > P इव for अवि, P उदयत्थ for अत्थगिरि. 17 > P लल्लिणि, P मुहं अब्बो रोउं पिव. 18 > J रुहरो जणणिसत्थो. 19 > P हंसवमुक्क, P चुक्काय 20 > P नरिंदत्थवणे, P रत्तवराणमग्गेण, P अणुमरइ समुज्जम्मि ॥ 21 > J भोइयस्स, P वहू (बहु?), P पणइयण, J दिसावहू. 22 > J om. आउलाइं, P ईसालुवरिंद, J दूरप्पसराओ, P दूरप्पसरा दिट्ठीओ. 25 > P पडिणियत्ताइं गोहणाइं, P वंद्राइं आवासियाइं पहियणसत्थाइं । उक्कंठियाइं. 26 > P कुलाइं, P वावले for वावडइं and repeats अवि य पडिणियत्ताइं etc. to संज्ञोवासणावावटाइं. 27 > P चोर for णाम, P गायंति जाव वावडइं, P संवाइं for घंटाइं, J सुयंती for मूएल्लि, P धूया. 28 > P सउणवियरंति सावया, P परिभमंति, J भुसुओ for भमुयओ. 30 > P सउणा, J भय for भर, P सोयइ जइ जणणि. 31 > P एरिसे य, P डडिअर, P सहइ. 32 > P बंभाण सालोय, J अक्खित्तिआवरं, P गेयाइं, P गल्लफोडण. 33 > P कालालिय, P चुक्करियं, J निसिंवेसु, J गुणणव्वणउ आवं, P गुणरइं.

- 1 थुह-थोत्तई जिणहरेसु, एयंत-करुणा-णिबद्धत्थई वयणई बुद्ध-विहारेसु, चालिय-महल्ल-धंटा-खडहडओ कोट्टजा-घरेसु, 1
सिंहि-कुक्कुड-चडय-रवई छम्महालएसु, मणहर-कामिणी-गीय-मुरय-रवई तुंग-देव-घरेसुं ति । अवि य ।
- 3 कथइ गीयस्स रवो कथइ मुरयाण सुव्वए सद्दो । कथइ किं पि पडिज्जइ इय हलबोलो पओसमिं ॥ 3
कामिणीहरेसु पुण के उल्लावा सुव्विडं पयत्ता । हला हला पल्लविण, सजीकरेसु वासहरयं, पफोडेसु चित्त-भित्तीओ,
पक्खिवसु महराए कप्पूरं, विरएसु कुसुम-माला-घरयई, रणसु कोट्टिमे पत्तलयाओ, विरएसु कुसुम-सत्थरे, संधुकेसु
- 6 धूव-धडियाओ, संजोएसु महर-पलावे जंत-सउणए, विरएसु णागवल्ली-पत्त-पडलए, ठवेसु कप्पूर-फडा-समुग्गए, णिक्खिव 6
कक्कोलय-गोलए, ठवेसु जाल-गवक्खए अत्थुर-सेज्जं, देसु सिंगाडए, णिक्खिव वलक्खलए, पक्खिव चक्कलए, पज्जालेसु पईवे,
पवेसेसु महुं, कौतलं काउं सुहरं णिमज्जसु मज्ज-भायणे, पडिमग्गसु महरा-भंडए, हत्थ-पत्ते कुणसु चसए, णिक्खिव
- 9 सयण-पासमिं त्रिविह-स्वज्ज-भोज-पेज्ज-पडलए त्ति । अवि य । 9
एकेकयमिं णवरं वर-कामिणि-पिडुल-वास-घरयमिं । कम्मं तो ण समप्पइ पिय-संगम-गारवग्घविण्ण ।
- § १५८) एयमिं एरिसे समए को वावारी पयत्तो णायर-कामिणी-सत्थस्स । अवि य ।
- 12 सहि संपइ मज्जा घरं पावइ दइओ त्ति मंडणं कुणसु । अहवा अलं ति मह मंडणेण अंगस्स भारेण ॥ 12
दे तूर महं पियसहि तिलए भालं रणसु दइएण । इय विहलक्खर-भणिरी सहियाहि हसिज्जए अण्णा ॥
आसण्ण-दइय-संगम-सुहिल्लि-हल्लफला हल्लहल्लेति । अण्णा रसणं कंटे बंधइ हारं णियंभमिं ॥
- 15 हौत-जियणाह-संगम-मयण-रसासाय-सुण्ण-हिययाए । अहाए चिय रइओ तिलओ अण्णाए घुसिणेण ॥ 15
अण्णा ण जंपइ चिय आणेसु पियं ति दइ-लज्जाए । पिय-वयण-गडिभणेहिं णयण-पदाणेहिं पयडेइ ॥
संचारियाणं अण्णा अप्पाहंती पियस्स संदेसं । अण्णिय-मग्ग-विहाया सहसा गेहं चिय पविट्ठा ॥
- 18 एहिइ पिओ त्ति अण्णा इमिणा मग्गेण अधयारमिं । तं चेय णियच्छंती अच्छइ जोइ व्व ज्ञाणत्था ॥ 18
अजेकं चिय दियहं अत्ता वच्चांमि जइ तुमं भणसि । अणुदियहं पि भणंती अण्णा दइयं समलियइ ॥
पढमं चिय पिय-वसही गंतव्वं अज्जमेव चिंतेती । गुरु-सज्जस-तोस-विसाय-णिट्ठभरा होइ अण्णा वि ॥
- 21 तम-पडहत्था रच्छा कीय वि जो होइ संभमो हियए । सो हौत-दइय-संगम-सुहेल्लि-पडिपेल्लिओ गलइ ॥ 21
अणुराओ चेय फरो तस्स गुणा चेय णिम्मलं खगं । इय भणिउं एकं चिय पिय-वसहिं पथिया अण्णा ॥
वण्णंति पोढ-महिला किर सो बहु-सिक्खिरो जुवाणो त्ति । णिव्वइ तं पि अज्जं इय भणिरी वच्चाए अण्णा ॥
- 24 वण्णिज्जइ महिलहिं जा रयणाली कुमार-कंठमिं । तं पेच्छइ मह कंटे एव भणंती गया अण्णा ॥ 24
कसिण-पड-पाउर्यगी दीवुज्जोयमिं कुहिणि-मज्जमिं । वोलेइ ज्जत्ति अण्णा कयावराहा भुयंमि व्व ॥
अण्णा भय-भरियंगी अच्छिच्छोएहिं जाइ पुलयंती । णीलुप्पल-णियरेहिं व अच्चंती पंथ-देवीओ ॥
- 27 अण्णा सहियण-भणिया पिय-वसहिं वच्चा ताव मंडेउं । चलिय चिय णिय-सोहग्ग-गडिवरी का वि दइयस्स ॥ 27
वच्चंतीय य कीय वि दिट्ठो सो चेय वल्लहो पंथे । अह पडिमग्गं चलिया पिय त्ति गव्वं समुव्वहिरी ॥
दट्टूण काह दइयं पियाणं समयं सुण्णिभर-पसुत्तं । वच्चाइ पडिपह-हुत्ते धोयंसुय-कज्जला वरई ॥
- 30 अण्णा वासय-सज्जा अच्छइ जिय-णाम-दिण्ण-संकेया । अण्णाएँ सो वि हरिओ भूयाण य वाइओ वंसो ॥ 30
इय एरिसे पओसे जुयईयण-संचरंत-पउरमिं । मयण-महासर-पहर-णीसहा हौति जुवईओ ॥

1) P थोत्तयं, P-निबद्धत्थईवयई बद्ध-, P महल्ला-, P पडहल्लओ. 2) P सिंहिकुक्कुडचडय, P-नेयमुखरश्यई. 4) J को for के, P repeats के उल्लावा, P om one हला, J सजीअरेगु. 5) J पक्खिव महराए P पक्खिववह महराएगु कप्पूरं, P मालाघराई, P repeats विरएगु कुसुममालापराई. P रणसु कोट्टिमे पत्तलयाओ, P विरएसु कुसुमसत्थरो. 6) P धूम for धूव, J ठरएसु, P-फडा. 7) P कंकोलय, J ठरएसु, P सिंगाटए, J चक्कए for वलक्खलए, P om. पक्खिव चक्कए. 8) P महरकौतलकाओ सुहरं, P om. मज्ज, JP have a danda after काउं, J अत्थपत्थेसु. 9) P मयण, P inter. पेज्ज and भोज्ज. 10) J adds वि before ण, P वग्घविओ. 11) P पडुत्तो for पयत्तो. 12) P सह for सहि. 13) J सहिअहि P सहियाई. 14) P संगमसुहिल्लि, J हल्लफला. 16) P संदयदाणिहिं for णयणपदाणेहिं. 17) P अप्पाहंती, P-विभागा. 18) P एही for एहिइ. 19) P अणुदियहंमि, J सगुलियइ 20) J पढमं चिय वसई चेय गंतव्वं, P चिंतेती, P सम्भस. 21) J संभमो, J सुहिल्लि. 22) J खगे for फरो, P भणियं, J पियवसई. 23) P अण्ण त्ति for वण्णंति, P सिक्खिओ. 24) P महिलाराई, J रयणीली P रयणावली, J का वि for अण्णा. 25) P पाउर्यगी, J adds जा before दीवु, J has a marginal note on कुहिणि thus: देशी कुहणी कर्पूरो रथ्या व ।, P-मज्जमि. 26) J अण्णा, J अच्छिच्छोएहिइ, P नयणेहिं व अच्चंती, J पंथ. 27) J सहि for वसहिं, P चविय for चलिय, J कियसोहग्गगविणी. 29) P दट्टूण कोह, P पडिवह, P भोईसुय, P परई for वरई. 30) P जिनणाम, J हूआणं वाइओ. 31) P जुवईयणसंचरंमि मयणमहारहरसर, J पहरेहि नीसहा.

1 § १५९) ताव य अहङ्कतो पठमो जामो चउ-जामिणीए । अवि य ।

मयण-महाहव-वेला-पहार-समयं व पजरंतो व्व । उद्दाइ संख-सहो वर-कामिणि-कणिय-वामिस्सो ॥

३ एत्थंतरम्मि विविह-णरिंद-वंद-मंडली-सणाहं पाओसियं अत्थाण-समयं दाऊण समुट्ठिओ राया पुरंदरदत्तो । विसज्जिवासेस- ३

णरिंद-लोओ पविट्ठो अब्भंतरं । तत्थ पडियगिऊण अंतैरिया-जणं, संमाणेऊण संमाणजिजे, पेच्छिऊण पेच्छजिजे, सब्बहा ६

कय-कायव्व-वावरो उवगओ वास-भवणं । तत्थ य उवगयस्स समुट्ठिओ धित्ते वियप्पो । 'अहो, प्रिसा वि एसा संपया ६

खण-भंगुरा । एवं सुयं मए अज्ज भगवओ धम्मणंदणस्स पाय-मूले । अहो, गुरुणा जणियं वेरगं, असारी-कओ संसारो, ६

विरसीकया भोगा, णिविओ इत्थि-पसंगो । ता पेच्छामि ताव एत्थ मयण-महूसये एरिसे य पओसे किं करंति ते साहुणो, ६

किं जहा-वाइ तहा-कारी आओ भण्णह' त्ति चित्तयंतेण राइणा पुरंदरदत्तेण गहिअं अद्द-सवणं वत्थ-जुवलयं । जस्स य । ६

९ अद्दं ससंक-धवलं अद्दं सिहि-कंठ-गवल-सच्छायं । पक्ख-जुवलं व धडियं कत्तिय-मासं व रमणिजं ॥ ९

परिहरियं च राइणा धवलमद्धं कस्सिणायार-परिक्खित्तं । उवरिल्लयं पि कयं कस्सिण-पच्छायणं । गहिया य छुरिया । सा य ९

केरिसा । अवि य । ९

12 रयण-सुवण्ण-कंठ-सिरि-सोहिय-तणुतर-मुट्ठि-नेज्जिया । वइरि-णरिंद-वच्छ-परिचुंबण-पसर-पयत्त-माणिया ॥ 12

रेहिर-वर-वरंग-सोहा णव-कुवलय-सामलगिया । रिउ-जण-पणइणि व्व सा बज्जइ कडियलए छुरिल्लिया ॥

सा य उत्थल्लियए माणिक्क-पट्टियए दढ-णिबद्ध कयल्लिया । तओ सुयंध-सिणेहो एरिसो य सब्बायर-परियट्ठिओ सीसेण 15

धरियल्लओ । तह वि वंक्क-विवंको पयइ-कस्सिणो सहावो य त्ति कोवेण व उद्धो विणिबद्धो कस्स-उमर-पब्भारो । तओ णाणा- 15

विह-कुसुम-मयरंद-बिंदु-णीसंदिर-कप्पर-रेणु-राय-सुयंध-गंध-लुद्ध-मुद्धागयालि-रण-रणंत-मुहल परिहिय मुंडे मालुल्लिया । 15

तओ अइविमल-मुहयंद-चंदिमा-पूर-पसर-परिफलणइं कडियइं उभय-गंडवासेसु बहल-कत्थुरियामयवट्ठइं । रंजियइं च तीय 18

सेसइं परियर-वल्लगइं पसरंत-णिम्मल-मऊहइं रयणइं । तओ कप्पर-पूर-पउरइं कंकोलय-लवंग-मीसह पंच सोयंधियइं 18

तंबोलह भरियइं गंडवासइं । असेस-सुरासुर-गंधव्व-जक्ख-सिद्ध-तंत-वत्तियए विरइओ भालवट्टे तिलओ । बहले वि 18

तमंधयारे रइ-रेणुवदंसावणए अजण-जोएण अजियइं अच्छिवत्तइं । पूरियं च पउट्टे पउर-वेरि-वीर-मंडलगाभिघाय-णिवडंत- 18

21 णिट्टरत्तण-गुणं वसुणंदयं । गहियं च दाहिण-हत्थेण खग-रयणं ति । तं च केरिसं । अवि य । 21

वइरि-गइंद-पिहुल-कुंभत्थल-दारणए समत्थयं । णरवर-सय-सहस्स-मुह-कमल-मुणाल-वणे दुहावहं ॥

जयसिरि-धवल-णेत्त-लीला-वस-ललितुव्वेल-मग्गयं । दाहिण-हत्थेण गहियं पुण राय-सुएण खगयं ॥

24 तं च येत्तण णिहुय-पय-संचारं वंचिऊण जामइले, विसामिऊण अंगरक्खे, भामिऊण वामणए, वेलविऊण विऊत्तए, छंदिऊण 24

वडहे, सब्बहा णिग्गओ राया वास-घराओ, समोइण्णो दइर-सोमाण-पंनीए त्ति ।

§ १६०) इममि य एरिसं समए केरिसावत्थो पुण वियट्ठ-कामिणियणो भगवं साहुयणो य । अवि य ।

27 एक्को रणंत-रसणो पिययम-विवरीय-सुरय-अर-सिग्गो । वेरग-मग्ग-लग्गो अण्णो कामं पि दूसेइ ॥ 27

एक्को महुर-पलाविर-मम्मण-भणिएहिं हरइ कामियणं । अण्णो फुड-वियडक्खर-रइयं धम्मं परिकहेइ ॥

एक्को पिययम-मुह-कमल-चसय-दिण्णं महुं पियइ तुट्टो । अण्णो तं चिय णिंदइ अणेय-दोसुभइं पाणं ॥

30 एक्को णह-मुह-पहरासिय-दंतुल्लिहण-वावडो रमइ । अण्णो धम्मज्जाणे कामस्स दुहाइं चित्तेइ ॥ 30

एक्को संदुट्टाहर-वियणा-सिक्कार-मउलियच्छीओ । धम्मज्जाणोवगओ अवरो अणिमित्तिय-णयणो य ॥

एक्को पिययम-संगम-सुंहेल्लि-सुह-णिब्भरो सुइं गाइ । अण्णो दुह-सय-पउरं भीमं णरयं विचिंतेइ ॥

33 एक्को दुइयं चुंबइ बाहोभय-पास-गहिय-वच्छयलं । अण्णो कल्लिमल-णिलयं असुइं देइं विचिंतेइ ॥ 33

2 > J वेणी for वेला, P वज्जरंतो. 3 > P नरैद, J पुरंदरयत्तो 4 > P लोओ for लोओ, P अब्भंतरो, J अंतैरिजणं, P संमाणजिजो. 5 > P repeats 'वारो उवगओ, P तत्थ ववगयस्स, P om. वि. 7 > J om. एत्थ, P transposes ते before कि, P करंति. 8 > P जहावाती, J अण्णट्ठि त्ति, P धित्तियंतेण, J पुरंदरयत्तं, J अद्दसवणं P अद्दसवणं जत्थ, P om. य. 9 > J ससंय, J पक्खजुवलेण धडिओ कत्तियमासो व्व रमणिजो. 10 > P परिहियं च, P धवलं मद्धं कगाइ विपक्खित्तं, P om. पि, P गहियं जच्चछुरिया. 12 > J कण्ण for कंठ, P सोहिया, P om. वर, J गेणिआ, P नरिंद-वंदपरिं. 13 > J रिउजण, J लुरुल्लिया. 14 > J सार for सा य. P सा च उच्छुल्लियाए माणिक्कपट्टियाए, J कट्टियल्लिया, J पविट्ठिओ. 15 > J उद्धो for व उद्धो, P उद्धो वद्धो केस तरस तमर पब्भारो. 16 > P मयरिंद, J वंठ for बिंदु, P णीसिंदकप्पर, P सुयंध, P मुद्धासवालि, P परिहिया 17 > P पसरि, P कट्टिअइं, J रंजियं च, P च त्तिय. 18 > P om. रयणइं, J कंकोलय, J repeats लय, P om. मीसह, J पंचामो, P पंच सुअंधियइं. 19 > P तंबोलभरियइं गंडवासइं, J कस्सा for जक्ख, P सिद्धतंत, J कालवट्टो P मालवट्टे 20 > P रेणुपर्यसावण, P अजियइं अत्थवत्तइं, P वइरि for वेरि, P 'याया. 21 > P णिट्टरत्तणुणं, P om. हत्थेण, J om. ति, 22 > P गयंद, J दुहावयं. 23 > P ललियुव्वेल, P दाहिणत्थेण. 24 > J भामिऊण for भामिऊण. 25 > P वासहराओ इमोइजो, P सोमाणपत्तीए वि. 26 > J om. य, P उण for पुण, P कामिणीयणो भगवं साहुणो 27 > J पिययण, J करसिग्गो P अरसिग्गो, P om. मग्ग. 28 > P पलावीमम्मण, J हणिएहिं for भणिएहिं. 30 > P सिंदुल्लि, J धम्मत्थाणे. 31 > P संदुट्टाहरविणोयसिक्कार, P अणिमिस्सणो जाओ. 32 > J मुहल्लि, J प गायइ, P संसारपदं for भीमं णरयं, J विचिंतेइ. 33 > P वास for पास, P कल्लिमल, J असुइं देइं विचिंतेइ.

- 1 इय अं जं कामिजणो कुणइ पमोसम्मि णवर मोहंओ । तं तं मुणिवर-लोओ णिदइ जिण-वयण-दिट्ठिओ ॥ 1
- तओ एवम्मि एरिसे समए णिक्खंतो राया णियय-भवणाओ । ओइण्णो राय-मग्गं, गंतुं पयत्तो । वच्चंतेण य राइणा दिट्ठे 3
- एकं तरुण-जुवइ-जुयल्यं । दट्ठण य चिंतियं 'अहो, किं किं पि सहास-हसिरं इमं तरुण-जुवल्यं, वच्चंता दे णिसामेसि 3
- इमाणं वीसल्यं मंतियं' ति । तओ एक्काए भणियं 'पियसहि, कीस तुमं वीससि ससेउक्कप-हास-वस-वेविर-पओहरा' । तीए भणियं 'अहं पियसहीए अउव्वं वुत्तं वुत्तं' । तीए भणियं 'सहि केरिसं' ति ।
- 6 § १६१) तीए भणियं । "आगओ सो पियसहि, एसो वल्लहो । तेण य समं सही-सत्थो सव्वो पाणं पाऊण 6
- समाडत्तो । तओ एवं पयसे णिज्जंतणे पेम्माबंधे अवरोप्परं पयत्ताए केलीए कइं कइं पि महु-मत्तेण कयं णेण वल्लहेण 6
- गोत्तक्खल्लणं पियसहीए । तं च सोऊण केरिसा जाया पियसही । अवि य ।
- 9 तिवलि-तरंग-णिडाला वगिर-विलसंत-कसिण-भुमय-ळया । चलिया रणंत-रसणा फुरुफुरेंताहरा सुयणू ॥ 9
- तओ इत्ति विहाणो सही-सत्थो । आउलीहूओ से वल्लहो अणुणेउं पयत्तो । किं च भणियं णेण ।
- 'मा कुप्पसु सस्ति-वयणे साह महं केण किं पि भणिया सि । अबियारिय-दोस-गुणाए तुज्ज किं जुज्जए कोवो ॥'
- 12 तं च सोऊण अमरिस-वस-विलसमाण-भुमया-ळयाए भणियं पियसहीए । 12
- 'अविद्याणिय-दोस-गुणा अलज्ज होज्जा तुमे भणंतम्मि । जइ तुह वयण-विलक्खो ण होज्ज एसो सही-सत्थो ॥'
- तओ अहंहे वि तथ्य भणिउं पयत्ताओ । 'पियसहि, ण किंचि णिसुयं इमस्स अहंहेहिं एत्थ दुच्चवयणं' । तीए भणियं । 'हुं, 16
- मा पलवह, णायं तुमहे वि इमस्स पक्खम्मि' । भणिऊण उइय-वयण-कमला रोविउं पयत्ता । तओ दइएण से पलत्तं । 16
- 'सुंदरि कयावराहो सच्चं सच्चं ति एस पडिवण्णो । एस परसू इमो वि य कंठो जं सिक्खियं कुणसु ॥'
- त्ति भणमाणो णिवडिओ चलणेसु । तह वि सव्विसेसं रोविउं पयत्ता । तओ अहंहेहिं कण्णे कहिओ पिययमो किं पि, तओ 18
- 18 पविट्ठो पल्लकस्स हेट्टए णिहुओ य अच्छिउं पयत्तो । पुणो भणियं अहंहेहिं । 18
- 'अहं ण पसण्णा सि तुमं इमस्स दइयस्स पायवडियस्स । अकय-पसाय-विलक्खो अहं एसो णिगगओ चेव ॥
- ता अच्छ तुमं, अहंहे वि घराहरसु वच्चामो' ति भणमाणीओ णिगगयाओ वास-भवणाओ, णिरूविउं पयत्ताओ पच्छण्णाओ ।
- 21 'किं किं करेइ' ति पेच्छामो जाव पेच्छामो णीसइं वासहरं जाणिऊण उग्घाडियं वयणं, जाव ण स दइओ, ण सहीओ, तओ 21
- पच्छायाव-परद्धा चिंतियं पयत्ता ।
- 'हा हा मए अहच्चाए पेच्छ दुस्सिक्खियाए जं रइयं । ण पसण्णा भग्गासा तह पइणो पाय-पडियस्स ॥
- 24 ता कहिं मे सहियाओ भणियाओ जहा 'तं आणेसु, ण य तेण विणा अज्ज जीबियं धारेमि' ति । ता किं करियव्वं । 24
- अहवा किमेत्थ चिंतियव्वं' ति दढगलं कयं दारं विरइओ य उवरिल्लणुण पासो, णिबद्धो कीलए, वल्लग्गा आसणे, दिण्णो 24
- कंठे पासो । भणियं च णाए । अवि य ।
- 27 'जय ससुरासुर-कामिणि-जण-मण-वासम्मि सुट्टु दुल्ललिय । जय पंचवाण तिहुयण-रण-मल्ल णमोत्थु ते वीर । 27
- एस विवज्जामि अहं पिययम-गुरु-मोत्त-वज्ज-णिइलिया । तह वि य देज्जसु मज्जं पुणो वि सो च्चेय दइओ' ति ॥
- भणंतीय एरिओ पासओ, विमुक्कं अत्ताणयं । एत्थंतरम्मि
- 30 अहं एसो दिण्णो च्चिय तुट्टेण सुयणु तुज्ज मयणेणं । एवं समुल्लवंतेण तेण बाहाहिं उक्खित्ता ॥ 30
- तओ 'अहो, पसण्णो धण्णाए भगवं कुसुमाउहो' ति भणंतीयो अहंहे वि पहसियाओ । विलक्खा य जाया पियसही ।
- अवणीओ पासओ । समारोविया सयणे । समासत्था य पुणो पियसही ।
- 33 तं तेहिं समावत्तं णियं-हेलुच्छल्लंत-रसणिहं । जं पियसहि पाव तुमं वाससयं अक्खया मज्ज ॥ 33
- तओ 'सुइं वससु' ति भणंतीयो पविट्ठाओ अत्तणो घराहरेसु ।"

1 > P कामिजणो, J मोहंओ, P लोतो निंदेर. 2 > P ओयओ, P om. य. 3 > J जुअजुवल्यं, J चिंतियं, P पि सहासिरं, P लयं कि वच्चं ता, J om. दे. 4 > J मंतियं ति, P दीससि उक्कपहासवसाखोयवेविर. 5 > J तीय for तीए, J अउवं, J वत्तं for वुत्तं. 6 > J आगओ पियसहि सो अ वल्लहो, P पियसहीए सो, P om. सव्वो, J om. पाणं. 7 > J णिज्जंतणे, P पयत्ता केली कइं, P महुमत्तेण, J कयण्णेण P कयन्तेण. 9 > P तरंदिनिडाला, P रणं व रसणा, J P फुरुफुरें, J सुअणू P सतणू. 10 > P अणुणितं. 11 > P कुप्पसि, J महं किंपि केण किंपि, P कंथ तुहं for तुज्ज किं. 13 > P अबियारिय, P अज्जालज्ज, J तुमं for तुमे. 14 > P एत्थ पुव्ववयणं, P हुं. 15 > P तु अहंहे for तुमहे, P ठिश्य for ठश्य, P रोइउं, P दइए से. 17 > P भणियो for कहिओ. 18 > P om. पविट्ठो, P om. य. 19 > J च्चेय. 20 > J अच्छसु, P अहंहे घरंघरेसु, P निरुवियं, P पेच्छामो. 21 > J om. one किं, J om. स, J adds य before सहीओ. 23 > P दुस्सिक्खियाए, P पायवडियस्स. 24 > J कहं, J scores भणियाओ. 25 > J आसणा. 27 > P जइ for जय, P वासंसि, J दूर for सुट्टु, P दुल्ललिया, J मोहं णमोत्थु ए वीर. 28 > P एव for एस, P मज्जं पुणो य सो च्चेय. 30 > P दिण्णा. 31 > P om. अहो, J ए for धण्णाए, P भणंतीय, J om. विलक्खा य जाया. 32 > P उवणीओ, P समारोया सयणो, J पुणो सहि. 34 > P घराहरेसुं.

- 1 § १६२) चित्तियं च राहणा । 'अहो, णिःभरो अणुराओ, णिःउणो सही-सथो, वियद्धो जुवाणो' ति । 'सव्वहा रम- 1
णीयं पेम्मं' ति चित्तयंतो गंतुं पयत्तो । तम्मि य रायमणो बहल-तमंधयारे विट्ठं राहणा एक्कं णयर-चच्चरं । तत्थ य किं किं पि
3 उद्धागारं चच्चर-खंभ-सरिसं लक्खियं । तं च दट्टण चित्तियं णरवड्डणा । 'अहो, किमेत्थ णयर-चच्चरे इमं लक्खिज्जइ । 3
ता किं पुरिसो आउ थंभो ति । दे पुरिस-लक्खणाइ थंभ-लक्खणाइ चेय णिरूवेमि' । ताव चित्तयंतस्स समागओ तत्थ
णयर-वसहो । सो य तत्थ गंतूण अवघसिउं पयत्तो, सिंगगेण य उल्लिहिउं । तं च दट्टण राहणा चित्तियं । 'अहो, ण होइ
6 एस पुरिसो, जेणेस वसहो एत्थ परिघसइ अंगं ति । ता किं थंभो होही, सो विण मए विट्ठो दिवसओ । ता किं पुण 6
इमं' ति चित्तयंतो जाव थोवंतरं वच्चइ ताव पेच्छइ ।
ताव-णियम-सोसियंगं कसिणं मल-भूलि-धूसरावयवं । दव-दड्ड-थाणु-सरिसं चच्चर-पडिम-ट्टियं साहुं ॥
9 तं च दट्टण चित्तियं राहणा । 'अहो धम्मणंदणस्स भगवओ एस संतिओ लक्खीयइ । तत्थ मए एरिसा रिसिणो विट्ठ-पुण्वा । 9
अहवा अण्णो को वि दुट्ठ-पुरिसो इमेणं रूवेणं होहिइ, ता दे परिकखं करोमि' ति चित्तियज्जण भयाल-जलय-विज्जुजलं
असिवरं आयद्धंतो पहाइओ 'हण हण' ति भणंतो संपत्तो वेएणं साहुणो मूलं । ण य भगवं ईसिं पि चलिओ । तओ
12 जाणियं णरवड्डणा जइ एस दुट्ठो हंतो ता मए 'हण हण' ति भणिए पलायंतो खुहिओ वा हंतो । एस उण मंदर-सरिसो 12
णिःखलत्तणेण, सायरो व्व अक्खोभत्तणेणं, पुहई-मंडलं खंतीए, दिवायरो तव-सेएणं, चंदो सोमत्तणेणं ति । ता एस
धम्मणंदणस्स संतिओ होहिइ । ण सुंदरं च मए कयं इमस्स उवारी महातवस्सिणो खगं कड्डियं ति । ता खमावेमि
15 एयं । एवं चित्तियज्जण भणियं । 15
'जइ वि तुमं सुसियंगो देव तुमं चेव तह वि बलिययरो । जइ वि तुमं मइलंगो णाणेण समुज्जलो तह वि ॥
जइ वि तुमं असहाओ गुण-गण-संसेविओ तह वि तं सि । जइ वि हु ण दंसणिज्जो दंसण-सुहओ तुमं चेय ॥
18 जइ वि तुमं अवहथो झ्णाण-महा-पहरणो तह वि णाह । जइ वि ण पहरसि सुणिवर मारेसि तहावि संसारं ॥ 18
जइ वि वइएएस-वेसो देव तुमं चेय सच्च-जण-णाहो । जइ वि हु दीणायारो देव तुमं चेय सणपुरिसो ॥
ता देव खमसु मज्झं अविणयमिणमो अयाण-माणस्स । मा होउ मज्झ पावं तुह खग्गाकरिसणे जं ति ॥'
21 भणंतो ति-पयाहिणं काऊण णिवडिओ चलण-जुवलए, राया । गंतूण समादत्तो पुणो णयरि-रच्छाए । जाव थोवंतरं वच्चइ ता 21
पेच्छइ कं पि इत्थियं । केरिसिया सा । अवि य ।
कसिण-पड-पाउयंगी मूयल्लिय-णेउरा ललिय-देहा । रसणा-रमंत-भीरू सणियं सणियं पयं देत्ती ॥
24 § १६३) तओ तं च दट्टण चित्तियं रायउत्तेण । 'दे पुच्छामि णं कत्थ चलिया एस' ति चित्तयंतो तिओ पुरओ । 24
भणियं च णेणं ।
'सुंदरि घोरा राई हत्थे गहियं पि दीसए णेय । साहसु मज्झ फुडं चिय सुयणु तुमं कत्थ चलिया सि ॥'
27 भणियं च तीए । 27
'चलिया मि तत्थ सुंदर जत्थ जणो हियय-वल्लहो वसइ । भणसु य जं भणियव्वं अहवा मगं ममं देसु ॥'
भणियं च रायउत्तेण ।
30 'सुंदरि घोरा चोरा सूरा य भमंति रक्खसा रोहा । एयं मह खुडइ मणे कह ताण तुमं ण बीहेसि ॥' 30
तीए भणियं ।
'णयणेसु दंसण-सुहं अंगे हरिसं गुणा य हिययम्मि । दइयाणुराय-भरिए सुहय भयं कत्थ अल्लियउ ॥'
33 चित्तियं च राहणा । 'अहो, गुरुओ से अणुराओ, सव्वहा सलाहणीयं एयं पेम्मं । ता मा केणइ दुट्ठ-पुरिसेणं परिभवीयउ 33

1 > P सहिसत्थो, P वियट्ठो. 2 > P पेमं, J बहले, P om. य. 3 > P कखंभ, P adds च before लक्खियं. 4 > P कि वा for ता किं, P रे for दे, P om. थंभ-लक्खणाइ, P च for चेय. 5 > J तत्थागंतूण, J उल्लिहिउं. 6 > P वसओ, P repeats after एत्थ a portion from above beginning with गंतूण व पसिउं पयत्तो सिंगगेण उल्लिहिउं etc. upto जेणेस वसओ एत्थ, P होइई for होही, P दिवसओ for दिवसओ. 7 > P जाव for ताव. 9 > P भगवतो, P लक्खियइ ति. 10 > P ताहे for ता दे, P जल for जलय. 11 > P आउद्धंतो, J हणं ति. 12 > P मारेइ for ता मए, P खुहिओ. 13 > P om. व्व, P पुहई व मंडलं खंतीओ. 14 > J धम्मणंदणसंतिओ, P adds य before सुंदरं, P उवारीस्सिणो खगं. 15 > P om. एयं. 16 > P सुसियंगो, P om. चेव, P तह वि थंभवलियरो. 17 > P संसेवि तह, P सि for इ. 18 > P संसारे. 19 > J वईएसवेसो P वइएसवेसो, P सच्चजगणाहो, P सि for इ. 20 > P अयाणणरम, P खग्गाकरिसणेणं ति. 21 > P तिपयाहिणी काऊण, P जुवलए, J adds य after जाव. 22 > P कि पि इत्थियं, P केरिसा य सा. 23 > P पाउरंगी मूयल्लिय, P रसंति for रसं. 24 > J adds च after चित्तियं, J दे पेच्छामि, J तिओ. 25 > J adds अवि य after णेणं. 26 > P सुयण तुमं. 28 > P चलियाम, P adds भणियं जं before भणियव्वं. 30 > P भवंति, P मणो कह. 32 > P फरिसं for हरिसं, P सुकय for सुहय. 33 > J अहो गुरुओ, P om. एयं, P केणइदुट्ठपुरिसिणं परिभवीयओ.

1 एसा । दे धरं से पावेमि' ति चित्तयंतेण भणिया । 'वच्च वच्च, सुंदरि, जत्थ तुमं पत्थिया तं पपुसं पावेमि । अहं तुज्झ 1
रक्खो, मा बीहेसु' ति भणिए गंतुं पयत्ता, अणुमगं राया वि । जाव थोवंतरं वच्चंति ताव दिट्ठो इमीए ससंभमो एज्जमाणो
3 सो च्चेय णिय-दइओ । भणियं च णेण । 3

'दइए ण सुंदरं ते रइयमिणं जं इमीए वेलाए । चलिया सि मज्झ वसइं अणेय-विग्वाए राईए ॥

ए-एहि, सागयं ते । ता कुसलं तुह सरीरस्स ।' तीए भणियं 'कुसलं इमस्स महाणुभावस्स महापुरिसस्स पभायेण' । दिट्ठो
6 य णेण राया । भणियं च णेण । 'अहो, को वि महासत्तो पच्छण-वेसो परिभमइ' ति चित्तयंतेण भणियं अणेण जुवाणेण । 6

'ए-एहि सागयं ते सुपुरिस जीयं पि तुज्झ जायत्तं । जेण तए मह दइया अणहा हो पाविया प्थ ॥'

भणियं च राइणा ।

9 'तं सुहओ तं रूवी तं चिय बहु-सिक्खिओ जुवाणाण । एइ गुण-पास-बद्धा जस्स तुहं एस धवलच्छी ॥'
9 ति भणमाणो राया गंतुं पयत्तो । राईए बहले तमंधयारे णयर-मज्झमि बहुए वियइ-जुवाण-जुवलय-जंपिय-हसिओग्गीय-
विलासिए गिसामंतो संपत्तो पायारं । तं च केरिसं । अवि य ।

12 तुंगं गयण-विलगं देवेहि वि जं ण लंघियं सहसा । पायालमुवगएणं फरिहा-बद्धेण परियरियं ॥ 12
तं च पेच्छिऊण राइणा दिण्णं विज्जुक्खित्तं करणं । उप्पइओ णइंगणं । केरितो य सो दीसिउं पयत्तो । अवि य ।

विज्जुक्खित्ताइदो दीसइ गयणंगणे समुप्पइओ । अहिणव-साहिय-विज्जो इय सोहइ खग-विज्जहरो ॥

15 ण इ णवर लंघिओ सो पायारो तुंग-लगग-णइ-मगो । पडिओ समपाओ च्चिय फरिहा-बंधं पि वोलेउं ॥ 15
अणुत्तुणो च्चेय गंतुं पयट्ठो ।

§ 1६४) किं बहुणा संपत्तो तमुज्जाणं, जत्थ समावासिओ भगवं धंमगंदणो । पविट्ठो य अणेय-तरुयर-पायव-

18 वली-लया-मविसेस-बहलंधयारे उज्जाण-मज्झमि । उवगओ य सिंदूर-कोट्टिम-समीवमि । दिट्ठा य णेण साहुणो भगवंते । 18
कम्मि पुण वावारं वट्टमाणे ति ।

केइ पठंति सउण्णा अवरे पाठंति धम्म-सत्थाइं । अवरे गुणंति अवरे पुच्छंति य संसए केइ ॥

21 वस्खाणंति कयत्था अवरे वि सुणंति के वि गीयत्था । अवरे रपंति कव्वं अवरे ज्ञाणमि वट्टंति ॥ 21
सुस्सुसंति य गुरुणो वेयावच्च करंति अण्णे वि । अण्णे सामायारिं सिक्खंति य सुत्थिया बहुसो ॥
दंसण-रयणं अण्णे पालंति य के वि कह वि चारित्तं । जिणवर-गणहर-रइयं अण्णे णाणं पसंसंति ॥ अवि य ।

24 सुत्तय-संसयाइ य अवरे पुच्छंति के वि नित्थेय । णय-जुत्ते वादे जे करंति अभास-वायमि ॥ 24
धम्माधम्म-पयत्थे के वि गिरुवेंति हेउ-वादेहिं । जीवाण बंध-मोक्खापयं च भावेंति अण्णे वि ॥
तेलोक-वंदणिज्जे सुक्कज्जाणमि के वि वट्टंति । अण्णे दोगइ-णासं धम्मज्जाणं समलीणा ॥

27 मय-माण-कोह-लोहे अवरे णिंदंति दिट्ठ-माहप्पा । दुह-सय-पउरावत्तं अवरे णिंदंति भव-जलहिं ॥ 27
इय देस-भत्त-महिला-राय-कहाणत्थ-वज्जियं दूरं । सज्जाय-ज्ञाण-णिरए अह पेच्छइ साहुणो राया ॥

नं च दट्टणं चित्तियं राइणा । 'अहो, महप्पभावे भगवंते जहा-भणियाणुट्ठाण-रए । ता पेच्छामि णं कत्थ सो भगवं धम्म-
30 णंदणो, किं वा करइ' ति चित्तयंतेण गिरुवियं जाव पेच्छइ एयंते गिविट्ठं । ताण तदियस-णिकखंताणं पंचणइ वि जणाणं 30
धम्मकहं साहेमाणो चिट्ठइ । चित्तियं य राइणा । 'दे णिसुणेमि ताव किं पुण इमाणं साहिजइ' ति चित्तयंतो एक्कस्स
तरुण-तमाल-पायवस्स मूले उवविट्ठो सोउं पयत्तो ति ।

1 > P चित्तियंतेण, P वच्चारच. 2 > P गंतुं for गंतुं. 3 > P सो च्चेय नियथ. 4 > P सुंदरं तो इयमिणं. 5 > J om. एएहि
सागयं ते, J तीय. 6 > P णेण for णेण, P के चि, P चित्तियंतेण, P भणियमणेण, P om. जुवाणेण. 7 > J सुवरिम. 9 > P इय
for एइ, J जइ for जस्स. 10 > J om. ति, P राई बहले, J णायरमज्झमि, P वियट्ठ, P जुवलजंपियहरियं, P om. सिओग्गीय-
विलासिए etc. to बद्धेण परियरियं. 13 > P तं च दट्टणं राइणा, P किरणं for करणं. 14 > P विक्खित्ताइदो, P गयणंगणं, P
साहियविज्जो. 15 > P नवरं, J तुंगमगगणहलगो, J बंधमि. 16 > P अणुत्तरो च्चेय, J पयत्तो. 17 > J तरुपायव, P
पायवली. 18 > P बहुलंधयारे, P om. य, P समीवं, P om. भगवंते. 20 > J पठंति, P सुणंति for गुणंति, JP om. य, P
संसयं, J केइ. 21 > P om. कयत्था अवरे वि सुणंति, P केइ गीयत्था, J रयंति. 22 > P सामायारी. 23 > J सालंति
(some portion written on the margin) P पालंति, J om. अवि य. 24 > J संसयाइ, P नत्थेय, P सहत्थोभयजुत्तो
for णयजुत्ते, J वादे ये P वादे य, P अभासं. 25 > P केइ, P हेउवाएहिं, P मोक्खोगइं च, J भावेंति for भावेंति. 26 >
P वंदणिज्जा. 27 > P माहप्पे. 28 > P वज्जिया. 30 > P om. ति, JP चित्तियं for चित्तं, P अंतो for एयंते, P
तदियहदिक्खियाणं पंचणइ. 31 > P om. चिट्ठइ, P दे सणियं सुणेमि. 32 > P मूले उवस्स मूले उवः"

- 1 § १६५) भणियं च भगवया धम्मणंदणेण । 'देवाणुपिया, 1
 पयडं जिणवर-मग्गं पयडं णाणं च दंसणं पयडं । पयडं सासय-सोक्खं तद्वा वि बहवे ण पावेंति ॥
 3 पुहवी-जळ-जलणाणिल-वणस्सई-णेय-तिरिय-मेएसु । एएसु के वि जीवा भमंति ण य जंति मणुयत्तं ॥ 3
 मणुयत्तणे वि लद्धे अंतर-दीवेसु णेय-रूवेसु । अच्छंति भमंत चिय आरिय-खेत्तं ण पावेंति ॥
 6 आरिय-खेत्तम्मि पुणो णिंदिय-अहमासु होंति जाईसु । जाइ-विसुद्धा वि पुणो कुलेसु तुच्छेसु जायंति ॥ 6
 सुकुले वि के वि जाया अंधा बहिरा य होंति पंगू य । वाहि-सय-दुक्ख-तविया ण उणो पावेंति आरोगं ॥
 आरोगम्मि वि पत्ते बाल चिय के वि जंति काल-वसं । के वि कुमारा जीवा इय दुलहं आउयं होइ ॥
 वास-सयं पि जियंता ण य बुद्धिं देंति कह वि धम्मम्मि । अवरे अवसा जीवा बुद्धि-विहूणा मरंति पुणो ॥
 9 अह होइ कह वि बुद्धी कम्मोवसमेण कस्स वि जणस्स । जिण-वयणामय-भरियं धम्ममारियं ण पावेंति ॥ 9
 अह सो वि कह वि लद्धो साहइ धम्मं जिणेहिं पणत्तं । णाणावरणुदणं कम्मेण ण भोगाहं कुणइ ॥
 अह कह वि गेणहइ चिय दंसण-मोहेण णवरि कम्मेण । कु-समय-मोहिय-चित्तो ण चेय सद्धं तर्हि कुणइ ॥
 12 अह कुणइ कह वि सद्धं जाणंतो चेय अच्छण जीवो । ण कुणइ संजम-जोयं वीरिय-लद्धीएँ जुत्तो वि ॥ 12
 इय हो देवाणुपिया दुलहा सब्बे वि एत्थ लोयम्मि । तेलोक्क-पायड-जसो जिणधम्मो दुल्लहो तेण ॥

भणियं च भगवया सुधम्मसामिणा ।

- 15 माणुस्स-खेत्त-जाई-कुल-रूवारोगमाउगं बुद्धी । समणोग्गह-सद्धा संजमो य लोगम्मि दुल्लहाइं ॥ 15
 एक्के ण-यणंत चिय जिणवर-मग्गं ण चेय पावंति । अवरे लद्धे वि पुणो संदेहं णवर चिंनेति ॥
 अण्णाण होइ संका ण-याणिमो किं हवेज्ज मह धम्मो । अवरे भणंति मूढा सब्बो धम्मो समो चेय ॥
 18 अवरे बुद्धि-विहूणा रत्ता सत्ता कुतित्थ-तित्थेसुं । के वि पसंसंति पुणो चरग-परिव्वाय-दिक्खाओ ॥ 18
 अवरे जाणंति चिय धम्माहम्माणं जं फलं लोए । तह वि य करंति पावं पुव्वज्जिय-कम्म-दोसेण ॥
 अवरे सामण्णम्मि वि वटंता राग-दोस-वस-मूढा । पेसुण्ण-णियडि-कोवेहिं भीम-रूवेहिं घेपंति ॥
 21 अण्णे भव-सय-दुलहं पावेउणं जिणंद-वर-मग्गं । विसयासा-मूढ-मणा संजम-जोए ण लगंति ॥ 21
 ण य होंति ताण भोया ण य धम्मो अलिय-विरइयासाणं । लोयाण दोण्ह चुक्का ण य मग्गे णव य कुलम्मि ॥
 अवरे णाणत्थद्धा सब्बं किर जाणियं ति अम्हेहिं । पेच्छंत चिय उट्ठा जह पंगुलया वण-ववेणं ॥
 24 अवरे तव-गारविया किर किरिया मोक्ख-साहणा भणिया । इज्जंति ते वि मूढा धावंता अंधया चेव ॥ 24
 इय बहुए जाणंता तह वि महामोह-पसर-भर-मूढा । ण करंति जिणवराणं आणं सोक्खवाण संताणं ॥'

एत्थंतरम्मि चिंतियं णरवहूणा तमाल-पायवंतरिण्ण । 'अहो, भगवया साहियं दुल्लहत्तणं जिणवर-मग्गस्स । ता सब्बं 27
 सद्धमेयं । किं पुण इमं पि दुल्लहं रज-महिला-घर-परियण-सुहं । एयं अणुपालिय पच्छा धम्मं पेच्छामो' त्ति चिंतयंतस्स 27
 भगवया लक्खिओ से भावो । तओ भणियं च से पुणो भगवया धम्मणंदणेण ।

जं एयं घर-सोक्खं महिला-मइयं च जं सुहं लोए । तमणिच्चं तुच्छं चिय सासय-सोक्खं पुणो णंतं ॥ जहा ।

- 30 § १६६) अत्थि पाडलिपुत्तं णाम णयरं । तत्थ वाणियओ धणो णाम । सो य धणवद्-सम-धणो वि होउण 30
 रयणदीवं जाणवत्तेण चलिओ । तस्स य वच्चमाणस्स समुद्-मज्जे महा-पवण-रूषिणा देव्वेण वीई-हिंदोलयारूढं कह कह
 वि टस त्ति दलियं जाणवत्तं । सो य वाणियओ एक्कम्मि दलिय-फलहए वलग्गो, तरंग-रंगत-सरीरो कुडंगदीवं णाम दीवं
 33 तत्थ सो पत्तो । तत्थ य तण्हा-चुहा-किलंतो किंचि भक्खं मग्गइ जाव दिट्ठो सो दीवो । किरियो । अवि य । 33

1 > P देवाणुपिया. 2 > J बहुए for बहवे. 3 > P जलणाणिल, P भेदंगु, P किं वि जीवा. 4 > P अच्छंति भमंतं चिय.
 5 > P निंदिययत्तमा य होंति. 6 > J पंगू या, P वाहिय, P उणो for ण उणो, P om. आरोगं. 8 > P अवरे अवरे for अवसा,
 J होवि P होंति for होइ, P कस्सइ जणस्स. 10 > P कह कह for अह सो वि. 11 > P कह for अह, P गेहिए for गेणहइ,
 P सद्धि. 13 > J अह for इय, J दुलहं सब्बंमि एत्थ. 15 > P 'रोगमाउयं, J लोयंमि. 16 > J णयणंति, P चियं, P चेव,
 J पावेंति, P चिंनेति. 18 > P कुतित्थेसु, P चरग for चरग. 19 > P धंमाधंमाण, P पुव्वज्जियकंम. 20 > J रायदोस. 21 >
 J दुल्लहं, J मूढमणो. 22 > J भोयाण for लोयाण, J य मग्गे खन्निअकुलंमि. 23 > P नाणं सब्बं एयं किर, P पेच्छंति य चिय दट्ठा
 (J दट्ठा?) जह. 24 > P किरि for किर, P मूढो. 27 > J om. पि, P दुल्लहरज्जं, P अणुपालियं, J पेच्छामो. 28 > P भावा ।
 ततो भणियं पुणो पि भगवया. 30 > P पाडलिपुत्तं, P वणिओ. 31 > P रयणदीवं, P om. महा, P देवेण, P कहं कहं पि टस
 त्ति स दलियं. 32 > P फलिहए विलग्गो, P कुडंगदीवं, J णाम दीवं. 33 > P तत्थ य संपत्तो, P om. तत्थ य, J dapda
 after मग्गइ.

- 1 अफल्-कडुय-कुडंगो फंटय-खर-फरुस-रुक्ख-सय-पउरो । हरि-पुछि-रिच्छ-दीविय-सिव-सउण-सएहिं परियरिओ ॥ 1
मल-पंक-पूह-पउरो भीम-सिवाराव-सुव्वमाण-रयो । दोस-सय-दुक्ख-पउरो कुडंगदीवो ति णामेणं ॥
- 3 तम्मि य तारिसे महाभीमे उब्बियणिजे भमिउं सो समाढत्तो । तेण य तत्थ भमंतेण सहसा विट्ठो अण्णो पुरिसो । पुच्छिओ 3
य सो तेण 'भो भो, तुमं कत्थेत्थ दीवे' । तेण भणियं 'मह सुवण्णदीवे पत्थियस्स जाणवत्तं फुच्चियं, फलयालमो य एत्थ
संपत्तो' । तेण भणियं 'पयह, समं खेय परिभमामो' । तेहिं य परिभममाणेहिं अण्णो तहओ विट्ठो पुरिसो । तओ तेहिं
- 6 पुच्छिओ 'भो भो, तुमं कत्थेत्थागओ दीवे' । तेण भणियं 'मह लंकाउरिं वच्चमाणस्स जाणवत्तं दलियं, फलहयालमो एत्थ 6
संपत्तो' ति । तेहिं भणियं 'सुंदरं, दे सम-दुक्ख-सहायाणं मेत्ती अम्हाणं । ता एत्थ कहिंत्थि तुंगे पायवे मिण्ण-वहण-चिंधं
उब्भेमो' । 'तह' ति पडिबज्जिऊण उडिभयं वक्कलं तरुवर-सिहरम्मि । तओ तण्हा-सुहा-किलंता असणं अण्णोसिऊणं पयत्ता ।
- 9 ण य किंचि पेच्छंति तारिसं रुक्खं जत्थ किर फलं उप्पज्जइ ति । तओ एवं परिभमणुव्वाएहिं दुक्ख-सय-विहलेहिं कह-कहं पि 9
पावियाइं घरायाराइं तिण्णि कुडंगाइं । तत्थ एक्केक्कम्मि कुडंगे एक्केक्का काउंबरी । तं च पेच्छिऊण उससियं हिचण्णं, भणिऊण
य समाढत्ता । 'अहो, पावियं जं पावियव्वं, णिच्चुया संपयं अम्हे, संपत्ता जहिच्छियं सोक्खं' ति भणमाणेहिं विरिक्काइं तेहिं
- 12 अवरोप्परं कुडंगाइं । पलोइयाणि य तेहिं काउंबरीहिं फलाइं । ण य एक्कं पि विट्ठं । तओ दीण-विमण-दुम्मणा फुह-मुहा 12
कायल-लीव-सरिसा अच्छिउं पयत्ता । तओ केण वि कालंतरेण मणोरह-सएहिं णव-कक्क-सणाहाओ जायाओ ताओ
काउंबरीओ । तओ आसाइयं किंचि-मेत्त-फलं । तहा तत्थ णिबद्धासा तम्मणा तल्लेसा जीविय-वह्णहाओ ताओ काउंबरीओ
- 15 सउण-कायलोवह्णणं रक्खंता अच्छिउं पयत्ता । अच्छंताण य जं तं तेहिं कयं मिण्ण-वहण-चिंधं तं पेच्छिऊण कायव- 15
करुणा-परिगएणं केणावि वणिण्ण दोणिं वेत्तूण पेसिया णिज्जामय-पुरिसा । ते य आगंतूण तं दीवं अण्णिस्संति । विट्ठा य
तेहिं ते तिण्णि पुरिसा कुडंग-काउंबरी-बद्ध-जीवियासा । भणिया य तेहिं णिज्जामय-पुरिसेहिं । 'भो भो, अम्हे जाणवत्त-
- 18 वह्णा पेसिया, ता पयह, तडं णेमो, मा एत्थ दुक्ख-सय-पउरे कुडंग-दीवे विवज्जिहिह' ति । तओ भणियं तत्थ एक्केण 18
पुरिसेण । 'किमेत्थ दीवे दुक्खं, एयं घरं, एसा काउंबरी फलिया, पुणो पचीहिह । एयं असणं पाणं पि कालेण बुट्ठे देवे
भविहिह ति । किं च एत्थ दुक्खं, किं वा तत्थ तीरे अवरं सुहं ति । ता णाहं वच्चाप्पि । जलहि-मज्जे वट्टमाणस्स एयं पि ण
- 21 हवीहइ' ति भणिऊण तत्थेय ट्ठिओ । तओ तेहिं णिज्जामय-पुरिसेहिं विहओ भणिओ । सो वि वोत्तुं पयत्तो । 'सव्वमिणं 21
दीवं दुह-सय-पउरं, ण एत्थ तारिसं मणुणं सुहं । किंतु इमाइं उडयाइं, इमा य वराहणी काउंबरी फलिया मए परिचत्ता
सउण-कायल-प्पमुहेहिं उवहवीहिह ति । ता इमाए पिक्काए फलं उवभुंजिऊण पुणो को वि णिज्जामओ एहिइ, तेण समयं
- 24 वच्चीहामि, ण संपडइ संपयं गमणं' ति भणिऊण सो वि तम्मणो तत्थेव ट्ठिओ ति । तओ तेहिं तहओ पुरिसो भणिओ 24
'पयह, वच्चाओ' । तेण भणियं । 'सागयं तुम्हाणं, सुंदरं कयं जं तुम्हे आगया । तुच्छमिणं एत्थ सोक्खं अणिंधं च ।
बहु-पक्खाओ य एय दीवो । ता पयह, वच्चाओ' ति भणमाणो पयट्ठो तेहिं णिज्जामएहिं समयं । आरूओ य दोणीए ।
- 27 गया तडं । तत्थ पुत्त-मित्त-कलसाणं धण-धण्ण-संपयाए य मिलिया सुहं अणुहवति । ता किं । भो, 27
देवाणुपिया एसो विट्ठो तुम्ह ताव मे दिण्णो । जह एयं तह अण्ण उवणयमिणमो णिसामेहि ॥
- § १६७) जो एस महाजलही संसारं ताव तं वियाणाहि । जम्म-जरा-मरणावत्त-संकुलं तं पि दुत्तारं ॥
- 30 जो उण कुडंग-दीवो माणुस-जम्मो ति सो मुण्येव्वो । सारीर-माणसेहिं य दुक्खेहिं समाडलो सो वि ॥ 30
जे तत्थ तिण्णि पुरिसा ते जीवा हंति तिप्पयारा वि । जोणी-लक्खाउ च्या मणुस्स-जम्मम्मि ते पत्ता ॥
तत्थ वि उडय-सरिच्छा तिण्णि कुडंगा घरेहिं ते सरिसा । काउंबरीओ जाओ महिलाओ ताण ता हंति ॥
- 33 जाइं तत्थ फलाइं ताइं ताणं तु पुत्त-भंडाइं । अलिय-कयासा-पासा तं चिय रक्खंति ते मूढा ॥ 33

1 > P कुड for कडुय, P फरुसयपउरो, P हरिकुछिरिच्छ. 3 > J भमिऊण, P om. सहसा. 4 > P om. य, P अहं
for मह, P फलहया, P om. य. 5 > J परिभमामो, P om. य, J om. तओ. 6 > J om. भो भो, P कत्थेत्थ दीवे, P मम
for मह, P फलहयाविलमो. 7 > P सुंदर, P सुक्ख for दुक्ख, P पच्छा for एत्थ, J चिद्धं (?) उच्चो. 8 > P उब्भिउं. 9 > P
रुक्कं, P उप्पज्जइ, J om. तओ, P परिभमं, P कहिं for कहकहं पि. 10 > P घरायाराइं, P एक्केक्कं पि कुडंगे एक्केक्को, P
ससियं for उससियं. 11 > P adds जं after अहो, J जहच्छियं P कहिच्छियं, J विरिक्कायाइं. 12 > J om. य, P विमणा
पुह. 13 > J काय for कायल, P सरिसा, P तेण for केण, J कक्कसणाहाओ. 14 > P काउंबरीओ, P आसाइय, P om. मेत्त,
J फला, J om. तहा. 15 > J कहिं for कयं, J चिद्धं. 16 > P दोणी, J अण्णिस्संति. 17 > P om. तेहिं, J om. ते, P
कुडुंगा य काउं, P om. बद्ध, J अम्हेहिं for अम्हे. 18 > J कुडंग, P विवज्जिह ति. 19 > P पुणो वचिह ति, J बुट्ठो देवो.
20 > P भविहिह ति, P किं चि, P अवरं सुह ति, P न भविहि ति. 21 > P तत्थेव, P बीओ for विहओ, J सव्वं णिमं.
22 > P पउरं न, P इमाइं वरा. 23 > P उवह्विहि ति, J om. ति, P इमीए पक्काए, P निज्जामए ओहिइं. 24 > P
वच्चीहामी, J विमणो for तम्मणो. 25 > P तुम्हे, J तुच्छं णिमं एत्थ. 26 > P om. ता, P पयह, J om. य. 27 > P
om. य before मिलिया, P om. ता किं भो. 28 > P देवाणुपिया एस, J तुम्हाणं P अम्हं for तुम्ह (emended). 30 >
P माणुसेहिं. 31 > P वि भमिऊण जोणिलक्खाउ माणुसजंममि ते पयत्ता ॥ 32 > P य for वि, J पुरिसा for सरिसा, J जा वि
य for जाओ, P om. ताण. 33 > P कया माया तं विय.

- 1 दारिद्र-वाहि-दुह-सय-सउणाणं रक्खणु उ तं मूढो । ताणं चिय सो दासो ण-यणइ जं अत्तणो कज्जं ॥ 1
जे णिज्जामय-पुरिसा धम्मयारिया भवंति लोगम्मि । जा दोणी सा दिक्खा जं तीरं होइ तं मोक्खं ॥
- 3 संसार-दुक्ख-तब्बिण् जीवे तारंति ते महासत्ता । जंगम-नित्थ-सरिच्छा चिंतामणि-कप्परुक्ख-समा ॥ 3
तुच्छा एए भोया माणुस-जम्मम्मि णिंदिया बहुसो । ता पावसु सिद्धि-सुहं इय ते मुणियो परूवंति ॥
तत्थेक्को भणइ इमं एयं चिय एत्थ माणुसे दीवे । जं सोक्खं तं सोक्खं मोक्ख-सुहेणावि किं तेण ॥
- 6 पुत्त-पिह-दार-बंधू-माया-पासेहिं मोहिओ पुरिसो । तं चिय मण्णइ सोक्खं घर-वास-परंण धम्मणेण ॥ 6
साहेताण वि धम्मं तीर-सुहं जह य ताण पुरिसाण । ण य तं मोनुं वच्चइ केण वि मोहेण मूढप्पा ॥
सो जर-मरण-महाभय-पउरे संसार-णयर-सज्जाम्मि । गट्ठा-सूयर-सरिसो रमइ च्चिअ जो अभव-जिओ ॥
- 9 बिहओ वि काल-भविओ पडिबज्जइ मुणिवरेहिं जं कहियं । तीरं नि गंतुमिच्छइ किंतु इमं तत्थ सो भणइ ॥ 9
भगवं घरम्मि महिला सा वि विणीया य धम्मसीला य । मुंचामि कस्स एयं वराइणी णाह-परिहीणं ॥
पुत्तो वि तीय-जोगो तस्स विवाहं करेमि जा नुरियं । दुहिया दिण्ण च्चिय मे अण्णो पुण बालओ चेय ॥
- 12 ता जाव होइ जोगो ता भगवं पव्वयामि णियमेण । अण्णो वि ताव जाओ ते वि पलासा य ते दिग्घा ॥ 12
णाऊणं जिण-वयणं जं वा तं वा वलंबणं काउं । अच्छंति घरावासे भविया कालेण जे पुरिसा ॥
तइओ उण जो पुरिसो सोऊणं धम्म-देसणं सहसा । संसार-दुक्ख-भीरू चिंतेऊणं समाढत्तो ॥
- 15 वाहि-भव-पाव-कल्लिमल-कंठय-फरुसम्मि मणुय-लोगम्मि । अच्छेज्ज को खणं पि विमोक्ख-सुहं जाणमाणो वि ॥ 15
घर-वास-पास-बद्धा अलिय-कयासावलंबण-मणा य । गेण्हंति णेय दिक्खं अहो णरा साहस-विहूणा ॥
ता पुणेहिं महं चिय संपत्ता एत्थ साहुणो एए । दिक्खा-दोणि-वलग्गा तीर-सुहं पाविमो अम्हे ॥
- 18 कणयं पि होइ सुलहं रयणाणि वि णवर होंति सुलहाइं । संसारम्मि वि सयले धम्मयारिया ण लब्धंति ॥ 18
ता होउ मह इमेणं जम्म-जरा-मरण-दुक्ख-णिलण्णं । पावेमि सिद्धि-वसइं तक्खण-भवो इमं भणइ ॥
ता मा चिंनेसु इमं एयं चिय एत्थ सुदरं सोक्खं । उंवरि-कुडंग-सरिसं तीर-सुहाओ विमोक्खाओ ॥ त्ति ।
- 21 § १६८) एत्थंतरम्मि भणियं चंडसोमप्पमुद्देहिं पंचहिं वि जणेहिं । 21
'जह आणवेसि भगवं पडिबज्जामो तहेय तं सव्वं । जं पुण तं दुच्चरियं हियणं सलं व पडिहाइ ॥'
भणियं च भगवया धम्मणंदणेण ।
- 24 'एयं पि मा गणेज्जसु जं किर अम्हेहिं पाव-कम्मं ति । सो होइ पाव-कम्मो पच्छायावं ण जो कुणइ ॥ 24
सो णत्थि कोइ जीवो चउ-गइ-संसार-चारयावासे । माइ-पिह-भाइ-भइणीओ णंतसो जेण णो वहिया ॥
ता मारिऊण एक्को णिंदण-गुरु-नरहणाहिं सब्वाहिं । लहुयं करइ पावं अवरो तं सेय गरुएइ ॥
- 27 तुम्हे उण सप्पुरिसा कह वि पमाएण जे करेउं जे । पावं पुणो णियत्ता जेण विरत्ता घरासाओ ॥ 27
इमं च एत्थ तुम्हेहिं पायच्छिंतं करणीयं' ति साहियं किं पि सणियं धम्मणंदणेण । तं च राइणा ण सुयं ति । एत्थंतरम्मि
इंदिय-चोरेहिं इमो पडिबज्जइ इय मुसिज्जण लोए । जायम्मि अइ-रत्ते बुक्करियं जाम-संखेण ॥
- 30 ताव य चिंतियं राइणा । 'दुट्ठु मे चिंतियं जहा इमम्मि मयण-महुसवे किं करंति साहुणो । ता को अण्णो इमाणं वावारो 30
त्ति । अवि य ।
जं कणयं कणयं चिय ण होइ कालेण तं पुणो लोहं । इय णाण-विसुद्ध-मणा जे साहु ते पुणो साहु ॥ सब्बहा
- 33 जं जं भणंति गुरुणो अज्ज पभायम्मि तं चिय करेमि । को वा होज सयण्णो इमस्स आणं ण जो कुणइ ॥' त्ति । 33

1) J सो for तं, J दासो for दासो, P नयणं for णयणइ. 2) P हवंति, J लोअम्मि, P ना for जं, P हंति तं.
3) P तारंति, P मे for ते, P कप्प for तित्थ, P inter. न्वस्व & कप्प 5) P तत्थेक्को 6) P चित्तपियदारबंधू, P मायाइ
for पासेहिं, P मग्गइ for मण्णइ. 7) P तीरमुं जह 8) P गत्ता for गट्ठा, P रइमइ for रमइ, J अहव्व. 9) J य for
वि, P om. ति. 10) P मुंचामि for मुंचामि, P वराइणी 11) P उण for पुण 12) P ता होइ जो व जोगो, J य त
दिधा. 15) J मणुअलोअम्मि, J जो for को. 16) J कसायावल्बणमणा या । 17) P साहुणा, P बिलग्गो. 18)
J रयणाउं णवर. 19) P वसाहिं. 20) P मुक्खं for मोक्खं, P कुट्टुंग. 21) J भि for वि 22) P तहेव, P om. तं
after पुण, P दुच्चरियाउं, P सल्लि. 25) P को वि जीवो, J माइपियि P मायपिय, P अणंतसो for णंतसो. 26) J पक्कं
for एक्को, P गरुएइ. 27) P तुम्हे for तुम्हे, P मियत्ता for विरत्ता. 28) P मणियं for सणियं, J सुयं ति ।, P om.
एत्थंतरम्मि. 29) P लोओ. 32) P om. सब्बहा. 33) P पदायमि, P सउण्णो.

- 1 अवि य चित्तयंतो राया गंतुं पयत्तो । चित्तियं च णरवइणा । 'अहो, ण-याणीयइ गुरुणा अहं जाणिओ ण व त्ति इहागओ ।
अहवा किं किंचि अत्थि तेलोके जं ण-याणइ भगवं धम्मणंदणो । ता किं पयडं चिय वंदांमि । अहवा णहि णहि, इमं पयं
3 समुब्भइ-भीसणं मुणियण-चरिय-विरुद्धं वेस-नाहणं भगवओ दंसयांमि लज्जणीयं ति । ता माणसं चिय करेमि पणामं ।
जय संसार-महोबहि-दुक्ख-सयावत्त-भंगुर-तरंगे । मोक्ख-सुह-तीर-यामिय णमोत्थु णिज्जाभय-सरिच्छ ॥'
त्ति चित्तयंतो णिग्गओ उज्जाणाओ, संपत्तो पायारं, दिण्णं विज्जुक्खित्तं करणं, लंघियं, संपत्तो रायमगं, पत्तो धवलहरं,
6 आरूढो पासाए, पविट्ठो वासहरं, णिसण्णो पल्लंके, पसुत्तो य ।
§ १६९) साहुणो भगवंते कय-सज्जाय-वावारं कयावस्सय-करणे य खणंतरं णिइ सेविऊण विबुद्धे वेरत्तियं कालं
काउमाढत्ता । एत्थ य अवसरे किंचि-सेसाए राईए, अरुणप्पभा-रंजिए सयले गयणं गणाभोए, महु-पिंगलेसु मुत्ताहलेसु व
9 तारया-णियरेसु, पटियं इमं पाहाउय-दुवइ-खंडयं वंदिणा । अवि य ।
अवर-समुद-तीर-पुलिणोयए परिमंद-नामणियं । विरुद्धवेय-दुक्ख-परिपंदुरियं ससि-चक्कवाइयं ॥
पुवोयहि-तीरयाओ संगम-रहसुद्धीण-वेहओ । इच्छइ अहिलसिऊण दइयं पिव तं रवि-चक्कवायओ ॥
12 जोणहा-जल-पडिहत्थए गयण-सरं णिम्मले पहायमि । मउलइ अरुणाइइउ तारा-चंदुज्जयाण सत्थओ वि ॥
णाणा-णयण-मणो-हरिय तउ अंगेहिं विलसंत । मेह्लि भडारा णिद्र तुहुं अण्णु विइजिय कंत ॥
इमं च वंदिणा पटियं णिसामिऊण जंभा-वस-चलिउव्वेहमाण-बाहु-फलिहो णिहा-घुम्मिरायं-व-णयण-जुवलो समुट्ठिओ राया
15 सयणाओ । कयं च कायावस्सय-करणीयं । उवगओ अत्थाण-मंडवं जाव जोकारिओ वासवेणं । भणियं च राइणा 'भो भो
वासव, कीस ण वच्चिमो भगवओ धम्मणंदणस्स पाय-मूलं' । भणियं च वासवेणं 'जहा पहु आणवेइ' त्ति । पयत्ता गंतुं,
समारूढा य वारुया-करिणिं, णिग्गया य णयरीओ । संपत्ता तमुज्जाणं । वंदिओ भगवं धम्मणंदणो साहुयणो य ।
18 पुच्छिया य भगवया पउत्ती, साहिया य णेहिं । भणियं च भगवया । 'भो भो महाराय पुरंदरदत्त, किं तुह वल्लगं
किंचि हिययमि' । तओ राइणा चित्तियं । 'णिस्संसयं जाणिओ भगवया इहागओ' त्ति चित्तयंतेण भणियं च णेण ।
'भगवं, जारिसं तए समाइइ वारिसं सव्वं पडिवणं । किंतु इमे कुडंग-काउंबरी-फलाणि मोत्तुं ण चाएमि । ता इह-
21 ट्ठियस्स चेष देसु भगवं, किंचि संसार-सागर-तरंडयं' ति । भगवया भणियं । 'जइ एवं, ता गेणइ इमाइं पंचाणुव्वय-
रयणाइं, तिण्णिण गुणव्वयाइं, चत्तारि सिक्खावयाइं, सम्मत्त-मूलं च इमं दुवालस-विहं सावय-धम्मं अणुपालेसु' त्ति ।
तेणावि 'जहाणवेसि' त्ति भणमाणेण पडिवणं सम्मत्तं, गहियाइं अणुव्वयाइं, सव्वहा गहियाणुव्वओ अणण्ण-देवो जाओ
24 राया पुरंदरदत्तो । वासवो वि तुट्ठो भणित्ताओ । 'भगवं, किं पि तुट्ठहाणं वुत्तं अम्हे ण-याणिमो' । भगवया भणियं ।
'इमो चेष कहइस्सइ त्ति । अम्हाणं सुत्तय-पोरिसीओ अइक्कमंति । गंतव्वं च अज्ज अम्हेहिं' । इमं च सोऊणं मण्णु-भर-
कंठ-गगर-गिरेहिं भणियमणेहिं । अवि य ।
27 'अम्हारिसाण कत्तो हियइच्छय-दइय-संगम-सुहेली । एयं पि ताव बहुयं जं दिट्ठं तुम्ह चलण-जुयं ॥
ता पुणो वि भगवं, पसाओ करियव्वो दंसणेणं' ति भणमाणा णिवडिया चलण-जुवलए भगवओ । अभिणंदिऊण य तितुणं
पयाहिणं काऊण पविट्ठा कोसंबीए पुरवरीए । भगवं पि सुत्तय-पोरिसिं करिय तप्पभिइं च सिव-सुह-सुभिक्ष-खेत्तेसु
30 विहरिउं पयत्तो । भगवं गच्छ-परिवारो । ते वि थोवेणं चिय कालेण अधीय-सुत्तथा जाया गीअत्था पंच वि जणा । ताणं च
एग-दियह-वेला-समवसरण-पव्वइयाणं ति काऊण मंहत्तो धम्माणुराय-सिणेहो जाओ त्ति ।
§ १७०) अह अण्णया कयाइ ताणं सुहं सुहेण अच्छमाणाणं जाओ संलावो । 'हो हो, दुल्लहो जिणवर-मग्गो, ता
33 कहं पुण अण्ण-अवेसु पावेयव्वो त्ति । ता सव्वहा किमेत्थ करणीयं' ति चित्तिऊण भणिओ पाय-पइणुट्ठिएहिं चंडसोम-
जेट्ठओ । अवि य ।

1) P om. चित्तयंतो राया गंतुं पयत्तो । etc. to ता माणसं चिय करेमि पणामं । 4) P जइ संसारगहोयहिदुग्गसयावत्त, P मोक्खवस्स तीर. 5) P किरणं for करणं. 6) P वासहरंमि निवण्णो. 7) J adds वि before भगवंते, P सोविऊण विबुद्धो वेरिगियं कालं काउमाढत्तो. 8) P om. य, P अरुणपहारं, J अ for व. 9) P दुअइव्वेडल्लयवंदिणो. 10) P विरुद्धवेयदक्खपरिपंदुरियेसि. 11) P संगमरहं, JP सुद्धीण, P पुच्छइ अहिलिऊण दइयं, P चक्कवाइओ. 12) J पडिच्छए P पडहच्छए, P अरुणाइइओ, P चंदुज्जयाण. 13) P राइणा सयण मणो for णाणा etc., P अं for अंगेहिं, J णिद्र (?), P अज्ज वियज्जिय. 14) P जं तावस्, P जुयलो. 15) P om. जाव, P जोकारिओ. 16) P जइ, JP पयत्तो. 17) P समारूढो. P करिणि, P साहुणो. 18) P om. य before णेहिं, P महा for महाराय. 19) P निरसंदिट्ठं जाणिओ, JP चित्तियंतेण 20) P कुडयकाउंबरी, J adds त्ति after चाएमि. 21) P ट्ठिय चेष. 22) P दुवालसविधं. 23) P जहाणवेसु, P अण्णे देवो. 24) P तुट्ठहाणं पुव्ववुत्तं. 25) P कहइस्सइ, P पोरिसीओ. 26) P om. कंठ. 27) P om. दइय, P एयंमि ताव. 28) After अभिणंदिऊण य P repeats 'ट्ठं तुम्ह चलणजुयं etc. to अभिणंदिऊण य. 29) J rightly restores पविट्ठा P पविट्ठो, P om. वि, P पोरिसी, J तप्पभूइं, P च सुविसुइसुहेकखेत्तेसु. 30) P पयायो, J अधीय. 31) P एक for एग, P पव्वइयाण काऊण. 32) J कयाइ, P adds त्ति after मग्गो. 33) P om. ति, P adds य before भणिओ, P पायवट्ठुं, J चंडसोम. 34) P -जेट्ठओ.

- 1 'जह थोव-कम्मयाए अण्ण-अवे होज्ज अइसओ तुज्ज । ता जत्थ ठिया तत्थ तए संमत्तं अह्म दावब्बं ॥ 1
पुव्व-ट्टिइए एयं अह्म सिणेहोवयार-पक्खेहिं । सुविहिय तं पडिवज्जसु इच्छा-कारेण साहुणं ॥'
- 3 गिवडिया भणमाणा पाएसु । भणियं च चंडसोमेणं । 3
'जह होज्ज अइसओ मे तुम्हे वि य होज्ज मणुय-लोगम्मि । पांविदियव्व-सण्णी ता पडिवण्णं ण अण्णत्थ ॥'
तओ तेहिमि चउहिमि जणेहिं भणिओ माणभडो 'इमं चेय' । तत्थ तेणावि 'तह' त्ति पडिवण्णं । तो तेहिं चउहिं मि
- 6 भणिओ मायाइच्चो । तेणावि 'इत्थं' ति पडिभणियं । तओ लोहदेवो, पुणो मोहदत्तो त्ति । एवं अवरोप्पर-कय-समय-संकेच- 6
सम्मत्त-लंभभुयय-मगिरा अच्छिउं पयत्ता । एवं च पव्वज्ज-किरिया-णाण-झाण-वावढाणं च ताणं वच्चइ काल्पे । किंतु
सो चंडसोमे देस-सभावेणं चेय कहिंवि कारणंतरे कोवण-सहावो, मायाइच्चो वि मणयं माया-णियडि-कुडिल-हियवओ ।
- 9 सेसा उण पडिभग-कसाय-पसरा पव्वज्जमणुपालेति । कालेण य सो लोभदेवो णिययाउयं पालिउण कय-संलेहणा-कम्मो णाण- 9
दंसण-चारित्त-तवाराहणाए चउक्खंघाए वि पाण-परिच्चायं काउण तप्पाओग्ग-परिणाम-परिणय-पुव्व-बद्ध-देवत्तण-णाम-गोत्तो
मरिउण सोहम्मे कप्पे उवगओ ।
- 12 § १७१) जं च केरिसं । अवि य । 12
णिम्मल-रयण-विणिग्गिमय-तुंगा-विमाणोह-रुद्ध-गयणवहं । रम्म-मणि-कूड-रहयं सिरि-णिलयं णंदणवणं व ॥
कहिंवि सुर-कामिणी-नीय-मणहरं, कहिंवि रयण-रासि-पज्जलिउज्जलं, कहिंवि वीणा-रव-सुव्वमाणकंडुल्लयं, कहिंवि तार-
- 16 मुत्ता-फलुज्जलं, कहिंवि मणि-कोट्टिमुच्छलंत-माणिक्कयं, कहिंवि फालिह-मणि-विरहय-अक्खाडयं, कहिंवि पोमराय- 16
मणि-वियसिय-तामरसं, कहिंवि वियरंत-सुर-सुंदरी-णेउर-रवारावियं, कहिंवि मुहउम्मत्त-सुर-कुमारफोडण-सुव्वमाण-पडिरवं,
कहिंवि ताडिय-मुरय-रव-रविज्जंतयं, कहिंवि तियस-विलया-णञ्चण-विप्पमाण-सुर-कुसुम-रयं, कहिंवि संचरंत-वज्जदेव-
- 19 विज्जओइयं, कहिंवि सुर-जुवाण-मुक्क-सीह-णाय-गडिभणं, कहिंवि सुर-पेक्खणालोचमाण-बद्ध-कलयलं, कहिंवि चलमाण- 18
वज्जहर-जयजया-सह-सुव्वमाण-पडिरवं, कहिंवि सुर-पायव-कुसुमामोय-णिम्महंत-गंधयं, कहिंवि दिव्व-धुइ-धुव्वमाण-जिणवरं,
कहिंवि पवण-पसर-वियरंत-परियाय-कुसुम-मंजरी-रेणु-उद्धुव्वमाण-दिसिवहं ति । अवि य ।
- 21 जं जे णराण सोक्खं सोक्खट्टाणं व सुव्वइ जणम्मि । तं तं भणंति सग्गं जं सग्गं तत्थ किं भणिमो ॥ 21
एयम्मि एरिसे इयर-जण-वयण-गोयराइए सुइ-सुहए सग्ग-णगर-पुरवरे अत्थि पउमं णाम वर-विमाणं ।
§ १७२) तं च केरिसं । अवि य ।
- 24 वर-पोमराय-णिम्मल-रयण-मऊहोसरंत-तम-णियरं । वर-मोत्ताहल-माला-धवल-पलंबत-ओऊलं ॥ 24
पवणुट्टय-धुय-घयवड-किंकिणि-माला-रणंत-सहलं । वर-वेजयंति-पंती-रेहिर-वर-तुंग-सिहरालं ॥
मणि-पोमराय-घच्चियं वियसिय-पोमं व पोम-सच्छायं । पउम-वण-संड-कलियं पउम-सणाहं वर-विमाणं ॥
- 27 तम्मि य पउमसणामे विमाण-मज्झम्मि फलिह-णिम्मवियं । ललमाण-मोत्तिओऊल-जाल-मालाहिं परियरियं ॥ 27
वर-वहर-घच्चिय-पायं मरगय-मणि-णिव्वइत-पावीहं । कक्केयणुप्पल-वलं सयण-वरं कोट्टिमयलरिमि ॥
तस्स य उवरिं रेहइ तणु-लहु-मउयं सुवित्थयं रम्मं । गयणयलं पिव सुहुमं सुइ-सुहयं किं पि देवंगं ॥
- 30 तस्स य उवरिं अण्णं धवलं पिहुलं पलंब-पेरंतं । तं किं पि देव-दूसं खीर-समुहस्स पुलिणं व ॥ 30
अह ताण दोण्ह विवरे आणिज्जइ कास-कुसुम-मउययरे । देवाणुपुव्वि-रज्जू-कडिज्जंतो बहल्लो व्व ॥
अह कम्मय-तेओभय-सरीर-सेसो खणं अणाहारो । संपत्तो ण्ण्णं समणं लोहदेव-जिओ ॥
- 33 तत्थ य संपत्तो च्चिय गेण्हइ वर-कुसुम-रेणु-सरिसाहं । वेउव्व-पोमालाहं अगुरु-लहु-सुरहि-मउयाहं ॥ 33
जह तेल्ल-मज्झ-पत्तो पूयलओ गेण्हए उ तं तेल्लं । पुण मीसो पुण मुंचइ एवं जीवो वियाणाहि ॥

1) P कंमताए, JP जत्थट्टिया. 2) J -ट्टिइए P -ट्टितीए. 3) P adds य before णणमाणा. 4) J तुम्मे, J मणुअलोअम्मि. 5) P तेहिं चउहिं जिणेहिं, P ता for तो, J चउहिं वि. 6) J इच्छंति P इच्छियं, P om. समय. 7) P °भुयय, J यच्छिउं, P adds च after ताणं. 8) P सहावेणं. 9) P पसाय for कसाय, J -प्पसरा, P पव्वज्ज-मम्भुवगया पालेति, J लोहदेवो. 10) J चरित्तभागहणाए चउक्खंघाए, J तप्पओग्ग, P वट्ट for बद्ध. 11) P कुडु for कूड, J च for व. 12) J कामिणि, P पज्जलिउज्जलं, J सुव्वमाणकंडुल्लयं P सुव्वमाणकंडुल्लं. 13) P मुत्ताहलं, P कोट्टिमुज्ज-लंत, P विरहयक्खाडयं. 14) P णेउराराव, J कुमारफोडण. 15) P तालियमुरय, P विप्पमाणसुरकुमारयं, J कुसुमारयं, J विज्जदेव विज्जओइयं. 16) P सुरपेक्खणालोचमाणकलयलं. 17) P om. धुइ. 18) P रेणुयधुव्व, J om. ति. 19) P मि for व. 20) J गोयराहं । तो सुइसुहए णियरा पुरवरे, J om. वर. 21) J मउहो. 22) P पवणवमुट्टयवयं, P रसंत for रणंत, J तुंग for तुंग. 23) P पोमवण, J पउमसणामं P पोमसणाहं. 24) P पोमसणामे, J फलिह for फलिह, P मोत्तिउज्जलजाला. 25) J कक्केअणुप्पल P कक्केयणउप्पउप्पललसयण. 26) P सुवित्थरं (in J र is scored and written after that), P मिव for पिव, P सुइ सुहुमं. 27) J °पुव्विरज्जं P °पुरब्ब. 28) P सरीर for सरीर. 29) P मऊयाहं. 30) P पूलओ, J एयं, P विजाणाहि ॥ अखह.

- 1 अह खणमेतेण चिय आहारण-करण कुणइ पज्जति । अणुमगं चिय तस्स य गेण्हइ थ सरीर-पज्जति ।
ठावेइ इंदियाइं फरिस-प्पमुहाइं कम्म-सत्तीए । ता अणुपाणं बाउं मणं च सो कुणइ कम्मेणं ॥
- 3 भासा-भासण-जोगो गेण्हइ सो पोगगले ससत्तीए । इय सो सव्वाहिं चिय पज्जतीहिं हवइ पुण्णो ॥
एत्थंतरम्मि सव्वं मुहुत्त-मेत्तेण अत्तणो रुवं । अंगोवंग-सउण्णं गेण्हइ कम्माणुभावेणं ॥
अह तं उचरिम-वत्थं उत्यल्लेऊण तत्थ सयणयले । जंभा-वस-वलिउव्वेळमाण-बाहाण उक्खेवो ॥
- 6 आयं-वीहरच्छो वच्छत्यल-पिहुल-पीण-भुय-सिहरो । तणु-मज्ज-रेहिरंगो विहुम-सम-रुहर-ओट्ट-जुओ ॥
उण्णय-गासा-वंसो ससि-विंबायार-रुहर-मुह-कमलो । वर-कप्परुक्ख-किसलय-सुट्टुवेळंत-पाणियलो ॥
कोमल-मुणाल-बाहु चामीयर-वडिय-सरिस-वर-जंघो । ईसि-समुण्णय-कोमल-चलणग-फुरंत-कंतिहो ॥
- 9 पिहु-वच्छत्यल-लेविर-हार-लया-रयण-राय-वंचइओ । गंढत्याल-तढ-ललमाण-कुंडलो कइय-सोहिहो ॥
कप्पतरु-कुसुम-मंजरि-संतान-पारियाय-मीसाए । आजाणु-लंबिराए वणमाळाए विरायंतो ॥
गिहा-खए विबुद्धो जह किर राई कुमारओ को वि । तह सयणाओ उट्टइ देवो संपुण्ण-सयलंगो ॥
- 12 इय जाव सो विबुद्धो ईसिं पुलएइ लोयण-जुएण । ता पेच्छइ सयलं चिय भत्ति-णयं परियणं पासे ॥
अवि य । केरिसं च तं परियणं दिट्ठं लोहदेवेण ।
गायंति के वि महुंरं अण्णे वापंति तंति-वज्जाइं । णत्तंति के वि मुह्या अण्णे वि पवंति देव-गणा ॥
- 15 पालेसु जियं जं ते अजियं अजिणसु परम-सत्तीए । विरइय-सिरंजलिउडा धुणन्ति एएहिं चयणेहिं ॥
जय जय णंदा जय जय भद्दा अम्हाण सामिया जयहि । अण्णे किंकर-देवा एवं जंपंति सुट्ट-मणा ॥
भिंजार-तालियंटे अण्णे गेण्हंति चामरे विमले । धवलं च आयवत्तं अवरं वर-दप्पण-विहत्या ॥
- 18 वीणा-मुहंग-हत्या वत्यालंकार-रेहिर-करा य । अच्छंति अच्छर-गणा तस्साएसं पडिच्छंता ॥ सव्वहा,
अह पेच्छइ तं सव्वं अदिट्टुउव्वं अउव्व-रमियं च । उव्वेळ-वेळ-मय-वस-बिलासिणी-रेहिर-परारं ॥
§ १७३) तं च तारिसं अदिट्टुउव्वं पेच्छउण चित्तियं लोहदेवेण । 'अहो, महल्ला रिद्धी, ता किं पुण मह इमा किं
- 21 वा अण्णस्स कस्सइ' त्ति चित्तयंतस्स भणियं देव-पडिहारोण । अवि य ।
जोयण-सहस्स-तुंगं रयण-महा-पोमराय-णिम्मवियं । पडिहय-तिमिर-प्पसरं देवस्स इमं वर-विमाणं ॥
वर-इंदणील-मरगय-कक्केयण-पोमराय-वजेहिं । अण्णोण्ण-वण्ण-भिण्णो रयणुक्केरो तुहं चेष ॥
- 24 पीणुत्तुंग-पओहर-णियं-ब-गहओ रणंत-रसणिहो । मयण-मय-धुम्मिरच्छो इमो वि देवस्स देवियणो ॥
लय-ताल-सुद्ध-गेयं सललिय-करणगाहार-णिम्मायं । वर-मुरय-गहिर-सइं देवस्स इमं पि पेक्खणयं ॥
असि-चक्क-कौत-पहरण-वर-तोमर-वावडग-हत्थेहिं । देवेहिं तुज्ज सेणा अच्छइ बाहिं असंखेज्जा ॥
- 27 पल्हत्थेइ य पुहइं मुट्ठि-पहारेण चुण्णए मेरं । आणं सिरेण गेण्हइ इमो वि सेणावई तुज्ज ॥
सुर-सेल-तुंग-देहो गंढत्याल-पज्जंरंत-मय-सलिलो । देसण-पलाण-दणुओ इमो वि सुर-कुंजरो तुज्ज ॥
मंदार-सुरहि-केसर-कप्पतरु-पारियाय-सय-कलियं । फल-कुसुम-पल्लबिहं उज्जाणमिमं पि देवस्स ॥
- 30 हियइच्छिय-कज्ज-पसाहयाइं गिहं अमुक्क-ठाणाइं । तुज्जं चिय वयण-पडिच्छिराईं इय किंकर-सयाइं ॥
देव तुमं इंद-समो बल-वीरिय-रूव-आउय-गुणंहिं । पउम-विमाणुप्पण्णो तुज्जं पउमप्पहो णामं ॥
इय रिद्धि-परियण-बले पडिहारोणं णिवेइए णाउं । अह चित्तिउं पयत्तो हियए पउमप्पहो देवो ॥
- 33 किं होज मए दिण्णं कम्मि सुपत्तम्मि केत्तियं विभवं । किं वा सीलं धरियं को व तवो मे अणुच्चिण्णो ॥
इय चित्तंतस्स य से वित्थरियं ज्ञत्ति ओहि-वर-णाणं । पेच्छइ जंबुहीवे भरहे मज्झिहल्ल-खंडम्मि ॥
पेच्छइ जत्थुप्पण्णो तुरए चेत्तूण जत्थ सो पत्तो । चलिओ रयणहीवं जह पत्तो जाणवत्तेण ॥
- 36 जह भरियं रयणाणं जह थ णियत्तो समुह-मज्जम्मि । जह भहो पक्खित्तो लोह-विमूढप्पणा तेण ॥

1) P adds, after कुणइ, णं भासभासणजोगो गेण्हइ तह पोगगले ससत्तीए ॥, P चिय, P पज्जत्तं ॥ णावेइ. 2) P फरिसयपमुहाइं तस्स भत्तीए, P om ता, P आणुपाणुं, J वायुं, P मणुं, P कुणइ इकंमेणं. 3) P जोगो गेण्हइ तह पोगगले, P पज्जतीहिं. 4) J रूयं, P सउणं. 5) P वच्छल्लेऊण, P वलिपुव्वेळमाणवाहालिपुक्खेवो. 6) P पीयण, P -अट्टजुओ. 7) J विंयोगयणरुहर, P सुट्टुवेळंतपाणितलो. 8) P समुल्लयकोमलणगमा. 9) P लयालत्तराय, J वर for तह. 10) J संताणय. 11) P विउद्धो, P सउंगो. 12) P ईसिं for ईसिं, P भत्तियणं. 14) P वायंति. 16) P om. one जय, P सामिय जयहि. 17) P तालियंटे, P त for च. 18) P मुयं, P तस्सुवएसं, P om. सव्वहा. 19) P अदिट्टुउव्वं, P रमियव्वं. 20) P अट्टुउव्वं, P लोमदेवेणं. 23) P सिहो for भिणो. 24) P पीगत्तुंग, P रणतरमणिहो. 25) P गेहं for गेयं. 29) J कप्पतरु, P पारियायसंवलयं. 31) J विहव for रूव. 32) J परिहारोणं. 33) J व भवे for विभवं, P धरिउं. 34) P चित्तंतस्स, J वित्थारियं, P ज्ञत्ति, P खंडम्मि. 35) P जो for सो. 36) P भरिओ.

- 1 जह फुटं बोहित्यं तारदीवमि जह दुहं पत्तो । संपत्तो कोसंबिं जह विट्टो धम्मणेदणो भगवं ॥ 1
जह पव्वज्जमुवगओ संविगो जह करेउमाढत्तो । पंच-णमोकार-मण काल-रायं चेष अत्ताणं ॥
- 3 णायं तु जहा कम्मं बहुयसुहं सोसियं तु दिक्खाए । पंच-णमोकार-फलं जं देवत्तं मए पत्तं ॥ 3
§ १७४) इमं च पेच्छिऊण सहसा वलिय-चलंत-कंत-कामिणी-गुरु-णियं-ब-बिंब-मंथर-विलास-कणय-कमलाली-खलंत-
मणि-णेउर-रणरणारावं रसणा-रसंत-किंकिणी-जाल-माला-रणंत-जयजयासइ-पहरिस-संवलिउच्छलंत-सपडिसइ-पसरंत-पूरिय-
- 6 खुब्भमाण-सुरयणं समुट्टिओ सयणाओ, अभिगओ सत्तट्ट-पयाइं जंबुदीवाभिमुहो, विरइओ य सिरे कमल-मउल-सरिसो 6
अंजली । णिमियं च वामं जाणुयं । मणि-कोट्टिम-तलमि भत्ति-भर-विणमिउत्तिमंगेण भणियं च णेण ।
सुर-गंधव-सिद्ध-विजाहर-किंणर-गीय-वयणयं । दणुवइ-वर-णरिंद-तियसिंद-पहुत्तण-लंभ-गरुययं ।
- 9 भीसण-जणण-मरण-संसार-महोयहि-जाणवत्तयं । जयइ जिणिंदयाण वर-सासणयं सिव-सोक्ख-मूल्यं ॥ 9
तित्थ-पवत्तण-गरुयणं णिममल-पसरंत-णइ-मउहयए । सयल-सुरासुर-णमियणं पणमामि जिणाण थ च्छलणए ॥
एरिसिया सुर-रिद्धिया दिण्णा रयण-समिद्धिया । जेण महं सुह-कम्मयं तं पणमामि सुधम्मयं ॥ ति ।
- 12 समुट्टिओ य पणामं काऊणं, भणियं च णेण 'भो भो मए, किं करियव्वं संपयं' ति । पडिहारण विण्णत्तं 'देव, कीला-वावीए 12
मज्जिऊण देवहरए पोत्थय-वायणं' ति । तेण भणियं । 'पयट्ट, कीला-वाविं वच्चामो' ति भणमाणो वलिओ सरहसं ।
पडिहारो ओसारिजमाण-सुर-लोओ संपत्तो मज्जण-वाविं ।
- 15 § १७५) सा पुण केरिसा । अवि य । 15
पेरंत-रयण-कोट्टिम-णाणा-मणि-किरण-बद्ध-सुरचावा । तीर-तरुगय-मंजरि-कुसुम-रउद्धय-दिसिचक्का ॥
मणि-सोमाण-विणिमिय-कंचण-पडिहार-धरिय-सरिसोहा । कलधोय-तुंग-तोरण-धवलुद्धुत-धयवडाइहा ॥
- 18 पवण-वस-चलिय-किंकिणि-माला-जाला-रणंत-सुइ-सुहया । बहु-णिज्जहय-णिगम-दार-विरायंत-परिवेढा ॥ 18
कंचण-कमल-विहूसिय-सिय-रयण-मुणाल-धवल-सच्छाया । फलिह-मउज्जल-कुमुया णिक्ख विणिम्मविय-सुरहि-कल्लारा ॥
णीलमणि-सुरभि-कुवलय-विसट्ट-मयरंद-बिंदु-चित्तलिया । वर-पोमराय-सयवत्त-पत्त-विविखत्त-सोहिला ॥
- 21 वर-इंदणील-णिम्मल-णालिणी-वण-मंड-मंडिउहेसा । विच्छित्ति-रदय-पत्तल-हरिया बहु-पत्त-भंगिहा ॥ 21
सुर-लोय-पवण-चालिय-सुरदुम-कुसुमोवयार-सोहिला । अच्छच्छ-धवल-णिम्मल-जल-भर-रंगत-नामरसा ॥
इय कमल-मुही रम्मा वियमिय-कंदोट्ट-दीहरच्छि-जुया । मणि-कंचण-घडियंगी दिट्ठा वावी सुर-वहु च्व ॥
- 24 तं च पेच्छिऊण दिण्णा झंपा वावी-जलमि । तस्साणुमगओ ओइण्णो सुर-कामिणी-सत्थो । किं च काउमाढत्तो । अवि य । 24
तुंग-धणवट्ट-पेहण-हल्लिर-जल-वीइ-हरिय-णिय-सिचओ । कलुसेइ णिममल-जलं लज्जतो अंग-राणण ॥
वित्थय-णियं-ब-मंथण-धवलुगय-विप्फुरंत-फेणोहं । अह मह इमं ति सिचयं विलुलिज्जइ जुवद-सत्थेण ॥
- 27 अवरोप्पर-ओल्लण-सोल्लणाहिं णिवडंत-णीसहंगाहिं । पोढ-तियसंगणाहिं दइओ णिहोसमवउओ ॥ 27
पउमप्पहो वि खेहइ समंक-णिवडंत-पउम-लहु-पहरो । अच्छोडिय-णिहय-कमल-संग-जल-पहर-धारहिं ॥
अंगमि तस्स ताव थ पहरंति मुणाल-णाल-पहरेहिं । मुद्ध-तियसंगणाओ वलिऊण ण जाव पुलएइ ॥
- 30 जा जा मुणाल-पहया होइ ससिक्कार-मउलियच्छीया । तं तं पउम-ममाणा पोढा ण गणेइ खेलमि ॥ 30
जल-जंत-णीर-भरियं लोयण-जुयलं पियस्स काऊण । चुंबइ दइयस्स सुहं लज्जा-पोडत्तणुप्फालं ॥
इय मज्जिऊण तो सो तियस-वहु-वर-करेणु-परियरिओ । उत्तरिओ लीलाए दिसा-गहंओ च्व सवियारं ॥
- 33 पमज्जियं च रायहंस-पम्ह-मउण देव-दूसेण से अंगं । समप्पियं च तस्स धोयवत्ति-जुवलयं । तं पुण केरिसं । 33

1) J दुक्खं for दुहं, J om. संपत्तो, P कोसंबी, J भयवं 2) P मंवेग, P करेउ अढत्तो, P चेष व अत्ताण.
3) P बहुमसुयं उओसियं, J क्कारहलं 4) P om. कंत, P रणरणाराणमरंन. 5) P सदा, J om. पहरिस, J लंत-
पडिसइयमरपूरिय. 6) P रयणाओ for सयणाओ, P adds य before मत्तट्ट, J विराय सिरे, P कमलउल, J सरिस अंजलि.
7) P निम्मियं, J वामजाणुं, J कोट्टिमियंभि, J विणमिउत्तं. P वियणमिउत्तं. 8) P विजाहर. 9) P om. भीसण,
P जमण, P adds विणाम before संसार. 10) P नभए, P मयूरए, P नमियपए, P om. य. 11) J एरिसा.
12) P om. य, P om. भणियं च णेण. 13) J देवहरय (यं?) P देवहरयं, J वायणं च ति, J कीलावावी, J om. ति, P पडि-
हारो सारि. 15) P जा for सा. 16) P रयइय, J दिसिक्का. 17) P सोमाण, P किलधोय, P धवलुद्धुत. 18) P जालमाला
for मालाजाला. 19) P विगासिय, J om. धवल, P फलिहधिलुज्जकुमुयानिकवि, P om. सुरहि, P कल्लारा. 20) P सुरदि,
P adds मरगयस before सयवत्त, P om. पत्त. 21) P विच्छित्त, P पत्तलपत्तलयावत्तपत्त. 22) J अचन्धधवल, J जउहर.
23) P हरिसा for रम्मा. 24) P तस्सालुमगो. 25) P पणवद्धपणण, P वीइतियमयिचइओ. 26) P विप्फुरंतफेणाहं,
P विलुलिज्जति. 27) P निदयसमवउओ. 28) P खेहइ, P उच्छोडियनिहलकमल. 30) P होहिइ, J पउमसणाओ
P पओसणाओ, P पोढ. 32) P पयिओ I, P गयंदो. 33) P पओणेण for मउण, om. देव.

- 1 किं होज तूल-मउयं वडियं वा कास-कुसुम-पम्हेहिं । किं वा मुणाल तंतू-णिम्मविथं देव-सत्तीए ॥ 1
- तं च तारिसं णियंसिऊण कय-उत्तरासंगो पडिहार-दाविय-मग्गो पयत्तो गंतुं, देवहरयं पत्तो य । उग्घाडियं च से दारं 3
- 3 णिओहएण देव-वरयस्स । ताव य 3
- णिजियसेस-मऊहा परिपेहिय-दूर-पाव-तम-पसरा । दिणयर-सहस्स-मइय व्व इत्ति कंती समुच्छलिया ॥
- § १७६) ताव य णव-वियसिय-पारियाय-कुसुम-संजरी-रेहिरो सुर-मंदार-कुसुम-गोच्छ-वावडो कणय-कमल-विसट्टमाणे- 6
- 6 दीवर-भरिओ सव्वहा दसद्ध-वण्ण-कुसुम-पडहत्थ-कणय-पडल-णिहाओ उवट्टविओ परियणेण । एत्थंतरम्मि पविट्टो 'णमो 6
- जिणाणं' ति भणमाणो देवहरए पउमप्पहो देवो । पेच्छइ य जिणहरं । तं च केरिसं । अवि य,
- अण्णोण-वण्ण-घडिए णिय-वण्ण-पमाण-माण-णिम्माए । उप्पत्ति णास-रहिए जिणवर-बिंवे पलोएइ ॥
- 9 फलिह-मणि-णिम्मलयरा के वि जिणा पूसराय-मणि-घडिया । के वि महाणीलमया कक्केयण-णिम्मिया के वि ॥ 9
- मुत्ताहल-तारयरा अवरे वर-पोमराय-सच्छाया । अवरे सामल-देहा मरगय-दल-णिम्मिया के वि ॥
- ते य भगवंते पेच्छिऊण जिणवरं हरिस-वस-वियसमाण-णयण-जुवलओ चलणेसु 'णमो सव्व-जिणाणं' ति भणमाणो णिव- 12
- 12 डिओ । ताव य दिव्व-सुरहि जल-भरेए समप्पिए कणय-कलसे अहिंसिचिऊण, विलित्ते दिव्व-देवंगराएण, उप्पाडियं च 12
- गोसीस-चंदण-गंध-नाडिभणं पवर-धूयं । आरोवियाणि य जं-जहावण्ण-सोहा-विण्णास-लायणाइं जल-थलय-कुसुमाइं । तओ 12
- विरइय-विविह-पूयं केरिसं तं तियस-देवहरयं दीसिउं पयत्तं । अवि य ।
- 15 वियसिय-कणय-कमल-सिरि-णिजिय-माणस-लच्छि-गेहयं । णव-कंदोइ-कुसुम-कलहार-विराविय-कंत-सोहयं ॥ 15
- णव-मंदार-गोच्छ-संताणय-कुसुम-पहण्ण-राययं । मंदिरयं जिणाण तं सोहइ तथ्य समत्त-पूययं ॥
- तं च तारिसं पेच्छिऊण पहरिस-वस-समूससंत-रोमं च-कुंहुओ थोऊण समादत्तो भगवंते जिणवरिंदे । अवि य,
- 18 जय एसुरासुर-किणर-मुणिवर-गंधव्व-णमिय-चलण-जुया । जय सयल-विमल-कवल-जिण-संध णमोत्थु णं तुज्ज ॥ 18
- जइ देवो णेरइओ मणुओ वा कह वि होज तिरिओ इं । सयल-जय-सोक्ख-मूलं सम्मत्तं मज्ज देजासु ॥
- § १७७) एवं च थोऊण णिवडिओ पाणुसु । दिट्ठं च पोत्थय-रयणं पीढम्मि । तं च केरिसं । अवि य,
- 21 वर-पोमराय-गतं फलिह-विणिम्मविथ-पत्तयं रुहरं । धुय-इंदणील-लिहियं पोत्थय-रयणं पलोएइ ॥ 21
- तं च दट्ठण भत्ति-भर-णिच्च-भर-हियएण गहियं पोत्थयं सिट्ठिलियं च, उग्घाडिय वाचिउं पयत्तो । अवि य । णमो सव्व- 21
- सिद्धाणं ।
- 24 अविरहिय-णाण-दंसण-चारित्त-पयत्त-सिद्धि-वर-मग्गो । सासय-सिव-सुह-मूलो जिण-मग्गो पायडो जयइ ॥ 24
- संमार-गहिर-सायर-दुत्तारुत्तर-तरण-कजेण । तित्थ-करणेक्क-सीला सव्वे वि जयंति तित्थयरा ॥
- पज्जलिय-झाण-दुयवह-कम्मिधण-दाह-वियलिय-भवोहा । अपुणागम-ठाण-गया सिद्धा वि जयंति भगवंता ॥
- 27 णाणा-लद्धि-समिद्धे सुय-णाण-महोयहिस्स पारगए । आम्पण-भव्व-सत्ते सव्वे गणहारिणे वंदे ॥ 27
- णाण-तव-विरिय-दंसण-चारित्तायार-पंच-वावारे । पज्जलियागम-दीवे आयरिए चैव पणमामि ॥
- सुय-सुत्त-गुणण-धारण-अज्झयणज्झायणेक्क-त्तलिच्छे । उवयार-करण-सीले वंदामि अहं उवज्जाए ॥
- 30 पंच-महव्वय-जुत्ते ति-गुत्ति-गुत्ते विलुत्त-मिच्छत्ते । वंदामि अप्पमत्ते ते साहू संजमं पत्ते ॥ 30
- इय धम्मारह-मिद्धे गणहर-आयरिएं तह उवज्जाए । साहुयणं णमिऊणं जिणवर-धम्मं पवक्खामि ॥
- दु-विहो जिणवर-धम्मो गिहत्थ-धम्मो य समण-धम्मो य । बारस-विहो गिहीणं समणाणं दस-विहो होइ ॥
- 33 पंचाणुव्वय-जुत्तो ति-गुणव्वय-भूसिओ सचउ-सिक्खो । एसो दुवालस-विहो गिहि-धम्मो मूल-सम्मत्तो ॥ 33

1 > P किं होज तूलमउयं, J मउअं किं वा विहु कामं, P पडिय वा (emended पडियं वा), J तंतु P तंत. 2 > P निसेयंसिऊण, P देवघरयं, P उक्खाडियं, J om. से. 3 > P देवहरयं. 4 > P पडिपेहिय, P कंति. 5 > P वियसिया- P मंदर. 6 > J पहलय, P उवट्टविउ, P repeats नमो. 7 > P पेच्छइ यरा के वि जिणा पोमरायमणियडिया । के वि महाणील महाकक्केयणरयणनिम्माया । for पेच्छइ य जिणहरं । etc. to कक्केयणणिम्मिया के वि । J कक्केयणि- 10 > P अवरोवर, P मरगय- चलनिमया. 11 > P पूतिऊण for पेच्छिऊण. 12 > P खीरोय for दिव्वसुरहि, P om. समप्पिए. 13 > P जहावण्णा, P लावण्णाइं, P थल for थलय. 14 > P विरइयं, P om. तं, P पयत्ता. 15 > P वयण for कणय, P राहयं for मेहयं. 16 > P राहयं, P adds च before सोहइ. 17 > J कंतुओ, 18 > P गण for वर. 19 > P जय देवो. 20 > P om. च after एवं, P पोत्थयं रयणं पीढंमि. 21 > P विणिम्मिय, J दुअ for धुय, P णियं for णियं. 22 > P om. णिच्च, J om. पोत्थयं, P वाचिउं. 24 > P अविरहियए णाण, P पायडो जियइ. 25 > P गहियसायर, P तरुणकजेण, P वि जियंति. 26 > P पज्ज- लियज्झाणदुयवहा, P दाणतावियभवोहा, P अपुणागयट्ठाण, P भगवंतो. 27 > P सुयणायणसुहोयं, P सव्व for भव्व, P om. सत्ते 29 > P सुत्त for सुय, P नणाण, J अज्झायणं, P धारणसज्झायणेक्क. 30 > P om. मिच्छत्ते, P अप्पवमत्ते, P पत्ता. 31 > P सिद्धो, P आयरिय, P साहूणं. 33 > P य चउ for सचउ, P गिहधम्मो.

- 1 खंती य महवज्जव-मुत्ती-तव-संजमे य बोद्धव्वे । सच्चं सोयं आर्किचणं च बंभं च जहू-धम्मो ॥ 1
इय एयं चिय अह्वित्थरेण अह तम्मि पोत्थप्प लिहियं । वाणुजणं मुंचइ भत्तीएँ पुणो रयण-पीढे ॥
- 3 णमिऊण य जिणवरे णीहरिओ देवहरयाओ । पुणो जहासुहं भोए भुंजिउं पयत्तो पउमप्पमो देवो ति । एवं योएसु च्येय 3
दियहेसु वच्चमाणेसु माणभडो वि जहा-समयं पालेऊण आराहिऊण जिण-गमोक्कारं तेजेय कमेण तम्मि च्येय विमाणे अणेय-
जोयण-लक्ख-वित्थरे देवो उववण्णो । तस्स वि सा चेवावत्था, णवरं पुण णामं पउमवरो ति । तमो केण वि क्कालंतरेण
- 6 जहा-संजम-विहीए आउय-कम्म-णिज्जरे उप्पण्णो तम्मि च्येय विमाणे मायाह्वो वि, णवरं पुण से णामं पउमवरो ति । 6
तमो ताणं पि दियहाणं परिवालिय-संजमो सो वि मरिऊण चंडसोमो वि उप्पण्णो तम्मि च्येय विमाण-वरे, णवरं से
पुण णामं पउमचंदो ति । तमो वेसुह दियहेसु कय-सामाह्व-कम्मो मरिऊण मोहदत्तो तम्मि च्येय विमाणवरे उववण्णो,
- 9 णवरं से णामं पउमकेसरो ति । तमो एवं च ते पंच वि जणा पउम-विमाणुप्पण्णा सम-विभव-परिवार-बल-पोरुस-प्पभावा- 9
उया अवरोप्परं च महा-सिणेह-परा जाणंति जहा कय-संकेय ति । एवं वच्चइ कोइ कालो । एयंतरम्मि
सुर-सेणावइ-तालिय-घंटा-रावुच्छलंत-पडिसइ । पडिसइ-पोगगलुग्घाय-घट्टणाचलिय-सुर-घंटं ॥
- 12 घंटा-रव-गुंजाविय-वज्जिर-सुर-सेस-विसर-आउजं । आउज-सह-संभम-सहसा-सुर-जुवइ-मुक्क-हुंकारं ॥ 12
हुंकार-सवण-विमिहय-इइया-मुह-णिमिय-तियस-तरलच्छं । तरलच्छ-दंसणुप्पिय-भग्ग-गंधव्व-गीय-रवं ॥
गीय-रव-भंग-णासिय-ताल-लउम्मग्ग-णच्चिरच्छरसं । अच्छरसायण-संखुहिय-कलयलाराव-रविय-दिसियकं ॥
- 15 इय ताणं सहस च्चिय आसण-कंपो सुराण भवणेसु । उच्छलिय-बहुल-बोलो जाओ किं-किंचि पडिसहो ॥ 15
पुच्छियं च णेहिं सुरवरेहिं 'भो भो किमेयं' ति । तमो तेहिं विण्णसे पडिहारोहिं । 'देव,
जंबुहीवे भरहे दाहिण-मडिअल्लयम्मि खंडम्मि । तम्मि य धम्म-जिणिदो विहरइ उप्पण-णाणवरो ॥
- 18 ता तस्स समवसरणे गंतव्वं तिअस-वंद-महिण्ण । सुरणाहेण समं चिय भत्ति-भरोणमिय-सीसेण ॥ 18
तं च सोऊण कयं सव्वेहिं च्येय सुर-वरेहिं 'णमो भगवओ सुधम्म-धम्मस्स जिणस्स' ति । तं च काऊण पयट्टा सुरिंद-पमुहा
सुरवरा । कह य । अवि य,
- 21 सहसुद्धाह्व-रहवर-बहु जाण-विमाण-रुद्ध-गयणवहं । परितुट्ट-तियस-कलयल-हरिस-वसुमुक्क-बोलिकं ॥ 21
तियसिंद-पोढ-विलया-विलास-गिजंत-मंगलुग्गीयं । अवसेसच्छरसा-गण-सरहस-णचंत-सोहिहं ॥
रयण-विणिमिय-णेउर-वलमाण-चलंत-किंकिणी-सहं । वर-संख-पउह-भेरी-अल्लिरि-अंकार-पडिसइ ॥
- 24 णारय-सुंखु-शीणा-वेणु-रवाराव-मडुर-सदालं । उक्कुट्टि-सीह-णायं कलयल-सहुच्छलंत-दिसियकं ॥ 24
इय एरिस-हलहलयं जिणिदयंदस्स समवसरणम्मि । वचंति हिट्ट-तुट्टा अंगेसु सुरा अमार्यता ॥
संपत्ता य चंपा-पुरवरीए ।
- 27 § १७८) भणिओ य तियसिंदो पउमसारं तियसेण । 'देव, जइ तुब्भे अणुमण्णह, ता अहं च्येय एक्को सामिणो धम्म- 27
जिणस्स समवसरणं विरप्पमि' ति । भणियं च वामवेणं 'देवाणुप्पिया, एयं होउ' ति । भणियमेत्ते किं जायं ति । अवि य ।
सहस च्चिय धरणियले उद्धावइ मारुओ धमधमस्स । खर-सक्कर-तण-सय-रेणु-णासणो जोयणं जाव ॥
- 30 पवणुद्धय-रय-संताव-णासणो सुरमि-गंध-रिद्धिल्लो । अदिट्ट-मेह-मुक्को णिवइइ जल-सीयल-नुसारो ॥ 30
मयरंद-बिंदु-णीसंद-लुद्ध-मुद्धागयालि-हलबोलो । वेंट-ट्टिय-सुर-पायव-कुसुमुक्केरो पडइ तत्तो ॥
तो तस्स परियरेणं णाणा-मणि-रयण-किरण-संबलियं । बइ-सुर-चाव-सोहं पायार-वरं विणिम्मवियं ॥
- 33 तस्स य बाहिं सहसा बीयं वर-तियस-कणय-णिम्मवियं । रयणजोविय-सिहरं रइयं तियसेण पायारं ॥ 33

1) P बोधव्वे, P आर्किचणं for आर्किचणं. 2) P om. अइ, P मुच्चइ. 3) P om. य, J पउमप्पहो, P एयं. 4) P दियइ for दियहेसुं, P तेणय. 5) P सा च्येय ववत्था, P पुणा for पुण, J पउमीक ति P पउमवरो ति, P केणावि. 6) P संजमविही आं, P inter. पउमवरो (for पउमसारो) and से णामं, J पउम-सरो added on the margin, J P ति. 7) P काणं for ताणं, P चेव. 8) P उण, J पउम-भडो, P उप्पण्णो. 9) P om. से. 10) P सिणहइ for सिणेह, P तहा for जहा, P के वि for कोइ. 11) J सेणावइ, P घंटा-रावुच्छं, P पोगगलुग्घाय, J adds सेस before चलिय. 12) P गुंजाविया. 13) P adds रव before सवण, J समण for सवण, P निहिय for णिमिय, P *णुप्पिचछणंभव, P repeats गीयरवं. 14) P भंगाणसि(ताळअम्मग्गचिरं), J रच्छरयं, P सहं य for संखुहिय, P दिययकं. 15) P उच्छलियइलापोला, P किंतिपडिसहा. 17) J णाणवरो. 18) J गंतव्वन्तिअस, P तिअमरवंद, P समयं चिय. 19) P चेव, P सुहंमधंमज्जिणस्स, P प्पमुहा. 20) P कयहा for कह य. 21) P om. हरिसवसुमुक्कबोलिकं etc. to उक्कुट्टिसीइणायं. 24) P repeats कलयल. 25) P जिणिदइंदस्स, P इट्टतुट्टा. 26) P om. य. 27) P om. य, P om. तियसेण, P चव. 29) P मासुओ, P खरविक्रम, P जोयणं. 30) P रव for रय, P णासणोसुरहि, J P अदिट्ट. 31) P वंद for बिंदु, P वेदु for वेंट. 32) P परि-यणेणं, P om. किरण, P वावसाई पायारतयं. 33) P य बोहिं, P इइयं for बीयं, P adds कण before कणय, P पायारं.

- 1 थोवंतरेण तस्स य कलधोय-मयं फुरंत-कंतिलं । उत्तुंग-सिहर-राहं सहसा तइयं पि पाथारं ॥ 1
अह तुंग-कणय-तोरण-सिहरोवरि-चलिर-अयवडाहलं । मणि-घडिय-सालभंजिय-सिरि-सोहं चामरिंद-सुहं ॥
- 3 वर-मणि वराल-वारण-हरि-सरह-ससेहं संबराइणं । महमहमहंत-भूयं वण-माला-रुहर-लंबिर-पलंबं ॥ 3
वर-वेजयंत-सोहं मुत्ताहल-रुहर-दीहरोऊलं । तक्खण-मेत्तेणं चिय विणिम्मियं दार-संवायं ॥
वर-कणय-पउम-राढा वियसिय-कंदोद-कुसुम-चैचइया । अच्छच्छ-वारि-भरिया रइया दारेसु वावीओ ॥
- 6 पवणुवेळिर-पल्लव-वियसिय-कुसुम-सुरहि-नीघाइं । वर-चूय-चंपयासोय-सार-गरुयाइं य वणाइं ॥ 6
एयस्स मज्झयारे रइयं देवेण मणिमयं तुंगं । कंचण-सेलं व थिरं वरासणं भुवण गाहस्स ॥
तत्तो पसरिय-किरणं दित्तं भामंडलं मुणिवइस्स । वर-दुंदुही य दीसइ वर-सुर-कर-ताडिया सहसा ॥
- 9 कोमल-किमलय-हारं पवणुवेळंत-गोच्छ-चंचइयं । बारस-गुण-नुंगायं असोण-वर-पायवं रम्मं ॥ 9
तत्तो वि फलिह-मइयं तिहुयण-सामित्तणेक्क वर-चिंधं । चंदावलिं व्व रइयं छत्त-तियं धम्मणाहस्स ॥
पासेहं चामराओ सकीसाणेहं दो वि भरियाओ । उक्कुट्टि-सीह-णाओ णिवडंति य दिव्व-कुसुमाइं ॥
एत्थंतरम्मि भगवं पुव्वहारण पविसणं धम्मो । तियस-पउमावलीए ठावंतो पाय-पउमाइं ॥
- 12 अह पविसिऊण भगवं चेइय-रुक्खं पयाहिणं काउं । णिसियइ पुव्वाभिमुहो थुव्वंतो तियस-गाहेहिं ॥ 12
तत्तो णिमियस्स य से जाया पडिरूवया तिय-दिसासु । जिणवर-सरिसा ते चिय तस्सेव पभावओ जाया ॥
- 15 तो तस्स दाहिणं णमिउं तं चेष डाइ गणहारी । तस्साणुमग्ग-रुग्गा कंबलिणो सेस-साहू य ॥ 15
तत्तो विमाण-देवी समओ-महियाउ ठंति अण्णाओ । बहु-जणवय-सय-कलियं तथा वि रुंदं ति पडिहाइ ॥
कथइ विमाण-देवा कथइ भवणाण सामिणो होति । कथइ जोइसिय चिय वंतर-देवा य अण्णत्थ ॥
- 18 कथइ य वंतरीओ कथइ देवीओ जोइसाणं तु । कथइ णायर-लोओ कथइ राया सुरवरिंदो ॥ 18
अवरोप्पर-वेर-विज्जियाइं सयलाइं सावय-गणाइं । पायारंतर-परिसट्टियाइं चिट्ठंति णिहुयाइं ॥
एवं जोयण-मेत्ते धम्म-जिणिंदस्स समवसरणम्मि । अजंतणं अविकहे वेर-विमुक्के भय-विहीणे ॥
- 21 अह भाणिउं पयत्तो जोयण-णीहारिणो वणीए । गंभीर-महुर-घोसो णमोत्थु तित्थस्स वयणमिणं ॥ 21
इय भणियम्मि समं चिय सव्वे वि सुरिंद-दणुवइप्पमुहा । कर-कमल-मउलि-सोहा पणया देवा जिणिंदस्स ॥
अह सुर-णर-तिरिणसु य सण्णी-पंचिदिणसु सव्वेसु । परिणमइ सभासाए एकं चिय सव्व-सत्तेसु ॥
- 24 जह बुज्झइ देव-गुरू सयल-महासत्थ-वित्थरूपफालं । णउलाइं वि तह चिय वियप्पर-रहियं जिणाणं ति ॥ 24
§ १७९) इमाए उण एरिसाए वणीए सयल-सुरासुर-णर-तिरियामय-पाण-सरिसाए किं भणिउं पयत्तो भगवं धम्म-जिणिंदो ।
- 27 लोयम्मि अत्थि जीवो अत्थि अजीवो वि आसवो अत्थि । अत्थि य संवर-भावो बंधो वि य अत्थि जीवस्स ॥ 27
अत्थि य णिज्जरणं पि य मोक्खो वि य अत्थि णवर जीवाणं । धम्मो वि अत्थि पयडो अत्थि अहम्मो वि लोयम्मि ॥
सहव्व-खेत्त-कालाभावेहिं य अत्थि अप्पणो सव्वं । पर-दव्व-खेत्त-कालाभावेहिं य णत्थि सव्वं पि ॥
- 30 जइ वि ण चेप्पइ जीवो अप्पच्चक्खो सरार-मज्झम्मि । तह वि अणुमाण-गम्मो इमंहिं लिंणोहिं णायव्वो ॥ 30
उग्गह-ईहापूहा-मग्गण तह धारणा य मेहा य । बुद्धी मई वियक्का विण्णणं भावणा सण्णा ॥
अक्खेवण-उक्खेवण-आउं च-पसारणा य गमणं च । आहार-भसण-दंसण-पढण-वियारा बहु-वियप्पा ॥
- 33 एयं करोमि संपइ एयं काहामि एस-कालम्मि । एयं कयं ति-काले तिण्णि वि जो मुणइ सो जीवो ॥ 33
सो य ण सिओ ण कण्हो ण य रत्तो णय णील-कावोओ । देहम्मि पोग्गल-मए पावइ वण्णकम्मं णवरं ॥
ण य दीहो ण य तंसो ण य चउरंसो ण वट्ट-हुंडो वा । कस्सेणं देहत्यो संटाणं पावण जीवो ॥

1 > P कंतिले. 2 > P वलियथय, P चारिंद. 3 > P ससिहं, P रय for रुहर. 5 > P वणयपेभराहा, P repeats रइया, J वाईओ. 6 > P पवणुवेळिर, P भूय for चूय. 7 > P देवेण मयं. 8 > P साहसा for सहसा. 9 > P राहं for हारं, J जिण for गुण. 11 > P उक्कुट्टिसीहनीहो, P udds वडंति before य. 12 > P ठावंते. 13 > P अह विसिं, P चेतियरुक्खं, P पुत्तंतो for थुव्वंतो. 14 > P ततो, J विय for चिय, P तरसेय पहावओ. 15 > P नमियं. 16 > J रुंदं व्व पडिं. 17 > J विमाणा, P भवणाण वारिणो होइ. 18 > P देवीह. 19 > J संठियाइं P संट्टियाइं. 20 > P जोव्वणमेत्ते, P य विकहे for अविकहे. 23 > P परिणवइ सदासये एकं चिय सव्वसत्तेसु. 25 > P om. वणीए, P पयात्तो. 27 > P लोयम्मि य अत्थि, P ॥ अत्थि जीवरत्त । अत्थि निज्जरणं पि यामोक्खो. 28 > P सुहंमोय for अहम्मो वि. 29 > P कालाभावे चिय अत्थि. 30 > P जीवो इय पच्चक्खो 31 > P विअप्पा for वियक्का. 32 > J आउं च, P हसण for भसण, J सइण for दंसण, P वितारा. 34 > P किण्हो, P नीय for णील.

- 1 ण य सीयलो ण उण्हो ण य फरुसो णेय कोमलप्परिसो । गुरु-लहु-सिणिद्ध-भावं वच्चइ देहम्मि कम्मणे ॥ 1
- ण य अंबिलो ण महुरो ण य तित्तो कडु-कलाय-लवणो व्व । दुरही-सुगंध-भावं वच्चइ देहस्स मज्झ-गओ ॥
- 3 ण य सो घडवड-रुवो अच्चइ देहस्स मज्झयारम्मि । ण य होइ सव्व-वावी अंगुट्ट-समो वि य ण होइ ॥ 3
- णिय-कम्म-गहिय-पोगल-देह-पमाणो परोप्पराणुगओ । णह-दंत-केस-वज्जो सेस-सरीरम्मि अवि भावो ॥
- जह किर तिलेसु तेलं अहवा कुसुमम्मि होइ सोरब्भं । अण्णोण्णानुगयं चिय एवं चिय देह-जीवाणं ॥
- 6 जह देहम्मि सिणिद्धे लग्गइ रेणू अलक्खिओ चेय । रायदोस-सिणिद्धे जीवे कम्मं तह चेय ॥ 6
- जह वच्चंते जीवे वच्चइ देहं पि जत्थ सो जाइ । तह मुत्तं पिव कम्मं वच्चइ जीवस्स णिस्साण ॥
- जह मोरो उड्डीणो वच्चइ धेत्तुं कलाव-पट्ठभारं । तह वच्चइ जीवो वि हु कम्म-कलावेण परियरिओ ॥
- 9 जह कोइ इयर-पुरिसो रंथेऊणं सयं च तं भुंजे । तह जीवो वि सयं चिय काउं कम्मं सयं भुंजे ॥ 9
- जह विथिण्णम्मि सरं गुंजा-वायाहओ भमेज्ज हवो । तह संसार-समुदे कम्माइहो भमइ जीवो ॥
- जह वच्चइ को वि णरो णीहरिउं जर-घराउ णवयम्मि । तह जीवो चहऊणं जर-देहं जाइ देहम्मि ॥
- 12 जह रयणं मयण-सुगूहियं पि अंतो-फुरंत-कंतिलं । इय कम्म-रासि-गूढो जीवो वि हु जाणणं किंचि ॥ 12
- जह दीवो वर-भवणं नुंगं पिहु-दीहरं पि दीवेइ । मल्लय-संपुड-छूढो तत्तिय-मेत्तं पयासेइ ॥
- तह जीवो लक्ख-समुत्थियं पि देहं जणेइ सज्जीवं । पुण कुंथु-देह-छूढो तत्तिय-मेत्तेण संतुट्ठो ॥
- 15 जह गयणयले पवणो वच्चंतो णेय दीसइ जणेण । तह जीवो वि भमंतो णयणेहि ण घेप्पइ भवम्मि ॥ 15
- जह किर घरम्मि दारोण पधिसमाणो णिरुंभई वाऊ । इय जीव-घरे रुंभसु इंदिय-दाराइं पावस्स ॥
- जह उज्झइ तण-कट्टं जाला-मालाउल्लेण जलणेण । तह जीवस्स वि उज्झइ कम्म-रयं ज्ञाण-जोएण ॥
- 18 वीर्यं कुराण व जहा कारण-कज्जाइं णेय णज्जंति । इय जीव-कम्मयाण वि सह-भावो णंत-कालम्मि ॥ 18
- जह धाऊ-पत्थरम्मि सम-उत्पण्णम्मि जलण-जोएहिं । इहियण पत्थर-मले कीरइ अह णिम्मले कणयं ॥
- तह जीव-कम्मयाणं अणाइ-कालम्मि ज्ञाण-जोएण । णिज्जणिय-कम्म-किट्ठो जीवो अह कीरण विमलो ॥
- 21 अह विमलो चंदमणी झरइ जलं चंद-किरण-जोएण । तह जीवो कम्म-मले मुंचइ लहूणं सम्मत्तं ॥ 21
- जह सूरमणी जलणं मुंचइ सूरणं ताविओ संतो । तह जीवो वि हु णाणं पावइ तव-सोमियप्पाणो ॥
- जह पंक-लेव-रहिओ जलयोरिं टाइ लाउओ सइसा । तह सयल-कम्म-सुक्को लोग्गो टाइ जीवो वि ॥
- 24 इय जीव-बंध-मोक्खो आसव-णिज्जरण-संवरे सव्वे । संवलणाणीहिं पुरा भण्णिणं सव्वेहिं वि जिणेहिं ॥ 24
- एवं च देवाणुप्पिया ।
- लोकम्मि के वि सत्ता विसउम्मत्ता वहम्मि आसत्ता । मरिऊणं जंतं णरयं दुक्ख-सयावत्त-पटरम्मि ॥
- 27 णाणावरणुदएणं कम्मणेणं मोहणीय-पउरेणं । अट्ट-वयट्ठा अणो मरिऊणं थावरा होंति ॥ 27
- मय-लोह-मोह-माया-कसाय-वसओ जिओ अयाणंणो । मरिऊणं होइ तिरिओ णरय-सरिच्छासु वियणासु ॥
- को इत्थं होइ देवो विमाण-वासी य वंतरो अणो । अणो भवण-णिवासी जोहम्मिओ चेय तह होइ ॥
- 30 माणं णिरुंभिऊणं तवं च चरिऊणं जिणवराणाण । कोइ तहिं चिय जीवो नियसिंदो हाइ सग्गम्मि ॥ 30
- अणो गणहर-देवा आयरिया चैव होंति अणो वि । सम्मत्त-णाण-चरणं जीवा अणो वि पावंति ॥
- सयल-जय-जीव-वित्थर-भत्ति-भरोणमिय-संथुयप्पाणो । भव-कुसुयाणं समिणो होंति जिणंदा वि क वि जिया ॥
- 33 अणो मोहावत्तं दुइ-सय-जल-वीइ-भंगुर-तग्गं । मरिऊणं भय-म्मसुदं जीवा सिद्धिं पि पावंति ॥ 33
- तम्हा करेह तुव्भे तव-संजम-णाण-दंसणेसु मणं । कम्म-कलंक-विमुक्का सिद्धि-पुरं जेण पावेह ॥

2) J गुंअंध. 3) P विट for वट्ट, P य न वि for वि य ण. 4) P पणोपणुमओ, P केमियिओ मे सरीरम्मि, J भाओ.
 5) P कुसुमेडु देउ सोरंभं, P एवं चिय जीव देवाणं. 6) P निअंजिओ, P अ व्वेओ, P मणिद्धि. 7) P त्रायइ, J पिविकम्मं.
 8) P कलायभारं पि, P य for हु, J वि हु विहिकम्मकयपरिं. 9) J उडेऊणं P रंथेसंऊणं. 10) P हटी, P भइ for भमइ.
 11) J कोइ णरो, J नवयंति, P नव म्मि ज कि चि ज र दी तो चऊल्लं जह देहं. 12) P रयणमयणसुगूहियं, P रासिगूढो, P वि न यणएउ, P om. तिरि ॥ जह दीवो etc. to पि देहं जोएइ. 15) J जीवो for दी तो. 16) P एरि पधिसमाणो, P वाओ.
 17) P ज्ञाणजोएण. 18) P वीर्यंकुराणं जव ता कारण. 19) J पाउ P वाओ, J पत्थरमी, J उत्पण्णे वि. 20) P अणावि काले वि ज्ञाणजोएहिं, P जीवो अह कीरइ अह निम्मले कणयं, P repeats तह जीवकम्मयाणं etc. to अह कीरण विमलो. 21) J जह for अह, J सइ for अइ, P किरणसंभेण. 22) P नाणं पवइ तह सोमि. 23) P पंकदेव, P जाओवरियइलाउओ, P कम्म for कम्म. 24) P adds य after इय, J मि for वि. 26) J विससुम्मत्ता, P सइमि for वहम्मि. 28) P repeats मोह, P होंति for होइ. 29) P चैव तव होया. 30) P माणं निगुंभिऊणं, J कोवि तहिं. 31) P inter. होंति & चेय. 32) P संथुयप्पाणो, P य for वि (first). 33) J पावंति. 34) P तुम्हा for तम्हा, J सिद्धिपुरं, P पाविहिति for पावेह.

- 1 तत्रो पणया सव्वे वि वासवप्पमुहा देव-दाणव-गणा भणिउं च पयत्ता । 'अहो, भगवया कहिया जीवादओ पयत्था । 1
साहिओ जीवो, परूवियाइं जीव-धम्माइं । पण्णवियं बंध-णिज्जरा-मोक्ख-भावं' ति ।
- 3 § १८०) पृथंतरम्मि कहंतरं जाणिउण विरहयंजलिउडेण पुच्छिओ भगवया गणहर-दंयेण धम्म-जिणवरो । 3
'भगवं, इमीए स-सुरासुर-णर-तिरिय-सय-सहस्स-संकुलाए परिसाए को पढमं कम्मक्खयं काउण सिद्धि-वसहिं पाविहइ'
त्ति । भगवया भणियं । 'देवाणुपिया,
- 6 एसो जो तुह पासेण मूसओ एइ धूसरच्छाओ । संभरिय-पुव्व-जम्मो संविग्गो णिठभर-पयारो ॥ 6
मह इंसण-परितुटो आणंद-भरंत-बाह-णयणिल्लो । तद्धुविय-कण्ण-जुयलो रोमंचुच्चइय-सव्वंगो ॥
अम्हाणं सव्वान वि पढमं चिय एस पाव-रय-मुको । पाविहइ सिद्धि-वसहिं अक्खय-सोक्खं अणात्राहं ॥'
- 9 एवं च भगवया भणिय-मेत्ते सयल-णरिंद-वंद्र-नियसिंद-दणुवइ-पमुहस्स नियस-वलिय-वलंत-कोउय-रहस-वस-वियसमाणाइं 9
णिवडियाइं रण्णुदुरस्स उवरि दिट्ठि-माला-सहस्साइं । सो य आगंतूण भत्ति-भर-णिठभरो भगवओ पायवीढ-संसिओ
महियल-णिमिउत्तमंगो किं किं पि णिय-भासाए भाणिउं पयत्तो । भणियं च नियस-णाहेण । 'भगवं, महंतं मह कोउहलं
- 12 जं एस सव्वाहम-तुच्छ-जाईओ कोमल-वालुया-थली-बिल-णिवास-दुल्लिओ रण्णुदुरो सव्वानं चय अम्हाणं पढमं सिद्धि-पुरिं 12
पाविहइ ति । कहं वा इमिणा थोव-कम्मेण होइउण एसा खुइ-जाई पाविय' ति ।
- § १८१) भगवया भणियं । 'अत्थि विंशो णाम महीहरो । तस्स कुहरे विंशवासो णाम संगिवेसो विसमंतो य । तत्थ पच्चं-
15 निओ महिंदो णाम राया । तस्स तारा णाम महादेवी । तीए पुत्तो ताराचंदो अट्ट-वरिस-मेत्तो । एयम्मि अवसरे छिड्डुण्णसिणा 15
बद्ध-वेराणुसएण कोसलेण रण्णा आक्खंदं दाउण भेल्लियं तं संगिवेसं । तहिं णिग्गदो महिंदो, जुज्झिउं पयत्तो, जुज्झंतो य
विणिवाइओ । तओ हयं सेणं अणागयं ति पलाइउं पयत्तं, सव्वो य जणो जीव-सेसो पलाणो । तत्थ तारा वि महादेवी तं पुत्तं
- 18 ताराचंदं अंगुलीए लाइउण जणेण समयं पलायमाणी य भरुयच्छं णाम णयरं तत्थ संपत्ता । तओ तत्थ वि ण-याणए कस्स 18
सरणं पवजामो । ण कयाइ वि कस्सइ अणिमित्तु धुइकियं मुहं दिट्ठं खलयणस्स । तओ तण्हा-सुहा-परिस्समुच्चय-वेवमाण-
हियया कत्थ वच्चामि, कत्थ ण वच्चामि, किं करेमि, किं वा ण करेमि, कत्थ पविसामि, किं पुच्छामि, किं वा आलवामि,
- 21 कहं वा वट्ठियव्वं' ति चिंतयंती तरला सुण्णा रण्ण-कुरंग-सिलिंबी विय अहिणव-प्पसूया णियय-जूह-भट्टा वुण्ण-कायर-हिय- 21
विया एक्कम्मि णयर-चच्चर-सिव-मंडवे पविसिउं पयत्ता । खणेण य गोयरग-णिग्गयं साहुणीणं जुवलयं दिट्ठं । तं च दट्ठण
चिंतियं तीए । 'अहो, एयाओ साहुणीओ महाणुभागाओ धम्म-णिरयाओ वच्चंतीओ य पुरा मम पेइयम्मि पूयणिजाओ ।
- 24 तत्थ ता इमाओ जइ परं मह सरणं काउण अम्हारिसाण गइ' ति चिंतयंती पुत्तं अंगुलीए घेत्तण समुट्ठिया, वंदियाओ णाए 24
साहुणीओ । आसीसिया य ताहिं, साणुणयं च पुच्छिया 'कत्तो सि आगया' । तीए भणियं 'भयवइओ विंशपुराओ' ।
ताहिं भणियं 'कस्स पाहुणीओ' । तओ तीय भणियं 'इमं पि ण-याणामि' ति । तओ तीय रूव-लायण-लक्खणादिसयं
- 27 पेच्छंतीहिं तं च तारिंमं कलुणं भासियं सोउण अणुकंपा जाया साहुणीणं । ताहिं भणियं 'जइ तुह इह णयरे कोइ णत्थि, 27
ता एहि पवत्तिणीए पाहुणी होहि' । तीए वि 'अणुग्गदो' ति अणंतीए पडिवण्णं । गंतुं च पयत्ता । मग्गालग्गा दिट्ठा य पवत्ति-
णीए, चिंतियं च णाए 'अहो, इमाए वि आगितीए एरिसा आवइ' ति । तओ असरिस-रूव-जोव्वण-लायण-लक्खण-विला-
- 30 सेहिं लक्खियं पवत्तिणीए जहा का वि राय-दारिय ति । इमो य से अइसुंदरो पासे पुत्तओ ति । तीए वि उवगंतूण वंदिया 30
पवत्तिणी । आसीसिया, तीय पुच्छिया य 'कत्तो आगया' । साहियं च णियय-वुत्तं पवत्तिणीए । तओ सेजायर-घरे
समपिया । तेहिं वि णियय-धूय व्व विगय-समा सा कया । सो वि रायउत्तो अब्भंगिउव्वत्तिय-मज्जिय-जिमिय-विलित्त-
- 33 परिहओ कओ, सुह-णिसणो य । भणिया पवत्तिणीए 'वच्छे, किं संपयं तए कायव्वं' ति । तीए भणियं 'भयवइ, जो मह 33

1 > P adds या before सव्वे, P देवादाणव, P om. च, J जीवातिओ P जीवादयो. 2 > P मोक्खो भावं. 3 > P विरइ अंजलिणा. 4 > P पाविहित्ति. 5 > J देवाणुपिया. 6 > P एय for एइ, J om. धूसरच्छाओ. 7 > P अणंतवाहु-. 8 > P पढमचिय, P पाविहित्ति, J सिद्धिवसं, P सोक्खो अणा-तहिं. 9 > J वंर for वंद्र, J प्पमुहस्स, P ति for तियस, P वियसमाणाइं. 10 > P रंइदुरस्स, P दिट्ठी. P पाणपीडं. 11 > P महियल-निउत्तं, P om. ओ कि, P नियय, P कोउहलं. 12 > P जाइओ, P थोव-णिवास, P रण्णुदुरो, P inter. अम्हाणं & चय, P सिद्धि-पुरिं. 13 > J पाविहि ति, P थोव for थोव, P होइउणा P खुइ, जाई. 14 > P महिहरो, J कुहरे for कुहरे, J adds महा before संगिवेसो. 15 > J तीय, P छिड्डुसेणा. 16 > J ओखंतं, P से for तं, P सनिव्वेसं, P निग्गओ, P om. य. 17 > J पयत्तो, P जीवसेसो. 18 > P जणेण for जणेण. 19 > P अणुमित्तुधुइकियं, P मुच्चवमाण, J वेवमाणहिअविआ. 20 > P om. कत्थ ण वच्चामि किं करेमि, P om. ण before करेमि, P आलवामि. 21 > J om. तरला, P तत्थारत्रकुरंगिसिलिंबी विय, P-पसूया. 23 > P चिंतयंतीए, P वच्चंतीय, P पूणिजाओ. 24 > P om. ता, P अम्हारिसा गइ ति चिंतयंतीए पोत्तं. 25 > P तीए ताहिं भणियं धम्मलाओ ति for णाए साहुणीओ । आसीसिया य ताहिं, साणुणयं च, J तीय for तीय, P अयवइओ. 26 > J ताहिं for तीय, P इमं पि ण याणामि । तओ, P रूव-लायण-लक्खणादिसय पेच्छंतीहिं. 27 > P भणिय, P जाया जुणीणं, P om. एह. 28 > P होह, J तीय, J अणंतीय, P लग्गा विट्ठाओ पवत्तिणी. 29 > P om. वि, P अगीतीए, P अवत्थ for आवइ, P विलासाए. 30 > P पवत्तिणीए, P रायादारिय, P अमासे for इमो य से, P दाओ for पुत्तओ, J तीय for तीए, P om. वि. 31 > P पवत्तिणी य थंगलाया । तीय, J णिययं, J पवित्त (त्ती?) णीए P पवत्तिणीए, P सेजायर. 32 > P om. वि, P मायरं दिट्ठा for विगयसमा सा कया, P अब्भंगिय- 33 > P नुयनिसजा, P repeats वत्तिणीए before वच्छे, J तीय for तीय.

1 गणो सो रणम्मि विणिवाइओ । विणट्टं विंझपुरं । णट्टो परिचणो । चंडो कोसल-गरिंदो । बालो पुत्तो अपरिचणो य । ता 1
णत्थि रज्जासा । अह उण एत्थ पत्त-कालं तं करेमि, जेण पुणो वि ण एरिसीओ आवईओ पावेमि ति । सब्बहा तुमं जं 3
3 आदिससि तं चेय करेमि' ति । तओ पवत्तिणीए भणियं । 'वच्छे, जइ एवं ते णिच्छओ, तओ एस ताराचंदो आयरियाणं 3
समप्पिओ, तुमं पुण अम्हाणं मज्झे पव्वयाहि ति । एवं कए सब्बं संसार-वास-दुक्खं छिण्णं होहिइ' ति । तीए वि 'तह' ति 6
पडिवण्णं । समप्पिओ ताराचंदो भगवओ अणंत-जिणवर-तित्थे अणुवत्तमाणे सुणंदस्स आयरियस्स । तेण वि जहा-विहिणा 6
6 पव्वाविओ । 6

§ १८२) तओ किंचि कालंतरं अहकंतं जोव्वण-वस-विलसमाण-रायउत्त-सहावो खग-धणु-जंत-चक्क-गंधव-गट्ट-वाइय-
विलासो उम्मगं काउमाढत्तो । तओ पण्णविओ आयरिएणं, भणिओ गणावच्छेएण, सासिओ उवज्जाएण, संगविओ साहु-
9 यजेण । एवं च चोइजमाणो य ईसि-परिणाम-भंगं काउमाढत्तो । एत्थ य अवसरे आयरिया बाहिर-भूमिं गया । सो य 9
मगओ गओ । तत्थ य अच्छमाणेण वणत्थलीए रण्णुदुरा कीलंता दिट्ठा । तओ चिंतियं णेणं । 'अहो, धण्णा इमे, पेच्छ
खेलंति जहिच्छाए, फरुसं णेय सुणंति, णेय पणमंति, वियरंति हियय-रुइयं । अच्चो रण्णुदुरा धण्णा । अम्हाणं पुण परायस-
12 जीवियाणं मय-समं जीवियं, जेण एक्को भणइ एयं करेहि, अण्णो पुण भणइ इमं करेहि, इमं भक्खं इमं चाभक्खं, इमं 12
पियसु इमं मा टिवसु, एत्थ पायच्छित्तं, एयं आलोएसु, विणयं करेसु, वंदणं कुणसु, पडिक्कमसु ति । ता सब्बहा एक्कं पि
खणं णत्थि उसासो ति । तेण रण्णुदुरा धण्णा अम्हाहितो' ति चिंतयंतो वसइ उवगओ । तं च तारिसं णियाण-सल्लं ण तेण
15 गुरूणं आलोइयं, ण णिंदियं, ण पायच्छित्तं चिण्णं । एवं च दियदेसु वच्चंतेसु अकाल-मक्खं मरिउण णमोकारेण जोइसियाणं 15
मज्जे किंचि-उण-पलियाउओ देवत्ताए उववण्णो । तओ तत्थ एसो भोए भुंजिउण एत्थ चंपाए पुव्वुत्तरे दिसा-भाए मोरुत्थलीए
थलीए रण्णुदुर-कुले एक्काए रण्णुदुर-सुंदरीए कुच्छिसि उववण्णो । तत्थ य जाओ णियय-समएणं, कमेण य जोव्वणमणुप्पत्तो ।
18 तत्तो अणय-रण्णुदुर-सुंदरी-वद-परियरिय-मंदिरो रममाणो अच्छिउं पयत्तो । तओ कहिंति बाहिरं उवगयस्स समवसरण- 18
विरयण-कुसुम-वुट्ठी-गंधो भागओ । तेण य अणुसारेण अणुसरंतो तहाविह-कम्म-चोइजमाणो य एत्थ समवसरणे संपत्तो,
सोउं च समाढत्तो मह वयणं । सुणंतस्स य जीवाइए पयत्थे पेच्छंतस्स य साहु-लोयं तहाविह-भविद्यव्वयाए ईहापूह-मगणं
21 करेमाणस्स 'एरिसं वयणं पुणो वि णिसुय-पुव्वं' ति, 'एयं पुण वेसं अणुहूय-पुव्वं' ति चिंतयंतस्स तस्स तहाविह-णाणावरणीय- 21
कम्म-खओवसमेण जाई-सरणे उववण्णं । 'अहं संजओ आमि, पुणो जोइसिओ देवो, पुणो एस रण्णुदुरो जाओ' ति । एयं
सुमरिउण 'अहो, एरिसो णाम एस संसारो ति, जेण देवो वि होउण निरिय-जाइए अहं उववण्णो ति । ता आसणं भगवओ
24 पाय-मूले गंतूण भगवंतं वंदामि । पुच्छामि य किं मए उंदुरुत्तणं पत्तं, किं वा पाविहामि' ति चिंतयंतो एस मम सयामं 24
आगओ ति । बहुमाण-णिट्ठ-भर-हियओ य मम हियण्ण धुणिउण समाढत्तो । 'अवि य,

भगवं जे तुह आणं तिहुयण-णाहस्स कह वि खंडंति । तं मूढा अम्हे विय दूरं कुगईसु वियरंति ॥

27 ता भगवं, किं पुण मए कयं, जेणाणुभावेण एस एरिसो जाओ मि' । एस पुच्छइ । 'ता भो भो महासत्त, तम्मि काले 27
तए चिंतियं जहा रण्णुदुरा धण्ण' ति । तओ तेण णियाण-सल्ल-दोसाणुभावेण देवत्तणे वि आउय-गोत्ताइं रण्णुदुरत्तणे
णिबद्धाइं ।

30 § १८३) एत्थंतरेण पुच्छिओ भगवया गणहारिणा । 'भगवं, किं सम्मदिट्ठी जीवो निरियाउयं बंधइ ण व' ति । भणियं 30
च भगवया 'सम्मदिट्ठी जीवो निरियाउयं वेदेइ, ण उण बंधइ । भण्णइ य ।

1 > P विज्झपुर. 2 > P पत्तयात्तन्, P om. ण after वि, J आवइओ, P adds न before पावेमि. 3 > P आइससि
P om. चेय, J पवत्तिणीय, P तो for ते. 4 > J समप्पियदु P समुत्तियओ, P होइति, J तय for तो. 5 > P पडिसखं, P अणंतइ-
P अणुवत्तमाणे, P तेणावि. 7 > J तओ कंति, P विज्जमाण, J धणुवक्क, P वातिय. 8 > P गणावच्छेआएण सासिया, P om,
उवज्जाएण संगविओ etc. to अवसरे आयरिया. 10 > P मओ for गओ, P वणत्थलीए रण्णुदुरा. 11 > P न for णेय, J संपति.
P विरयंति हियरुइयं, P रण्णुदुरा, P अम्हाण पुणो. 12 > P om. पुण, J तमं करेइ for इमं करेति. 13 > P एवं for इमं
before भा, P एवं for एयं, J पि ण खणणत्थिय. 14 > P रण्णुदुरा, P om. ति, P वमाइं, P सल्लं न चेय गुरूणोइयं न. 15 > J
जोतिसियाणं. 16 > J पलिनावुओ P पलियाओउ, J om. एसो, P एत्वं चंपाए, P दिसाविभाए मोरुत्थलीए रण्णुदुरकुले. 17 > J
एक्का रण्णुदुर-सुंदरीए कुच्छीए, P रण्णुदुर, P जोव्वणं संपत्तो. 18 > J तओ for तत्तो, P अणयं सुंदरसुंदरी, P परियदिय,
P सवसरणवियरण. 19 > J वुट्ठी, P om. य. 20 > J जीवातीए पयत्थे, P तहाविह-भविहभविद्यं, J भवितव्वताए य
ईहा, P ईहापूहयमगणं. 21 > J करमाणस्स, P om. ति, J om. तस्स. 22 > J कम्मखयोवं, J संजोतो, P संज्जाओ, J जोति-
सिओ, P om. एस, J om. ति. 23 > P जेण दोवो वि. 24 > J पावीहामि, P मगासं. 25 > P बहुमाण, P om. य before
ममं. 26 > P खंडंति, P विव दूरं कुगवीण. 27 > P सए for एस, P om. one ओ, J महासत्ता P महासत्तो. 28 >
P रण्णुदुरा, P adds निरिया before णियाण, P रण्णुदुरत्तणे. 30 > P एत्थंतरेण, P सम्मदिट्ठी, P adds च before बंधइ,
31 > P सम्मदिट्ठी, J वेतेति for वेदेइ, P वंति, P वा for य.

- 1 सम्मत्तमि उ लद्धे ठह्याई णरय-तिरिय-दाराई । जह् य ण सम्मत्त-जठो अहव ण बद्धाउओ पुर्वि ॥ 1
 ता इमिणा देवत्तणमि वट्टमाणेण सम्मत्तं वमिऊणं आउथं तिरियत्ते बद्धं' ति । भणियं च तियसवइणा 'भगवं, कं पुण
 3 संपयं एस सिद्धिं पाविहि' ति । भणियं च भगवया । 'इओ एस गंतूणं अत्तणो वणत्थलीए वञ्चतो चिंतिहिइ हियए । 3
 'अहो दुरंतो संसारो, चलाइं चित्ताहं, चंचला इंदिय-तुरंगमा, विसमा कम्म-गई, ण सुंदरं गियाण-सल्लं, अहमा उंदुर-
 जोणी, दुल्लहं जिणवर-मग्गं, ता वरं एत्थ णमोक्कार-सणाहो मरिऊण जत्थ विरइं पावेमि तत्थ जाओ' ति चिंतयंतो तम्मि चैय
 6 अत्तणो बिल-भवणेक्क-देसे भत्तं पच्चाइक्खिय एयं चिय मह वयणं संसारस्स दुग्गत्तणं च चिंतयंतो णमोक्कार-परो य 6
 अच्छिहइ ति । तत्थ वि से चिट्ठं तस्स रण्णुंदुर-सुंदरीओ सामाय-तंदुल-कोहवाइए य पुरओ णिमंति । तओ चिंतेहिइ ।
 'ओ भो जीव दुरंत-यंत-लक्खण, एत्तियं कालं आहारयंतेण को विसेमो तए संपाविओ । संपयं पुण भत्त-परिच्चाएण तं
 9 पावसु जं संसार-त्तरंइयं' ति चिंतयंतो तत्तो-हुत्तं ईसिं पि ण पुलएइ । एयारिसं तं दट्टण ताओ रण्णुंदुर-सुंदरीओ चिंतिहिंति । 9
 'अहो, केण वि कारणत्तरेण अस्साणं एस साम-सुंदरंओ कोविओ होहिइ । ता दे पसाएओ' ति चिंतयंतीओ अलीणाओ ।
 तओ का वि उत्तिमंगं कंदुयइ, अण्णा मंसु-रेसे दीहरे संदवेह, अण्णा रिक्खाओ अवणेह, अण्णा अंगं परिमुसइ । एवं च
 12 कीरमाणो चिंतिहिइ । अवि य, 12
 णरओयारं तुद्धे तुद्धे सगगगलाओ पुरिसस्स । संसार-दुक्ख-मूलं अवेह पुत्तीउ पुत्तीओ ॥
 ति मण्णमाणो ण ताहिं खोहिज्जिहि ति । तओ तत्थ तइए वियहे खुहा-मोमिय-सरीरो मरिऊण मिहिलाए णयरीए मिहिलस्स
 15 रण्णो महादेवीए चित्तणामाए कुच्छीए गच्छत्ताए उववज्जिहिइ । गच्छत्थेण य नेण देवीए मित्त-भावो सव्व-सत्ताणं उव्वरिं 15
 भविस्सइ । नेण से जायस्स मित्तकुमारो ति णामं कीरिहिइ । एवं च परिवइमाणो कोनुहली बालो कुक्कुड-मक्कडए
 पसु-संवर-कुरंग-घोरुइयेहिं वंघण-वंघणएहिं कीलिहि ति । एवं च कीलंतस्स अट्ट वरिसाई पुण्णाइं । समागओ वासारत्तो ।
 18 अवि य, 18
 गज्जति घणा णञ्जति वरहिणो विज्जला वलवलेइ । रुक्खग्गे य बलाया पहिया य घरेसु वञ्चनि ॥
 जुपंति णंगलाइं भञ्जति पवाओ वियसए कुडओ । वासारत्तो पत्तो गामेसु घराइं छज्जति ॥
 21 एरिसे य वायारत्त-समए णिग्गओ सो रायउत्तो मित्तकुमारो णयर-बाहिरुहेसं । कीलंतो तेहिं सउण-सावय-गणेहिं वंघण-21
 वदेहिं अच्छिहिइ । नेण य पण्णसेण ओहिणाणी साहू वच्चिहिइ । वोलंतो चैय सो पेच्छिऊण उववओगं दाहिइ चिंतेहिइ य
 'अहो, करिसा उण रायउत्तस्स पयई, ता किं पुण एत्थ कारणं' ति । उवउत्तो ओहिणाणं पेच्छिहिइ से ताराचंद-साहु-रुवं,
 24 पुणो जोइम-देवो, पुणो रण्णुंदुरओ, तओ एत्थ समुप्पणो' ति । जाणियं च साहुणा जहा एओ पडिबुज्जइ ति चिंतयंतो 24
 भाणिहिइ । 'अवि य,
 भो साहू देवो वि य रण्णुंदुरओ सि किं ण सुमरामि । णिय-जोणि-वास-तुट्टो जेण कयत्थेसि तं जीवे ॥'
 27 तं च सोऊण चिंतिहिइ कुमारो 'अहो, किं पुण इमेणं मुणिणा अहं भणिओ, साहू देवो रण्णुंदुरओ' ति । ता सुय-पुव्वं पिव 27
 मंनियं णेण । एवं च ईहापूहा-मग्गण-गवेसणं करेमाणस्स तहाविह-कम्मोवसमेणं जाई-सरणं से उववज्जिहिइ । णाहिइ य
 जहा अहं सो ताराचंदो साहू जाओ, पुण देवो, तत्तो वि तिरपसु रण्णुंदुरो जाओ ति, तम्हा मओ णमोक्कारेण इहागओ
 30 ति । तं च जाणिऊण चिंतिहिइ । 'अहो, थिरत्थु संसार-वासस्स । कुच्छिओ एस जीवो जं महा-दुक्ख-परंपरेण कह-कह वि 30
 पाविऊण दुल्लहं जिणवर-मग्गं पमाओ कीरइ ति । ता सव्वहा संपयं तहा करेमि जहा ण एरिसाई पावेमि । इमस्स चैव
 मुणिणो सगासे पव्वइउं इमाइं तवो-विहाणाइं, इमाइं अभिग्गह-विसेसाइं, इमा चरिया करेमि' ति चिंतयंतस्स अउच्च-
 33 करणं खवग-सेडी अणंत-कवल-वर-णाण-देसणं समुप्पज्जिहिइ । 33

2 > P च रियमवइणा. 3 > J इ for ति, P चिंतिहि, J om. हियए. 4 > P तुरंगा. 5 > P दुल्लहं, P विरइयं. 6 > P
 चैय for चिय, P संसारदुग्गं, P om. व. 7 > P से चिट्ठं च सारंणंदुरदुंदरीओ, J कोहवाइए P कोहवायिथ, P चिंतेइ. 8 > J वंत
 for पंत, P निलक्खण for लक्खण, J आहारंतेण. 9 > P तरंतयंतो हुवत्तो तं ईसिं, P एतारिसं च तं, P रण्णुंदुर. 10 > J वेणावि,
 P कालंतरेण, कुविओ दीही । 11 > J उतागं, P कंदुइय, P कोसे, J अत्रा लिक्खाओ अवणेइ अ अत्रा. 13 > P inter. तुद्धे &
 नरओयारं, P मुत्ताउ for पुत्तीउ. 14 > P om. ति, P खोहिज्जइ ति, P om. तओ, P महिलाए नयरीए महिरस्स. 15 > P कुच्छीए
 गम्मे उववओ, P om. य, P सव्व for सव्व. 16 > P जाओ for भविस्सइ, J adds ति after भविस्सइ, P से जोयस्स,
 P कीरइइ, P 'माणकोऊहली, J पाओ for बालो. 17 > P कुरंगमोक्कुरेहिं वंघणबद्धेण कीलिं, J ति for ति, P om. च. 19 >
 P विज्जला चरवलेइ. 21 > P om. य, P णेणंहि. 22 > P om. अच्छिहिइ, P य तेणसेण य ओहिं, P वच्चियइ, J वोलंतो, P
 om. चैय, J उववओगं, P दीहीइ, J चिंतेहिइ P om. चिंतेहि य 23 > J inter. पयई & रायउत्तस्स, P पुण तेत्थ, P पेच्छइ
 से. 24 > P रण्णुंदुरओ. 26 > P रण्णुंदुरओ, J विणण P कि दित्र. 27 > P चिंतिहिइ, P रण्णुंदुरतो, P ति for पिव.
 28 > P से उववओ. जाणियं च णेणं जहा अं से तारा', P पुणो, P तिरिपसो रण्णुंदुरो, J उ for मओ. 30 > J परंपरे. 31 >
 P संपयत्तहा, P inter. एरिसाइं & ण, J चैत्र. 32 > J सयासे, J om. तवोविहाणाइं इमाइं. 33 > P समुप्पज्जिहि ति.

- 1 एत्थंतरम्मि जं तं आउय-कम्मं ति तेण संगहियं । केवल-णाणुप्पत्ती तस्स खओ दो वि जायाइं ॥ 1
 एवं च तस्खणं चेष तत्तिय-मेत्त-कालाओ अंतगड-केवली होहिइ त्ति । तेण भणिमो जहा एस अम्हाणं सव्वाण वि पढमं
 3 सिद्धिं वच्चिहिइ । अम्हाणं पुण दस-वास-लक्खाउयाणं को वच्चइ त्ति । 3
 § १८४) इमं च रणुंदुरक्खाणयं णिसामिऊण सव्वाणं चेष तियसिद्धप्पमुहाणं सुरासुराणं मणुयाण य महंतं कोउयं
 समुप्पणं । भत्ति-बहु-माण-सिगेह-कोउय-णिब्भर-हियएणं सुरिंदेणं आरोविओ णियय-करयले सो रणुंदुरो । भणियं च
 6 वासवेणं । 'अहो,
 तं चिय जणु कयत्थो देवाण वि तं सि वंदणिज्जो सि । अम्हाण पढम-सिद्धो जिणण जो तं समाइट्ठो ॥
 भो भो पेच्छइ देवा एस पभावो जिणिंद-मग्गस्स । तिरिया वि जं सउण्णा सिज्झंति अणंतर-भयेण ॥
 9 तेणं चिय बेंति जिणा अहयं सव्वेसु चेष सत्तेसु । जं एरिसा वि जीवा एरिस-जोणी समझीणा ॥' 9
 एवं जहा वासवेण तहा य सव्व-सुरिंदेहिं दणुय-णाहेहि य णरवइ-सएहिं हत्थाहत्थिं घेप्पमाणो राय-कुमारओ विय पसंसिज्ज-
 माणो उववृद्धिजंतो थिरीकरिजंतो वणिजंतो परिंदिओ पूइऊण पसंसिओ । अहो धण्णो, अहो पुण्णवतो, अहो कयत्थो, अहो
 12 सलक्खणो, अहो अम्हाण वि एस संपूर-मणोरहो त्ति जो अणंतर-जस्से सिद्धिं पाविहइ । ण अण्णहा जिणवर-वयणं ति । 12
 एयम्मि अवसरे विरहयंजलिउडेण पुच्छियं पउमप्पह-इवेणं । भणियं च णेण 'भगवं, अम्हे भवा किं अभव' त्ति ।
 भगवया भणियं 'भव' । पुणो देवेण भणियं 'सुलह-बोहिया दुलह-बोहिय' त्ति । भणियं च भगवया 'किंचि
 15 णिमिंतं अंगीकरिय सुलह-बोहिया ण अण्णह' त्ति । पउमप्पहेण भणियं 'भगवं, कइ-भव-सिद्धिया अम्हे पंच वि जणा' । 15
 भगवया भणियं 'इओ चउत्थे भवे सिद्धिं पाविहइ पंच वि तुम्हे' त्ति । भणियं पउमप्पभेण 'भगवं, इत्तो चुक्का
 कत्थ उप्पजिहामो' त्ति । भगवया भणियं 'इओ तुमं चइऊण वणियउत्तो, पउमवरो उण रायउत्तो, पउमसारो उण
 18 रायधूया, पउमचंडो उण विंझे सीहो, पउममंसरो उण पउमवर-पुत्तो' त्ति । इमं च अणमाणो समुट्ठिओ भगवं 18
 धम्म-तित्थयरो, उवसंघरियं समवसरणं, पवजिया तुंदुही, उट्ठिओ कलयलो, पयट्ठो वासवो । विहरिउं च पयट्ठो भगवं
 कुमुद-संड-बोहओ विय पुण्णिमायंदो । अम्हे वि मिलिया, अवरोप्पं संलावं च काउमाइत्ता । एकमेकं जंपिमो 'भो,
 21 णिसुयं तुम्भेहिं जं भगवया आइट्ठे । तओ एत्थ जाणह किं करणीयं सम्मत्त-लभत्थं' त्ति । तओ मंतिऊण सव्वेहिं 'अओ, 21
 को वि वाणियउत्तो, अण्णो रायउत्तो, अवरो वणं सीहो, अण्णो राय-दुहिय त्ति । ता सव्वहा विमंडुलं आवडियं इमं कजं ।
 ता ण-याणामो कइ पुण बोहि-लाओ अम्हाणं पुण समागमो य होज्ज' त्ति । 'ता सव्वहा इमं एत्थ करणीयं' ति चिंतयंतहिं
 24 भणियं । 'अहो पउमकेसर, तुमं भगवया आइट्ठो, 'पच्छा चविहसि', ता तए दिव्वाण सत्तीए अम्हाणं जत्थ तत्थ गयाणं 24
 सम्मत्तं दायव्वं, ण उण सग्ग-सुंदरी-वंद-तुंग-थण-थल-पेहणा-सुहइ-परहुट्ट-सयल-पुव्व-जंपिण्ण होयव्वं' । तेण भणियं ।
 'देमि अहं सम्मत्तं, किंतु तुम्भे मह दंतस्स वि मिच्छत्तोवट्ठयमणा ण पत्तियायहिइ । ता को मए उवाओ कायव्वो' त्ति ।
 27 तेहिं भणियं । 'सुंदरं संलत्तं, ता एयं पुण एत्थ करणीयं । अत्तणोत्तगो रूवाइं जं भविस्साइं रयण-भयाइं काऊण एकम्मि 27
 ठाणे णिक्खिप्पंति । तम्मि य काले ताइं देखिजंति । ताइं दट्ठण कयाइं पुव्व-जम्म-सरणं साहिण्णाणण धम्म-पडिबत्ती वा
 भवेज्ज' त्ति अणमाणेहिं णिम्मवियाइं अत्तणो रूव-सरिमाइं रयण-पडिरूवयाइं । ताइं च णिक्खिप्पत्ताइं णेऊण वणे जत्थ सीहो
 30 उववज्जिहि त्ति । तस्स य उवरिं महंती मिला दिण्ण त्ति । तं च काऊण उवगया णियय-विमाणं । तत्थ भोए भुंजता 30
 जहा-सुहं अच्छिउं पयत्ता । तओ कुमार कुवलयचंद, जो सो ताण मज्जे पउमप्पहो देवो सो एकएण चेष केरियो
 जाओ । अवि य,

~~~~~

- 1) P, after तस्स, repeats उउव्वकणं समगयेही etc. to केवल-णाणुप्पत्ती तस्स. 2) P om. 1, J मेत्तकत्था(त)ओ J om. त्ति, P एस्सो for एस. 3) P संपूरमाउ for लक्खाउ, J परिउ P वच्चइ. 5) J करयलंजलि (जे?). 8) P सभावो for पभावो, P भवेण. 9) P तेयणं for तेणं, P अरिये. 10) P वणिणय for वणिणय, J om. य, P नरयण, P हत्थाहत्थेहिं, P रायकुमारो. 11) P उववृद्धिजंतो, P om. वणिजंतो (of J?). J विनिअंदिओ, P पसंसिज्ज. 12) P सव्वहा for अवे before अम्हाण, P संपुत्र for संपूर, J जिणवयणं. 13) P adds व before अवसरे, P विरहय पंचलि. 14) P अम्हा for सव्वा after भणियं, J om. पुणो देवेण भणियं, J दुलहबोहिय अ ति. 15) P अंगीकरी सु; P पउमप्पभेण, J कतिभव. 16) J इत्तो for इओ, J पाविहइ, J तुम्हेहिं । P तुम्भे त्ति । J इतो चुक्का P इपु चुक्का. 17) J उप्पज्जिहामो, P संपज्जिहामो. J इतो for इओ, P om. पउमसरो उण रायउत्तो, P पउमसारो. 18) P om. उण before विज्जे सीहो (in P), J पउमवरस्स पुत्तो, P अणमाणो उवट्ठिओ. 19) P विरिद्धि. P om. व. J पयत्तो । कुमुद. 20) J adds भगवं after पुण्णिमायंदो. 21) J लभत्थं ति. 22) P अहे रायउत्तो, P दुहियो त्ति, J विमंडुलं. 23) P ता एयं ण, P om. पुण, P om. ति. 24) P पउमकेसर, P अविहसि. 25) P adds काऊण before सुंदरी, J त्थलरूपेहणा. 26) J महदिंसंतस्स मिच्छत्तो, P तं for ता. 27) P om. पुण before एत्थ, P अत्तणो रूवाइं, P om. जं, J भविस्साइं. 28) P थाणे निक्खमंति, J णिक्खिप्पंति. 29) P वि for ताइं च, P inter. जत्थ and वणे. 30) J विमाणे, P भुंजिता. 31) P पउमप्पभो.

- 1 वियलंत-देह-सोहो परियण-परिवज्जिओ सुदीण-मणो । पवणाहओ व्व दीवो झत्ति ण णाओ कहिं पि गओ ॥ 1  
तत्तो य चविज्जण मणुयाणुपुब्बी-रज्जु-समायद्धिओ कथ उववण्णो ।
- 13 § १८५) इहेव जंबुदीवे भारहे वासे दाहिण-मज्झिम-खंडे चंपा णाम णयरी । सा य करिसा । अवि य, 3  
धवल-हर-तुंग-तोरण-कोट्टि-पडाया-फुरंत-सोहिल्ला । जण-गिवहुदाम-रवा णयरी चंप ति णामेण ॥  
तीए णयरीए तुलिय-धणवद्-धण-विहवो धणदत्तो णाम महासेट्ठी । तस्स य घरे घर-लच्छि व्व लच्छी णामेण महिला ।
- 6 तीए य उयरे पुत्तत्ताए उववण्णो सो पउमप्पभो देवो । णवण्ह य मासाणं बहु-पडिपुण्णणं अद्धट्टमाण य राहंदिआणं 6  
सुकुमाल-पाणिपाओ रनुपल-दल-भारओ विय दारओ जाओ । तं च दट्टण कयं वदावणयं महासेट्ठिणा जारिसं  
पुत्त-लंभस्सुदए त्ति । कयं च से णामे गुरूहिं अणेय-उवयाहएहिं सागरेण दत्तो त्ति सागरदत्तो । तओ पंचघाई-परिवुडो
- 9 कमेण य जोव्वणं संपत्तो । तो जोव्वण-पत्तस्स य ता रूव-धण-विहव-जाह-समायार-सीलाणं वणिय-कुलाणं दारिया सिरि 9  
व्व रूवेण सिरी णामा उवभोग-सहा एगा दिण्णा गुरुर्यणेणं । तओ अणेय-णिद्ध-बंधु-भिच्च-परिवारो अच्छिउं पयत्तो । को य  
से कालो उववण्णो । अवि य,
- 12 रेहंति हंस-संडलि-मुत्ताहल-मालिया-विहूसाओ । आवण्ण-पयहराओ परियण-वह्याउ व णईओ ॥ 12  
रेहंति वणे कासा जलमि कुमुयाई णहयले मेहा । सत्तच्छयाई रणेण गामेसु य फुल्ल-णीयाई ॥  
एरिसे य सरय-काले मत्त-पमत्ते णच्चिरे जणवए पुण्णमासीए महंते ऊरवे वट्टमाणे सो सागरदत्तो सेट्ठिउत्तो णियय-बंधु-णिद्ध-
- 15 परियारो णिग्गओ णयरि-कोमुइं दट्टण । एक्कमि य णयरि-चच्चरे णडेण णच्चिउं पयत्तं । तथ इमं पट्ठियं कस्स वि कड्ढो 15  
सुहामियं । अवि य ।  
यो धीमान् कुलजः क्षमी विनयवान् धीरः कृतज्ञः कृती, रूपैश्वर्ययुतो दयालुरशतो दाता शुचिः सन्नपः ।
- 18 सद्धोगी दडसोहो मधुरवाक् सत्यव्रतो नीतिमान्, बन्धूनां निलयो नृजन्म सफलं तस्येह चामुत्र च ॥ 18  
तं च बोलेणेण तेण सागरदत्तेण णिसुर्यं । तओ सुहामिय-रसेण भणियं तेण । 'भो भो भरह-पुत्ता, लिहह सायरदत्तं इमिणा  
सुहामिण्ण लक्खं दायव्वं' ति । तओ सव्वेहि वि णयरी-रंग-जण-णायरएहिं भणियं । 'अहो रसिओ सायरदत्तो, अहो वियड्ढो,  
21 अहो दाया, अहो चाई, अहो पत्थावी, अहो महासत्तो' त्ति । एवं पसंसिए जणेणं, तओ एक्केण भणियं खल-णायरएणं 'सच्चं 21  
चाई वियड्ढो य जइ णियय-दुक्खजियं अत्थं दिण्णं, जइ पुण पुव्व-पुरिसजियं ता किं एत्थ परदव्वं देतस्स । भणियं च ।  
'जो देह धणं दह-सय-भमजियं अत्तणो भुय-बलेण । सो किर पसंसिणजो ह्यरो चोरो विय वराओ ॥'
- 24 एयं च णिसामिज्जण हसमागहिं भणियं सव्वेहिं णिद्ध-बंधवैहिं । 'सच्चं सच्चं संलत्तं' ति भणमाणंहिं पुलइयं तस्स वयणं । 24  
§ १८६) सायरदत्तो पुण तं च मोऊण चिंतिउं ममाढत्तो । 'अहो, पेच्छ कहं अहं हसिओ इमेहिं । किं जुत्तं इमाण मम  
हसिउं जे । अहवा णहि णहि, सुदरं संलत्तं जहा 'जो बाहु-बल-समजियं अत्थं देह सो सत्ताहिओ, जो पुण परकीयं  
27 देह सो किं भण्णउ' त्ति । ता सव्वहा ममं च अत्ताणयं णत्थि धणं, ता उवहासो चेय अहं' ति चिंतयंतस्स हियए सल्लं पिव 27  
लगं तस्स । अवि य,  
धेवं पि सुडइ हियए अवमाणं सुपुरिसाण विमलाण । वायालाहय-रेणुं पि पेच्छ अच्छि दुहावेह ॥
- 20 तह वि तेण महत्थत्तणेण ण पयडियं । आगओ घरं, विरइया संजा, उवगओ तमि उवविट्ठो, लक्खिओ य सिरीए 30  
इंगियायार-कुसलाए जहा किंचि उच्चिगो विय लक्खीयइ एसो । लद्ध-पणय-पसराए य भणिओ तीए 'अज्ज तुमं दुम्मणो  
विय लक्खीयसि' । तेण य आगार-संवरणं करेतेण भणियं 'ण-इंचि, केवलं सरय-पोणिणमा-महूसवं पेच्छमाणस्स परिस्समो

1) P-मोभो, P परिश्रज्जओ. 2) P om य, J चत्तकम, P रज्जसमा. 3) J जंबुदीवे, P नगरी, P केरिसी. 4) P तोरणुकोट्टिपडागा- P दामरवा- 5) P om. ममा, P om. य. 6) P तीय उयरे, J उयरे, P नवण्ह मासाणं, P पुण्णाय अद्धट्टमाई राहंदिआणं सुकु. 7) J om. दल, P adds च after कयं, P महासेट्ठिणा. 8) J पुत्तलंभस्सुदए, P पुत्तलंभस्सुदए, J om. कयं च से etc. to सागरदत्तो. P उववाहएहिं सागरदत्तो त्ति, P पंचघावी. 9) J तओ for तो, J अर for जाइ P जाई, J राणिय for वणिय, P दारियं. 10) J उवभोग-सहा य दिण्णा, P om. अणेय, P भिच्च for णिद्ध, P कोलो for को य से कालो. 11) P विभूसाओ, P परिणय for परियण. 12) P फुरिदवा निवा ॥, P om. य सरयकाले etc. to णिग्गओ णयरि. 13) P नयरचच्चरे. 14) P कुलज for कुलजः, P om. कृतज्ञः, P रूपैश्वर्यं, P सन्नपः सद्धोगी. 15) P तस्येह वा चमुत्र. 16) P बोलेणेण, P om. तेण P सायरदत्तेण, P adds च after भणियं, J भरहपुत्ता, J सायरदत्तं. 17) P सव्वेहि नयरि, J सागरदत्तो. 18) J दाता, P repeats अहो before महासत्तो, P जिणणं for जणेणं, P तओ भणिय एक्केण नायरएणं. 19) P om. य, J भणिअव्वं । जो. 20) P इव for विय. 21) P एवं च णिसामिज्जण, P ति for second सच्चं. 22) P सागरदत्तो उण, J om. च (later struck off), P दमिओ for हसिओ, P अम्हाणं for इमाण. 23) P परकीयं. 24) P किं न भन्नउ, J adds अ before धणं, P हियसल्लं. 25) P वाओल्याहय, J दुहावेह. 26) J किपि for किंचि, J लक्खीयति P लक्खियति. 27) J तीय, P दुमाणा विय. 28) P आगारसंवरणं, P न किंचि, P adds आसि before महूसवं.

- 1 जाओ, णिवज्जामि' ति भणमाणो णिवण्णो । तत्थ य अलिय-पसुत्तो किं किं पि चित्तयंतो चिट्ठइ ताव सिरी पसुत्ता । 1  
सुपसुत्तं च तं णाऊण सणियं समुट्ठिओ । गहिथं च एकं साडयं, फालियं च । एकं णियंसियं, दुइयं कंठे णिबद्धं ।
- 3 गहियं च खडिया-खंडलयं । वासहर-दारं आलिहिया इमा गाहुलिया । अवि य,  
संवच्छर-मेत्तेणं जइ ण समज्जेमि सत्त कोडीओ । ता जलिइधण-जालाउलम्मि जलणम्मि पविसामि ॥  
त्ति लिहिऊण णिग्गओ वास-घराओ । उवगओ णयर-णिद्धमणं । णिग्गओ तेण, गंतुं पयत्तो दक्खिणं दिसिवहं । तं च
- 6 केरिसं । अवि य, 6  
बहु-रयणायर-कलिओ सुरुव-वियरंत-दिव्व-जुवइ-जणो । विबुहयण-समाइण्णो सग्गो इव दक्खिणो सहइ ॥  
तं च तारिसं दक्खिणावहं अवगाहेतो संपत्तो दक्खिण-समुद-तीर-संसियं जयसिरि-णामं महाणयरिं । जा य कइसिया । कंचण-
- 9 घडिय-पायार-कंची-कलाव-रेहिरा, बहु-रयणालंकारिया, मुत्ताहार-सोहिया, संख-वलय-सणाहा, दिव्व-मउय-सण्ह-णियसण- 9  
मलय-रस-विलेवण-णाणा-विहुलाव-थेयड्ढि-मणोहरा, चारु-दियवर-रेहिर-कण्णूर-पूर-पसरंत-परिमल-सुयंध-धुव-मघमघंतुगगार-  
ककोलय-जाइफल-लवंग-सुयंध-समाणिय-तंबोल व्व णजइ वासय-सज्जा विय णइणि महासमुह-णायग-गहिय ति । अवि य,
- 12 विरइय-रयणाहरणा विलवणा-रइय-सुरहि-तंबोला । उयहि-दइयं पडिच्छइ वासय-सज्जा णइणि व्व ॥ 12  
§ १८७) तीय य महाणयरिणं बाहिरुहेसें एकम्मि जुण्णुज्जाणे रत्तासोयस्स हेट्ठा दूर-पह-सम-किलंतो णिसण्णो सो  
वाणियउत्तो । किं च चित्तिउं पयत्तो । अवि य,
- 15 किं मयर-मच्छ-कच्छव-हल्लिर-वीई-तरंग-भंगिले । उयहिम्मि जाणवत्तं छोड्ढणं ताव वज्जामि ॥ 15  
किं वा णिइय-अमि-पहर-दारियासेस-कुंभवीढाण । आरुहिउं कुंजर-मंडलीणं गेण्हे बला लच्छि ॥  
किं वा पयंड-भुय-सिहर-वच्छ-णिच्छलणा-रुहिर-पंकं । अज्जं चिय अज्जाणं देमि बलिं मंस-खंडेहिं ॥
- 18 किं वा राई-दियइं अवहथिय-सयल-सेस-वावरो । जा पायालं पत्तो खणामि ता रोहणं चैय ॥ 18  
किं वा गिरिवर-कुहरे खत्तं खणिऊण मेलिउं जोण । अवहथिय-सेस-अओ धाउव्वायं च ता धम्मिमो ॥  
इय हियउच्छाह-रसो अवस्स-कायव्व-दिण्ण-संकणो । जावच्छइ वणिय-सुओ किं कायव्वं ति संमूढो ॥
- 21 एवं च अच्छमाणेण दिट्ठो एकस्स मालूर-पायवस्स पसरिओ पायओ । तं च दट्ठणं सुमरिओ अहिणव-भिक्खिओ खण्ण- 21  
वाओ । अहो, एवं भणियं खण्णवाण ।  
मोत्तूण खीर-इस्से जइ अण्ण-दुमस्स पायओ होइ । जाणज्जसु तत्थरथो अथि महंतो व्व थोओ व्व ॥
- 24 ता अवस्सं अत्थेत्थ किंचि । ण इमं अकारणं । जेण भणियं धुवं बिल-पलासयो । कत्तियं पुण होज्जा अत्थो । 24  
तणुयम्मि होइ थोवं थूलम्मि य पादवे बहुं अत्थं । रयणाणं जल-समाणं बहुयं थोवं तु उम्हालं ॥  
ता थूलो एस पादवो, बहुओ अत्थो । ता किं कणयं किं वा रययं किं वा रयणं ति । हूं,
- 27 विद्धम्मि एइ रत्तं जइ पाणं तो भयेज्ज रयणाइं । अहं छीरं तो रययं अहं पीयं तो भवे कणयं ॥ 27  
क-दूरे पुण होज्जा अत्थो ।  
जेत्तिय-मेत्तो उवरिं तेत्तिय-मेत्तेण हेट्ठओ होइ । ण-याणियइ तं दव्वं पायीयादि एम ण व ति ॥
- 30 जइ उवरिं सो तणुओ हेट्ठे उण होइ पिहुल-परिवेढो । ना जाणसु तं पत्तं तणुणं उण तं ण होज्जा हिं ॥ 30  
ता ण दूरं, दे खणामि, देवं णमामो ति । 'णमो इंदस्स, णमो धरण्णंदस्स, णमो धणयस्स, णमो धणपालस्स' ति । तं,  
पट्टमाणेण खयं पणुमं । दिट्ठो य णिही । दं गेण्हामि जाव वाया । अवि य,

1 > J adds (on the margin) य before सिरी, P पात्ता परस्ता परस्ता नती च नाऊण. 2 > P समुट्ठिओ, P साडियं P om. दुइयं. 3 > P च खंडिया खंडिया संडियं, P दारं य लिहिया. 4 > P जाणियणं. 5 > P नियय for वास, P नयरनिद्धयणं, P adds च after पयत्तो. 7 > J सुरुज, P स्यामसो. 8 > J तरं, P संसियं, J मयत्त for यत्ता, P वाप जाय कससियं. 9 > P पाण for पायार, J रेहिर, J थयकारिय, J सोहिय, J मणाट, J पयत्त for मउय, P नियसण. 10 > J मणोहर, J रेहिरं, P सुयंधधुव, P om. मय. 11 > P कंबोलय, J adds गंतुं before पयत्तं, J समाणिय P र्गमाणिय, J तंबोलं च P तंबोलं च, J वासयसज्जा P वासयसज्जं पियणपरणि, J णायगत्तं ति P वासयणियत्ति. 12 > J रइय for रइय. 13 > P जेणुज्जाणे, P हेट्ठे. 14 > P किंचि चित्तिउं. 15 > P कच्छव, P वीची, J वसिहं P भंगिलो, P उयहिम्मि, P छोड्ढणं. 16 > P आरुहियं, P बलावली ॥. 17 > P पयंडी for पयंड, P निच्छलणा, P अज्जाणं देमि, P माम for मंस. 18 > J inter. सेस and सयत्त, P जो for जा. 19 > J खेसे for खत्तं. 20 > P अव्वस्य, P कायव्वं ति संमूढो. 21 > P om. च, P मालूर, P repeats पायवस्स पसरिओ, P पादओ, P अज्जिणाय, P खण्णवओ. 22 > P एत्ता for अहो, J खण्णवाते । अवि य P खंनुवाणं मोत्तूण. 23 > J पातओ, P पाइओ, P थोअ. 24 > P वावस्सं, J पिडाल्याययं P विहवकायया, J P अरियं. 25 > P थोयं, J पादये P पायवे, J रयणीय जलणमाणे, J थोअं. 26 > P पादवो, J किं वा for ता किं, P हूं. 27 > J पाते P पाते, P अलह for अउ, J पीतं. 28 > P दूरे उण होज्ज, J अवि य for अत्थो. 29 > J जेत्तियमेत्तो P जेत्तियमेत्तं, J जत्तियं, J ण याणी ति पत्तीयदि, P दव्वं पावियमिणत्तं तं दव्वं च वा व ति. 30 > J हेट्ठो, P जइ for उण, P om. तं, P औयणं for उण, J तण्ण. 31 > P om. दे खणामि, J om. देवं णमामो ति, J णंदस्स for इंदस्स P धणयपालस्स for धणयस्स णमो धणपालस्स, J एतं for तं. 32 > P पट्टमाणं खयं, J om. य.

- 1 जह वि तए उवलदा रक्खिजह चक्कवट्टिणा एसा । गेणहसु य भंड-मोहं थोयं चिय अंजली-मेत्तं ॥ 1
- § १८८) एवं च सोऊण गहिया एका अंजली रूवयाणं । णिही वि झत्ति पायाले अहंसणं गभो । णिबडं च गेण कंठ- 3
- 3 कप्पडे तं पुट्टलयं । तओ चित्तियं वणियउत्तेण । 'अहो, पेच्छ चवलत्तणं देवस्स । अवि य, 3
- दाऊण ण दिण्णं चिय पुणो वि दाऊण कीस अक्खित्तं । महिला-हियय-गइं विय देव्व-गइं सव्वहा चवला ॥'
- तहा वि कयमणेण भंड-मोहं । इमेणं चेय समज्जिउं समत्थो हं सत्त-कोडीओ । अवि य, 6
- 6 एण्णं चेय अहं णट्ट-दरिहं कुलं अह करेज्ज । त्रिवरीय-सील-चरिओ जह देव्वो होज्ज मज्जत्थो ॥ 6
- चित्तयंतो पविट्टो तम्मि महाणयरी-विवणि-मग्गम्मि । तत्थ य वोहंतेण दिट्टो एक्कम्मि आमणम्मि वाणियओ परिणय-वओ 8
- मिऊ मद्दवो उज्जय-सीलो । तओ दट्टण चित्तियं । 'एस साहु-वणिओ परिणओ य दीसइ । इमस्स विस्ससणीयस्स सम- 8
- 9 हियामि' ति । उवगओ तस्स समीवं । भणियं च गेण 'ताय, पायवडणं' । तेण वि 'पुत्त, दीहाऊ होहि' ति । तेणं दिण्णं 9
- आसणं णिसण्णो य । तम्मि णयरे तम्मि दिवइम्मि महुसवो । तओ बहुओ जणो एह, ण य सो परिणय-वओ जरा-बुण्ण- 9
- जजर-गतो ताणं दाउं पि पारेइ । तं च जण-संघट्टं दट्टण भणियं इमिणा 'ताय, तुमं अदिभतराओ णाणेहि जं भंडं अहं 9
- 12 दाहामि जणस्स' । भणमाणो दाउं पयत्तो । तओ एस खिप्पं देइ ति तं चेय आवणं सव्वो जणो संपत्तो, खणेण य 12
- पेत्तिओ गेण अमूढ-लक्खेण । जाव थोव-वेला ताव विक्कीयाइं भंडाइं, महंतो लामो जाओ । वणिण्णं चित्तियं । 'अहो, 12
- पुण्णवंतो एस दारओ, सुंदरं होइ जह अम्ह धरं वच्चइ' ति चित्तयंतेण भणियं । 'भो भो दीहाऊ, तुमं कओ आगओ' । 12
- 16 तेण भणियं 'ताय, चंपापुगीओ' । तेण भणियं 'कस्सेत्थ पाहुणओ' । तेण भणियं 'सज्जणाणं' । थेरण भणियं 'अहो, अम्हे 15
- कीस सज्जणा ण होमो' । तेण भणियं 'तुमं चेय सज्जणो, को अण्णो' ति । तओ तेण वणिण्णं तालियं आमणं, पयट्टो धरं, 15
- उवगओ संपत्तो तत्थ य । तत्थ णियय-पुत्तस्स व कयं णण सयलं कायव्वं ति । पुणो अब्भंगिय-महिय-उव्वत्तिय-मज्जिय- 15
- 18 जिमिय-विलित्त-परिहियस्स सुह-णिसण्णस्स उवट्टाविया अहिणवुत्तिभज्जमाण-पओहर-भरा णिम्मल-सुह-मियं क-पसरमाण- 18
- कवोल-कंनि-चेदिमा विसट्टमाण-कुवलय-दल-णयणा सव्वहा कुसुमबाण-पिय-पणइणि व्व तस्स पुरओ वणिण्णं णियय-सुहिय 18
- त्ति । भणिओ य गेण थेरण 'पुत्त, मह जामाओ तुमं होहि' ति । भणियं च गेण 'ताय, अम्ह वयं कुलं गुणा सत्तं वा 18
- 21 ण जाव जाणह ताव णियय-सुहियं समप्पेह तुव्वे' । भणियं च थेरण 'किं तए ण सुयं कहिं चि पडिजंतं । अवि य, 21
- रूवेण णजइ कुलं कुट्टेण सीलं तथा य सीलेण । णजंति गुणा तेहि मि णज्जइ सत्तं पि पुरिसाण ॥ 21
- ता नुइ विणय-रूवेहिं चेय सिट्टो अह सील-सत्तादि-गुण-विधारो । सव्वहा एसा तुज्जं मए समप्पिय' ति । तेण भणियं । 21
- 24 'ताय, अत्थि भणियव्वं । अहं पिउरराओ णीहरिओ कण वि कारेण । ता जह तं मह णिप्फणं, तओ जं तुमं भणिहिसि 24
- तं सव्वं काहामि । अइ णं चिय णत्थि ता जलणं मइ सरणं ति । एवं सव्वभावे साहिणु मा पडिबंधं कारेह' । तेण भणियं 'एवं 24
- ववत्थिणं किं तुह मए कायव्वं' । तेण भणियं 'एवं मइ कायव्वं । पर-तीर-गामुयं इमिणा भंड-मोह्णेण भंडं गहियव्वं, 24
- 27 जाणवत्ताइं च भंडेयव्वाइं, पर-तीरं मए गंतव्वं' ति । तेण भणियं 'एवं होइ' ति । तओ तदियहं चेय घेतुमारदाइं पर-तीर- 27
- जोग्गाइं भंडाइं । कमेण य संगहियं भंडं । सज्जियं जाणवत्तं, गणियं दिवइं, ठावियं लग्गं, पयट्टिया णिज्जामया, गहिया 27
- आडियत्तिया, संगहियं पाणीयं, वसीकयं धण्णं । सव्वहा, 27
- 30 तिहि-करणम्मि पसत्थे पसत्थ-णस्वत्त-लग्ग-जोयम्मि । सिय-चेदण-वास-धरो आरूढो जाणवत्तम्मि ॥ 30
- § १८९) तत्थ य से आरूढेत्तस्स पहयाइं पडहयाइं, पवाइयाइं संखाइं, पडियं वंभगेहिं, जय-जय-कारियं पणइयणेण । 30
- तओ दक्खिऊण दक्खणिज्जे, पूइऊण समुह-देवं, अभिवाइऊण वणियं, जोकारिऊण गुरुयणं कय-भंगल-णमोकारो पयट्टो । 30
- 33 तओ चालियाइं अवल्लयाइं, पूरिओ सेयवडो, पयट्टं पवहणं, लड्डो अणुकूलो पवणो, ढोइओ णइ-मुहम्मि पडिओ समुदे । 33

1) J अउ रक्खयट्टिओ, P थोयं, P अंज ममेत्ति. 2) P एका अंगुली रूवयाणं, P adds य before झत्ति, P om. from कंठकप्पडे तं पुट्टलयं etc. to समीवं । भणियं च गेण. (in line 9). 9) J दीहाऊओ, P adds भणियं तेण, after होहि ति. 10) P निमण्णो य । तं णिसण्णो य । तम्मि य नयरे तम्मि य दिवइे महुसवो, P जुज्जुत्त. 11) P तेण for ताणं, P om. वि, P जणमइं मट्टं, J अब्भंतराओ णाणेहि (?). 12) P आयणं for आवणं, J om. य. 13) P पेत्तिओऽणेण, P ताव चिकीयाइं, P लोभो for लामो 14) P सुंदर, J om. ति, P केउ for कओ. 15) P om. ताय चंपापुगीओ । तेण भणियं, J om. अहो, 16) P आवणं for आमणं. 17) P om. तत्थ य, J adds य before णियय, P निवयपुत्तस्स वरणेण कयं सयलं, J om. ति, P om. महिय. 18) J om. सुहणिसण्णस्स, P उवट्टयिया, P पओहरभाग. 19) P कुसुमयाउवबाण, J इड्डिआ. 20) J om. ति, P भणिओऽणेण, P जामाओ (उ) ओ तुम होहि, J होइति, J तेण for गेण, P अम्ह, P गुणा for गुणा. 21) P पडिजंतं. 22) J सीलयं for सीलेण, P तेहि मि णिज्जइ. 23) J दिट्टो P सिद्धा for सिट्टो, P वित्थरो 24) P तीओ for णीहरिओ, P केणावि, P om. ता, P निष्पन्नं, J भणीहिसि. 25) P कारेहि । P एवं वत्थिण. 26) P गामियं इमिणी. 27) P च ताडेयव्वारं. 28) J om. भंडाइं, J गहियं for गणियं, P om. गहिया. 29) P आडयत्तिया. 30) P जोग्ग for लग्ग. 31) P om. य, P पडहयाइं, J कारियं, P पणइयणेण. 32) P वणिण. 33) P आवल्लयाइं, P अणुकूलओ, P पडिसमुदे.

- 1 ताव य गंतुं पयत्तं पवहणं अणोय-मच्छ-कच्छह-मगर-करि-संघट्ट-भिज्जमाण-वीहं-तरंग-रंगंत-विहम-किसलए समुद-मज्झमि । 1  
धोएणं चेष कालेण संपत्तं जवण-दीवे तं जाणवत्तं, लग्गं कूटे, उत्तारियाइं भंडाइं, दिण्णं सुकं । विणिवट्टियं जहिच्छिएण 3  
3 लाहेण गहियं पडिभंडं । तं च केत्तियं । अवि य, 3  
मरगय-मणि-मोत्तिय-कणय-रूप-संवाय-गडिभणं बहुयं । गण्णेण गणिजंतं अहियाओ सत्त-कोडीओ ॥  
तओ तुट्टो सायरदत्तो । 'अहो, जह देवस्स रोयइ, तओ पूरिय-पइण्णो विय अहं जाओ' त्ति चलिओ य तीर-हुत्तं । तत्थ य 6  
6 चालियाइं जाणवत्ताइं, संपत्ताइं समुद-मज्झ-देसमि । तत्थ य पंजर-पुरिसेण उत्तर-दिसाए दिट्ठे एकं सुव्व-पमाणं 6  
कज्जल-कसिणं मेह-पडलं । तं च दट्टणं भणियमणेण । 'एयं मेह-खंडं सव्वहा ण सुंदरं । अवि य ।  
कज्जल-तमाल-सामं लहुयं काऊणं परिहवावडियं । वहुत्तं देइ भयं पत्तिय-कणहाहि-पोयं व ॥  
9 ता लंबेह लंबणे, मडलह सेयवडं, ठण्ह भंडं, थिरीकरेह जाणवत्तं । अण्णहा विणट्टा तुब्भे' त्ति । ताव तं केरिसं जायं ति । 9  
अवि य,  
अंधारिय-दिसियकं विज्जल-विलसमाण-घण-सहं । मुसल-सम-चारि-घारं कुविय-कयंतं व काल-घणं ॥  
12 तं च तहा वरिसमाणं दट्टणं आउलीहूया वणिया । खणेण य किं जायं जाणवत्तस्स । अवि य, 12  
गुरु-भंड-भार-गरुयं उवरिं वरिसंत-मेह-जल-भरियं । बुण्ण-विमण्ण-परियणं क्षत्ति णिबुद्धं समुदमि ॥  
तत्थ य ओ एक्को वाणिय-पुत्तो कह-कह वि तुंग-तरंगवाडणुवोले करेमाणो विरिक्क-नेल-कुरंटीए लग्गो । तत्थ य वलग्गो 15  
15 हीरमाणो मच्छेहिं, हम्मंतो मयरहिं, उल्लिहज्जमाणो कुम्म-णक्खेहिं, विल्लिज्जमाणो संखउलेहिं, अण्णिज्जमाणो कुंभीरएहिं, 15  
फालिज्जमाणो सिंसुमारहिं, भिज्जंये जल-करि-दंत-मुसलेहिं, कह-कह वि जीविय-मेत्तो पंचहिं अहोरत्तेहिं चंददीवं णाम दीवं 15  
तत्थ लग्गो । तत्थ कहं कहं पि उत्तिण्णो । पुणो मुच्छा-विणिमीलंत-लोयणो णिसण्णो एक्कस्स तीर-पायवस्स अघे समासथो ।  
18 तओ उट्टाहया इमस्स छुहा । जा य केरिसा । अवि य । 18  
विण्णाण-रूव-पोरुस-कुल-धग-गव्वुत्तणे वि जे पुरिसा । ते वि करइ खणेण खलयण-सम-सोयणिज्जयरे ॥  
§ १९० ) तओ तारिसाए छुहाए परिगओ समुट्टिओ तीर-तरुयर-तलाओ, परिभमिउं समाडत्तो तम्मि चंददीवे ।  
21 केरिसे । अवि य, 21  
बउलेला-वण-सुहए णिममल-कप्पर-पूर-पसरमि । अवहसिय-णंदणा किंणरा वि गायंति संनुट्टा ॥  
वच्छच्छाओच्छइए छप्पय-भर-भमिर-सउण-पउरमि । कय-कोउया वि रविणो भूमिं किंणरा ण पावंति ॥  
24 तम्मि य तारिसे चंददीवे णारंग-फणस-माउलुंग-पमुहाइं भक्खाइं फलाइं । तओ तं च साहगिऊण कय-पाणाहुइं वियसंत- 24  
कोउओ तम्मि चेष वियरिउं पयत्तो । भममाणेण य दिट्ठे एकमि पपमे बहु-चंदण-जण-एला-लवंग-लयाहरयं । तं च दट्टणं 24  
आबद्ध-कोउओ संपत्तो तमुंसें, जाव सहसा णिसुओ सहो कम्म वि । तं च सोऊण चिंतितं पयत्तो । 'अहो, मओ विय 24  
27 सुणीयइ । कस्स उण होहिइ त्ति । जहा फुडक्खरालावो तहा कम्म वि माणुमस्स ण निरियस्स । ता किं पुरिसस्स किं वा 27  
महिलाए । तं पि जाणियं, ललिय-महुरक्खरालावत्तणेण णायं जहा महिलाए ण उण पुरिसस्स । ता किं कुमारीए आउ 27  
पोढाए । तं पि णायं, सलज्जा-महुर-पिओ सण्ह-सुकुमारत्तणेण अहो कुमारीए ण उण पोढाए । ता कथेत्य अरणमि 27  
30 माणुम-संभओ, वियेयओ बाला-अवलएण त्ति । अहवा अहं चिय कथेत्य संपत्तो । सव्वहा, 30  
जं ण कहामु वि सुव्वइ सुविणे वि ण दीसाए ण हिययमि । पर-तत्ति-तरगणं तं चिय देव्वेण संघट्टियं ॥'  
चित्तथंतेण गिरुवियं जाव दिट्टा कयलि-थंभ-णितरंभ-अंतरण रत्तासोयस्स इट्ठे अप्पडिरूव-दंसणीं सुरूवा का वि कण्णया 33  
33 वणंदवया विय कंड-दिण्ण लया-पासा । पुणो वि भणियमणाए । अवि य । 33

1) J मयर, J यगर for रंगंत. 2) J दीवे P दीवं, P adds वलियाइं before दिण्ण, P om. विणिवट्टियं etc. to अवि य.  
4) P वियाय for मरगयमणिओ संवायरूपसंवाय. 5) P om. तुट्टो, P पूरियण्णो वि अहं, P om. य before तीर. 6) P  
om. मज्झ, P पंजरपुरिसेण, P सुव्वपमाणं. 7) P खंडं for पडलं, P भणियमणेण. 8) P सण्णं for णामं, J वहुत्तं, P किण्णट्टि. J  
वोअस्स for पोयं व. 9) P मडलेह सपवडे, P कटं for ताव, P om. ति. 11) P विज्जुत्त, P मल for घणभंडं, P om.  
मुसल. 12) P repeats वणिया, P om. य after तणेण. 13) J पुण्ण for बुण्ण. 14) P om. य after तरय, P वणि-  
यत्तो, P तुंगत-उणवोले, P कुरंटीए. 15) P करमाणो मच्छेहिं, J विरिज्जमाणो. 16) J सिंसुमारहिं, P जलकरेहिं कल, P पंचेहिं,  
P चंददीवं, J णामदीवं. 17) P adds य after तत्थ, P पुणो, P जोये for अघे. 18) J उट्टाहया. 19) P सोयणिज्जयरे.  
20) P तंमे देदीवे केरिसो. 22) J उवलेया P उलेया, P कप्पर-पूर, J किण्णरावि P किन्नगवे. 23) P वरच्छा, P पावंति.  
24) P चंददीवे जाणिया, P भविसयथाइं, P तं च आकारिकण, P वियसंभमियचेय. 25) P भममाणेण यट्ठिदिट्ठ एकमिण एकमि, J वहुं,  
J वंरण for वण. 26) P adds य after जाव, P समुट्टो for सहो विय. 27) J सुणीयइ P सणीयइ, P होइए, J adds य  
after जहा, P om. ण निरियस्स, J om. वा. 28) P तं मि for तं पि, P om. णां before जहा, P om. उण, P ताओ for  
ता. 29) J सलज्जा, P मल्लिकयमहुरमिमओमण्डकुमारं, J पिउमण. P तओ ण for ण उण. 31) J जण्ण P जण. 32) J  
थंभणिरुविअंरेणं । रत्तासोअहेट्टो, P -विउरंभ, P रूवं दंसणीयरूवं किं पि काणणवणदेवयं. 33) P लया एसा, P om. अवि य.

- 1 'भो भो वणदेवीभो तुभमे वि य सुणह एत्थ रण्णमि । अण्णमि वि मह जम्मंतरमि मा पुरिसं होज ॥' 1  
 त्ति भण्णतीए पक्खित्तो अप्पा । पुरिओ पासओ, णिरुद्ध णीसासं । अण्वविणं पोट्टं, णिग्गयं वयणेण केणं, णीहरियाइं अच्छियाइं,  
 3 संकुहयं धमणि-जालं, सिट्ठिलियाइं अंगाइं । एत्थंतरमि तेण वणियउत्तेण सहसा पहाविऊण तोडियं लया-पासं । णिवडिया 3  
 धरणियले । दिण्णो पड-वाऊ । अहिणव-चंदण-किसलय-रसेण विलित्तं वच्छयलं । संवाहिओ कंठो । सट्ठाणं गयाइं  
 अच्छियाइं । ऊससियं हियणं । पुलहयं णयणेहिं । लद्ध-सण्णाए दिट्ठो णए य वणियउत्तो । तं च दट्ठण लज्जा-सज्जस-  
 6 वसावणय-सुहयंदा उत्तरिज्जथं संजमिउमादत्ता । भणिया य णेण । 6  
 'किं तं वम्मह-पिय-णणहणी सि किं होज का वि वण-लच्छी । दे साह सुयणु किं वा साहसमिणो समादत्तं ॥'  
 तीए भणियं दीहुण्हमूससिऊणं ।  
 9 'णाहं हो होमि रई ण य वणलच्छी ण यावि सुर-विलया । केण वि वुत्तंतेण एत्थ वणे माणुसी पत्ता ॥' 9  
 तेण भणियं 'सुयणु, साहसु तं मह वुत्तंते जइ अकहणीयं ण होइ' । तीए भणियं 'अत्थि कोइ जणो जस्स कहणीयं, जस्स य  
 ण कहणीयं' । तेण भणियं 'केरिसस्स कहणीयं' । तीए भणियं ।  
 12 'गुरुदिण्ण-हियय-त्रियणं किं कायव्वं ति मूढ-हियण्हिं । तुक्खं तस्म कहिज्जइ जो कइइ हियय-सहं व ॥' 12  
 सायरदत्तेण भणियं ।  
 'जइ अहिणव-गज्जकुर-सिण्हा-लव-लग्ग-चंचलयरेण । जीण्ण किंचि सिज्जइ सुंदरि ता साह णीसकं ॥'  
 15 तीए भणियं 'वोल्लिओ सब्बो अवसरो तस्स, तह वि णिसामेसु । 15  
 § १९१ ) अत्थि दाहिण-मयरहर-वेलाळगा सिरित्तुंगा णाम णयरी । तीय य वेसमण-समो महाधणो णाम सेट्ठी ।  
 तस्स य अहं दुहिया अचंत-दइया घरे अणिवारियप्पसरा परिभमामि । तओ अण्णमि दियहे अत्तणो भवण-कोट्टिम-  
 18 तलमि आरूढा णिसण्णा पल्लकियाए णिदावसमुवगया । विउट्ठा अणय-सउण-सावय-सय-घोर-कलयल-रवेण । तओ 18  
 पडुट्ठा णिदा-खण्णं तत्थ हियण्ण चित्तिमि । 'किं मण्णे सुमिणओ होज एमो' त्ति चित्तयंतीए उम्मिल्लियाइं लोयणाइं । ताव  
 य अणय-पायव-साहा-णिरुद्ध-रवि-किरणं इमं महारण्णं, तं च दट्ठण थरथरंत-हियविया विलविउं पयत्ता ।  
 21 'हा हा कथं णिरासा ताय तए उज्झिया अरण्णमि । हा कथं जाभि संपह को वा मह होहिइ सरणं ॥' ति । 21  
 एत्थंतरमि 'अहं तुह सरणं' ति भणमाणो सहसा दिव्व रूवी को वि समुट्ठिओ पुरिसो लयाहराओ । तं च पेच्छिऊण  
 दुगुणयर-लज्जा-सज्जसावणय-वयणा रोइउं पयत्ता । सो य पुरिसो मं उवसण्णिऊण भणिउमादत्तो । अवि य,  
 21 'मा सुयणु किंचि रोवसु ण किंचि तुह मंगुलं करीहामि । तुह पेम्म-रसूसव-लंपडेण मे तं सि अक्खित्ता ॥' 24  
 तीए भणियं 'को मि तुमं, किं वा कारणं अहं तए अवगिहय' ति । तेण भणियं । 'अत्थि वेयट्ठो णाम पध्वयवरो । तस्स  
 सिहर-णिवासिणो विजाहरा अरहे गयण-नोयरा महाबल-परक्कमा तियस-विलयाणं पि कामणिज्जा । ता मए पुइइ-मंडलं  
 27 भममाणेण उवरि-तलए तुमं दिट्ठा, मम हियए पविट्ठा । विजाहरीणं पि तुमं रूविणि त्ति काऊण अवहरिया । अहवा 27  
 किं रूवेण । सब्बहा,  
 सुंदरमसुंदरं वा ण होइ पेम्मस्स कारणं एयं । पंगुलओ वि रमिज्जइ वज्जिज्जइ कुसुमचावो वि ॥  
 30 सो च्चिय सुहओ सो चेय सुंदरो पिययमो वि सो चेय । जो संधी-विग्गाह-कारिणीए दिट्ठीए पडिहाइ ॥ 30  
 ता सुंदरि, किं बहुणा जंपिण्ण । अभिरमइ मे दिट्ठी तुममि । तेण पसुत्तं हरिऊण संकंठो गुरूण ण गओ विजाहर-सेट्ठिं ।  
 एत्थ उयहि-दीवंतरे णिप्पइरिक्के समागओ त्ति । एवं च तिए रमसु मए समयं' ति । तओ मए चित्तियं । 'अव्वो, इमे ते  
 33 विजाहरा जे ते मह सहीओ परिहासेण भण्णतीओ, मा तुमं विजाहरेण हीरिहिसि । अहं च कण्णा, ण य कस्सइ दिण्णा । 33  
 पुणो वि केणइ लक्खवइएण किराडण्ण परिणयव्वा । ता एस विजाहरो सुरूवो असेस-जुयइ-जण-मणहरो सिण्हवंतो य

1) P om. one ओ, P तुम्हे णिण्णेइ, P om. अण्णमि वि मह, J होज्जा. 2) J om. त्ति, P पोट्टम, J वयणेण हेणं P वयणे केणं, P अत्थीयायं. 3) P भवणि, P पहाविऊण. 4) P धरणित्ते, P पडिवाओ, P ररेणय for रसेण, J सट्ठाणं. 5) P लोयणाइं for अच्छियाइं, P पुलहयं अच्छीहिं, J adds अ ॥ before दिट्ठो, P om. णाण य. 6) P adds अवि य after णेण. 7) P किं त वम्मह, J कहवि for का वि, P साइम किं. 8) J तीअ. P दी कुणं ऊससिणं. 9) P om. हो, P adds केण विलया before केण णि. 10) P न्ययण, J तीय, P om. कहणीयं जरस य. 11) J तीअ for तीए. 12) J दिण्णविअण्हियं किं कायव्वं. 14) P गज्जकुर. 15) J तीय. 16) P नगरी, P om. णाम, P adds वेसमणो नाम after सेट्ठी. 17) J om. य, P परिभमामि. 18) J -यल्लंभि, P णिदावसं उवगया, P adds य before अणय, P साव for सावय, P लल्लरवेण, J तओ जस त्ति गयं हियवण तत्थ. 19) J किमण्णं, J होज्जा एसत्ति. 20) J om. य, P थरथरंत. 22) P अह for अहं. 23) J दुगुणयरं, P वयणा, J रोविं, J om. मं, P भणित्तं समा. 24) J णदंति, P लंपडेण तं सि पक्खित्ता. 26) J महाबल. 27) J (perhaps) तुमं दिट्ठा तुमं च मम, P वणि, J om. अवहरिया. 29) P om. सुंदरमं, J पंगुलओ. 30) P च्चय, J य for वि. 31) P अट्ठिमइ दिट्ठी. 32) P णिप्पइरिक्के, P च ट्ठाए, J adds मए (later) after चित्तियं, P इमो ते. 33) P हीरिहिसि, P नइ for णय. 34) J केणइ वा लक्खवण, P सुरूवो.

1 मं परिणेह, ता किं ण लहं' ति चिंतयतीए भणियं मए । 'अहं तए एत्थ अरण्णे पाविया, जं तुह रोयह तं करेसु' ति । तओ 1  
हरिस-णिहभरो भणिउं पवत्तो 'सुयणु, अणुगिगहीओ म्हि' ति । एत्थंतरम्मि अण्णो कट्ठिय-मंडलग्ग-भासुरो खग्ग-विज्जाहरो  
3 'अरे रे अणज्ज, कथं वच्चसि' ति भगमाणो पहरिउं पयत्तो । तओ सो वि अम्ह दइओ अणुविग्गो कट्ठिऊण मंडलग्गं 3  
समुट्ठिओ । भणियं च णेण 'अरे दुट्ठ दुब्बुद्धि कुविज्जाहर, दुग्गहियं करेमि तुह इमं कण्णयं' ति भगमाणो पहरिउं  
6 गया दो वि विज्जाहर-जुवाणा । खग्गेण य लुय-सीसा दुवे वि णिवडिया धरणिवट्ठे । ते य मुए दट्ठणं गुरु-दुक्ख-क्खिखत्त- 6  
हियविया विलविउं पयत्ता । अवि य ।

हा दइय सुहय सामिय गुण-णिहि जिय-णाह णाह णाह ति । कथं गओ कथं गओ मोत्तुं मं एक्कियं रण्णे ॥

9 आणेऊण घराओ रण्णे मोत्तूण एक्कियं एण्हि । मा दइय वच्चसु तुमं अहव घरं चेव मे णेसु ॥ 9

§ १९२ ) एवं विलवमाणीए य मे जो सुओ सो कहं पडिसंलावं देइ ति । तओ दीण-विमणा संभम-वस-विवसा

जीविय-पिया इमाओ दीवाओ गंतुं ववासिया परिवभमामि । सव्वत्तो य भीमो जलणिही ण तीरए लंघेउं जे । तओ मए  
12 चिंतियं । 'अहो, मरियव्वं मे समावडियं एत्थ अरण्णम्मि । ता तहा मरामि जहा ण पुणो एरिसी होमि' ति चिंतिऊण 12  
विरहओ मे इमम्मि लयाहरम्मि लया-पासो । अत्ताणयं च णिदिउं, सोइऊण सव्व-बुहयण-परिणिदियं महिलिया-भावं,  
संभरिऊण बुलहरं, पणमिऊण तायं अम्मयं च एत्थ मए अत्ताणं ओबहं ति । एत्थंतरम्मि ण-याणामि किं वत्तं, केवलं  
15 तुमं वीयंतो पडेण दिट्ठो ति । तुमं पुण कथ्येत्थ दुग्गमे दीवं' ति । साहियं च णिय-वुत्तंतं सागरदत्तेण पइण्णारुहणं 15  
जाणवत्त-विहडणं च ति । तओ तीए भणियं 'एवं इमम्मि विमंतुले कजे किं संपयं करणीयं' ति । सायरदत्तेण भणियं ।

'जह होह कलिज्जंनो मेरु करिसं पलं च णहणाओ । तह वि पइण्णा-भंगं सुंदरि ण करंति सप्पुरिमा ॥'

18 तीए भणियं 'केरिसो तुह पइण्णा-भंगो' । सागरदत्तेण भणियं । 18

'संवच्छर-मेत्तेणं जह ण समज्जेमि सत्त कोडीओ । ता जलिहंधण-जालाउलम्मि जलणम्मि पविसामि ॥

ममं च एवं समुह-मज्जे भममाणस्स संपुण्णा एक्कारस माया । अवइण्णो एस दुवालससो मासो । इमिणा एक्केण मामेण  
21 कहं पुण सत्त कोडीओ समज्जेमि । अह समज्जियाओ णाम कहं घरं पावेमि । तेणाहं सुंदरि, भट्ट-पइण्णो जाओ । ण य जुत्तं 21  
भट्ट-पइण्णस्स मज्ज जीवियं ति । ता जलणं पविसामि' ति । तीए भणियं 'जह एवं, ता अहं पि पविसामि, अण्णेसियउ  
जलणं' ति । भणियं च तेण 'सुंदरि, कहं तुह इमं अमामणं लायणं भगवं हुयासणो विणामिहिइ' । तीए भणियं । 'हं,  
24 सुंदरमसुंदरे वा गुण-दोम-विचारणम्मि जच्चंधा । उहणेक्क-दिण्ण-हियओ देवो गयणो य जलणो य ॥ 24  
ता मए वि किमेत्थ रण्णम्मि कायव्वं' । तओ 'एवं' ति भणिऊण मरिगउं समादत्ता हुयासणं । दिट्ठो य एक्कम्मि पण्णे  
बहु-वंस-कुंडगामंग-संसग्ग-संधासुग्गयगि-पसरिओ बहलो धूमुष्पीलो । पत्ता य तं पण्णं । गहियाइं कट्ठाइं, रइया महा-

27 चित्ती, लाहओ जलणो, पज्जलिओ य । करंसा य सा चिइं दीसिउं पयत्ता । अवि य, 27  
णिहूम-जलण-जलिया उवरं फुरमाण-मुम्मुर-कराला । णज्जइ रयणफ्फसला ताविय-तवणिज्ज-णिम्मविया ।  
तं च तारिसं त्रियं दट्ठणं भणियं सागरदत्तेणं । 'ओ भो लोयपाला, णिसुग्गह ।

30 संवच्छर-मेत्तेणं जह ण समज्जेमि सत्त कोडीओ । ता जलिहंधण-जालाउलम्मि जलणम्मि पविसामि ॥ 30  
एसा मए पइण्णा गहिया णु घराओ णीहरंतेण । सा मज्ज ण संपुण्णा नेण हुयासं समुल्लीणो ॥'  
तीए वि भणियं ।

33 'दइएण परिच्छत्ता माया-पिह-विरहिया अरण्णम्मि । दोहग्ग-भग्ग-माणा तेणाहं एत्थ पविस्सामि ॥'  
ति भगमाणेहिं दोहि वि दिण्णाओ झपाओ तम्मि चियाणले । 33

1 > J मं for मे, J चिंतयतीय, J om. मए. 2 > P मि for म्हि, J om. ण्णो, P कट्ठिय. 3 > P रे for अरे, J ततो सो  
P कट्ठिऊण. 4 > J कुविज्जाहर, J इअं for इमं, J भगमाण. 5 > J पयत्ता, P -व्यायस्वणस्वणारवेण, J सण्टमार्पिट P खंडाखंडि. 6 >  
P विज्जाहरा। खग्गेण, P खित्तहियाविय 8 > P जियनाम णाह ति, P om. one कथं गओ. 9 > P इहं, J चेज्ज.  
10 > P om. य मे, J पडिसंलावं, J विवसवीविआ इमाओ. 11 > J मणज्जणीही for जणिही. 12 > J om. पुणो. 13 >  
P से for मे, P लयाहरंमि पासो, P om. च, P निदिऊण सोऊण. 14 > P एवं for अम्मयं, P मए अत्ता उव्वेपेइ ति. 15 >  
J । भणियं । च न्तियवुत्तंतं सायरदत्तेण. 16 > J तीय, P om. कि, J om. ति, J सायरदत्तेण. 17 > P मेहं, J वरंति. 18 >  
J तीय, P पइण्णा भंगो, J सायरदत्तेण. 19 > P जालिधण. 20 > J तं for मं, J एत्थ for एवं, J adds य before मासा,  
P om. एस. 21 > P कहं घरं, P नह for णय. 22 > P om. मज्ज, P पविसामि, J तीय J अण्णिसीयत्तु P  
अण्णेसियउ. 23 > P जलणो ति, J तुमं for तुह, P भगवं जुयणेणो, J विणेसेदिति, J तीय, P हं. 24 > P 'मसुंरं, P जच्चंधो ।  
दइणेक्क. 25 > J समादत्तो, J य ए अम्मि. 26 > P कुंडगामंग, P 'मगपणी, P महा-पीडं. 27 > J चित्ती P चीइं. 28 > P मुम्मुर-  
29 > J सायरदत्तेण, J लोयपाला. 30 > P ता जालिधणज्जणं ति तणेण पविसामि. 31 > P संपन्ना तेण हुयासं समल्लीणो. 32 >  
P om. वि. 33 > P दइएणं परिच्छत्ता मायापिय, J दोहग्गमाणभग्गा, P adds तेणा before तेणाहं. 34 > P दोहिमि दिण्णाओ.



- 1 § १९३) तभो केरिसा य सा चिई जाया । अवि य, 1  
दीहर-मुणाल-गालो वियसिय-कंदोष्ट-संड-वैचइओ । जाओ य तक्खण चिय वर-पंकय-सत्थरो एसो ॥
- 3 तं च दट्टण चितियं सायरदत्तेण । 'अहो, 3  
किं होज अण्ण-जम्मं किं वा सुमिणं इमं मए दिट्ठं । किं इंदयाल-कुहयं जं जलणो पंकए जाओ ॥' एत्थंतरम्मि,  
मणि-पोमराय-धडियं कणय-महाखंभ-णिवह-णिम्मवियं । मुत्ताहल-ओऊलं दिट्ठं गयणे वर-विमाणं ॥ तत्थ य,
- 6 वर-कणय-मउड-राहो गढत्थल-घोलमाण-रयणोहो । लंब-वणमाल-सुहओ महिड्ढिओ को वि देव-वरो ॥ 6  
तेण य संलत्तं दर-हसिय-वियसमाणाहर-फुरंत-दंत-किरण-धवलिय-दिसिवहं 'भो भो सागरदत्त, किं तए इमं इयर-जण-  
णिसैवियं बुहयण-परिणिदियं अप्प-वहं समाढत्तं ति । अवि य,
- 9 दोहग्ग-भग्ग-भग्गा पड्डणो अवमाण-णिवडिया टुक्खे । लहुय-हियया वराई णवर इमं महिलिया कुणइ ॥ 9  
तुज्झं पुण ण जुत्तं एरिसं ति । अह भगसि 'सत्त कोडीओ पड्डण' ति,  
ता तं पि किं ण बुज्झसि सग्गे वसिऊण वर-विमाणम्मि । अम्मंहेहिं समं सुहिओ चउहिं पि जणेहिं सोहम्मे ॥
- 12 तत्थ तए कक्केयण-इंदणील-मणि-पोमराय-रासीओ । पम्मोक्कामुक्काओ कोसाहारो इमेहिं पि ॥ 12  
ता गेणह तुमं णाणं सम्मत्तं चेय जिणवर-मयम्मि । पंच य महव्वयाइं इमाओ ता सत्त कोडीओ ॥  
अह इच्छसि किंचि धणं गेणहसु तिगुणाओ सत्त कोडीओ । आरुह विमाण-मज्जे घरं पि पावंमि ता तुरियं ॥'
- 15 इमं सोऊण तं च देव-रिद्धिं णिएऊण ईहापूह-मग्गण-गवसणं कुणमाणस्स जाई-सरणं समुप्पणं । णायं च जहा । अहं सो 15  
पउमप्पहो, एत्थ चविऊण उप्पणं । एसो उण पउमकसरो भणिओ य मए आसि जहा 'तए अहं जिणवर-मग्गे संबोहे-  
यव्वो' । तं संभरमाणेण इमिणा अहं मरणाओ विणियट्ठिओ ति । 'अहो दढ-पड्डणो, अहो कओवयारी, अहो सिणेह-परो,
- 18 अहो पेम्म-मइओ, अहो मित्त-वच्छलत्तणं । अवि य । 18  
जीवत्तणम्मि मणुओ सारो मणुए वि होइ जह पेम्मं । पेम्मम्मि वि उवयारो उवयारे अवसरो सारो ॥'  
त्ति चित्तयंतण पणमिओ णेण । तंणावि भणियं 'सुट्ट सुमरिओ ते णियय-पुव्व-भवो' । भणियं च सायरदत्तेण 'अहो रक्खिओ
- 21 अहं तए संसार-पड्डणाओ । अवि य, 21  
जह जलणम्मि मरंतो अट्टम्हाणेण दोग्गइं णीओ । अच्छउ ता जिणधम्मो मणुयत्तणए वि संदहो ॥  
ता सुंदरं तए कयं । आइससु किं मए कायव्वं' ति । तेण भणियं 'अज्ज वि तुह चारित्तावरणीयं कम्मं अत्थि, तं भुंजिऊण
- 24 संजओ तए कायव्वो' ति । ता कुमार कुवलयचंद, जो सो सागरदत्तो सो हं । तओ समारोविओ तेण विमाणम्मि । 24  
गहिया य सा मए बाला । आरोविया विमाणम्मि एक्कयीसं च कोडीओ । तओ तम्मि य विमाणवरे समारूढा संपत्ता  
खगं चय जयतुंगं नयरिं । तत्थ जण्णसेट्ठिओ घरे अवड्डणा । परिणीयाओ दोणिण वि दारियाओ मए । तओ
- 27 विमाणारूढा गया चेपा-पुरवरिं । बहु-जण-संवाह-कलयलाराव-पूरंत-कोऊहलं अवड्डणा घरम्मि । पूइआ अग्गवत्तेण । वंदिओ 27  
गुरुयणो ।
- § १९४) तओ देवेण भणियं । 'भो भो, तुज्झं दम-वास-सहस्सं सव्वाऊ, तओ तिण्णि वोलीणाइं, पंच य भोए
- 30 भुंजसु, दुवे वास-सहस्साइं सामणं पालेयव्वं' ति भणिऊण जहागयं पडिगओ इमो सो देवो । मए वि उवट्टावियाओ 30  
एक्कयीसं कोडीओ गुरुणं । तओ णिद्ध-वंचूहिं सहिओ तिहि य सुंदरीहिं भोए भुंजिऊण, पणइयणं पूरिऊण, णिविण्ण-  
काम-भोओ जाणिय-परमत्थो संभरिय-पुव्वजम्मो सुमरिय-देव-वयणो विसुज्झंत-चारित्त-कंडओ वेरग्ग-मग्गालग्गो पूइऊण
- 33 अरहंतं, वंदिऊण साहुणो, संघविऊण बंधु-वग्गं, माणिऊण परियणं, संमाणिऊण पणइयणं, अमिवाइऊण गुरुयणं, दक्खिऊण 33  
विप्पयणं, पूरिऊण भिच्चयणं, सव्वहा कय-कायव्व-वावारो धणदत्त-णामाणं येराणं अतिए अणगारियं पव्वज्जमुवगओ । तत्थ य  
किंचि पढं तरिय-सयल-सत्थयो धोएणं चय कालेणं गहिय-सुत्तयो जाओ । तओ तव-वीरिय-भावणाओ भाविऊण एक्कल-

1) P om. अवि य. 2) J संदचैचइओ P मिडिचिचइओ. 3) J सायरयत्तण. 4) P अज्जंमो.  
5) P inter. पोम and मणि, J मुत्ताहल-ओऊलंदिट्ठं, P मुत्ताफलओ व्व लंगयणे दिव्वं वर. 6) P हारो for राहो.  
7) J सायरदत्त. 8) P निपवियं बहुयण, J अप्पवहं. 9) P भग्गलग्गा, P अवमाणणाहिं निव्वडिया l.  
10) P तुज्झ पुत्त ण. 11) J विण्ण P किर, P मि for वि. 12) J पम्मोक्कं for मुक्काओ, J मि for पि. 14) J तिउणाओ.  
15) P adds च after इमं, P कुणस्स for कुणमाणस्स. 16) P चइऊण. 17) J adds वि before विणियट्ठिओ.  
18) P पेम्ममइओ. 19) P जीवत्तणम्मि, P सामे for सारो, P सारो ति ॥. 20) P om. ति, J मए for ते, J सायरदत्तेण.  
22) P दोग्गइं, J आ and P ती for ता. 23) P ए for तए, P अइससु. 24) P om. तए, J सागरदत्तो, J adds य  
before तेण. 25) P om. य. 26) P inter. चय & तणेण. P तुंगवयारि, P जुत्तसेट्ठिओ, J अवड्डणो. 29) P तुज्झं  
for तुज्झं, J सहस्साइं सव्वाऊ, P om. य. 30) P साहिं for सामणं, P om. पालेयव्वं etc. to तिहि य सुंदरीहिं. 31) P  
पूरियणं. 32) P कटओ, P मग्गलग्गो. 33) P संठाविऊण, P बहुयणं for परियणं, J सम्माणिऊण य पणइयणं  
दुक्खिऊण विप्पयणं अमि, P दिक्खिऊण. 34) J विप्पयणं, J पूइऊण, J धणउत्त, J om. य. 35) P सव्वत्थो.

- 1 विहार-पडिमं पडिवण्णो । तथ्य य भावयंतस्स एगत्तणं, चिंतयंतस्स असरणत्तं, अणुसरंतस्स संसार-दुत्तारत्तणं, सुमरंतस्स 1  
कम्म-चट्टलत्तणं, भावयंतस्स जिण-वयण-दुल्लहत्तणं सव्वहा गुरुय-कम्म-खभोवससेणं इत्ति ओहि-णाणं समुप्पण्णं, अहो जाव 1  
3 रयणप्पभाणं सव्व-पत्थडाह उट्ठं जाव सोहम्म-विमाण-चुलियाओ तिरियं माणुस-णग-सिहरं ति । तओ तम्मि एयप्पमाणे 3  
समुप्पण्णे दिट्ठं मए अत्ताणयं जहा । आसि लोहेद्वेवाभिहाणो, पुणो सगगमि पउमप्पभो देवो, तत्तो वि एस सायर-  
दत्तो ति । इमं च दट्ठणं चिंतियं मए । 'अहो, जे उण तथ्य चत्तारि अण्णे ते कहिं संपयं' ति चिंतियंतो उवउत्तो जाव  
6 दिट्ठं । जो सो चंडसोमो सो मरिऊण पउमचंदो समुप्पण्णो । तत्तो वि सग्गाओ चविऊण जाओ विंझाडईए सीहो ति । 6  
माणभदो मरिऊण पउमवरो जाओ । तत्तो वि चइऊण अओज्झ-पुरवरीए राहणो दढवम्मस्स पुत्तो कुमार-कुवलयचंदो ति ।  
मायाइच्चो वि मरिऊण पउममारो । तत्तो वि चविऊण दक्खिणावढे विजया-णामाए पुरवरीए राहणो महासेणस्स दुहिया  
9 कुवलयमाला जाय ति । इमं च णाऊण चिंतियं मए । 'अहो, तम्मि कालम्मि अहं इच्छाकारेण भणिओ जहा । 'जत्थ 9  
गया तथ्य गया सम्मत्तं अहं दायव्वं' ति ।' ता सा मए पइण्णा संभरिया । ताव य आगओ एस पउमकेसरो देवो ।  
भणियं च इमिणा । अवि य,

- 12 जय जय मुणिवर पवर(चरित्तं सम्मत्त-लब्ध-ओहिवरा । वंदइ विणण्ण इमो धम्मायरिओ तुहं चेय ॥ 12  
सोऊण य तं वयणं, दट्ठणं य इमं देवं, भणियं च मए 'भो भो, किं कीरउ' ति । इमिणा भणियं 'भगवं, पुवं अहंहेहिं  
पडिवण्णं जहा 'जत्थ गया तथ्य गया सम्मत्तं अहं दायव्वं' ति । ता ओ वराया इमेसु मिच्छादिट्ठी-कुलेसु जाया, दुल्लहे  
15 जिणवर-मग्गे पडिबोहेयव्वा । ता पयट्ट, वच्चाओ तम्मि अउज्झा-णथरीए । तथ्य कुमार-कुवलयचंदं पडिवोहेमो' । मए 15  
भणियं 'ण एम सुंदरो उवाओ तए उवइट्टो । अवि य,

जो मयगल-मांडथल-मय-जल-लव-वारि-पूर-दुल्लिओ । सो कह भमर-जुवाणो भण सव्वग्गे पियइ पिचुमंदं ॥

- 18 तथ्य य सो महाराया बहु-जण-कलयलं दट्ठं पि ण तीरइ । अच्छउ ता धम्मं साहिऊण । अहं कहियं पि णाम, ता कथ्य 18  
पडिवज्जिहि ति । अवि य,

जाव ण दुहाइं पत्ता पिय-बंधव-विरहिया य णो जाव । जीवा धम्मक्खाणं ण ताव गेण्हंति भाणेण ॥

- 21 ता तुमं तथ्य गंतुं ते कुमारं अक्खिवसु । अहं पि तथ्य वच्चांमि जत्थ मो चंडयोम-सीहो । तथ्य य पइक्के अरणाम्मि 21  
संपत्त-दुक्खो दिट्ठ-बंधु-विओगो राय-तणओ सुहं सम्मत्तं गेण्हिहिइ ति । इमं च भणिऊण अहं इत्ताओ । इमो य अउज्जाए  
संपत्तो । तथ्य तक्खणं विणिग्गाओ तुमं नुरयारूढो वाहियालीए दिट्ठो । अणुप्पविप्पिऊण तुरंगमं उप्पइओ य तुमं घेत्तणं ।  
24 तए य नुरओ पहओ । इमिणा मायाए मओ विय दंमिओ, ण उण मओ । तुहं केवलं आसा-भंगो कओ ति । तओ कुमार 24  
तुमं इमिणा तुरंगमेणं अक्खित्तो इमं च संमत्त-लंभं कज्जं हियए काऊण मए तुमं इराविओ । इमाइं नाइं पुरंतणाइं  
अत्तणो रूवाइं पेच्छसु' ति । दिट्ठं च कुवलयचंदेण अत्तणो रूवं ।

- 27 § १९५) कुवलयमालाए सव्वाणं च पुव्व-जम्म-णिग्गिमयं भूमीए णित्तिं साहिण्णाणं तं च दंप्पिऊण भणियं 27  
मुणिवरेण । 'कुमार, एवं मंठिणं इमम्मि कज्जम्मि जाणसु वियमो संसारो, बहु-दुक्खाओ णरए वयणाओ, दुल्लहो जिणवर-  
मग्गो, दुप्परियल्लो संजम-भारो, बंधणायारो घर-वामो, णियलाहं दाराहं, महाभवं अण्णाणं, दुक्खिया जीवा, सुंदरो  
30 धम्मोवएमो, ण सुलहा धम्मायरिया, तुलग-लहं मणुयत्तणं । इमं च जाणिऊण ता कुमार, गेण्हसु सम्मत्तं, पडिवज्जसु 30  
साहु-दक्खिणं, उच्चारिसु अणुव्वए, अणुमण्णसु गुणव्वए, सिक्खसु सिक्खावणं, परिहर पावट्ठाणे' ति । इमं च पुत्तियं  
पुव्व-जम्म-वुत्तंतं अस्सावहरणं च अत्तणो णिसामिऊण संभरिय-पुव्व-जम्म-वुत्तंतो भत्ति-भर-णदभर-पणउत्तिमंगो पयलंत-  
33 पहरिस-वाह-पसरो पायवडणुट्ठीओ भणिउं पयत्तो । 'अहो, अणुगाहिओ अहं भगवया, अहो दढ-पइण्णत्तणं भगवओ, 33

1) P om. विहार, J तथ्य वयंतस्स एगत्तणं, P चित्तस्स for चिंतयंतस्स, J असरणत्तं for संसारत्तं, J सुमरंतस्स (1) P चउरत्तणं, J भावयंतस्स for भावयंतस्स, J सव्वहा वाक्खवम्मक्खं. 2) J वट्टलत्तणं (1) P चउरत्तणं, J भावयंतस्स for भावयंतस्स, J सव्वहा वाक्खवम्मक्खं. 3) P ओहू for उट्ठं, J माणुसग्गं सिहरं, P एयप्पमाणो. 4) J चिंतित्तो उवउत्तो. 5) J दिट्ठो for दिट्ठं, J पउमचंदो, J inter. जाओ & चविऊण. 6) J adds वि after माणभदो. P पउममारो for पउममारो, J चविऊण, P दट्ठयम्मस्स. 7) P om. वि, P om. पउममारो । तत्तो वि चविऊण. 8) P om. वि, P om. पउममारो । तत्तो वि चविऊण. 9) J इच्छाकारेण. 10) P adds स after जत्थ, J om. जाव य. 12) P पयए for पयया. 13) J इमं च नं देवं, P om. च before मए, P om. ओत्तो. 14) P ता वेरा वगया, P दुल्लहः. 15) P पयट्ट, P अउज्झाणथरीए । कुमार. 16) J उवविट्ठो. 17) J गय for गय, P वर for लव, P पिचुमंदं. 18) J तथ्य सो राया, J दट्ठणं वि ण, J आ for ता, P धम्मसाहकहियं. 19) P पडिवज्जिहि ति. 20) J inter. दुहाइं & ण (न in J). 21) J om. तं, J om. य. 22) J दिट्ठबंधुवियओओ य गय, P om. ति, P om. अहं. 23) J adds य after तथ्य, P पियिमऊण, P om. य. 24) J इत् for विय, J तुहं. 25) P om. कज्जं. P om. काऊण, P पुरत्ताणं. 26) P पेच्छइ ति, P अत्तणो. 27) P मयगणो विय पुव्वजम्मं मिच्छं. 28) P एवं पि सट्ठा, J om. कज्जम्मि, J om. वट्ट, J णरयवैयाणओ. 29) P दुपरियल्लो, J वाया ए णिवामो. 30) P तुलगलहं माणुयत्तणं. 31) P दक्खिणं, P पावट्ठाणो. 32) P om. जम्म, P भत्ति-भरत्तिभरिभर, J पणवुत्तमंगो. 33) P om. पहरिस, P पायवट्ठणं, P गिहोओ for अणुगाहिओ, J om. अहं, P om. भगवओ.

- 1 अहो कारुणियत्तणं, अहो कओवयारित्तणं, अहो णिक्कारण-वच्छलत्तणं, अहो साणुग्गहत्तणं भगवओ । भगवं, सब्व-जग- 1  
जीव-वच्छल, महंतो एस मे अणुग्गहो कओ, जेण अवहाराविऊण सम्मत्तं मह दिण्णं ति । ता देसु मे महा-संसार-सायर-  
3 तरंडयं जिणधम्म-दिक्खाणुग्गहं ति । मुणिणा भणियं । 'कुमार, मा ताव तूरसु । अज्ज वि तुह अत्थि सुह-वेयणिज्जं भोय- 3  
फलं कम्मं । तो तं णिज्जरिय अणगारियं दिक्खं गेण्हहिह ति । संपयं पुण सावय-धम्मं परिवालेसु' ति । इमं च भणिओ  
कुमार-कुवलयचंदो समुट्ठिओ । भणियं च णेण । 'भगवं गिसुणेसु,  
6 उप्पह-पलोट्ट-सलिला पडिऊलं अवि वहेज्ज सुर-सरिया । तह वि ण णमिमो अण्णं जिणे य साहु य मोत्तूण ॥ अण्णं च । 6  
हंतूण वि इच्छंते अगहिय-सत्थो पलायमाणो वि । दीणं विय भासंतो अवस्स सो मे ण हंतव्वो ॥'  
भगवया भणियं 'एवं होउ' ति । एत्तियं चैय जह परं तुह णिव्वहइ' ति । उव्विट्ठो य कुमारो । भणियं च मुणिणा ।  
9 'ओ भो महइ, संबुद्धो तुमं । गिसुयं तए पुव्व-जम्म-युत्तंतं । ता अम्हे वि तुम्ह तं वयणं संभरमाणा इहागया । ता 9  
पडिवज्जसु सम्मत्तं, गेण्हसु देस-विरइ, उज्जसु णिसंसत्तणं, परिहर पाणिवहं, मुंचसु कूरत्तणं, अवहरेसु कोवं ति ।  
इमिणा चैय दुरप्पणा कोवेण इमं अवत्थंतरं उवणीओ ति । ता तह करेसु इमो कोवो जहा अण्णम्मि वि भवंतरम्मि ण  
12 पवहइ' ति । इमं च सोऊण ललमाण-दाह-णंगूलो पसत्त-कण्ण-जुयलो रोमंच-वस-समूससंत-खंधरा-रस्सर-पवभारो समुट्ठिओ 12  
धरणियलाओ, णिवडिओ भगवओ मुणिणो चलण-जुयलयम्मि, उव्विट्ठो य पुरओ । अदूरे कय-करयलंजली पच्चक्खाणं  
मरिगडं पयत्तो । भगवया वि णाणाइसएण णाऊण भणियं । 'कुमार, एसो मयवइ इमं भणइ जहा । महा-उवयारो कओ  
15 भगवया, ता किं करेमि । अम्हाणं अउण्ण-णिम्मियाणं णत्थि अणवज्जो फासुओ आहारो । मंसाहारिणो अम्हे । ण य कोइ 15  
उवयारो अम्ह जीविय-संधारणेण । ता ण जुत्तं मम जीविउं जे । तेण भगवं मम पच्चाहिक्खाहि अणसणं ति ।' इमं च भो  
देवाणुप्पिया, कायव्वमिणं जुत्तमिणं सरिसमिणं जोगमिणं ति सब्वहा संबुद्ध-जिणधम्मस्स तुज्ज ण जुज्जइ जीविउं जे'  
18 अणमाणेण मुणिणा दिण्णं अणसणे । तेणावि पडिवण्णं विणओणमंत-भासुर-वयणं । गंतूण य फासुए विवित्ते तस-थावर- 18  
जंतु-विरहिणं थंडिले उव्विट्ठो । तत्थ य माणमं पिद्धाण आयोयणं दाऊण पंच-णामोक्कार-परायणो भावेंतो संमारं, चित्तंतो  
कम्म-वमयत्तणं, पडिवज्जंतो जीव-दुस्सीलत्तणं अच्छिउं पयत्तो ।  
21 § १९६ ) भणियं च कुमारण 'भगवं, सा उण कुवलयमाला कहं पुण संबोहयव्वा' । भगवया भणियं । 'सा वि 21  
तत्थ पुरवरीणं चारण-समण-कहाणणं संभरिय-पुव्व-जम्म-युत्तंता पादवं लंबेहि ति । तत्थ य तुमं गंतूण तं पादयं भिदिऊण  
तुमं चैय परिणेहिमि । तुज्ज सा महादेवी भवीहइ । तीणं गब्भे एस पउम-रूपरो देवो पुत्तो पढमो उववजीहिइ । ता वच्च  
24 तुमं दक्खिणावहं, संबोहसु कुवलयमालं' ति अणमाणो समुट्ठिओ भगवं जंगमो कप्प-पायवो महामुणी । देवो वि 'अहं तए 24  
धम्मो पडिवोहयव्वो' ति भणिऊण समुप्पहओ णहंगणे । तओ कुमारण चित्तयं । एयं भगवया संविट्ठं जहा दक्खिणावहं  
गंतूण कुवलयमाला संबोहिऊण तए परिणयव्व ति । ता दक्खिणावहं चैय वच्चांमि । कायव्वमिणं ति चित्तयंतो चलिओ  
27 दक्खिणा-दिमाहुत्तं । दिट्ठो य सो सीहो । तं च दट्ठण संभरियं इमिणा कुमारण कुवलयचंदेण पुव्व-जम्म-पटियं इमं सुत्तंतरं 27  
भगवओ वयण-कमल-णमयं । अवि य, जो मं परियाणइ सो गिलागं पडियरइ । जो गिलागं पडियरइ सो ममं परियाणइ  
ति । सब्वहा,  
30 माहम्मिओ ति काउं णिहो अह पुव्व-संगओ धंधू । एक्कायरियमुवगओ पडियरणीओ मए एसो ॥ 30  
अण्णहा सउण-सावय-कायलेहिं उव्वदीयंतो रोहं झाणं अट्टं वा पडिवज्जिहिइ । तेण य णरयं तिरियत्तं वा पाविहि ति ।  
तेण रक्खांमि इमं जाव एयो देवीभूओ ति । पच्छा दक्खिणावहं वच्चीहामि ति चित्तयंतो कण्ण-जावं दाउमाढत्तो, धम्म-  
33 कहं च । अवि य । 33

जम्मे जम्मे मयवइ मओ सि बहुसो अलद्ध-सम्मत्तो । तह ताव मरसु एण्हि जह तुह मरणं ण पुण होइ ॥

- 1 > J om. अहो कारुणियत्तणं, P साहु for अहो after वच्छलत्तणं, P जय for जग. 2 > P inter. मे & एस, J अवहरिऊण P अवहाराविऊण, P मे संसायरत्तरेडयं जिणधम्मं दुव्वसम्मिणं ति । 3 > P दूरसु for तूरसु, P भोयप्फलं. 4 > P ता नामे निज्जरिय. 6 > J पडिऊण P पडिऊं अवि वहेज्ज सुर. 7 > P अग्रहिय 9 > J तुज्ज for तुम्ह, J वयणं भरमाणा. 10 > P नीसंसत्तणं, P अवहारेसु, P इति मिणा. 11 > P अवत्थंतरमुव्वं, J तहा for तह, J om. वि. 12 > P पवहइ, J om. पसत्तकण्णजुयलो. 13 > J जुवलयम्मि, P om. अदूरे, P कयकरयलंजली. 14 > P मयइ इमं. 15 > P फासुअ अणमाणे. 16 > P om. अम्ह, J युत्तं for जुत्तं, P पच्चव्यादि. 17 > J जुत्तं णिमं सरिसं णिमं जोगं, P संबुद्धा, J जिणधम्म तुज्ज, P om. तुज्ज. 18 > P दिण्णं निराया मणविपडिवन्नं विणउणमंत. 19 > P थंडिले, P तत्थ for य, P माणसिद्धाण, P चित्तयंतो. 20 > P पटिवज्जंतो, P टिओ for अच्छिउं पयत्तो. 22 > J कुहाणणं, P पाययलंबेहिं तत्थ, P गंतूण for गंतूण, P पाययं. 23 > J भवीहति । तीय, J om. पढमो, J उववज्जिहिइ ति उववज्जिहिइ. 24 > P भगवं जंगपायवो. 25 > P सगप्यइओ नहं । P चित्तंतं । एवं च भगवया. 26 > P चैय, P om. ति. 27 > P सीहो । दट्ठण तं संभरियं कुवलय, J om. कुवलयचंदेण. 28 > J ममं परियाणति, J पडियरति in both places, J परियाणति ति P परियाण ति. 30 > J मज्ज for धंधू, J परिअणीओ. 31 > P सावय कायकायलेहिं, J जिहि ति । J तिरियं तिरिअत्तं वा पावीहि ति, P तिरियं ति वा. 32 > P वच्चीहामि चित्तं, P दाउं समां, J om. धम्मकहं च. 34 > P मरसु for मरसु, P ज for जह, P inter. पुण and ण (न in P) ।

1 एवं च धम्मकहं णिसामंतो तद्दय-दियहे कुहा-किलंत-देहो णमोकार-परायणो मरिऊण सागरोवमट्टिईओ देवो जाओ । तत्थ 1  
भोए भुंजंतो अक्खिउं पयत्तो । तओ तं च मयवइ-कलेवरं उज्जिऊण कुमार-कुवलयचंदो गंतुं पयत्तो दक्खिणं विसाभायं ।  
3 कहं । अवि य, 3

तुंगाई गयउल-सामलाई दावगिग-जलय-सोहाइं । अहिणव-जलय-समाइं लंभंतो विंझ-सिहराइं ॥  
तओ ताणं च विंझ-सिहराणं कुहरंतरालेसु केरिसाओ पुण मेच्छ-पल्लीओ दिट्ठाओ कुमारेणं । अवि य ।

6 अहिणव-णिरुद्ध-बंदी-हाहा-रव-रुण-करुण-सहाला । सह-वियंभिय-कलयल-समाउलुभंत-जुयइ-जणा ॥ 6  
जुयइ-जण-मण-संखोह-मुक्क-किंकिं-ति-णिसुय-पडिसहा । पडित्तइ-मूढ-तण्णय-रंभिर-णेहो गलेत-गोवग्गा ॥  
गोवग्गा-रंभिरुहाम-तण्णउडिंबव-धाविर-जणोहा । इय एरिसाओ दिट्ठा पल्लीओ ता कुमारेण ॥

9 दिट्ठाइं च कलभोय-धोय-सिहर-सरिसाईं वण-करि-महादेत-संचयइं, अंजण-सेल-समइं च महिस-गवलकुहइं । तण-मह- 9  
क्खल-समइं च दिट्ठाइं चारु-चमरी-पुच्छ-पवभारइं । जहिं मऊर-पिंछ्छाइएल्लय-मंडव विरइय-थोर-मुत्ताहलोऊल व ति ।  
जहिं च धूरिपुल्लय महिसा, भारिपुल्लय बइहा, विरतिपुल्लियाओ गाईओ, पउलिपुल्लिय छेल्लय, पकेल्लिय सारंग, बुत्थेल्लय

12 सूयर, णिपिच्छिपुल्लय सुय-सारिया-तित्तिर-लावय-सिहि-संचय व ति । अवि य । सव्वहा 12  
पहरण-विभिण्ण-जिय-देह-णिगउडहाम-रुहिर-पंकेण । जण-चलण-चमट्टियं तंभिरइजइ कोट्टिम-तलं व ॥

जहिं च महामुणि-जइसय धम्म-भेत्त-वावार-रसिय वसंति जुवाणय, अण्णे णारायण-जइसय सुर-कजेक्क-वियावड, अण्णे

15 तिणयण-जइसय सर-मोक्खगिग-णिडडु-तिउर-महाणयर व, अण्णे पुण मयवइ-जइसय, दरिउम्मत्त-महा-वण-गाइं-द-वियारिय- 15  
कुंभयड, अण्णे पुण पुल्लि-समाण भत्त-महा-महिस-णिहलणेक्क-रमिय । जहिं च पत्त-सोइ-समइं हत्थ-पाय-खेजइं, अंदोलय-  
हेला-सरिसाईं उव्वंघणइं, सीहासण-सुहइं सुलारोवणइं, अंगवालिया-करइं करि-चलण-चमडणइं, शंपुल्लिया-खेणणइं गिरि-

18 तडावडणइं, अहिय-मासावगमइं कण्ण-णासाहरोट्ट-वियत्तणइं, मज्जण-कीला-तुलणाइं जल-विच्चुहुणइं, सीयावहरणइं 18  
जलण-पवेसणइं मण्णंति । अवि य ।

जं जं कीरइ ताणं दुक्ख-णिमित्तं ति मारण-छलेणं । तं तं मण्णंति सुहं कण वि पावेण कम्मणेण ॥

21 जहिं च पावकम्महं चिलायइं दुट्ट-धोइ-जइसउं बंभण मारियव्वउ, भत्त-सूइ-सरिसओ गामाइ-वहो, ऊसव-सरिसओ परदार- 21  
परिमाहो, पुरोडासु-जइसओ सुरा-पाणुं, ओंकारो जइसओ चोर-विण्णाणु । गायत्ति-जइसिय बहिणि-गालि । जहिं च सवइ  
माइं से अहिणिं से पइं मारंमि तओ लोहिउं पियमि ति । इमेहिं एरिसहिं चिलायइं दिव्वां ति काऊण सम्भंभं णमित्तं  
24 पयत्तो । केरिसाईं पुण ताणं वीसत्थ-संतियइं णिसामेइ । अवि य । 24

हण हण हण ति मारे-चूरे-फालेह द लहुं पयसु । रुंसु बंधसु मुयसु य पियसु जहिच्छं छणो अज ॥

§ १९७) ताओ तारिसाओ विंझ-कुहर-पल्लीओ वालुऊण कुमारेो संपत्तो विंझ-रण्णे, तम्मि य वच्चमाणस्य को 27  
27 कालो पडिवण्णो । अवि य । 27

फरुसो सहाव-कटिणो संताविय-सयल-जीव-संघाओ । गिम्ह-च्छलेण णजइ समागओ एय जम-पुरिसो ॥

जत्थ य पिय-पणइणीओ इव अवगुह्जंति गंध-जल-जलदियओ, सहसागओ पिय-मित्तो च्व कंठ-वल्लगो कीरइ मुत्ता- 30  
30 हारो, पिय-पुत्तो च्व अंगेसु लाइजइ चंदण-पंको, गुरुयणोवएसइं व कण्णसु कीरंति णव-स्मिरीमइं, माया-विचइं जह उववि-  
जंति कोट्टिमयलइं नि । अवि य किंच होऊण पयत्तं । वियसंति पाडलाओ । जालइजंति मल्लियाओ । परिहरिजंति रल्लयइं ।  
सेविजंति जलासयइं । परिहरिजंति जलणइं । बद्ध-फलइं चूयइं । विरालिय-कुसुमइं कणियार-वणइं । परिमडिय-पत्तइं  
33 अंकोल्ल-रुक्खइं ति । अवि य । 33

- 1) P देहे for दियहे, J सायरोवमठितीओ. 2) J रिसाओअं. 3) P क्क for कहं. 4) P गवल for जलय, P लंभंतो.  
5) P om. पुण. 6) P om. रुण. 7) J जुअईअण, J om. णिसुय (emended) P निज्ज, J रंभिरनेहो अणंतगोवग्गा.  
8) J तण्णउडहिविर P तन्नउम्भेम्भधाविर. 9) P om. धोय, P संवयम for संवयइं, J कुहडयं P कुहडइं. 10) P च द दिट्ठाइं,  
P पुंछ, J कहिं च मऊर, P इपलव, J मंडवा, J मुत्ताहलोऊके. 11) P धूरिपुल्लय, J महिसय, J एल्लिअओ, J एल्लय, P  
पकेल्लय, P गुंछेल्लय सूयरे वोणि निपिच्छपुल्लय. 12) P सिहिसंयव ति. 13) J विभिण्ण, J णिगउडहाम, P तंभिरजइ, J कोट्टिमयलं च.  
14) P वावारसिय, P जुवाणा, J णारायणु. 15) P तिडडु, J अणिण वणि मयवइ. 16) J कुंभयड अवि य अणिण पणि पुल्लि.  
P रसिया, J जाह चं for जहिं च, P समयं. 17) P सरिसाईं उव्वंघणइं, P अंगवालिया, J करइं करचलण, P चमडणइं संवुल्लिया,  
J खेणणइं, P गिरिउडा. 18) J मासावगमइं, P कीलातुलण, P तणयं. 19) J पवेसइं, P पवेसणयं पन्नत्ति. 20) P  
P ता for ताणं, P मारणयेण. 21) J जाहं च पावकम्म चिला, P चि for च, P चिलायइं दुट्टा, J repeats जइ, P बंभण  
मारियव्वउं, J भत्तसुअ, P गोमाइवहो । ऊसवो जइसओ । परदारपरिसाओ पुरोडासु जइसओ परदार परियदो । पुरोडासु जइसओ  
सुरापाणकारो जइसओ । सुरापाणा । उंकारो. 22) P विजाणो, J जाइं for जहिं, P सवइं माहि से बहिणि से पइ. 23) J जे  
for से before पइं. 24) P ताणं वीसत्थसंतियइं. 25) P om. one हण, J रुंसु P रुंसु, P जहिच्छच्छणा. 26) P  
om. तम्मि य. 27) J om. अवि य. 29) J च for य, P पणइणि उवग्, J अवजदिजंति, J जलणीओ, J कंठलगो. 30)  
P वित्तं जह नवरियजंति कोट्टिमयलं ति. 31) P किं चि हाऊण, P जालिजंति, J मल्लियाओ, P रल्लियइं । सेविजंति. 32) P  
फलयइं पूवइं, P कसयं.

- 1 मोक्षुण चूय-सिहरं पइसइ णव-तिणिस-गुम्म-वण-गहणं । हुं हुं ति वाहरंती णिदाह-इड्ढा व वणराई ॥ 1
- केसु पुण पप्सेसु किं किं कुणइ गिम्ह-मज्झण्हो । अवि य फुरफुरेइ णीलकंठ-कंठेसु, अंदोलइ मइंद-कळमाण-जीहंदोलणेसु, 2
- 3 णीससइ थोर-करिवर-करेसु, पज्जइ दवाणलेसु, धूमायइ दिसा-सुहेसु, धाहावइ थीरी-रूपसु, णच्चइ मयतण्हा-जल-तरंग- 3
- रंगेसु, संठाइ विंझ-सिहरेसु, मूयलिज्जइ महाणइंसुं ति । अवि य ।
- उग्गाइ हसइ गायइ णच्चइ णीससइ जळइ धूसाइ । उम्मत्तओ व्व गिम्हो ण णजए किं व पडिवण्णो ॥
- 6 केसु पुण पप्सेसु गिम्ह-मज्झण्हं ओळावेति जंतुणो । अवि य महावण-खिडेजेसु वण-करि-जूहइं, गिरिवर-गुहासु 6
- मयवइणो, उच्चथलीसु सारंग-जूहइं, वच्च-च्छायासु पसु-वंद्रइं, सरिइह-कूलेसु गाम-वच्चय-कुलइं, सरवरेसु वण-सहिस- 7
- जूहइं, परंत-खंजणेसु कोलउलइं, जालीयलेसु मोरइ वंद्रइं, पवा-मंबवेसु पहिय-सत्थइं ति । अवि य ।
- 9 सो णत्थि कोह जीवो जयरिम सयलम्मि जो ण गिन्हेण । संताविओ जहिच्छं एक्कं चिय रासहं मोचुं ॥ 9
- तम्मि य काले पुरवर-सुंदरीओ जइसियओ जायल्लियओ । कप्पर-रेणु-रय-गुंडियओ सिसिर-पल्लवत्थुरणओ पाडला-दाम- 10
- सणाह-कंठओ महिय-कुसुम-सोहओ पओहर-णिमिय-मुत्ता-हारओ कोमल-तणु-खोम-णिवसणओ धाराहर-संठियओ तालियंठ- 11
- पवण-लुलियाळयओ विइण-वंदण-णेडालियओ दीहर-णीसास-खेइयओ साहीण-दइयओ वि णज्जइ पिययम-विरहायल्लय- 12
- 12 संताव-सवियओ सि । अवि य ।
- किंसुय-लयाओ पेच्छइ परिचियलिय-रत्त-कुसुम-जोग्गाओ । गिम्ह-पिय-संगमेणं बद्ध-फलाओ व्व दइयाओ ॥
- 15 दट्टण तमाल-वणं देतं भमराण कुसुम-मयरंदं । उयइ विणओणयंगी भमरे परथेइ तिणिस-लया ॥ 15
- कंद-फलाइं पुरओ पासम्मि पिया महं च पुडपसु । पल्लव-सयणं सिसिरं गिम्हे विंझम्मि वाहाणं ॥
- कह कह वि णंति दियहं मज्झण्हं गाम-तरुण-जुवईओ । अवरण्ह-मज्जण-सुहं गामयलायम्मि भरिरीओ ॥
- 18 चिंतिज्जइ जो वि पियत्तणेण हियथम्मि णाम पविसेज्ज । हय-गिम्ह-सविय-देहो सो चिय तावेइ सुरयम्मि ॥ 18
- मज्झण्ह-गिम्ह-ताविय-पवणुदुय-वालुयाएँ णिवहेण । हिरिमथए वि जीवे पेच्छइ पउलेइ कह सुरो ॥
- इय मंडल-वाउली-धूलि-समुच्छलिय-जय-पढायाहिं । धवल्लुसुगाहिं जए गिम्हो ाया पइट्टविओ ॥
- जहिं च बहु-विइयणोवसेव्वओ वेसओ जइसियओ होति गाम-तरुवर-च्छायओ । किमण-दाणइं जइसइं तण्हाच्छेय-सहइं 21
- 21 ण होति गिरि-णइ-पवाहइं । पिययम-विरइ-संताव-खेइयओ पउत्थवइया-सरिसियओ होति णईओ । महापट्टु-सरीरइं 22
- जइसइं असुण-पासइं होति कुयडयडइं । गयवइयओ जइसियओ कलुण-धीरि-विरावेहिं रुयंति महाइओ । जुण्ण- 23
- 24 धरिणियओ जइसियओ बहुप्पसूयओ होति सत्तलियओ । जिणवरोवइट्ट-किरियओ जइसियओ बहुप्फलो होति सहयार 24
- कयओ सि । अवि य ।
- कुसुमाइं कोट्टिमयलं चंइण-पंको जलं जलहीया । अवरण्ह-मज्जणं महिलियाण गिम्हम्मि वावारा ॥
- 27 § १९८ ) एयारिसम्मि य गिम्ह-समए तम्मि विंझगिरि-रपणम्मि वट्टमाणस्स रायउत्तस्स का उण वेळा वट्ठिं पयत्ता । 27
- अवि य ।
- मयतण्हा-बेलविए तण्हा-वस-कायरे धुरुहुंरंते । वियरंति सावय-गणे कत्थ वि णीरं विमग्गंते ॥
- ओसरयइ ड्हणो विअ इंदाएँ दिसाएँ णोल्लिओ व्व रवी । ईसाएँ वारुणीएँ वि वट्टइ दोण्हं पि मज्झम्मि ॥ 30
- 30 एयारिसे य गिम्ह-मज्झण्ह-समए तम्मि महारण्णम्मि तण्हा-सुहा-किंलंत-सरीरो गंतुं पयत्तो । जत्थ य चिरिचिरंति थीरिओ,

~~~~~

1) P पइस नव, P हुं हुं ति वाहारन्ती निदाहइड्ढा व वणराई, J णिआह...वणसवई. 2) P om. one किं, P किं पुणइ, P मज्झण्णो, P नीलयंठ, P मंडल for मइंद, P जीहंदोलणमु. 3) P कहावेइ (for धाहावेइ) भीरीकूलेसु, P महत्तण्हाजलतरंगेसु. 4) J om. संठाइ विंझसिहरेसु, J मूलिज्जइ महाणइंसुं. 5) P किं चि for किंव. 6) J केसु उण, P गिम्हणइं, P पाणिणो for जंतुणो, P om. अवि य, P जूहइं. 7) P उच्चथली सारंगजूहइं, P सरिइहकूलेसु गामवियडकुलार् सरोवरेसु रणमहिस, J सरवरोवरेसु. 8) P कोसलउलइं, P मोरवंद्रयं ति (perhaps J too has ति) । 9) P जयंमि, P को for जो. 10) P काले खरसुंदरीओ कयसिओ, P कण्णय for कप्पर, P गुंडियाउ, J पल्लवत्थुरणओ P पल्लवत्थुरणओ. 11) P महिय, P नमिय for णिमिय. 12) P पवणतुलिया, P वियव्व for विइण, P निडालियाओ, P खेइयओ, P दइयओ वणिज्जइ विययम विरहाइल्लाय. 14) P केसुय for किंसुय, P बहुप्फलाओ. 15) P अह for उयह. 16) P कंदप्फलाइं, P जलं for महं. 17) P णेत, J सरइंओ. 18) P विय for चिय. 19) J हिरिमथएव्व जीवे, P सुरा. 20) P जमवडा, P धवल्लुसुगाहिं, J पयट्टाविओ. 21) P णोवसेवओ, P तरुवरच्छाइओ । किविण, P जइसययं तण्हाल्लेय. 22) P गितिनइं, P खेइयपउत्थ, P after नईओ repeats किविणइं जइसययं तण्हाल्लेय सहइं न होति गिरिनइं पअओ, P om. महापट्टुसरीरइं etc. to गयवइयओ. 23) P कलुणधीरिवावेहिं. 24) J धरिणीओ, P होति सत्तलियओ. 25) P लयाउ सि. 26) P वावरो. 27) P om. य, P वट्टमाणराय, P उण for उण. 29) P वसरकायरे फुरफुरंते, P वयग्गंते. 30) J ड्हणो सिय इंदाय दिसाय, P ईसा वारुणीए, J ईसा (ए added after) वारुणीअ. 31) P मज्झणसमए, P चिरिचिरंति थीरियओ अरज्जारंति अरज्जलीओ । धयधमंति.

1 सरसरैति सरलिओ, धमधमेति पवणया, हलहलेति तरुयरा, धगधगेति जलणया, करयरैति सउणया, रणरजेति 1
रणया, सरसरैति पत्तया, तडतडेति वंसया, घुरुघुरैति वग्धया, भगभगेति भासुया, सगसगेति मोरय ति । अवि य ।
3 ह्य भीसण-विंश-महावणमि भय-वज्जिओ तह वितोसो । वियरह राय-सुओ चिय हिययं अणणस्स फुट्टेजा ॥ 3
तओ रायउत्तस्स अहियं तण्हा बाहिउं पयत्ता । ण य कहिचि जलासयं दीसइ । तओ चित्तियं रायउत्तेण ।
'अच्छीसु णेय दीसइ सूसइ हिययं जगेइ मोहं च । आसंघइ मरणं चिय तण्हा तण्ह व्व पुरिसाणं ॥
6 ता सव्वहा अच्छउ गंतव्वं । इममि महारणमि जलं चिय विमग्गामि ।' इमं च चित्तैतो उवगओ मयतण्हा-वेळविज्जमाण- 6
तरल-लोयण-कडक्ख-विक्खेवो कं पि पयसंतरं । तथ य दिट्ठाइं एकमि पण्से इमिणा वण-करिवर-जूह-पयाइं । दट्टण य
ताइं चित्तियं णेण । 'अहो, इमं हत्थि-जूहं कथं वि सरवरे पाणियं पाऊण भरणे पविट्ठं ति । कहं पुण जाणीयइ ।
9 ओयरिय-कर-सलिल-सीयरोलाइं भूमि-भागाइं । अह होज्ज मय-जलोहियइं । तं च णो । जेण इहेव जाइं मय-जलोहियइं 9
ताइं भमिर-भमरउल-पक्खावली-पवण-पव्वायमाणाइं लक्खिज्जति । अहइ-कइमुपंक-चरणग-लग्ग-णिक्खेव-कलंकियाइं
दीसंति इमाइं । चंचल-करि-कलह-केली-खंडियाइं धवल-मुणाल-सामलाइं दीसंति । इमाइं च ललिय-मुद्ध-करेण-कर-
12 संवलिय-मुणालेदीवर-सरस-तामरस-गढ-कमलिणी-कवल-खंडणा-खुडियइं मयरंद-गंध-लुद्ध-मुद्दागयालि-हलबोल-रुग्गणेतइं 12
उज्जियइं च दीसंति णीलुप्पल-दल्लइं । ता अत्थि जीवियासा, होहिइ जलं ति । कयरीए उण दिसाए इमं वण-करि-जूहं
समागयं ।' णिरुवियं जाव दिट्ठं । 'अरे इमाए दिसाए इमं वण-करि-जूहं, जेणेत्य पउर-सलिल-कहम-मुणाल-विच्छड्ढो दीसइ' ति
15 चित्तयंतो पयत्तो गंतुं । अंतरेण दिट्ठं णीलुक्खेळमाण-कोमल-सिणिद्ध-कित्तलयं वणाभोगं । तं च दट्टण लद्ध-जीवियासो सुट्टुयरं 15
गंतुं पयत्तो । कमेण य हंस-सारस-कुरर-कायल-बय-बलाहय-कारंड-चक्रवायाणं णिसुओ कोलाहल-रवो । तओ 'अहो,
महंतो सरवरो' ति चित्तयंतो गंतुं पयत्तो रायउत्तो । कमेण य दिट्ठं कमल-कुवल्लय-कलहार-सयवत्त-सहस्सवत्तुप्पल-
18 मुणाल-कमलिणी-पत्त-संड-संडाइय-जलं वियरमाण-महामच्छ-पुच्छळडा-मिज्जमाण-तुंग-तरंग-संकुलं णाणा-वण-पक्खि-संव- 18
मंडिय-तीरं माणस-सरवर-सरिसं महासरवरं ति । अवि य ।

वियसंत-कुवल्लयच्छं भमरावलि-भमिर-कसण-भुमइलं । सुद्ध-दिय-चारु-हासं धयणं व सरं वण-सिरीए ॥

21 तं च दट्टण उससियं पिव हियवणं, जीवियं पिव जीविणं, पञ्चागयं पिव बुद्धीए, सव्वहा संपत्त-मणोरहो इव, संपत्त-सुविज्जो 21
विव विजाहरो, सिद्ध-किरिया-वाओ विव णरिंदो सहरिसो कुमारो उवगओ तं पणसं । तण्हा-सुक्क-कंडोट्टो ओयरिउं पयत्तो ।
तीरत्थेण य चित्तियमणेण । 'अहो, एवं आउ-सत्थेसु मए पठियं जहा किर वूसह-तण्हा-खुहा-परिस्सम-संभमायासेसु ण
24 तक्खणं पाणं वा भोयणं वा कायव्वं ति । किं कारणं । एए सत्तं वि धायवो वाउ-पित्त-सिंभादीया य दोसा तेहिं तण्हाइयाहिं 24
धेयणाहिं ताविय-सरीरस्स जंतुणो णियय-ट्टाणाइं परिच्छदय अण्णेण्णाणुवालिया विसम-ट्टाणेसु वट्ठानं । इमेसु य परिसेसु
विसमत्थेसु दोसेसु खुभिण्णु धाऊसु जइ पाणिणो आहारंति मज्जति वा, तओ ते दोसा धायवो य तंसु तंसु चय
27 पर-ट्टाणेसु थंभिया होंति । तथ संगिवाओ णाम महादोसो तक्खणं जायइ ति । तेण य सीस-व्येयणाइया महावाहि-संधाया 27
उपपज्जति । अण्णे तक्खणं चय विवज्जति । तम्हा ण मे जुज्जइ जाणमाणस्स तक्खणं मज्जिउं ।' उवविट्ठो एक्कस्स तीर-
तमाल-तरुयस्स हेट्टओ, खणंतरं च सीयल-सरवर-कमल-मयरंद-पिंजरण आसासिओ सिंसिर-पवणेणं । तओ समुट्ठिओ
30 अवइण्णो य सरवरे अवगाहिउं पयत्तो । कह । अवि य । 30

णिय-थोर-कराहय-जल-वीह-समुच्छलंत-सदेण । पूरंतो दिसि-चक्रं मज्जइ मत्तो व्व वण-हत्थी ॥

1) J जलणओ, P करयरैति. 2) P तडतडेति, P भगभगेति, P रुगुया, J मोरयं P मोरिय. 3) J विंशरइ.
4) P repeats दीसइ. 5) P भूसर for सूसइ. 6) J आगतव्वं for गंतव्वं, P विमग्गामि, P चित्तयंतो.
7) P om. तरल, P दिट्ठाइं for दिट्ठाइं, P वर for वण, P om. य. 8) P चित्तियमणेण, J जाणीयति, P जाणियइ.
9) P ओयच्छिय, J सीयरोलाइं भूमिभागाइं, P जलोहियाइं in both places. 10) P repeats ताइं, J लक्खिज्जइ, J कइमु.
P कइमुपपन्नचरणगालगं. 11) P कलकेली, J मुद्धकरेण. 12) P संवालियमुणालेदीवर, J खुडियमयरंद, P लुडियाइं, J
गंधलुद्दागयालि, P मुद्दागयालि, J रुग्गणेतइं P रुणतरुणेतइं. 13) P om. उज्जियइं च, P दल्लइताइं, P हाहिइ, P कयरीए.
14) J om. णिरुवियं, J om. इमं वणकरिजूहं, J पउम for पउर. 15) J om. गंतुं, P णीलुक्खेळमाण, J वणाभोगं, P सुट्टुतरं.
16) J कुरलकायअपयबलाहय P कुरवयकायंबलाहय, P कोलाहलवो. 17) P om. रायउत्तो, P सव्वउसहस्सरत्तुप्पल.
18) J मंड for संड, P संकुलं माणावन्नयपरक्खसंव. 19) J सरसरिसं. 20) J भमरालीभमिर कसिणभुमपिठं. 21) P
दट्टयण, P om. पिव, P हियवण, P पव for पिव, P पञ्चागयं, P विव for इव. 22) J किरिआवानो, P नरिदसरिसो, P
उवगतं, J ओयरिउं तुहत्थेण य चित्तियं णेण. 23) P om. य, P संभमायासेसु, J adds य before ण. 24) J पते P एए स
सत्त, P om. वि, J धाववो वायुमिच्छंभादिअमायदोसो तेहिं तण्हातिआहिं. 25) P परिच्छदय अण्णेण्णाणुवलिया, J 'व्वलिय विसम'.
26) J धातुमु जति P धाउस जइ, P नज्जति for मज्जति, P om. वा, J ततो, J दोसा वायवो, P om. one तंतु. 27) P
परिट्टाणेसु, J थंभिया, J सन्निवाओ, P महादोसा, J वेतणादिआ. 28) J अम्हा for तम्हा, P inter. मे & जुज्जइ, P जाणस्स,
J मज्जिज्जं, P उवविट्ठो, 29) P adds पायवस्स before हेट्टओ, J हेट्टाओ, P त for च, P सीयरकमलमयरिंद. 30) J
om. य before सरवरे. 31) J अक्कं P चक्रं.

- 1 § १९९) तं च तद्वा मज्जिऊण कुमारेण पीयं कमल-रय-रंजना-कसायं सरवर-पाणियं, आसाइयाइं च कोमल-मुणाल-
णाल-सयल्लाइं । तन्नो गय-तण्हा-भरो उत्तिण्णो सरवराओ । तन्नो तेसु य तीर-तरुवर-रुया-गुम्म-गुविलेसु पपसेसु किंवि 1
3 वण-पुप्फं फलं वा मरिगउं पयत्तो । भममाणेण य विट्ठं एकस्मि तीर-तरुण-तरु-लयाहरंतरम्मि महंतं दिव्व-जक्ख-पडिमं । 3
तं च दट्टण णिरुविउं पयत्तो कुमारो जाव सहसा दिट्ठा तेलोक्क-बंधुणो भगवओ अरहओ मउडम्मि पडिमा मुत्ता-
सेल-विणिम्मिया । तं च दट्टण हरिस-वस-वियसमाण-लोयणेण भणियं च णेण । अवि य ।
- 6 'सव्व-जय-जीव-बंधव तियसिंद-गरिंद-अच्चियच्चलण । सिद्धि-पुरि-पथ-देसिय भगवं कथेथ्य रण्णम्मि ॥'
भणमाणेण वंदिओ भगवं । वंदिऊण चित्तियं अणेण । 'अहो, अच्चरियं जं इमस्स दिव्वस्स जक्ख-रुवस्स मत्थए भगवओ
पडिमं ति । अहवा किमेत्थ अच्चरियं कायव्वमिणं दिव्वाणं पि जं भगवंता अरहंता सिरेण धारिज्जति । इमं पि अरहंति
9 भगवंता जं दिव्वेहिं पि सीसेहिं धारिज्जति ।' चित्तयंतो पुणो वि अवहण्णो कुमारो सरवरम्मि । तत्थ मज्जिऊण गहियाइं 9
कमल-कुवलय-कल्लहाराइं सरस-तामरस-पडभाराइं । ताइं च वेत्तूण गहियं णल्लिणी-दलं भरिऊण सरो-जलस्स, पहाणिओ
भगवं जिणवरिंदो, आरोवियाइं च कुसुमाइं । तन्नो थुण्डिमाडत्तो । अवि य ।
- 12 'जय सोम्म सोम्म-दंसण दंसण-परिसुद्ध सुद्ध जिय-सेस । सेस-विसेसिय-तित्थय तित्थ-समोत्थरिय-जिय-लोय ॥ 12
जिय-लोय लोय-लोयण जिय-णयण-विसट्टमाण-कंदोट्ट । कंदोट्ट-गवभ-गोरय गोरोरयण-पिंजरोरु-जुय ॥
णाह तुमं चिय सरणं तं चिय बंधू पिपया य माया य । जेण तए सासय-पुरवरस्स मग्गो पइट्टविओ ॥'
- 15 ति भणमाणो णिवडिओ भगवओ च्चलण-सुवलएसु ति । 15
§ २००) एत्थंतरम्मि उद्धाइओ महंतो कलयलो सरवरोयरम्मि । अवि य ।
उद्धाइय-वीई-हल्लिर-जल-णिवह-तुंग-अंगिल्लं । वट्टइ णहयल-हुत्तं खुहियं सहस चिय सरं तं ॥
- 18 तं च तारिसं सरवरं वलिय-वलंत-लोयणो राय-तणओ पलोइऊण चलिओ ततो हुत्तो । चित्तियं च णेण । अहो अच्चरियं, ण- 18
याणीयइ किं सरवरस्स खोहो जाओ ति । इमं च चित्तयंतस्स सरवर-जल-तरंग-फलयाओ णिगयं वयण-कमलमेकं ।
तं च केरिसं । अवि य ।
- 21 वियसंत-णयणवत्तं णासाउड-तुंग-कणिया-कलियं । दिय-किरण-वेत्सरालं मुह-कमलं उग्गयं सहसा ॥ 21
तस्साणंतरं चैय ।
उत्तुंग-थोर-चक्कल-गुरु-पीवर-वट्ट-पक्कलं सहसा । आसा-करिवर-कुंभत्थलं व थणयाण पडभारं ॥
- 24 तं च दट्टण चित्तियं कुमारेण । 'अहो किं णु इमं हवेज्ज । अवि य । 24
कमलायरस्स लच्छी होज्ज व किं किं व जक्खिणी एसा । किं वा णायकुमारी णज्ज लच्छि व्व रण्णस्स ॥'
इय चित्तंतस्स य से कुमारस्स णिग्गयं सयलं सरियं । तीय य मग्गालग्गा दिव्व-सरस-सरोरुहाणा कुसुम-सणाह-पडलय-विहत्था
- 27 कणव-भिंजार-वावड-दाहिण-हत्था य खुज्जा समुग्गया सरवराओ । ताओ दट्टण चित्तियं कुमारेण । 'अहो, णिस्संसयं दिव्वाओ 27
इमाओ, ण उण जाणीयइ कण कारणेण इहागयाओ' ति चित्तयंतस्स वलियाओ कुमार-संमुहं । तं च दट्टण चित्तियं णेण ।
अहो वलियाओ इमाओ । ता कयाइ ममं दट्टण इत्थि-भाव-सुलहेण सज्जसेण अण्णत्तो पाविहिंति । ता इमाए चैव दिव्व-
- 30 जक्ख-पडिमाए पिट्टओ णिलुक्क-देहो इमाण वावारं उइक्खामि ति णिलुक्को पडिमाए पट्टि-भाए, पलोइउं च पयत्तो जाव 30
समागयाओ दिव्व-पडिमाए समीवं । दिट्टो य भगवं दूरओ चिय सरस-सरोरुह-माला-परियरिओ । तं च दट्टण भणियं तीए
'हला हला खुज्जिए, अज्ज केणावि भगवं उसहणाहो पूहओ कमल-मालाहिं' । तीए भणियं 'सामिणि, आमं' ति । 'ण-

1 > J रंजणे, J पाणिआइं, J य for च. 2 > P तन्हामारो, J तरुवर, P लयाउपुंम. 3 > P भणमाणे य, P तरुणलयाहरंमि.
4 > P om. कुमारो, J adds सयल before तेलोक्क. 5 > P विणिम्मिया, P विसमाण. 6 > J भव्व for सव्व, J चलणा
P चलण, P पथं, P मयवं पणमामि तुह चलणे ॥ 7 > P om. भणमाणेण वंदिओ भगवं, J चित्तियं णेण, P चित्तियमणेण, P कुं for
जं, P भगवंतो. 8 > J अरहंतो, P om. इमं पि अरहंति e'c. to धारिज्जति. 9 > J om. पुणो वि, P om. कुमारो. 10 > P कल्लहाराइं
च सरसरसतामरस, P कमलिणी for णल्लिणी, P सरसं जरलस्स. 11 > J तन्नो for च. 12 > P जय सोम सोमनंदन परिसुद्धविमुद्ध-
मुद्धजयसेस । विसेसविसेसय. 13 > P जयलोयडलोयलोयणजयणयण, J कंदोट्टा, J जुआ ॥ 14 > P जं for तं, P माया या ।
15 > J पडिओ for णिवडिओ, P om. भगवओ, P जुमलेसु. 16 > P उद्धाइओ, J सरवरंमि. 17 > J उ १०(?) द्वाइय P
उद्धाइय, P खुहियं सव्वं चिय. 18 > J adds ति । अ before वलिय, P om वलिय, J अच्चरियं ण याणीयति P अच्चरियं न याणइ.
19 > P कमलं एकं. 20 > P om. अवि य. 21 > P पत्तं for वत्तं. 23 > J वट्टवक्कलं. 24 > J P कण्ण for किं णु
(emended), P किं न महवेज्जा, J om. अवि य. 25 > J किअ for किं. 26 > P चित्तयंतस्स, P मग्गालग्गा, J सर for
सरस, J पड(इ)य विहत्था. 27 > J ते य for ताओ, P निस्संसियं, J दिव्वाइओमाओ. 28 > J जाणीयति कण, P चित्तियमणेण,
29 > P मं for ममं, P भावसुलहेण, P अण्णहो for अण्णत्तो, J इमे for इमाए, P इव्वजक्खं पडिमाउ पिट्टिओ. 30 > J om. जक्ख,
J repeats पडिमाए, P उइक्खामि, P पलोएउं. 31 > J adds ता तो before दिव्व, J सर for सरस, P परिआरिओ. 32 >
P भगवं तियसनाहो, J तीय.

- १ याणीयह केण उण पृहो भगवं' ति । तीए भणियं ' सयल-तेलोक्क-वंदिय-वंदणिज्ज-चलण-कमलाणं पि भगवंताणं एवं भणीयह 1
केण वि पृहो ति । किमेत्य वणाभोए ण विचरंति जक्खा, ण परिसकंति रक्खसा, ण चिट्ठंति भूया, ण परिभमंति पिसावा, 1
३ ण गार्थंति किंणरा, ण वसंति किंपुरिसा, ण पावंति महोरगा, ण उवपंति विजाहरा, जेण भगवओ वि पूया पुच्छियह' छि 3
भणमाणी उवगया पडिमाए सगासं । भणियं च तीए ' हला खुज्जिए, जहा एसा पय-पडई तहा जाणामि ण केणह देवेष
अच्छिओ भगवं, किंतु माणुसेण । खुजाए भणियं ' सामिणि, परिसकंति एत्य वणे बहवे सबरा पुलिंदा य' । तीए भणियं 3
४ 'मा एवं भण । पेच्छ पेच्छ, इमं पि सहिण-वालुया-पुलिणोयर-णिहित्त-चलण-पडिबिंबं सुणिरुविय-प्पमाणं पमाण-चडिय- 6
गुट्टयं अंगुट्टाणुरुव-रुहिरंगुलीयं अंगुली-बद्ध-पमाण-पडिबिंबं । तहा जाणिमो कस्स वि महापुरिसस्स इमं चलण-पडिबिंबं ।
अवि य ।
- ९ वर-पउम-संख-सोत्थिय-चकंकुस-छत्त-तोरणुकिणं । जह दीसह पडिबिंबं तह णूण इमो महापुरिसो ॥' 9
§ २०१) इमं च भणमाणी संपत्ता भगवओ सयासं, णमोक्कारिओ भगवं तीए । 'अणुजाणह' ति भणमाणीए
सविणयमवणीओ कमल-पडभारो भगवओ सिराओ । णहाविओ भगवं णियएणं कणय-भिगार-गंधोयएणं । पुणो वि रइया 12
१२ पूया कोमल-विउल-दल-कणय-कमल-मयरंद-णीसंद-विंदु-संदोह-पसरंत-लुद्ध-मुद्धागयालि-माला-वल्लय-हलबोल-प्रमाण-दिसि- 12
यकेहिं दिव्वेहिं जल-थलय-कुसुमेहिं । तं च काउण णिभर-भत्ति-भरोणय-वयण-कमला थुणित्तमाडत्ता । अवि य ।
'जय ससुरासुर-किंणर-णर-णारी-संघ-संधुया भगवं । जय पढम-धम्म-देसिय सिय-आणुप्पण-णाणवरा ॥
- १५ जय पढम-पुरिस पुरिसिंद-विंद-णागिंद-वंदियच्चलणा । जय मंदरगिरि-गरुयायर-गुरु-तव-चरण-दिण्ण-विण्णाणा ॥ 15
णाह तुमं चिय सरणं तं णाहो बंधवो वि तं चेव । दंसण-णाण-समग्गो सिव-मग्गो देसिओ जेण ॥'
एवं च शोउण णिवडिया चलणेसु । समुट्टिया य गाइउं समाडत्ता इमं दुवई-खंडलयं । अवि य ।
- १८ सुरपति-मुकुट-कोटि-तट-विघटित-कोमल-पल्लवारुणं सललित्त-युवति-नमित्त-सुरपादप-निपतित्त-कुसुम-रञ्जितम् । 18
अभिनव-विकसमान-जलजामल-दल-लावण्य-मण्डितं प्रथम-जिन-चरण-युगलमिदं नमत गुरुतर-भव-भय-हरम् ॥
इमं च लय-ताल-सर-वत्तणी-मुच्छणा-मणहरं गिज्जमाणं णिसामिउण गेय-अक्खित्त-माणसस्स पग्गुट्टं अत्ताणयं कुमारस्स ।
- २१ तओ रहसेण भणियं । 'अहो गीयं, अहो गीयं, भण भण, किं दिज्जउ' ति भणमाणो पयडीभूओ । तओ तं च तारिसं 21
असंभावणीयं मणुय-जम्म-रूय-सोहा-संपयं दट्टण ससंभमं अबुट्टिओ कुमारो जक्ख-कणगाए । कुमारेण वि साहम्मिय-
वच्छलत्तणं भावयंतेण पढमं चिय वंदिया । तीय वि ससज्जस-लज्जा-भओक्कप-वेवमाण-थणहराए सविणयं भणियं ' सागयं 24
२४ साहम्मियस्स, एहि, इमं पल्लवधुरणं पविन्तीकरेसु अत्तणो सरिर-फंसेण' ति । कुमारो वि सायरं णिसण्णो पल्लवधुरणे । 24
तओ तीए य तम्मि कालंतरम्मि को उण वियप्प-विसेसो हियए वट्टए । अवि य ।
किं मयणो चिय रूवी किं वा होज्जा णु कप्पवासि-सुरो । विजाहरो व्व एसो गंधवो चक्कवट्टी वा ॥
- २७ इमं च चित्तयंतीए भणिओ कुमारो । देव, ण-याणामि अहं, मा कुप्पसु मह इय भण्णीए 'को सि तुमं, कथ व पत्थिओ 27
सि, कम्हाओ आगओ तं सि' । तओ ईसि-वियसिय-दसणप्पभा-विभिज्जमाणाहरं संलत्तं कुमारेण । अवि य ।
'सुंदरि अहं मणुस्सो कज्जत्थी दक्खिणावहं चलिओ । आओ मिह अबोज्जाओ एस फुडो मज्ज परमत्थो ॥
- ३० एयम्मि महारणे कथ तुमं कथ वा इमो जक्खो । केणं व कारणेण इमस्स सीसम्मि जिण-पडिमा ॥ 30
एयं महं महंतं हिययम्मि कुऊहलं चुल्लुलेइ । ता सुयणु साह सव्वं एत्तियमेत्तं महं कुणसु ॥'
इमं च कुमारेण भणियं णिसामिउण ईसि विहसिउण भणियं इमीए ।
- ३३ जइ सुंदर अत्थि कुऊहलं पि ता सुणसु सुंदरं भणियं । रणम्मि जिणस्स जहा जक्खस्स य होइ उप्पत्ती ॥ 33

१ > P केणह for केण उण, J तीय, P om. वि. २ > P om. केण वि, P परिभमंति. ३ > P महोरगा, P पुच्छियह.
४ > J 'माणीओ उवगयाओ, P om. पडिमाए, P पडती. ५ > J om. वणे, P बद्धहवे for बहवे, J तीय, P मणह. ६ > JP
मि for पि (emended), P मुहिणवालुया पुणिलोयर, P सुनिरुवियप्पमाणप्रच्छियंगुट्टाणुरुवरइयं रंगुलीयं अंगुलियं अंगुलीबद्धमाण.
७ > J विणिद्ध for बद्ध. ९ > P पउमचकसत्थिय, J तोरणाक्खिअले (?). १० > P सगासं, J 'माणीय सविणयं अवणीयओ. ११ > P
सिहराओ णहाणिओ. १२ > P कोमलदलवियलदल, P कोमल for कमल, J संदोहं. १३ > J om. दिव्वेहिं. १४ > P धम्मदेसयं,
P नियज्जाणु. १५ > J पुरिसिंदचलणा इदवंदियचलना, P गुरुयारिगुरुयतव, J गरुआयरअतवचरणदिण्णाण. १६ > P om. वि,
P तुमं for तं, P विसुद्धो for समग्गो. १७ > P om. च, P ओ for य, P गाइओ पयत्ता इमं, J adds च after इमं, P
अक्खित्तियं for दुवईखंडलयं. १८ > J मुकुट, P सुरपति for सललित्त, J युवति, J पादपरैणुरजोपरंजितं. १९ > P जलजामल-
रेणुरजोपरंजितं प्रथम, J लावण्य for लावण्य, P adds कमल after चरण, P om. गुरुतर, JP -हरं. २० > P वत्तणाण-
हरणिज्ज, P गेयक्खित्त. २१ > P रहासेण, J om. first गीयं, P दीयत्त ति, J पायडीभूओ. २२ > J adds तीए before
जक्ख, P कणगाए. २३ > J महउक्कप P तओक्कप, P सावयं for सागयं. २४ > J पल्लववत्थरणं, P पल्लवत्थरणं, P पल्लवधुरणो.
२५ > J तीअ य P तीय तम्मि, P उय for उण. २६ > P कि वीहोज्जा. २७ > J चित्तयंतीय, P मज्ज for मह, J इमं for इय
J व for सि (after को). २८ > P सि कत्तो हुयाओ सि, P भाविज्जमाणाहरं. २९ > J आलम्मि. ३० > P केणे for
केणं. ३१ > J कुऊहलं, P परिप्फुरइ for चुल्लुलेइ. ३२ > P भणियमिमीए. ३३ > J कुऊहलं मि ता सुअणु सुंदरं.

1 § २०२) अथि इममि खेय पुहइ-मंडले कणयमय-तुंग-तोरणांकिया पिहुल-गोडर-पायार-सिहर-रेहिरा मायंदी 1
गाम णयरि ति । जहिं च तुंगइ कुलउत्तय-कुलइ देवउलइ व, विमलइ सुपुरिस-चरियइ धवलहरइ व, सिणेह-गिरंतरओ
3 बीहिओ सज्जण-पीडओ व, गंभीर-सहावओ परिहओ धरिणिओ व, रयण-रेहिरओ पायार-गोडर-भित्तिओ विलासिणिओ व 8
ति । अवि य ।

वियरंत-कामिणीयण-गेडर-कल-राव-बहिरिय-दियंता । देवाण वि रमणिजा मायंदी गाम णयरि ति ॥

6 ता कुमार, तीय च महाणयरीए अणेय-गरवइ-सय-सहस्सुच्छलंत-हलहलारावाए अथि जण्णयत्तो गाम सोत्तिय-बंभणो । 6
सो य केरिसो । अवि य ।

कसिणो दुब्बल-वेहो खर-फरुसो रुक्ख-पंडर-सरीरो । दीसंत-धमणि-जालो जम्म-दरिहो तहिं वसइ ॥

9 तस्स य बंभणो धम्म-धरिणी । सा उण केरिसा । अवि य । 9

पोट्टिमि थणा जीए पोट्टिमि ऊरु-अब्भासं । एकं णित्थामं चिय बीयं पुण फुल्लियं णयणं ॥

तीय य साविती-गामाए बंभणीए तेण जण्ण-सामिणा जायाइ तेरस डिंभरुवाइ । ताणं च मज्जे पच्छिमस्स जण्णसोमो
12 ति गामे । तस्स जाय-मेत्तस्स चैव समागया अहमा बीसिया । तथ य काल-जुत्तो संबच्छरो । तेण य बारस-वासाइं 12
अणावुट्टी कया । तीय य अणावुट्टीए ण जायंति ओसहीओ, ण फलेंति पायवा, ण णिप्पज्जए सस्सं, ण परोहंति तणाइं ।
केवलं पुण वासारते वि धमधमायए पवणो, णिवडंति पंसु-बुट्टीओ, कंपए मेहणी, गजंति धरणिधरा, सुव्वंति णिग्घाया,
16 णिवडंति उक्काओ, पलिप्पंति दिसाओ, बारह-दिवायर-कक्कसो णिवडइ सुम्मुरंगार-सरिसो निमहो ति । एवं च उप्पाएसु 15
पसरमाणेसु किं जायं । अवि य ।

उव्वसिय-गाम-ठाणं ठाणं मुह-करयरेत-विसर-मुहं । विसर-मुह-बद्ध-मंडलि-मंडलि-हुंकार-भय-जणयं ॥

18 परिसं च तं पुहइ-मंडलं जायं । अह णयरीओ उण केरिसा जाया । 18

खर-पवणुदुय-ताडिय-धवल-धया-खंड-वंस-वाहाहिं । उट्टीकयाहिं घोसइ अद्धं भलं व दीहाहिं ॥

तओ एवं अणुप्पज्जमाणेसु ओसहीसु खीयमाणेसु पुव्व-गहियासु अपूरमाणेसु उयरेसु किं जायं । अवि य । ण कीरंति
21 देवच्चणइं, वियलंति अतिहि-सक्कारइं, विसंवयंति बंभण-पूयाओ, विहडंति गुरुयण-संमाणइं, परिवडंति पणइयण-दाणइं, 21
वियलंति लज्जियव्वयइं, पमाइजंति पोरुसियइं, अवमणिजंति दक्खिण्णइं ति । अवि य ।

वोलीण-लोय-मग्गा अगणिय-लज्जा पणट्ट-गुरु-वयणा । तरुणि व्व राय-रत्ता जाया कालेण मायंदी ॥

24 उज्झय-अवसेस-कहा अणुदियहं भत्त-मेत्त-वावारा । जीए णरा महिला वि य पमोय-रहिया सुदीणा य ॥ 24
किं होज्ज मसाणमिणं किं वा पेयाण होज्ज आवातो । किं जम-पुरि ति लोए किं जं तं सुव्वए णरयं ॥

एवं च हा-हा-रवीभूए सयल-जणवए पोट्ट-विवरं-पूरणा-कायरे खयं गएसु महंत-महापुरिस-कुलउत्तय-धणिय-सेट्टी-कुलेसु सो
27 बंभणो जण्णसामीओ भूए-भुवस्स-मेत्त-वज्जो जाओ जायुणा-मेत्त-वावारे भिक्खा-विती, तं च अलहमाणो खयं गओ सकु- 27
हुंओ । केवलं जो सो बंभणो सोमो सव्व-कणिट्टो पुत्तो सो कहं कहं पि आउ-सेसत्तणेण अकय-बंभणक्कारो अबद्ध-सुज-मेहलो
छुहा-भरुच्छण-सयल-बंधु-वगो कहिंचि विवणि-मग्ग-णिवडिय-धण्ण-कणेहिं कहिंचि बलि-भोषण-विण्ण-पिंढी-पयाणेहिं
30 कहिंचि बालो ति अणुकंपाविणं कहिंचि बंभण-डिंभो ति ण ताडिओ कहिंचि उच्चिट्ट-मल्लय-संलिहणेणं कहं कहं पि तं 30
तारिसं महा-दुक्काल-कंतारं अइकंतो । ताव य गह-गईए णिवडियं जलं, जायाओ ओसहीओ, पसुइओ जणो, पयसाइं

1 > P तोरणांकिया पिउहुल. 2 > P °उत्तइं कुलयं, JP च for व in both places, P निरंतरोओ. 3 > P पीईओ इव,
P परिहाओ धरिणीओ, P भित्तिओ विलासिणीओ, P om. व. 4 > P om. अवि य. 5 > P कलवरा-. 6 > P जयणयत्तो.
7 > P om. अवि य. 8 > P फरुसो. 10 > J विदिअं for बीयं, P फुल्लियं for फुल्लियं. 11 > P om. य, P साविती-, J (उ)
ओरस for तेरस. 12 > P adds व before जाय, J चैव, P अहववीसिया. 13 > P निप्पज्जए, J ण य रोहंति. 14 >
J धमधमायाए, P धमधमायइ, P वेसु for पंसु. 15 > P पलिप्पति रसाओ, J adds य after कक्कसो, J णितडए for णिवडइ.
17 > P उप्पुसियगामट्ठाणं ट्ठाणं, P करयरेत, P विसर (for विसर) in both places, J मण्डलहुंकार. 18 > P नयरं उण. 19 >
P पवणुदुयतोडिय, J धयखण्ड, P धुयारखंड, P उट्टीकयाहिं, J उट्टीकयाविघोसइ, J अद्धंभणं व P अद्धं भलं व दीहाइं. 20 >
J उवएसु P उयरेहिं. 21 > P तिहिं for अतिहि, J बंभणभूअओ, P गुरुयसम्माणइं. 22 > J फरुसिअं P पोरुसइं. 23 > P
अवणियलज्जा, P रायउत्ती, P मायंदा. 24 > P नीसेस for अवसेस, P वावारो, J जीअ, J या ॥. 25 > J मसाणमिणं, P पुरिस
for पुरि. 26 > P om. च, P सयले, P विवरपूरणा कायरेसु खयंगएसु, J सेट्टिउलेसु. 27 > P जद्धत्तो भूह, J भूरुभुअस्स,
P om. मेत्तवज्जो जाओ । जायणा, P भिक्खविती, P सकुटुंओ. 28 > J बंभसोमो, J बंभणो सक्कारो. 29 > P om. कहिंचि
विवणि eto. to कणेहिं. 30 > P बंभणो ति न ताडिन ताडिओ. J उच्चिट्टामल्लसंलिहणेणं, P कहं कहिं पि, J om. तं.
31 > P दुक्काल, P गहवईए, P पयसाइं for पयसाइं.

- 1 ऊसबाई, परिहरियाई लज्जणाई, उप्फुसियाई च विणयाइद्दाई । इमम्मि य एरिसे काले सो बंभणो सोम-बहुओ थोवूण- 1
सोखस-वरिसो जाओ । अवि य ।
- 3 सोहेइ वच्च-घरए उज्जह उच्चिट्ट-भल्लय-णिहाए । लोएण उवहसिज्जह किर एसो बंभणो आसि ॥ 3
§ २०३) तओ एवं उवहसिज्जंतस्स जणेणं णिदिज्जमाणस्स खिसिज्जमाणस्स जोव्वण-वास-वट्टमाणस्स एरिसो चित्ते
वियप्पो जाओ । अवि य । अहो,
- 6 धम्मो अत्थो कामो जसो य लोयम्मि होति पुरिसत्था । चत्तारि तिण्णिण दोग्गिण व एक्को वा कस्सइ जणस्स ॥ 6
ता ताण ताव धम्मो कूरेणं चैय मज्झ बोलीणो । अगणिय-कजाकजो गम्मागम्मफलो जेण ॥
अत्थो वि वूरओ च्चिय णत्थि महं सुणय-सउण-सरिसस्स । दुप्परोयर-भरणेक्क-कायरो जेण तहियहं ॥
- 9 कामो वि वूरओ च्चिय परिहरइ य मह ण एत्थ संदेहो । सयल-जण-णिदिओ मंगुलो य विट्ठो य भीसणओ ॥ 9
अह च्चित्तेमि जसो मे तत्थ वि जय-पेह्णिएण अयसेण । णिय-जोणी-करयंतय-टाणं पिव णिम्मिओ अहयं ॥
ता हो चिरत्थु मज्झं इमिणा जीएण दुक्ख-पउरेण । जण-णिवह-णिदणा-लुहुइएण एवं असारेण ॥
- 12 ता किं परिचय्यामि जीवियं, अहवा ण जुत्तं इमं, ण य काऊण तीरइ दुक्कं खु एयं । ता इमं पुण पत्त-कालं । अवि य । 12
धण-माण-विप्पमुक्का मुणिय-परद्धा जणम्मि जे पुरिसा । ताण सरणं विएसो वणं व लोए ण संदेहो ॥
ता सब्बहा विएसो मम सरणं ति च्चित्तयंतो णिग्गओ तक्खणं चैय मायंदी-पुरवरीए । चलिओ य दक्खिण-पच्छिमं
- 15 दिसाभोयं । तओ कमेण य अणवरय-पयाणएहिं कुच्छि-मेत्त-संबलो अकिंचणो भिक्खा-वित्ती महा-मुणिवरो विय वच्चमाणो 15
संपत्तो विंझ-सिहर-पेरंत-पइट्ठियं महाविंझाडई । जा उण कइसिया । उद्दाम-रत्त-पीय-लोहिय-मुह-महापलास-संकुला, चाणर-
बुक्कार-राव-वियंभमाण-भीसणा, देवेहिं अलंघिय-पायवा, बहु-मय-सय-खज्जमाण-मयवइ-आउल-तुंग-साकालंकिया, सप्पायार-
- 18 सिहर-दुल्लंघा य लंकाउरि-जइसिया । जीए अणेयइ भीसणइं सावय-कुलइं जाह णामइं वि ण णज्जति । तम्मि य महाइइय 18
मज्झम्मि सो बंभणो जण्णसोमो एगाईं गंतुं पयत्तो । तम्मि य वच्चमाणस्स को उण कालो वट्ठिउं पयत्तो । अवि य ।
धम-धम-धमंत-पवणो सल-हल-हीरंत-सुक्क-पत्तालो । धग-धग-धगंत-जलणो सिलि-सिलि-णव-पल्लवु-भेओ ॥
- 21 बहुसो मय-तण्हा-पाणिएण वेयारियं महिस-जूहं । उप्पल-मुणाल-रहिए सरम्मि णवि पाणियं पियइ ॥ 21
जत्थ पहियाण सत्थो पासत्थो दुसह-गिग्ग-मज्जणहे । अवरणहे वि ण मुंचइ तोय-पवा-मंडवं सिमिरं ॥
सयल-जण-काम्मणिज्जं कलस-थणाभोय-दिण्ण-सोहग्गं । दट्टण पवं पहिया दइयं पिव णिव्बुया होति ॥
- 24 तओ तम्मि तारिसे सयल-जय-अंतु-संताव-कारए गिग्ग-मज्जणह-समए सो बंभसोमो तम्मि भीमे वणंतराले वट्टमाणो 24
छुहा-खाम-वयणोयरो पणट्ट-मग्गो दिसा-विमूढो सिंघ-वग्घ-भय-वेविरो तण्हाए वाहिउं पयत्तो । तओ च्चित्तियं तेण । 'अहो
महंती मह तण्हा, ता कत्थ उण पाणियं पावेयव्वं' ति च्चित्तयंतो मग्गिउं पयत्तो जाव विट्ठो एक्कम्मि पएसे बहल-पत्तल-
- 27 सिणिद्धो महंतो वणाभोओ । चलिओ य तहिसं जाव णिसुओ हंस-सारस-चक्काथाणं महंतो कोलाहलो । तं च सोऊण ऊस- 27
सियं पिव हियएणं जीवियं पिव जीविएणं अहिय-जाय-हरिसो तओ संपत्तो तं पणुसं, दिट्ठं च तेण सरवरं । तं च केरिसं ।
अवि य ।
- 30 वियसंत-कुवलउप्पल-परिमल-संमिलिय-भमिर-भमरउलं । भमरउल-बहल-हलबोल-वाउलिज्जंत-सयवत्तं ॥ 30
सयवत्त-पत्त-णिक्खित्त-पुंजइज्जंत-कंत-मयरंदं । मयरंद-चंद-णीसंद-मिलिय-महु-बिंदु-बोगिल्लं ॥
§ २०४) तओ कुमार, सो बंभ-सोमो ता एरिसं दट्टण महासरवरं पत्तं जं पावियव्वं ति ओइण्णो मज्जिओ
- 33 जहिच्छं, पीयं पाणियं, आसाइयाइं मुणाल-खंडाई । उत्तिण्णो सरं । उववणम्मि छुहा-भर-किलंतो य मग्गिउं पयत्तो 33

1 > P उप्फुसियाई च चैयणाई, P om. य, J बंभसोम, P om. थोवूण. 3 > P वचहरय. 4 > P जणेणं निव-
डिज्जमाणस्स जोव्वण, J जोव्वणवसट्टमाणस्स. 5 > P om. अहो. 6 > P मोक्खो for जसो, P य for व.
7 > P फलो. 8 > P नहि for णत्थि. 9 > J परिहरइ च्चि णत्थि संदेहो, P मर for मह, P वि for य.
10 > P विजस for वि जय, P करकट्टयथाणु. 11 > J हे for हो, J जीवेण. 12 > J om. य, P पुत्तकालं,
13 > J अणिय for मुणिय. 14 > J णिकवओ. 15 > P दिसाभाय, P अणवरयपयाणएहिं, J कुच्छी-. 16 > J adds अवि य
before उद्दाम. 17 > J पुक्कार for बुक्कार, P वियज्जमाणभासणा, J पयावा for पायवा, P आउल तुंगमाला, P सपायार. 18 >
J लंकाउरिसजइसिय जीअ य अणेय भीसणइं, P सावणयं जाह, P महाइइमज्जंमि. 19 > J सो वम्हसोमो, P एक्कावी. 20 > P om.
om धम, P सिलेंतनव. 21 > P नय for णवि. 22 > P पासंतो for पासत्थो, J धोअ for तोय. 24 > J कारये, J वट्टमाणे
P वट्टमाणा. 26 > P महा तण्हा, P om. ति, P पत्तसिणिद्धो. 27 > J तं दिसं, P हंसं, P om. ऊससियं to जीविविएणं.
28 > J om. अहियजायइरिसो, P om. तओ, P पत्तो for संपत्तो. 29 > P adds, after अवि य, वियसंतकुवलउप्पल-
परिमलसंदिट्ठं च तेण सरवरं । तं च केरिसं । अवि य and then again वियसंत etc. 30 > J कुवलउप्पल, P सयपत्तं.
31 > J बहु for महु, P बोगिल्लं. 32 > P -सोमो तारिसं, P मज्जिउं. 33 > P पीयपाणियं, J आसाइअइं, J तडवडम्मि for
सरं । उववणम्मि, P उववणं.

1 फलाहं । परिभ्रमंतेण कथ्यहं अत्रे कथ्यहं अंबाहणं कथ्यहं पारंगे कथ्यहं फणसे कथ्यहं पिंढीरए सि पाविए । तेहिं य कय- 1
दुप्पूरोयर-भरणो विहरिउं पयत्तो तम्मि तड-काणणम्मि । तत्थ य रायउत्त, परिभ्रममाणेण दिट्ठं एक्कम्मि पप्से चंदण-
3 चंदण-लया-एला-लवंग-लयाहरयं । तं च दट्टण उप्पण्ण-कोउओ तहिं चेय पविट्ठो जाव तत्थ दिट्ठा तेण मुत्ता-सेल- 3
विणिम्मिया भगवओ सुरासुरिंद-कय-शयाभिसेयस्स पढम-जिणवरस्स पढिमा । तं च दट्टण तस्स तहा-भविद्यच्चयाए
भगवओ य सोम्म-दंसण-प्यभावेण गिय-कम्मणं खओवसमेणं तम्मि चेय जिण-विंवे बहुमाणो जाओ । चित्तियं च गेण
6 'अहो, दिट्ठं मए मायंदीए एरिसं इमं किंपि देवयं ति । ता जुत्तं इमस्स भगवओ पणामं काउं जे, ता करेमि । धम्मो किर 6
हवह' । चित्तिऊण भणियमिणिणा । अवि य ।

'भगवं जं तुह णामं चरियं व गुणा कुलं व सीलं वा । एयं ण-याणिमो च्चिय कहं गु थुइं तुज्ज काहामो ॥

9 ता तुह दंसण-तुट्ठो णमामि एमेय भत्ति-भर-जुत्तो । तं किं पि होउ मज्झं जं तुह चळणच्चणे होइ ॥' 9
चित्तयंतो णिवड्ढिओ भगवओ पाएसु । पाय-पडणुट्ठिएण चित्तियं गेण । 'अहो, रम्मो वणाभोओ, मणहरो सरवरो, रेहिं
लयाहरयं, फलिया पायवा, सोमो य एस देवो ति । ता मए वि वूसह-दारिहावमाणणा-कलंक-दूसियप्पणा विएसं गंतूण
12 पुणो वि पर-पेसणे कायव्वं । का अण्णा गइं अम्हारिसाणं अकय-पुव्व-तवाणं ति । अवि य । 12

दूरगओ वि ण मुच्चइ एत्तिय पुरिसो सपुव्व-कम्माण । जह रोहणम्मि वच्चइ दारिहं भग्ग-रहियस्स ॥

ता सव्वहा णत्थि पुव्व-विहियस्स णासो ति । ता वरं इह च्चिय विमल-गंभीर-धीर-जले सज्जण-हियए च्च मज्जमाणो इमाहं 15
च जल-थलय-विष्व-कुचलय-कलहार-कुसुमाहं घेत्तूणं इमं किं पि देवयं अच्चयंतो कय-कुसुम-फलाहारो, सारंग-विहंग-कय- 15
संगो, अणिवारिय-वण-प्ययारो, अकारण-कुवियाइं खलयण-मुह-दंसणाइं परिहरंतो, सुहं-सुहेण वण-तावसो विव किं ण
चित्तामि' ति चित्तयंतस्स इमं चेय हियए पइट्ठियं । ततो अच्छिउं पयत्तो । कय-ण्हाण-कम्म-वावारो भगवओ उसभ-सामिस्स
18 कय-कुसुमच्चणो इमं च णं पढमाणो ति । अवि य । 18

भगवं ण-याणिमो च्चिय तुम्ह गुणा जेण संथयं करिमो । तं किं पि होउ मज्झं जं तुह-चळणच्चणे होइ ॥

भणमाणो कय-कुसुम-फलाहारो अच्छिउं पयत्तो । एवं च अच्छमाणस्स वच्चए काळे । कालंतरेण य बहु-पुप्फ-फल-कयाहार- 21
किरियस्स पोट्ट-सूल-रूवी उवट्ठिओ सव्व-जग-जंतु-साहारणो मच्चू । अवि य । 21

जइ पइसइ पायाळं अइइं व गिरिं तरुं समुदं वा । तह वि ण लुक्कइ लोओ दरिय-महामच्चु-कंसरिणो ॥

तओ कुमार, सो वराओ तत्थ ताए पोट्ट-सूल-वियणाए धणियं बाहिउं पयत्तो । तओ तेण णायं णत्थि मे जीवियास ति 24
मण्णमाणो णिवण्णो भगवओ पुरओ । तत्थ तओ गुरु-वियणायल्लो णीसहो भगवओ उसभ-सामिस्स मुह-पंकयं गियच्छंतो 24
भणिउं पयत्तो । अवि य ।

भगवं ण-याणिमो च्चिय तुज्ज गुणे पाव-पसर-सूढप्पा । जं होइ तुज्ज पणयाण होउ मज्झं पि तं चेय ॥

27 ति भणमाणो भगवओ पायवडिओ च्चय गियय-जीविण परिचत्तो । 27

§ २०५) तओ कुमार, तत्तो य सो मरिऊण कथ्य गओ । अवि य । अत्थि रयणप्पभाए पुढवीए पढमे जोयण-

सहस्से वंतराणं भवणो, तत्थ य अट्ठ णिगाया होंति । तं जहा । जक्खा रक्खसा भूया पिसाया किंणरा किंपुरिसा महोरगा 30
गंधव्व ति । तत्थ पढमिल्लए णिगाए जक्खाणं मज्जे महिद्धिओ जक्ख-राया समुप्पण्णो । तस्स य रयणसेहरो णामं । तत्थ 30
समुप्पण्णेण गियच्छियं तेण । 'अहो, महंतो रिद्धि-समुदओ मए पाविओ । ता केण उण तवेण वा दाणेण वा सीलेण वा एस
मए पाविओ' ति चित्तयंतस्स झत्ति ओहि-वर-णाणं पसरियं । तेण य णाणेण णिरुवियं जाव पेच्छइ तम्मि वणाभोए
33 सरवरस्स तीरम्मि लयाहरए भगवओ उसभ-सामिस्स पुरओ गिय-देहं उज्झिय-जीवियं ति । तं च दट्टण चित्तियं । 33

1 > J om. अवे कथ्यह, P अंबोडर, J कथ्यवि पारंगे, P पावाए. 2 > P om. तड; J चंदवंदण. 3 > P om. चंदण, P om.

लया, P om. च, P कोओ for कोउओ, P तम्मि for तहिं, P transposes तत्थ after तेण, P दिट्ठो. 4 > J पढिमं ति. 5 >

P सोमदंसणत्तणेण, J खओव, P adds च असुहकम्मणं before तम्मि, P चित्तियं तेण. 6 > J एमं for इमं, J काउं । दे (for जे),

P किर अवह. 7 > J भणियं इमिणा. 10 > P om. णिवड्ढिओ, J पायवडणुं, P वणो भोओ. 11 > P पयावा for

पायवा, P दारिहवमां, P दूसियप्पण. 12 > P om. वि after पुणो, P repeats कायव्वं, J कायण्णा. 13 > J मुच्चइ पत्तिग,

P कंमोहं । P भाग for भग्ग. 14 > J ताव परं for ता वरं, J इह च्चय, P विमलं, P इमाणं च. 15 > P repeats विहंग, P विहं,

कायसंगो अणवारिय. 16 > J om. वण, J विअ किं. 17 > J तओ for तत्तो, P ओसहसामिस्स. 18 > J looks like

इमण्व, P om. इमं च णं पढमाणो ति. 19 > J तुज्ज for तुम्ह, P ते for तं, P होउ ॥. 20 > P कालंतरेण, J फलाहार-

किरियस्स, P कयाहारो. 21 > J जय for जग. 22 > P गिरितरुं. 24 > P om. णिवण्णो, P भवओ for भगवओ, P तत्थ

for तओ, P वियणाइल्लो. 26 > J गुणा. 27 > P नियजीविण परिचत्तो. 29 > J सए for सहस्से, P अट्ठ निकाया,

P किंपुरिसा. 30 > P निक्काए, J adds य after तत्थ. 31 > P adds यbefore गियच्छियं, J समुदयो, J om. ता-

32 > P उज्झति, J adds गेण before जाव. 33 > P उसहयं, P पुरओ उज्झियदेहं निययजीवियं.

१ 'अहो इमस्स भगवओ पभावेण मए एयं पावियं' ति । 'णमो भगवओ उअअ-सामि-जिणवरस्स महह-महप्पभावस्स' ति 1
भणमाणो वेएणं संपत्तो इमं पएसं । दिट्ठो य भगवं उअअणाहो, दट्ठण य भत्ति-भरोणमिउत्तिमंग-मउड-रयण-किरण-संवयत्त-
३ तार-मुत्ताहारो थोउं पयत्तो । अवि य । 3

जय सयल-सुरासुर-सिद्ध-कामिणी-विणय-पणय-चलण-जुय । जय भुयइंद-विलासिणि-सिर-मणि-किरणगा-बुवियचलणा ॥

जय चंदिद-णमंसिय जय रुंद-भवोह-तारण-समत्थ । जय भुवण-सोक्ख-कारण जय कम्म-कलंक-परिहीणा ॥

६ भगवं तं चिय णाहो तं सरणं बंधवो तुमं चेय । भव-संसार-समुदो जिण-तित्थं देसियं जेणं ॥ 6

ति भणमाणो णिवडिओ भगवओ चलणेसु । पणाम-पडुट्टिएण भणियं च णेण । 'भगवं,
णामं पि अ-याणंतो णवरं तुह भत्ति-मित्त-संतुट्ठो । तेणं चिय णाह अहं एसो जक्ख-हाहिवो जाओ ॥

९ जे उण जाणंति तुहं णामं गुण-कित्तणं च चरियं च । तुह वयण-वित्थरत्थं सत्थे य अणेय-माहप्पे ॥ 9

ते णर-सुर-वर-भोए भोत्तूणं सयल-कम्म-परिहीणा । सासय-सिच-सुह-मूलं सिद्धिमभियेण पावेंति ॥'

भणमाणो णिवडिओ पुणो चलणेसु । भणिओ य तेणं णियय-परियणो । 'अहो देवाणुपिया, पेच्छह भगवओ णमोकार-फलं ।

१२ अवि य । 12

सयल-पुरिसत्थ-हीणो रंको जण-णिदिओ वि होऊण । एयस्स चलण-ल्लगो अहयं एयारिसो जाओ ॥'

अहो भगवं महप्पभावो, ता जुत्तं णिच्च भगवंतं सीसेण धारिउं । जेण एक्कं ताव सुरिंदाणं पि पुज्जो, विहयं अलज्जणिज्जो,

१५ तहयं महाउवयारी, चउत्थं भत्ति-भर-सरिसं, पंचमं सिद्धि-सुह-कारणं ति काऊण सव्वहा विउड्विया अत्तणो महंता मुत्ता-
सेल-मई पडिमा । सा य एसा । इमीय य उवरिं णिवेसिओ एअ मउलीए भगवं जिणयंदो ति । तप्पभिहं चेय सयल,
जक्ख-लोएण रयणसेहरो ति अवहत्थिय जिणसेहरो से णामं पट्टियं । तओ कुमार, तं च काऊण महंती पूयं णिवत्तिऊण

१८ वंदिऊण थोऊण णमंसिऊण य भणियं णेण 'कणयप्पभे कणयप्पभे' ति । मए वि ससंभमं करयल-कयंजलिउडाए भणियं
१८ 'आइससु' ति । तओ तेण अहं आइट्टो जहा 'तए अणुदिणं इहागंतूण भगवं दिव्व-कुसुमेहिं अच्चणीओ ति । मए पुण
अट्टमी-चउइसीए सव्व-परियण-परियरिएण इहागंतव्वं भगवओ पूया-णिमित्तं ति भणिऊण उवगओ अत्तणो पुरवरम्मि ।

२१ तओ कुमार जं तए पुच्छियं 'को एसो जक्खो, किं वा इमस्स मउडे पडिमा, का वा तुमं' ति । तं एअ सो जक्खराया-
२१ इमा य सा पडिमा, तस्स य अहं किंकरी दियहे दियहे मए एत्थ आगंतव्वं ति । एवं भणिए भणियं कुमारण । 'अहो महंतं
अच्छरियं, महप्पभावो भगवं, भत्ति-णिच्चभरो जक्ख-राया, विणीया तुमं, रम्मो पएसो । सव्वहा पजत्तं मह लोयणाणं

२४ कण्णाण य फलं इमं एरिसं वुत्तंतं दट्ठण सोऊण य' ति भणिए भणियं कणयप्पभए 'कुमार, जाणामि ण तुह कंणावि किंचि
२४ कजं, तहा वि भणसु किंचि हियय-रुहयं जं तुह देमि' ति । कुमारण भणियं 'ण किंचि मह पत्थणिजं अत्थि' ति । तीए
भणियं 'तहा वि अवज्ज-दंसणा किर देवहर' ति । कुमारण भणियं 'सुंदरि, इओ वि उइं फलं अण्णेसीयइ ति । अवि य ।

२७ एअ भगवं जिणंदो जिण-भत्तो एअ जक्ख-राया य । दिट्ठा सि तं च सुंदरि तहावि विहलं ति वाहरसि ॥' ति । 27

'वंदामि' ति भणमाणो समुट्टिओ कुमार-कुवलयचंदो । तओ तीए भणियं । 'कुमार, हूर तए गंतव्वं, बहु-पच्चवाओ य एअ
बहु-रण्ण-दुग्गमो मग्गो । ता गेणह इमं सयल-सुरासुर-वंतर-णर-किंणर-करिवर-वग्घ-हरि-सरह-रु-प्पमुहेहिं पि अलंघणीओ

३० ओसही-वलय-विसेसो' ति भणमाणीए करयलाओ समप्पिओ कुमारस्स । तओ 'महंती साहम्मिय-वच्छल' ति भणमाणेण
३० गहिओ कुमारणं ति । तं च वेत्तूण अहमुट्टिओ कुमार-कुवलयचंदो, पयत्तो दक्खिणं दिसाभोयं, वच्चह य तुंग-विंझइरि-
सिहराइं लंचयतो । वच्चमाणो दिट्ठो य णेय-तरुयर-साहा-बाहा-पवण-पहोलमाण-साहुली-विइजंतं पिव महाणइं णम्मयं ति ।

१ > J P एवं, P उअइसामि, J महति. 2 > P भगवओ उअअनातो, J उअअंग P उत्तिमंगउअ. 3 > J
मुत्ताहारेण भणिअं । अवि य । 4 > J जुआ, P विलसिणि. 5 > P वंदिद for चंदिद, J परिहीणं. 7 > P om.
भगवओ. 9 > J णामरुणे, P गुण कि तुह वयण. 10 > P inter. वर and मुर, P परिहीणो, P चिरेण for विग्घेण. 11 >

P repeats पुणो, J णिअओ for णियय. 14 > P जुत्तमिमं भगवंतं, J पि पूअणिज्जो । वितिअं. 15 > P मरिअभरसरिसं
J om. सव्वहा, J विउड्विअ. 16 > P adds मओ एअ before मउलीए, J तप्पभूईं चेअ. 17 > P om. से, P महंतं पूयं
निव्वत्तेऊण. 18 > P भणियमणेण, J ससंभम, P करयलंजलि. 19 > J om. अहं, P अह for अहं, J आइट्टो, P adds न before
मए. 20 > P परिवारिएण. 21 > J को for का. 22 > P एयस्स for तस्स, P inter. किंकरी & अहं, J adds य after
first दियहे, P om. ति. 23 > J अच्छरीअं, P भत्तिअभरनिअमरो. 24 > J कणणेण, P फलमिमं, P तुह वि केण वि. 25 >

P रुहरं for रुहयं, J णइंचि मह, J तीय. 26 > J देवा होंति ति P देवाहरति, P यिय for वि, J अण्णिणीअति ति.
28 > J तीय for तीए. 29 > J बहुरण्णो, J om. मग्गो, P सयलसुर, J om. किंणर, P om. करिवर, J om. वग्घ, J हरिअ-
भररुप्प. 30 > J भणमाणीय, P वच्छल ति. 31 > P om. भोयं, P विंझसिहराइं. 32 > J वच्चमाणेण य दिट्ठा P वच्चमाणेण
दिट्ठो, P णेण for णेय, P वियजंतं.

- 1 § २०६) जा व कइसिया । णव-जोव्वणुम्मत्त-कामिणि-जइसिय कुंकुम-रत्त-पिंजर-चकल-चक्काय-पओहर-सेला- 1
 लुविभज्जमाण-रोम-राई-मणहरं च, कइहिं चि णव-वहु-जइसिया तड-तरुयर-घण-साहा-रुयावगुंठण-णीसद्-गह-पयारा व, 1
 3 कइहिं चि वेसा-विलय-जइसिया हरि-णहर-णिइउल्लिहिय-मत्त-मायंग-कामुय-दंत-जुयलंकिय व, कइहिं चि वासय-सज्ज-जइसिया 3
 मघमवेंत-सुरहि-कुसुम-गंध-पुरमाण-बिंदु-माहर व, कइहिं चि पउत्थवइ-जइसिय पइहत्थिय-कमल-वयण-आवंदुर-पओहरय 3
 ति । अवि य ।
 6 उच्छंममि णिवणं सुंभइ तड-पायवग्ग-वयणेहिं । णवि णज्जइ किं धूया किं दइया होज्ज विंजस्स ॥ 6
 जीए य महामल्ल-सरिसइं कर-कत्तरी-वाएहिं जुज्जेति मत्त-मायंग-जइइ, कइहिं चि दुप्पुत्त-सरिसइं महा-कुलम्मूलण-ववसियइं, 6
 कइहिं चि गाम-डिंभरुय-सरिसइं जल-कीला-वावइइं, कइहिं चि तड-परिणय-पायवडियइं णज्जेति कुविय-दइया-पसायणोणयइं 6
 9 ति । अवि य । 9
 णवि णज्जइ किं दइया सहोयरा होज्ज किं व एयाण । किं जणणि चिय रेवा होज्ज व धाई गय-कुलाण ॥
 कइहिं चि मच्छ-पुच्छ-च्छडा-वाउच्छलंत-पाणिया, कइहिं चि तणुय-तंतु-हीरमाण-मत्त-हत्थि-संकुला, कइहिं चि महा-मयर-कराघाय- 12
 12 कुविय-मत्त-वण-महिस-कलुसिया, कइहिं चि पक्कल-ग्गाह-गहिय-गंडयाउला, कइहिं चि कुम्म-पट्टि-उल्लसंत-विहुम-किसलयालं- 12
 क्रिया, कइहिं चि वेला-वसागय-पोमराय-रयण-रंजिय-जला, कइहिं चि परिप्यंत-चक्काय-जुवलुकुंठ-णिजिया, कइहिं चि सर-सर- 12
 सरंत-कंत-सारसाउला, कइहिं चि तुंग-तरंग-रंगंत-सिप्पि-संपुडा, कइहिं चि चंड-पवण-पहय-कडोल-माल-हेला-हीरमाण-पक्खि- 12
 15 गणा, कइहिं चि मत्त-मायंग-मंडली-मज्जमाण-गंडयल-गलिय-मय-जल-संदोह-बिंदु-वंद-णीसंद-परिप्यंत-चंदय-पसाहिय ति । 15
 अवि य ।
 धवल-बलाया-माला-धलया-हंसउल-पंति-कय-हारा । चलिया पइहर-हुसं णज्जइ रेवा णव-वहु व्व ॥
 18 अण्णं च । गायइ व गय-मय-गंध-लुइ-मत्त-महुयर-महुरुखावेहिं, जंपइ व णाणा-विहंग-कलयलारावेहिं, हसइ व हंस- 18
 मंडली-धवल-दसण-पंतीहिं-णज्जइ व पवण-वेउच्छलिय-तुंग-तरंग-हत्थेहिं, पइइ व जलयर-हीरंत-पत्थर-संधट्ट-खलहला- 18
 खलियक्खर-गिराहिं, मणइ व तड-विडवि-पिक्क-फलवडण-दुहुदुहारावेहिं, रुयइ व णिज्जर-झरंत-झरहरा-सदेहिं । अवि य । 18
 21 उग्गाइ हसइ णज्जइ रुयइ व कलुणक्खरं पुणो पइइ । उम्मत्तिय व्व रेवा इमीए को होहिइं वेजो ॥ 21
 जाइ समुद्दामिमुहं रेवा पुण वलइ वेविर-सरीरा । पयइ चिय महिलाणं थिरत्तणं णत्थि कजेसु ॥
 मोत्तूण विंज-दइयं तुंगं जलहिम्मि पत्थिया रेवा । अहवा तीए ण दोसो महिला णीएसु रज्जेति ॥
 24 रयणायरम्मि लीणा विंजं मोत्तूण णम्मया पेच्छ । अहवा लुद्धाओ चिय महिलाओ होति पयइए ॥ 24
 किं ण सुहओ य दाणे रेवे जेणुज्जिओ तए विंजो । हुं पइणा एकेण ण होइ महिलाण संतोसो ॥
 अण्णाण वि एस गई तेण समुद्दरिम पत्थिया रेवा । होति चिय कामिय-कामियाओ काओ वि महिलाओ ॥
 27 उव्वूडा विंजेणं महप्पमाणं च पाविया तेण । मोत्तूण तह वि चलिया अहो कयग्घा महिलियाओ ॥ 27
 जलही खारो कुग्गाह-सेविओ बहुमओ य रेवाए । इय साहेइ समुद्दो वियारणा णत्थि महिलासु ॥
 इय जुवइ-चरिय-कुडिलं गंभीरं महिलियाण हिययं व । महिला-सहाव-चडुलं अह रेवं पेच्छए कुमरो ॥
 30 तं च तारिसं महाणइं णम्मयं समोइण्णो रायउत्तो कह तरिउं पयत्तो । अवि य, 30
 णिट्टर-कर-पहराहय-जल-वीइ-समुच्छलंत-जल-णिवहं । अह मज्जइ सिरिदत्तो महागइंदो व्व उद्दामं ॥
 एवं च मज्जमाणो कुमार-कुवलयचंदो समुत्तिणो तं महाणइं णम्मयं ति, गंतुं च पयत्तो तम्मि तीर-तरुवर-वल्ली-लया- 33
 33 गुविल-गुम्म-दुस्संचारे महाइइ-मज्जयारे । 33

1 > J कइसिया, P om. णवजोव्वणुम्मत्त etc. to मणहरं च कइहिं चि, J जइसिया. 2 > P नववहुसिया तड, J तरुण for तड, P om. घण, P गुंठणानीसइ, J गयणयार व. 3 > P वियलिय for विलय, J जइसिया, J दुल्लिहिय for उल्लिहिय, P जुयलंकियं कइहिं चि, J जइसिया. 4 > P गंध for गंधडु, J फरमाण for फुरमाण, P पउत्थवइजइसियपल्लत्थियवयणकमल, J आवण्डु P आवंदुरपओहर व्व ति. 6 > P उत्संगमि, P तह for तड, P नयणेहिं for वयणेहिं, P नज्जिय for णज्जइ. 7 > P वा for य, P कुलम्मूलण. 8 > P डिंभरुय, J पायवडियइं. णज्जइ, P पायवइइं । नज्जेति. 10 > P दयया, P धाती for धाई. 11 > P मच्छपुच्छडा, J धायुच्छलंतपाणिया, P तणुतंतु. 12 > J om. वण, J पज्जल for पक्कल, P गंडलाउला. 13 > J om. लंक्रिया, J वेलोवसा, P परिप्यंत, J जुअलुकुंठ, P सरसरत्तकंत. 14 > J om. कंत, P वेण्ड for चंड, J माला for माल, J om. हेला. 15 > P बिंदुविंदणसिंद. 17 > P हंसउलं, J रज्जइ P नज्जइ, P नर for णव. 18 > P महुयरखावेहिं. 19 > J inter. धवल & मंडली, J om. व, P चेवळालिय, 3P य for व, P जलयलहीरंत. 20 > P तडवेडसिपिक्क, J दुहुदुहारावेहिं P कुडुदारावेहिं, P निज्जरक्खरंतझरारावेहिं, J सरेहिं for सदेहिं. 21 > P पु for व, P व for व्व, P को हाहिई वेजा. 22 > P पुण विलइ. 23 > J तीय for तीरं, P रज्जेति. 24 > P अहवा लद्धाउ. 25 > J य दाणे रेवे जेणुज्जिओ, J हुं. 26 > J पई for गई. 27 > J पि for च. 30 > J महाणम्मयं, P तह for कह. 31 > J सिरिअत्तो. 32 > P तरुवर. 33 > P गुविल, J दुस्संचारे.

- 1 § २०७) एवं च वक्षमाणेण कुमारेण दिट्टो एकमि पएसे विंशतिरि-पायवासणे बहुल-सिण्ण-तरुवर-णियर-
संकुले एको उडओ । दट्टण तं चेष दिसं वलिओ ति अचलिय-वलंत-लोयणो राय-तणओ कयाइ कोइ एत्थ रिसी भासमे
2 होइ ति चिंतयंतो संपत्तो तं उडयंगणं । जाव दिट्टं तरुण-तमाल-पायव-पंती-परंपरा-परियरियं अंगणं । अण्णं च । कुसुमिय-
3 बउल-रुक्खयं, आसण्ण-पिक्क-करमहयं, पलंबंत-पिंडिरियं, ललमाण-माउलुंगं, समंतओ कुसुमिय-बहु-जाइ-कुसुम-मयरं-
लुद्ध-भमर-रिंछोलि-रुणुणा-सह-संगीय-मणहरं पेच्छंतो पविट्टो उडए । दिट्टं च णेण पुत्तजीवय-घडिय-रुक्ख-माला-वलयं ।
6 दिट्टाई च णाणा-सुक्क-फल-संचयाई । दिट्टं च तियट्टिया-ठावियं कमंडलं । दिट्टं च उवट्टघासणं । तं च दट्टणं चिंतियं । 6
'अहो को वि एत्थ महामुणी परिवसइ' ति चिंतयंतो दिट्टा पंसुल-पएसे पय-पंती । तं च दट्टणं 'अहो, जहा इमाई लहुय-
मउय-कोमलंगुली-ललिय-दलाइं व दीसंति चलण-पडिबिंभाइं, तेण महिलाए होयव्वं, ण उणे पुरिसेण । ता कह तवोवणं
9 कहं वा महिल' ति चिंतयंतो तथेव उवविट्टो । 'दे, पेच्छामि णं को एत्थ परिवसइ' ति । थोव-वेलाए दिट्टा तेण तवसी । 9
सा केरिसा । अवि य ।

उडमड-जडा-कडप्पा खर-फरसा-दीह-केस-णहरिहा । चकल-पीण-पओहर माईण व आगया एक्का ॥

- 12 तीय य मग्गालग्गा समागया तरुण-जुयइ-चंचल-णयण-सम-सोहा-लोयण-जुयला मुद्ध-मया, ताणं चाणुमग्गओ जुयइ-
हिययं व चंचला वाणर-लीवा, ताणं च पुरओ समागओ मण-पवण-वेओ इति एको महाणील-सच्छामो महंतो राय-कीरो
ति, तस्साणुमग्गं अण्णे य सुय-सारिया-णिबहा । ते य दट्टणं चिंतियं राय-तणएण । 'अहो, उवसम-प्यभावो इमीए
16 तवसीए जेण पेच्छ एए वण-तण-जल-मेत्त-संतुट्ट-जीवणा अरण्ण-सावय-सउणया वि ण मुंचंति से पासं सब्बहा । किं वा 16
तवस्सिणो असज्जं' ति चिंतयंतो दिट्टो तीए राय-उत्तो । दट्टणं य केरिसा जाया । अवि य ।

भय-सज्जस-सेउकंप-कोउह्लोहिं विणडिया तो सा । इच्छइ पलाइऊणं को उण एसो विचिंतेती ॥

- 18 तं च पलायंती दट्टणं पहाइओ सरसइ-वरो महाकीरो । भणिया य णेण 'सामिणि एणिए, किं तुमं पलाइउं पयत्ता' । तीए 18
भणियं 'इमो उण को इममि मज्ज उडयमि वण-सावओ । तेण भणियं 'मा बीहसु, एस एत्थ को वि अरण्ण-मज्जमि
पंथ-परिचभट्टो पंथिओ इमं पएसं समागओ । ता माणुसो एसो, अहं इमिणा सह भलीहामो ति । ता दे पावेसु, तुमं
21 सागयं च इमस्स कुणसु । महाणुभावो विय लक्खीयइ' । एवं भणिया तेण कीरेण समागया सलज्ज-वेवमाण-पओहरा । 21
आंगंतूण य तीए भणियं 'सागयं पहियस्स, कत्तो आगओ सि, कहिं वा पत्थिओ सि, किं वा कज्जं' ति । तेण भणियं
'आगओ इं महाणयरीओ अउज्जाओ, कज्जथी दक्खिणावइं चलिओ' ति । तओ भणियं कीरेण 'सागयं महाणुभावस्स,
24 उवविससु एत्थ पल्लवत्थरणे' । तओ उवविट्टो राय-तणओ । एणियाए विणिक्खत्ताई विविह-तरु-वर-पिक्क-साउ-सुरहि-फल-
24 णियराइं । सुरहि-कुसुम-पत्त-पुडप य संठाविए पंगंतमि उवविट्टो य । तओ चिंतियं कुमारेण 'ण-याणीयइ का वि एसा,
कहं वा केण वा कारणण, केण वा वेरंणेण, कथं वा आगय ति, ता किं पुच्छामि' । 'दे पुच्छामि' ति चिंतियण भणियं ।
27 अवि य । 27

'अइ तुमं णोवरोहो अकहेयव्वं च कह वि णो होइ । ता साइ सुंदरि महं जं ते पुच्छामि ता सुयणु ॥

कथं तुमं एत्थ वणे कम्हाओ केण वा वि कजेण । एयंत-दुक्करमिणं वण-वासं जं पवण्णा सि ॥'

- 30 एवं च भणिया समाणी अहोमुहा ठिया । तओ कुमारो वि तीए पडिवयणं उवेक्खंतो थोव-वेलं विलक्खे विय भासि । 30
तं च दट्टणं भणियं तेण राय-कीरेण । 'भो भो महापुरिस, एस मणयं लज्जइ । ता कया उण तए एसा पत्थणा ण
णिरत्थया कायव्वं ति अइ साहेस्सं' ति ।

1 > P पायासणे, P repeats नियर. 3 > J तरुतमाल, P परिवं for परिपरियं, J om. अंगणं, P om. अण्णं च. 4 > P पिंडीरियं, P adds कुजाइ after जाइ. 5 > P रुगरुणासइ, J सणाईं for मणइरे, J पुत्तजीवय P पुत्तजीव, J फाडिअ for घडिय, P रुक्खमालयं. 6 > J अ for च before णाणा, J om. दिट्टं च...कमंडलं, P ट्ठावियं, J उवट्टयासणं P उवइयासणं. 7 > J दिट्टो पंसुल, J लहुमउअ. 9 > P महिलय ति, J om. णं, P थोइ for थोव. 10 > P om. सा, P om. अवि य. 11 > J पाहरुक्खा, J पउहरा. 12 > P जुवई, J च मग्गओ. 13 > J हिययं पिव चला, P adds पुरओ उक्कितंता after लीवा, J om. च, P सच्छमो. 15 > P पेच्छा for पेच्छ, J संतुट्टा, P जीवियो, J पासं । सब्बहा किं, P च for वा. 16 > P adds महंतो after तवस्सिणो, P om. ति, J तीय. 17 > P 'कोउह्लोहिं, J विणरिआ, P om. तो, P इत्थए, J विंतेती P विचिंतेइ. 18 > P सरसवइरो, P महाकीरा, J om. य, P सामिणी, J तीय. 19 > P om. वणसावओ, P om. एत्थ, P अरंमि पंथं परिवूडो पंथिओ इमं परिसं. 20 > J एस for एसो. 21 > J वि for च, J लक्खीयति, P om. तेण, J सलज्जं. 22 > J तीय, P कत्तो सि आगओ सि, JP कहं वा, P om. सि, J ति for किं वा कज्जं ति. 23 > J आगयोइं, P अज्जथी for कज्जथी. 24 > P पल्लवत्थरणं ति, J om. तओ, J एणियाए, J तरुवरपक्क. 25 > J पुडप संठाविए P पुडप य टाविए, P पंगंतमि, J 'याणीयति. 26 > P om. केण वा before वेरंणेण, P inter. वा & कथं, P om. ता किं पुच्छामि. 28 > J अकहेयं वा वि कह, J आ for ता. 29 > P om. तुमं एत्थ, J कम्हाउ व केण, P एतं for एयंत. 30 > P अहोमुही, J ट्टिया, J तीय, P थोयवेळं. 31 > P एसा for एस, J om. ता, P om. उण, P ताए for तए. 32 > J कायव्वं ति.

- 1 १२०८) अथि एयमि च्येय पुहृ-मंडले णम्मया णाम महाणई । अथि य । 1
मत्त-करि-कामि-णिहुर-धोर-कराघाय-चङ्गण-सयणहा । दंत-जुवलंकिओटी पोटा इव कामिणी रेवा ॥
- ३ तीए दक्खिण-कुले देयाडई णाम महाडई । जा य कहसिया । 3
बहु-तरुवर-सय-कलिया बहु-सावय-सेविया सुमीसणया । बहु-गिरिवर-सय-सोहा अडई देयाडई णाम ॥
तीए महाडईए मज्झ-भाए अथि महंतो वड-पायवो । सो य केरिसो । अथि य ।
- 6 पत्तल-बहुल-विसालो साल-पलंबत-चडय-वरयालो । बहु-सडण-सयावासो आवासो सव्व-सत्ताण ॥ 6
तम्मि य महावडे बहुए कीर-कुले परिवसंति । तत्थ एको मणि-मंतो णाम महासुय-वंद-राया राय-कीरो अथि । तस्स एक्काए रायकीरीए उयरे गडभो जाओ । सो य अत्तणो काल-कमेण पसूओ अडओ जाओ । केण वि कालंतरेण फुडिओ
- 9 तओ जाओ मंस-मेसी-सरिसो किंचि विभाविज्जमाण-सुसु-खुर-णहावयवो अणुवियहं च पक्खावली-पयावुम्हा-परिपोसिज्जमाण- 9
सरीरो किंचि-समुठ्ठिभज्जमाण-मरगय-सामलंकुर-पक्खावली-क्यावयवो पाउस-समओ इव मणोहर-च्छाओ । एरिसम्मि समए
दर-जाय-पक्खाविकखेव-ओहलो णिगएसु कहिं पि पोह-पूरण-तग्गएसु पिह-माह-बंधव-जणेसु समुत्तिणो कुलायावासाओ ।
- 12 थोवंतरेण य अपरिफुड-पक्ख-खिक्खेवो गंतु अच्चांतो गिम्ह-महाताव-तविय-सरीरो तण्हा-सुक्क-कंडो एक्कस्स तरुण-तमाल- 12
पायवस्स छायाए णिसणो अच्छिउं पयत्तो । तहा य अच्छमाणस्स भागओ तम्मि पएसे एको वाह-जुवाणओ । तेण य
तस्सेय तरुवरस्स अहे वीसममाणेण कहं पि दिट्ठो सो कीरो । तं च दट्टण पसारिओ णेण कस्सिणाहि-भोग-भीसणो हत्थो ।
- 16 गहिओ य सो पलायमाणो । चेत्तण य चित्तियं तेण । 'अहो, एस पाविओ राय-कीरो त्ति । ता सव्वहा ण एस वावाएयवो 16
त्ति य मए दंसणीओ पल्लीवइणो होहिइ' त्ति चेत्तण असोय-तरुवर-पसाइं णिवद्धो पुडए, धणुय-कोडि-णिवद्धो ललमाणो
य संपाविओ धरं, समप्पिओ य पल्लीवइणो, तेणावि राय-कीरो त्ति चेत्तण पंजरए रुद्धो । तत्थ य वड्ढिउं पयत्तो । ता अहो
- 18 महापुरिस, जो सो कीरो सो अहं । तओ अहं च तेण संबद्धिओ त्ति । 18
१२०९) एत्थंतरम्मि भरुयच्छं णाम णयरं । तत्थ भियू णाम राया । तं च दट्टण उवगओ सो पल्लीवई । तेण य
तस्स अहं उवट्ठविओ । ममं च दट्टण राइणा महंतो तोसो उव्वओ, भणियं च 'रे रे, को एत्थ' । पडिहारीए भणियं
- 21 'आइससु' त्ति । 'वच्च सिग्घं, वच्छं मयणमंजरिं गेण्हउण पावसु' त्ति । आप्साणंतरं गया, पविट्ठा य मयणमंजरीए समं । 21
भणियं च राइणा । 'वच्छे मयणमंजुए, एस तए रायकीरो तहा करियव्वो जहा सव्व-कला-पत्तट्ठो हवइ' त्ति भणंतेण
समप्पिओ पंजरो । तओ सा य रायसुया ममं सहिं पिव मित्तं पिव बंधुं पिव भायरं पिव सुयं पिव मण्णमाणी पादिउं
- 24 पयत्ता । थोएणं च्येय कालेण जाणियाइं अक्खराइं, गहियं णट्ठ-लक्खणं, जाणियं विसाहिलं, गहियाइं गय-गवय-मय-कुक्कुड- 24
आस-पुरिस-महिला-लक्खणाइं । जुज्झियाइं सव्व-सत्थाइं । सव्वहा,
सव्व-कलागम-कुसलो जिण-वयण-सुणिच्छिओ महाबुद्धी । तीए पसाएण अहं अह जाओ पडिओ सहसा ॥
- 27 तओ एवं च अच्छमाणस्स को कालो समागओ । अथि य । 27
उण्हो उव्वेवणओ दीहर-खर-फक्क-पवण-णीसासो । संताविय-भुवणयलो गिम्हो कालो व्व वेयालो ॥
तम्मि य तारिसे गिम्ह-काले एक्कस्स मुग्घिओ आयावणं करंतस्स णीसंगयं भावयंतस्स एगत्तणं चित्तयंतस्स असरणत्तणं
- 30 धायंतस्स सुत्तं अणुगुणंतस्स संसारं णिंदमाणस्स जिण-वयण-बुल्लहत्तणं भावयंतस्स सुक्कज्जाणंतरियाए वट्टमाणस्स अउव्व- 30
करणं खवग-सेट्ठीए अणंतं केवल-वरणाण-वंसणं समुप्पणं । सो य रिसी तस्स राइणो पिया अभिसिंचिउण पव्वइओ,
एक्कल्ल-विहार-पडिं पडिवणो । भरुयच्छं समागओ विहरमाणो, तत्थ य केवल-णाणं समुप्पणं । तओ देवाणं उप्पय-
- 3३ णिवयं दट्टण जणेण साहियं राइणो पिउणो जहा 'महाराय, रिसिणो इहेव भरुयच्छे समागयस्स केवलणाणं समुप्पणं' ति । 33

2) P काम for कामि, J कामिणिहारथोर, J वत्तण for चङ्गण, J जुवलंकिउट्टी, P रेहा for रेवा. 3) J तीय, P नई for महा डई, J जा च P जा व. 4) P तरुवर, P सेवया, J सुमीसणिया, P य for सय. 5) J तीय महाडईमज्झ. 6) J घरयाला । P बहुसयणिसयनिवासो. 7) J कीरकुले P कीलकुले. 8) P कालकमेण. 9) P om. तओ, P चंचुखुरणुहा, P पयाउम्ह. 10) J किंचि अम्भिज्जमाण, J सामलंकुर P सामलंकुर, P तओ for क्यावयवो, P समयं पिव मणहरच्छाओ. 11) P पक्खो तओ विक्खेव, J 'ओहला, P पिअ for पिह, P कुलायावावासाओ । थोअंतरेण. 12) J अपरिफुड P अपरिफुड, P अचायंतो, P तहतमालपालपायवस्स. 13) P सिसणो for णिसणो, P अथिउं, P वाहजुवाणो. 14) P अहो वीसमाणेण कहिं पि, P कस्सिणाहभोग, J भोअभीसणो. 15) J णेण for तेण, P पायवो for पाविओ, J एस विवाए अव्वो, P वावाएयवो मम दंसणो पल्ली. 16) J होइइ, P adds य सोय before असोय, J पसाय for असोय, P तरुवरपत्तनिबद्धो. 17) P पल्लीवइणा, J तेण वि, P repeats ता सव्वहा न वावाएयवो etc. to तेणावि रायकीरोत्ति, J पंजरओ. 18) P om. तओ अहं च, P संबद्धिओ. 19) P नगरं for णयरं, P inter. सो & उवगओ. 20) P उवट्ठविओ, P तं for ममं, P adds णेण before रेरे. 21) P अइससु, P adds च before गया, P पयट्ठा, P om. य, J 'मंजरीय P 'मंजरी । ससंभमं भणियं. 22) J होइ for हवइ, J adds य after भणंतेण. 23) P समप्पिउं, P सा रायधूया मं सहिं, P बंधुं पिय. 24) J अहिआइं for गहियाइं, P om. मय. 25) J -सत्थरं. 26) J कव्व for सव्व, J सुणिच्छओ, J तीय. 27) P om. च. 28) P उण्हा. 29) J गिम्हयाले, J णीसंगं, J om. एगत्तणं चित्तयंतस्स, P चित्तयंतयंतस्स, J असरणअत्तणं. 30) P om. सुत्तं अणुगुणंतस्स. 31) P रिस्सी for रिसी, P पियाभिसिंचिउण. 33) P om. इहेव, P om. ति.

1 तं च सोऊणं हरिस-वस-वियसमाण-लोयण-जुवलो राया भणितं पयत्तो । 'सजेह जाण-वाहणाइं, अंतेउरिया-जणस्स सब्ब- 1
रिद्धीए अज्ज भगवंतं तायं उप्पण-केवल-वर-णाणं वंदामि'ति भणित्तण पयत्तो बहु-जाण-वाहण-पूरमाण-महियलो संपत्तो य 2
3 भगवओ सयासं । थोऊण य पयत्तो । कह । 3

जय धम्ममहाण-करवाल-सुडियासेस-कम्म-रिउ-सेण । जय जय अक्खय-णाणमणंत-जाणियासेस-परमत्थ ॥

त्ति भणमाणेण वंदिओ भगवं केवली राइणा । राया णिसण्णो य पुरओ, अण्णे वि य रायाणो भइ-भोइया य णायर-जणो 6
6 य राय-धूया वि ममं वेत्तुं चेव तत्थ उवगया । मए वि संथुओ भगवं स-बुद्धि-विहवेणं । अवि य । 6

जय णिजिय-सयल-परीसहोवसग्ग जय णिहय-मय-मोह । जय णिजिय-दुज्जय-काम-बाण जय विमल-णाण-धर ॥

त्ति भणित्तण पणमिओ मए वि भगवं केवली । णिसण्णा य राय-दुहिया ममं पुरओ णिमेऊण । केवलिणा वि भगवया 9
9 कय-कायध्व-वावारेणं वोलीण-लोय-मग्गेण तथा वि किं पि कज्जतरं पेच्छमाणेण भणियं । अवि य । 9

जर-मरण-रोग-रय-मल-किलेस-बहुलमि णवर संसारे । णत्थ सरणं जयम्मि वि धम्मं जिण-देसियं मोत्तुं ॥

ता मा कुणह पमायं देवाणुपिया इमम्मि जिण-मग्गे । संसार-भव-समुहं जइ इच्छह अप्पणा तरिउं ॥

12 § २१०) एत्थंतरम्मि समोवइया दोण्णि णील-पीय-वाससा विप्फुरंत-मणि-किरण-कणय-भासुरालंकार-सोहिया 12
विजाहरा ।

णिम्मल-करवाल-करा फुरंत-मणि-रयण-किरण-सोहिहा । गयणाओ भोवइया सहसा विजाहरा दोण्णि ॥

15 ते य भगवंतं केवलं पयाहिणं करेमाणा समोइण्णा । वंदिओ य भगवं सविणय-ओणय-करयल-दल-मउलमंजलिमुत्तिमंगे 15
णिमेऊण । णिसण्णा य पायमूले भगवओ । सुह-णिसण्णेहिं भणियं 'भगवं, का उण स' ति । भणिय-मेत्ते राइणा भिगुणा
सव्वेहि य णायएहिं भणियं । 'भो भो विजाहरा, सा उण का जं तुभमेहिं भणियं का स' ति भणिए, तेहि य पलत्तं ।

18 'अहं वेयद्व-गिरिवराओ सम्मेय-सिहरं गया । तत्तो सत्तुजयं चलिया । तत्थ वच्चमाणेहिं विम-गिरि-सिहर-वणंतराले भीमे 18
णिम्माणुसे अरण-पएसे, जत्थ अहं वि गयण-गोयरा भीया हत्ति वोलेमो, णम्मयाए दक्खिणे कूले दिट्ठं महंतं मय-जूहं ।
ताणं च मग्गालग्गा एक्का का वि मयलीव-बुण्ण-लोयणा समुच्चिजमाण-पओहर-भरा भउच्चिग्ग-लोयणा मयाणं अणुमग्गेणं

21 वच्चंती बाला । तं च दट्ठण चित्तियं अहंहेहिं । 'अहो, महंतं अच्छरियं' चित्तयंता अवइण्णा । भणिया य अहंहेहिं । 'भो भो 21
बालिए, किं एत्थ अरणम्मि तुमं एक्का, कत्थ वा तुमं आगय' ति भणिया य समाणी मुरलारण-मय-सिलिंब-बुण्ण-लोल-
लोयणा अहिययरं पलाइउं पयत्ता । ण य ते मया तीए उच्चियंति । तेहिं चेय समं सा संगय ति । तओ अउच्चं वुत्तं
24 चितंता भणमाणं चेय अहंसणं गया वणंतराले । तओ अहंहेहिं चित्तियं । 'अहो, किं पि अत्थेत्थ कारणं, सव्वहा को वि 24
अइसय-णाणी अहंहेहिं पुच्छियव्वो' ति । तओ भगवं एत्थ विट्ठो । तेण पुच्छियं अहंहेहिं 'भगवं, का उण स' ति । भणियं
च राइणा पिउणो 'भगवं, अह्माणं पि कोउयं जायं । ता पसीयसु, साहेसु' ति ।

27 § २११) भगवं साहिउं पयत्तो । 27

अत्थि पयडा पुरीणं तेलोक्कम्मि वि पयत्त-जसहारा । धवलुत्तुंग-मणहरा उज्जयणी पुरवरी रम्मा ॥

जीय य मणहर-गीय-रव-रम्मइं भवणइं, भवण-माला-विभाविथइं रायवहइं, रायवह-सोहिओ विवणि-मग्गु, विवणि-मग्ग- 30
30 रेहिरइं गोउरदारइं, गोउरदार-विराइयइं पागार-सिहरइं, पागार-सिहर-ऊज्जिरइं फरिहा-बंधइं नि । अत्थ य रेहंति फरिहउ
णिम्मल-जल-तरंगेहिं, जल-तरंगइं पि सोहंति वियसिय-सुरहि-कुसुमेहिं, कमलइं वि अर्घंति भमिर-भमरउलेहिं, भमर-

1 > P मंते' for अंते'. 2 > P भगवओ तायस्स उप्पव्वं, P om. य before पयत्तो. 4 > P सुडिताइसेस, P adds अय after जय. 5 > P om. राइणा, J om. राया, P अहो वि, J ण for य before णायर. 6 > J रायधूअ वि, P om. ममं, P वेत्तुं, J चेअ, P om. तत्थ, P बुद्धि for सवुद्धि. 7 > P सयमलपरीसहोवसहोवसग्ग, J णिहयमल्लमयमोहा, J णाणवर. 8 > J णिसण्णो, P मं for ममं. 12 > J दुण्णि (?) for दोण्णि, J om. किरण, P किणिय for कणय. 14 > P उवइया. 15 > P om. य, P केवलि, J सविणओणय, J उत्तिमंगे for मुत्तिमंगे. 16 > P नमिऊण for णिमेऊण, J adds अ before भणियं, J मिउणो for त्रिगुणा. 17 > P om. one भो, J कज्जं for का जं, J भणितं का P भणियं तं का, J om. य. 18 > P तओ for तत्तो, P सेत्तुज्जं. 19 > J -पएसे, P तत्थ for जत्थ, P गोयरे, P यत्ति for हत्ति, J णम्मयाय. 20 > P मयलीवपुञ्जलोयणा समुच्चिजमाणपओभरभरा तओच्चिग्ग, J अयुच्चिग्ग. 21 > J अच्छरियं, P चितइंता. 22 > J om. किं, P एक्को, J om. य. 23 > P पयत्तो, J om. तीए, J समं सा संगया P समं समागय, J om. ति, J अपुच्चं. 24 > J चितंता, P भणमाणं. 25 > P दिट्ठं. 26 > J om. च, P भि गुणा for पिउणो, P adds अह्मा before अह्माणं, J पसिअसु. 27 > J adds भणिओ before भगवं. 28 > P तिलोक्कम्मि, P जस्स पम्भारा for जसहारा. 29 > J जिअ for जीय, J रम्माइं भवणाइं, P विरवियइं रायनिवहइं, J om. विवणिमग्गु, P विपणिमग्गु विपणि-. 30 > P om. गोउरदारइं, P गोउरदार, J विराविअइं पायार-, J पायार-, P ऊज्जिरवं परिहा-, P कत्थ for जत्थ, P फरिहाउ. 31 > J मि for पि, J कमलेहिं for कुसुमेहिं, P कमल विय अर्घंति, P भमरभलेहिं भमर कुलइं विरायंति.

- 1 उल्लूँ वि विरायति णव-कुसुम-रेणु-रणं ति । अवि च । 1
- उत्तुग-धवल-तोरण-बद्ध-पढाय-च्छलेण भणहृ च्च । उब्मेडँ अंगुलिं सा जह अण्णा परिसा णयरि ॥ ति ।
- 8 तम्मि य पुरवरीए सिरिवच्छो णाम राया पुरंदर-सम-सत्त-वीरिय-विह्वो । तस्स य पुत्तो सिरिवद्धणो णाम । धूया य एक्का 3
सिरिमई णाम । सा य विजय-पुरवहणो विजय-गराहिवस्स पुत्तो सीहो णाम तेण परिणीया । सो य सीहो जोष्वणं संपत्तो ।
केरिसो जाओ । अवि य ।
- 6 मारेइ खाइ लुपइ णिवेक्खो णिहओ णिरासंलो । वण-सीहो इव कुविओ पयइए परिओ जाओ ॥ 6
तं च तारिसं णाऊण राइणा विजएण णिविक्खओ आणत्तो । सो य तं राय-धूरं णियय-भारियं चेत्तूण णिग्गओ विसयाओ ।
एक्कम्मि पचंत-गामे आवासिओ, अप्प-दुइओ अच्छिउं पयत्तो । वचंति वियहा । ताव य एत्थेतरम्मि केण वि कालंतरेण
9 सो सिरिवद्धणो रायउत्तो धम्मरूहणो अणगारस्स अंतिए धम्मं सोऊण दुरुत्तरं संसार-सागरं णाऊण दुल्लहं भगवओ वयणं 9
जाणिऊण सासयं मोक्ख-सुहं कलेऊण सव्वहा णिविक्खण-काम-भोओ अणगारो जाओ । सो य केण वि कालंतरेण परि-
णिक्खण-सुत्तयो एक्कल्लप्पडिं पडिवण्णो एक्को चेय विहरिउं पयत्तो ।
- 12 § २१२) सो य भगवं विहरमाणो तं चेय गामं समागओ जत्थ सो भगिणी-पई भगिणी य । तम्मि अवसरे सो 12
भगवं मास-खमणट्ठिओ पारणए य गामं पविट्ठो । भिक्खत्थं च गोयर-चरियाए विहरमाणो भगवं तव-तणुय-देहो खाम-
णिण्णोयरो कसेण य तम्मि भइणीए घरम्मि संपत्तो । तीय य भगिणीए दूरओ चेय दिट्ठो, दट्ठण य चित्थियं च तीए 'एस
15 सो महं भाउओ त्ति, णिसुवं च मए किल एसो केण वि पासंडिएण वेयारिऊण पव्वाविओ । ता सव्वहा सो चेय इमो' त्ति । 15
तओ आऊरमाण-सिणेहाए भाउओ त्ति णिभर-बाहुप्पीलण-त्थंभिय-णयण-गग्गर-वयणाए चिर-दिट्ठुकंठा-पसर-पयत्त-फुरमाण-
बाहु-लहयाए अयाणंतो सो रिसी अभिधाविकणं कंटे गहिओ, आलिंणिओ जाव रोविउं पवत्ता तावागओ तीए भत्तारो
18 सीहो बाहिराओ । दिट्ठो य तेण आलिंणिजंतो । तं च दट्ठण चित्थियं तेण 'अरे, पर-पुरिसो को वि पासंडिओ मह जाय- 18
महिलसइ' त्ति । चित्तयंतो केरिसो जाओ । अवि य ।
ईसानल-पज्जलिओ दढ-भूढो कोव-रत्त-णयणिओ । आयड्ढिऊण खगं अह रिसिणो पहरइ णिसंलो ॥
- 21 तओ गरुय-पहर-हओ णिवडिओ रिसी धरणिवट्ठे । तं च दट्ठणं णिवडंतं किं कियं से भइणीए । अवि य । 21
दूसह-गुरु-भाइव्वह-दंसण-संजाय-तिव्व-रोसाए । कट्ठेण पई पओ जह मुच्छा-वेंभलो जाओ ॥
णिवडमाणेण तेणावि किं कयं । अवि य ।
- 24 णिट्ठर-कट्ट-पहारा वियणा-संताव-गरुय-मुच्छेण । खग्गेण तेण पहया जह जाया दोष्णि खंडाइं ॥ 24
णिवडिओ तं णिधाएमाणो सो वि जीविय-विमुक्को जाओ । पुणो चंड-सहावयाए महारिसि-वह-पाव-पसर-परायत्तो पढमं
रणप्पअं णरयं रउरवे णरयावासे सागरोवमट्ठिई णेरइओ उववण्णो । सा वि तस्स [मुणिणो] भइणी गरुय-सिणेह-
27 मुच्छा-परिणया तक्खणुप्पण-कोव-विणिवाइय-अत्तार-णिहण-पाव-संतत्ता, तहिं चेव णरय-पत्थडे उववण्णा । सो उण रिसी 27
भगवं णिहय-खग्ग-पहारा वियणायल्ल-सरीरो कहं कहं पि उवरओ, उववण्णो य सागरोवम-ट्ठिई सोहम्म-बिमाण-वरे ।
तओ चइऊण णिय-आउक्खएण एत्थ भरुयच्छे राया जाओ । सो य अहं दिट्ठो तुम्हेहिं पच्चक्खं केवली जाओ ।
30 सो उण सीहो तम्मि महारउरवे णरए महंतीओ वियणाओ अणुभविऊणं कहं कहं पि आउक्खए उवट्ठिऊण णंदिपुरे 30
पुरवरे अंजणे जाओ । तत्थ वि गरुहत्थं पालेऊण एग-दंडी जाओ । तत्थ य आसम-सरिसं संजम-जोयं पालिऊण मरिऊण
य जोइसियाणं मज्जे देवो उववण्णो । तत्थ य केवली पुच्छिओ णियय-अवंतरं । साहियं च भगवया दुइयं पि जम्मंतरं ।
33 तओ तं च सोऊण उप्पणो इमस्स कोवो । 'अरे, अहं तीए णियय-महिलाए मारिओ । ता कत्थ उण सा दुरायारा' 33
- 1 > P रेणुणं. 2 > P पढायाल्लेण, J P उब्मेउ. 3 > P समू for सम, P om. य. 4 > P adds सा after तेण.
7 > P om. विजएण. 8 > P om. य after ताव. 9 > P राउत्तो. 10 > P कामभोगो, J परिणिक्खिण P परिनिष्पन्नो.
11 > P चेवलो for चेय विहरिउं पयत्तो. 12 > P परागओ for समागओ, J adds तव before भगिणी; P सो पती भगिणीए.
13 > P मासंक्खमणं, P भिक्खट्ठं, P चरिया विहरमाणा. 14 > P .निणोदरो, P om. दिट्ठो दट्ठण य. 15 > P महं माय
त्ति, J ति for च, J पासण्डिणा, P वियारिऊण for वेयां, P om. पव्वाविओ. 16 > J बाहुप्पील P बाहुपीलण, J मण्ण P मणु
(for णयण emended), J चिरु-, P चिरिड्ढुकंठपसरंतपव्वत्त. 17 > P अभिधाइकणं, J पयत्ता । ताव आगओ तीय. 18 > P
om. तं च, J om. मह जायमहिलसइ. 20 > P ईसानल. 21 > J -पहरंतो णिवडिओ, P धरणिवीडं, P निवडियं for
णिवडंतं. 22 > P भाइव्वहं. 23 > J य तेण for तेणावि. 24 > P पहारा, P खंडाई. 25 > J चंड for चंड, J महारिसी, J परयत्तो
26 > P नयरं for णरयं, P नओरवि नरयावासे, J णरयावासे, J सायरोवमट्ठिती णारइओ, P नेरईए उवविओ, J P om. [मुणिणो].
27 > J चेय. 28 > J -प्पहारा, J -ठिती P ट्ठिती, J सोहम्मे. 29 > J om. चइऊण, P सो हं दिट्ठो तुम्हेहिं, P om. जाओ. 30 >
P महारोवरे, P आउक्खएण. 31 > P जाओ । तओ वि गारहरत्थं, P तवसंजमं for संजमजोयं. 32 > J om. य
after मरिऊण, J om. य before केवली, J णिअ for णियय. 33 > J तीय, P निय for णियय.

- 1 'संपयं' ति चिंतेमाणेण दिट्ठा सा वि तम्हाओ णरयाओ उब्बट्टिऊण पडमणयरं णाम णयरं । तत्थ पडमस्स रण्णो सिरीकंठा 1
 णाम महिला तीय उयरे धूयत्ताए उववण्णा । तम्मि य समए जाय-मेत्ता । तं च दट्टण जाइ-मेसे उव्वाहओ इमस्स रोसो इमाए
 3 पुब्बं अहं विण्णिव्वाहओ' ति । 'ता कथं संपयं वच्चाह' ति चित्तयंतो गुरु-कोव-पुरपुरायमाणो समागओ वेण्ण । 3
 गहिया य सा तेण बालिया । वेत्तूण य उप्पहओ भागओ दक्खिणं दिसाभोयं । तत्थ विंण-सिहर-कुहरंतराले चित्तिउं
 पयत्तो । किं ताव । अवि य ।
 6 'किं पक्खिवेमि समुदे किं वा पुण्णेमि गिरि-णियंबम्मि । किं खहरं पिव णेमो मलेमि किं वा करयलेहिं ॥ 6
 अहवा गहि णहि दुट्ठ मए चित्तियं । ण जुज्झइ मह इमं ति । जेण इत्थिय ति इत्थि-वज्झा, बाल ति बाल-वज्झा, अयाणिय
 ति भूण-वज्झा, असरण ति एकिय ति सब्बहा इमम्मि चेव कंतारम्मि उज्झामि । सयं चेव एथ माणुस-रहिए असेसोवाय-
 9 विरहिया मरिहिइ, महा-पक्खीहिं वा विलुप्पिहिइ, सावएहिं व खज्जिहिइ' ति चित्तयंतेण उज्झिया गवणयत्ते कमेण य 9
 णिवट्ठिया । अवि य ।

किं विज्जाहर-बाला अह णिवट्ठइ चंदिमा मियंकस्स । विज्जु व्व घणबभट्ठा तारा इव णिवट्ठिया सहसा ॥

- 12 णिवट्ठमाणी य आसासिया पवणेण । णिवट्ठिया य तम्मि पएसे महंताए जालीए अणेय-गुविल-गुम्म-कोमल-किसलयाए । 12
 ण य तीए विवत्ती जाया । तओ णिवट्ठिया लोलमाणी जालिय-मज्झुद्देसे ।

- § २१३) एत्थंतरे य तथा-विह-धम्म-कम्म-भविष्यव्याए एयम्मि चेष पएसे समागया गबभ-भर-वियणा-विभ्रलंगी
 16 वण-मय-सिलिंबी । सा य तं पएसं पाविऊण पसूया । पसव-वियणा-मुच्छा-विरमे य तीए णिरुवियं, विट्ठं च तं मय-16
 सिलिंबियं बालिया य । चित्तियं च तीए इमं मह जुवलयं जायं ति । मुद्ध-सहावत्तणेण ण लक्खियं । विण्णं यणं एक्कं
 बालियाए दुह्यं मयलीयस्स । तओ एएण पओएण सा जीवमाणी जीविया । सा य मई तम्मि चेष पएसे दिवहे राईए
 18 अच्छिउं पयत्ता । आव इएसि परिसक्खिउं पयत्ता, तओ मिलिया मय-जूहस्स, किर मईए एसा जाय ति ण उच्चियंति सारंगया । 18
 ण य तीय तत्थ कोइ माणुसो विट्ठो । तओ तत्थेय मय-दुद्ध-पुट्ठा वड्डिउं पयत्ता । तओ भो भो विज्जाहरा, तत्थ सा
 अरण्णम्मि भममाणी जोस्वणं पत्ता । तत्थ य अच्छमाणीए कुडंगाई घराइं, णिद्धे पक्खिणो, वंधवे वणर-स्त्रीवे, मित्तं
 21 तरुयरा, असणं वण-फलाइं, सलिलं णिज्जर-पाणियं, सयणं सिलायलाइं, विणोओ मयउल-पट्टि-सिहरोल्लिहणं ति । अवि य, 21
 गेहं जाण तरु-तलं फलाइ असणं सिलायलं सयणं । मित्तं च मय-कुलाइं अहो कयत्था अरण्णम्मि ॥

- तओ सा मय-जूह-संगया माणुसे पेच्छिऊण मय-सिलिंबी इव उव्वुण्ण-लोयणा पलायइ । तेण ओ, जं तुब्भेहिं पुच्छियं
 24 जहा का उण एसा वणम्मि परिवभमइ, ता जा सा मह भइणी पुव्व-भवे आसि सा णरयाओ उब्बट्टिऊण एत्थ उववण्णा । 24
 ण य कयाइ माणुसो तीए दिट्ठो, तेण दट्टण तुब्भे सा पलाण ति । एत्थंतरम्मि भणियं विज्जाहरेहिं णरवइणा य
 'अहो महावुत्तंतं, अहो कट्टं अण्णाणं, अहो विसमं मिच्छत्तं, अहो भय-अण्णो पमाओ, अहो दुरंता ईसा, अहो कुडिला
 27 कम्म-गाई, अहो ण सुंदरो सिणेहो, अहो विसमा कज-गाई । सब्बहा अइकुडिलं देव-विलसियं । अवि य । 27

अकयं पि कयं तं चिय कयं पि ण कयं अदिण्णमवि विण्णं । महिकायणस्स चरियं देव तए सिक्खियं कइत्था ॥

- अणियं च तेहिं 'भगवं, किं सा भव्वा, किं वा अभव्व' ति । भगवया भणियं 'भव्वा' । तेहिं अणियं 'कहं वा सम्मत्तं
 30 पावेहिइ' । भगवया भणियं 'इमम्मि चेष जम्मम्मि सम्मत्तं पावेहिइ' । तेहिं अणियं 'को से धम्मायरिओ होहिइ' । 30
 भगवया अणियं मं उदिसिऊण 'जो एस राय-कीरो एसो इसीए धम्मायरिओ' ति । तेहिं अणियं 'कहं एसो तं वणं
 पावेहिइ' । भगवया अणियं 'इमा चेष राय-धूया पेसिहिइ' । इमं च वयणं णिसाम्भिऊण पियामहस्स राय-धूयाए
 33 कोमल-करयलंगुली-संवलंत-णह-मउहाए अणियं । 'भगवं, समाइससु जइ किंचि कम्म इमेण कीरेणं, किं पेसेमि !' 33

1 > P पडमनयरे, P om. णाम णयरं । तत्थ, P सिरीकंताए. 2 > P महादेवीए for णाम महिला तीय उयरे, J om. य after तम्मि, P om च. 3 > P पुव्वमइं. 4 > J उत्तरं for दक्खिणं. 5 > J om. किं ताव. 6 > J किं पक्खिवामि P किं वाखिवेमि ['वमि], P वहरं for खहरं, P ता for वा. 7 > P मे for मए, J om. ति. 8 > P एकिय, J चेअ, J चेअ, P आयससोवायरहिया. 9 > J मरीहिहापक्खीहिं, P पक्खिहि P विलुप्पिहिइ, J बा for व, P गयणे कमेण. 11 > P om. अह, P adds किं before चंदिमा, P मयंकस्स, 12 > J om. य before आसासिया, P om. य, P पएसं, J गुहिल. 13 > P से for तीए, J om. लोलमाणी, P जालिमज्झुद्देसे । एत्थंतरो य. 14 > P om. कम्म, J भविअव्वताए, P विम्वलंगी. 15 > P पयवियण, J तीय. 16 > P सिलिंबिबालिया, P जुवलं. 17 > P मयलीयस्स, P मती for मई, J दिअहे दिअहे राईएण अच्छिउं. 18 > P परिवभमिओ सक्किया, P om. पयत्ता, तओ मिलिया etc. to वड्डिउं पयत्ता । 19 > J om. तओ before भो भो. 20 > P वानरलीवा. 21 > J वणहलाइं P वणफलाइं, J सिरोहिहणंति. 22 > J तरुअरे J मयउलाइं, J कयत्थो. 23 > J व for इव, P उव्वुण्ण, P पलाइ, P om. ओ. 24 > J काऊण, P परिभमइ, P उवट्टिऊण, J एत्थोववण्णा. 25 > P om. य, J तीय, P तुब्भे सा पुलाय ति. 26 > P om. महा, P वुत्तंतो, J अयावणओ. 27 > P कम्मगती, P अइकुडिलं देवविलसियं. 28 > P देव तइ. 29 > P अभववा for अभव्व ति, P om. भगवया, P तेण for तेहिं. 30 > P पाविहिइ, J पाविहिति । तेहिं, P सो for से. 31 > J अहं for मं, P om. एसो इसीए, P adds अहि after तेहिं. 32 > P पावेहिइ, P भणिओ, P राधूया, J पेसिहिति P पेसिहिइ, P वयणं पियामहस्स संतिथं सुणिऊण रायं. 33 > P करयंगुली, J मयूहाए, P किंचि कम्मं.

- 1 भगवत्या भणियं 'अभिवचं देवाणुपिए, मा पडिबंधं करेसु । कायव्वमिणं भवयाणं, किच्चमेयं भवियाणं, जुत्तमिणं भव्वाणं, 1
जं कोह कथ्यह भव्व-सत्तो अरहंतताणं भगवंताणं सिव-सासय-सोक्ख-सुह-कारणं मग्गमिं पडिबोहिज्जह' ति । इममिं य
3 भणिए 'जहाणवेत्ति' ति भणमाणीए अहूपिओ तह वि भत्तीए 'अलंघणीय-वयणो भगवं' ति सिटिलियाई पंजरस्स 3
सत्ताया-बंधाहं । भणियं च तीए । अबि य ।

वर-पोमराय-वयणा पूस-महारयण-णील-पक्ख-जुया । अडभत्थिओ ति वर-सुय कह्या वि हु वंसणं देजा ॥

- 6 अहं पि णीहरिओ पंजराओ । ठिओ भगवओ केवलिणो पुरओ । भणियं च मए । 6

जय ससुरासुर-किंणर-मुणि-गण-गंधव्व-गमिय-पाय-जुया । जय सयल-विमल-केवल-जाणिय-तेलोक्क-स्वभाव ॥

- ति भणमाणेण पयाहिणीकओ भगवं पणमिओ य । आउच्छिओ य णरवइ । दिट्ठा य रायधूया । वंदिऊण य सव्वे उप्पइओ 9
धोय-असि-सच्छहं गयणत्वलं, समागओ इमं वणंतरालं । एत्थ मम्मतेण दिट्ठा मए एसा, भणिया य 'हला हला बालिए' । 9
इमाए य इमं सोऊण ससंकिओव्वेव-भीय-खोयणाए पुलइयाई दिसि-विभायाई जाव दिट्ठो अहं । तओ एस वण-कीरो
ति काऊण ण पलाइया । तओ अहं आसण्णो ठिओ । पुणो भणियं 'हला हला बालिए' ति । इमाए य किं किं पि अक्खत्तं
12 भणियं । तओ मए गहियं एक्कं चंचूए सहयार-फलं । भणियं च मए 'रोणह एयं सहयार-फलं' । गहियं च तीए । 12
पुणो मए भणियं 'सुं च इमं सहयार-फलं' । तओ खाइउं पयत्ता । पुणो मए भणिया 'मा खायसु इमं सहयार-फलं' । पुणो
भणइ 'किं किं पि अक्खत्तखरं तुमं भणसि' । मए भणियं एयं सहयार-फलं भणइ । तं पुण बाला महिला भण्णसि । अहं
15 राय-कीरो भण्णामि । एसो हक्खो भण्णइ । एयं वणं भण्णइ । इमं गहियं भण्णइ । इमं मुक्कं भण्णइ । एए वाणर-लीव 16
ति । एवं च मए बालो विव सव्व-सण्णाओ गहिया । एवं च इमिणा पओणेण अक्खर-लिपीओ गहिया । तओ
धम्मत्थ-काम-सत्थाइं अहीयाइ । सव्वहा जाणियं हियाहियं । अवगयं अक्खाभक्खं । सिट्ठं कजाकजं ति । अणं च ।

- 18 गज्जति जेण भावा वूरे सुहुमा य ववहिया जे य । ते मि मए सिक्खविद्या णिउणं वयणं जिणवरारणं ॥ 18
साहिओ य एस सयलो जुत्ततो जहा तुमं पडमराइणो धूया, वेरिएण एत्थ आणीय' ति । भणिया य मए एसा जहा
'एहि, वच्चामो वसिमं, तथ भोए वा सुंजसु परलोयं वा करेसु' । इमीए भणियं 'वर-सुव, किमेत्थ भणियव्वं,
21 सव्वहा ण पडिहायइ महं वसिमं' ति । किं कारणं । जेण दुल्लक्खा लोयायारा, दुरुत्तरा विसया, चवला इंदिय-सुरंगा, 21
णिंदिओ विसय-संगो, कुवासणा-वासिओ जीवो, दुस्सीलो लोओ, दारुणो कुसील-पसंगो, बहुए खला, विरला सक्खणा,
पर-तत्ति-तग्गओ जणो, सव्वहा ण सुंदरो जण-संगो ति । अबि य ।

- 24 पर-तत्ति-तग्गय-मणो दुस्सीलो अलिय-जंपओ चवलो । जथ ण दीसइ लोओ वणं पि तं चेय रमणिज्जं ॥' 24
भणिऊण इहेव रण्णुदेसे परिसडिय-फासुय-कुसुम-फल-कंद-पत्तासणा तव-संजमं कुणमाणी अच्छिउं पयत्ता । तओ जं तए
पुच्छिच्चं भो रायउत्त, जहा 'कथ तुमं एत्थ वणम्मि, किं वा कारणं' ति तं तुह सव्वं साहियं ति ।

- 27 § २१४) एत्थंतरम्मि ईसि-पणय-सिरो पसारिय-करयलो उद्धाविओ रायतणओ । भणियं च णेण 'साहम्मियं 27
वंदामि' ति । रायकीरेणावि भणियं 'वंदामि साहम्मियं' ति । तओ तीए भणियं 'भणियाए लक्खिओ चेय अग्हेहिं
जहा तुमं सम्मत्त-सावओ ति । किं कारणं । जेण केवलि-जिणधम्म-साहु-संजम-सम्मत्त-णाणाइं किरिया-कलावेसु णामेण वि
30 धेप्पमाणेसु सरय-समय-राई-सयल-ससंक-लंछण-दोसिणा-पूर-पसर-पवाह-पव्वलणा-वियसियं पिव चंदुज्जयं तुह मुहयंदं ति । 30

एत्थंतरम्मि स्रो पसदिल-कर-वलय-दिट्ठ-वलि-पलिओ । अह जोष्वण-गलिओ इव परिणमिउं णवर आठत्तो ॥

इममिं य वेले वड्ढमाणे भणियं णियाए 'रायउत्त, अहंइत्तो मज्झणह-समओ, ता उट्टेसु, ण्हाइउं वच्चामो' ति

1 > P देवाणुपिए, J भववाणं P भवियाणं, after कायव्वमिणं भवियाणं किच्च P adds a long passage कालंतरेण परिनिष्पन्नो etc to परपुरित्तो को वि पासं from the earlier context p. 125, ll. 10-18. 2 > P को वि कथं वि भव्व. 3 > J जहाणवेहि (?) ति, P om. तह, P om. भत्तीए, J भत्तीए भगवं अलंघणीओ ति सिटिलि, J पंजरसणाया. 4 > J om. अबि य. 5 > J महारायणील, J य वि for वि हु, 6 > J अह वि णीहरिओ, P ट्ठिओ. 7 > P सभाव. 8 > P काओ for कओ, P om. य after आउच्छिओ, दिट्ठा and वंदिऊण. 9 > J उप्पइओ य धोआसिसच्छमं. 10 > P om. य before इमं, P ससंकिओव्विगलोयणाए, P दिसिवहारं. 11 > P adds आसओ ठिओ before हला, बालिय, P om. य before किं. 12 > J चंचू for चंचूए, P om. भणियं च मए रोणह एयं सहयारफलं, J adds य before मए. 14 > P भणिया for भणइ, P अक्खत्तंखरं, P adds किं before तुमं, P एमं for एयं. 16 > J om. च, J पओएण, P लिपीओ. 17 > J अहिआइं, P सिज्जं for सिट्ठं. 18 > P सुहुमा य वायरा जे य । तं पि मए सिक्खकामत्थाइं अहीयाइं सव्वहा जाणियं हियाहियं वियानिउणं वयणं जिणवरारणं । साहिओ. 19 > P om. य, P ए for एस, P दुत्ततो for जुत्ततो, J जह, P तुहं for तुमं, J वत्थु for एत्थ, P आणिय. 20 > J इमीय, P वरसुय. 21 > P पडिहाइ मह, P लोयायारो, J दुत्तरा, P चंचला for चवला, P तुरंगमा. 22 > J adds संगो before जीवो, J दुस्सीलो. 24 > P वरं for वणं, P चेव. 25 > P इहेवारव्रदेसे, P repeats फासुय, J पयत्त ति. 26 > J repeats भो, J adds कारणं जेण after किं वा, P साहिय. 27 > P उद्धाविओ, P साहम्मिय. 28 > J तीय, P भणियाए for भणियाए. 29 > J om. जेण, J केवल, P समत्त. 30 > P सयलससिलंछणजोसिणा, P om. पवाह, P पवालणा, P तुहयंदं ति. 31 > P वलियलिओ.

१ समुद्रिभो य रायतणभो । उवगया य तस्सासम-पपसस्स दक्खिणं दिसा-भायं । थोयंतरेण दिट्ठं एकम्मि उसिय-सिय-विह- 1
गिरि-सिहर-कुहरंतरालम्मि विमल-जलुक्कलिया-लहरि-सीयल-जलोज्जरं । तथ य तीर-तरुवरस्स हेट्ठो संठिभो । संठियाणि 1
३ मियाई वक्कलाई । कुसुम-पुडयाई गहियाई । फलिहामलिणीय पडियाई सुक्कामलाई रुक्खाई सिलायलम्मि । उल्लियाई ३
उत्तिमंगाई । मज्जिया जहिल्लं । परिहियाई कोमल-धोय-धवल-वक्कल-दुज्जलाई । गहियं च पडमिणी-पुडए जलं । तं च
वेत्तूण च्लिया उत्तरं दिसाभोयं । तथ य एक्कम्मि गिरि-कंदराभोए दिट्ठा भगवभो पढम-तित्थ-पवत्तगस्स उसह-सामिस्स 3
६ फलिह-रयणमई महापडिमा । तं च दट्टण णिभर-भत्ति-भरावणउत्तमंगेण 'णमो भगवभो पढम-तित्थयरस्स' ति भगमाणेण 6
कओ कुमारेण पणामो । तओ ण्हाणिभो भगवं विमल-सल्लिलेण, आरोवियाई जल-थलय-कुसुमाई । तओ कय-पूया
महाविहिणा थोऊण पयत्ता । अवि य ।

९ जय पढम-पया-पथिव जय सयल-कला-कलाव-सत्थाइ । जय पढम-धम्म-देसिय जय सासय-सोक्ख-संपण्ण ९
त्ति भगमाणेण णमिए च्लणे । तओ एणियाए वि भणियं ।

'लच्छण-लच्छिय-वच्छयलाए पीण-समुण्णय-भुय-जुयलाए । मत्त-महागय-गइ-सरिसाए तुज्ज णमामि पए जिणयंद ॥'

१२ त्ति भण्णीए पणमिभो भगवं । वंदिभो य रायतणभो । सुएण वि भणियं । 12

'तिरिया वि जं सउण्णयो तुह वयणं पाविऊण लोयम्मि । पावंति ते वि सगयं तेण तुमं पणमिमो पयत्तेण ॥'

ति इमाए य गीइयाए थुणिऊण णिवडिभो च्लणेसु कीरो । पुणो वंदिभो कुमारो एणियाए । तओ आगया तं पएसं 15
जत्थासमं । तथ य पडियग्गयाई मय-सिल्लिबयाई, संवग्गियाई वाणर-लीवाई, भोजियाई असेस-सुय-सारिया-सउण-सावय- 15
संवाइ । पणमियाई च कुमारस्स सुह-सीयल-साउ-सुरहि-पिक्क-पीवर-वण-फलाइ । पच्छा जिमियं एणियाए कीरेण य ।

§ २१५) तओ आयत्त-सुई-सत्येदिय-गामाण य विविह-सत्य-कला-कहा-देसि-भासा-णाण-दंसण-चरित्त-तित्थादिसय-

१८ वेरग्ग-कहासुं अच्छंताणं समागयं एक्कं पत्त-सबरि-सबर-जुवलयं । तं च केरिसं । अवि य । 18

कोमल-दीहर-वल्ली-बडुद्ध-जडा-कलाव-सोहिल्लं । णाणा-विह-वण-तरुवर-कुसुम-सयावद्ध-धम्मेल्लं ॥

गिरि-कुहर-वियड-सामल-धाउ-रसोयलिय-सामल-च्छायं । सिय-पीय-रत्तवत्तय-चच्चिर-चच्चिक-पहरिकं ॥

२१ अइथोर-धणत्थल-घोलमाण-गुंजावली-पसाहणयं । सिय-सिहि-पिंछ-विणिम्मिय-चूडालंकार-राहिल्लं ॥ 21

मयगल-गंडयल-गलंत-दाण-घण-वट्ट-विरइयालेक्खं । अवरोप्पर-सीविय-पत्त-वक्कलुक्केर-परिहणयं ॥ ति । अवि य ।

कोलउल-कालयक्कं दाहिण-हत्थम्मि दीहरं कंडं । वामे कयंत-भुय-दंड-सच्छहं धणुयरं धरियं ॥

२४ तस्स य सबर-जुवाणस्स पासम्मि केरिसा वर-जुवाणिया । अवि य । 24

बहु-मुत्ताहल-रूहरा चंदण-गय-दंत-वावडा सुयणू । सिय-चारु-चमर-सोहा सबरी णयरी अयोज्ज इव ॥

उवसपिऊण य तेहिं कओ पणामो रायउत्तस्स एणियाए कीरस्स य । णिप्पणा य एक्कम्मि दूर-सिलायलम्मि । पुच्छिया य 27

एणियाए सरिर-कुसल-वट्टमाणी । साहिया य तेहिं पणउत्तमंगेहिं, ण उण वायाए । णिक्खित्तं च तं कालवट्टं धरणीए । 27

सुहासणत्था जाया । कुमारेण य असंभावणीय-रूव-सोहा-विरुद्ध-सबर-वेस-कोऊहलुप्फुल्ल-लोयण-जुयलेण य णियच्छियं 30
पायग्गाओ जाव सिहग्गं ति । चित्तियं च हियएण । अवि य,

३० एक्कस्स देहि विहवं रूवं अण्णस्स भोइणो अण्णे । हय देव्व साहसु पुंडं कोडिल्लं कथं ते घडियं ॥ 30

ता धिरत्थु भावस्स । ण कज्जं लक्खणेहिं । विहडियाई लक्खणाई, अप्पमाणाई सत्थाई, असारीकया गुणा, अकारणं 30
वेसापारो, सच्चहा सच्चं विवरीयं । अण्णहा कथं इमं रूवं लक्खण-धंजण-भूसियं, कथं वा इमं हयर-पुरिस-विरुद्धं

१) J om. य before रायतणभो, P पपसस्स पच्छिमदक्खिणदिसा, J एक्कं for एक्कम्मि, P उससियं विह्वं, J विह्वरि. २) J

-जलुतरक्कलियासल्लं सीअल, J हेट्ठाओ, P संठिया निम्मियाइ. ३) P om. कुसुमपुडयाइ, J फालिआमलिणीयलपडियाइ.

४) J परिहिआ कोमल, J om. पडमिणी. ५) J वलिया for चलिया, P om. पढम, J पवत्तयस्स उसम-. ६) J फडिअ for

फलिह, P om. रयण, J भत्तिभरावणयुत्तमंगेण, P वणपुत्तमंगेण. ७) J inter. पणामो and कुमारेण, P थलकुसुमाइ. ८)

J विहाणाइ for महाविहिणा, P थुणिऊण for थोऊण. ९) J जय for सयल, P om. कला, P सत्थाइ, P देसय. १०)

P om. तओ, J एणियाए P पडियाए. ११) P लच्छिय, P भुयलाए, J जिणयंदाए त्ति. १२) P सुएण. १३) P सवण्णया,

P पयत्तएणं. १४) J om. ति, P इमाए, J एणियाए P पणियाइ, P आगयाइ तं. १५) J पडिअगिआइ, J सेस for असेस.

१६) P सीयलाओ साओ, J वणहलाइ P वणफलाइ. १७) P देसिहासा, P तित्थाइसयवरग्ग १८) P पत्तं, J om. सबरि.

१९) J दीहरपलीवडुद्ध P वलीवडुद्ध, P तरुवर, J समावद्ध. २०) P पीव for पीय, J रत्तवत्तय, P चच्चिय, J सच्चिक for चच्चिक.

२१) P राहिल्लं. २२) J om. वण, J वट्ट for वट्ट, २३) P वाम. २४) P वरजुवाणिया. २५) P सुयणु, J अयोज्ज.

२६) P य तेहिं, P om. य. २७) J पणयुत्तमंगेहिं, J om. तं. २८) J लोअणुजुअलेण. २९) P सिरग्गं. ३०) P देह,

P रूयं, J देव, P कोडिल्लं, J ए for ते, J पडिमं P पडियं. ३१) P रूवस्स for भावस्स, J कलुणेहिं for लक्खणेहिं, J उप्पमाणाइ.

३२) J रूवजणभूसिअं.

1 पत्तं सवरत्तणं ति चित्तयतेण भवियं 'एणिए, के उण इमे' ति । एणियाए भणियं 'कुमार, एए पत्त-सवरया, एए वणे ।
 णिवसंति, अणुदिणं च पेच्छामि इमे एए पएसे' । तणे कुमारेण भणियं 'एणिए, ण होति इमे पत्त-सवरय' ति । तीए
 3 भणियं 'कुमार, कहं भणसि' । 'अणमि समुह-सत्थ-लक्खणेण' ति । तीए भणियं 'किं सामुहं कुमारस्स परिणयं' । तेण
 भणियं 'किंचि जाणामि' । तीए भणियं 'अच्छंतु ताव इमे पत्त-सवरया, अणसु ता उचरोहेण पुरिस-लक्खणं' ति । कुमारेण
 भणियं 'किं वित्थरओ कहेमि, किं संखेवओ' ति । तीए भणियं 'केसिं वित्थरओ संखेवओ वा' । कुमारेण भणियं
 6 'वित्थरओ लक्खण्यमाणं, संखेवओ परिहायमाणं आव सत्थस्सं सर्वं सिल्लोणं वा' । तीए भणियं 'संखेवओ साहसु' ।
 तेण भणियं ।

'गतेधेन्यतरो वर्णः वर्णाद्धन्यतरः स्वरः । स्वराद्धन्यतरं सर्वं सर्वं सत्त्वे प्रतिष्ठितम् ॥

9 एए संखेवो' ति ।

§ २१६) भणियं च तीए इति विहसिऊण 'कुमार, एए अहसंखेवो, सक्कयं च एयं, ता मणयं वित्थरेण मणसु
 पायएणं' ति । तेण भणियं 'अह एयं ता णिसुणसु । अवि य ।

- 12 पुव्व-कय-कम्म-रइयं सुहं च दुक्खं च आवए देहे । तथ वि य लक्खणाहं तेणेमाहं णिसामेह ॥ 12
 अंगाहं उवंगाहं अंगोवंगाहं तिण्णि देहमि । ताणं सुहमसुहं वा लक्खणमिणमो णिसामेहि ॥
 लक्खिज्जह जेण सुहं दुक्खं च णरण दिट्ठि-सेत्ताणं । ते लक्खणं ति भणियं सक्खेसु वि होइ जीवेसु ॥
 16 रत्तं सिण्हि-मउयं पाय-तलं जस्स होइ पुरिसस्स । ण व सेयणं ण वकं सो रावा होइ पुइए ॥ 16
 ससि-सूर-वज-वकं-कुसे य संखं च होज छत्तं वा । अह बुद्ध-सिण्हिआओ देहाओ होति णरवइणो ॥
 भिण्णा संपुण्णा वा संखाहं देति पच्छिमा भोगा । अह खर-वराह-अणुय-लक्खंका पुण्णिका होति ॥
 18 वट्टे पायंगुट्टे अणुकूला होइ भारिया तस्स । अंगुलि-पमाण-मेसे अंगुट्टे भारिया बुइवा ॥ 18
 जइ मज्झिमाएँ सरिसो कुल-बुद्धी अह अणमिया-सरिसो । सो होइ जमल-अणओ पिउणो मरणं कण्ठिपीए ॥
 पिहुलंगुट्टे पहिओ भिणयग्णेण च पावए विरहं । भग्गेण निच्च-दुहिओ जह भणियं लक्खणण्णुहिं ॥
 21 दीहा पपसिणी जस्स होइ महिलाहि लंघिओ पुरिसो । स चिय मडहा कळहणियस्स पिय-पुत्त-विरहं वा ॥ 21
 अह मज्झिमा य दीहा धण-महिल्लाणं विवासणं कुण्ह । तइया दीहा विजाहियाण मडहा पुणो कण्णा ॥
 जइ दीहा तुंगा वि य पपसिणी पेच्छसे कणिट्ठा वा । तो जणणी जणयं वा मारेइ ण एए संवेहो ॥
 24 उत्तुंग-गहा धण्णा पिहुलेहिं णरा सुहाहं पावेति । सक्खेहिं दुक्खिया वि य आयरिस-समेहिं रायाणो ॥ 24
 तंवेहिं दिव्व-भोगी सुहिओ पउमेहिं णरवइ-पुत्तो । समणे सिएहिं पाएहिं फुल्लिण्हिं च दुस्सीलो ॥
 मज्जे संगित्त-पायाणं इत्थि-कज्जो महं भवे । णिमंसा उक्कडा जे य पाया ते धम्म-वजिया ॥
 27 जे दीह-थूर-जंघा वराह-जंघा य काव-जंघा य । ते दीह-दुक्ख-भागी अल्लानं निच्च पडिचण्णा ॥ 27
 जे हंस-आस-वारण-चक्काय-ओर-मयवइ-वस्स-समा । ते होति भोग-भागी गइहिं सेसाहिं दुक्खत्ता ॥
 जाणू जस्स भवे गूढो गुणो वा सुसमाहिओ । सुहिओ सो भवे जिच्च वड-जाणू ण सुंदरो ॥
 30 जइ दक्खिणेण चलिंयं लिंयं तो होइ पुत्तओ पढंमं । अह वामं तो धूया भोगा पुण उज्जए होति ॥ 30
 दाहिण-पलंब-वसणे पुत्तो धूया य होइ वाममि । होति समेसु य भोगा दीहर-वट्टेसु तह पुत्तो ॥
 जइ होति तिण्णि वसणा सुहुमा धा वट्टिया तओ रावा । उक्खुडुए घोवाउ होइ पलंबमि दीहाउ ॥
 33 ञ्हस्सो पउम-सवण्णो मणि-मज्जो उण्णओ सुही लिंयो । वक-विचण-सुदीहे भिण्णयले होइ दोहरंमं । 33

1 > [पत्तसवरत्तणं], P एते for ए. 2 > J पत्तसवरे ति P पत्तसवरय ति, J तीअ for तीए. 3 > P adds सा before समुह, P om. सत्थ, P लक्खणेहि ति, J तीअ, J परिइअं for परिणयं. 4 > J तीअ, P ता for ताव, J लक्खणं च ति. 5 > J वित्थरओ, J संखेवओ, J तीअ भणियं, J वित्थरं for वित्थरओ. 6 > P जाय for जाव, J तीअ. 8 > P गतेधेन्यं. JP वर्णः [वर्णा], JP वर्णाद्धन्यतरः JP स्त्वं, P सत्त्वे प्रतिष्ठितमिति. 9 > J संखेवओ. 10 > P adds सि before इति, J inter. एअं & च, J adds एअं before ता. 12 > J अणुहं च for दुक्खं च, J एणि इमाहं for तेणेमाहं, J णिसामेहि. 13 > J उवंगाह य अंगो. 15 > P रत्तसिण्हिं, P होति for होइ. 16 > P होइ for होज, P बुद्धि. 17 > P संखाहं, P अहि for अह. 18 > P अंगुलपमाण. 19 > J अहमयाभिआ सरिसा । ता होइ जमलअणओ. 20 > P पिहुलंगुट्टो. 21 > P दीहाए for दीहा, P महिलाहं लंघिउं, P विरहो व्व. 22 > J om. य. 24 > J आयरिय- P आयस. 25 > P दीह for दिव्व, J भागी for भोगी, J पाएहिं for पउमेहिं, J रत्ता for पुत्तो, P सिएहिं पीएहिं वडहा दुस्सीलो फुल्लिं, J om. च, P om. दुस्सीलो. 26 > J मज्जे, P कज्जे वहतवे. 27 > J थूर for थूर. 28 > P हंसवायवचकापोरायमयवइसगाहिं, J मयवसह, P गतीहिं. 29 > P हु before तो. 30 > P लिंयं विणयं for चलिंयं लिंयं, J भोगा उण. 31 > P विसणो for वसणे, P होति for होइ, J अपएसु (corrected as तह पुत्तो) P पूएसु. 32 > P विसणा for वसणा, P भा for वा, P वड्डिया, J उक्कडए. 33 > P उज्जओ for उण्णओ, P मज्जे, J सुदीहो.

- 1 जो कुणइ मुत्त-छही बहु-वीयं मोत्तियप्पभं होइ । णीलुप्पल-दहि-मंडे हरियालाभे य रायाणो ॥ 1
- मंसोवइया पिहुला होइ कडी पुत्त-धण-लाभाए । संकड-न्हस्साए पुणो होइ दरिदो विप्लो य ॥
- 3 वसह-मउरो तिंहो वधो मच्छो य जइ समा उयरे । तो भोगी वट्ठमि य सुरो मंडूक-कुच्छी य ॥ 3
- गंभीर-दक्खिणावत्ता णाभी भोगाण साहिया होइ । तुंगा वामावत्ता कुलक्खयं कुणइ सा णाही ॥
- पिहुलं तुंगं तह उण्णयं च सुत्तिण्ड-रोम-मउयं च । वच्छयलं सुहियाणं विवरीयं होइ दुहियाणं ॥
- 6 सीह-सम-पट्टि-भाया गय-दीहर-पट्टिणो य ते भोगी । कुम्म-सम-पुट्टि-भाया बहु-पुत्ता अत्थ-संपण्णा ॥ 6
- उबड-बाहुणो बद्धा दासा उण हौंति मडह-बाहुणो पुरिसा । दीहर-बाहू राया पलंब-बाहू भवे रोगी ॥
- मेस-विस-दीह-खंधो णिम्मंसो भार-बाहलो पुरिसो । सीह-सम-मडह-मंसल-वग्घ-क्खंधे धणं होइ ॥
- 9 दीह-किस-कंठ-भाया पेसा ते कंठु-कंठया धणिणो । दीहर-णीमंस-णिहो बहु-पुत्तो दुक्खिओ पुरिसो ॥ 9
- पीणोटो सुभगो सो मडहोटो दुक्खिओ चिरं पुरिसो । भोगी लेबोटो वि य विसमोटो होइ भीसणओ ॥
- सुद्धा समा य सिहरी धण-णिद्धा राइणो भवे दंता । विवरीया पेसाणं जह भणियं लक्खणणूहिं ॥
- 12 बत्तीसं राईणं एकत्तीसं च होइ भोगीणं । मज्झ-सुहाण य तीसं एत्तं उणा अउण्णाणं ॥ 12
- अइ-बहु-थोवा सामा मूसय-दंता य ते णरा पावा । वीभच्छ-करालेहि य विसमेहि हौंति पावयरा ॥
- काला जीहा दुहिणो चित्तलिया होइ पाव-णिरयाणं । सुहुमा पउम-दलाभा पंडिय-पुरिसाण णायच्चा ॥
- 15 गय-सीह-पउम-पीया तात्तु य हवंति सूर-पुरिसाण । कालो णासेइ कुलं णीलो उण दुक्खओ होइ । 15
- जे कौंच-हंस-सारस-पूसय-सहाणुलाइणो सुहिआ । खर-काय-भिण्ण-भायल-रुक्ख-सरा हौंति धण-हीणा ॥
- सुहओ विसुद्ध-णासो अगम्म-नामी भवे उ छिण्णम्मि । [.....] ॥
- 18 दीहाए होइ सुही चोरो तह कुंचियाए णासाए । चिविडायं होइ पिसुणो सुयणो दीहाए रायाणो ॥ 18
- सुई-समण-णासो पावो तह चैव वंक-णासो य । उत्तुंग-थोर-णासा हल-गोउल-जीविणो हौंति ॥
- मयवइ-वग्घ-सरिच्छा णीलुप्पल-पत्त-सरिसया दिट्ठी । सो होइ राय-लच्छी जह-भणियं लक्खणणूहिं ॥
- 21 महु-पिंगलेसु अत्थो मज्जार-समेहिं पावओ पुरिसो । मंडल-णिडभा चोरो रोद्धा उण केयरा हौंति ॥ 21
- गय-णयणो सेणवई इंदीवर-सरिसएहिं पंडियया । गंभीरं चिर-जीवी अप्पाऊ उच्यल्लेहिं भवे ॥
- अइकसण-तारयाणं अच्छीण भणंति कइ वि उप्पाइं । थूलच्छो होइ मंती सामच्छो दुक्खओ होइ ॥
- 24 दीणच्छो धण-रहिओ विउलच्छो होइ भोग-संपण्णो । गिस्सो खंडपच्छो अइरत्तो पिंगलो चोरो ॥ 24
- कौंगच्छो वह-भागी रुक्खच्छो दुक्खिओ णरो होइ । अइविसम-कुक्कडच्छो होइ दुराराहओ पुरिसो ॥
- कोसिय-णयणालोए पुज्जो महुपिंगलेसु सुहयं ति । [.....] ॥
- 27 काणाओ वरं अंधो वरं काणो ण केयरो । वरसंधो वि काणो वि केयरो वि ण कायरो ॥ 27
- एएहिं समं सुदरि पीई मा कुणसु तेहिं कलहं वा । पुरिसाहमाण पढमा एए वूरेण वज्जेसु ॥
- मुत्त-विउद्धु इव जहा अबद्ध-लक्खा अकारणे भमइ । रुक्खा गिलाण-रूवा दिट्ठी पावाण णायच्चा ॥
- 30 उज्जयमवलोपंतो तिरियं पुण कोवणो भवे पुरिसो । उद्धं च पुण्ण-भाभी अहो य दोसालओ होइ ॥ 30
- हीण-भुमयाहिं पुरिसा महिला-कजे य बंधया हौंति । दीहाहिं य पिहुलाहिं य सुहया ते माणिणो पुरिसा ॥
- मडहैहिं य थूलैहिं य महप्पमाणेहिं हौंति धण-भागी । मूसय-कण्णा मेहाविणो य तह रोमसेहिं चिरजीवी ॥
- 33 विउलम्मि भालवट्टे भोगी चंदण सरिसए राया । अप्पाऊ संखित्ते हुंडे पुण दुक्खिया हौंति ॥ 33

1 > J मोत्तियं पभं P मोत्तियप्पभो. 2 > J मंसोवधिया. 3 > J मंडूक; P कुक्खी य. 5 > J adds य before रोम, J वच्छयलं, J विरायइ for सुहियाणं. 6 > P पट्टि for पुट्टि. 7 > J भोगी for रोगी. 8 > J adds हंर after णिम्मंसो, P सामल for मंसल, J क्खंधे, P खंडे, P हौंति for होइ. 9 > J हाया for भाया, P धणिणा, J णिहू P विवू, J दक्खिओ for दुक्खिओ. 10 > J वीभणओ for भीसणओ. 11 > J विवरीता, P पेसाणं for पेसाणं. 12 > J हौंति for होइ. 13 > J थोवा, J मुसादंता, P वीभत्स; J विसमेहि य हौंति. 14 > P जीवा सुहिणो, P पाव for पाण. 15 > J पीता, P तात्तुया हवंति, P दुक्खिओ. 16 > J ओ for जे, P सारसमूसय, J सहाणुणाराणो, P सुहिओ, P भायणरुक्खयरा. 17 > P अनंगामी, J तु for उ. 18 > J om. होइ, J कुंचिताए, P चिविडीय. 19 > P सुई for सुही, J चैव, J वकणासो, P थोरनासो. 20 > J सरिसआय जा दिट्ठी. 21 > P पिंगलेसु, P मंडलजुणहा चोरो, P रोद्धो, P केयरो होइ ॥. 22 > P सेणावई, J गंभीरेहिं चिर°. 23 > J अइकसिण, P मई for मंती, J सावच्छो, P दुहवो. 24 > P संपुणो, J अतिरत्तो. 25 > P कागच्छो for कौंगच्छो. 26 > P नयणोलाए, J पुज्जामड, P सुहियं. 27 > P वरसंधो काणा य वरं न. 28 > J एतेहिं, J पीति. 29 > J युत्ता विद्धव्व P सुचुविउद्धो व्व. 30 > P उज्जयमबलायतो, J adds उज्जु before तिरियं, J om. पुण, J om. भवे, P उद्धं, J भाई अंधो य, P त for य. 31 > J वज्जेहिं बंधया, P य कड्या, P पुरिसो ॥. 33 > J भालवट्टो, P सरिसओ.

- 1 दीह-वयणा य णीया पिहुले उण होंति के वि कंतारा । चक्कागारे णीया वयणे पुण लक्खणण्णहिं ॥ 1
 वाम-दिसाए वामा भावत्तो जस्स मत्थए दिट्ठो । कुल-धण-धमिया-रहिओ हिंडउ वीसत्थओ भिक्खं ॥
- 3 दाहिण-दिसाए सब्बो भावत्तो होइ कह वि पुरिसस्स । तस्स धण-धण-सोक्खा लच्छीए भायणं होइ ॥ 3
 वामावत्तो जइ दाहिणम्मि अह दाहिणो व्व वामम्मि । तो होइ सोक्ख-भागी पच्छा पुरिसो ण संदेहो ॥
 जइ होंति दोण्णि सब्बा भावत्ता तो भवे पुहइ-भसा । सब्बावत्तो सुहओ वामो उण वूहवो होइ ॥
- 6 मउथा पिद्धा सुहया अणलाभा कलह-कारया होंति । केसा रुक्खा मलिणा झुडिया दारिहवताणं ॥ 6
 बर-सुह-भाला पिहुला गंभीरा सह-सत्त-गाभीया । णह-दंत-तया-केसा सुहुमा पुहइवई होंति ॥
 जइ णास-वच्छ-कंठो पिट्ट-मुहं च अइउण्णयं होइ । अह पाणि-पाय-लोयण-जिम्भा रत्ता सुही राया ॥
- 9 कंठं पिट्ठी लिंगं जंघे य हवंति जहस्सया एए । पिहुला हत्था पाया दीहाउ सुत्थिओ होइ ॥ 9
 चक्खु-स्सिणेहे सुहओ दंत-स्सिणेहे य भोयणं मिट्ठं । तय-णेहेण उ सोक्खं णह-णेहे होइ परम-धणं ॥
 केस-णेहेण मल्लोई भोए भुंजति सव्वहा । मंसलं णेहवत्तं च सव्वं तं सुह-भायणं ॥
- 12 होइ गइए गौरवं दिट्ठीए णरीसरो सरेण जसो । गोरो सोमो णिद्धो होइ पभू जण-समूहस्स ॥ 12
 होइ सिरी रत्तच्छे अत्थो उण होइ कणय-पिंगम्मि । होइ सुहं मासलए पलंब-बाहुम्मि इस्सरियं ॥
 अण्णाणी ण सुणासो ण वहइ भारं सुसोहिय-क्खंओ । सत्थेण णत्थि सुक्खं ण य मग्गइ सुस्सरो किंचि ॥
- 15 अइदीहा अइइरसा अइथूला अइकिसा य जे पुरिसा । अइगोरा अइकसिणा सव्वे ते दुक्खिया होंति ॥ 15
 जे कोसिय-रत्तच्छा कायच्छा होंति दहरच्छा य । अइकायर-कालच्छा सव्वे ते पाद-संजुत्ता ॥
 तय-रोम-णहा दंता केसा ओट्टा तहा य णयणेसु । जइ णत्थि तेसु णेहो भमिया भिक्खा वि णो तस्स ॥
- 18 पावेइ उर-विसालो लच्छि तह पुत्तए कडी-पिहुलो । पिहुल-सिरो धण-धणं पिहु-पाओ पावए दुक्खं ॥ 18
 जइ होंति भालवट्टे लेहाओ पंच दीह-पिहुलाओ । तो सुत्थिओ धणद्धो वरिस-सयं जीवए णिययं ॥
 चत्तारि होंति जस्स य सो णवइ जीवए असी वा वि । अह तिण्णि सट्ठि वरिसा अह दोण्णि य होंति चालीसा ॥
- 21 अह कह वि होइ एक्का रेहा भालम्मि कस्स वि णरस्स । वरिसाई तीस जीवइ भोगी धण-धण-संपण्णो ॥ 21
 होइ असीइ अन्नमो णवइ पुण अंगुलाई मज्झिमओ । अट्ट-सयं जो पुरिसो सो राया णिच्छिओ होइ ॥
 एसो संखेयेणं कहिओ तुह पुरिस-लक्खण-विसेसो । जइ वित्थरेण इच्छसि लक्खेहि वि णत्थि णिप्फत्ती ॥
- 24 § २१७) तीए भणियं 'कुमार, सुंदरं इमं, ता किं तए जाणियं इमस्स पुरिसस्स' । तेण भणियं 'एणिए, जहा 24
 इमस्स सुहाई लक्खणाई दीसंति, तेण जाणिमो को वि एस महासत्तो पत्त-सबर-वेस-पच्छाइय-णिय-रूवो पत्थ विंझ-
 वणंतराले किं पि कळंतरं अणुपालयंतो अच्छिउं पयत्तो । भणियं च ।
- 27 ता णेंति किं पि कालं भमरा अबि कुडय-वच्छ-कुसुमेसु । कुसुमेंति जाव चूया मयरंदुहाम-णीसंदा ॥ 27
 इमिणा ण होइयव्वं पत्त-सबरेणं' ति । इमं च सुणिऊण सबर-पुरिसेण चितियं । 'अहो, जाणइ पुरिस-लक्खणं । ता
 ण जुत्तं अहइ इह अच्छिउं, वच्चामो अहइ जाव ण एस जाणइ जहा एस अमुगो' ति चितियंतो समुट्ठिओ पत्त-सबरो
- 30 सवरीय ति । तओ तेसु य गएसु भणियं एणियाए 'कुमार, अहो विण्णाणं ते, अहो जाणियं ते, जं एस तए जाणिओ' 30
 ति । तेण भणियं 'जाणिओ सामण्णेणं, ण उण विसेसेण । ता के उण इमे ति फुडं मह साहसु' ति । भणियं च
 एणियाए 'कुमार, एए विज्जाहरा' । तेण भणियं 'कीस इमो इमिणा रूवेण' । तीए भणियं 'इमाणं विज्जाहराणं जाणहि
- 33 चिय तुमं । भगवओ उसभ-सामिस्स सेवा-णिमित्तं तुट्ठेण धरणिंदेणं णमि-विणमीणं विज्जाओ बहुप्पयाराओ दिण्णाओ ॥ 33

1 > P वदणा, P होइति, P वयणा पुण. 2 > P वामो, P om. धण. 3 > J inter. कह वि and होइ. 4 > P दाहिणो वि वामं ति । ते होइ. 5 > P होइ for होंति, J पुह for पुहइ, P दूरहवो. 6 > P कारिया, P महिला for गलिणा, P फुडिया for झुडिया. 7 > P मुहलाला, J गाभीया । 8 > J adds कक्खा before कंठो, J पिट्ठं, J अतिउण्णयं । अहव णिपातलोयण, P रत्ता for लोयण. 9 > J कंठं पट्ठी, J दीहाउ सुत्थितो. 10 > J ण for य, P भोयणं दिट्ठं, J तु for उ. 11 > J मल्लोदी, P भुंजइ for भुंजति, J मासालं. 12 > J प गतीए, J दिट्ठीय, P गौरवं ट्टिए नरं सरो, P गोरो सामो, P पभू. 13 > P सुहं सामलय, P ईसरियं. 14 > P अन्नानं गुणयंतो न इवइ तारं, J दुक्खं for सुक्खं. 15 > J अदिदीहा अदिइरसा अतिथूला अनिकिसा, J अनिगोरा अतिकसिणा, J दुक्खिता. 16 > P या ।, J अतिकायर. 17 > J ओट्टा P उट्टा, J भमिता 18 > J उरविसालो, P कडिणिहुलो, J विहुवातो for पिहुपाओ. 19 > J भालवट्टे, P भालवलेराओ, P ते for तो. 20 > J तु for य, P सो नउयं, J णवति जीवाओ असीनि वा, J om. अह दोण्णि य होंति चालीसा. 21 > J inter. होइ and कह वि, P एक्को, J जीवति. 22 > J होति असीति, J णवति, P निच्छओ. 23 > J adds तुह after एसो, P लक्खेण. 24 > J तीय, P ति । for ता, P किं तयए, P सुह for जहा इमरस सुहाई. 25 > J णियय. 26 > J चिट्ठइ for अच्छिउं पयत्तो. 27 > J आउलीय for कुडयवच्छ. 28 > P om. इमिणा ण तो सबरेणं ति ।, J च सोऊण सबरेण चितियं. 29 > P अम्हाण इहाच्छिउं, P om. अहइ, J अमुओ for अमुगो, P अम्भुट्ठिओ for समुट्ठिओ. 31 > J केण उण, P om. मह. 32 > J एते, J इमेण for इमो, J तीय, J इमिणा for इमाणं. 33 > P उसहसामियरस, P विज्जा बहु.

- 1 ताणं च कप्पा साहणेवात्ता, काओ वि काळ-मज्जाणएहिं साहिजंति, काओ वि जळणे, अण्णा वंस-कुंरगे, अण्णा जयर-
चखरेसु, अण्णा महाकईसु, अण्णा गिरिवरेसु, अण्णा कावाळिव-वेस-घारीहिं, अण्णा मातंग-वेस-घारीहिं, अण्णा रक्खस-
3 रुवेणं, अवर वाणर-वेसेणं, अण्णा पुळ्ळिद-रुवेणं ति । ता कुमार, इमाणं सावरीओ विज्जाओ । तेण इमे इमिणा वेसेणं 3
विज्जा साहिउं पयत्ता । ता एस विज्जाहरो सपत्तीओ । असिहारएण बंभ-वरिया-विहाणेण एत्थ विवरइ' ति । भणियं
च कुमारेण 'कहं पुण तुमं जाणासि जहा एस विज्जाहरो' ति । तीए भणियं 'जाणामि, गिसुयं मए कीरेण साहियं ।
6 एकम्मि दियहे अहं भगवओ उसभ-सामियस्स उवासण-णिमित्तं उवास-पोसहिया ण मवा फळ-एस-कुसुमाणं वंसतरं । 6
कीरो उण गओ । आगओ य विवहस्स बोलीणे मज्जाण्ह-समए । तओ मए पुच्छिओ 'कीस तुमं अज्जं इमाए केहाए
आगओ सि' । तेण भणियं 'ओ वंशियासि तुमं जीए ण दिट्ठं तं लोयणाण अक्खेरय-भूयं अग्निदुव्वं' ति । तओ एस मए
9 सकोउहलाए पुच्छिओ 'वयस्स, दे साहसु किं तं अच्छरियं' । तओ इमिणा मह साहियं जहा 'अहं अज्ज गओ वणंतरं' । 9
तथ य सहसा गिसुओ मए महंतो कलयलो संख-तूर-मेरी-णिणाय-मिस्सिओ । तओ मए सहसुभंतेण विष्णं कण्णं कव्वरीए
उण दिसाए एस कलयलो ति । जाव गिसुयं जत्तो-हुत्तं भगवओ तेळोक-गुरुणो उसह-सामिस्स पडिमा । तओ अहं कोऊहला-
12 उरमाण-माणसो उवगओ तं पएसं । ताव पेच्छामि विच्चं णर-गारीयणं भगवओ पुरओ पणमं करेमाणं । 12
§ २१८) तओ मए चित्तियं इमे ते देवा णीसंसयं ति । अहवा ण होति देवा जेण ते दिट्ठा मए भगवओ केवलिणो
केवल-महिमागया । ताणं च महियलमि ण कर्माति चलयया ण य णिमेस्संति णयणाइ । एयाणं पुण महिवट्ठे संटिया
15 चलणया, णिमिसेंति णयणाइ । तेण जाणामो ण एए देवा । माणुसा वि ण होति, जेण अहकंत-रूवाविसया गयणंगण- 15
चारिणो य इमे । ता ण होति धरणीयरा । के उण इमे । अहवा जाणियं विज्जाहरा इमे ति । ता पेच्छामि किं पुण इमेहि
एथ पारदं ति चित्तयंतो गिसण्णो अहं चूय-पायवोवरमि । एत्थंतरमि गिसण्णा सब्बे जहारुहं विज्जाहर-णरवरा विज्जा-
18 हरीओ य । तओ गहियं च एकेण सव्व-लक्खणावयव-संपुणेण विज्जाहर-जुवाणएण पउम-पिहाणो रयण-विचिचो कंचण- 18
घडिओ दिव्व-विमल-सलिल-संपुण्णो मंगल-कळसो । तारिसो चैय दुइओ उक्खित्तो ताणं च मज्जे एकए गुरु-णियंब-विंब-
मंथर-गई-विक्खास-चलण-परिक्खलण-क्खलिय-मणि-णेउर-रणरासह-मिलंत-ताळ-वसंदोलमाण-बाहु-रइयाए विज्जाहरीए ।
21 वेत्तूण य ते जुवाणया नो वि अल्लिणा भगवओ उसभ-सामिय-पडिमाए समीवं । तओ 'जय जय' ति भणमाणेहिं समकालं 21
चिय भगवओ उचित्तंगे विवसिय-सरोरुह-मयरंद-बिंदु-संदोह-पूर-फसरंत-पवाह-पिंजरिज्जंत-धवल-जलोज्जरो पलोहिओ कणय-
कलस-समुहेहिं । तओ समकालं चिय पहयाइं पढहाइं । ताडियाओ झळरीओ । पवाइयाइं संखाइं । पगीयाइं मंगलाइं ।
24 पडिमाइं शुइ-वयणाइं । जवियाइं मंताइं । पणचिया विज्जाहर-कुमारया । तुट्ठाओ विज्जाहरीओ । उच्चं पडंति किंपुरिस ति । 24
तओ के वि तथ विज्जाहरा णहंति, के वि अण्णोडेति, के वि सीह-णावं पमुंचंति, के वि उक्खिट्ठि कुंमंति, के वि हल्लहल्यं,
के वि जयजयावेति, के वि उप्पयंति, अण्णे णिवयंति, अवरं जुज्जंति । एवं च परमं तोसं समुच्चहिउमादत्ता । तओ
27 भगवं पि ण्हाणिओ तेहिं जुवाणएहिं । पुणो विल्लित्तो केण वि सयल-वणंतर-महमहंत-सुरहि-परिमलेणं वणंगराय-जोणेण । 27
तओ अतोवियाणि य स्विच-रत्त-कस्सिण-पीव-णील-सुगंध-परिमलायडिियालि-माळा-बलय-मुहलाइं जळ-थळव-विच्च-कुसुमाइं ।
उप्पात्थियं च कालापूर-कुंदुरुक-मयणाहि-कप्पर-पूर-उज्जमाण-परिमल-करविज्जमाण-धूम-धूसर-गवणयलावद्ध-मेह-पडल-
30 संकास-हरिस-डडुंड-तडुविय-सिंहडि-कुल-केयारवारद-कलयलं धूव-भायणं ति । एवं च भगवंतं उसह-प्याइं पइउण गिवेइयाइं 30

- 1) P om. काओ वि काळ-मज्जाणएहिं साहिजंति, P ओओ वि जळणे. 2) P om. अण्णा मातंगयेमधारीहिं. 3) P अज्जा (for अवर) वा नरवेसेणं, P इमाओ for इमाणं, P om. इमे. 4) J P पयत्तो, P असिहारणेण, P वियरत्ति कुमारेण भणियं यं कहं. 5) J तीव for तीए, P om. जाणामि, P कीरसयासाओ for कीरेण साहियं. 6) P adds मि after एकम्मि, P उसह-ज-सामिस्स, J उवासओसहिया, P om. पत्त. 7) P था for य, J बोलीए, J om. तओ मए पुच्छिओ, J तुमं मज्जं एमाए. 8) P भणियं उवन्नियासि, P om. तं, J भूयं P-भूयं. 9) J वएम for वयस्स, J साह किं तं अच्छरीअं, J inter. अज्ज & अहं. 10) P om. मए, J णिणाओ । तओ, P तए for तओ, J सहसुभंतरेण P सहसुत्तरेण. 11) P सुणियं for गिसुयं, J भगवओ उसभस्स पडिमा । तओ अइं पि कोऊहल्लहल्लज्जणरमाणमाणसो, P कोऊहल्लज्जणरणसो. 12) J जाव for ताव 13) P देव निस्संसयं, P writes केवलिणो four times. 14) P केवलिमहिमां P महियलं च, J om. य, P निमिसंति, P एयादुं पुण J महिवट्ठा, P संटिया. 15) J जाणामो, P मणुसा, P रूवाविसया. 16) J वारिणो for चारिणो, P मणुया for धरणीयरा, J adds वा after धरणीयरा. 17) P पायवमाहाणं । 18) P om. विज्जाहरजुवाणएण, P रयणचिचो. 19) P om. चैय, J दुइओ, P अक्खित्तो for उक्खित्तो, P om. च, J गिरि for गुरु. 20) P गइ for गई, P-व्वलिय, J विज्जाहरीओ. 21) P जुवाणेया, P उसहसामियपडिमासमीवं, J जयजयंति 22) J मयरंद P मयरिंद, J पूरवरसपवाह, P जरोज्जरो. 23) J कलसमुहेहिं, P adds ताइं after पढहाइं, P पगीयाइं. 24) J जइयाइं मंताइं, J किंपुरिसा सत्ति (अत्ति?), P किंपुरिसा । केइ तथ. 25) P उक्खिट्ठि, P om. के वि हल्लहल्यं । के वि जयजयावेति । 26) P om. च after एवं, P तोसमुच्चहिं. 27) J णिम्महंत for महमहंत, P वणंगराय, J जोणेण. 28) J सुगंध. 29) P वसंधुरक, P धूमसतर, P पडह for पडल. 30) P उइं, J-कुले, P केयापारद.

1 केहिं पि पुरभो णाभाविहार्हं सज्ज-वेज-विसेसाहं । तन्नो समकालं चिय विष्वाहिं जुह्वेहिं शुणित्ठण भगवन्ते कथं एहं 1
काउसग्गं धरणिदस्स णाम-रह्णो आराहणवत्तिपाए, दुइयं जीवियवमहियाए जग्ग-महिसीए, तइयं सावरीए महाविजाए ।
3 एवं च काउण णमोक्कार-पुब्बयं अचकारियाहं अंगामो रणणाहरणाहं, परिहियाहं पच्च-वक्कलाहं, गहियं कोण्डं सरं चाचडो 3
वद्धि-कयाहिं उद्धो उमर-वेस-पच्चमारो पडिवण्णो पच्च-सवर-वेसं । सा वि जुवाणिया गुंजा-क्क-माला-विमूल्या पडिवण्णा सक्-
रिच्छं । तन्नो एवं च तथं पडिवण्ण-सवर-वेसाणं साहिवा महारावाहिराएण सवराहिवहणा महासावरी विजा कम्भे ताणं
6 जुवाणयाणं । तेहिं पि रह्व-कुसुमंजली-सणाहेहिं पडिवण्णं । साहियाणि च काहं पि समवाहं । पडिवण्णं मूण्णयं ति । 6
तन्नो पणमिभो भगवं, वंदिओ गुरुयणो, साहम्मिय-ज्जो य ।

१ २१९) तन्नो भणियं एहेणं तथं मज्झाओ विजाहराणं जावद्ध-करवलंजलिणा । 'भो भो लोणपाला, भो भो 9
विजाहिवहणो, णिसुणोसु आधोसणं । आसि विजाहराहिवहं पुब्बं सवरसीलो णाम सक्व-सिद्ध-सावर-विजा-कोसो महप्पा 9
मूण्णभत्तो । से य अणेष-विजाहर-परिंद-सिर-मउड-चूडामणि-णिहस्सिय-क्कणवट्टो रज्जं पालिक्कण उप्पण्व-वेरग-ज्जो
पडिवण्ण-जिणवर-वचण-किरिया-मग्गो सक्व-संग-परिच्छायं काउण एयं गिरि-कुहरे टिओ । तस्स पुत्तेण सवर-सेणावह-
12 णमवेएण महाराहणा असीए गुरुणो पीईए पिउणो एत्थ गिरि-कुहरम्मि एसा कडिग-सेल्लमहं अग्गवडो उसमस्स पडिमा 12
णिवेसिया । तप्पभूईं चैय जे सावर-विजाहिवहणो विजाहरा ताणं एवं सिद्धि-खेसं, इमाए पडिमाए पुरभो दाव्वा, एत्थ
वणे विवरिच्चवं । ताणं च पुब्ब-पुरिसाणं सक्व-कालं सक्वाओ विजाओ सिज्जन्तीओ । तन्नो इमस्स वि सक्वणाह-पुत्तस्स
16 सवरीदस्स सवर-वेसस्स भगवओ उसम-सामिस्स पभावेणं धरणिदस्स णामेणं विजाए सिण्णिहेणं सिज्जउ से विज्ज ति । 15
अग्ग भो सक्वे विजाहरा, 'सक्व-संगलेहिं पि सिज्जउ से कुमारस्स विज्ज' ति । तन्नो सक्वेहि वि समकालं भणियं । 'सिक्कउ
से विजा, सिज्जउ से विज्ज' ति भणित्ठण उप्पइया तमाल-दल-सामलं गयणयलं विजाहरा । तन्नो ते दुचे वि पुरिसो
18 महिसा य इहेव टिया पडिवण्ण-सवर-वेस ति । 18

१ २२०) तन्नो कुमार, इमं च सोऊण महं महंतो क्खेउहलो आसि । भणियं च मए 'बर्बस, कीस तए कइं च 1
पेक्कविद्या नं तारिसं दंसणीयं' । भगवओ पूया रह्या, साहम्मिया विजाहरा विजा-पडिवण्णा च । अणादियं तं तुह 21
परिसं ति । तन्नो इमिणा भणियं 'सीए वेलाए तेण अपुब्ब-क्खेउएण मे अत्ताणयं पि पम्हुट्टं अक्कसु ता तुमं ति । ता संपयं 21
तुह ते विजा-पडिवण्णे सवर-वेस-धारिणो जुवाणे दंसेमि' ति । मए भणियं 'एवं होउ' ति । गवा तं पएसं जाव ण विट्ठा ते
सवरया । पुणो अणम्मि दिवहे अग्गां पडिमं णमोक्कारयंतणं आगया विट्ठा ते अग्गेहिं । तेहिं पि साहम्मिय ति काउण 24
24 कओ कारण पणामो, ण उण वायाए । तप्पहुईं च णं एए अग्गाणं उडएसु पडिवण्णममाणा दिवहे विवहे पावंति । तेण 24
कुमार, अहं जाणिमो इमे विजाहरा । इमेणं मह कीरेणं साहियं इमं ति । तए पुण सरीर-क्कण-विहाणेणं चैय जाणिया ।
अहो कुमारस्स विण्णाणाइस्सो, अहो कुस्सलत्तणं, अहो बुद्धि-विसेसो, अहो सत्थ-भिममायत्तणं । सक्वहा
27 जिणवर-वयणं अमयं व जेण आसाहयं कयत्थेण । तं णत्थि जं ण-याणह सुक्कएइवेण भावाणं H 27
ति भणमाणीए पसंसिओ कुमारो ति ।

१ २२१) तन्नो थोच-वेल्हए च भणियं कुमारेण । 'एणिए, 30
एहं भणामि वयणं कडुयमण्हं च मा महं कुप्प । दूस्सहज्जिं पि सइति णवर अक्करिचया सुक्कणा H' 30
स्संसंयं च चितियं एणियाए 'किं पुण कुमारो णिट्ठरं कडुयं च भणिहिइ । अहवा,

1 > J काणि for केहिं, P थुतीहिं, P कयमेक्कं. 2 > P धरणिदत्तागं, J णागरण्णो, P आराहणवत्तिं, J om. जीवियवमहियाए.
3 > P om. च, P om. परिदियादं, J परिहिहारं दिआहं पत्तं, J कोण्डसरं, P च वद्धो वल्लियाहिं उमर. 4 > J उमर for
उमर, P वंसं for वेसं, J सवरत्तणा । 5 > P पडिवण्णं, P सवराहिवहणो, J महासावरा, P तत्तो for कण्णे. 6 > J पडिवण्णो ।
P मूण्णयं. 7 > J inter. गुरुभणो and वंदिओ, J साहम्मियणो, J om. व. 8 > P एक्कोणं, P लंजलिणो । J लोअपाला.
9 > J अधोसणं, J सिद्धसवर, P -विज्जो-. 10 > P चूडामणिसियक्कणवट्टो, J सियवल्लयवट्टो रज्जं, J पाविक्कण, P उप्पण्वेरगमग्गो,
11 > J एत्थ, P सेणावहणा व नाम । तेण महाराहणो. 12 > P पीतीय, J हरिस for कडिग, P उसहरस्स. 13 > P सवरविजा.
J वंईणो, [either वाक्कवा or पूया दाव्वा, for दायव्वा]. 14 > J रण्णे for वणे, P विजाओ विज्जन्तीओ. 15 > P om.
सवरवेस्सस्स, P उसह for उसम, P साणिहेणं सिज्जओ, 16 > P सिज्जओ, J मि for वि, P सिज्जउ से विज्जा सिज्जउ, P adds वि
after से. 18 > P टिया. 19 > J inter. महं and महंतो. 20 > J om. रद्या, J च । परिसं तुह अणादियं ति । 21 > J
तीव, P om. तेण, J आ for ता. 22 > P om. ते, P जुवाणए, P विट्ठो. 23 > J णमोक्कारयंतणं, P om. ते. 24 > P
तप्पभूईं च एए, J दिअसे दिअसे. 25 > P om. मह, P उण ण for पुण, J विहाएण. 26 > J विण्णाणादिसयो. 27 > P समयं
for अमयं, J सुअप्पइएण P सुअप्पइएण. 28 > J भणमाणीय. 29 > P थोचवेलाए. 30 > J च मा इ कुप्पक्का । दूस्समण्हं,
P वि for पि, P नर for णवर. 31 > J भाणिहिइ.

- 1 अवि णिवडह अर्धिगाल-मुम्मुरो चंद-मंडलाहितो । तह वि ण जंपह सुयणो वयणं पर-वृसणं दुसहं ॥ 1
ति चित्तयतीए भणियं 'दे कुमार, भणसु जं भणियव्वं, ण ए कुप्पामो' ति भणिए जंपियं कुमारेण ।
- 3 'संतोसिज्जह जलणो पूरिज्जह जलणिही वि जलएहिं । सज्जण-समागमे सज्जणाण ण थ होइ संतोसो ॥ 3
ता पुणो वि भणियव्वं । अच्छह तुम्भे, मए पुण अवस्सं दक्खिणावहं गंतव्वं ति, ता वच्चामि' । एणियाए भणियं 'कुमार,
अइणिट्टरं तए संलसं' । कीरेण भणियं 'कुमार, महंतं किं पि दक्खिणावहे कज्जं जेण एवं पत्थिओ दक्खिणं दिसाहोयं' ।
- 6 कुमारेण भणियं 'रायकीर, एमं णिमं, महंतं चेय कज्जं' ति । कीरेण भणियं 'किं तं कज्जं' ति । कुमारेण भणियं 'महंतो एस 6
वुत्ततो, संखेवेण साहिमो ति । अवि य,

पढमं अठ्ठम्यणयं दुइयं साहम्मियस्स कज्जं ति । तइयं सिव-सुह-मूलं तेण महंतं इमं कज्जं ॥'

- 9 ति भणमाणो समुट्ठिओ कुमारो । तओ ससंभमं अणुणओ एणियाए कीरेण थ । तओ थोवेतरं गंतूण भणियं एणियाए 9
'कुमार, जाणियं चेय इमं महंत-कुल-पभवत्तणं अग्हेहिं तुज्जं । तह वि साह अग्हेणं कयरं सणाहीकर्यं कुलं एएण
अत्तणो जम्मेण, के वा तुज्जं तुमंग-संग-संसग्गुलसंत-रोमंच-कंचुय-च्छवी-रेहिर-चलण-जुयला गुरुणो, काणि वा सयल-
- 12 तेलोक्क-सोहग्ग-सायर-महणुग्गयामय-णीसंद-बिंदु-संदोह-घडियाइं तुह णामक्खराइं, कथं वा गंतव्वं' ति भणिओ कुमारो 12
जंपिउं समाढत्तो । 'अवस्सं साहोयव्वं तुम्हाणं, ण वियप्पो एत्थ कायव्वो ति । ता सुणेसु ।

§ २२२) अस्थि भगवओ उसभ-सामिस्स बालत्तण-समय-समागय-वासव-करयल-संगहिउच्छु-लट्ठि-दंसणाहिलास-

- 15 पसारिय-ललिय-मुणाल-णाल-कोमल-बाहु-लयस्स भगवओ पुरंदरेण भणियं 'किं भगवं, इक्खु अदसि' ति भणिए 15
भगवया वि 'तह' ति पडिवज्जिय गहियाए उच्छु-लट्ठीए पुरंदरेण भणियं 'भो भो सुरासुर-णर-गंधवा, अज्जपभिइं
भगवओ एस धंसो इक्खागो' ति । तप्पभिइं च णं इक्खागा खत्तिया पसिद्धा ताव जा भरहो चक्कवट्ठी, तस्स पुत्तो बाहुबली
- 18 थ । तओ भरहस्स चक्कवट्ठिओ पुत्तो आइच्चजसो, बाहुबलिणो उण सोमजसो ति । तओ तप्पभिइं च एणिए, एक्को 18
आइच्च-वंसो दुइओ ससि-वंसो । तओ तथ ससि-वंसे बहुएसु राय-सहस्सेसु लक्खेसु कोडीसु कोडाकोडि-सगसु अइकंतेसु
दढवम्मो णाम महाराया अओज्जापुरीए जाओ । तस्स अहं पुत्तो ति । णामं च मे कयं कुवलयचंदो ति । विजयाए
- 21 णयरीए मज्ज पओयणं, तथ मए गंतव्वं' ति । इममि य भणिए भणियं एणियाए 'कुमार, महंतो संतावो तुह जणाय- 21
जणणीणं । ता जइ तुज्जाहिमयं, ता इमो रायकीरो तुज्जं सरिर-पउत्तिं साहउ गुरुणं' ति । तेण भणियं । 'एणिए, जइ तरइ
ता कुणउ एयं । पूयणिओ गुरुयणो' ति भणमाणो पणामं काउं चलिओ पवणयेओ कुमारो । पडिणियत्ता हियय-मण्णु-
- 24 णिअर-बाह-जल-खव-पडिवज्जमाण-णयणा एणिया रायकीरो वि । कुमारो वि कमेण कमंतो अणेय-गिरि-सरिया-संकुलं 24
विज्जाइं वोलिओ । दिट्ठो थ णेण सज्ज-गिरिवरो । सो थ केरिसो । अवि य ।

बउलेला-वण-सुहओ चंदण-वण-गहण-लीण-फणि-णिवहो । फणि-णिवह-फणा-मंडव-रयण-विसट्टंत-बहल-तिमिरोहो ॥

- 27 तिमिरोह-सरिस-पसरिय-सामल-दल-विलसमाण-तरु-णिवहो । तह-णिवहोदर-संठिय-कोडिल-कुल-कलयलंत-सहालो ॥ 27
कलयल-सहद्वीविय-कणयमउक्खुत्त-बाल-कप्पूरो । कप्पूर-पूर-पसरंत-गंध-लुद्धागयालि-हलबोलो ॥
हलबोल-संभमुम्भंत-पवय-भुय-भूयसेस-जाइ-वणो । जाइ-वण-विहुय-णिवडंत-पिक्क-बहु-सुडिय-जाइ-फलो ॥
- 30 जाइ-फल-रय-रंजिय-सरहर-पज्जरिय-णिज्जर-णिहाओ । णिज्जर-णिहाय-परिसेय-वड्डियासेस-तरु-गहणो ॥ ति 30
इय सज्ज-सेल-सिहरओ णेदण-वण-सरिसओ विभूइयाए दिट्ठो अदिट्ठउव्वओ उक्कंतुलओ जए कुमारेण । तं च पेच्छमाणो
वच्चए कुमार-कुवलयचंदो जाव थोवेतरेण दिट्ठो अणेय-वणिय-पणिय-दंड-मंड-कुडिया-संकुलो महंतो सत्थो । जो व कइसओ ।
- 33 मर-देसु जइसओ उदाम-संचरंत-करह-संकुलो । हर-णिवासु जइसओ ठेकंत-दरिय-वसह-सोहिओ । रामण-रज्ज-जइसओ 33

1 > J अच्चिन्द्राल, J परदुम्भणं. 2 > P om. जं, P भणियं ए जंपियं. 3 > J जयणिहिमि जलएहिं. 4 > J ताव for ता.
5 > P दिसाभोगं. 6 > P एवमिमं । महंतं चेव, P om. तं, J om. एम वुत्तवो. 10 > J कुलप्यभव, J ते for एएण. 11 >
J तुमंगसंगसंसग्गुलसंत-गुलिरोमंच, J repeats चलण, P जुयओ. 12 > J मर for सायर, J महणीसंद.
13 > J om. एत्थ. 14 > P उसह, P समयं, J करयलाओ संगहियच्छु. 15 > P om. णाल, P दसि for अदसि. 16 > P
तहित्ति, J गंधवा मज्जपभुदि भगवओ. 17 > J तप्पभिदि, P om. णं, P इक्खागत्तिया. 18 > J तप्पभूरं. 19 > J कोडाओ-
डीसुएसु. 20 > P दढवम्मो, J अयोज्जा P आउज्जा, J विजयाए थ पुरवरीए मज्जं. 21 > P इयं भणिए, P जणाय. 22 > J
तुम्भेहि for तुज्जाहि, J तुम्भ for तुज्ज, P adds न before तरइ. 24 > J पडिवज्जमाण P पडिवज्जमाण. 25 > P
बोलिय for बोलिओ, P om. थ before णेण. 26 > P फल for फणि, P om. फणिणिवह. 27 > J णिवहोअर, P मंजु for
कलयलंत. 28 > P सहद्वीविय, P मयुक्खुण P मयुक्खुत्त. 29 > J भुआसेस P भूयसेस, P om. जाइवण, J om. विहुय,
P बहुकुडियजाइवलो. 30 > P om. णिज्जर in 2nd line, P परिसेस, P om. ति. 31 > P लेस for सेल, P विभूत्तिए
दिट्ठो व्वओ, J जाए कुमारएण, P च मेच्छमाणो. 32 > P थोवेतरे दिट्ठो, P महंतो हत्थसत्थो. 33 > P हरि for हर, P ठकंत, J
दरियवरवसह, P रञ्ज for रज्ज.

- 1 उद्दाम-पवस-खर-वृषणु । रायंगणु जइसओ बहु-तुरंग-संगओ । विमणि-मगु जइसओ संचरंत-वणिय-पवरु । कुंभारावणु 1
जइसओ अणेय-भंड-विसेस-भरिओ ति । अवि य ।
- 3 खर-गर-करह-सएहि कलयल-वडूत-सज्ज-पडिराव । सत्यं सत्यो पेच्छइ सब्वत्तो सत्य-णिममाओ ॥ 3
§ २२३) तं च वट्टण पुच्छिओ एओ पुरिसो कुमारेण 'भो भो पुरिसा, एस सत्यो कओ आगओ कहिं वा वणीहइ'
ति । तओ भणियं पुरिसेग 'भट्ट, एस विंणपुराओ आगओ कंचीउरिं वणीहिइ' । कुमारेण भणियं 'विजया उण पुरवरी
6 कथ्य होइ, जाणसि तुमं' । तेण भणियं 'भट्टा, वूरे विजया दाहिण-मयरहर-तीर-संसिया होइ' । तओ कुमारेण 6
चिंतियं । 'हमेणं षेय सत्येणं समं जुजइ मह रंतूण थोवंतरं' ति चिंतयंतेण दिट्ठो सत्यवाहो वेसमणदत्तो । भणिओ
7 यणेण 'भो भो सत्यवाह, तुभमेहिं समं अहं किंचि उहेसं वच्चामि' ति । सत्यवाहेण वि महापुरिस-लक्खणाइं पेच्छमाणेण
8 पडिवण्णो । 'अणुगगहो' ति भणमाणेण तओ उच्चलियं । तं सत्यं गंतुं पयत्तं, तम्मि य सज्ज-गिरिवर-महाडईए संपत्तं मज्जुदेसे । 9
9 तथ आवासियं एक्कमि पएसे महंते जलासए । तम्मि य पएसे आसणाओ भिल्ल-पल्लीओ । तेण महंतं भय-कारणं
जाणमाणेण अब्भंतरीकयाइं सार-भंडाई, बाहिरीकयाइं असार-भंडाई, विरइया मंडली, आडत्ता आडियत्तिया, सज्जीकया
12 करबाला, णिबद्धाओ असि-धेणूओ, आरोवियाइं कालवट्टाई, गिरुवियं सयलं सत्य-णिवेसं ति । 12
एत्थंतरम्मि सूरु कमेण णह-मंडलं विलंघेउं । तिसिर-महासुर-भीओ पायाल-तलम्मि व पविट्ठो ॥
तस्सानुमग्ग-लग्गो कथ्य य सूरु ति चिंतयतो व्व । उद्धावइ तम-णिवहो दणुहंद-समप्पओ अहरा ॥
- 15 तरुयर-तले सुयइ व विसइ व दरीसुं वणम्मि पुंजइओ । उद्धावइ गयणयले मगइ सूरं व तम-णिवहो ॥ 15
उद्धाइ धाइ पसरइ वियरइ संठाइ विसइ पायालं । आरोसिय-मत्त-महागओ व्व अह तज्जए तिसिरो ॥
इय पुरिसे पओसे तम-णिवहंतरीय-सयल-दिसियक्के । आवासियम्मि सत्ये हमे णिओया य कीरंति ॥
- 18 सामगिया जामइल्लया, गुडिया तुरंगमा, गिरुविया थाणया । एवं बहु-जग-संभम-कलयल-हलबोल-बहुला सा राई 18
खिज्जिउं पयत्ता । अवि य, वियलंति तारया, संकुर्यंति सावया, उप्पयंति पक्खिया, मूयलिज्जंति महासउणा, करयरंति
चडय-कुले ति । तम्मि य तारिसे पहाय-समए भणियं पच्छिम-जामइल्लएहिं । 'भो भो कम्मयरा, उट्टेह, पल्लाणेसु करहे,
21 चलउ सत्यो, देह पयाणयं, विभाया रयणि' ति । इमम्मि य समए पहायाइं तूराइं, पगीयाइं मंगलाइं, पवाइयाइं संखाइं, 21
उट्टिओ कलयलो, विबुद्धो लोओ, पल्लाणिउं पयत्ता । किं च सुविउं पयत्तं । अवि य, अरे अरे उट्टेसु, डोलेसु करहए,
सामग्गोसु रयणीओ, कंठालेसु कंठालाओ, णिक्खिवसु उवक्खरं, संवेलेसु पडउडीओ, गेणहुसु दंडीयं, आरोहेसु भंडीयं,
24 अफोडेसु कुंडियं, गुडेसु तुरंगमे, पल्लाणेसु वेसरे, उट्टावेसु बइले । अवि य, 24
तूरसु पयट्ट वच्चसु चक्कसु य णेय किंचि पइट्टं । अह सत्यो उच्चलिओ कलयल-सई करेमाणो ॥
एरिसम्मि य काले हलबोलिए वट्टमाणे, पयत्ते कलयले, वावडे आडियत्तिय-जणे किं जायं । अवि य,
27 हण हण हण ति मारे-चूरे-फालेह लेह लुंवेह । खर-सिंग-सइ-हलबोल-गडिभणो धाइओ सइ ॥ 27
एत्थाणंतरं च । अवि य,
सो णत्थि कोइ देसो भूमि-विभायम्मि णेय सो पुरिसो । जो तथ णेय विट्ठो अदिट्ट-भिल्लाण भलीहिं ॥
- 30 तओ तं च तारिसं वुत्तं जाणिज्जण आउलीहूओ सत्थाहो, उट्टिया आडियत्तिया, जुजिउं पयत्ता, पवत्तं च महाजुडं । 30
तओ पभूओ भिल्ल-णिवहो, जिओ सत्यो भेल्लिओ य, भिल्लेहिं विलुपिउमाडत्तो । सव्वाइं षेयंति सार-भंडाइं ।

1 > P पयरत्तखरवृषणु, P वियणि for विमणि, P पउर for पवरु, J कुंभारावाउ. 3 > JP वट्टं, P सग for सज्ज, P inter. सत्यो & सत्यं, J सत्यणू for सब्वत्तो. 4 > P वच्चिहि ति. < 5 J om. ति, P महा for भट्ट, P किंचिउरिं, J वणीहिनि P वच्चिहिइ. 6 > P भट्टा, P मयण for मयर, P संठिया for संसिया, P ततु for तत्रो. 7 > P मम गंतुं, J थोवंतरं, P चिंतियण दिट्ठो. 9 > P om. तओ, P उच्चलिओ सत्यो गंतं, J adds च before तं, P पयत्तो । पत्तो य गिरिवरमहाडईए मज्जुदेसं । तथ आवासिओ एक्कमि पएसे आसणाओ. 11 > J बाहिरिं, P असाराई । विरइया, P आयत्तिया. 13 > J पायालयलंमि, P पइट्टो. 14 > P व for य, JP उद्धावइ. 15 > J तरुअरयले सुठाइ व, P वियरइ for विसइ, P om. व, J दरिसुं P दीरीह विणम्मि, P उद्धावइ. 16 > P उट्टाइ ट्टाइ, P पायालो, J आरोसि, J मह for अह, P अह भंजए सूरु. 17 > J णिओआणु कीरंति. 18 > P जामइल्लिया, P राई for राई. 19 > J वियरंति, P उप्पयंति, P मुयलिज्जंति, P करयरंति. 20 > P कुलं ति, J पच्छिमंजामइल्लेहिं, J उट्टेह, P पट्टाणेइ for पल्लाणेसु. 22 > J om. विबुद्धो लोओ, P किंचि, J सुट्टिउं, P पयत्ता, J om. अवि य. 23 > P रयणिओ, P संवेलेसु, J पडउडिं, J रलियं for दंडीयं, P भंडीयं. 24 > P गुटेयु, J वेभसरे. 25 > J om. य. 26 > P om. काले, J om. हलबोलिए, P हलबोलिय, J आवडे for वावडे. 27 > P om. लेहं, P लुंवेह तिरासं । खर. 29 > P कोवि देसो, P बडो for विट्ठो, J अदिट्टं भिल्लमल्लीहिं. 30 > P सत्यवाहो, P आडियत्तियं, P पवत्ता पवत्तं. 31 > P om. भेल्लिओ य, J om. भिल्लेहिं, J मादत्ता, J एत्थंतरंमि for सव्वाइं, J सब्व for सार.

1 § २२४) पृथंत्तरमि सत्याहस्त्र दुहिया धणवई नामा । स्त य विसरे-दिहिं पण्टा । परिवणे वावाह्व-सेत्ते 1
ण्टे य सत्यवाहे भिल्लेहिं पेणमाणी सा वेवमाण-पओहरा महिला-सुलहेण कायरत्तगेण विण्णिज्जमाणी भरहरें-हिण्विषा 3
3 'सरणं सरणं' ति विमग्गमाणी कुवल्लयचंद-कुमारं समलीणा । अवि य, 3

गुह-धण-विषय-पञ्जार-भारिया भिल्ल-भेसिया सुयणु । सरणं विमग्गमाणी कुवल्लयचंदं समलीणा ॥
अभियं च तीए ।

6 'अं वीससि सूर-समो अहं पि भिल्लेहिं भेसिया देव । तुज्ज सरणं पवण्णा रक्खलु जइ रक्खिउं तरसि ॥' 6
कुमारेण वि 'मा भायसु, मा भायसु' ति भणमाणेण एक्कस्स गहियं भिल्लस्स हडेण धणुयं । तं च पेण्ण वरिसिउमाउत्तो 6
स्स-क्खिउं । तओ स्स-णियर-पहर-परइं वल्लियं तं भिल्ल-वळं । तं च पळायमाणं पेच्छिउण उट्टिओ सवं चैव भिल्ल-
9 सेणाहिओ । अभियं च जेण । 'अरे अरे, साहु जुज्जियं । अवि य । 9

आसस्सिय णिय-वळं विण्णिय-सेसं पळाइयं सेणं । आरोस्सिय-मत्त-महागओ इव दुइंसणो वीर ॥

ता एह मज्ज समुहं किं विण्णिवाएस्सि कायर-कुरंगे । वीर-सुवण्णय-वण्णी रण-कसवहम्मि णिवडइ ॥'

12 इमं च भणियं णिसामिउण वल्ल-णयण-जुवलेण णियच्छिउण अभियं कुमारेण । 12

'चोरो ति णिंदण्णो भिल्लो ति ण इंसणे वि म्हा जोगो । एएहिं पुण वयणेहिं मज्ज उभयं पि पम्हुट्टं ॥

छल-घाह ति य चोरो कथ तुमं कथ एरिसं वषणं । ता पत्तिय होसि तुमं मणय म्हा रणंगे जोगो ॥'

15 ति भणमाणस्स पेसिचं कुमारस्स एक्कं सर-वरं । तं पि कुमारेण वूरओ चैव छिण्णं । तओ कुमारेण पेसिया समयं चिय 15

दोण्णि सर-वरा । ते हि भिल्लहिणेण दोहिं चैव सरंहिं छिण्णा । तओ तेण पेसिया चउरो सर-वरा । ते वि कुमारेण

विच्छिण्णा । तओ पयत्तं समजसं जुइं । सर-वर-धाराहिं एरिउं पयत्ता णव-पाडस-समय-जलया विव णहयलं । ण य एओ

18 वि छलिउं तीरइ । तओ सरवरा कथ दीसिउं पयत्ता । अवि य, 18

गयणमि कंमंति सरा पुरओ ते चैव मग्गओ बाणा । धरणिक्कमि य सुत्ता उवरिं हंति अमर इव ॥

एवं च जुज्जमाणेण पीण-भुया-समायङ्गणायासेण दलियाइं कालवट्टाइं, उज्जियाइं धरणिवट्टे, गहियं च वसुणंदयं

21 मंडळगाइं च, दोहिं वि जणेहिं तओ विरहयाइं करणाइं । वलिउं समाउत्ता । अवि य, 21

खण-बलणं-खण-धावण-उवण-संवेहणा-पयाणेहिं । गिहय-पहर-पविच्छण-वारण-संपुण्णगेहिं च ॥

§ २२५) एवं पि पहरंताणं एओ वि छलिउं ण तीरइ । तओ गिट्टर-पहराहवाइं सुसुमूरियाइं दोण्णि वि

24 वसुणंदयाइं, तुट्टाणि य मंडळगाइं । तओ ताइं विउज्जिउण समुक्खयाओ कुवल्लय-दल-सामकाओ वुरियाओ । पुण्णे 24

पहरिउं पयत्ता, उडप्यहार-हत्थावहत्थ-हुल्लिप्यहारेहिं अवरोप्परं । ण य एओ वि छलिउं तीरइ । तओ कुमारेण गुरुयामरिस-

रोस-फुरफुरायमाणाहरेण आबद्ध-भिउडि-भीम-भंगुर-भासुर-वयणेण दिण्णं से दप्प-सायणं णाम अंधं । तओ भिल्लहिणेण वि

27 दिण्णो पडिबंधो । कहं कहं पि ण तेण मोइओ भिल्लहिणेण । तओ चितियं च तेण 'अहो, को वि एस म्हासत्तो णिउणयर-

कला-कोसल्ल-संपुण्णो ण मए छलिउं तीरइ । मए पुण एयस्स हत्थाओ मच्चू पावेयवो । जिओ अहं इमिणा, ण तीरइ

इमाओ समुव्वरिउं । ता ण सुंदरमिमं । अवि य,

30 धी धी अहो अकजं जाणंतो जिगवराण धम्ममिणं । विसयासा-मूढ-भणो गरहिय-वित्तिं समलीणो ॥ 30

जं चिय जेच्छंति सुणी असुहं असुहक्कलं लिहूयणमि । पर-जीविय-धण-हरणं स चिय जीवी अउण्णस्स ॥

चोरो ति णिंदण्णो उट्टिवयण्णो य सब्व-लोयस्स । भूय-दया-दम-रुड्ढो विसेसओ साहु-सत्थस्स ॥

33 हिण्णए जिणाय भाणा चरियं च इमं महं अउण्णस्स । एयं अलप्पालं अओ दूरं विसंभवइ ॥ 33

1 > P सत्ववाहस्स, P धणवई नाम 1, P पण्टु. 2 > P om. व, P विरहरेंतहियया. 4 > P भारिसारिल्लभेसिया सुयणु. 5 > J तीय. 7 > J हरवेण for हडेण, P om, तं, P वरसिउं J वरिसिउं आहत्तो. 8 > P भिल्लवत्तं 1. 9 > P जुज्जियं. 10 > P विण्णिय, J पलाविअं, P वीरो ॥ 11 > P एहि, J महं for मज्ज, P कायरे एरिसे 1, P रणयसवईमि. 12 > P जुयलेण, P inter. कुमारेण & भणियं. 13 > J भओ for भिल्लो, P इंसणो वि, P जोगो, J मज्जा उभय. 14 > P छयवाय ति, J मयण for मणय, P जोगो. 15 > P om. ति, P om. कुमारस्स, P चैव. 16 > P om. दि, P चैव, P छिण्णा for विच्छिण्णा. 17 > J सरवराहिं P सरवराहिं, J पयत्तं, P om. जलया विव णहयलं । ण य. 18 > J सुरामत्थ for सरवरा वरय. 19 > P भमंति for कंमंति, P मग्गए, J om. व. 20 > P एवं च जुज्जमाणेण पीणभुयात्ता । अवि य गयणमि etc. to अमर इव ॥ एवं च जुज्जमाणेण पीणभुया-सण्णाकङ्गणायासेण विउज्जियाइं कालवट्टाइं, P धरणिवट्टे, P व सुणंदयं. 21 > J om अवि य. 22 > P बलणधावण, J उवण-संवेहणापयाणेहिं, P धारण for वारण. 23 > P एवं वि पि, P पहरयाइं, J om. सुसुमूरियाइं. 24 > P नि सुनंदयाइं, P मुक्तयाओ for समुक्खयाओ. 25 > P उडप्यहार, J हत्थव, J हुल्लिप्यहारेहिं P हुल्लिप्यहारिहिं, P गुरुयामरिसफुरफुरा. 26 > भिउडी, P om. भासुर, J दिण्णं विपसातणं, P om. वि. 27 > P कहकहं, J जेण for तेण, J एसो महा. 28 > J संपण्णो, J मए उण, P इमस्स for एयस्स, P अइमिणा, P तीरइमाउ समुव्वरियं. 29 > J ता सुंदरे ण इमं 1. 30 > P धिओ अहो अकजं जं जाणंतो वि जिगवराणमिणं, J वित्ती. 31 > P जं जं नेच्छंति, P असुहं असुहाय वैधि असुहक्कलं 1. 32 > P सब्व for सब्व ('ल struck off in J), P रहिओ for रुड्ढो.

- 1 किंतेषु ताव तं चिय रे हियवय तुज्ज एरिसं जुत्तं । जं जाणतो चिय णं करेसि पावं विमूढो व्व ॥ 1
अजं चयामि कळं सावज्जमिणं जिणेहिं पडिक्कं । इय चित्तं तो चिय से अकय-तवो पाविओ मधुं ॥
- 3 एवं गए वि जइ ता कहं पि बुक्कामि एस पुरिसस्स । अबहत्थिउण सव्वं पव्वजं अबभुवेहामि ॥' 3
त्ति चित्तयंतो मच्छुव्वत्तेण ओसरिओ मग्गओ ऊणं हत्थ-सयं एक्कपएसे उज्जिउण असिधेणुं पलंबमाण-भुयप्फलिहो य
णीसंगो काउस्सग्ग-पडिमं संठिओ ति । अवि य
- 6 अच्छोडिउण तो सो असिधेणुं गिहयं धरणिवट्टे । ओलंबिय-बाहु-जुओ काउस्सग्गं समल्लीणो ॥ 6
सायार-गहिय-णियओ पंच-णमोक्कार-वयण-गय-चित्तो । सम-मित्तो सम-सत्तू धम्मज्जाणं समल्लीणो ॥
तं च तारिसं वुत्तं दट्टण, सोउण य पंच-णमोक्कार-वयणं, सहसा संभंतो पहाविओ कुवलयचंदो । साहम्मिओ ति काउण
- 9 'मा साहसं मा साहसं' ति भणमाणेण कुमारेण अवयासिओ । भणियं च तेण । ' अवि य, 9
मा मा काहिसि सुपुरिस ववसायमिणं सुदुत्तरं किं पि । पच्चक्खाणादीयं णीसंग-सुणीण जं जोगं ॥
एयं मह अवराहं पसियसु दे खमसु कंठ-लमास्स । साहम्मियस्स जं ते पहरिय-पुव्वं मए अंगे ॥
- 12 पावाण वि पावो हं होमि अभव्वो ति गिच्छियं एयं । सम्मत्त-सणाहे वि हु जं एवं पहरियं जीवे ॥ 12
जल्लणम्मि ण सुज्जामो जले ण कत्तो कया वि पडणेण । जइ वि तवं तप्पामो तदा वि सुद्धी महं कत्तो ॥
मिच्छामि दुक्कं ति य तथा वि एयं रिसीहिं आहणं । पुव्व-कय-पाव-पव्वय-पणासणं वज-पहरं व ॥
- 15 ता दे पसियसु मज्झं उवसंहर ताव काउसग्गमिणं । दीसइ बहुयं धम्मं जं कायव्वं पुणो कासि ॥ ति 15
§ २२६) एवं ससंभम-सविणय-भत्ति-जुत्तं च कुमारे विलवमाणे चित्तियं भिल्लाहिवेण । 'अरे, एसो वि साहम्मिओ,
ता मिच्छामि दुक्कं जं पहरियं इमस्स सरीरे । अवि य,
- 18 जो किर पहरइ साहम्मियस्स कोवेण दंसण-मणम्मि । आसायणं पि सो कुणइ गिक्खिओ लोय-बंधुणं ॥ 18
ता अण्णाणं इमं किं करेमि ति । इमस्स एवं विलवमाणस्स करेमि से वयणं । मा विलक्खो होहिइ । मए वि सायारं
पच्चक्खाणं गहियं । ता उसारेमि काउसग्गं' ति चित्तयंतेण गहिओ कुमारो कंठम्मि । 'वंदामि साहम्मियं' ति भणमाणा दो
- 21 वि अवरोपरं हियय-गिहित्त-धम्माणुराया णेह-णिभरत्तणेण पयलंत-बाह-बिंदु-णयण-जुवला जाया । अ वे य । 21
परिहरिय-वेर-हियया जिण-वयणभंत्तर ति काउण । चिर-मिलिय-बंधवा इव ससिणेहं रौत्तुमादत्ता ॥
तभो खणं एक्कं समासत्था भणियं च कुमारेण ।
- 24 'जइ एवं कीस इमं अह एयं वेय ता किमणणेण । जोण्हा-गिम्हाण व से संजोओ तुम्ह चरियस्स ॥' 24
भणियं च भिल्लाहिवेण ।
'जाणामि सुट्ट एयं जइ पडिसिइं जए जिणवरेहिं । कम्मं चोराईयं हिंसा य जियाण सव्वत्थ ॥
- 27 किं वा करेमि अहयं चारित्तावरण-कम्मदोसेण । कारिजामि इमं भो अवसो पेसो व्व णरवइणा ॥ 27
अत्थि महं सम्मत्तं णाणं पि हु अत्थि किं पि तम्मत्तं । कम्माणुभात्र-मूढो ण उणो चाएमि चारिसं ॥
तुम्ह पहावेण पुणो संपइ तव-णियम-ज्ञाण-जोएहिं । अप्पाणं भावेंतो णिस्संगो पव्वइहामि ॥' ति
- 30 भणियं च कुमारेण 'असामणं इमं तुह चरियं, ता साहसु को ति तुमं' । भणियं भिल्लाहिवेणं च । 'कुमार, सव्वहा ण 30
होमि अहं भिल्लो, होमि णं पुण भिल्लाहिवो । इमं च वित्थरेण पुणो कहीहामि कुमारस्स । संपयं पुण दारुणं भयं सत्थस्स ।
विलुप्पइ सत्थो चोर-पुरिसेहिं । ता णिवारणं ताव करेमो' ति भणिउण पहाविओ । भणियं च णेण 'भो भो भिल्लपुरिसा,

1) P आ for चिय. 2) P adds चयामि after कळं, J मधुं. 3) P या for ता, J अहं for कहं. 4) P मच्छुव्वत्तेण, P एक्कपएसे, J -हुयप्फलिहो P -भुयफालिओ नीसंगो काउस्सग्गं पडिमं ठिओ. 6) P om. सो, P धरणिवट्टे. 7) P adds पंचनमो before पंच. 8) P om. य, P संकंतो पहाइओ, P after कुवलयचंदो adds साहं मित्तो समसत्तू धम्मज्जाणं etc. to पहाविओ कुवलयचंदो. 9) P om. 2nd मा, P अवयारिओ. 10) P पच्चक्खाणादीयं निस्संग. 11) J पहरिसपुव्वं. 12) J हं होति अभव्वंति. 13) P नवावि for कयावि, P om. वि after जर. 14) J तह वि इमं रिसीहिं, P आहचं for आहणं. 15) J उवसंहर, P वाव for ताव, P धम्मकायव्वं. 16) P एवं च संभमं, J सविणस, P om. च, P कुमारो विलवमाणो, P om. वि after एसो. 18) P साहं विमियस्स, P दंसणमिणंमि. 19) P अण्णाणमिं. 20) P उरसारेमि, J वंदिअ for वंदामि, P भणमाणो. 21) P धमाणुरायनेह, J बाहु for बाह, P जुवला. 22) P रौत्तुमादत्ता. 23) P inter. एक्कं & खणं. 24) J एयं for एवं, P संजाओ. 26) P सुट्ट, J एवं, P चोराईहिं. 27) P करिमि, P चारित्तावंरण-कम्मदोसे. 28) J तंमत्तं, P adds मं before कम्माणुं. 29) P पभावेण, P inter. च & भिल्लाहिवेणं. 31) P adds न before होमि (second), P om. णं, P हुण for पुण, P सवित्थरं for वित्थरेण. 32) P विलुप्पइ, P om. ताव.

- 1 मा विलुं पड मा विलुं पड सथ्य, मह पायच्छित्तियाए साधिया तुभमे जइ णो विरमह' ति । एवं च सोऊण भिल्लपुरिसा 1
कुड्डालिहिया इव पुत्तकया थंभिया महोरया इव मंतेहिं तदा संठिया । तओ भणियं 'अरे, अणिसह सथवाहं, मं-भीसेह
3 वणिज्जए, आसासेह महिलायणं, पडियग्गह करहे, गेणहह तुरंगमे, पडियग्गह पहरंते, सक्कारेसु महल्ल' ति । इमं च आणं 3
घेत्तूणं पहाइया भिल्ला विसोदिसं । सथवाहो वि तारिसे सथ-विबभने पलायमाणो वणम्मि णिल्लुक्को परिभमंतेहिं पाविओ
भिह्लहिं । तओ आसासिओ तेहिं, भणिओ य 'मा बीहेह, पसणो तुम्हाणं सेणावई' । आणिओ से पासं मं-भीसिओ तेण ।
6 भणियं च सेणावइणा 'भो भो सथवाह, पुणमंतो तुमं, चुक्को महंतीओ आवइओ, जस्स एसो महाणुभागो सम्मागओ 6
सथम्मि । ता धीरो होहि, पडियग्गसु अत्तणो भंडं । जं अत्थि तं अत्थि, जं णत्थि तं एक्कारस-गुणं देमि ति । पेच्छसु पुरिसे,
जो जियइ तं पणवेमि ति । सव्वहा जं जं ण संपइइ तमंइ जाणावेसु' ति भणमाणो घेत्तुं कुमारस्स करं करेण समुट्ठिओ
9 सेणावई पळिं गंतुं समाढत्तो । 9

- § २२७) आढत्ता य पुरिसा । 'भो भो, एयं सत्थाहं सुत्थेण पराणेषु जत्थ भिरुइयं सथवाहस्स' ति भणिऊण गओ
सज्ज-गिरि-सिहर कुहर-विवर-लीणं महापळिं । जा य कइसिय । कहिंवि चारु-चमरी-पिंछ-पबभारोत्थइय-वर-कुडीरया,
12 कहिंवि बरहिण बहल-पेहुण-पडाली-पच्छाइय-गिग्गयाल-भंडव-रेहिरा, कहिंवि करिवर-दंत-वलही-सणाहा, कहिंवि तार- 12
मुत्ताहल-कय-कुसुमोवयार-रमणिजा, कहिंवि चंदण-पायव-साहा-णिबइं दोलय-ललमाण-विलासिणी-गीय-मणहर ति । अवि य,
अलया पुरि व्व रग्मा घणय-पुरी चेष धग-समिद्धीय । लंकाउरि व्व रेहइ सा पळी सूर-पुरिसेहिं ॥
15 तीए तारिसाए पळीए मज्जेण अणेष-भिल्ल-भड-ससंभम-पणय-जयजया-सइ-पुरिओ गंतुं पयत्तो । अणेष-भिल्ल-भड-सुंदरी-वंइ- 15
दंसण-रहम-वस-वलमाण-धवल-विलोल-पम्हल-सामल-णीलुपल-कुसुम-माला-संवलंत-कुसुम-दामेहिं अच्चिज्जमाणो भगवं
अदिट्ट-पुब्बो कुसुमाउहो व्व कुमारो वोलोणो ति । तओ तस्स सेणावइणो विट्ठं मंदिं उवरि पळीए तुंगयर-सज्ज-गिरिवर-
18 सिहरम्मि । तं च केरिसं । अवि य, 18

तुंगत्तणं मेरु व्व संठियं हिमगिरि व्व धवलं तं । पुहइ विव वित्थिणं धवलहरं तस्स णरवइणो ॥

- तं च पुण कुमार-दंसण-पसर-समुत्तिभज्जमाण-पुलइयं विव लक्खिज्जइ घण-कीलय-मालाहिं, णिज्जायंतं विव चुंपालय-नाव-
21 क्खासण-सयणोयंरंहिं, अंजलिं पिव कुणइ पवण-पहय-धयवडा करग्गएहिं, सागयं पिव कुणइ पणज्जमाण-मिहि-कुल-कया- 21
रवेहिं ति ।

- § २२८) तओ तं च तारिसं सयल-णयर-रमणिजं पळिं दट्टण भणियं कुमारेण । 'भो भो सेणावइ, किं पुण इमस्स
24 संगिवेस्स णामं' ति । सेणावइणा वित्तियं । 'दूरमारुहियव्वं, उव्वाओ य कुमारो, ता विणोएयव्वो परिहासेण' ति चित्तियं- 24
तेण भणियं 'कुमार, कथं तुमं जाओ' । कुमारेण भणियं 'अउज्जापुरवरीए' । तेण भणियं 'कथं सा अयोज्जापुरवरी' ।
कुमारेण भणियं 'भरहवासे' । तेण भणियं 'कथं सो भरहवासो' । कुमारेण भणियं 'जंबुदीव' । तेण भणियं 'कथं तं
27 जंबुदीव' । कुमारेण भणियं 'लोए' । तेण भणियं 'कुमार, सव्वं अत्थियं' । कुमारेण भणियं 'किं कजं' । तेण भणियं 'जेण 27
लोए जंबुदीवे भरह अयोज्जाए जाओ तुमं कीस ण-याणस्सि इमीए पळीए णामं तेलोक्क-पयड-जसाए, तेण जाणिओ सव्वं
अत्थियं' । तओ कुमारेण हसिऊण भणियं 'किं जं जं तेलोक्क-पयडं तं तं जणो जाणइ सव्वो' । तेण भणियं 'सुट्टु जाणइ' ।
30 कुमारेण भणियं 'जइ एवं ण एस सासओ पक्खो' । तेण भणियं 'किं कजं' । कुमारेण भणियं 'जेण 30
सम्मत्त-णाण-वीरिय-चारित्त-पयत्त-सिद्धि-वर-मग्गो । सासय-सिव-सुह-सारो जिणधम्मो पायडो एयं ॥
तह वि बहूहिं ण ज्जइ ण य ते तेलोक्क-बाहिरा पुरिसा । तो अत्थि किंचि पयडं पि ण-यणियं केहि मि णरेहिं ॥'
33 तेण भणियं 'जइ एवं जिओ तए अहं । संपयं साहिमो, इमं पुण एकं ताव जाणसु पणहोसरं । अवि य । 33

1 > P मा लुं पड in both places, J पाच्छित्तं, P इत्त for ति. 2 > P कुड्डालिहिया इव पुत्तया, P inter. इव
& महोरया, P महोरया मंतेहिं, J तओ भणिआ अणिसह, P मंतीसह. 3 > P वणिजा, P मंतेव्यायलं, P सक्कारेह, P एवमिमं च
for एमं च. 4 > J adds अ before पावेओ. 6 > J सथवाह कयउण्णा तुमं, P महाणुभावो. 7 > P अत्तणं, P om. जं
before अत्थि, P om. तं after णत्थि, P सुणं for सुणं, P पुरिमो. 8 > P पत्रेणो, P संघट्ट, J त महं. 9 > P सेणावती,
J समाढत्ता. 10 > Better [अणत्ता] for आढत्ता, P om. य. J मज्जाइं सुत्थेण, P om. सत्थाहं, P परायणो, P जहा भिरु',
J भिरुइयं, J om. सथवाहस्स ति. 11 > J om. गिरि, P om. कुहर, J लीणं, P जाय कत्थिभिय, P पुच्छ for पिंछ,
J पबभारोत्थइयवरकुडीरया. 12 > P गिग्गयालंभंडव, J रेहिर, P वर for करि, J वरहीसणाह. 13 > J रमणिज्ज, P om. अवि य,
14 > P अलयाउर ति रग्मा, J adds रग्मा before रेहइ. 15 > J तीअ, P om. सह, P after ससंभमपणय, repeats
घणसमिद्धी य । etc. to सिल्लभंभमपणय, P इरइ for रुइ, P inter. भड & मिह्ल. 16 > P विलसमाण for वलमाण,
P कुसुमयमेहिं. 19 > J पुहइ विव. 20 > J सो य for तं य, P दंसणवसणहसुत्तिभज्जं, J पुलइओ इव लक्खिज्जइ घणं, J णिज्जायंती
विव चुंपालेयवक्खायाणयोयंरंहिं. 21 > P कुणइ नच्चमाण. 23 > P सवलनयन्दीरमं. 24 > J दूरं आरुं, P वि for ति, J
(partly on the margin) वित्तियंतेण भणिअं पळीवइणा कुमारस तुम्हाणं कथं जग्गो कत्तो वा आगया । कुमारेण भणियं ।
अयोज्जापुरवरीओ. 25 > P om. तेण भणियं before कथं etc., P अउज्जापुरवती. 26 > P भरहवासे, J om. तं. 27 > J
om. कुमारेण भणियं before किं कजं, J om. तेण भणियं, P om. जेण लोए. 28 > P अउज्जाए, adds जइ before तुमं
कीस, P -पायड-. 29 > P सव्वं for सव्वो. 31 > J एत्थ for एत्थं. 32 > J तदा वि, P न मज्जइ जइ ते, J ता for तो,
P किंचि पयडं पि न याणियं केहि नि नरेहिं. 33 > जइ (for तेण) भणियं तेण जइ, P om. पुण.

- 1 का चिंतिजह लोए जागाण फणाए होइ को पयडो । जह-चिंतिय-विण्ण-फलो कुमार जाणासु को लोए ॥ 1
- कुमारणे चिंतिय 'अरे, को चिंतिजह । हूं चिंता । को वा जायाण मत्थए पयडो । हूं मणी । को वा जह-चिंतिय-विण्ण-फलो । 2
- 3 अरे, जाणियं चिंतामणी । किमिमाए पल्लोए चिंतामणी णामं' ति चिंतयंतेण पुच्छियं जाणिय भणियं 'ओ चिंतामणि'त्ति । 3
- सेणावइणा भणियं 'कुमार, जहाणवेसि' ति । एवं च परिहास-कहासुं आरूढा तं अत्तणो मंदिरं, दिट्ठं च अणय-ससंभम- 4
- वियरमाण-विलासिणी-णियं-ब-रसणा-रसंत-रव-रावियं । तन्नो पविट्ठा अर्द्धिभतरं, उचयया देवहरयं । तत्थ य महंतं कणय- 5
- 6 कवाड-संपुड-पडिच्छणं दिट्ठं देव-मंदिरं । तत्थ उरघाडिऊण विट्ठाओ कणय-रयणमइयाओ पडिमाओ । तन्नो हरिस-भरिजंत- 6
- वयण-कमलोहिं कन्नो तेलोक्क बंधूणं पणामो । णिगया य उचविट्ठा महुरिहेसु सीहासणेसु । वीसंता खणं । तन्नो समप्पि- 7
- याओ ताणं पोत्तीओ । पक्खित्तं च सय-सहस्स-पागं वियसमाण-मालई-सुगंध-गंध-सिणेहं उत्तिमंगे तेलं । संवाहिया य 8
- 9 अहिणव-वियसिय-कमल-कोमलोहिं करयलोहिं विलासिणीयणेणं ति । तन्नो उच्चट्टिया कसाएहिं, ण्हाणिया सुगंध-सुसीयल- 9
- जलेणं । तन्नो ण्हाय-सुई-भूया सिय-धोय-दुकूल-धरा पविट्ठा देवहरए । तत्थ य पूहया भगवंतो जहारुहं । तन्नो झाओ एकं 10
- खणंतरं समवसरणत्थो भगवं । जविया य जिण-णमोक्कार-चउव्वीसिया । तन्नो आगया भोयणत्थाण-मंडवं, परिमुत्तं च 11
- 12 जहिच्छियं भोयणं । तन्नो णिसण्णा जहासुहं, अच्छिउं पयत्ता वीसत्थ ति । 12
- § २२९) तन्नो अच्छमाणाणं ताणं समागओ धोय-धवल्लय-वत्थ-णियंसणो लोह-दंड-वावड-करो एक्को पुरिसो । 13
- तेण य पुरओ ठाऊण सेणावइणो इमं दुवल्लयं पडियं । अवि य । 14
- 15 'णारय-तिरिय-णारामर-चउ-गइ-संसार-साथरं भीमं । जाणसि जिणवर-वयणं मोक्ख-सुहं चय जाणसि ॥ 15
- तह वि तुमं रे णिइय अलज्ज चारित्त-मग्ग-पडभट्टो । जाणतो वि ण विरमसि विरमसु अहवा इमो डंडो ॥'
- त्ति भणमाणेण तेण पुरिसेण ताडिओ उत्तिमंगे सेणावइं । तन्नो महागरु-मंत-सिद्धत्थ-पहओ विव अज्झिय-महाफणा-मंडवो 16
- 18 महाभुयंगो विय अहोमुहो संटिओ चिंतिऊण य पयत्तो । अहो पेच्छ, कहं णिट्ठुरं अहं इमिणा इमस्स पुरओ सुपुरिसस्स 18
- पहओ डंडेणं, फरुमं च भणिओ ति । अहवा णहि णहि सुंदरं चय कयं । जेण,
- जर-मरण-रोग-रय-मल-किलेस-बहुलमि एत्थ संसारे । मूढा भमंति जीवा कालमणंतु दुह-समिद्धा ॥ 19
- 21 ताणं चिय जो अड्वो सो वि अउव्वेण कह वि करणेणं । भेत्तूण कम्म-गंठिं सम्मत्तं पावए पडमं ॥ 21
- तं च फलयं समुदे तं रयणं चय णवर पुरिसस्स । लद्धूण जो पमायइ सो पडिओ भव-सयावत्ते ॥
- लद्धूण पुणो एयं किरिया-चारित्त-वज्जियं मोहं । काय-किरियाए रहिओ फलयारूढो जल-णिहिमि ॥ 22
- 24 ता जम्म लक्ख-दुलहं एयं तं पावियं मए एहिं । चारित्तं पुण तह वि हू ण ताव पडिवज्जिमो मूढो ॥ 24
- जिण-वयण-बाहिर-मणो ण-यणइ जो जीव-णिज्जरा-बंधे । सो कुणउ णाम एयं मूढो अण्णाण-दोसेण ॥
- मह पुण तेलोक्केल्ल-बंधु-वयणं वियाणमाणस्स । किं जुज्जइ जीव-वहो धिरत्थु मह जीव-लोगस्स ॥ 25
- 27 संमारो अइ-भीमो एयं जाणामि दुल्लहा बोही । भट्टा उयहिमि वराडिय व्व दुक्खेण पावेस्सं ॥ 27
- जाणतो तह वि अहं चारित्तावरण-कम्म-दोसेणं । ण य विरमामि अउण्णो सत्तेण विवज्जिओ अहमो ॥
- धिदी अहो अउण्णो करुणा-वियलो अलज्ज-नाय-सत्तो । खर-णिट्ठुर-फरुसाणं दूरं स्थिय भायणं मण्णे ॥ 28
- 30 इय चिंततो स्थिय सो पव्वालिय-बाह-सलिल-णयणिल्लो । आमुक्क-दीह-णीसास-दुम्मणो दीण-वयणिल्लो ॥ 30
- भणिओ य कुमारं । 'ओ भो, को एस बुत्ततो, को वा एस पुरिसो, किं वा कज्जेण तुमं ताडिओ, किं वा अवरहो खमिओ, 31
- किं वा तुमं दुम्मणो ति' ति भणिए दीह-णीसास-मंधरं भणियं सेणावइणा 'कुमार, महल्लो एस बुत्ततो, तहा वि तुज्ज 32
- 33 संखेवेणं साहिमो, सुणासु ति । 33

1) J किं for का, J जायाण, P भणाहि for फणाए, J चिंतियदिअहफलो P दिज्जफलो अरे जाणियं चिंतामणी ॥, P om. कुमार जाणासु को लोए ॥ कुमारणे चिंतिय 'अरे etc. to दिण्णफलो । 3) P कि इमाए, J णाम चिंतयं', P om. पुच्छियं जाणिय, J om. भणियं, P adds चिंतामणियं ओ after भो. 4) J जहाणवेहि ति. 5) P वियरमाणे वियासिणी, J रस for रव, J अर्द्धभतरं. 6) P परिच्छिन्नं, J adds च after दिट्ठं, P adds य after तत्थ, P कणयणयरमतीआउ. 8) J सव for सय, J अंध, J om. तेलं. 9) P नव for अहिणव, P विणामिणीअणेणं, P ति ण्हाणिया for ण्हाणिया, J सुगंध, P न्यसीयलेणं जलेणं. 10) P सुईभूसिय, P दुगूलधरा, J om. य, J भगवंता. 11) P चउव्वीसिया, P om. आगया, P भोयत्थाण, J om. च. 13) J धोव, P धवल्लय-यंसणे. 15) P सागरावत्ते ।, P जिणवयणेणं. 16) P इमो डंडो ति. 17) P अहओ, J विव अज्झिय, P om. महा before फणा. 18) P अहो for अहोमुहो, P om. अहो, P om. अहं. 19) P डंडेण, P om. णहि णहि, J adds अवि य after जेण. 20) J णवर for एत्थ. 21) J P भोत्तूण for भेत्तूण (emended). 23) J किरेआए. 24) J याव for ताव. 25) P बंधो ।, P कुणउ. 26) P कवयणं बंधु वियाणं, P महो for वहो. 27) P उअहंमि. 29) P दूचिय. 30) J चिंततो, P दीणविगणिल्लो, 31) P om. य, P om. one भो, J om. वा before अवरहो. 32) P गहुरं for मंधरं, J तुमं for तुज्ज. 33) P निमुणेसु for सुणासु.

1 § २३०) अथि पुण्ड्रं-पयासा उववण-वण-संणिवेस-रमणिज्जा । रयणाउरि ति णामं जण-णिवहुदाम-गंभीरा ॥ 1
जहिं च पक्कण-कुण्डं वि पवण-पहल्लमाण-कोटि-पढाया-णिहायई, असेस-सत्थत्थ-णिम्मायई पंजर-सुय-सारिया-णिहायई,
2 विह्विय-विरुव-रुव-सोहा-समुयय च्छिय-जुवाण, विरुव-लावण-विणिज्जिय-मच्छर-कडच्छ-पहयउ णायर-वालियउ रईए 3
ति । अथि य ।

जं तत्थ किंचि अहमं लोए लहुयं ति परिहवावडियं । इयर-णयरीण तं थिय पत्तिय पढमं गण्जिउज्जा ॥

6 तीए णयरीए राया रयणमउडो णाम । 8

जो होइ जमो धणओ कोव-पसाएहिं सत्तु-पणईणं । दीणाण गधिययाण य पयडं धण-खग-पहरेहिं ॥

सत्थवा ण समत्थो वण्णेउं तस्स गुणे । तओ तस्स य राइणो तुये पुत्ता, तं जहा, दप्पफलिहो बाहुफलिहो य । एवं च

9 तस्स रजं अणुपालयंतस्स एक्कमि दियहे अभावसाए परिहरिच-सयल-संणिविय-पाय-पयत्थ-सत्थस्स पओस-समए वासहरयं 9

पविट्ठस्स षीसारिय-सयल-महिला-विलासिणीयणस्स लट्ठिप्पईव-सिहाए विट्ठी विलग्गा । तओ किं-किं पि चिंतयंतस्स आगओ

तम्मि पईवे एक्को पर्यगो । सो तं पईव-सिहं अल्लिज्जं इच्छइ । तओ राइणा पयइ-अणुयंपा-सहावेण चिंतियं । 'अरे, वराओ

12 अण्णाण-मोहिओ पडिहिइ इम्मि पईवे, ता मा वराओ विवज्जउ' ति चिंतयंतेण गहिओ करयलेणं, धेतूण पक्खित्तो कवाड-12

विवरंतरेण । पक्खित्त-मेत्ते चेष पुणो समागओ । पुणो वि चिंतियं णरवइणा 'अहो, पेच्छइ विहि-विहियत्तणं पर्यगस्स' । पुणो

आगओ, पुणो गहिओ, पक्खित्तो य । पुणो वि आगओ । तओ चिंतियं णरवइणा 'अहो एयं लोए सुणीयइ किर उचाय-

15 रक्खिओ पुरित्तो वास-सयं जीवइ ति । ता पेच्छामि किं उवाएहिं मञ्जुणो सयासाओ रक्खा काइ हवइ, किं वा ण व'ति 15

चिंतयंतेण गहिओ पुणो पर्यगो । 'दे इमं रक्खामि । जइ एस इमाओ मञ्जु-मुहाओ रक्खिओ होजा, ता जाणिमो अत्थि

वेज्जोसडेहिं वि मरण-परित्ता । अह एस ण जीविहिइ मए वि रक्खिज्जमाणो, ता णत्थि सरणं मञ्जुणो ति, परलोग-हियं

18 चेष करणिज्जं' ति चिंतयंतेण पलोइयाइं पासाइं । दिट्ठं च एक्कं उग्घाडियं समुग्गं । तओ राइणा इत्ति पक्खित्तो तम्मि 18

समुग्गयम्मि सो पर्यगो, उहओ य उवरीं, पक्खित्तो य अत्तणो उसीसए । एवं च काउण पसुत्तो राया, पडिबुडो णिहा-स्सए

चिंतियं पर्यगो । 'अहो, पेच्छामि किं तस्स पर्यगस्स मह उवाएणं कयं' ति गहिउं समुग्गयं णिरुवियं मणि-पदीवेण जाव पेच्छइ

21 कुण्ड-गिरोलियं ति । तं च वट्ठण पुण्ड्रयं णिउणं, ण य सो दीसइ । तओ चिंतियं राइणा 'अवस्सं सो इमीए खइओ 21

होहिइ ति । अहो विरत्थु जीव-लोचस्स । जेण

रक्खामि ति सयणं पक्खित्तो एस सो समुग्गमि । एत्थ वि इमीए खइओ ण य मोक्खो अत्थि विहियस्स ॥

24 जेतिय-मेत्तं कम्म पुण्व-कयं राग-दोस-कल्लसेण । तेत्तिय-मेत्तं से देइ फलं णत्थि संदेहो ॥ 24

वेज्जा करंति किरियं ओसह-ओएहिं मेत्त-बल-जुत्ता । णेय करंति वराया ण कयं जं पुण्व-जम्ममि ॥

पक्कखं जेण इमो मए पर्यगो समुग्गए कूढो । गिलिओ गिरोलियाए को किर मञ्जुए रक्खेज्जा ॥

27 ता णत्थि एत्थ सरणं सयले वि सुरासुरमि लोयमि । जं जं पुण्वं रइयं तं तं थिय भुज्जए पर्यं ॥ 27

ता कीस एस लोओ ण मुणइ पर-लोय-कज्ज-वावारं । वण-राय-दोस-मूढो सिठिलो धम्मासु किरियासु ॥

इय णरवइणो पर्यं सहसा वेरग-मग्ग-पडियस्स । तारुव-कम्म-खयउवसमेहिं जम्मं पुणो भरियं ॥ तओ,

30 जाए जाई-सरणे संभरिओ राइणा भवो पुण्वो । जह पालिय-पक्खओ विय-लोयं पाविओ तइया ॥ 30

तम्हाओ वि भुओ इं भोए भोत्तूण एत्थ उववण्णो । जं पुण्व-जम्म-पडियं तं पि असेसेण मंभरियं ॥

1 > P एएसो for पयासा, J om. वण, J रयणपुरि, P लोए for णामं. 2 > P कुणइ, J वि for पि, P पि पवयण, J णिहायाइं J सत्थत्थु, P सत्थनिम्माइं पिंजर-. 3 > P विउडियाविरुवसोहा, J om. लावण, P पहायओ, P -वालिरइआए. 5 > P inter किंचि and तत्थ, P परिहंति वावडियं । अत्र नयरीण, P गणेज्जासु ॥ 6 > J तीअ रयणाउरी राया. 7 > P होज्ज for होइ, P कोवपएसाहिं सत्तुपणतीणं, J पहराहिं. 8 > J om. तस्स गुणे, J बाहुफलिहो, P एवं तस्स य रज्जं. 9 > J समावात्तिए for अभावसाए, J पाव for पाय. 10 > P om. महिला, P लड्डीपईओ सिहाए, J विलग्गो, P om. one किं. 11 > P अल्लि-सिरुणं इच्छइ, J पर्यई, P अणुकंपा. 12 > J om. अण्णाणमोहिओ, P पडीहिइ. 13 > P 'मेत्तो, J om. वि, J विविहिअत्तणं P विविहियं, J adds वि in both places after पुणो. 14 > P पक्खित्तो, P ततो for तओ, J लोए सुणीयति. 15 > J रक्खित्तो, P adds वा before उवएहिं. 16 > P दे रइमं. 17 > P परत्ता, J P जीविहिति, P वि खिज्जमाणो. 18 > J चेष for चेष, P पलोवियाइं, P उग्घाडयं, P समुयं for समुग्गं, P मुक्को for पक्खित्तो. 19 > J om. य, J उसीसए, J विबुडो for पडिबुडो. 20 > J गहिउं, J मणिपईवेण, P मणिपदीवे जाव पेच्छाइ, 21 > J कुण्ड P कुण्ड, P गिरोलियं ति, P राइणो. 22 > होहिसिंति, P लोयस्स, P संपयं for जेण. 23 > P सत्तणं, P मे for सो, P om. एत्थ वि इमीए etc. to पुण्वजम्ममि. 24 > J जत्तिय. 25 > J णय for णेय. 26 > J गिरोलियाए. 27 > P लोयमि, P पुण्वरइयं, P भुज्जए. 28 > P लोए for लोओ, J लोअ for कज्ज, P रागहोस. 29 > P नरवइणा, P खयओव', P जंमो पुणो. 30 > P पुण्वभवो for भवो पुण्वो, P पाणिय for पालिय. 31 > P भुओ for भुओ, P य तेण for असेसेण.

- 1 § २३१) अह चित्तिं पयसो धिरक्षु संसार-वास-दुष्कस्त । गव-वारिचावरणो दिक्खं अह गेण्हए मणसा ॥ 1
 कय-पंच-मुट्टि-कोओ सुमणो परिहरिय-सेस-सावजो । गव-पावो णिल्लेवो जाओ सल्लिकम्मि लउओ व्व ॥
- 3 एवं च तस्स इमम्मि अवसरे अह्वा-संणिहियाए देवयाए किं कयं । अवि य, 3
 धवलं विमलं सुहयं पसरिय-दसिया-मऊह-फुरमाणं । बहु-पाव-रओहरणं रयहरणं अप्पियं तस्स ॥
 सुह-पोत्तिया य बीया पत्ताईयाईं सत्त अण्णे वि । इय णव-उवहि-सणाहो जाओ पवेय-बुद्धो सो ॥
- 6 ताव य पभाया रयणी । पविंयं मंगल-पाठपुणं । अवि य, 6
 अरुण-कर-णियर-भरियं गयणयलं णासमाण तारालं । ओअग्गाइ उज्जोओ वियलइ तिमिरं दस-विसासु ॥
 कुर्यंति सारसाईं सावय-सउणाण सुव्वए सरो । विरहोलुग-सरीरं घडियं चक्काय-जुवलं पि ॥
- 9 पसरइ कुसुमामोओ वियरइ विसासु पाउलागेओ । उदाइ कलयल-रवो रवंति सव्वत्थ कुकुडया ॥ 9
 इय एरिसे पभाए णरवर दे बुद्धिऊण कुण एऊं । णिहा-मोहं अह वारिऊण परलोग-वावारं ॥
 तं च तारिसं बंदिणा पठियं णिसामिऊण भगवं रायरिसी विहाडिऊण कवाड-संपुडं वास-भवणस्त णिग्गओ सीह-किसोरओ
- 12 विव गिरिवर-गुहाओ, विट्ठो य परियणेण । केरिसो । अवि य, 12
 कय-क्केस-लुंचणो सो पत्तय-रय-हरण-रेहिर-करग्गो । चइउं तणे व रजं राया सीहो व्व णिक्खंतो ॥
 तं च तारिसं पेच्छिऊणं वासहर-पालीए धाहावियं । कइं । अवि य ।
- 15 हा हा माए धावह धावह एसो म्हा सामिओ राया । अजं चिय वासहरे अह किं पि विडंबणं पत्तो ॥ 15
 एवं सोऊण धाहा-रवं णिसामिऊण पहाइओ अंतेउरिया-जणो । संभम-वस-खळमाण-चलण-गेउर-रणणासइ-मुदलो पहाइओ
 वर-क्किसिणि-जणो । तओ तार्हिं भणियं ।
- 18 'जिय दइय सुहय सामिय पसिय तुहं किं व अवकयं अम्हे । जेणम्हे तं मुंचसि तं अत्ताण विडंबणं काउं ॥ 18
 जे वेळुहल-क्किसिणि-करयल-संसग्ग-वड्डिया णिबं । ते कथ तुउअ केसा अइवज्जम लुंचिया केण ॥
 कप्पर-पूर-चंयण-मयणाहि-समुग्गएऊ-कलियम्मि । वासहरम्मि करंका कथ तए पाविया णाह ॥
- 21 दरियादि-वारण-सहं तुह खगं णाह रेहइ करग्गे । उण्णाम्मय-दसियालं एयं पुण पिच्छं कत्तो ॥' 21
 तओ एवं पलवमाणस्स अंतेउरिया-जणस्स अदिण्ण-पडिसंलाओ गंतुं पयत्तो । तओ मुक्क-कंठं धाहावियं तार्हिं ।
 'अवि धाह धाह धावह एसो अम्हाण सामिओ सहसा । केण वि हीरइ पुरओ अदिण्ण-संलाव-विमणाणं ॥
- 24 इमं च हा-हा-रवं णिसामिऊण संपत्ता मंतिणो । तेहि य विट्ठो से भगवं महामुणि-रूवो । वंदिऊण य भणियं तेहिं 'भगवं 24
 को एस वुत्तंतो' ति । एवं च भण्णमाणो विणिग्गओ च्चेव णयरीओ । तओ तह चिय मग्गालग्गो सेस-परियणो वि संपत्तो
 उज्जाण-वणं । तथ य तस-धावर-विरहिए पएसे णिस्तणो भगवं रायरिसी । तओ णिस्तण्णा मंतिणो अंतेउरिया-जणो य ।
- 27 अम्हे वि दुवे वि जणा तस्स पुत्ता दप्पफलिह-भुयफलिहा भायरो णिग्गया पिउणो सयासं । तओ उवविट्ठाण य भगवं 27
 रायरिसी साहिउं पयत्तो । अवि य ।
- § २३२) णारय-तिरिय-णरामर-चउ-गइ-संसार-सायरं भीमं । भम्ममाणएण बहुसो अणोरपरं सया-कालं ॥
- 30 रजं बहुसो पत्तं बहुसो पुण सेवियं च दोग्गच्चं । णिय-धम्म-कम्म-वसओ खय-हाणि पावए जीवो ॥ 30
 जइ देइ विसिटाणं इट्टमण्ठिं च जइ ण आयरइ । जइ अणुकंपा-परयो ता रजं को ण पावइ ॥
 अह बंध-घाय-वह-मार-परिणओ णट्ट-धम्म-वावारो । ता वच्चंतं णए साहसु को कंभिउं तरइ ॥
- 33 सो णस्थि कोइ जीवो जयम्मि सयलम्मि जो ण संसारे । पत्तो देवत्त-पर्यं किमी य असुइम्मि उववण्णो ॥ 33

1) P अहा चित्तिं पयसा, J दिक्खा अह. 2) P जाओ सरयंमि जलउ व्व. 3) J अवसरे जहासण्णिहि. 5) J य वित्तिआ पत्तातीआइं, P पत्ताईया वि, P पमाणो for सणाहो, P पत्तेयवुद्धो. 6) J om. य. 7) P नयणयलं तासमाण for गयणं eto., P उज्जोवो. 8) P जुयलं. 10) P 'मोहं अवयारिऊण, J परलोभ-. 11) P रायरिसी, J विहरिऊण, J om. णिग्गओ, P किसोरो. 14) J वासहरयवालीए, J om. अवि य. 15) J om. ओ धावह, J आ कइं for अह किं. 16) P adds च after एवं, J धाहरवं, P धाहावरवं, J 'यणो for जणो, J खणमाण. 17) P वारविक्किसिणीयणो. 18) P सुयय, J पत्तीअ, P अम्हे । जे जेणत्थेके मुंचसि अत्ताण. 19) J om. जे, P विसासिणि, P संग्गि for संसग्ग. 21) P दरियादिवारण. 22) P अंतेउरिया, P कंठं हावियं तार्हि । अवि धावह धाह पावह. 23) J धावह माए एसोमह सामिओ. 24) P सो for से. 25) P च्चेव नयराओ, P तहे व for तह चिय. 26) J रहिए for विरहिए, P तओ निसओ. 27) P वि दुवे जणा दप्प, J दप्पफलिहो भुयफलिहा, P सगासं, P om. य. 28) J om. अवि य. 30) P उण for पुण, P दोहग्गं for दोग्गच्चं, P inter. कम्म (कंम) & धम्म, J रायहाणि for खयहाणि. 31) P विसिटाणं, J यारइ for आयरइ, J अणुकंपा. 32) P अह वध, P घाय for मार.

- 1 सो णत्थि कोइ जीवो इमम्मि संसार-दुक्ख-वासम्मि । माइ-पिइ-पुत्त-बंधू बहुसो सयणत्तणं पत्तो ॥ 1
- सो णत्थि कोइ जीवो जयम्मि सयलम्मि जो ण कम्मणे । विसयासा-मूढ-मणो अवरोप्पर-मारणं पत्तो ॥ 3
- 3 सो णत्थि कोइ जीवो चउगइ-संसार-चारयावासे । अवरोप्पर-कज्ज-मभो जो ण वि मित्तत्तणं पत्तो ॥ 3
- सो णत्थि कोइ जीवो भममाणो जो ण कम्मजोएण । ईसा-मच्छर-कुविओ जो ण य सत्तुत्तणं पत्तो ॥ 6
- सो णत्थि कोइ जीवो चउगइ-संसार-सागरे भीमे । णह-दंत-दलिय-देहो जो य ण आहारिओ बहुसो ॥ 6
- 6 सो षिय सत्तु सो चेय बंधवो होइ कम्म-जोएण । सो षिय राया सो चेय मिच्छुओ होइ पावेणं ॥ 6
- ता पत्तियासु एयं ण एत्थ बंधू ण चेय कोइ अरी । गिय-चरिय-जाय-कम्मं पत्तिय सत्तुं च मित्तं च ॥ 9
- हय जाणित्ठं अणित्तं संजोय-विओय-रज्ज-बंधुयणं । वेरग-मग्ग-लग्गो को वा ण करेज परलोयं ॥ 9
- 9 एत्थंतरम्मि पुच्छिओ विमलबंधुणा संतिगा । 'भगवं, एस उण को वुत्तंती वासहरयम्मि जाओ जेण समुप्पण्ण-वेरग- 9
- मग्ग-लग्गो इमं लिंणं पडिवण्णो सि' त्ति । साहियं च भगवया सयलं पर्यग-पईव-समुयय-वुत्तं । तओ तं च दट्ठण मए 9
- वित्तियं । 'अहो, विरथु संसार-वासस्स जं एसो पर्यगो रक्खिज्जमाणो विवण्णो । उवाओ त्ति समुग्गए पक्खित्तो, तहिं चैव 12
- 12 अवाओ जाओ । तं जहा । 12
- जइ सेण-सास्सिओ सो सरणत्थी मग्गए बिलं ससओ । अयगर-मुइं पविट्ठो को मल्लो हय-कयंतस्स ॥ 15
- ओसह-जोएहिं समं णाणाविह-मंत-आहुइ-सएहिं । ण य रक्खिज्जण तीरइ मरण-वसं उवगओ पुरिसो ॥ 15
- 15 एयं णाज्जण इमं अणित्त-भावेण भावियं लोयं । तम्हा करेमि धम्मं को साहारो त्य रज्जेण ॥ 15
- एवं च मज्झ वेरग-मग्गावडियस्स तहा-कम्मक्खओवसमेणं अण्ण-जम्म-सरणं समुप्पण्णं । आस्सि अहं अवरविदेहे साहू, तत्तो य 15
- सोहम्मे देवो । तत्तो वि चइज्जण अहं इह राया समुप्पण्णो । तओ कयं मए पंचमुट्ठियं लोयं । अहासंणिहियाए देवयाए 18
- 18 समप्पियं रय-हरणं उवकरणं च । तओ णिग्गंथो मुणिवरो जाओ अहं' ति । 18
- § २३३) एवं च भगवया साहिए समाणे सयले वुत्तंते पुच्छियं विमलेण संतिगा । 'भगवं, को उण एस धम्मो, 18
- कहं वा कायञ्चो, किं वा इमिणा साहेयव्वं' ति । एवं च पुच्छिए अणियं भगवया रायरिसिणा । 18
- 21 'देवानुपिया णिसुणेसु जं तए पुच्छियं इमं धम्मं । पढमं चिय मूलाओ ण होइ जइ संसओ तुज्ज ॥ 21
- धम्माधम्मागासा जीवा अह पोगगला य लोयम्मि । पंचेव पयत्थाइं लोयाणुभवेण सिद्धाइं ॥ 21
- धम्माधम्मागासा गइ-ठिइ-अवगास-लक्खणा भणिया । जीवाण पोगगलाण य संजोए हौंति णव अण्णे ॥ 24
- 24 जीवाजीवा आसव पुण्णं पावं च संवरो चेय । बंधो णिज्जर-मोक्खो णव एए हौंति परमत्था ॥ 24
- जो चलइ वलइ चग्गइ जाणइ अह मुणइ सुणइ उवउत्तो । सो पाण-धारणाओ जीवो अह अण्णइ पयत्थो ॥ 27
- जो उण ण चलइ ण वलइ ण य जंपइ णेय जाणए किंचि । सो होइ अजीवो त्ति य विवरीओ जीव-धम्माणं ॥ 27
- 27 अह कोह-लोह-माया-सिणिद्ध-रूवस्स दुट्ठ-भावस्स । लग्गइ पावय-पंको सिणिद्ध-देहे महि-रओ व्व ॥ 27
- सो आसवो त्ति अण्णइ जह व तलायस्स आगमदारो । सो होइ दुविह-भेओ पुण्णं पावं च लोयम्मि । 30
- देवत्तं मणुयत्तं तथ विसिट्ठाइं काम-भोगाइं । गहिण्ण जेण जीवो भुंजइ तं होइ पुण्णं ति ॥ 30
- 30 णएसु य तिरिएसु य तेसु य दुक्खाइं णेय-रूवाइं । भुंजइ जस्स बल्लेणं तं पावं होइ णायव्वं ॥ 30
- अह पुण्ण-पाव-खेलय-चउगइ-संसार-वाहियालीए । गिरिओ व्व जाइ जीवो कसाय-चोरहिं हम्मंतो ॥ 33
- तं णाण-दंसणावरण-वेयणित्तं च होइ तह मोहं । अवरंतराय-कम्मं आयुक्खं णाम गोत्तं च ॥ 33
- 33 तं राग-दोस-वसओ मूढो बहुएसु पाव-कम्मेषु । अट्ट-विधं कम्म-मलं जीवो अह बंधए सययं ॥ 33

1 > P बहु हुसो सयणयत्तणं. 3 > P संसारमायगावासे, P कज्जमभो. 4 > P जं for जो, P inter. य and ण. 5 > P जोइ for कोइ, J सायरे, P inter. न and व. 6 > P सो चेय भिच्चो अह होइ. 7 > P सत्तु य मित्तं. 8 > P जाणियं, P लग्ग-मग्गो. 9 > J उण for उण, P inter. को & उण, P वुत्तंती सदरम्मि य जाओ. 10 > P मग्गो for मग्गलग्गो, P om. सि, J -पईव, P समुयय. 11 > P एस पर्यगो, J adds वि before विवण्णो, J चैय. 13 > J सयणत्थी. 15 > P लोयं, P बंधं for धम्मं, P inter. साहारो and को, P व for त्य. 16 > J 'विदेहो साहो. 17 > J om देवो, J om. अहं, P om. इह, J मे for मए, P 'सन्निडियए, J देवताए. 18 > J रयणहरणं. 19 > P om. समाणे, J om. सयले, P पुच्छियवियं विमलसंतिगा. 20 > J पुच्छिएण अणियं. 21 > P देवानुपिया, P तुज्जं for तुज्ज. 22 > P लोयंति, J लोआइभवेण P लोयाणुभवेण. 23 > J गति-ठिति, P अवगाइ-. 24 > P संवरं चैव, J inter. बंधो & णिज्जर, J एते, P परगत्यो. 25 > P repeats चलइ, J जाणइ इअ हसइ उवउत्तो. 26 > P किंचि. 27 > P inter. लोह & कोइ, J पावय for पावय, J देहो. 28 > P वइ for व, J आगमदारो, P लोयंति. 29 > J भोगाइं. 30 > P णेयण for णेय, J जस्स हल्लेणं. 31 > P पुव्वन्नपाव, P गिच्छिओ व्व ल्याज्जइ, J -चोराण, P निज्जंतो for हम्मंतो. 32 > P om. होइ, P आउक्खं. 33 > P अट्टविधं, J सततं.

- 1 मिच्छा-अविरह-कसाया-पमाय-जोगेहिं बंधए कम्मं । सत्तट्ट-विहं छव्विहमबंधओ णत्थि संसारी ॥ 1
 2 एगंत-बद्ध-चित्तो कुसमय-मोहिज्ज-माण-सदभावो । मिच्छा-दिट्ठी कम्मं बंधइ अह चिक्खणं होइ ॥
 3 गम्मागम्म-वियप्पो वच्चावच्चाई जो ण परिहरइ । सो अविरय-पाव-मणो अविरतजो बंधए पावं ॥ 3
 4 मज्जं वि महाणिहा एए उ हवंति ते पमायाओ । एएसु जो पमत्तो सो बंधइ पावयं कडुयं ॥
 5 मय-कोह-माण-लोहा एए चत्तारि जस्स उ कसाया । संसार-मूल-भूएहिं तेहिं सो बंधए पावं ॥
 6 काय-मण-वाय-जोगा तेहि उ दुट्ठेहिं दुट्ठ-कुट्ठीए । बंधइ पावं कम्मं सुहेहिं पुण्णं ण संदेहो ॥ 6
 7 ता जाव एस जीवो एयइ वेयइ य पंदए चलए । सत्तठ-छव्वेगविहं बंधइ णो णं अबंधो उ ॥
 8 ता तेण कम्मएणं उच्चाणीएसु णवर ठाणेसु । जीवो इमो भमिज्जइ कराहओ कंदु उ एव समं ॥
 9 इंदत्तणं पि पावइ जीवो सो चेय णवर किमियत्तं । णए दुक्ख-सहस्साई पावए सो चिय वराओ ॥ 9
 10 पुढवि-जल-जलण-मारुय-वणस्सई णेय-भेय-भिण्णेसु । एग-दु-ति-चउरिंदिय-विगलेसु अणेय-रूवेसु ॥
 11 अंडय-पोत्तय-जरजा रसाउया चेय होंति संसेया । सम्मुच्छिमा य बहुए उड्ढिय-उववाइभा अण्णे ॥
 12 सीउणह-मीस-जोणिमु जायंतं के वि तत्थ दुक्खत्ता । संकड-वियडासु पुणो मीसासु य होंति अवरे वि ॥ 12
 13 पंचेंदियाण पुच्छसि चउरो भेदा उ होंति देवाणं । भवणवइ-वाणमंतर-जोइस-वासी विमाणत्था ॥
 14 विज्जु-धण-थणिय-अग्गी-सुवण्ण-तह-दीव-दिसि-कुमारा य । वाऊदधी य णागा दस भेया होंति भवणत्था ॥
 15 अह जक्ख-रक्ख-भूया पिसाय तह किंणरा य किंपुरिसा । महउरया गंधव्वा अट्ट-विहा वंतरा एए ॥ 15
 16 चंदा सुरा पढमं गहा य णक्खत्त-तारया अवरे । एए पंच-विह चिय जोइस-वासी सुरा होंति ॥
 17 वेमाणिया य दुविहा कप्पाईया य कप्पमुववण्णा । कप्पोववण्ण-भेया बारस एए णिसामेसु ॥
 18 सोहम्मीसाण-सणकुमार-माहिंद-बंध-लोया य । लंतय-सुक्क-सहस्साराणय-पाणय य दिय-लोया ॥ 18
 19 आरण-अच्चुय-भेएहिं संठिया बारस-विहाओ । एए कप्पोववण्णा देवा अह होंति सब्बे वि ॥
 20 कप्पाईया दुविहा गेवेजाणुत्तरा य पंच-विहा । एएसु कोइ वच्चइ बहु-कय-पुण्णो हु जो पुरिसो ॥
 21 § २३४) मणुया वि अणेय-विहा कम्मय-भूमा [अकम्म-भूमा] य । अंतर-दीवा अण्णे सबरादी बडबरा अण्णे ॥ 21
 22 तिरिया असंख-भेया दुपया अपया चउप्पया चेव । पक्खी सप्पाईया पभूय-पय-संकुला अण्णे ॥
 23 णए वि सत्त णरया पत्थर-भेएण ते विभिज्जंति । भीमा उड्ढेवणया बहु-दुक्खा णिच्च-कालं पि ॥
 24 अमर-णर-तिरिय-णारय-भव-संसारम्मि सागर-सरिच्छे । अट्टविह-कम्म-बड्ढा भमंति जीवा ण संदेहो ॥ 24
 25 अह एत्थ मणुय-लोए जीवो चिय सुकय-पुण्ण-पढमारो । उप्पज्जइ तित्थयरो अंतयरो सयल-दुक्खाणं ॥
 26 से साहइ सच्चसिणं दिव्वण्णाणेण जाणिउं भगवं । सोऊण य तं जीवा केई वच्चंति सम्मत्तं ॥
 27 अण्णे पाव-परद्धा संसारे वच्चहरय-सरिसम्मि । अरुच्छंति दुक्ख-तविया ण तस्स वयणं अवि करेंति ॥ 27
 28 जे पुण करेंति एयं ते पुरिसा णवर एत्थ गेण्हंति । सम्महंसण-णाणं चरणं चिय तिण्णि परमत्था ॥
 29 जे जह जीवाईया भावा परिसंठिया सभावेण । सईहइ ते तह चिय अह एयं इंसणं होइ ॥
 30 गम्मागम्मं जाणइ भक्खाभक्खं च वच्चमविवच्चं । जाणइ य जेण भावे तं णाणं होइ पुरिसस्स ॥ 30
 31 परिहरइ पाव-ठाणं संजम-ठाणेसु वट्टए जेण । तं चारित्तं भण्णइ महव्वए पंचयं होंति ॥
 32 जीवाणं अहवायं तह य मुसावाय-विरमणं दुइयं । अदिण्णदाणा-मेहुण-चिरई पडिचाओं सब्ब-दब्बाणं ॥

1 > J मिच्छाअविरती, J जोगेहिं, J छव्विहं बंधओ णेत्य संसारी. 2 > P एयंतु दुट्ठचित्तो, J P कुमुमं, J तुह P अहं, J चिक्खे भोए. 3 > P om. ण, P अनिरओ. 4 > J मज्जं वि महाणिहा एते तु हवंति ते पमसातु । एतेसु जो अमतो, P पावगं. 5 > P मोहा for लोहा, J एते, J भूतेहिं. 6 > J जोआ तेहिं तुट्ठेहिं. 7 > J एतइ वेनइ अं, J P सत्तट्ट, P छव्वेगविहं, J बंधइ अ णोणं अहं हंतु ॥. 9 > P चेव, P om. णवर. 10 > J णेय भिण्णभिण्णेसु, J विअलेनु. 11 > J अण्डोत्तय, P पोयय, J जरसा, J संसेता, J ओवा-तिआ. 12 > J जेणिय for जोणिमु. 13 > J भेता तु होति, P य for उ, J भवणवतिवाणवंतरजोतिसवासी, P भवणवणवाण, P जोविस. 14 > J धणितअग्गीआसण्णदीनह, J दिसकुमारा, J वाऊ उदधी णागा, P वाऊरही, J om. य, J भेता. 15 > J जह for अह, P जक्खारक्खस, J भूता, P महोगा य गंधव्वा, J एते. 16 > P अत्रे for अवरे, JP एते, J विध, J जोतिस. 17 > तु for य, J दुविहा कप्पातीता य, P कप्पउववण्णा, J भेता, J एते. 18 > P om. लंतय, J स्सार आणतपाणतो य दियलोओ, P स्साराय-णपाणया य दिसियलोया. 19 > J अच्चुतमेतेहिं, P भेएहिं, J विधातु, P कप्पोववण्णा. 20 > J कप्पातीता, J पंचविधा । एतेसु, J उ for हु. 21 > P अणेग, J कम्माभूमा, the second pāda may be read thus: कम्मय-भूमा अकम्म-भूमा य । J जीवा, P सबराई. 22 > J यसंखभेता दुपता अपता चउप्पता, P पक्खा अप्पाईया, J सप्पातीया, J पम्पअपत-. 23 > P पत्थर-भेएहिं ण ते, J मेतेण ते, P विभिज्जंति. 24 > J सायर, J कम्मबंधा 25 > P सुकयभीमसंसारे । 26 > J सो for से, P से सोइइ. 27 > P ववहरय. 29 > J जो for जे, J जीवातीआ P जीवाएया, J परिसंठिता, P परिसंठिया सयावेण, P होंति for होइ. 30 > P गंमागंमा न याणइ, P वच्चं for वच्चमविवच्चं, P भावो तं. 31 > P -ट्टाणं, P -ट्टाणेसु, J वच्चए for वट्टए, J पंचयं. 32 > J अतिपातं, J मुसावात, J दुत्तिअ P दुइयं, J दाण, J विरती, P विरश्यपरिच्चाउ पंचमयं ॥

- 1 सुहुमं वा बायरं व जीवं मण-वयण-काय-जोगेहिं । ण वहइ ण वहावइ य वहयंतं णाणुजाणाइ ॥ 1
मय-हास-कसाएहिं य अलियं मण-वयण-काय-जोगेहिं । ण मणइ ण मणावेइ मणमाणं णाणुजाणाइ ॥
- 3 गामे णवरं अदिणं मण-वय-काएहिं तिविह-जोएहिं । ण य गेण्हे गिण्हावे गेण्हंतं णाणुजाणाइ ॥ 3
दिव्वं माणुस-तिरियं इत्थि मणो-वाय-काय-जोएहिं । ण य भुंजइ भुंजावए भुंजंतं णाणुजाणेज्जा ॥
थोव-बहुं सावजं परिमाहं काय-वाय-जोएहिं । ण कुणइ ममत्तं कारेइ णेय ण य मणइ तं कुणसु ॥
- 6 एया पंच पइण्णा घेत्तुं गुरु-देव-साहु-सक्खीया । राई-भोयण-विरई अह सो छट्ठं वयं कुणइ ॥ 6
एया परिवालेत्तो अच्छइ तव-संजमं करेमाणो । अह तस्स संवरो सो पावट्ठाणेषु जं विरओ ॥
एवं च संवरेणं संवरियप्पा वि णिज्जरं कुणइ । दुबिहेण तवेणेयं अडिभतर-बाहिरेंणं पि ॥
- 9 अणत्तणमूणोदरया वित्ती-संखेव-रस-परिच्चागो । काय-किलेसो संलीणया य बज्जं तवं भणियं ॥ 9
पायच्छित्तं विणभो घेयावच्चं तओ समाधी य । सज्जाय-चरण-करणं एयं अडिभतरं होइ ॥
एएण पओएणं पुव्व-भव-कोडि-विरइयं कम्मं । खेवेण णिज्जरिज्जइ णिज्जरणा होइ सा जाण ॥
- 12 ता संजम-णिज्जरणं काउण इमं स जीव-सत्तीए । वच्चइ धम्मज्जाणं सुक्खज्जाणं तओ जाइ ॥ 12
आरुहइ खवग-सेदिं खविउं कम्माइं ताइं चत्तारि । केवल-णाममगतं अह पावइ दंसणं चेव ॥
तो संभिणं पासइ लोममलोयं च सव्वओ सव्वं । तं णत्थि जं ण पासइ भूयं भव्वं भविस्सं च ॥
- 15 ततो वि आउगंतं संबोहेउण भव्व-कमलाइं । खविउण णाम-गोत्ते सेलेसिं पावए भगवं ॥ 15
कायं वायं रंभइ मण-रहिओ केवली सुहुम-जोगी । अह सयल-जोग-रहिओ सिद्धिपुरिं पावए जीवो ॥
जत्थ ण जरा ण मच्च ण वाहिणो णेय सव्व-दुक्खाइं । सासय-सुहं अणंतं अह भुंजइ गिरुवमं जीवो ॥
- 18 ता एस एस धम्मो इमेण सज्जं च सासयं टाणं । तेणुज्जिउण रव्वं पव्वज्जं अह पव्वणो हं ॥ 18

§ २३५) भणियं च भगवया रायरिसिणा । 'ओ ओ दप्पफलिह-भुयफलिहा मंतिणो राइणो य भणिमो । एस दुरुत्तरो संसारो, महंतं दुक्खं, अणंतं कालं, परिणइ-विरसा भोगा, कडुय-फलं कम्मं, मूढो बहु-जणो, तुल्लगेण पावेयव्वं 21
मणुयत्तणं, ण पाविज्जंति खेत्त-जाई-कुल-रूवारोगगाइं, थोवं आउयं, विरला घम्मायरिया, दुक्खो जिणवर-धम्मो । दुक्खो किरिया- 21
कलावो, ण तीरइ मण-णिराहो, सव्वहा दुक्खं संसारत्तणं ति । तेण गियय-जीयं पिव रक्खह पाणिणो, अक्वत्तभवमिव मा
भणह अलिय-वयणं, तणं पिव मा गेण्हइ पर-धणं, मायरं पिव मण्हइ परदारं, सत्तुं पिव कलेह परिग्गहं, पडिवज्जह 24
इमं । अवि य ।

जर-मरण-रोग-रय-मल-किलेस-बहुलमि णवर संसारे । णत्थि सरणं जयमि वि एक्कं मोत्तूण जिणवयणं ॥'
ति भणमाणो समुट्ठिओ भगवं रायरिसी, णीसंगो विहरिउं पयत्तो । तओ कुमार, अम्हे तप्पभुइं सम्मत्त-मेत्त-सावगा जाया ।
27 पइट्ठियं च हियए जहा अम्हेहि वि एयं अवस्स कायव्वं ति । आगया भावासं । तत्थ मंतीहिं पेसिओ दूओ । अम्ह पिउणो 27
भाया दढवम्मो महाराया अयोज्जाए, तेण य आणत्तं जहा दप्पफलिहो पढमपुत्तो र्खे अभिसिंचसु ति । 'तह' ति
पडिवणं रायलोणं । एक्को मंती वेज्जो य एक्को भुयफलिह-जणणीय य मंतियं । अगणिउण पर-लोयं, अवमणिउण
30 जण-वयणिज्जं, अवहत्थिउण लोगायारं, अवलंबिउण पावं, संजोइयं जोइयं, कालतर-विडंबणा-मरण-फलं दिणं च मज्झ 30
पाणं । तओ कुमार, वियंभिउं पयत्तो मज्झ सो जोओ । किं च जायं । थोवं पेच्छामि अक्खिण्हिं, ण फुडं सुणेमि सव्वणेहिं,
ण-याणामि गंधं णासियाए, ण संवेएमि फरिसं सरीरेण, ण विंदामि सायं जीहाए । णासए मई, पणस्सए बुद्धी, विणस्सए
33 पण्णा । वियलियं सीलं, णिगया लज्जा, अवगया दया, अवहरियं दक्खिणं, पलाणं पोरुसं, परिहरिओ रईए, णिग्गच्छिओ 33
विण्णाणेणं, पम्हुट्ठो संकाए, अवहत्थिओ विवेएणं ति । अवि य ।

1) J om. वा, J बातरं, J P वा for व, P वयजोगेहिं, J जोएहिं, J वहेइ ण व होइ, P वहावेयं, P om. व.
2) J जोएहिं. 3) J गामणगरे व दिणं मणवइ, P नेण्हे न य गिण्हावेइ गेण्हितं. 4) P जोगेहिं, J inter. णय भुंजावए
and ण भुंजइ, P न भुंजए न भुंजावेइ. 5) P न कुणइ ममत्तकारे, J om. णेय, P om. य. 6) J P एता, P वेत्तं, P राती-
J विरति, P कुणति. 7) J P एता, J विरतो. 8) J संवरितप्पा, J दुबिधेण, P वि corrected as वि. 9) P 'ण मोगो-
यरिया, J परिच्चाओ, J संलीणता, J भणितं. 10) J ततो, P समाधी, J एतं. 11) एतेण, J भुव्वं for पुव्व, P निज्जरजइ, J
होइइ इमा जाण 12) P तओ जीइ ॥ 14) P पासइ लोमं च, J लोअमलोवं, J सव्वतोवस्सं । P repeats the line तं
नत्थि etc., J भूतं. 15) J संबोहेउण सव्वजीवाओ । 16) P सिद्धिपुरं. 17) P सुहंमणंतं. 18) P पव्वज्जोइं. 19)
P 'रिसिणो, P दप्पफलिहा, P om. भुयफलिहा. 20) J तुल्लगपावे. 21) P माणुसत्तणं, P जाती, P दुल्लो. 22) P
मणो for मण, P दुक्खं संसारो । तेण, P अक्वत्तं पिव. 24) J om. अ वि य. 25) P एक्को, P जिणवयणमि ॥. 26) P om.
भगवं, J तप्पभूतिं P तप्पभूह, P om. मेत्त, J सावया. 27) P अम्हेहिमि, J पेसिआ दूआ, P पिउणा. 28) P दढधम्मो, P अज्जाए,
P दप्पहो, J पढमपुत्तो, P om. तह ति. 29) J पडिवणो, P inter. एक्को and विज्जो, P om. य, P भुयफलिह. 30) P om.
जण before वयणिज्जं, J लोआयारं, J जो for जोइयं, P विडंबिणा, J मरणफलं. 31) P थोअं, J सुणेमि समणएहिं. 32) J ण
संवेत्तेसि फरिसं सरीरेणं, P फरुसं, J सातं for सायं, J मती. 33) P विचलए सीलं.

- 1 विष्णुगण-गण-पोरुस-दाण-दया-बुद्धि-गुण-सयाइं पि । दारिद्र्येण व जोएण तेण सहस्रं त्ति णट्ठाइं ॥ 1
- केवलं पियं-भाणिरं पि अणियं भणामि पणमंतं पि ताडेमि ति । एरिसं च मं पेच्छिऊण राय-लोओ 'हा हा कट्टं'ति भणिऊण 2
- देव्वं उवालहियं टिओ । अहं पुण कर्हिंषि गायंतो कर्हिंषि णच्चमाणो कर्हिंषि रुयमाणो कर्हिंषि हसमाणो कर्हिंषि णिवडंतो 3
- कर्हिंषि पहावंतो रच्छा-कय-वीर-विरहय-मालो धूलि-धवल-सरीरो णिम्मल्ल-बद्ध-मुड-मालो गहिय-स्सप्पर-करगो कइया 4
- वि परिह्तिओ, कइया विणियंसणो, कइया वि कर्हिं पि परिभममाणो इमं असंबद्ध-क्खारालाव-रइयं चच्चरियं णच्चमाणो । 5
- अवि य । 6
- यदि कश्चिद्विपश्चि न जानु सखे यदि सर्करसर्करला न भवेत् ।
- यदि चन्द्रमुनीन्द्रमनङ्ग चितः यदि सोऽस्ति नमोऽस्तु नमोऽस्तु ततः ॥
- 9 एवं च वच्चमाणो कय-वाल-परियारो गामागर-णगर-पट्टणाराम-देवउल-सर-तलाय-तिय-चउक्क-चच्चर-महापह-पहेसु परिभम- 9
- माणो इमं विंणगिरि-सिहर-कुहरंतरालेसु पत्तो । तओ तणहा-सुहा-किलंतो, एक्कं-गिरिणइ-पवाह-पत्थर-विवरंतरालमि 10
- पाणियं अणेय-बिल्ल-सल्लइ-तमाल-हरडय-बहेडयामलय-पत्त-फल-पूर-णिज्जास-कासाइयं, तं च दट्टुणं पीयं जहिच्छाए ।
- 11 णिसण्णे छायाए । तओ थेव-वेलाए वेलावस-समुच्छलिय-सलिल-सागर-तरंग-रंगंत-सरिसो उदरुभंतरो जाओ । विरिक्को 12
- उडुं अहेण य । तओ णीहरिउं पयत्तो । पुणो पीयं, पुणो विरिक्कं । पुणो पीयं जाव सव्व-दोसक्खओ जाओ त्ति ।
- § २३६) तओ पच्चागयं पिव जीविणं, उइयं पिव दिवायरेणं, उग्वाडियाइं व दिसि-मुहाइं, आगयं पिव कुडीए, 13
- संपत्तं पिव सुमरणाए, पावियं पिव विवेगेणं, उद्धाइयं पिव वेयणाए, सब्बहा पढमं पिव सत्थ-चित्तो जाओ अहं । तओ 14
- चित्तियं मए । 'अहो, किमेयं मम वुत्तंतं जायं । णिग्गओ विव महाकंताराओ, णीहरिओ विव पायालाओ, उत्तरिओ विव 15
- समुहाओ, णिब्बुओ संपयं जाओ म्हि । ण-याणामि किं पि अहं आसी, किं ता पसुत्तो हं, किं वा गळ-भ-गओ हं, किं वा 16
- मत्तो हं, किं उम्मत्तगो, सब्बहा जं होइ तं होउ । भुक्खिओ हं, ता अण्णेसामि एत्थ पुप्फं वा, फलं वा' चित्तेमाणेण पलोइयाइं 17
- पासाइं । जाव दिट्ठो अणेय-मिल्ल-परिवारो एक्को पसत्थ-रूव-वज्जणायार-संपुण्णो पुरिसो । तेण य ममं पेच्छिऊण पसरमाणंतर- 18
- सिणेइ-नाडिमं भणियं 'सागयं तुह मह भाउणो, कत्तो सि आगओ' । मए भणियं 'अहं पुच्च-देसाओ आगओ' । तेण 19
- भणियं । 'पयट्ट, वच्चामो गामं' ति भणमाणो गंतुं पयत्तो, आगओ य इमं महापल्लिं । आरूढा एत्थ मंदिरोयरे । तओ तेण 20
- आणत्तो विलासिणियणो 'आणेषु पोत्ति ए दोण्हं पि' । तओ अब्भंगिय-उव्वट्टिय-मज्जियाणं पविट्ठो देवहरयं । तत्थ 'णमो 21
- अरहंतानं' णिसुए अहं पि हरिस-वसुलसंत-पुल्लओ पविट्ठो । वंदिया य मए भगवंतो । चिर-दिट्ठं पिव बंधुं मण्णमाजेण भणियं 22
- तेण पुरिसेण । 'पणामि साहम्मियं, अहो कयत्थो हं, पसंसिणज्जो हं धण्णो हं कय-पुण्णो अहं' ति । तओ मए वि सहरिसं 23
- सविणयं च पणमिओ । तओ कमेण उवविट्ठो भोयण-संडवे । तत्थ जं जहा-रुइयं भोत्तुं भोयणं तओ सुहासणत्थाण य 24
- भणियं तेण । 'साहसु, कत्थ तुमं, कहं वा एयं देसंतरं पाविओ । कत्थ वा इमम्मि णरयामर-तिरिय-मणुय-भव-सीम-पायाल- 25
- किलेसे महाकोव-धगधगेत-कराल-जालाउल-चाडवाणले जर-भरण-रोग-संताव-करि-मयर-जलयर-वियरमाण-दुरुत्तारे बहु-विह- 26
- कम्म-परिणाम-खार-णीसार-णीर-पडहत्थे हत्थ-परियत्तमाण-संपत्ति-विवत्ति-मच्छ-पुच्छ-च्छाभिज्जमाण-तुंग-कुल-तरंग-भंगिल्ले 27
- राय-रोस-वेला-जल-पसरमाण-पवाहुम्मूलिजंत-वेला-वण-पुण्ण-पायवे संसार-सायरम्मि सिद्ध-पुरि-पावयं जाणवत्तं पिव भगवं- 28
- 30 ताणं वयणं पावियं' ति । 29

1 > P त्ति नट्ठाणं ॥ 2 > P पियं भणिओ वियपियं, P om. मं. 3 > P उवालहिउं टिओ, P repeats कर्हिंषि नच्चमाणो, P नडंतो for णिवडंतो. 4 > J पभावंतो, P पहावंतो, P तिमल्लबुद्धमुडेमालो 5 > P चच्चरं. 6 > P अपि च for अवि य. 7 > P कश्चिद्विपश्चित्, J सर्करं सर्करं न भवेत्, P भवे. 8 > P चंद्र, J चंद्रमर्तिद्रं, P 'मनागतितयदि, J सोस्तु P सोस्ति. 9 > J च णच्चमाणो, P om. सरतलाय, P महापहेजु. 10 > P सिहरंतरालं पत्तो, P गिरिनइं. 11 > P बिल्लइंतगाय, P हरडयबहेडओमत्तय, P कसाइयं, J adds तओ before तं च. 12 > J थेव for थेव, J 'वसमुच्छलिय, J सायर, P सागरतरंगंत, J उरुभंतरो, P उदरुभरो, P विरिक्के. 13 > P adds सो जाओ पुणो पीयं between पयत्तो and पुणो, J जा for जाव. 14 > J दिसिवहाइं. 15 > P संमत्तं for संमत्तं, J उद्धाइतं P उद्धाइयं, J वेतणाए, J जाओ हं. 16 > P उदरिओ इव. 17 > J त्ति for म्हि, P मह for पि अहं, J आसि, J गम्मगतो P गम्मओ. 18 > P किं वोमत्तगो, J भुक्खियतो, J व for वा after फलं. 19 > J संपण्णो, P मं ते for य ममं, J 'माणंतन्तरं'. 20 > P गग्गिमणंगभणियं, P भायत्तोणो for भाउणो, P om. आगओ after देसाओ. 21 > P इमं पल्लि, J मंदिरोयरो. 22 > P विलासिणीयणो, P पोत्ती दोण्हं, P आब्भंगिय, P उव्वत्तिअ, P तओ for तत्थ. 23 > P अरिहंतानं, P सु for णिसुए, P दिट्ठं. 24 > P om. पुरिसेण, P धणो for धण्णो, P om. हं, J हं for अहं. 25 > P च, P उवविट्ठो, P जहाइयं भोत्तुणं [भोत्तं भोयणं]. 26 > J पाविअं, P इमम्मि नरयामरयामर. 27 > P कलसे for किलेसे, P वडवानले, J मरणारोग, P दुत्तरे for दुरुत्तारे. 28 > P खार for खार, P पडिहत्थे, J विपत्तिमच्छपुल्ल, J रंगिल्लो for भंगिल्ले. 29 > P पसरमाणयवाहुमूलि, P णण for वण, J पावियं तेण । जाणं. 30 > P adds पिव before वयणं.

1 § २३७) मए भणियं । 'रयणपुरे रयणचूडो णाम राया । तस्स पुत्तो हं दप्पफलिहो णामं ति । धम्मो उण तेणेय 1
भगवया पचेय-बुद्धेण होउण साहिओ । उम्मत्त-जोएण य परव्वसो एत्थ अरण्णे पाविओ' ति । एवं च साहिए समाणे 1
3 भणियं तेण । 'किं तुमं सोमवंस-संभवस्स रयणमउडस्स पुत्तो । दे सुंदरं जायं, एक्को अग्गहण वंसो । तुमं एत्थ रजे 3
होसु संपयं' ति भणभाणेण सहाविया सब्बे सेणावइणो । ताण पुरओ सिंहासणत्थो अहिस्सित्तो अहं । तेण भणिया य ते 3
सेणावइणो । 'भो भो, एस तुम्हाणं समयट्टियाणं राया पालओ । अहं पुण जं रुइयं अत्तणे तं करीहामि' भणिए तेहिं 3
6 'तह'त्ति पड्विण्णं । तओ णिगओ तक्खणं चेय सो राया । तस्स य मग्गालग्गा अग्गे वि णीहरिया । तओ थोयंतरं 6
गंतूण भणियं णेण 'सेणावइणो, वच्चह, णियत्तह तुब्बे । खमियच्चं जं किंचि मज्झ दुब्बिलसियं । परिपालेयव्वओ ताओ 6
तुब्बेहिं पइण्णाओ पुव्व-गहियाओ'ति भणमाणो गंतुं पयत्तो । ते वि भूमि-णिवडिया उत्तिमंगेण गळमाण-जणण्या णिवत्ता 6
9 सेणावइणो । अहं पि थोयं पएसंतरं उवगतो तेण भणिओ 'वच्च, दे णियत्तसु । केवलं एए मिच्छा जइ समयाइं 9
पालयंति पुव्व-गहियाइं । तओ तए पालेयव्वो, अहवा परिचएयव्व सि । अणं च,

संसार-सायरमि दुक्ख-सायावत्त-भंगुर-तरंगे । जीवाण णत्थि सरणं मोत्तुं जिण-देसियं धम्मं ॥

12 तम्मि अपमाओ कायच्चो' ति भणमाणो पवसिओ । ण उण वेणावि णाओ कहिं गओ ति । एवं पुण मए विगण्णियं गंतुं 12
अणमारियं पव्वज्जमभुववणो'ति । तप्पभुइं च कुमार, पेच्छामि इमे मेच्छा ण मारंति तण-जीवाणं, पसुं ण घापंति 12
अघाचमाणं, ण हणंति पलायमाणं, ण भणंति कूड-सक्खेज्जं, ण लुंपंति अप्प-घणं पुरिसं, ण सुसंति महिलियं, ण छिवंति 12
15 अवहत्थयं, सुसिउण वि पणामंति थोयं, ण नेण्हंति अणिच्छं जुवइयं तं पड्विज्जंति भगवंतं भव-विणासणं देवाहिदेवं ति । 15
तओ कुमार, कालेण य वच्चमाणेण अकायच्चं पि काउं समाउत्तं, जेण महंतो मोहो, गरुओ कोवो, महामहल्लो माणो, दुज्जओ 15
लोहो, विसमा कुसील-संसग्गी, सब्ब-क्म्म-परायत्तणेण जीवाणं । अहं पि तं चेय चोर-वित्तिं समस्सिओ ति । दिट्ठं चिय 15
18 तुब्बेहिं । तओ चित्तियं मए । 'अहो, अकल्लाणो एस मेच्छ-पसंगो । ता मज्झ एस मेच्छ-वावार-विणडियस्स एयं पि 18
अजेय-भव-परंपरा-पवाह-पूर-पसर-हीरमाणस्स कुत्तमयावत्त-गत्तावडियस्स इमं पि पग्गुसीहिइ भगवओ वयणं ति । तेण मए 18
आणत्तो एस पुरिसो जहा 'अहं लोहेण इमं एरिसं अवत्थं पाविओ, तेण लोह-दंडेण ताडयच्चो दियहे दियहे इमं भणमा- 18
21 णेणं'ति । ता एत्थंतरे पुच्छियं तए जहा 'को एस पुरिसो, किं वा तुमं पि इमिणा पहओ' ति । तुह पुण पुरओ ताडियस्स 21
महंतो महं उव्वेओ जाओ'ति ।

§ २३८) तओ भणियं कुमारेण । 'अहो महंतो बुत्तंतो, महास्सतो रयणमउडो, महात्तिसओ पचेय-बुद्धो, दुल्लहो

24 जिणवर-मग्गो, महंतो उवयारो, णीसंगा रिसिणो, महंतं वेरं एग-दव्वाभिलासित्तं, दुज्जओ लोह-पिसाओ, णिव्विवेगा 24
पाणिणो, पयइए अणुवगय-वच्चल्ला महापुरिसा, परिचयंति चक्खट्टिणो वि रज्जं, होइ चिय साहमियाण सिणेहो । परि- 24
वालेंति मेच्छा वि किं पि कस्सइ वयणं ति । अवि य, 24
27 ण य अत्थि कोइ भावो ण य बुत्तंतो ण यावि पजाओ । जीवेण जो ण पत्तो इमम्मि संसार-कंतारं ॥ 27
ता संपयं परिहरसु णिक्खणत्तणं, मा अणुमण्णह चोर-वित्तिं, उज्जमसु तव-संजमम्मि, अब्भुट्टेसु जिणवर-मग्गो, उज्जसु चंचलं 27
लच्छिं । अवि य ।

30 रज्ज-सिरीओ भोगा इंदत्तणयं च णाम अणुभूयं । जीवस्स णत्थि तुट्ठी तम्हा उज्जाहि किं तेण ॥ 30
एवं च कुमार-कुवलयचंदेण भणिए, जंपियं दप्पफलिहेणं 'एयं च एयं ण एत्थ संदहो ति । अह उण कुमारस्म रूव-विण्णाण- 30
णाण-कला-कलाव-विणय-णय-सत्त-सार-साहस-दक्खिण्णाइहिं गुणेहिं साहियं जहा महाकुल-णहयल-मियंको महापुरिसो ति । 30
38 इमं पुण ण-याणामि कयरं तं कुलं, किं वा कुमारस्स सब्ब-जण-हियय-सुहयं णामं ति । ता करेउ अणुगगहं कुमारो, जाणिउं 33

1 > J भणियं । रयणाचूडो णाम रयणपुरे अत्थि राया । 2 > P भगवया पुत्तयबद्धेण, J परव्वसो, P एत्थारणे. 3 > J संभो
ति रयणं. 4 > P सिंहासणत्थो, J अमिस्सित्तो. 5 > P सेणावइणा, P adds एक्को before भो भो, J तं कीरीहामि. 6 > P थोवंतरं,
7 > J णेण P तेण for णेण, P om. मज्झ, P परिचाले. 8 > J पइण्णाइ पुव्वगहिआहिं भणं, P -निवडिओत्तिमंगा. 9 > P
थोवंतरं पएसं उवगतो, J om. भणिओ, J एत्थे for एए, J समायाइं कालयंति. 10 > J पालेयव्वो P पालियव्वो, J परिचएयव्व.
11 > P सायरंसी. 12 > P अपमाओ, P पवसिओ, P तं किं वि for कहिं, P एयं पुण, J विअट्ठिअं. 13 > J पव्वज्जा
अभुं, J P तप्पभुइं, J पेच्छा for मेच्छा, P मारंति, J तणजीवाणं, P घायंति. 14 > J om. ण हणंति पलायमाणं, P -सक्खेज्जं, J
लुंपंति, P अत्तधणं. 15 > J पणामंति, P थोवयं, J अणेण्हंति for ण नेण्हंति, P अणिच्छियजुवइं, J om. तं, J भगवंतं रूव
विण्णासदेवा. 16 > P om. कुमार कालेण य etc. to लोहो विसमा. 17 > J परअत्तणेणं, P चोरवित्तं. 19 > P कुसुम-
यावत्तं, J पग्गुसीहिइति, P भगवया. 20 > P जहालोएण इमं, P adds ति । after पाविओ, J भणमाणणं ति. 21 > P एयं
तए for एत्थंतरे, P ति for तए, J om. पि. 22 > J मह उव्वेओ, P उव्वेवो. 23 > P महं for महंतो, P महाइसओ पत्तेयं.
24 > J संगो for णीसंगा, J दव्वाहिलासित्तं. 25 > J संति for पयइए, P repeats महा, J परिचयंति, P om. वि, P साहमि-
याणंसि. 27 > P कोवइ for कोइ, P जेण for जो ण. 28 > P adds पि after संपयं, J om. मा, P उब्भुट्टेसु. 30 > J भोगो
for भोगा, P उज्जाहि. 31 > P भणियं for भणिए, P om. च, J हण for उण. 32 > J om. णय, P om. सार, J दक्खिणा-
तीहिं, J साहिउं, P इयं for इमं. 33 > P om. तं, P inter. कुमारो & अणुगगहं, P जाणिउमिच्छामिस्ति.

१ दृच्छामि'ति । तन्नो कुमारेण भणियं 'अच्छउ ता सयलं जंपियय्वं । पुच्छामि पुच्छियय्वं किंचि तुम्हे' । तेण भणियं 'पुच्छउ १
कुमारो' । कुमारेण भणियं 'जो सो ददधम्मो णाम राया अयोज्जाए पुरवरीए तुज्ज पित्तियो, तस्स किं कोइ पुत्तो अत्थि, १
३ किं वा णत्थि'ति । तन्नो तेण दीहं जीससिज्जण भणियं 'कुमार, कत्तो एत्तियाइं पुण्णाइं । एक्कं पुण मए एक्कस्स देसियस्स ३
वयणाओ सुयं जहा ददधम्म-महाराया सिरिं आराहिय पुत्तवरं पाविओ । पुणो ण-याणांमि किं तत्थ वत्तं । को वा एत्थ ३
मज्ज-गिरि-सिहर-बिवरंतराल-महागहणेसु सायत्तो पइसइ'ति । कुमारेण भणियं 'अहं सो जो सिरिप्प-पय्यओ लद्धो ददधम्म- ६
६ राइणो पुत्तो, णामं च महं कुचलयचंदो'ति । एवं च उल्लविय-मेत्ते अभिधाविज्जण भाउओ ति काठं कंठे गहिज्जण रोहउं ६
पबत्तो, तन्नो परियणेण संठविया, गहियं च णयण-धोवणं जलं, उवविट्ठा आसणेसु । तन्नो पुच्छियं दप्पफलिहेणं 'भणसु, ६
केण उण वुत्ततेण तुमं एगागी एत्थ य संपत्तो, किं कुसलं राइणो ददधम्मस्स, कहं वहा देवी णामा, अवि थिरं रजं' । ६
९ एवं च पुच्छिए साहियं सयलं वुत्तंतं कुमारेण । संपयं पुण विजयणयरीए कुचलयमाला संबोहेयय्वं ति । एवं च पिय-कहालाव- ९
जंपिपहिं अच्छिज्जण द्रोणिं तिणिणं वियहाइं, भणियं च कुमारेण 'ताथ, जइ तुमं भणसि, तन्नो वच्चामि अहं विजयपुर- ९
वरिं'ति ।

१२ § २३९) इमं च सोज्जण भणियं दप्पफलिहेण 'कुमार, कत्थ गममए एरिसेसु वियहेसु, किं ण पेच्छसि, दव-दद- १२
विज्ज-पय्यय-सिहर-सरिच्छाइं वड्डमाण्णाइं णव-पाउसम्मि, पेच्छसु सुहय, णववभाइं दीसंति ।

कोमल-तमाल-पल्लव-गीलुव्वेल्लंत-कोमलच्छाया । कत्थइ गय-कुल-सरिसा मिलंति मेहा गयण-मग्गे ॥

१६ कत्थइ वण-सर-हिक्कास-कास-बहलद्ध-लग्ग-महलंगा । वण-महिसं व्व सरहसं वियरंति य मेह-संघाया ॥ १६

अणुमग्ग-लग्ग-भंगुर-जरठ-महापत्त-पत्त-सच्छाया । करि-मथरं व्व सरोसा कत्थइ जुज्जंति वारिहरा ॥

१६ पलउव्वेल्लिर-हल्लिर-समुह-वेला-तरंग-रंगता । पवण-वसुच्छलमाणा कत्थइ जलयावलि-णिहाया ॥

१८ डंडाहय-कुविय-भुयंग-भीम-भिगंग-सामलच्छाया । वियरंति कत्थइ णहे असुरं व्व सकामिणो जलया ॥ १८

इय सामल-जलय-समाउलम्मि णव-पाउसस्स वयणम्मि । को मुंचइ दइय-जणं दक्खिणं जस्स हिययम्मि ॥'

एवं च भणिओ समाणो ठिओ कुमारो । तम्मि य काले केरिसो पवणो वियरिउं पयत्तो । अवि य,

२१ णव-पच्छमाण-सहयार-गंध-पसरंत-परिमलुग्घाओ । वियरइ वणंतरेसुं कत्थइ पवणो धम्मधमेत्तो ॥ २१

पढमोवुट्ट-महीयल-जल-संगम-संगलंत-गंधद्वो । वायइ सुरही पवणो मय-जणओ महिस-वंद्राणं ॥

२१ धूली-कयंब-परिमल-परिणय-जरठायमाण-गंधिल्लो । सिसिरो वियरइ पवणो पूरंतो णासिया-विवरे ॥

२४ इय पसरमाण-खर-फरुस-मारुया वेय-विहुर-पुय-पक्खा । रिट्ठा करंति णटं कह-कहं वि कल्लिच-णिवहेहिं ॥ २४

पढमोवुट्टे य पुहइ-मंडले किं जायं । अवि य उट्ठिभज्जंति णव-कोमल-कंदल-णिहायइं । णञ्जंति बरहिणो गिरिवर-विवर-सिह- २४
रेसु । दीण-विमणओ पावासुय-घरिणीओ । उट्ठिभज्जमाण-णवकु-रोहिर पुहइ । आउलीहोति जणवया । सज्जंति पवा-मंडवा ।

२७ हल-लंगल-वावड हलिय । णियत्तंति पंथिय । उज्जंति गामेसु घरइं । णिय-चंचु-विरइय-घरोयरे संठिय चडय । कीरंति २७
मट्टिया-साहणइं भगवेहिं । बज्जंति वरणाबंधइं कासपहिं । जलं जलं ति वाहरंति वप्पीहय-कुला य । कल्लिचय-वावड-विसर-

२७ मुह-धम्मलाम-मेत्त-लद्धावल्ल-वित्ति-परवसइ संठिय तव-णियम-सोसिय-सरीर-सज्जाय-ज्जाण-वावड साहु-भडरय ति ।

३० णव-पाउसम्मि पत्ते धाराहय-घोरगेहिं तूरंतो । को य ण करेइ गेहं एक्कं चिय कोइला मोत्तुं ॥ ३०

§ २४०) तन्नो एरिसे णव-पाउसम्मि किं कुणंति पउत्थवइयाओ । अवि य ।

सुरयावसाण-चुंबण-समय-विदिण्णम्मि ओहि-दियहम्मि । लेहा-विगणिय-पुण्णम्मि णवरि जीयं विणिक्खित्तं ॥

३३ सहि-दंसगेहिं दियइं राई उण सुविण-विप्पलंमेहिं । दइया-दिण्ण-दिणं पिव गयं पि मुद्धा ण-याणाइ ॥ ३३

१ > J आसवलं for ता सयलं, J om. पुच्छामि पुच्छियय्वं, P तुम्हे for तुम्हे. २ > P जं for जो, P ददधम्मो, P om. ३ > P कुओ for कत्तो, P देसियवयाओ. ४ > J णियं for सुयं, JP ददधम्मो, J महाराइणा, ३
J पुत्तवरो, J पत्तं for वत्तं, P को वि एत्थ मज्जसिरि. ५ > J सिरिकुहरंतराल, J adds को before सायत्तो, P साइत्तो, ३
P om. जो, P सिरिपसायलद्धो, J adds य before लद्धो, JP ददधम्म. ६ > J adds सो अहं before णामं, P मेत्त for मेत्ते, ३
P भाउणो. ७ > J adds य before संठविया, J -थावणं, P दप्पफलिहेणा. ८ > P om. य, J P ददधम्मस्स, P महादेवी ३
for वहा देवी. ९ > P पुच्छिए सयतं पि साहियं वुत्तंतं. १० > P जपिरेहिं, P दो for द्रोणिं, J विजयं पुरवरि. ३
१२ > P ददधम्मिहेण. १३ > P समाणाइं for सरिच्छाइं, P नववभाइं. १४ > J गयउलसरिसा P कुलगइसरिसा मिलंते. १५ > ३
J बहलदलग्ग, P तण for वण, P सहरसं for सरहमं. १७ > J पल्लवुज्जे, J रंगं व्व P रंगं वा । १८ > J कुवियमहाभुयंगभिगंग. ३
१९ > P पाउसवयस्स. २० > P om. च. २१ > J गरु for गंध, P पल्लिमलुग्घाओ. २२ > J वट्ट & P बुद्ध for वुट्ट. २३ > P ३
जहारमाणगंधिल्लो, J गंधिल्लो. २४ > P निचं for णटं, P om. वि. २५ > P पढमो बुद्धो य, P वहिणगिरिवरदीण. २६ > J उज्जंति, ३
P भज्जंति for सज्जंति (emended), P मंडव. २७ > P -लंगल for लंगल, P गामे for गामेसु, P घरोयरसंठिय, P वियड for चडय. ३
२८ > P बंधंति, P वग्गेहिं for कासपहिं, J जलजलं, P कल्लिचवावडविहं मुह. २९ > J धम्मलाम, J om. लद्धाव, J om. वित्ति, P ३
मज्जाण, J वावडसाधुणभडरय च ति, P चडरय ति, J adds अवि य after ति. ३० > J धाराधरोरणीहिं दूरंतो, P नर ३
for य. ३१ > J एरिसम्मि for एरिसे, J पउत्थवइयउ. ३२ > J कुणंति for चुंबण, J विण्णम्मि, P लामा for लेहा, J णवरि जीयं, ३
P जीवा विणिक्खित्तो. ३३ > P सहिदंसगेहिं, J राईजणमुहण, J दइअदयादिण्णदिणं गयं.

- 1 अणुदियहं पि गणेंती तं दियहं णेय जाणए मुद्धा । मीमेहिं रक्खसेहिं व हिय-हियया काल-मेहेहिं ॥ 1
- अणुसमय-रुयंतीए बाह-जलोयालि-महुल-वयणाए । पेच्छह जलओ जलओ गय-छजो गजए उवरिं ॥
- 3 मा जाण ण वज्झाई मा ए मल्लिणाई विंझ-सिहराई । सहियापण-वेलविया मुच्छा-विरमे समूससिया ॥ 3
- गजसि अलज्ज विज्जुजलो सि दे गज्ज जलय मा उवरिं । झीण-सिरिपण तेण उज्झाय-झीणाए बालाए ॥
- इय णव-जलहर-माला-मुहल-मिलंतेहिं को ण जूरविओ । तव-संजम-गाण-रयं साहु-जणं णवर मोसूणं ॥
- 6 तओ तं च तारिसं लक्खिज्जण अहिणव-मल्लिण-जलय-माला-संवलंतुव्वेहमाण-बलायावली-कय-कवाल-मालालंकारे झसि 6
- तहय-णयणगिग-विलसंत-विज्जुलए गज्जिय-मीमद्दहास-णच्चणाबद्ध-केली-वावड-हर-रूव-हरे मेघ-संघाए गजंत-मेह-सह-संका-
लुएसु पलायमाणेसु माणस-सरवर-माणसेसु मुद्ध-रायहंस-कुलेसु चित्तियं कुमारेण । अवि य ।
- 9 कसिणाण विज्जु-पुंजुज्जलाण गजंत-मीम-णायाणं । मेहाण रक्खमाण व को चुक्कह णवर पंथम्मि ॥ 9
- ता ण जुज्झइ मह पइं पडिवज्जिज्जण । एवं च पडिवज्जणे णव-पाउस-समए तेण भाउणा सह अणुदियहं वद्धमाण-सिणेह-भावो
अच्छिउं पयत्तो । तओ कमेण य संपत्तेसु इंदमह-दियहेसु कीरमाणसु महाणवमीसु होंत-मणोरहेसु दीवाली-छण-महेसु
- 12 पयत्तासु देवउल-जत्तासु वोलिए बलदेवूसवे णिप्फज्जमाणेसु सब्व-सासेसु बद्ध-कणिसासु कलमासु हलहल-वड्डिरेसु 12
- पुंढेच्छु-वणेसु वियसमागेसु तामरस-संडेसु कय-कंदोद-कण्णपूरासु सालि-गोवियासु डेकंतेसु दरिय-वसहेसु कीमल-बाल-
मुणाल-वेलहल-बाहुलइयालंकार-धवल-वलयावली-ताल-वस-खलखलामुहलालाव-गीय-रास-मंडली-लीला-वावडेसु गामंगण-
- 15 गोट्ट-जुवाण-जुवल-जणेसु चित्तियं कुमारेण । गंतव्वं मए तेण कज्जेणं । अवि य । 15
- तं णारहंति कज्जं जं ण समाणेंति कह वि सप्पुरिसा । आढत्ते उण जीयं वयं व णियमा समाणेंति ॥
- ता ण जुत्तं मज्झ असमाणिय-कज्जस्स इह अच्छिउं' ति चित्तियंतेण भणिओ दप्पफलिहो । अवि य ।
- 18 'जायस्स केण कज्जं अवस्स णरणाह सब्व-जीवस्स ।' 18
- णरवइणा भणियं ।
- 'जइ सीसइ तुग्घ फुडं जायस्स तु मज्झणा कज्जं ॥'
- 21 कुमारेण भणियं 'अहो जाणियं, अण्णं पि पण्हं पुच्छिमो' । अवि य । 21
- 'इट्टस्स अणिट्टस्स व संजोए केण कह व होयव्वं ।'
- भणियं च सेणावइणा ।
- 24 'को व ण-याणइ एयं संजोए विप्पओएणं ॥' 24
- § २४१) इमम्मि य णरवइणा उल्लविए समागे जंपियं कुमारेणं सहासेण । 'जाणियं तए संजोए विप्पओएण
होयव्वं, ता वच्चासि अहं तेण कारणेणं'ति । णरवइणा भणियं 'किं अवस्सं गंतव्वं कुमारेण । जइ एवं, ता अहं पि सयलं
- 27 परिच्छइज्जण रज्जं वच्चासि कं पि पएसं । तत्थ अणगारियं पव्वज्जमम्भुवेहामि'ति भणमाणा णीहरिया ताओ पल्लीओ । भणियं च 27
- णरवइणा 'अहं सब्व-बल-वाहणो चेव तुह सहाओ तं विजयपुरवरिं वच्चासि' । कुमारेण भणियं 'ण एवं, केण किं कज्जं ।
जेण दुग्गामो देसो, दूरं विमयंतरं, बलवंता णरवइणो अणुबद्ध-वेरा, तुव्वे थोवं बलं ति, तेण एक्को चेय सत्त-सहाओ तं
- 30 कज्जं साहेहामि' । तेण भणियं 'जइ एवं ता अभिप्पाय-सिद्धी होउ कुमारस्स' । कुमारेण वि भणियं । 'एवं होउ गुरुणं पसाएणं'ति 30
- भणमाणेण समाल्लिणिओ । पडिओ पाएसु कुमारो, पणमिओ य साहम्मियस्स । 'वंदामि'ति भणमाणो चलिओ कुमारो
दक्खिणं दिसाभोगं । तओ णरवइं वि ठिओ पलोएंतो कुमार-हुत्तं ताव जा अंतरिओ तरुण-तरुवर-वण-लया-गुम्म-गहणेहिं

1 > P गणेंती तं दिवहं, P महिया सा for व हियहियया. 2 > P अणवरय रुवंतीए बाहजलोरलिभोयनयणाए । 3 > J वहाइं for वज्झाई, P । मयसहियण. 4 > P जलय मा एवं । उवरिंउ वारिएणं विओयज्झीणीए बालाए । 5 > J साहुअणं. 6 > J -जलिय, P -व्वेहमाण, J -पलायावली. 7 > J °णांध-, J केवली for केली, P संकालएम्. 8 > J °प्लाय', J repeats मुद्ध, J °हंसउलेम्. 9 > J मीमयायाण ।, P महाण for मेहाण. 10 > P om. च, P समं for सह, J अणुदियहा, J P वट्टमाण J सिणेहोवयारो बोलाविउं पयत्तो. 11 > P om. य, P adds वोलिए बलपव्वसवो after दियहेसु, J कीरमाणेसु, P दीवालिय-. 12 > P जुत्तासु for जत्तासु, P om. वोलिए बलदेवूसवे, P निप्पज्जमाणेसु, J सब्वसस्सेम्. 13 > J पुण्णच्छरणेसु P पुत्रच्छुवणेसु, J वणेसु for संडेसु, J -जलामु for पूरासु, J साल-, P सालिणावियासु डेकंतेसु, J -वसमेम्. 14 > P तालवसलामुहलाराव, J रोसय for रास, J ला & P लीला for लीला. 15 > P गोट्ट for गोट्ट, P जुवलजलेम्, J adds ति before चित्तियं. 16 > J तण्णारहंति P तं नारहंति, P समाणंति, J वडं for वयं, P ति for व, P समाणंति. 17 > J दप्पफलिहो. 18 > J जीअस्स for जायस्स. 20 > P तुज्झ for तुग्घ, J जातस्स, P उ for तु. 21 > J जाणियं अ अण्णं पि मज्झ पुच्छिमो. 22 > P कह वि for क व. 23 > J om. च. 24 > P repeats एयं, P विप्पओणेणं. 25 > P एयंमि for इमम्मि, P विप्पओणेण. 27 > P किं पि for कं पि, P ओ for ताओ. 28 > P विजयपुरिं सस्स वच्चासि, J om. केण. 29 > P तुज्जे थोवं. 30 > P साहेसामि, J adds तुहं before होउ, P om. ति. 32 > P दक्खिणदिसिभागं, J दिसाभोगं, J om. कुमारहुत्तं, P जाव for जा, P तरुवरणालया.

- 1 ति । तन्नो आगन्नो गेहं । दक्खिण्णं दक्खिण्णिजे संमाणिउण संमाणणिजे संठाविउण पणइयणं काळण करणिजं दाउण ।
 2 दायन्नं भोत्तुण भोजं तक्खणं खेव णीहरिओ । अरिभतर-घर-विथरमाण-विरह-जलण-जालावली-तविजंत्तुवत्तमाण-णयण-पलाळ-
 3 भाल-सकज्जल-बाह-जळ-पवाह-पूर-पसर-पव्वाल्लिज्जंतो पलोहजंतो दीण-विमणेणं विलासिणियणेणं णीहरिओ सो महासत्तो । 3
- § २४२) कुमारो वि कमेण कमतो अणेय-गिरि-सरिया-महाडईओ य बोलेमाणो णाणाविह-देस-भासा-दुल्लक्ख-जंपिय-
 4 व्वयाइं बोलेमाणो अणेय-विष्व-विजाहर-मणुय-वुत्तंते पेच्छमाणो संपत्तो तं दाहिण-मयरहर-वेला-लगं विजयापुरधरी-विसयं ।
- 6 विट्ठं च तं कुमारेण । केरिसं । अवि य, बाण-खेव-मेत्त-संठिय-महाणामु । गामोअर-पय-णिक्खेव-मेत्त-संठिय-णिरंतर-धवलहरु । 6
 7 धवलहर-पुरोहड-संठिय-वणुज्जाणु । वणुज्जाण-मज्झ-फलिय-फणस-णालिपरी-वणु । णालिपरी-वण-वल्लग-पूयफली-तरुयरु ।
 8 तरुयारुद्ध-गायवल्ली-लया-वणु । वणोरयह्यासेस-वण-गहणु । वण-गहण-णिरुद्ध-विणयर-कर-पडभारो य त्ति । अवि य ।
- 9 चंदण-पंदण-पला-तरुयर-वण-गहण-रुद्ध-संचारो । साहा-णिमिय-करगो वियरइ सूरु पयंगो व्व ॥ 9
- जहिं च सुह-सेवओ तरुय-च्छाअओ सुपुरिस-पाय-च्छाहिओ व, वदंति कीर-रिंछोलियउ लोअय-उत्तओ व, महिजंति सज्जण-
 10 समागमइं इट्ट-देवयइं व, उण्णयइं तरुय-सिहरइं सपुसिस-हिययइं व । धावंति तण्णय पामर व्व, गार्थति जुवाणां
- 12 माहवी-मयरद-सुइय-मत्त-महुयरी व त्ति । जहिं च सीयलइं सकज्जइं ण परकज्जइं, मणंति पहिय-वंद्रइं ण पुत्त-भेळइं, 12
 13 पसंसिजंति सीलइं ण विहवइं, लंघियवइयइं उच्छु-वणइं ण कलत्तइं, जलाउलइं वप्पिणइं ण जण-संघयइं त्ति । जहिं च
 14 मयल-वुम्मिरायवुलोयण णगल-विआवड य बलदेवु जइसय पामर, अणिण पणि बाल-कालि णारायणु जइसय रंभिर-गो-
- 15 वग्ग-तण्णय-वावडा गोव-विलासिणी-धवल-वलमाण-णयण-कडक्ख-विक्खेव-विलुप्पमाण व, अणिण पणि संकर-जइसय भूई- 15
 16 परिभोग-ढेकंत-दरिय-वसहेक्क-विआवड व त्ति । अवि य ।
- बहु-सुर-णियर-भमंतर-दिठ्व-महा-तरुवरोहिं उच्छइयं । बुहयण-सहस्स-अरियं सगं पिव सहइ तं देसं ॥
- 18 तं च तारिसं देसं मज्झ-मज्झेण अणेय-नाम-जुवइयण-लोयणं दीवर-माला-पूइजंतो गंतुं पयत्तो । तन्नो कमेण य दिट्ठा सा 18
 19 विजया णयरी । केरिसा ।
- § २४३) अवि य । उत्तुंग-धवलहरोवरि-पवण-पहय-विलसमाण-धवल-विमलुज्जल-कोडि-पडाया-णिवह-संकुला,
 20 णाणाविह-वण-रयण-विण्णाण-विण्णास-विणिम्मविय-हम्मिय-सिहरग-कंचण-मणि-घडिय-पीयार-वल्ल-रेहिर-विहुम-मय- 21
 22 गोउर-क्वाड-मणि-संपुड त्ति । जा य लंकाउरि-जइसिय धीर-पुरिसाहिट्टिय ण उण वियरंत-रक्खसाउल, धणय-पुरि-जइसिय
 23 धण-णिरंतर ण उण गुज्झय-णिमियत्थ-वावार, वारयाउरि-जइसिय समुह-वल्लय-परिगय ण संणिहिय-गोविंद । जहिं च ण
- 24 सुव्वंति ण दीसंति वयणइं बहुयणहो खलयणहो व । जहिं च दीसंति रमिजंति य दोलइं लायलइं च धवलहरेसु कामिणी- 24
 25 वयणेसु त्ति । किं बहुणा,
- सिरि-सोहा-गुण-संघाय-विहव-दक्खिण्ण-णाण-भासाण । पुंजं व विणिम्मविया विहिणा पलयरिग-भीएण ॥
- 27 तीए णयरीए उत्तरे दिसि-विभाए णीसहो णिसण्णो राय-तणओ चिंतिउं पयत्तो । 'अहो एसा सा णयरी विजया जत्थ सा 27
 28 साहुणा साहिया कुवलयमाला । तो केण उण उवाएण सा मए दट्ठवा । अहवा दे पुच्छामि कं पि जणं ताव पडत्तिं । को
 29 उण एवं विआणइ । अहवा पर-तत्ति-तग्गाय-वावारो महिलायणो, उद्ध-रच्छा-जीवणो चट्ट-जणो य । ता जहा सल्लिय-सहिण-
- 30 मिदु-सुहुमंगुली-सणाह-चलण-पडिबिंब-लंछिओ मग्गो दीसइ एसो, तहा लक्खेमि इमिणा उदय-हारिया-मग्गेण होयव्वं । 30
- 2 > J अमंतर, J तविज्जमाणणयणथलाणाल, P वत्तमाणानयण- 3 > P बाहलपवाह, J प्पवाह, P पव्वाल्लिज्जंतो अवलो-
 हजंतो, P विलासिणीनीहरिओ. 4 > P गिरिया-, J दुलक्ख P दुलक्खं. 5 > P adds जणव्वयाइं after जंपियव्वयाइं, P trans-
 poses तं after लगं. 6 > P om. तं, J om. केरिसं, P बाणक्खेव, P महामाम, J गामोअरपाणखेवमेत्त, P धवलहरा । धवलपुरो".
 7 > J -पुरोहड, P मंठिय for संठिय वणुज्जाणु, P om. कलिय, P -नालिपरिवण ।, J णालिपरिवण-, P पूयफलीतरुयर. 8 > J
 लयाजणु, J गहणरुद्ध, P पडभार, J P व for य. 9 > J चंदण for पंदण, P एया for पला, J पयंगो. 10 > J च्छाहिओ,
 P सुपुरिस, पायच्छाहिओ, P om. वदंति कीररिंछोलियउ लोअयउत्तओ व, J सज्जणएसमागमइं. 11 > P तरुअसिहरइं, P हियय व
 J धावंति तणुयपामर च धार्थति आवाणा माहवी. 12 > P मउय for सुइय, J महुअर व, J महिअ for पहिय. 13 > P सीयलइं
 ण, J उच्छुरणइं, J om. ण कलत्तइं, P जिण for जण, P संघायइं, P जहिं च पामरसयणवुम्मुराणं यं च लोयणणर- 14 > J P
 व for य, P अन्न पुण बालकालनाराणु, J बालकलिनारां, P रंभिरां. 15 > J तणुअवावड, P धवलदलमाण, P om. विक्खेव, P
 P अण्णे पुणु, J संकर-. 16 > P वसमेक्क. 17 > P बहुसुरहिवणनिरंतर, P तरुवणेहिं, J उ for तं. 18 > J om. तं च तारिसं
 देसं, P देसमज्झं, J जुवइजणं दीवर P जुवइंयणलोयणं दीवर, P om. य. 20 > J धवलहरोअर-, P विमलुव्वज्जल, P संकुलं.
 21 > P विण्णास for विण्णाण, P विण्णमविय, J पायाल for पायार, P रेहिर- 22 > J जच्च for जाय, P वियरंत, P
 धरियपुरिसज्जइजसिय. 23 > P गुज्झयनमिअरथ, P जइसिया, P सन्निहिया, P जहिं च दीसंति न सुवंति वययइं बहुवयणहो.
 24 > J adds च after वयणइं, J च for व, P रमिजंति चंडायलइं द्रायलइं च. 26 > J एण for णाण, J विणिम्मविबं,
 P पलयग्गभीएण. 27 > J तीय, P दिसाविहाए निरसहो निसत्ता, P एत्थ for जत्थ. 28 > J repeats साहुणा, P ता for
 तो, P किं पि for कं पि, P repeats वट्टजणो for चट्टजणो, P ता जललिय. 30 > J मिदु for मिदु, J लंछित्तो, J उअय, P
 उदयाहारिया.

- 1 का फुडा होहिइ एत्थ मे पउत्ती, ता इमिणा चैव वच्चांमि' ति चिंतयंतो समुट्ठिओ कुमारो । जाव थोवतरं गभो ताव पेच्छइ 1
णावरिया-बंरं जल-भरियारोविय-कुडयं । तं च दट्टण तस्स य भग्गालग्गो णिहुय-पय-संचारो गंतुं पयत्तो । भणियं एक्काए 1
3 णावरियाए 'मा, एसा उण कुवल्लयमाला कुमारिया चैयं खयं जाहिइ, ण य केणइ परिणावेहिइ' । अण्णाए भणियं 'किं ण रुवं 3
सुंदरं । किं तीय ण विहिणा विहिया वीवाह-रत्ती, जइ णाम रुव-जोव्वण-विकास-कास-सोहग्ग-मडप्फार-नाव्विया कुल-रुव-
विहव-संपुण्णो वि पेच्छइ णरणाहउत्तो' । अण्णाए भणियं 'केरिसं तीए रुवं जेण एरिसो मडप्फरो' । अण्णाए भणियं 'किं 6
6 तीए ण रुवं सुंदरं सुंदरेण मोर-कलाव-सरिसेण केस-पढभारेण, कमल-दल-णिलीण-भमर-जुवलेण व अचिच्छवत्तएणं,तेल्ल-धारा- 6
समुज्जायाए णासियाए, पुण्णिमायं-सरिसेणं मुडेणं, हरिथ-कुंभ-विडभमेणं थणवट्टेणं, मुट्ठि-जेज्जेणं मज्झ-वेसेणं, कणय-कमाड-
सरिसेणं णियं-वयडेणं, मुणाल-णाल-सरिसेणं बाहा-जुवलेणं असोय-पल्लवारुणेणं चरण-करयलेणं कितीए रुवं वण्णीयइ' ।
9 अण्णाए भणियं 'हुं केरिसं तीए रुवं, जा काला काल-वण्णा णिकिट्ट-भमर-वण्णा' । अण्णाए भणियं 'सच्चं, सच्चं' । ताए 9
भणियं 'लोभो भणइ, काला किंतु सोहिया' । अण्णाए भणियं 'अणेय-मुत्ताहल-मुवण्ण-रवणालंकार-वैचइया अहं तीए माणं
खेडेमि' । अण्णाए भणियं 'ण एत्थ रुवेण ण वा अण्णेण, महादेव-वेवी पसण्णा, तीसे सोहग्गं दिण्णं' । अण्णाए भणियं
12 'एरिसं किं पि उववुत्थं जेण से सोहग्गं जायं' । अण्णाए भणियं 'जं होउ तं होउ अरियं से सोहग्गं, कीस उण ण परिणि- 12
जइ' । अण्णाए भणियं 'किर केण वि जाणएण किं पि इमीए साहियं तप्पभुइं चैय एस पादमो लंबिओ' । 'तं किर कोइ
जइ भिदिहिइ सो मं परिणेहिइ, अण्णाहा ण परिणेहिइ ति वेणी-बंधं काऊण सा डिय'ति भगंतीओ ताओ अहंकाताओ ।
14 कुमारो वि सहास-कोऊहल-कुल्ल-णयण-जुयलो चिंतिउं पयत्तो । 'अहो, लोमस्स बहु-वत्तव्वालावत्तणं । ता अडइ तं रिस्सिणो 15
वयणं जहा पादयं लंबेहिइ ति । तेण णयरिं पविसामि । सविसेसं से पउत्तिं उववहामि' चिंतयंतो उवगभो कं पि पएसं ।
दिट्ठं च महंतं मढं । तत्थ पुच्छिओ एक्को पुरिसो 'भो भो पुरिसा, इमो कस्स मंदिरवरो' ति । तेण भणियं 'भट्टा भट्टा,
18 ण होइ इमं मंदिरं किंतु सच्च-चट्टाणं मढं' । कुमारेण चिंतियं 'अरे, एत्थ होहिइ फुडा कुवल्लयमाला-पउत्ती । दे मढं चैय 18
पविसामि' । पविट्टो य मढं । दिट्ठा य तेण तम्मि चट्टा । ते य केरिमा उण । अवि य ।

छाडा कण्णाडा वि य मालविय-कणुज-गोह्लया केइ । मरहट्ट य सोरट्टा ढक्का सिरिअंठ-सैंधवया ॥

21 किं पुण करेमाणा । अवि य ।

21

धणुवैओ फर-खेंदुं अस्सिधेणु-पवेस-कणय-चित्त डंडं च । कुंतेण लउडि-इइं बाहु-जुज्जं णिउइं च ॥

आल्लेक्ख-गीय-बाहय-भाणय-डोंबिल्लिय-स्सिणडाईयं । सिक्खंति के वि छत्ता छत्ताण य णक्काणइं च ॥

- 24 § २४४) ते य तारिसे दरिडम्मत्त-महाविंझ-वारण-सरिसे पलोपंतो पविट्टो कुमारो । दिट्ठाओ य तेण वक्खाण- 24
मंडलीओ । चिंतियं कुमारेण 'अए, पेच्छामि पुण किं सत्थं वक्खाणीयइ । तओ अलीओ एक्कं वक्खाण-मंडलिं जाव पयइ-
पच्चय-लोवागम-वण्ण-विआरादेस-समासोवसग्ग-भग्गण-णिउणं वागरं वक्खाणिजइ ति । अण्णत्थ रुव-रम-गंध-फास-सह-
27 संजोय-भेत्त-कण्णा-रुवत्थ-खण-भंग-भंगुरं बुद्ध-दरिसणं वक्खाणिजइ । कत्थइ उप्पत्ति-विगास-परिहारावथिय-णिक्खेग-सहावा- 27
यरुव-पयइ-विसेसोवणीय-सुह-दुक्खाणुभवं संख-दरिसणं उग्गाहीयइ । कत्थइ दूव-गुण-कम्म-सामण-विसेस-समवाय-पयत्थ-
रुव-णिरुवणावट्टिय-भिण्ण-गुणायवाय-परुवणपरा वइसेसिय-दरिसणं परुवेंति । कहिंवि पच्चक्खाणुमाण-पमाण-छक्क-णिरु-
30 विय-णिक्ख-जीवादि-णत्थि-सच्चणु-वाय-पद-वक्खपमाणाहवाइणो मीमंसया । अण्णत्थ पमाण-पमेय-संसय-णिण्णय छल-जाइ- 30

1) > P तफडा होइमे पउत्ती. 2) > P नयरिया, P कुट्टं, J व for पक्काए, P एक्कोए. 3) > P माए एसा
J om. किमरुवं सुंदरं, P किं मरुवं. 4) > P om. तीय, P adds य before विहिणा, J inter. विहिआ & विहिणा,
P विहिया विहदियएसु वोलिए वरुदेयूमवेसु etc. (the passage repeated here as on p. 148 line 12 to
p. 149 line 1) to पणइयणं, P वाह for वीगम, J रंती for रत्ती, J adds किण्ण विहिआ before जइ, P om. जास. 5) > P
संपुजे, J णरणाहपुत्तो, J तीय, J तीय ण रुवं सुंदरसुंदरेण. 6) > P ने for ण, P जुवलेण थवळ्ळीवत्तएण J जुवलेण व अचिच्छवत्तेणं
7) > J समुज्जए, J मज्जेण, P चक्कायारेण for कवाटसरिसेण. 8) > P बाहुजुयलेयणं, J वळण, J कितीय P किं तीय, J वक्कीयति.
(originally perhaps पुच्छीयति) P पुच्छइ for वण्णीयइ. 9) > P हुं, J तीय, P कालवत्त. 10) > J तीय. 11) > P खेंडीए for
खेडेमि, P रुवेण वा अण्णेण वा सुहदेवी पसुत्ता तीसे, J तीय से for तीसे. 12) > P उववत्थं, J उववुत्थं किं अपुण्णाए जेण से सोहग्गं ।
अण्णाए, J कीस पुण. 13) > J P तप्पभुइं, P आईओ लंबिउं. 14) > P ओ for जइ, J भिदिहिति P निदिहिइ [विदिहिइ?],
J परिणिहिति P परिणेहिति, J परिणेहिति P परिणति, P सं for मा, P अगंतीओ अइकमाओ. 15) > P कोऊइल्लुकुल्ल, P पयत्ता, J
लोअस्स, J एअं तस्स for तं. 16) > P पायायं for पादयं, J लंबेहिति, P om. ति, P om. से, P पउत्तिमुवं, P मुगवओ for उगवओ.
17) > P om. इमो. 19) > P inter. तंमि & तेण, P adds य after चट्टा, P ते या केउगा. 20) > P मालविया कणुज, J
कुडक for कणुज, P करय for केइ, J टक्का सिरिअंठसैंधं P ढक्का फिरिअंठसैंधं. 21) > P करेमाणा. 22) > P फरखेंदुं अस्सिधणु,
P च्चित्तं च । कुंतेण, J कुंतेण लउडीजुज्जं णिउइं च । P बाहुजुइं णिउइं च. 23) > J गीतवाअत्त, P नाणयाडोंबिल्लयासैंग्गडाईया ।
णिकखंति के वि छत्ताण. 24) > P om. दरि, J सविसेसं for सरिसे, P दिट्ठा ठ तेण. 25) > अरे पुच्छामि, J adds कम्म
before पुण, J वक्खाणीयति P वक्खाणीयइ, P om. एक्कं, J पयति. 26) > P -विगारा, P om. ति, P संजोयनिमित्तकम्मणा.
27) > J लल for लण, J वक्खाणीयति, J सहावातरुवपयहि- P सहावासरुव. 28) > P सह दुक्खाणभवं, J रुवं for मवं,
J उग्गाहीयति P उग्गाहिति. 29) > J om. रुव, P निरुवणाटितिभन्न, J गुणातवात्, P om. पमाण. 30) > P 'जीवाह', J
सच्चयण गुवात्तपतवक्खपमाणातिवातिणो, P मिमंसयया, J -पमेय, P समय for संसय, J -जाति-

1 निम्नाहत्याण-धाहणो णह्याह्य-दरिसण-परा । कहिंषि जीवाजीवादि-पयत्याणुगय-दग्बट्टिय-पज्जाय-णय-गिरुवणा-विभागो-
वाकळ-णिच्चाणिच्चाणेतवायं परुवेंति । कथ्ह पुहइ-जळ-जळणागिलागास-संजोय-विसेसुप्यण-वेयणं मज्जा-मदं पिक्
8 अत्तणो णत्थि-वाय-परा लोगायतिग ति ।

§ २४५) इमाहं च दट्टण कुमारेण चित्तिं । 'अहो, विजया महापुरी जीए दरिसणाहं सन्वाहं पि वक्खाणीयंति ।
अह्ण णिठणा उवज्जाया । ता किं करेमि किंषि से चालणं, अहवा ण करेमि, कळं पुणो विहइह । ता कारेयव्वं मए कळं'
6 ति चित्तिरूप अण्णत्थ चलिओ राय-तणओ । अवि य । तत्थ वि

के वि णिमित्तं अवरे मंतं जोगं च अजणं अण्णे । कुहयं धाउव्वायं जक्खिणि-सिद्धिं तह य खत्तं च ॥
जाणंति जोग-मालं तत्थं मिच्छं च जंत-मालं च । गाख-जोहस-सुमिणं रस-बंध-रसायणं वेय ॥

9 छंदविचि-गिरुत्तं पत्तच्छेज्जं तहंदयालं च । दंत-कय-लेप-कम्मं वित्तं तह कणय-कम्मं च ॥
विसार-तंतं वालय तह भूय-तंत-कम्मं च । एयाणि य अण्णाणि य सयाहं सत्थाण सुव्वंति ॥

तओ कुमारेण चित्तिं । 'अहो साहु साहु, उवज्जाया णं बाहत्तरि-कला-कुसला चउसट्टि-विण्णाणभंतरा य एए' ति
12 चित्तयंतो वलिओ अण्णं दिसं राय-तणओ । तत्थ य विट्ठा अणेए दालि-वट्टा कंवल-वेय-पाठ-मूल-बुद्धि-चित्थरा चट्टा । ते उण 12
करिसा । अवि य ।

कर-घाय-कुडिल-केसा णिहय-चलण-प्पहार-पिहुलंगा । उण्णय-भुय-सिहराला पर-पिंड-परुठ-बहु-मंसा ॥
15 धम्मत्थ-काम-रहिया बंधव-धण-मित्त-वज्जिया दूरं । केहत्थ जोव्वणत्था बाल च्चिय पवसिया के वि ॥

पर-उवइ-दंसण-मणा सुहयत्तण-रुव-गव्विया दूरं । उत्ताण-वयण-णयणा इट्ठाणुघट्ट-मट्ठोरू ॥
ते च तारिसे दालि-वट्ट-छत्ते दट्टण चित्तिं । 'अहो, एत्थ इमे पर-त्तिसि-तगय-मणा, ता इमाणं वयणाओ जाणीहामि

18 कुवलयमालाए लंबियस्स पाययस्स पउत्तिं । अलीणो कुमारो । जंपिओ पयत्तो । 'रे रे आरोह, भण रे जाव ण पम्हुसइ । 18
जनार्दन, प्रच्छंहुं कथ तुब्भे कळ जिमियल्लया' । तेण भणियं 'साहिउं जे ते तओ तस्स वलक्खएल्लयइं किराडहं तणए

जिमियल्लया' । तेण भणियं 'किं सा विसेस-महिला वलक्खइएल्लिया' । तेण भणियं 'अहहा, सा य भडारिय संपूर्ण-
21 खलक्खण गायत्रि यट्ठसिय' । अण्णेण भणियं 'वर्णि कीडसं तत्र भोजनं' । अण्णेण भणियं 'चाइं भट्टो, मम भोजन 21
स्पृष्टं, तक्षको हं, न वासुकि' । अण्णेण भणियं 'कत्तु घटति तठ, हृदय उल्लाव, भोजन स्पृष्ट स्वनाम सिंघसि' । अण्णेण

भणियं 'अरे रे वड्डो महामूर्ख, ये पाटलिपुत्र-महानगरावास्तव्ये ते कुत्था समासोकि बुज्जंति । अण्णेण भणियं 'अस्सादपि ह्यं
24 मूर्खवती' । अण्णेण भणियं 'काइं कज्जु' । तेण भणियं 'अनिपुण-निपुणाथोकि-प्रसुर' । तेण भणियं 'मर काइं मां मुक्त, 24
अस्वोपि विदग्धः संति' । अण्णेण भणियं 'भट्टो, सत्तं त्वं विदग्धः, किं पुणु भोजने स्पृष्ट माम कथित । तेण भणियं 'अरे,

महामूर्खः वासुकर्वेदन-सहस्रं कथयति' । कुमारेण य चित्तिं । 'अहो, असंबद्धक्खरालावत्तणं बाल-वेसियाणं । अहवा को

1 > J चाणिणो, P नहवाइय, J P जीवादि, J पदत्याणुगत, P पुगतदग्बट्टिय- 2 > P निच्चाणयं,
J नेअंतवातं, P वायं रुवेंति, J जलणगिला, J विसेसुप्यणुचेणाणं, P मयं for मदं. 3 > J चात-, P परलोयगायतित्त ।
4 > P trans. दरिसणा after पि, J वक्खाणियंनि. 5 > J inter. करेमि & किंषि. 7 > J जोअं, P जक्खण, J तहेव,
P खत्तं. 8 > J जोमालं, P मित्थं च जंतमालं, P गाखडमाइससुमिणं, J जोतिस. 9 > J छंदविति, J तहेय इदं P तहेइयालं,
J om. the line दंतकय etc. 10 > J भूत-, J एताणि, J सताइं. 11 > P उवज्जाया, P बाहुत्तरिकाला, J विण्णाणरू (भ ?) त्तरा
य एएति. 12 > P चलिओ for वलिओ, P दिसंतगाय, J om. य, J अणेये दालिविट्ठा, P अणेय, P वेयपाय-, P om. बुद्धि, J ते पुण.
14 > P अन्नय for उण्णय, P बहु मासा. 15 > J जण for धण. 16 > P सुवत्तपरुठ. 17 > P तारिसं, J दालिविट्ठ, J inter
एत्थ & इमे, P जाणिहामि. 18 > J पातअरस, J जंणित्तं P जंपियत्तं, P जाव न पम्हुसइ. 19 > J पुच्छइ कत्थ, J भणिओ, P om.
ते, J वलक्खएल्लयइ, J om. किराडहं. 20 > JP विसे for विसेस. The passage अहहा to कथयति (lines 20-26),
is found only in J; it is given in the text mostly as it is with the restoration of यश्चुति. 21 >
भट्टो or रट्टो. 22 > हृदय or हृदय. 23 > ते is added below the line. 24 > भरकाइं or नरकाइं. Instead of
the passage अहहा to कथयति found in J and adopted in the the text above, P has the following passage
which is reproduced here with minor corrections: 'अहहं हंड-मुंड-सुनिहल-कलोल-माल भडारिया दुत्तलिय सरस्वति-
जसिया' । तेण भणियं 'अरे, दुश्चारिणी सा' । 'अहह इमं कुअक्षर-नवक्खप्फ मात भडारिया गंगादेवि जसिया भरमीकरेज्जा' । तेण
भणियं 'अरे त्वं मुंज्यमाग्वा सा सस्यहेहिं दीर्घ-धवलेहिं लोचनेहिं निरकृति' । तेण भणियं 'हुं हुं मसल्य-चालि-निरीकृति काइं वररुहो
सति ब्रह्मपुवर्णादिभसि । तहिं दीर्घ-धवल-लोचनेहिं प्रसतीव पिबतीव लुपतीव विहुंपतीव अक्षिणहिं निरीक्षयति' । तेण भणियं 'अरे, तया
भणियं सा दुश्चारिणी न होति । अथ च त्वं सरपृहं निरीक्षयति । परस्परं विरुद्धं एहु वचनु' । तेण भणियं 'अरे न-याणाहि कामशास्त्र मदीय-
गुरुपदिह । यदि भवति मात सीतसती व दमयंती अप्पर तदपि धुमति' । In the following conversational passage the
readings are exhaustively noted and the passage is faithfully reproduced as in one or the other Ms.
26 > P om. य, J चित्तिअं, J क्खरालायत्तणं बालदेसियाणं । P लावत्तणं मुरुक्खवड्डयाणं ।

1 अण्णे वावरो इमाणं पर-पिंड-पुट्ट-देहाणं विज्जा-विण्णाण-णाण-विणय-विरहियाणं चट्ट-रसायणं मोत्तूणं चिंतयंतस्स भणियं 1
अण्णेणं चट्टेणं 'भो भो भट्टउत्ता, तुम्हे ण-याणह यो राजकुले वृत्तांत' । तेहिं भणियं 'भण, हे व्याघ्रस्वामि, क वार्ता 3
3 राजकुले' । तेण भणियं 'कुवलयमालाए पुरिस-द्वेषिणीए पायओ लंबितः' । इमं च सोऊण अफ्फोडिऊण उट्टिओ एक्को 3
चट्टो । भणियं च णेणं 'यदि पांडित्येन ततो महं परिणेतस्य कुवलयमाल' । अण्णेण भणियं 'अरे कवणु तउ पाण्डित्यु' ।
तेण भणियं 'बडंगु वेड पढमि, त्रिगुण मन्त्र पढमि, किं न पाण्डित्यु' । अण्णेण भणियं 'अरे ण मंत्रेहिं तुगुणेहिं परिणिऊह ।
6 जो सहियउ पाए भिंदइ सो तं परिणेह' । अण्णेण भणियं 'अहं सहियओ जो ग्वाथी पढमि' । तेहिं भणियं 'कइसी रे 6
व्याघ्रस्वामि, गाथा पठसि त्वं' । तेण भणियं 'इम ग्वाथ ।

सा ते भवतु सुप्रीता अबुधस्य कुतो बलं । यस्य यस्य यदा भूमि सर्वत्र मधुसूदन ॥

9 तं च सोऊण अण्णेण सकोपं भणियं 'अरे अरे मूर्ख, स्कंधकोपि गाथ भणसि । अम्ह गाथ ण पुच्छह' । तेहिं भणियं 'त्वं 9
पठ भट्टो यजुस्वामि गाथः' । तेण भणियं 'सुट्ट पढमि,

आइं कज्जिं मत्त गय गोदावरी ण सुयंति । को तहु देसहु आवतइ को व पराणइ वत्त ॥

12 अण्णेण भणियं 'अरे सिलो गो अम्हे ण पुच्छह, ग्वाथी पठहो' । तेण भणियं 'सुट्ट पढमि । 12

तंबोल-रहय-राओ अहरो दट्टा कामिनि-जनस्स । अम्हं चिय खुभइ मणो दारिद्र-गुरु णिवारेइ ॥'

तओ सव्वेहिं वि भणियं 'अहो भट्ट यजुस्वामि, विदग्ध-पंडितु विद्यावंतो ग्वाथी पठति, एतेन सा परिणेतस्या' । अण्णेण भणियं 15
15 अरे, केरिसो सो पायओ जो तीए लंबिओ' । तेण भणियं 'राजांगणे महं पठिउ आसि, सो से बिस्सुतु, सब्बु लोक्कु
पढति' ति ।

§ २४६) इमं च सोऊण चट्ट-रसायणं चिंतियं रायउत्तेण । 'अहो, अणाह-वट्टियाणं असंबद्ध-पलावत्तणं चट्टाणं ति ।

18 सव्वहा इमं एत्थ पहाणं जं रायंगणे पायओ लंबिओ ति पउत्ती उवलइहा । ता दे रायंगणे चैव वच्चामि' ति चिंतितो णिक्खंतो 18
रायतणओ मढाओ, पखिट्टो णयरीए विजयाए । गोउर-दुवारे य पविंसंतस्स सहसा पवाइयाइं तूराइं, आहयाइं पडहाइं,
पवजियाइं संखाइं, पढियं मंगल-पाढण, जयजयावियं जणेण । तं च सोऊण चिंतियं कुमारंण 'अरे कथ एसो जय-
21 ज्यासहो तूर-रवो य' जाव दिट्ठं कस्स वि वणियस्स किं पि कज्जं ति । तओ तं चैय सउणं मणे घेत्तूणं गंतुं पयत्तो जाव 21
थोयंतरे दिट्ठं इमिणा अणेय-पणिय-पसारियाबद्ध-कय-विक्कय-पयत्त-पवइमाण-कलयल-रवं हट्ट-मग्गं ति । तथ य पविसमाणेणं
दिट्ठा अणेय-देस-भासा-लक्खिए देस-वणिए । तं जहा ।

24 कसिणे णिट्टुर-वयणे बहुक-समर-मुंजए अलजे य । 'अडडे' ति उल्लंते अह पेच्छइ गोलए तथ ॥ 24

णय-णीइ-संभि-विग्गह-पडुए बहु-जंपए य पयइए । 'तेरे मेरे आउ' ति जंपिरे मज्झदेसे य ॥

णीहरिय-पोट्ट-बुव्वण-मडहए सुरय-कैलि-तल्लिच्छे । 'एगे ले'-जंपुल्ले अह पेच्छइ मागहे कुमरो ॥

27 कविले पिंगल-णयणे भोयण-कह-मेत्त-दिण्ण-वावारे । 'कित्तो किम्मो' पिय-जंपिरे य अह अंतवेण य ॥ 27
उत्तुंग-यूल-घोणे कणयव्वणे य भार-वाहे य । 'सरि पारि' जंपिरे रे कीरे कुमरो पलोएइ ॥

1) P इमाण, J बुद्ध for पुट्ट, P om. पुट्ट, P देहयद्धानं for देहाणं, P विज्जाणणाण, J विरहियाण, J भणियमण्णेण-
2) P अण्णेण, P तुम्हे for तुम्हे, P नयाणह, P वृत्तांतः (?), P ओ for हे, P का for क. 3) P राजकुलो, P पुरुषः, J पातओ,
P लंबिओ, P अफ्फोडिऊण, J inter. एक्को & उट्टिओ. 4) P भट्टो for चट्टो, P om. च, P णेण, P ततो इमं परिणेतज्ज
कुवलयमाला । अण्णेण, P कवणु तओ, P पांडित्यु. 5) J भणियं, P सउण, J om. वेड, J विगुणमत्र पढमि किं न P तिउणमंत
कडुमि किन्न, P पांडित्यं । अण्णेण, P न, J तुगुणेहिं P त्रिगुणहिं. 6) J सहितौ P सहियउ, J पातौ for पाय, J परिणेति, J
सहितउज्जोग्वाथी, J भणियं. 7) J व्याघ्रस्वामि गाथः, J om. पठसि त्वं, J भणियं, J इम ग्वाथ P इमा ग्वाथा. 8) Instead
of the verse सा ते भवतु etc. P has the following: अनया जवनाभोगमंथरया तथा । अन्यतोपि ब्रजंत्येमं हृदये विहितं
पदं ॥ 9) P अण्णेण, J भणियं, P मुख्सा, P पि ग्वाथा, P गाथ न पुच्छह, J भणियं, P चव for त्वं पठ. 10) J
यजुस्वामि (?), P आथ for गाथः. 11) J आए कपे for आइं कज्जिं, P गथा गोयवरी न, P को तह के देसह, J आवतति
P आवह, J पराणनि वात्त P पराइ वत्त णेण भणियं. 12) J भणियं, P adds एसो before अम्हे, P न, P पदहुं तेहिं भणियं
पढहो । तेण भणियं सुट्ट, J भणियं in both places. 13) J अहरो कामिनि इट्टा अम्हं चिय P अहरो इट्टा कामिनी'
[Better read दट्टूण for इट्टा], J खुभइ P शुभइ, P दाडिइ, P निवारेइ. 14) P सव्वेहिं मि भणियं, J भणियं, J यजु-
स्वामि (?), P विदग्धपांडित्यविज्जमंतो, P अण्णेण. 15) P om. अरे, J पातओ, J तीय, J भणियो, P राइंगणे, J पठित्तु
P पठिउं, P आसि सा विस्सुतु सव्वो लोक्कु. 17) P वट्ट for चट्ट, P अहो वेयपायमूढबुद्धीणं असंबद्धपलावत्तणं छत्तवट्टाणं ति.
18) J पातओ, J पतिस्ती for पउत्ती, J ते for ता, P om. दे, P रायंगणं, J चैय, P चिंतयंतो. 19) P नयरीओ, P दुकारे,
P om. य, adds ओ before सहसा, J पडहयाइं पवजिआइं. 20) J -वाहणं, P एसो ज्यासहो, P om. य. 21) P विवाहो
त्ति for किं पि कज्जं ति, P om. तं, J सउणमणेण. 22) P थोयंतरे, P अणियवणिय, J पणियपसारया, J -वडुमाण-. 24) P कसिणा
णिट्टुर, P अरडे. 25) J जीति, J पडुय, J -जंपिरे य पयतीए. 26) P दुवन्न, P एसे ले [एसे ले], J जंपुल्ले, J मागहे कुमरो.
27) P लोयणकहदिन्नमेत्तवावारे, P किं ते किं मो, J जिय for पिय, P जंपिरे, P om. अह, J अंतवेते P अत्तवेए. 28) J 'वण्णे
P वच्चे, J वारि, for पारि, P अवरं for रे, P कुमरो.

- 1 दक्षिण-दाण-पोरुस-विण्ण-दया-विवज्जिय-सरीरे । 'एहं तेहं' चवन्ते उणे पेच्छए कुमरो ॥ 1
सल्लिय-मिड-महवए गंधव्व-पिए सवेस-गय-च्चित्ते । 'चउडय मे' भणिरे सुहए अह सेंचवे दिट्ठे ॥
- 3 बंके जडे य जहे बहु-भोई कडिण-पीण-सूणगे । 'अप्पां तुप्पां' भणिरे अह पेच्छइ मारुए ततो ॥ 3
घय-लोणिय-पुट्टगे घम्म-परे संधि-विगाहं-णित्तणे । 'णउ रे अल्लउं' भणिरे अह पेच्छइ गुजरे अवरें ॥
पहाओलित्त-विलित्ते कय-सीमंते सुसोहिय-सुगसे । 'अम्हं काउं तुम्हं' भणिरे अह पेच्छए लाडे ॥
- 6 तणु-साम-मडह-देहे कोवणए माण-जीविणो रोदे । 'भाउय भण्णी तुम्हे' भणिरे अह मालवे दिट्ठे ॥ 6
उक्कड-तप्पे पिय-मोहणे य रोदे पर्यंग-वित्ती य । 'अडि पौडि मरे' भणिरे पेच्छइ कण्णाडए अण्णे ॥
कुप्पास-पाउयंगे मास-रुई पाण-मयण-तल्लिच्छे । 'इसि किसि मिसि' भणमाणे अह पेच्छइ ताहए अवरें ॥
- 9 सव्व-कला-पत्तए माणी पिय-कोवणे कडिण-देहे । 'जल तल ले' भणमाणे कोसलए पुलइए अवरें ॥ 9
दह-मडह-सामलंगे सहिरे अहिमाण-कलह-सीले य । 'दिण्णले गहियले' उल्लविरे तत्थ मरहट्ठे ॥
पिय-महिला-संगामे सुंदर-गत्ते य भोयणे रोदे । 'अटि पुटि रटि' भणंते अंधे कुमरो पलोएह ॥
- 12 इय अट्टारस देसी-भासाउं पुलइउण सिरिदत्तो । अण्णाइय पुलएई खस-पारस-बब्बरादीए ॥ 12
§ २४७) तस्स य तारिसस्स जण-समूहस्स मज्झे के उण आलावा सुव्विउं पयत्ता । अवि य ।
दे-देहि देहि रोयइ सुंदरमिणमो ण सुंदरं वच्च । ए-एहि भणसु तं चिय अहव तुहं देमि जह कीयं ॥
- 15 सत्त गया तिण्णि थिया सेसं अद्धं पक्खण पादेण । वीसो व यद्धवीसो वयं च गणिका कणिसवाया ॥ 15
भार-सयं अह कोडी-लक्खं चिय होइ कोडि-सयमेगं । पल-सय-पलमद्ध-पलं करिसं मासं च रत्ती य ॥
होइ धुरं च बहेडो गोत्थण तह मंगलं च सुत्ती य । एयाण उवरि मासा एए अह देमि एएहिं ॥
- 18 कह भंइ संवरियं गेणसु सुपरिक्खिउण वच्च तुमं । जइ खज्जइ कह वि कवड्डिया वि एगारसं देमि ॥ 18
एवं च कुमार-कुवलयचंद्रो विवणि-मरगेणं वच्चमाणो अणेए वणियाणं उल्लावे णिसुणंतो गंतुं पयत्तो । कमेण संपत्तो अणेय-
णायर-विलया-धवल-विलोल-लोयण-मालाहिं पलोइज्जंतो रायंगणं, जं च अणेय-णरणाह-सहस्स-उडुंड-तंडविय-सिंहडि-कलाव-
21 विणिम्मचिय-छत्त-संकुलं । तत्थ सव्वो चेव णरवइ-जणो करयल-णिमिय-मुह-कमलो किंपि किंपि चिंतंतो कवियणो विव 21
दीसइ । तं च दट्टण पुच्छिओ णरणाह-पुत्तो कुमारेण 'भो भो रायउत्त, कीस णरवइ-लोओ एवं दीण-विमणो दीसइ' ति ।
तेण भणियं 'भो भो महापुरिस, ण एस दीणो, किंतु एत्थ राइणो धूया कुवलयमाला णाम पुरिसहेसिणी, तीय किर
24 पायओ लेखिओ जहा 'जो एयं पायं पूरहिइ सो मं परिणेहि' ति । ता तं पादयं एस सव्वो चेव णरवइ-लोओ चिंतइ य' 24
ति । कुमारेण भणियं 'किरिसो सो पाओ' । तेण भणियं 'एरिसो सो' । अवि य । 'पंच वि पउमे विमाणम्मि ।'
§ २४८) कुमारेण भणियं 'ता एस पायओ केणइ कम्मि भणिए पूरिओ ण पूरिओ वा कहं जाणियव्वो' । तेण
27 भणियं 'सा चेय जाणइ कुवलयमाला, ण य अण्णो' । कुमारेण भणियं 'कहं पुण पच्चओ होइ जहा सो चेय 27
इमो पायओ जो कुवलयमालाए अभिमओ' । तेण भणियं । 'अत्थि पच्चओ । कहं । इमस्स पायस्स पुव्वमेव

1) J तेहं P तेहं, J टके, J कुमरो. 2) J सल्लि मिदुमंदवए, P सएस, P वंसे दइणो for च (व) उटय मे of J, P सुव्वे अह, J दिट्ठो. 3) J वंकि P वंके, P रूगंणे, J अप्पा तुप्पा P अप्पां तुप्पां, J मारुए P कारुए. 4) J लोयिय. P विग्गहे. 5) P सीमंते सोहियं गत्तं, J आहमह काइं तुम्हं मित्तु भणिरे for अम्हं etc., J om. अह, P अच्छह for अह. 6) P जीवणे, P भाउय, P तुम्हे for तुम्हे, J दिट्ठो. 7) J एय for य (before रोदे), J अट्ठि पोण्डिमरे P अट्ठिपाट्टिमरे. 8) P णइ for रुई, P असि for इसि, P मणि for मिसि, P भणमाणो. 9) J सत्थ for सच्च, J पत्तट्ठो P पत्तट्ठे, J देहो. 10) P सट्ठिए अहमाण, P दिण्णले, J रा (टा?)दिह्ले for गहियले (written twice in P). 11) P गोत्ते for गत्ते, J मोइणे, P भायणे रोदे । अट्ठिमडिभणणि अवरें अंधे कुमरो, J रटि भणंते रंधे कुमरो. 12) J सिरिअत्तो, P मिरिदत्ते । अत्रइय पुलएती जवसपारस, J अण्णाइय पुलएई, J पब्बरादीए P बब्बरादीए. 13) J जणस्समूहस्स मज्झे काऊण अलावा, P केण उण. 14) P देहेहि, P स for ण, P एएहि, J कीरं. 15) J तरस गता for सत्त गया, J थिरा सेसं, P पक्खण पाएण । वीसो अद्धववीसो, J कणिसवाता P गणिसवाया. 16) J सत्तं, P adds होइ after अह, P च for चिय होइ, J कोडिसवमेगं । पलसतपं, J रत्तीया P रत्तीसं. 17) On the verse होइ etc. we have a marginal note (in J) like this (with numerals below the words): कणियउ/१। महैसरु/३। तलु/५। पविती/७। उवणु/९। आंगुलु/१०। पूंवाल/१००। उ. The text of J numbers धुरं as २, बहेडो as ६, गोत्थण as ४ and सुत्तीय as २०. J उवदिसंसा एते, J एतेहिं. 18) J मणं संवरितं, J एगारसं. 19) P om. च, P उल्लावें. 20) P नारय for णायर, P om. जं, P adds केरिसं before अणेय, P उडुंड, J तण्डविया P तण्डविय. 21) P निम्मिय, J om. one किंपि, P वि for विव. 22) P भरनाहउत्तो, J रायउत्ता, J adds एस after कीस, P om. एवं. 23) P inter. ण (न) & एस, P रायणो, P पुरिसवेसिणी, P यय for तीय. 24) J पातओ, J पातयं पूरेहिति, J ति for ति, P पाययं, J चेअ, J विंतेइ ति. 25) P om. सो, J पातओ for पाओ, J writes twice पंच वि पउमे विमाणम्मि. 26) J पातओ, J भणिते P भणियअए, J पूरितो ण पूरितो. 27) P om. य. 28) J पातओ, J पातयस्स for पायस्स.

- 1 तिष्णि पादे इमाए काऊण गोलए पक्खिविय सुह्दिऊण महाभंडारम्मि पक्खित्ते । तेण कारणेण पद्धियं ति जो पमाणं जं 1
पुण तीए रुइयं तं तत्थ पादए षड्ढिहि ति तओ तं परिणेहिइ' ति । इमं च सोऊण चित्तियं रायउत्तेण 'अहो, सुवरं जायं 1
3 जेण सुपरिक्खिओ पादओ पूरेयवो ति । ता दे चित्तेमि, अहवा किमेत्थ चित्तियइ । 'पंच वि पउमे विमाणम्मि' । 3
'अम्हे तम्मि पउमे विमाणम्मि उप्पण्णा तवं च काऊण । किं पुण ताए एत्थ पादए णिबद्ध-पुव्वं' चित्तिऊण, हूं अत्थि,
कोसंबि-धम्मणंदण-मूले दिक्खा तवं च काऊण । कय-संख्या जाया पंच वि पउमे विमाणम्मि ॥
- 6 अहो णिच्चवियं मायाइच्चत्तणं मायाइच्चस्स जेण केरिसो पादय-वुत्तंते कुडिल-मग्गो कओ, इभीए कुवलयमालाए ओलंबिओ । 6
ताव य उद्धाइओ समुह-सह-गंभीरो कलयलारावो जणस्स रायंगणम्मि । किं च जायं । पलायति कुंजरा । पहावति
तुरंगमा । ओसरंति णरवइणो । पलायति वामणया । णिवडंति खुजया । वित्थकंति धीरा । वलंति धीरा । कंपंति कायरा ।
9 सव्वहा पलय-समए एव खुभिओ सव्वो रायंगण-जणवओ ति । चित्तियं च कुमारेण । 'को एसो अयंढे खेय संभओ' ति । 9
पुलोइयं कुमारेण जाव दिट्ठो जयवारणो उम्मूलियालाण-खंभो पाडियारोहणो जणं मारयंतो संमुहं पहाविओ ति । अवि य ।
तुंगत्तणेण मेरु एव संतिओ हिमगिरि एव जो धवलो । हत्थ-परिहत्थ-वलिओ पवणं पि जिणेज्ज वेणेण ॥ तओ,
12 रणंत-लोह-संखलं झरंत-दाण-येवभलं खलंत-पाय-बंधणं ललंत-रज्ज-चूलयं । 12
चलंत-कण्ण-संखयं फुरंत-दीह-चामरं रणंत-हार-घंटयं गलंत-गंडवात्सयं ॥
दिट्ठं तं जयकुंजरं । अवि य ।
- 16 संवेल्लियग्ग-हत्थो उण्णामिय-खंधरो धमधम्मंतो । मारंतो जण-णिवहं भंजंतो भवण-णिवहाइं ॥ 16
दाण-जल-सित्त-गतो गंधायद्विय-रणंत-भमरउलो । पत्तो कुमार-मूले अह सो जयकुंजरो सहसा ॥
§ २४९) तं च तारिसं कुविय-कयंत-सच्छहं दट्ठण जणेण जंपियं । 'बप्पो बप्पो, ओसरह ओसरह, कुबिओ एस
18 जयहत्थी । तं च तारिसं कलयलं आयणोऊण राया वि सञ्जतेउरो आरूढो भवण-णिज्जहए दट्ठं पयत्तो । कुमारस्स य 18
पुरओ दट्ठण राइणा भणियं 'ओ भो महापुरिस, अवेह अवेह इमाओ महग्गहाओ वावाइज्जसि तुमं बालओ' ति । तओ
तहा-भणंतस्स राइणो जणस्स य हा-हा-कारं करेमाणस्स संपत्तो कुंजरवरो कुमारासणं । कुमारेणावि
21 संवेल्लिऊण वत्थं आइइं तस्स हत्थिणो पुरओ । कोवेण धमधम्मंतो दंतच्छोहं तहिं देइ ॥ 21
हत्थं-परिहत्थेणं ताव हओ करयलेण जहणम्मि । रोसेण जाव वलिओ चलिओ तत्तो कुमरो वि ॥
पुण पहाओ सुट्टीए पुण वलिओ करिवरो सुवेएण । ताव कुमरो चलिओ पच्छिम-भाए गयवरस्स ॥
- 24 ता चलइ खलइ गजइ धावइ उद्धाइ परिणओ होइ । रोसेण धमधम्मंतो चक्काइइं पुणो भमइ ॥ 24
जाव य रमिउव्वाओ णिफुर-कर-धरिय-कण्ण-जुयलिल्लो । दंत-मुसलेसु चलणं काऊणं ता समारूढो ॥
तत्थ य समाहंतेण भणियं कुमार-कुवलयचंदेण ।
- 27 'कोसंबि-धम्मणंदण-मूले दिक्खा तवं च काऊण । कय-संख्या जाया पंच वि पउमे विमाणम्मि ॥' 27
तं च सोऊण 'अहो पूरिओ पायओ' ति भणंतीए पेसिया मयरंद-गंध-लुद्धा गयालि-हलबोल-मुहलिया सिय-कुसुम-वरमाला
आरूढा य कंधराओए कुमारस्स । राइणा वि भणियं पुलइयंणेण 'साहु साहु, कुवलयमाले, अहो सुवरियं वरियं, अहो
30 पूरिओ पायओ । ताव य जयजयावियं रायलोएण 'अहो दिव्वो एस कोइ, अहो ण होइ मणुओ' ति । ताव य 30
णिवडिया उवरि दिक्खा अदीममाण-सुर-पेसिया सुरहि-कुसुम-वुट्टी । जायं च तं पपुसं जयजया-सह-मुहलं ति ।
एत्थंतरम्मि पहाइओ महिंदकुमारो जयकरिणो मूले । भणियं च णेण 'जय महारायाहिराय परमेसर सिरिददवम्म-

1 > P पाए, P लंगए for गोलए, P अंदारे, J पट्टि, J जो for जो, P जो पुयमाणं. 2 > J तीए रुइय, P om. तं, P पायए, J षड्ढिहि ति तओ तं, J परिणेहिहि । P परिणेहियत्ति, P कुमारेण for रायउत्तणं. 3 > P सुपरिक्खिय पाईओ पूरओ ति, J पूरेतव्वो, P चित्तेमि, J चित्तियति, J adds पंच वि पउमे विमाणे before अम्हे etc. 4 > P om अम्हे तम्मि पउमे विमाणम्मि, J ता for ताए, P पायए. 5 > J कोममि. 6 > P पायय, P काउं for कओ, J om. ओलंबिओ । ताव य. 7 > J उच्छाइओ, P adds जरावो before जणरम. 8 > P चित्तियंति धीरा कंपंति. 9 > P यंजणवओ, P om. च, P अयंढो संभओ ति चित्तितेण पुलोइयं, J पुलइयं. 10 > J धंभो for धंभो, P समुहं, J समुहं पाविओ ति । 11 > J आगत्तणेण P कुंगत्तणेण, P पवणंमि जिणेज्ज वेणेण ॥, J adds य after तओ. 12 > P संकुलं, P वेवभलं, P रज्ज. 13 > JP संखयं [= पंखयं ?], P भार for हार, J घंटयं. 14 > P om. दिट्ठं तं जयकुंजरं. 17 > P सच्छहं, P बप्पा for बप्पो बप्पो. 19 > P om. one. ओ, P om. one अवेइ, P बालो for बालओ. 20 > P adds य before राइणो, P करेणस्स संयत्तो, J कुमारेण वि. 21 > P आइइं, P दंतच्छोहिं. 22 > P ताप for ताव. 23 > P पुण पुहओ, P सुरेणेण, J adds वि after कुमरो. 24 > P चक्काइइं. 25 > P repeats चलणं. 26 > P तत्थ समारूढेण भणियं. 28 > P adds ति after पूरिओ, J पातओ ति भणंतीए, P सेय for सिय. 29 > J om. वि, J adds ति after second साहु, P कुवलयमाला एयं ते सुवरियं । अहो. 30 > J पातओ, P om. एस, P एसो for अहो, P माणुओ ति, P य निवडियावरि अदिस्समाणा. 31 > P adds विय before सह. 32 > P महिंदकरिणा मूले, P om. सिरिददवम्मणंदण etc. to साहसालंकार.

- 1 जय कुमार-कुवलयचंद इन्द्रागुर्वस-बालकुर सोम-साहा-णहयल-मियंक भभोज्ञापुरवरी-तिलय णरवर-पुंडरीय साहसालं- 1
 कार विजा-परिवार धरणी-कंप पर-बल-खोह माण-धण कला-कुलहर दक्खिण-महोयहि विणयावास दाण-वसण पणह-
 2 जण-बच्छल जय कुमार' ति । इमं च सोऊण लीला-वलंत-भवल-विलोल-लोयणेणं गियच्छियं रायतणएणं । 'अहो को 3
 एत्थ तायस्स पायाणं णामं गेण्हइ' ति जाव पेच्छइ अणेय-णरणाह-पुत्त-परियारं जेट्टं सद्दोयरं पिब महिंदकुमारं ति । तओ
 तं च दट्टण पसरमाणंतर-सिणेह-सम्भाव-भाव-पहरिस-वसुलसंत-रोमं च-कंबुयंणेण घट्टिओ मम्म-पएसे जयकुंजरो, तओ
 6 गिसण्णो, आरूढो य महिंदो, पसारिय-भुएण य समालिगियं अवरोप्परं । पुच्छिओ य 'अवि कुलं महाराइणो, दढ-सरीरा 8
 देवि ति, सुंदरं तुमं' ति । ताव य णरवइणा वि विजएण वितियं । 'अहो, अच्छरीयं इमं । एक्कं ताव इमं चेव इमस्स
 रुवाइसयं, दुइयं असाभण-जय-कुंजरालंघणवधियं महासत्तं, तइयं णरणाह-सहस्स-पुरओ पाद-पूरणं, चउत्थं पुण दिव्वेहिं
 9 कुसुम-वरिस-पूयणं, पंचमं महाराइणो दढवग्मस्स पुत्तो ति । अहो, पावियं जं पावियब्बं वच्छाए कुवलयमालाए । साहु 9
 पुत्ति कुवलयमाले, गिब्वहिंयं तए पुरिसवेसित्तणं इमं पुरिसं पुरिस-सीहं पावयंतीए । अहवा ण जम्मंतरे वि मुणिणो
 अलियं मंतयंति' । भणिओ य णरवइणा कुमारो 'सम्पेह जयकुंजरं हत्थारोहाणं, आरुहसु मंदिंरं' ति । एवं च भणिओ
 12 कुमारो । 'जहाणवेसि' ति भणमाणो ओयरिओ जयकुंजराओ, आरूढो य पासायं महिंद-दुइओ, अवयासिओ राइण 12
 ससिणेहं । दिण्णाइं आसणाइं । गिसण्णा जहासुहं । पेसिया य राइणा कुवलयमाला, ससिणेहं च पुलयंती णीहरिया य सा
 § २५०) राइणा भणियं 'को एस वुत्ततो, कहं तुमं एको, कहं वा कप्पडिय-वेसो, किं वा मलिण-कुचेलो एत्थ
 15 दूर-वेसंतरं पाविओ' ति । कुमारेण भणियं 'देव जाणसि चियं तुमं । अवि य । 15
 जं ण सुमिणे वि दीसइ वितिय-पुब्बं ण यावि सुय-पुब्बं । विहि-वाउलीए पहओ पुरिसो अह तं पि पावेह ॥
 तेण देव, कहं कहं पि भममाणो देव-वसेणं अजं चिय संपयं एस पत्तो' ति । राइणा भणियं 'महिंद, किं एसो सो जो
 18 तए पुच्छिओ दढवग्म-पुत्तो एत्थ पत्तो ण व ति । महिंदेण भणियं 'देव, जहाणवेसि' ति 'एस सो' ति । कुमारेण भणियं 18
 'महिंदकुमार, तुमं पुण कथ एत्थ दाहिण-मयरहर-वेलालगं विजयपुरवरीं पुब्बदेसाओ संपत्तो सि' । तेण भणियं 'देव
 गिसुणेसु । अत्थ तइया वाहियालीए समुद्धकल्लोल-तुरएणावहरिओ तुमं । अवि य ।
 21 धावइ उप्पइओ इव उप्पइओ चेय सच्चयं तुरओ । एसेस एस वच्चइ दीसइ अइंसणं पत्तो ॥ 21
 तओ हाहा-रव-सह-णिम्भरस्स रायलोयस्स अवहरिओ तुमं । तओ वाहिओ राइणा तुरओ तुज्जाणुमग्ग-लग्गो सेस-णरवइ-
 जणेण य । तओ य दूरं देसंतरं ण य तुज्जा पउत्ती वि सुणीयइ । तओ गिरि-सरिया-संकुले पएसे गिवडिओ पवणावत्त-
 24 तुरंगमो । तओ राया वि तुज्जा पउत्ती असंभावंतो गिवडिओ मुच्छा-वेम्भलो जाओ, आसासिओ य अम्हेहिं पढंत-वाएहिं । 24
 तओ 'हा पुत्त कुवलयचंद, कहिं मं मोत्तुं वच्चसि' ति भणमाणो पुणो मुच्छिओ । तओ आसासिओ विलविउं पयत्तो ।
 हा पुत्त कथ वच्चसि मोत्तूण ममं सुदुक्खियमणां । हा देव कथ कुमरो गिसंस ते अवहिओ सहसा ॥
 27 किं च बहुणा परायत्तो विव, उम्मत्तगो विव, गह-गहिओ विव, णट्ट-सण्णो विव, पणट्ट-चेयणो विव, सब्बहा गय-जीविओ 27
 विव ण चलइ, ण वलइ, ण जंपइ, ण फंदइ, ण सुणेइ, ण वेयए, ण चेतइ ति । तं च तारिसं दट्टण मरणासंक-वेम्भलेण
 मंतियणेण साहिओ से जहा 'सगर-चक्कवट्टिणो सट्टि-सहस्स-पुत्ताणं धरणिंद-कोव-विस-हुयास-जालावली-होमिभाणं गिहण-
 30 वुत्ततो तहा वि ण दिण्णो सोगस्स तेण अत्ताणो । ता महाराय, कुमारो उण केण वि दिव्वेणं अक्खित्तो किं पि कारणे 30
 गणेमाणेणं, ता अवस्सं पावइ पउत्ती । पुच्छामो जाणए, गणंतु गणया, कीरंतु पसिणाओ, सुब्बंतु अवसुइओ, दीसंतु

2) P धरणीकंपपरबजलखोहमाणहणकयाकुलहर, J दाणवसाण, P पणदीयलवच्छल. 3) P adds लोल after विलोल, P लोयणमेणं. 4) P परियारियं जेट्टसद्दोयरं. 5) P सम्भावतहरिस, J वसुच्छलंत. 6) P -भुएहिं, P कुलसं for कुसलं. 7) J देवीए ति । सुंदरो, P अच्छरियं, P om. इमं, P एमं ताव, J चेअ. 8) J रुवातिसयं, P जयजंजय-कुंजणग्गवियं, P पुरहओ, P पायपूरणं. 9) JP दढधम्मस्स, J adds ति before वच्छाए. 10) J गिब्वडियं उ for गिब्वडियं, तए, P पुरिसवेसित्तणं, J adds च after इमं, P om. पुरिस, J पावयंतीय. 11) P भणति for मंतयंति, P 'कुंजहरं, J हत्थारोहाणं P हत्थारोहाणं, J ति for ति. 12) P पसायं. 13) J गिसण्णो, P पुलयं तीए णीहरिया. 14) P कप्पडीय, J कप्पडिवेसो तथ दूरदेसंतर पाविओ, P जेव for देव. 16) J रुइणे, P मेत्तं for पुब्बं before ण, J हओ and P पुहई for पहओ. 17) P भमामाणो दिव्व-, P adds वसेणं before संपयं, J पुत्तो for पत्तो, P om. सो जो. 18) J P दढधम्म-, P om. एत्थ पत्तो, P महिंदेण, J एसो for एस. 19) P om. तुमं पुण, P कथेत्य. 20) P तुरणावहरिओ. 21) P एस for चेय, P पुत्तो for पत्तो. 22) P ज्जा for तुज्जा, J 'मग्गं सेस. 23) P om. य after तओ, P तुज्जा, J संकुलपएसे. 24) P -विवलो (अव looks like च), J om. य. 25) P भणमाणो पुच्छिओ पुणो आसासि ओ ततो विलविउं, P adds अवि य before हा पुत्त. 26) J हा देव. 27) P नह for णट्ट, P विव for विव, J तहा for सब्बहा. 28) P सुणइ न वेय ति । तं च. 29) J जह for जहा, P सहस्सा for सहस्स, P कोववस. 30) J inter. सोअ (for ग) स्स & तेण, P om. पि. 31) P पुच्छामि, J जाणउ, P गणंतु, J गणयं, P अवसुईओ.

- १ सुमिणयाहं, मिच्छं तु गेमिसिया, पुच्छिं तु जोइणीओ, साहेतु कण्ण-पिसाइयाओ, सव्वहा जहा तथा पाविज्जइ कुमारस्स 1
 सरिर-पउत्ती, धीरो होहि । एवं मंतियणेण भणिओ समाणो समासथो मणयं राया । देवी उण खणं आसासिया, खणं
 २ पहसिया, खणं बिहसिया, खणं णीसहा, खणं रोइरी, खणं मुच्छिय सि । सव्वहा कहं कहं पि तुह पउत्ति-मेत्त- ३
 णिबद्ध-जीवियासा आसासिज्जइ अंतैउरेणं । 'हा कुमार, हा कुमार' ति विलाव-सदो केवलं गिसुणिज्जइ ।
 § २५१) णयरीए उण तिय-चउक्क-चच्चर-महापह-रच्छामुह-गोउरेसु 'हा कुमार, केण णीओ, कथ गओ, कथ
 ४ पाविओ, हा को उण सो तुरंगमो दासगो ति । सव्वहा तं होहिइ जं देवयाओ इच्छंति' ति । तरुणियणो 'हा सुहय, हा ६
 सुंदर, हा सोहिय, हा मुद्ध, हा वियइ, हा कुवलयचंद-कुमार कथ गओ ति । सव्वहा कुमार, तुह विरहे कायरा इव
 पउत्थवइया ।' णयरी करिसा जाया ।
 ७ उवसंत-मुरय-सदा संगीय-विवज्जिया सुदीण-जणा । झीण-विलासासोहा पउत्थवइय व्व सा णयरी ॥ ९
 तओ कुमार, एरिसेसु य दुक्ख-वोलावियव्वेसु दियहेसु सोय-विहले परियणे णिवेइयं पडिहारीए महाराइणो 'देव, को वि
 पूसराय-मणि-पुंज-सच्छमो पोमराय-मणि-वयणो । किं पि पियं व भणंतो दट्टं कीरो महइ देवं ॥'
 १२ तं च सोऊण राइणा 'अहो, कीरो कयाइ किं पि जाणइ ति दे पेसेसु णं' उल्लविण, पहाइया पडिहारी पविट्ठा य, १२
 मग्गालगो रायकीरो । उवसपिऊण भणियं रायकीरेण । अवि य ।
 'भुंजसि पुणो वि भुंजसु उयहि-महामेहलं पुहइ-लच्छिं । वड्ढसि तथा वि वड्ढसु णरणाह जसेण भवलेणं ॥'
 १५ भणिण, णरवइणा अउव-इंसणायणण-विग्गहय वस-रस्स-समूससंत-रोमं च-कंचुय-च्छविणा भणियं 'महाकीर, तुमं कओ, १५
 केण वा कारणेण इहागओ सि' ति । भणियं च रायसुएणं । 'देव, वड्ढसि कुवलयचंद-कुमार-पउत्तीए' ति भणियमेत्ते
 राइणा पसरंनंतर-सिगेह-णिडभर-हियएण पसारिओभय-आहु-डंडेण गहिओ करयलेण, ठाविओ उच्छंणे । भणियं च राइणा
 १८ 'वच्छ, कुमार-पउत्ती-संपायणेण कुमार-णिविसेस-दंसणे तुमं । ता दे साह मे कुमारस्स सरिर-वट्टमाणी । कथ तए दिट्ठो, १८
 कहं वा कालंतरमि, कथ वा पएसे, केच्चिरं वा दिट्ठस्स' ति । एवं च भणिण भणियं कीरेण 'देव एत्थियं ण-याणामि, जं
 पुण जाणामि तं साहिमो ति ।
 २१ § २५२) अरिय इओ अइदूरे णम्मया णाम महाणइ । तीय य दाहिणे कूले देयाइइ णाम महाइइ । तीए २१
 देयाइइए मज्जे णम्मयाए णाइदूरे विंझ-गिरिवरस्स पायासणे अणेय सउण-सावय-संकिण्णे पएसे एणिया णाम
 महातावसी । तीए आसम-पए अरहे वि चिट्ठामो । एवं च परिवसंतस्स इओ थोएसुं चय दियहेसुं एगागी सत्त-मेत्त-परिवारो
 २४ संपत्तो तम्मि आसम-पएसम्मि कुमारो । तओ अरहेहिं दिट्ठो । तथ य सवभाव-गेह-णिडभरालावो पयत्तो । पुणो गंतुं २४
 समुट्ठिओ पुच्छिओ अरहेहिं जहा 'कुमार, किं तुज्ज कुलं, किं वा णामं, कथ वा गंतुं ववसियं' ति । तओ तेण भणियं ।
 'सोम-वैस-संभवो दढवम्म-महाराओ अओज्जाए परिवसइ । तस्स पुत्तो अहं, कुवलयचंदो मह णामं, गंतव्वं च मए भगवओ
 २७ मुणिणो समाएसेण विजयाए पुरवरीए कुवलयमालाए पलंबियस्स पादयस्स पूरणेण परिणेउं संबोहणेण च' ति । एवं च २७
 भणिऊण गओ तं दक्खिणं दिसं कुमारो । भणियं च तीय तावसीय 'कुमार, महंतो उव्वेवो तुह गुरूणं, ता जइ तुमं भणसि
 ता साहेउ एस कीरो गंतूणं सरिर-पउत्ति' ति । भणियं च तेण 'को दोसो, पूयणिजा गुरूणो, जइ तीरइ गंतुं, ता वच्चउ,
 ३० साहेउ गुरूणं पउत्ति । साहेयव्वं च मज्ज वयणेणं पायवडणं गुरूणं' ति भणमाणो पत्थिओ मण-पवण-वेओ कुमारो' ति । ३०

१ > P पुच्छियंतु, P पिसाईआओ, P कुमार तस्स. २ > P होही, J om. समाणो, P ओ for उण, P सुच्छिया for आसासिया, J om. खणं पहसिया. ३ > J रोइणी for रोइरी, J सव्वहा अतं कहं, P पउत्तिमेत्त तिससवद्ध. ४ > J om. 2nd हा, J विलव-. ५ > J तीयचउक्क, P महापहारच्छामुहा-. ६ > P होइ for होहि, P om. ति, J तरुणीअणो उण हा मुहयसुंदर. ७ > J विय for उव. ८ > J adds अवि य before उवसंत. ९ > J उअसंत-, P सुदीणमणा, P मोहा for सोहा. १० > P om. कुमार, P आ दुक्ख for य दुक्ख, P वियले for विहले, P देवि for देव. ११ > [मणि-सच्छम-वयणो] १२ > P adds अवि य before तं च, P कहीइ for कयाइ, P om. णं, J om. य. १३ > J मग्गालगो रायकीरो समपिऊण य भणियं. १४ > P भुंजसु पुणो, P लच्छी । १५ > P सणिण for भणिण, J णरवइणो, P दंसणायत्तण, P om. रस्स, J कंचअच्छविणो भणियं च रायसुएण, J om. भणियं महाकीर etc. to इहागओ सि ति, P adds राइणा भणिओ before महाकीर. १६ > P नू ति for सि ति, P om. च, P om. कुमार. १७ > J पसारिओ भुअडण्डेण. १८ > J om. पउत्तीसंपायणेण कुमार, P साह कुमार सड्ढीरसड्ढमाणी, P दिट्ठो कहं व कंनि व कालंतरमि. १९ > J om. च, J देवि for देव, J कि पुण जं for जं पुण. २१ > J दाहिणकूले P दीहिणे कूले, J तीय देयाइइ अ मज्जे. २२ > P om. णम्मयाए णाइदूरे. २३ > P अरहे, P om. वि, J च परिवसंतस्स, P परिवारो. २४ > P आसमपए कुमारो, J P भरालावो, P पयत्ते. २५ > J adds य before अरहेहिं. २६ > JP संभवो, P दढवम्म-, J उवज्जाए for अओज्जाए, P हं for अहं, P om. मह. २७ > P मुणिणा, P विजयपुर, P मालालंबियस्स पादरस्स पादरस्स पूरणेण, J पातयस्स, P परिणेओ, P संबोहणेण ति । २८ > J adds ति after कुमारो, P om. तीय, P तावसीए, P adds गुरूणं before तुमं. २९ > P साहउ, P पउत्ति ति, J om. ति, P पूयणिज्जो गुरूणो. ३० > P मयण for मज्ज, J om. पायवडणं, P पुच्छिओ for पत्थिओ.

1 § २५३) इमं च सोऊण राहणा तक्खणं चैय सहाविया विसा-देस-समुद्-वणिग्या, पुच्छिया य 'ओ भो वणिग्या, 1
जाणह तुब्भे णिसुय-पुब्बा विट्ठ-पुब्बा वा विजया णाम णयरी दाहिण-समुद्-वेलाऊलम्मि' । तेहिं भणियं 'अथि देव सयल-
२ रयणाहारा णयरी विजया, को वा ण-याणइ । तत्थ राया महाणुभावो तुज्झ चरियाणुवत्ती विजयसेणे सयं णिवसए, देवो वि 3
तं जाणइ चिय जइ णवरं पम्हुट्ठो' ति । इमं च सोऊण राहणा भणियं । 'वच्छ महिंदकुमार, पयइ, वच्चामो तं चैय
णवरिं' ति भणमाणो समुट्ठिओ राया । तओ मया विण्णविओ । 'देव, अहं चैव वच्चामि, चिट्ठ तुमं' ति भणिए राहणो
४ पोम्मरायप्पमुहा णाणत्ता राय-तणया । 'तुब्भेहिं सिग्घं महिंदेण समं गंतव्वं विजयं पुरवरिं' ति भणिए 'जहाणवेसि' ति 6
भणमाणा पयत्ता । अम्हेहि वि सज्जियाइं जाण-वाहणाइं । तओ णीहरिया वाहिं णयरीए । संदिट्ठं च राहणा ।
'मुच्छा-सोहिय-जीया तुज्झ पउत्तीहिं आससिज्जंती । ता पुत्त एहि तुरियं जा जणणी पेच्छसि जिर्यंती ॥'
९ देवीय वि संदिट्ठं । 9

'जिण्णो जराए पुत्तय पुणो वि जिण्णो विभोग-दुक्खेण । ता तह करेसु सुपुरिस जा पियरं पेच्छसि जिर्यंतं ॥'
इमे य संदेसेए णिसामिऊण आगया अणुदियह-पयाणएहिं गिम्हयालस्स एकं मासं तिण्णि वासा-रत्तस्स । तओ एत्थ संपत्ता ।
12 एत्थ य राहणो समप्पियाइं कोसल्लियाइं, साहिया पउत्ती महारायसंतिया, पुच्छिया य तुह पउत्ती जहा एत्थ महारायपुत्तो 12
कुवलयचंदो पत्तो ण व ति, जाव णत्थि णोवलद्धा पउत्ती । तओ पम्हुट्ठ-विजो विव विज्जाहरो, विहडिय-किरिया-वाओ
विव णरिन्दो, णिरुद्ध-मंतो विव मंतवाइं, विसंवयंतो विव तंतवाइं, सब्बहा दीण-विमणो जाओ । पुणो राहणा भणियं 'मा
15 विसायं वच्च, को जाणइ जइ वि एत्थ संपत्तो तहावि णोवलक्खिज्जइ' । अण्णं च 'अज्ज वि कह वि ण पावइ' ति ता 15
इह-ट्ठिओ चैय कं पि कालं पडिवालेह । दिण्णं आवासं । कयाइं पसायाइं । दियहे य दियहे य तिय-चउक्क-चच्चर-महापह-
देवउल-तलाय-चइ-मढ-विहारेसु अण्णिसामि । तओ अज्जं पुण उट्टेमाणस्स फुरियं दाहिणेणं भुयाडंडेणं दाहिण-णयणेण य ।
18 तओ मए चिंतियं 'अहो सोहणं णिमित्तं जेण एवं पटीयइ । जहा, 18
सिर-फुरिए किर रज्जं पिय-मेलो होइ वाहु-फुरिएण । अच्छि-फुरियम्मि वि पियं अहरे उण चुंबणं होइ ॥
उट्टम्मि भणसु कलहं कण्णे उण होइ कण्ण-लंकरणं । पियदंसो वच्छयले पोटे मिट्ठं पुणो सुंजे ॥
21 लिंगम्मि इत्थि-जोगो गमणं जंघासु आगमो चलणे । पुरिसस्स दाहिणेणं इत्थीए होइ वामेणं ॥ 21
अह होइ विवज्जासो जाण अणिट्ठं च कह वि फुरियम्मि । अह दियहं चिय फुरणं णिरत्थयं जाण वाएण ॥'
ता कुमार, तेग बाहु-फुरिएण पसरमाण-दियय-हरिसो किर अज्ज तुमं मए पावियव्वो ति इमं रायंणं संपत्तो जाव विट्ठो
24 तुमं इमिणा जयकुंजरेण समं जुज्झमाणो ति । 24

§ २५४) तओ इमं च णिसामिऊण राहणा भणियं । 'सुंदरं जायं जं पत्तो इह कुमारो तुमं च ति । सब्बहा
धण्णा अम्हे, जेण ददवम्म-महाराहणा समं संबंधो, कुवलयमालाए पुव्व-जम्म-णेहोवलंभो, अम्ह घरागमणं कुमारस्स,
27 उदाम-जयकुंजर-लंघणं, दिव्व-कुसुम-बुट्ठि-पडणं, पादय-पूर्णं च । सब्बं चैय इमं अच्छरियं । सब्बहा परिणाम-सुह-फलं 27
किं पि इमं ति । तेण वच्चह तुब्भे आवासं, वीसमह जहा-सुहं । अहं पि सहाविऊण गणयं वच्छाए कुवलयमालाए वीवाह-
मास-दियह-तिहि-रासि-णक्खत्त-वार-जोय-लग्ग-मुहुत्तं गणाविऊण तुम्हं पेसेहामि' ति भणमाणो राया समुट्ठिओ आसणाओ ।
30 कुमारो वि उवगया आवासं कय-संमाणा । तत्थ वि सरहसमइमग-पयत्त-गइ-वस-खलंत-चलणग-मणि-णेउर-रणणा-सणाह- 30
मेहला-सइ-पूरमाण-दिसिवहाओ उद्धाइयाओ विलासिणीओ । ताहिं जहा-सुहं कमल-दल-कोमलेहिं करयलेहिं पक्खालियाइं
संख-चक्कं कुसाइ-लक्खण-जुयाइं चलणयाइं, समप्पियाओ य दोणं पि पोत्तीओ । अवि य ।
33 णेहोयगिय-देहा सुपुरिस-फरिसो गलंत-रुहरंती । पोत्ती रत्ता महिल व्व पाविया णवर कुमरेण ॥ 33
तओ सय सहस्स-पाएहिं बहु-गुण-सारेहिं सिणेह-परमेहिं सुमित्तेहि व तेह-विसेसेहिं अढंभगिया विलासिणीयणेण, उवट्ठिया
खर-फरुस-सहावेहिं सिणेहावहरण-पट्टएहिं खलेहिं व कसाय-जोएहिं, णहाणिया य पयइ-सत्थ-सीय-सुह-सेव्व-सच्छेहिं

2) P वेलाऊलम्मि, P देवा for देव. 3) P om. णयरी, P जत्थ for तत्थ, J चरियवत्ती. 4) J णयाणइ for जाणइ. 5) J मए for मया, J च्चअ for चैव, P om. ति, J राहणा for राहणो. 6) J पोए^प P चोप्परायप्पमुहा, P विजयपुरवरिं. J भणिआ for भणिए. 7) P अम्हे किंचि सज्जियाइं । ताओ, P adds अवि य before मुच्छा. 8) P आससिज्जंति, P ता कुणनु पुत्त एहिं जा जणणी पेच्छसु जिर्यंती. 10) J विओअ. 11) P संदेसे, J एकमासं. 12) P य राहण, J संहिआ for साहिया, P पयत्ती महा, P महारायउत्तो. 13) J विणडियकिरियावाओ. 14) J विरुद्ध for णिरुद्ध, J मंतवाती, J om. विसंवयंतो विव तंतवाइं, P तंतवई. 16) P कालं पडिवालेहं, P पासायाइं, P om. य दियहे य, J महापहं. 17) P अज्जसामि, P om. तओ, P दाहिणं, P भुयाडंडेणं, P om. दाहिण-. 18) J पटीयति. 19) P अच्छिफुरणंमि. 20) P कन्नलंकारं । फियफसो. 21) J इत्थिजोओ. 23) P तओ for ता. 24) P ति for ति. 25) J एअव for इमं च, J संपत्तो for जं पत्तो. 26) P ददधम्मंमहाराहणो, J संबद्धो. 27) P पाययपूर्णं, J अच्छरीणं. 28) P विवाह-. 29) J दिअहं, P गणासिऊण. 30) J सरहसमइमग, P वइस for वस, P रणणो. 31) P उद्धाइयाओ, P om. जहा, J om. दल. 32) P om. लक्खणजुयाइं, P चलणाइं, P om. य. 33) J देवो, P सुवु रेस, J फरिसो गलंत, P adds तीरत्ता after रत्ता. 34) P पणिया for परमेहिं, P om. सुमित्तेहि व etc. to णहाणिया. 35) JP सच्छसीअ-

- 1 कलंकवहारएहिं सज्जन-हियएहिं व जलुप्पीलेहिं, दिण्णाणि य सुरहि-परिमलायद्विय-गुमुगुमेंत-भमर-बलामोडिय-चरण- 1
 चुंबियाइं गंधामलयाइं उत्तिमंगे । तओ एवं च कय-इट्ट-देवया-गणोकारा, भोत्तूण भोयणं सुह-गिसण्णाणं भासणेसुं किं-किं
 3 पि चिर-विभोय-संभरंताण समागया एक्का राय-कुलाओ दारिया । तीय पणाम-पञ्चुट्टियाए साहियं । 'कुमार, वच्छाए 8
 कुवल्लयमालाए गणिए गह-गोयरे गणएण ण ठवियं सुज्जमाणं लगं अज्ज वि धीसत्थं, ता मा तूरउ कुमारो हियएणं ।
 गिययं चिय कुमारस्स इमं गेहं ता जहा-सुहं अच्छसु' ति भणिऊण णिक्खंता दारिया । तओ महिंदेण भणियं 'कुमार,
 6 अज्ज वि दीहं इमं, संपयं महाराइणो लेहं पेसेम्ह तुह संगम-पउत्ति-मेत्तेणं अत्थेणं' ति भणिऊण विणिक्खंतो महिंदो । कुमारो 6
 य चित्तिउं पयत्तो 'अहो, लंघिया मए असंखा गिरिवरा, पभूया देसा, बहुयाओ णिण्णयाओ, महंताओ महाणईओ,
 अणेयाओ महाडईओ, पावियाइं अणेयाइं दुक्खाइं, ताइं च सव्वाइं कुवल्लयमाला-मुहयंद-चंदिमा-गलत्थियाइं तम-वंध्राइ
 9 व पणट्टाइं । संपयं पुण इमिणा पडिहारि-वयणेण अण्णाणि वि जाइ लोए दुक्खाइं ताइं मज्झ हियए पक्खित्ताइं ति 9
 मण्णे हं । सव्वहा कत्थ अहं कत्थ वा सा तेलोक्क-सुंदरी । अवि य ।

आइट्टं जइ मुणिणा पूरिजइ णाम पायओ गूढो । तेलोक्क-सुंदरीए तीए उण संगमं कत्तो ॥

- 12 अच्छउ ता तीएँ समं पेम्माबंधो रयं च सुरयम्मि । हेलाए जो वि दिट्ठो ण होइ सो माणुसो मण्णे ॥' 12

§ २५५) इमं चित्तयंतो मयण-सर-गोचरं संपत्तो । तओ किं चित्तिउं पयत्तो । अवि य । अहो तीए रूवं ।

चलणंगुलि-णिम्मल-णह-मऊह-पसरंत-पडिहयप्पसरं । पंचमियंदं कह गेमि णवर-णक्खेहिं उवमाणं ॥

- 15 जइ वि सिण्णिद्धं मउयं कोमल-विमलं च होइ वर-पउमं । लज्जंति तीएँ पाया उवमिज्जता तह वि तेण ॥ 15

सामच्छायं मउयं रंभा-थंभोवमं पि ऊरु-जुयं । ण य भणिमो तेण समं बीहंतो अलिय-दोस्सस्स ॥

सुरयामय-रस-भरियं महियं विबुद्धेहिं रमण-परियरियं । सगस्स समुदस्स व तीय कलत्तं अणुहरेज्ज ॥

- 18 चित्तेमि मुट्ठि-गेज्जो मज्जो को णाम सदहे पयं । देवा वि काम-रुइणो तं मण्णे कत्थ पावंति ॥ 18

मरगय-कलस-जुयं पिव थण-जुयलं तीएँ जइ भगेज्जासु । असरिस-समसीसी-मच्छरेण मह णाम कुप्पेजा ॥

कोमल-मुणाल-ललियं बाहा-जुयलं ति णत्थि संदेहो । तं पुण जल-संसग्गि दूसिययं विहडए तेण ॥

- 21 कंतीएँ सोम्म-दंसित्तणेण लोओवरोह-वयणेहिं । चंद-समं तीएँ मुहं भणेज्ज णो जुज्जए मज्झ ॥ 21

किं धवलं कंदोई सर्फं रत्तं च णीलये कमलं । कंदोई-कुमुय-कमलाण जेण दिट्ठी अणुहरेज्ज ॥

घण-णिद्ध-मउय-कुंचिय-सुसुरहि-वर-भूव-वासियंगण । कज्जल-तमाल-भमरावलीउ दूरेण केत्ताण ॥

- 24 इय जं जं चिय अंगं उवमिज्जइ कह वि मंद-बुद्धीए । तं तं ण घडइ लोए सुंदरयर-णिम्मियं तिस्सा ॥ 24

§ २५६) एवं च चित्तयंतो दुइयं मयणावत्थं संपत्तो कुमारो, तत्थ संगमोवायं चित्तिउं समावत्ते । केण उण

उवाएण तीए दंसणं होज्ज । अहवा किमेत्थ वियारेण ।

- 27 रइऊण इत्थि-वेसं कीय वि सहिओ सहि ति काऊण । अत्तेउरम्मि गंतुं तं चंदमुहिं पलोप्पमि ॥ 27

अहवा णहि णहि ।

सुपुरिस-सहाव-विमुहं राय-विरुद्धं च णिंदियं लोए । महिला-वेसं को णाम कुणइ जा अत्थि भुय-डंडो ॥

- 30 किं पुण करियव्वं । हूं, 30

माया-वंचिय-बुद्धी भिण्ण-सही-वयण-दिण्ण-संकेयं । तुरयारूढं हरिऊण णवर राइए वच्चामि ॥

अहवा ण एरिसं मह जुत्तं ।

- 33 स खेय कहिं वच्चइ कत्थ व तुरएहिं हीरए बाला । चोरो ति णिंदणिज्जो काले अह लंछणं होइ ॥ 33

ता किं पुण कायव्वं । हूं,

1 > J सज्जण and P सज्जए हियए for सज्जण, P गुमुगुमेंत- 2 > P -नमोकारो. 3 > P पञ्चुट्टियाए. 4 > J P गणए (perhaps गणएँ) for गणएण (emended), P दृवियं for ठवियं, J 'माणलगं, P तूरओ कुमार. 6 > P inter. इमं & दीहं, J पेसेसु for पेसेम्ह, P -पउत्तमेत्तेणं अत्थेविगं, P om. ति भणिऊण. 7 > P विय for य, P om. महंताओ महाणईओ. 8 > P -मुहलंदिवागलवत्थियाइं, J वंध्र इव P वंदा इव. 9 > P पणट्टं, P पडिहार-, P जाणि for जाइ-. 10 > P कत्थाइं. 11 > P मुणिणो पूरिजउ. 12 > J आ तीय for ता तीएँ, J पेम्माबद्धो P पेम्माबंधा. 13 > P मरण for मयण, P पत्तो for संपत्तो, P om. तओ किं चित्तिउं पयत्तो. 14 > J मयूह, J परिहय. 15 > J तीय. 16 > P ऊज्जयं, P इमं for समं, P बीहंतो. 17 > J समुद व, J अणुहरेज्जा P अणुहरेज्ज. 19 > J तीय, P कुप्पज्जो. 20 > P पुण खलज्जणसंसग्गिदूसियं, J दूसिअं. 21 > J कंतीय, P सोम, J तीय मुहं भणेज्ज. 22 > P किंदोई, P om. सत्थं रत्तं, P कुमुया, J अणुहरेज्जा. 23 > P कुंचियसुरहि-. 24 > J से for अंगं, J सुंदरयरअग्गि तिस्साए ॥. 25 > P चित्तयते, J adds य after तत्थ, P उण वाएण. 26 > J तीय, J होज्जा, P किमित्थ. 29 > P om. णाम, P adds नवर before जा, J जो for जा. 31 > P राइ न for राइए. 32 > P अहवा न जुत्त मह एरिसं, P om. मह जुत्तं. 33 > J कहं for कहिं, P कुले य for काले य.

- 1 अवहृत्थिरुण लज्जे समुहं चिय विण्णवेमि रायाणं । उप्पिज्जउ अज्जे थिय कुवलयमाला पसाएणं ॥ 1
ते पि णो जुज्जइ । कह ।
- 2 अवहृत्थिय-लज्जो हं भयण-महासर-पहार-बिहलंगो । ठाहामि गुरुण पुरो पियाए णामं च चेच्छामि ॥ 3
ता एक्को उण सुदरो उवाओ । अवि य ।
पिक्कट्टियास्ति-विसमो णिवाडियासेस-पक्क-पाइक्को । दारिय-करि-कुंभयडो गेण्हामि बला जयसिंरि व ॥
- 6 § २५७) एवं च चित्तयत्तस्स समागओ महिंदकुमारो । तेण य लक्खिओ से हियय-गओ वियप्पो । भणियं च 6
सहासं णेण 'कुमार कुमार, किं पुण इमं सिंगार-वीर-वीभच्छ-करुणा-गाणा-रस-सणाहं णाडयं पिव अप्पगयं णचीयइ'ति ।
तओ ससज्जस-सेय-हास-मीसं भणियं कुमारेण 'णिसण्णसु आसणे, पेसिओ तायस्स लेहो' । महिंदेण भणियं 'पेसिओ' ।
9 कुमारेण भणियं 'सुदरं कयं, अह इओ केत्तिय-सेत्ताइं जोयणाइं अओज्जा पुरवरी । महिंदेण भणियं 'कुमार, किं इमिणा अपत्थुय- 9
पसंगेण अंतरेत्ति जं मए पुच्छियं' । तओ सविलक्ख-हास-मंयरच्छिओहं भणियं कुमारेण 'किं वा अण्णं एत्थ पत्थुय-पुब्बं' ।
महिंदेण भणियं 'णणु मए तुमं पुच्छिओ जहा किं पुण इमं अप्पगयं तए णडेण व णत्थिं य समावत्ते' । तओ कुमारेण
12 सविलक्खं हसिउण भणियं 'किं तुहं पि अकहणीयं अत्थि । जं पुण मए ण साहियं तं तुह विण्णणं परिवक्खमाणेण । किं । 12
जह मह हियय-नायं लक्खेसि तुमं किं वा ण व' ति । महिंदेण भणियं 'किं कुमार, महाराय-सिरिदुवम्म-परियणे अत्थि
कोइ जो जणस्स हियय-गयं ण-याणइ'ति । कुमारेण भणियं 'अलं परिहासेण । सब्बहा एयं मए चित्तियं जहा आगया
15 एत्थ अम्हे वूरं देसंतरं किर कुवलयमाला परिणेषव्व ति । गहिओ जयकुंजरो, पूरिओ पायओ, विट्ठा कुवलयमाला, किर संपयं 15
णिच्छुया जाय ति जाव इमाए पडिहारीए साहियं जहा अज्ज वि कुवलयमालाए गह-लग-जोओ ण सुदरो, तेण 'कुमार,
ण तए जूरियव्वं धीसत्थो होहि' एयं किर राइणा संदिट्ठं ति । तेण मए चित्तियं जहा 'एस एरिसो छलो जेण गह-लग-
18 दियहो वा ण परिसुज्जाइ ति । सब्बहा कुवलयमाला-यण-थली-परिमलण-पक्कलं ण होइ अम्ह वच्छयलं । अवि य । 18
अइबहुयं अम्ह फलं लहुयं मण्णामि कामदेवं पि । जं तीए पेसिया मे धवल-विलोला तथा विट्ठी ॥
ता ण सा मं वरेउ' ति इमं मए चित्तियं ।
- 21 § २५८) महिंदेण भणियं 'अहो, 21
जं तं सुव्वइ लोए पयडं आहाणयं णरवरिंद । पंडिय-पडिओ वि णरो मुज्जइ सव्वो सक्खेसु ॥
जेण पुव्व-जम्म-सिणेह-पास-बद्धा मुणेवर-गाणोवएस-पाविया जयकुंजर-लंघण-घडंत-मुणि-वयणा लंबिय-पादय-पूरण-संपुण्ण-
24 पइण्णा सयल-णरिंद-बंद-पक्कख-दिण्ण-वरमाला गुरुयण-लज्जावणय-वयण-कमल-वण-माल-ललिय-धवल-विलोल-यसरंत- 24
दिट्ठि-माला वि कुवलयमाला वियप्पंतरं पाविय ति । अहो मूढो सि, इंगियाइ पि ण गेण्हसि । किं पुण एंतो ण पुलइओ
सि । किं पुलइजंतीए ण लज्जियं तीए । किं ण पयडिओ अंस-भाओ । किं जयकुंजर-लंघण-वावडो ण पुलइओ तं
27 जहिच्छं । किं किं पि गुरु-पुरओ वि ण भणियं अवत्तक्खरं । किं ओयंछिय-वयणा ण जाया । किं पिउणा 'वच्छे, 27
वच्छसु' ति भणिए ण अलसाइयं । किं दूरो ण तुह दिण्णो अच्छिओहो । किं ण मउलियाइं आसणे णयाणइं । किं ण
अण्ण-वयएसेहिं हसियं तीए । किं कण्ण-कंइयच्छलेण ण वूढो रोमंचो । किं ण पीडिए णियय-धण-मुहे । किं ण गहियं
30 अहरं दियवरेहिं । किं ण कंस-संजमण-मिसेण दंसियं थणंतरं । किं ण संजमियं अलिय-रुहसियमुत्तरिज्जयं । किं तुमं 30
दट्ठुं ण पुलइयं अत्ताणयं । किं अहं ण पुलइओ गुरुयणो विव सलज्जं । किं अलिय-खेय-किलंत-जंभा-वस-वल्लिउव्वेलमाण-बाहा-
लयाए ण णिक्खत्तो अप्पा सहीए उच्छंगे ति, जेण भणसि जहा णाहं रुहओ कुवलयमालाए'ति । इमं च सोऊण भणियं
- 1 > P समुहे, P पसाएसणं. 2 > J अह for कह. 3 > P दाहामि, P पुरओ for पुरो, P चेत्तण for चेच्छामि. 5 > P
निव्वडियायेस, जयसिंरिध, P च for व. 6 > J हिअपयगओ P तिओययगओ. 7 > P inter. णेण (णेयण) & सहासं, P om.
one कुमार, P वीभत्सकारुण, J सणाहणाडयं. 8 > J ससुज्जससेअहास- P सज्जस, J णीसम्मणु P निसम्मणु, P तायत्तस, P
भणित्तं. 9 > P अह for इओ, J अयोज्जा P अउज्जा, J अपत्थुअ. 10 > P पुच्छिओ, J संयरच्छिओहं, J अण्णं कत्थ एत्थ अपुव्वं.
11 > J णत्थिउ. 12 > P अकहणीयमत्थि, P om. किं. 13 > P लक्खसि, P दडधमा. 14 > P न for जणस्स, P जणस्स
जाणइ for णयाणइ. 15 > J पातओ. 16 > J जायन्ति, P विवाह for गह. 17 > P inter. चित्तियं & मए. 18 >
P om. वा before ण, J om. ति, P धणत्थली for धणथली, P om. पक्कलं. 19 > P अप्पकं, J तीय. 20 > J ममं for
मं, P वरउ, J adds ति after चित्तियं. 22 > J एअं तं जं सुव्वइ पयडं आहाणयं जणे सयले । for the first line जं तं eto. P
पंथिये, P व for वि, P inter. सव्वो & मुज्जा (ज्जा) इ. 23 > J adds संबइ before सिणेह, P सिणेह, P पाययपूरण.
24 > P om. दिण्ण, P om. विलोल. 25 > P इंगियं पि, P किं पुलयंतो न. 26 > J om. ण लज्जियं तीए, J पडिओ for
पयडिओ, P कुंजरलंघण, J om. तं. 27 > P गुरु, J अमंतरक्खरं, P किं उअच्छिय. 28 > P adds ति after अच्छिओहो.
29 > P किं अन्नावपसेहिं न हसियं, J तीय, P किं वा कवकंदुय, J वूढो for वूढो, J पडिए for पीडिए, P निययमे. 30 > P
दस्सेहिं for दियवरेहिं, P संजममिसेण. 31 > P दट्ठुण न पुलइयमत्ताणयं, P जंतावत्. 32 > P om. ण, P सही for सहीए,
P om. जहा before णाहं, P एवं for इमं.

- 1 कुमारैण 'अहो, गुरु-पुरओ पढम-विजुरेहा इव दिट्ट-णट्टा एकंते एत्तिए भावे पदंसिए कथ्य वा तए लक्खिए' ति । 1
तेण भणियं 'कुमार, अहो पंडिय-मुक्खो तुमं, जेण
- 3 हसियं पि ण हसियं पिव दिट्ठं पि ण दिट्ठमेव जुवईण । हियय-दइयम्मि दिट्ठे को वि अउच्चो रसो होइ ।' 3
कुमारैण भणियं 'एयं तुमं पुण जाणसि, मए उण ण किंचि एत्थ लक्खियं' ति । महिंदेण भणियं 'तुमं किं जणसि मय-जलोय-
लंत-गंडयलोल्लेह-भसलावली-कलप्पलावाउलिजंत-जय-कुंजर-लंघण-वावड-मणो, अहं पुण तीए तम्मि समए तुह वंसण-
- 6 पहरिसुल्लसंत-रोमच-पसाहण-पसाहियायार-भावणसेण-तग्गओ, तेण जाणिमो' ति । जं च तए भासंकिंयं महाराय-विजयसेणो 6
बहु-दियह-लग्ग-गणण-च्छेणे ण दाहिइ बालियं ति तं पि णो । को पुण अण्णो तुह सरिसो कुल-बिहव-रूव-जोव्वण-
विण्णाण-गाण-सत्त-कला-कलावेहिं जस्स तं दाहिइ । ता मिच्छा-वियप्पो तुह इमो' ति । अण्णमाणस्स समागया एक्का दारिया ।
- 9 तीए चरण-पणाम-पच्चुट्टियाए विण्णत्तं । 'कुमार, भट्टिदारियाए सहस्य-गंधिया इमा सिरिमाला तुहं पेसिया । एसो य पारि- 9
याय-मंजरी-सिरीस-कय-कारिम-गंध-लुद्ध-मुद्धागयालि-माला-हलबोल-वाउलिजमाण-कारिम-कंसरो कण्णऊरओ पेसिओ' ति
अण्णमाणीए पणामिओ कुमारस्स । कुमारैणावि सुह-संदोह-महोयहि-मंथणुगओ विव सायरं गहिओ ति पुलइयं च तेहिं ।
- 12 § २५९) भणियं च महिंदेण 'कुमार, सुंदरं कण्णपूरयं, किंतु मणयं इमस्स इमं णालं थूलं' । कुमारैण वि 12
भणियं 'एवमिमं, किं पुण कारणं दे णिरूवेमि' । दिट्ठं च अइतणुय-भुज्जवत्तं तरियं पत्तच्छेज्ज-रायहंसियं । उव्वेहिया य
कुमारैण, दिट्ठा असरिसा विय रायहंसिय ति । कुमारैण भणियं 'वयंस, जाण ताव केरिसा इमा हंसिय' ति । महिंदेण
16 भणियं 'किमेत्थ जाणियच्चं, भुज्ज-विणिम्मिया' । तओ सहासं कुमारैण भणियं 'णणु अहं भावं पुच्छामि' । महिंदेण भणियं 15
'केरिसो इमाए अचेतणाए भावो' । कुमारैण भणियं 'अलं परिहासेण । णणु किं एसा भीया, किं वा उडिवग्गा, किं वा
दीणा, किं वा पमुइया, आउ पिय-विरह-विहुरा होउ साहीण-दइय-सुरयासाय-लालस' ति । महिंदेण भणियं 'ण इमाण
18 एक्का वि, किंतु अहिणव-दिट्ट-णट्ट-दइया-सुह-संगम-लालसा एसा' । कुमारैण भणियं 'भण, कहं जाणीयइ' । महिंदेण 18
भणियं 'किं वा एत्थ जाणियच्चं । अवि य ।

तक्खण-विणट्ट-पिययम-पसरिय-गुरु-विरह-दुक्ख-सिदिलंगी । उक्कटिय-पसरिय-लोल-लोयणा दीसए जेण ॥

- 21 कुमारैण भणियं 'एवं णिमं णिउणं च गिरुविउं पयत्तो । पुलयंतण य भणियं 'वयंस, दुवे इमीए पुडा' । विहाडिया य 21
जाव पेच्छइ अवरलिनी-लिहियाइं सुहुमाइं अक्खराइं । भणियं च तेण 'अहो, अक्खराणि व दीसंति' । वाइउं पयत्ता । किं
पुण लिहियं तथ । अवि य ।
- 24 अहिणव-दिट्ट-दइय-सुह-संगम-फरिस-रसं महंतिया । दूसह-विरह-दुक्ख-मंताविया कलुणं रुवंतिया ॥ 24
तरलिय-णयण-बाह-जल-पूर-जलजलयं णियंतिया । दइया-हंसएण मेलिज्जइ इह वर-रायहंसिया ॥
तओ कुमारैण भणियं 'अहो णिउणत्तणं कलासु कुवल्लयमालाए, जेण पेच्छ कारिम-कण्णपूरओ, तस्स मुणाले रायहंसिया,
27 सा वि णिय-भाव-भाविया, तीय वि मज्जे हंसिया-भाव-विभावणं इमं दुवइ-खंडलयं ति सव्वहा ते तहा जहा तुमं भणसि' । 27
महिंदेण भणियं 'तुमं पुण असंबद्धं पलवसि, जेण इमं पि एरिसं रायहंसिं अण्णहा संभावेसि' ति । ताव य ।
मा हीरह रायरसा धण-धणिया-विहव-पुत्त-भंडेहिं । धम्मेण विणा सव्वं पुक्करियं जाम-संखेण ॥
30 इमं च सोऊण सहसुभंत-विलोल-चलंत-पम्हल-णयणो भणिउं पयत्तो । 'अहो अख्यंगओ दिणयरो, पूरिओ चउ-दिहय- 30
जाम-संखो । ता संपयं करणीयं किंचि करेमो । ता वच्च तुमं, साहसु कुवल्लयमालाए 'सव्वं सुंदरं, अहो णिउणा तुमं' ति ।
तओ 'जहाणवेसि' ति भणिऊण पडिगया सा दारिया ।

1 > J विजुरेहं पिव, P दिट्टणट्टा एकंतो, P om. तए. 2 > P पुडो for मुक्खो, J om. जेण. 3 > J दिट्ठमेव जुवईण. 4 >
P om. पुण, J णइत्ति, P om. एत्थ, P inter. किं & तुमं, P अजलोअंतयउवल्लेहउसलावलीकिल्लप्यं. 5 > J तीय. 6 > J
पसाहियायारभावणसेण, P जां णिमो ति, P adds न after तए, P adds तं before महाराय. 7 > J दाहिनि जालिअं ति,
P को उण, P -विहिव- 8 > J जस्स तं दाहिइति 1, P दारियो. 9 > J तीय, J पच्चुट्टियाए पच्चुट्टियाए P भट्टिदारियाए,
P पुच्छा for गंधिया, P om. तुहं. 10 > P कंठऊरउ पेसिउ. 11 > J अण्णमाणीय, P कुमारैण वि, P om. ति. 12 > P om. च
after भणियं, P कंठऊरयं, J om. किंतु मणयं, J इमण्णालं, P om. वि. 13 > J om. एवमिमं, J अतितणुय, P -चुज्जवत्तं.
14 > P om. जाण, J om. इमा, P हंसिया । 15 > P मिह for मुज्ज, P om. महिंदेण भणियं 'केरिसो etc. to कहं जाणीयइ.
18 > J जाणीयति. 20 > P पणट्ट for विणट्ट, P om. पसरियगुरु etc. to पुलयंतण. 21 > J एवणिमं, P एतेण for य
before भणियं, J पुडे विहाडिया. 22 > P अक्खराइं च. 23 > P om. अवि य. 24 > J -रसम्महंतिआ, P om. विरह,
P संताविय, J करुणं रुवंतिआ. 25 > P वाहजलपूरजलपूरजलजलयं, J णियंतिया, J देया for दइया, J मेलिज्जउ. 26 > J
णिउत्तणं, J जेण for जेण, J कण्णऊरओ, J विआले P मुणाल for मुणाले. 27 > P विणीय-, P adds विभाव before
विभावणं, J दुइअखण्डलयं P दुइयखंडलयं. 28 > J पर for पुण, P adds ण after पुण, P अहण्णहा. 29 > P मोहीरह-रायहसा,
P सव्वं थुक्करियं. 30 > P सहसुभंत, J -पम्हल, P -नयणा, P पयत्ता, J अह for अहो, P transposes जाम after चउ.
31 > P सहाय for साहसु, J णिउणो. 32 > P परिगया, P चेडिया for दारिया.

- 1 § २६०) कुमारा वि कय-पहाण-कम्मा उबगया अब्भतरं । तत्थ वि कुमारेण जविया जिण-णमोक्कार-वडव्वीसिया, 1
झाणेय य झाहओ समवसरणत्थो भयवं जय-जीव-बंधवो उसभणाहो । पठियं च ।
- 3 जय ससुरासुर-किंणर-णर-णारी-संच-संधुया भाव्यं । जय सवल-विमल-केवल-ललिउज्जल-गाण-वर-दीव ॥ 3
मय-माण-लोह-मोहा एए चोरा मुसंति तुह वयणं । ता कुणसु किं पि तं चिय सुरक्खियं जह इमं होइ ॥
सि भणियण कओ मण-वियप्पियाणं भगवंताणं पणामो सि । तओ सुहासणत्था संवुत्ता । भणियं च महिंदेण 'कुमार,
6 कीस तए कुवलयमालाए ण किंवि संदिट्ठं पेम्म-राय-संस्खणं वयणं' । कुमारेण भणियं 'ण तुमं जाणसि परमत्थं । 6
पेच्छामो इमिणा संदेस-विरहेण किं सा करेइ, किं ताव संगमूसुया भायल्लयं पडिवज्जइ, किं ता विण्णाणं ति करिय
अम्हाणं पेसिए कण्णज्जए ण कज्जं तीए संदेसेणं' ति । महिंदेण भणियं 'एवं होउ, किंतु होहिइ कुवलयचंदो चंदो
9 व्व सकलंके' । कुमारेण भणियं 'केण कलंकेण' । महिंदेण भणियं 'इत्थि-वज्झा-कलंकेणं' ति । तेण भणियं 'कहं भणसि' । 9
महिंदेण भणियं 'किमेत्थ भणियच्चं ति । ण दिण्णे तए पडिसंदतो । तओ सा तुह संदेसायण्णुक्कंठिया दूइ-मग्ग-
पलोयण-परा चिट्ठइ । पुच्छियाए दूईए ण य किंवि संदिट्ठं ति सुए निम्ह-समय-मज्झण्ह-दिणयर-कर-णियर-सूसमाण-
12 विरय-जंबालोयर-कडुयालय-सहरुल्लिय च्व तुह विरह-संताव-सोसिज्जंती उच्चत्त-परियत्तयं करेज्ज मरिही वराइं कुवलयमाला । 12
पुणो पभायाए रयणीए जत्थ दीससि भमंतो तत्थ लोएण भणियच्चो, अहो एसो बाल-वहओ भूण-वहओ इत्थि-वहओ स्ति,
तेण भणामि कलंकिज्जति' ति । कुमारेण भणियं 'अहो, तुमं सब्बहा पहसण-सीलो, ण तुह पमाणं वयणं' ति ।
- 15 § २६१) एवं विहसमाणा कं पि कालं अच्छिज्जण पुवण्णा पलंकेसु, पसुत्ता सुइरं । ताव य पठियं पाहाउय- 15
पाठएण । अवि य ।
णिम्मल-फुरंत-रुहरप्यभेण रुहिराणुरंजियंणेण । अरि-तिमिरं णासिज्जइ खग्गेण व तुज्ज सरेण ॥
18 लोयालोय-पथासेण विमल-दीसंत-देव-चरिएण । ओयग्गिज्जइ भुवणं तुज्ज जसेणं व अरुणेणं ॥ 18
सूरोअगण-मइलेण गालिय-देहप्यहा-णिहाएण । अरि-णिवहेण व तुज्जं वियलिज्जइ उडु-णिहाएण ॥
वण-राइ-परिगएणं दूरुण्णय-दुक्ख-लंघणिज्जेणं । पयडिज्जइ अप्पाणो वीरेण व सेल-णिवहेणं ॥
21 मंगल-भणिएण इमं लंघिय-जलणाह-दूर-पसरेण । आसा-णिवहेण तुमं वियसिज्जइ संपयं वीर ॥ 21
इय तुज्ज चरिय-सरिसं सब्बं चिय णाह भागयं पेच्छ । सुह-दंसणं च दिज्जउ गरणाह णरिंद-वंदाण ॥
इमं च णिसामिज्जण 'णमो तेलोक-बंधूणं' ति भण्णामो जंभा-वस-वलिउव्वेळमाण-बाहा-पक्खेवो समुट्ठिओ पलंकाओ कुमारो
24 महिंदो वि । ताव य समागया अप्प-दुइया एक्का मज्झिम-वया जुवई । सा य करिसा । अवि य । 24
अणुमीमंतं पलिया ईसि-पलंवंत-पीण-थण-जुवला । सिय-हार-लया-असणा ललिय-गई रायहंसि च्व ॥
तओ तीय य दारियाए पुरओ उवसप्पिज्जण भणियं 'कुमार, एसा कुवलयमालाए जणणी चाई पियसही किंकरि सरिरं
27 हिययं जीवियं व' ति । तओ कुमारेण ससंभमं 'आसणं आसणं' ति भण्णामेण अब्भुट्ठिया, भणियं च 'अज्जे, पणाममि' । 27
तीय य उत्तिमंगे चुंबिज्जणं 'चिरं जीवसु वच्छ' ति भणंतीए अभिगंदिओ कुमारो । णिसण्णा य आसणमिम । भणियं च
'कुमार, अम्हाणं तुमं देवो सामी जणओ सहा मिच्चं बंधवो भाया पुत्त-भंडं अत्ताणयं हिययं वा, सब्बहा वच्छाए
30 कुवलयमालाए तुहं च को विसेसो स्ति, तेण जं भणामि तस्स तुमए अणुण्णा दायव्वा । अण्णहा कत्थ तुम्हाणं पुरओ 30
अणेय-सत्थत्थ-वित्थर-परमत्थ-पंडियाणं अम्हारिसाओ जुवइ-वंचल-हियय-सहावाओ वीसत्थं जंपिउं समारहंति । ता सब्बहा
खमसु जं भणिस्सं ।

1 > J अम्भंता for अब्भंतरं, J जिणे for जिण, P वडव्वीसिया. 2 > P उसहनाहो. 3 > P दीवा ॥. 4 > P मयण for लोह, P एते चोरा, P कुणसु तं पि किं पि तं चियं. 6 > J इंचिअ for किंचि. 7 > P करेत्ति for करेइ, J संगमूसुआ पल्लयं, P संगमूसुया. 8 > P कअरुणए, J तीय, J होहिति, P होहित्ति. 9 > P om. इत्थिवज्झा to महिंदेण भणियं, J इत्थिवज्जा. 10 > P त for तए, P संदेसायणुक्कंठिया पुणो दूइ, J दूई. 11 > J चिट्ठति, J पुच्छिया दूई, P णिसुए for सुए, P -दियर-, P om. करणियर, J -सूसमाण. 12 > P जंबालोयरि, P सपरियल्लयच्च, J परत्तयं, J adds वि before वराई, P वराती. 13 > P पभाया रयणीए, P भणितच्चो, J एस for एसो. 15 > P निवण्णा लंकेसु, P सुइरं for सुइरं. 17 > P रुहिराणुरंजियंणेण, P om. य, J य जुक्ख. 18 > P अरुणाणं. 19 > P सूरोअग्गेण, J -महिलेण, J उउ for उडु. 20 > J परिअएणं, P अप्पाणं. 21 > J तुहं for तुमं. 23 > P om. च, P - वलीयुव्वेळमाण, J लयुक्खेवो for पक्खेवो, P मुट्ठिओ for समुट्ठिओ. 24 > P जुवती. 25 > P पलंवंत, J -जुअला, P हरि for हार, J गया P गती for गई. 26 > P अवसप्पिज्जण, P धाती. 27 > P हितयं, J हिययं जीवच्चं ति, P repeats व, P ततो, P om. one आसणं. 28 > P तीए for त्ति, J भणंतीय, P अद्विषदिज्जण, J भणिअं तीय कुमार. 29 > P सहा भित्तो. 30 > P दातव्वा. 31 > J अत्थत्थ for सत्थत्थ, J अम्हारिसीओ जुवईसहावंचल, P -सहियय-, P वासत्थं for वीसत्थं, P समाहरंति. 32 > J खमेज्जसु जं भणिअं ।

1 § २६२) अर्थि इमा चैव पुरवरी तुमए वि विट्ट-बिहवा विजया गाम, इमाए चैव पुरवरीए विजयसेणो गाम राया ।
 इमा चैव तस्स भारिया रूपेण अवहसिय-पुरंदर-चरिणी-सत्या भाणुमई गाम । सा य महादेवी, ण य तीए कर्हि पि किञ्चि
 3 पुत्त-भंडं उयरीहोइ । तओ सा कथ देवा, कथ दाणवा, कथ देवीओ, कथ मंताइं, कथ वा मंडलाइं, सब्वा बज्जंति 8
 रक्खाओ, कीरंति बलीउ, लिह्जंति मंडलाइ, पिज्जंति मूलियाओ, मेलिज्जंति तंताइं, आराहिज्जंति देवीओ । एवं च कीरमाणेसु
 बहुएसु तंत-मंतोवाइय-सएसु कहं-कहं पि उयरीभूयं किं पि भूयं । तओ तप्पभूईं च पड्डवालियं बहुएहिं मणोरह-सय-
 6 सएहिं जाव विट्टं सुमिणं किर पेच्छइ वियसमाणाभिणव-कंदोह-मयरंद-बिंदु-णीसंद-गंध-लुह-भमर-रिंछोलि-रेहिरा कुवल्य- 6
 माला उच्छंणे । तओ विबुद्धा देवी भाणुमई । तओ णिवेइए राहणा भणियं 'तुह देवि, तेलोक-सुंदरी धूया भविस्सइ'
 9 त्ति । तओ 'जं होउ तं होउ' त्ति पड्डिण्णे वचंतेसु वियहेसु पड्डिपुण्णे गम्भ-समए जाया मरगय-मणि-बाउल्लिया इव
 9 सामलच्छाया बालिया । तओ तीए पुत्त-जम्माओ वि अहियं कयाइं वद्धावणयाइं । एवं च णिवत्ते बारह-दियसिए णामं से 9
 णिरुवियं गुरु-जणेणं, कुवल्यमाला सुमिणे विट्टा तेण से कुवल्यमाल त्ति णामं पइट्ठियं । सा य मए सब्ब-कजेसु
 परिवड्डिया । तओ थोएसुं चैव वियहेसु जोव्वणं पत्ता । तओ इच्छंताणं पि पिऊणं वरं वरंताणं पि णेय इच्छइ,
 12 पुरिसहेसिणी जाया । तओ मए बहुप्पयारेहिं पुरिस-रुत्त-जोव्वण-विलास-विण्णण-पोरुस-वण्णेहिं उव्वलोभिया जाव 12
 थोव्वत्थोवं पि ण से मणं पुरिसेसु उप्पज्जइ त्ति । तओ विसण्णे राया माया मंतियणो य कहं पुण एसो बुत्तंते होहिइ
 त्ति । एरिसे अवसरे साहियं पड्डिहारेण 'देव, एरिसो को वि विज्जाहर-समणो दिव्व-णाणी उज्जाणे समागओ, सो
 15 भगवं सब्बं धम्माधम्मं कज्जाकज्जं वच्चावच्चं पेयापेयं सुंदरासुंदरं सब्बाणं साहइ त्ति, तीतागागत-भूत-भव्व-भविस्स-वियाणो 15
 य सुव्वइ, सोउं देवो पमाणं'ति । तओ राहणा भणियं 'जइ सो एरिसो महाणुभाओ तओ पेच्छियव्वो भम्हेहिं । पयइ,
 वच्चाओ तं चैव उज्जाणं'ति भणमाणो समुट्ठिओ आसणाओ । तओ कुवल्यमालाए वि विण्णत्तं 'ताय, तए समयं अहं पि
 18 वच्चामि' । राहणा भणियं 'पुत्त, वच्चसु' त्ति भणमाणो गंतुं पयत्तो । वारुया-करिणिं समारुड्डिउग संपत्ता य तमुज्जाणं । 18
 विट्टो य सो मुणिवरो, राहणा कओ से पणामो, आसीसिओ य तेण, गित्पणो पुरओ से राया ।

§ २६३) तओ सो भगवं साहिउं पयत्तो । भणियं च णेण ।

21 लोयम्मि दोणिण लोया इह-लोओ चैव होइ पर-लोओ । परलोगो हु परोक्खो इह-लोओ होइ पच्चक्खो ॥ 21
 जो खाइ जाइ भुंजइ णच्चइ परिसक्कए जहिच्छाए । सो होइ इमो लोओ परलोगो होइ मरिऊण ॥
 लोयम्मि होति अण्णे तिणिण पयत्था सुहासुहा मज्ज । हेओयादय-उवेक्खणीय-गामेहिं णायव्वा ॥
 24 ता इह-लोए हेया विस-कंठय-सत्थ-सप्पमादीया । एयाइं होति लोए दुक्ख-णिमित्तं मणुस्साणं ॥ 24
 कुसुमाइं चंदणं अंगाण य दव्वा वि होति आदेज्जं । जेण इमे सुह-हेऊ पच्चक्खं चैव पुरिसाणं ॥
 अवरं उवेक्खणीयं तण-पव्वय-कुहिणि-सक्करादीयं । तेण सुहं ण य दुक्खं ण य चयणं तस्स गहणं वा ॥
 27 ता जह एयं तिविहं इह-लोए होइ पंथिय-जणस्स । तह जाणसु पर-लोए तिविहं चिय होइ सब्बं पि ॥ 27
 पाणिवहालिय-वयणं अदिण्ण-दाणं च मेहुणं चैव । कोहो माणो माया लोहं च हवंति हेयाइं ॥
 एयाइं दुक्ख-मूलं इमाइं जीवस्स सज्ज-भूयाइं । तम्हा कण्हाहिं पिव इमाइं वूरं परिहरासु ॥
 30 गेण्हसु सक्कमहिंसा-तव-संजम-बंध-णाण-सम्मत्तं । अज्जव-मइव-भावो खंती धम्मो य आदेया ॥ 30
 एयाइं सुहं लोए सुहस्स मूलाइं होति एयाइं । तम्हा गेण्हह सब्बायरेण अमयं व एयाइं ॥
 सुह-दुक्ख-जर-भगंदर-सिरवेण-वाहि-खाल-सोसाइं । कम्मवसोवसमाइं तम्हा चिक्खाइं एयाइं ॥
 33 तो एयं णाऊणं आदये कुणह आदरं तुब्भे । हेयं परिहर वूरे उवेक्खणीयं उवेक्खेहि ॥' 33

1) J चेअ, P adds पुरव before पुरवरी, J चैव. 2) P मज्जा for भारिया, P भाणुमती, J तीए for तीए, P om. पि, P चि for किञ्चि. 3) P उयरीहोति 1, P मंतीइ, P मंगलाइं for मंडलाइं in both places. 4) P कीरंति, J adds मूल before मूलियाओ. 5) J उयरीहोअं P उयरीभूयं, P तप्पभूयं, J मणोरहसय, P भनसएहि. 6) P ताव for जाव, P मयारंद-विंदनीसंद. 7) P भाणुमती, P धूया हविस्सइ. 8) P ज होउ for जं होउ तं होउ, J om. त्ति, P adds गम्भसमये before वचंतेसु, P om. पड्डिपुण्णे गम्भसमए, J पाउल्लिया P पुत्तलिया for बाउल्लिया. 9) J तीय for तीए, P adds च after कयाइं, P णिवत्ति बारसमे दिवसे णामं. 10) J गुरुजणेणं, P कुवल्यमाला णामं. 11) P वड्डिया, J चेअ P चिय, P जोव्वणं संपत्ता, P च for पि before पिऊणं, P om. पि, P इच्छति पुरिसहेसिणी. 12) P adds रस before रुत्त, J विलासलो, P विण्णेहिं उव्वलोभिया जाव थोवं पि. 13) P मंतिया for मंतियणो, P होहिति. 14) P अवसरि. 15) P सोइति for साहइ, P तीतागागत, P भवियरस. 16) P adds त्ति after सुव्वइ, P पेच्छित्तव्वो. 17) P om. ति, J माला विय विण्णत्तं, P समं for समयं. 18) P वच्चाओ, J भणमाणो गंतुं पयत्ता, P तारुअं for वारुया, J तं उज्जाणं. 19) P om. सो, P om. य. P inter. से & पुरओ. 20) P सोहिउं for साहिउं. 21) P inter. होइ & चैव, J परलोओ उ परोक्खो. 22) P खाति भुंजति णच्चति, J परलोओ. 23) J लोयम्मि, P होति, J हेओआदयउवेक्खं, P हेऊआदयउवेक्खणे अणालोमेहि. 24) P कंठय, P सप्पमाईय 1, P बुक्का for दुक्ख. 25) J दव्वादि होइ, P आएज्जं, J सुहहेउं P साहेऊ. 26) P वच्चं य for पव्वय, P चरणं for चयणं. 27) P होति सच्चं. 28) J एयाइं P हेताइं. 29) J सत्थभूताइं, P वूरेण परिहरसु. 30) P एयाइं for आदेया. 31) J एताइं in all places, J सहस्स for सुहस्स. 32) P om. the verse सुहदुक्ख etc., J सोसाती, J एताइं. 33) P एते for एयं, J उव्वेहि, P उवेक्खेहि.

- 1 § २६४) एवं च भणिए भगवया तेण मुणिणा सखेहिं चयेण णरणाहप्पमुहेहिं भणियं 'भगवं, एवं एयं, ण एत्थ 1
संदेहो' ति । एत्थतरम्मि णरवइणा पुच्छियं 'भगवं, मम धूया इमा कुवलयमाला, एसा य पुरिसहेसिणी कुल-ख्व-विहव-
8 विण्णाण-सत्त-संपण्णे वि रायउत्ते वरिजंते णेच्छइ । ता कइं पुण एसा परिणेष्वा, केण वा कम्मि वा कालंतरम्मि' ति 3
पुच्छिए णरवइणा, भणियं च भगवया मुणिवरेण । अत्थि कोसंबी णाम णयरी । तत्थ य तम्मि काले पुरंदरयदत्तो णाम
राया, वासवो य मंती । तत्थ ताणं उज्जाणे समवसरिओ सीस-णण-परियारो धम्मणंदणो णाम आयरिओ । तस्स पुरओ सुणें-
6 ताणं ताणं धम्म-कहं कोह-माण-माया-लोह-मोहावराह-परइ-माणसा पंच जणा, तं जहा, खंडसोमो माणभडो मायाइष्ओ लोह- 6
देवो मोहवत्तो ति । ते य पव्वजं काऊण तव-संजम-सणाहा, पुणो कमेण कय-जिणधम्म-संबोहि-संकेया आराहिऊण मरिऊण
कथ उववण्णा । अवि य । अत्थि सोहम्मं णाम कप्पं । तत्थ य पउमं णाम विमाणं । तत्थ वि पउम सणागा पंच वि जणा उववण्णा-
9 तहिं पि जिणिंद-वयण-पडिबुद्ध-सम्मत्त-लंभ-मुदय-पावण-परा संकेयं काऊण एत्थ चयेण भरहे मज्झिम-खंडे उपपण्णा । एत्थो वणिय । 9
उत्तो, अवरो रायउत्तो, अवरो सीहो ति । अवरा वि एसा कुवलयमाल ति । तत्थ ताणं मज्झाओ एकेण एसा परिणेष्वा ।
धम्मं च पावेयव्वं ति । भणियं च णरवइणा 'भगवं, कइं पुण सो इहं पावेहिइ, कइं वा एत्थ अम्हेहिं णाइयव्वो' ति ।
12 भगवया भणियं 'सम्हारिय-पुव्व-जम्म-वुत्ततो कायव्व-संकेय-विण्ण-माणसो इमाए चयेण पडिबोहण-हेउं इहं वा पावीहइ 12
ति, तं च जाणसु । सो चयेण इमं तुह उम्मसं तोडिय-बंधणं जयकुंजरं रायंगणे गेण्हिइ, पुणो कुवलयमाला-अंबियं पाययं
भिदिहिइ, सो चयेण जाणसु इमं परिणेहिइ, ण अणणह' ति भणंतो समुप्पइओ मुणी । तओ कुमार, उपपइयम्मि
15 तम्मि मुणिवरे आगओ राया पुरवरिं । इमा कुवलयमाला तप्पभूइं चयेण किं-किं पि हियएण चित्तयंती अणुदिणं सूसिउं 15
पयत्ता । ता इमाए एस पुव्व-जम्म-सरण-पिसुणो एस पायओ लंबिओ । अवि य 'पंच वि पउमे विमाणम्मि' । इमो य ण
केण वि भिदिउं पारिओ ताव जाव एस जयकुंजर-संभम-कलयलो । तओ पुच्छिए राइणा भणियं 'पुत्ति कुवलयमाले,
18 पेच्छ तं अत्तणो वरं, [जो] एत्थ इमं जयकुंजरं गेण्हिइ, सो तं पादयं पूरेहिइ । इमं मुणिणा तेण आइहं' ति । ता 18
पेच्छामु णं को पुण इमं गेण्हइ' ति अणमाणो णरवइं समाखुओ पासाद-सिहरं, कुवलयमाला य । अहं पि तीए चयेण
पास-परिवत्तिणी तम्मि समाए । तओ कुमार, तए अफ्फालण-खलण-चलणाहिं णिप्फुरीकए जयकुंजरे सीह-किसोरएण
21 व लंघिए पूरिओ सो पादओ । इओ य पूरिओ पायओ ति दिण्णा वरमाला । इमिणा ओघुट्टिए दढवम्म-पुत्तो ति तुह णामे 21
उव्वुओ पहरिसो राइणा । कुवलयमाला उण तुमए दिट्ठम्मि किं एस देवो, किं विजाहरो, अह सिद्धो, उओ कामदेवो, किं वा
चक्कटी, किं वा माणसो ति । पुणो वेपंते य जयकुंजरे, केरिसा जाया । अवि य ।
24 वलइ वलंतेण समं खलइ खलंतम्मि णिवडइ पडंते । उट्ठाइ उल्लंते वेवइ दंतेसु आरुडे ॥ 24
§ २६५) जइया पुण कुंजराखुओ संमुहं संठिओ तइया किं चित्तिउं पयत्ता । अवि य ।
आयंबिर-दीहर-पम्हलाई धवलाई कुसुम-सरिसाहं । णयणाहं इमस्स वणे णिवडेजंगेसु किं मज्झं ॥
27 विहुम-पवाल-सरिसं रुहरं लायण-वत्ति-सच्छायं । अहरं इमस्स मण्णे पाविजइ अम्ह अहरेण ॥ 27
पिहु-पीण-ललिय-सोहं सुर-करि-दंतग-मूरण-समत्थं । वच्छयलं किं मण्णे पाविजइ मज्झ धणएहिं ॥
दीहे उण्णय-सिहरे दरिय-रिऊ-काल-दंड-सारिच्छे । एयस्स बाहु-डंडे पावेज व अम्ह अंगाहं ॥
30 मासल-पिहुलं रुहरं सुरय-रसासाय-कलस-सारिच्छे । एयस्स कडियलं णे पावेज व अम्ह सयणम्मि ॥ 30
पूरेज एस पादं देज व अहयं इमस्स वरमालं । इच्छेज व एस जुवा होजमह मणोरहा एए ॥
होज इमस्स पणइणी कुप्पेज व णाम अलिय-कोवेण । कुवियं च पसाएजा अहवा कत्तो इमं मज्झं ॥

1) P om. च, P भणिया, P ते मुणिणो, P नरनारिण्यं, P एतं for एयं 2) P नरवइया, J om. इमा, P 'देसिणी. 3) P संपत्त for संपण्णे, P णेच्छति ।, P om. कहं, P adds कहि after एसा. 4) P तं for च, J सयले for काले, P पुरंदत्तो. 5) P om ताणं. 6) P transposes लोह after कोह, P मोहोवराहपरइ, J लोहभडो. 7) P मोहदत्ता, J कथा, P जिणधम्मं, P मरिऊण. 8) P सोधंम, P om. य, P य for वि after तत्थ. 9) P adds धम्म before जिणिंद, J सम्मत्तलंभभूतयं, P लंभुदयं, P उववणा for उपपण्णा, J वणिअपुत्तो. 10) J om. अवरा वि एसा कुवलयमाल ति ।, P एणेण. 11) J भगवं पुण को इहं पावेहिइ ।, P इह पाविहिइ । भगवया भणियं संभावियपुव्वजुंम- 12) P कायव्वो, P पडिबोहणाहेउं इमं पाविहिइति. 13) P जो for सो, खुहिय for तोडिय, J गेण्हिइति P गेण्हिइति, J पातयं. 14) J भिदिहिइति P भिदिहिइति, J चैव, J परिणेहिइति P परिणेहिइ ति, P अणणहि. 15) P om तम्मि, P चैव, P सुसिउं. 16) P इमा एस, J पातओ, P om. वि पउमे. 17) J केणइ भिदिउं, P भिदिओ, P पारओ, P पुच्छिओ, J पुच्छिए for पुत्ति, P कुवलयमालो पेच्छं. 18) P जयकुंजरो गेण्हइ ति, J गेण्हिइति, P पाययं पूरेहिइति, J पूरेहिइति, J om. तेण, P ता पुच्छामु. 19) P णरवती, P पासायं, P वि for य. 20) J पाद for पास, P om. तए, P णिप्फुरीकए. 21) P पुरओ सो पायओ, J पातओ ति ।, J P ओघट्टिए दढवम्म- 22) J adds तम्मि after दिट्ठम्मि, J उत्तो, P तओ for उओ. 23) J य कुंजरे, P य जकुंजरे, J om. जाया. 24) P खलति, J उट्ठाइ, P आरुडो. 25) J तउआ. 26) P अयंबिर for आयंबिर, P पंमलाई, P पुणो for वणे. 27) P पलस for पवाल, P लाइण- 28) P पिहुणललिय- 29) J दीओ for दीहे, J रिऊ, P सारिच्छे, P बाहुदंडे. 30) P मंसलं, J कडिअलणे, P कहि अत्रे पावेजइ अम्ह. 31) P पायं for पादं, J जुवा, P एस जवा हो जम्ह, P एते. 32) P कोवेण, P कत्ता.

- 1 इमं च चित्तयंतीए पूरिओ पायओ । तं च सोऊण हरिस-वस-समूयसंत-रोमं-कंचुय-रेहिरंगाए दिण्णा तुहं वरमाला, तओ 1
अवलंबिया तुह खंधराभोए । तं च दट्टण कुमार, तए पेसिया धवल-विलोल-लोला चलमाणा पग्गला दिट्ठी । तीय य दिट्ठीय
- 3 पुलइया केरिसा जाया । अवि य, वियेसिया इव कमलिणी, कुसुमिया इव कुंदल्या, विहडिया इव मंजरी, मत्ता इव करि- 3
णिया, सित्ता इव वेहिया, पीयामय-रसा इव भुयंगिया, गय-वणा इव चंदलेहिया, सुरय-ऊसुया इव हंसिया, मिलिया
इव चक्रिय ति । सव्वहा
- 6 अमएण व सा सित्ता पक्खित्ता सुह-समुह-मज्जे व्व । अप्पाणं पुण मण्णइ सोहग्ग-मयं व गिम्मवियं ॥ 6
एरिसे य अक्सरे तुमं राइणा भणिओ जहा 'समपिय कुंजरवरं आरुह इमं पासायं' ति । तओ तुह दंसणासायणा-सज्जस-
सेउळण-कुतूहलाऊरमाण-हिययाए समागओ तुमं । पिउणा य भणियं 'वच्छे, वच्च अंतैउरं' ति । तओ मंताहया इव भुयं-
9 गिया अकुसायद्विया इव करिणिया उम्मूलिया इव वणलया उम्बुडिया इव मंजरी दीण-विमणा कहं-कहं पि अलंबणीय-वयणो 9
ताओ ति अलसायंती समुट्टिया, गया आवासं सरिर-मेसेणं ण उण हियएणं । अवि य,
दुल्लह-लंभं मोत्तूण पिययमं कथ वच्चसि अणजे । कुविएण व पम्मुक्का गियएण वि णाम हियएण ॥
- 12 अचरोप्पर-लोयण-वाणिएहिं कलियम्मि सुरय-भंडम्मि । हिययं रयण-सहगधं संचकारं व से दिण्णं ॥ 12
§ २६६) तओ एवं च कुमार, तम्मि संपत्ता गियय-मंदिरम्मि, तत्थ गुरु-सज्जस-गियं-ब-भरुवहण-खेय-णीसहा
गिस्सणा पलंके संवाहिदं पयत्ता । तओ समासथा किं-किं पि चिंताभर-मंधरा इव लक्खिया मए । तओ भणिया 'पुत्ति
15 कुवल्यमाले, किं पुण इमं हरिसट्ठाणे डियप्पा चिंताए दिण्णो, किं तुह ण पूरिओ पायओ, किं वा ण पडिच्छिया वरमाला, 15
आओ विहडियं मुणिवर-वयणं, किं वा णाभिरुइओ हिययस्स, किं वा ण सत्तमंतो सो जुवाणो, किं वा ण पुलइया तेणं,
किं वा तुह हियय-उव्वेयं ति । ता पुत्ति, फुडं साहिज्जउ जेण से उवाओ कीरइ' ति संलत्ते भणियं तीए 'माए, ण इमाणं एहं
18 पि । किं पुण 18
वम्मह-पडिबिब-समो सुर-जुवईणं पि पत्थणिजो सो । इच्छेज्ज ममं दासिं ण व ति चिंता महं हियए ॥'
इमम्मि य भणिए, अम्हेहिं भणियं 'ओ माए, किं एयं अलियमलियं असंबद्धं उल्लवीयइ । कीस तुमं सो ण इच्छइ ।
21 किं तेण ण लंघिओ सो जयकुंजरो, किं वा ण पूरिओ पायओ, किं ण पेसिया तुह दिट्ठी, किं ण पडिच्छिया वरमाला, किं 21
ण जाओ से अंगम्मि पुलउग्गमो, किं ण मणिओ तेण य गुरु ति महाराया, किं ण साहिओ मुणिणा । सव्वहा मा एवं
वियप्पेसु, जेण तुमं दिट्ठा अत्थि सो ण अण्णत्थ अभिरमइ ति । अवि य ।
- 24 मा जूरसु पुत्ति चिरं दट्टण तुमं ण जाइ अण्णत्थ । तं चिय ठाणं एहिइ माणस-हंसो व्व भमिउगं ॥' 24
तओ एवं पि भणिए ण सहहायइ अइपियं ति काऊण । अवि य ।
जं होइ दुल्लहं वल्लहं च लोयस्स कह वि भुयणम्मि । तं कपिय-दोसुक्केर-दुग्गमं केण सहहियं ॥
- 27 तओ अम्हेहिं भणिया 'वच्छे कुवल्यमाले, जइ तुमं ण पत्तियसि ता कीरउ तस्स जुवाणस्स परिक्खा । तओ तीए भणियं 27
'अत्ता, किं च कीरउ तस्स' । मए भणियं 'पेसिजउ दूई सिरिमालं अण्णं वा किंचि घेत्तूण तओ तस्स भाओ जेण घेप्पइ'
त्ति । तओ तीए कहं-कहं पि लज्जा-भर-मंधराए सेउल्ल-वेविर-करयलाए कपिया सा रायहंसिया । पुणो तीय उवरी लिहियं
30 कहं-कहं पि दुवइ-खंडलयं । अवि य । 30
अह तस्स इमो लेहो अणुरायच्छलिय-सेय-सलिलेणं । ञ्हिओ वि उप्पुसिजइ वेविर-कर-लेहणि-गएण ॥
एवं पेसिया तुह भाव-गहणत्वं दूई ।

1 > J पूरिओ य पातओ, P कंचुउरेहिं, J उ (or ओ) for तओ. 2 > खंधराए, P लोडवलमाण, P दिट्ठीये for दिट्ठी, P om.
तीय य दिट्ठीय. 3 > P कुंदल्या, J विहरिया, P करणिया. 4 > P इव वलिया, J रा for रसा, J मुरयूसुआ. 6 > P ओ for व्व, P
सोहग्गवियं विणि. 7 > P समपियऊण, P आरुहइ, P तुज्ज for तुह, J दंसणायामणा सज्जस P दंसणासामज्जस. 8 > P कुतूहरमाण,
P वि for य, P repeats वच्छे. 9 > J 'यड्ढिआ P 'डिड्ढिया, P adds उम्मूलि before उम्मूलिया, P कहं कहम्मि J -वयणा.
11 > P दुल्लभ, P कुविएण विप्पमुक्का, J णाइ for णाम. 13 > J इमं for एवं, J पत्थ for तत्थ, P सज्जस. 14 > P
संवाहिऊण, J adds च before पयत्ता, P किंचि किंचि. 15 > P हरिसिद्धाणे विअप्पा, J पातओ, P किं पाण पडिच्छिया. 16 > P
सत्तमंतो, P om. सो, P adds ति after तेणं. 17 > P repeats तुह, P उव्वेयं, P संलत्तं, J तीअ. 19 > P वमह, J
परिविब, P जुवतीणं, P om. सो, P ण व च्ठी. 20 > J ए for एयं, J 'मल्लिअम्मं', J उल्लवीयति, J inter. ण & सो. 21 > J
पातओ, J किण्णा पेसिया. 22 > J ए for य. 24 > P तुमं for चिरं, J एहिइ P एहिंत्त समुदकाउव्व भणिऊणं. 25 > P
भणियए ण सहहायइ अइपियंति, J अपियं. 26 > P भुयंगमि, P किंचिअ for कपिय. 27 > P भणियं, J पत्तिययीसि (?) P
पत्तिआसि, P कीरओ, J तीय. 28 > P पेसिजओ दूती. 29 > P om. ति, P ततो, J तीय, P करयलाए, J उवरे, 30 > P om.
one कहं, J दुइय for दुवइ. 31 > P इमो लेहो अणुरायच्छलिय, J अणुरायच्छलिअ, P वि ओप्फसिजइ, P विवेर for वेविर, P
करलेहिणगएण. 32 > P दूती.

1 § २६७) ताव य समागमो महाराय-सगासाओ कंचुइ । तेण य भणियं जहा कुवलयमालाए 'गणियं गणएणं अज्ज 1
वि वीसत्थं विवाह-उग्ग-जोगो' ति । तं च सोऊण विसण्ण-मणा संजुत्ता कुवलयमाला, हंसिय च्व वज्जासणि-पहया कुलवहु 1
३ च्व गोत्त-खल्लणेण वूमिया जाया । तओ अग्गेहि च्चिं जाणित्ठण भणिया 'वच्छे, मा एवं वियप्पेसु । गिसुणेसु ताव तस्स 3
जुवाणस्स अञ्चंताणुराय-स्ययं कं पि वयणं । तओ जं तुज्जाभिरुद्धयं तं करीहामि' ति भणमाणीहि कंहं-कंहं पि संधारिया ।
एत्थंतरम्मि समागया सा वूई तुह सयासाओ दीण-विमणा किं-किं पि चिंतयंती । तओ ससंभमाहिं पुच्छिया अग्गेहिं 6
६ 'किं कुसलं कुमारस्स' । तीए भणियं 'कुसलं, किं पुण कोइ ण दिण्णो पडिसंदेसो, केवलं भणियं, जहो कला-कुसलत्तणं 6
कुवलयमालाए' ति । इमं च सोऊण तओ हया इव महादुक्खेण, पहया इव महामोह-भोग्गरेणं, विलुद्धा इव चिरहग्गि-
जालावलीहिं, ओवग्गिया इव महावसण-सीहेणं, गिलिया इव महामयरदय-मगरेणं, अक्खता इव महारिंता-पक्खएणं,
९ गहिया इव महाकयंत-वग्गेणं, गसिया इव महाविग्ग-रक्खसेणं, उल्लुरिया इव महाकयंत-करिवर-करेहिं, सम्बहा किं वा 9
भण्णउ कुमार, पक्खमाणं पिव महाणरए, वज्जमाणं पिव वडवाणलेण, हीरमाणं पिव पलयाणलेण, बुज्जमाणं पिव जुयंताणिलेणं,
णिम्मज्जंतं पिव महामोह-पयलेणं, उक्खत्तिजंतं पिव महाजम-करवत्तेणं अत्ताणं अभिमण्णइ । तओ तं च तारिसं वट्ठेणं तं
12 कुवलयमालं मालं पिव पक्खायमाणं 'हा, किं पेयं जयं' ति भणमाणीहि गहिया उच्छंणए, भणिया य । 'पुत्ति कुवलयमाले' 12
किं तुह बाहइ' ति पुणो पुणो भण्णमाणाए 'हुं' पडिवयणं । तओ कुमार, एवं च पेच्छमाणेणं अक्खत्तं सुहं दुक्खेणं, विणिजिया
रई अरईए, भल्लिया मई अमईए, पडिहयं विण्णणं अण्णणेणं, अवहरियं लायणं अलायणणेणं, वसीकयं सुंदरत्तणं अ सुंदर-
15 त्तेणं, सम्बहा कलि-काले च्व तीय सरीरे सत्थं विवरीयं जायं । उम्हायइ चंदण-पंकओ, धूमायइ कुसुम-उक्केरओ, जलइ च 15
हारओ, डहइ व णलिणी-पवणओ, दीवेंति व काम-जलणयं पुणो पुणो मुणाल-णाल-वलय-हारयाइं, पुणो पुणो पज्जलंतीव
बउल्लेला-लयाहरयाइं ति । केवलं कुमार, णीससइ व णीसासओ, उससइ व उसासओ, दुक्खाइजइ दुक्खयं, उक्खं पिज्जइ
18 उक्खं पओ, सेयाइजइ सेयओ, पुलइजइ रोमं चओ, मोहिजइ मोहओ वि । किं वा कुमार, बहुणा जंपिणं । 18

हिययअभंतर-तुह-विरह-जलण-जालावली-तविजंतं । णीहरइ य चिरहुव्वत्त-त्त-सलिलं व से बाहो ॥
विरहग्गि-हित्य-पत्थिय-पय-चंपियं व हिययाओ तीय तूरंतं । दीहर-णीसास-पयाणएहिं जीयं व णिकखमइ ॥
21 मयलंछण-कर-गारे उज्जइ वण-वट्ठिए ति चिंतंती । तुहिण-कण-फंस-सिसिरे चंदण-हारे मुणालं व ॥ 21
णिय-दुक्ख-दुक्खयं सा सवम्महं सहियणं पि कुणमाणी । अणलक्खियक्खरं महुयारि च्व दियइं रणुरणेइ ॥
पुलइजइ हसइ खणं तसइ पुणो दीहरं च णीससइ । तुह-संगम-विमुहासा सा सामा सुहय सूसंती ॥
24 श्राऊण किं पि हूं हूं ति जंपिरी सहरिसं समुट्टेइ । लजावणामिय-मुही मुच्छा-विरमे पुणो खइ ॥ 24
इय जीवियं पि वच्चइ सीसइ तुह हो फुडं तह करेसु । जह सा वि जिबइ पयं च जणवए होइ दक्खिणं ॥

§ २६८) भणियं च महिंदेण 'इमम्मि य एवं ववत्थिए, साहइ किं कीरउ' ति । तीए भणियं 'इमं कज्जं, एवं
27 संदियं, तीए उण दसमी कामावत्था संपयं पावइ । जेण 27

विरह-भुयंगम-डक्का अइरा य विसोयलंत-विहलंमी । आसासिजइ मुद्धा सुहय तुहं गोच-मंतेण ॥
संपयं पुण तीय ण-याणामि किं वट्टइ' ति । आसंकिर्यं हियएण भणियं च कुमारेण 'तह वि तुमं आउच्छणीया, किं तत्थ
30 करणीयं संपयं' ति । तीए भणियं । 'कुमार, जह ममं पुच्छसि ता अहं कंतो सओवावाणं अवसरो । एत्थियं पुण जइ तुब्भे 30
राहणे भवणुजाणं वच्चइ, तओ अहं कुवलयमालं कंहं-कंहं पि केणावि वा मोहेणं गुरुयणस्स महिल्लयाणं च तम्मि उज्जाणे
णेमि । तत्थ जहा-जुत्तं देसण-विणोइय-मयण-महाजर-विषणा होहिइ बालिय' ति । तओ महिंदेण भणियं । 'को दोसो,

1 > P om. महारायसगासाओ. 2 > J विवाहगहल्लग्गजोओ, J विमणमणा, P विमणमण्णा संजुत्ता, J हंसि च्व. 3 > J च्वल्लणेण, P खल्लणदूसिया. 4 > P जुवाणयस्स, J तो जं तुज्जभिरुद्धयं, P करिहिसि, J संधारिया P संधारया. 5 > P दूती, J ततो ससंभया ठियं पुच्छियं. 6 > J तीय P तय, J तुह for पुण, J om. ण, P adds न after दिण्णो, J adds न दिण्णो (on the margin) before केवलं. 7 > P मं for इमं, P पिलुद्धा for विलुद्धा. 8 > J ओवग्गिया, P मयरेण, P inter. च्चिता and महा. 9 > P इव हिं महावियपरक्खसेणं. 10 > P पलयाणले बुज्जमाणं, J om. बुज्जमाणं पिव etc. to महामोहपयलेणं. 11 > P adds णिम्मज्जंतं पिव जुअंताणिलेणं before णिम्मज्जंतं, P महाजमकरवत्तेणं. 12 > P om. मालं पिव, P कुवलयमालं दक्खायमालं पिव माये हा, P उच्छंणे, P om. य. 13 > J पुणो भिण्णपमाणाए, P हुं. 14 > P रती अरतीए, P मती अमतीए, P पडिहअं अत्राणं विज्जाणेणं. 15 > J अग्गेहिं P उग्गेहिं. 16 > P हारो, J य for व after दीवेंति, P कामजलणया, P om. पुणो पुणो मुणालणालावलयहारयाइं, J om. पुणो पुणो पज्जलंती व लयाहरयाइं. 17 > P कुमारी ससइ, P दुक्खाइजइ, P दुक्खयं चक्खं पिज्जंति. 18 > P सेताइजइ, P om. सेयओ पुलइजइ, P om. वि, P बहुणो. 19 > P विज्जंतं for तविज्जंतं, P om. तत्त, J सलिलणिवहो च्व से बाहो. 20 > P इत्थिय for हिय, J पयविअ for पयचंपियं व, P चंपयं व हीयआउ, J दूरंतं for तूरंतं, P णिकखमइ. 21 > P पिवट्टिए, J वट्ठिए, for वट्टिए, P मुणाल च्व ॥. 22 > P व for पि, P दियइ रणुति ॥. 23 > P पुलआयर हसयखणं, P दीहरं समुससइ, P om. सामा. 24 > P सोऊण for श्राऊण, P हुं हुं, P समुट्टेइ, P रत्तइ. 25 > P वमुव्वइ for वच्चइ, P जिणुहो for च जणवए. 26 > P om. य, J om. एवं. 27 > P कामावत्थी, J adds ण before संपयं. 28 > P om. य, J वसोअलंतं P विसोतलंतं, J अदा for मुद्धा, J गोममंतेहिं. 29 > J वट्टंति l. 30 > J तीय, P जती for जह, P ती for ता. 31 > P om. अहं, P कुवलयमाला, P गुरुजणस्स महिल्लयाणं. 32 > J विणोइअं P विणोइयं, P विणयणं for वियणा, J होहिति पाल्लिअ ति, P बालिया य ति.

- 1 एवं होड'ति भणिए समुट्टिया सा भोयवई, पडिगया आवासं । भणियं च महिंदेण 'कुमार, मए विण्णत्तं आसि जहा 1
कुवलयचंदो सकलंको इत्थि-वज्झए होहिइ, को अम्हाणं दरिहाणं पत्तियह'ति । कुमारेण भणियं 'अलं परिहासेणं, संपयं 3
3 किं कायध्वं अम्हेहि' । महिंदेण भणियं 'जं चेष मयरद्वय-महारायाहिराय-कुलदेवयाए जुण्ण-कोट्टणीए आणत्तं तं चेष 3
कीरउ, तम्मि चेष राइणो मंदिरुजागे गम्मउ'ति । कुमारेण भणियं 'किं कोइ ण होही सय-विरोहो, आसंका-ठाणं ण 3
संभावइस्सइ, ण होइइ कुल-लंछणं अणभिजाय त्ति, ण होइइ गणणा-विरुद्धं लोए, ण कायरो त्ति आसंका जणस्स होइइ'ति ।
6 महिंदेण भणियं 'अहो एरिसेणावि धीरत्तणेण विहिणा पुरिसो त्ति विणिम्मिओ' । कुमारेण भणियं 'किं तए मीरु त्ति अहं 6
संभाविओ' । महिंदेण भणियं 'ण, ण कोइ तं भीरु त्ति भणह' । कुमारेण भणियं 'अण्णं किं तए लवियं' । महिंदेण भणियं
'मए लवियं सत्त-ववसाय-रहिओ'ति । कुमारेण भणियं 'मा एवं भणह । अवि य ।
9 जइ पइसइ पायालं रन्निखजइ गय-चडाहिं गुडियाहिं । किं कुणउ मज्झ हत्थो कयगगायड्डणं तीय ॥ 9
अहवा सधं सधं, मीरु । कहं । जेण
एत्थि-मेत्ते भुयणे असुरासुर-णर-समूह-भरियम्मि । संते वि सत्त-सारे भणियं अयस्स बीहेमि ।'
12 महिंदेण भणियं 'अहो अइमुहो तुमं । को एत्थ अयसो, किं ण कारणेण परिसकइ जणवओ, किं कोउहलेण ण दीसइ 12
उज्जाणं, किं गिहोस-दंसणाउ ण होति कण्णाओ । किं ण होमि तीय सव्व-कारगेहिं अणुस्सो वरो, किं ण वरिओ तीए तुमं,
जेण एवं पि संदिए अयसो त्ति अलिय-वियप्पणाओ भावीयंति त्ति । ता दे गम्मउ त्ति' भणतेण पयत्तिओ कुमारो
15 महिंदेण । संपत्ता य तमुज्जाणं अणय-पायव-वल्ली-लया-संताण-संकुलं । जं च 15
चंदण-त्रंदण-मंदार-परिगयं देवदारु-रमणिजं । एला-लवंग-लवली-कयली-इएहिं संछण्णं ॥
चंपय-असोग-पुण्णाग-णाग-जवयाउलं च मज्झम्मि । सहयार-महुव-मंदार-परिगयं बउल-सोहिहं ॥
18 मल्लिय-जुहिय-कोरंटयाउलं कुंद-सत्तलि-सणाहं । वियइल-सुयण्ण-जाई-कुज्जय-अंकोल-परिगयं रम्मं ॥ 18
पूयय-फलिणी-खज्जूरि-परिगयं णालिएरि-पिंडीरं । णारंग-माउलिंगेहिं संकुलं णायवल्लीहिं ॥
§ २६९) तं च तारिसं उज्जाणं दिट्ठं रायउत्तेण । तओ तम्मि महुमास-मालइ-मयरंद-मत्ता महुयरा विय ते जुवाण
21 परिभमिउमादत्ता । पेच्छंति य मरगय-मणि-कोट्टिमाइ कुसुमिय-कुसुम-संकंत-पडिबिंब-रेहिराहं पोमराय-मणि-णियरक्खाणइ च । 21
कहिंवि सच्छ-सुद-फलिह-मयाइ संकंत-कयलीहरय-हरियाहं महाणील-रयण-सरिसाहं । तओ ताणि अण्णाणि य पेच्छमाणा
उवगया एकं अणय-णाय-वल्ली-लया-संछण्णं गुम्म-वण-गहणं । ताणं च मज्जे एकं अइकडिल-लवली-लयाहरयं । तं च दट्टण
24 'अहो, रमणीयं' ति भणमाणा तत्थेव परिभमिउं पयत्ता जाव सहस त्ति णिसुओ महुरो अन्वत्तो कल-कूविय-रवो । तओ महिंदेण 24
भणियं 'कुमार, कत्थेय रायहंसा जाणं एसो महुरो कल-कूविय-सहो' । कुमारेण भणियं 'किमेत्थ णत्थि दीहियाओ, ण संति
वावीओ, ण संभमंति कमलायरा, ण दीसंति गुंजालियाओ, ण वियरंति घर-हंसा, जेण एत्थ रायहंसाणं संभावो पुच्छीयइ
27 जाव य इमं एत्तिअं वियप्पंति ताव आसणीहूओ कलरवो । भणियं च महिंदेण 'कुमार, ण होइ एसो हंस-कोलाहलो,' 27
णेउर-सहो खु एसो । कुमारेण भणियं 'एवं एयं, जेण हंसाणं घरघर-महुरो सरो जायइ । इमो उण तार-महुरो, ता
णेउराणं इमो' ति भणमाणाणं संपत्ता णाइदूर-देसंतरम्मि । तओ महिंदेण भणियं 'जहा लक्खेमि तहा समागया सा तुह
30 मयण-महाजर-विण्णा-इरी मूलिया कुवलयमाला' । कुमारेण भणियं 'किं संभावेसि मह एत्तिए भागधेए' ति । महिंदेण 30
भणियं । 'धीरो होहि, अण्णं पि ते संभावइस्सं' ति भणमाणेहिं णियच्छियं बहल-लयाहरोयरंतरेण जाव दिट्ठा सा
कुवलयमाला सहीणं मज्जगया कल-हंसीण व रायहंसिया, तारयाणं पि व मियंकरेहिया, कुमुइणाण व कमलिणी, वणलयाण
33 व कप्पलया, मंजरीण व परियाय-मंजरी, अच्छराण व तिलोत्तिमा, जुवईण व मयरद्वय-दियय-दइया रइ' ति । तं च तारिसं 33

1 > P भोगवती, P om. च. 2 > J इत्थिवज्झए होहिति ता को, P अम्हा for अम्हाणं, J पत्तिआए. 4 > कोवि ण, J होइ, P om. ण. 5 > J संभावइस्सति P संभावस्सत्ति. P होही for होइइ, J जाणभिजाय त्ति, P होहिइ गणणेण विरुद्धं, P आसंका जं जस्स होहिय त्ति. 6 > P एरिसेण धीरं, P विणिम्मिओ. 7 > P णणु को तं, J om. तं, J अलं for अण्णं. 8 > P सत्तं, J एयं. 9 > P पयसइ, J उत्थो P हत्थि for हत्थो, P ती for तीय. 10 > P om. one सधं, J adds ति before मीरु, P भीरु. 11 > P त्तिय for एत्थि, P मेत्ते सुयणे मणुयसुरामूर, P om. णर. 12 > J क्काणणेण P कारणे, P om. किं, P adds किं before ण. 13 > P om. तीय, P तीय. 14 > P संतिए for संदिए, P writes अयसो thrice, J भाविअति त्ति, P गमउ, J भणितेण, P पयत्तिओ for पयत्तिओ. 15 > P संपती तमुं, P अणिय for अणय, P om. जं च. 16 > P -चंदणमदारपरिगयं, P संछिन्नं. 17 > J असोयपुण्णाणाय, P -जंजुयाउलं, P उव for महुव (emended), J बउल, P परिययं, P सोहिहं. 18 > P कोरंटियाउं, P विअइल्लुवण्णजातीकुज्जय, J -अगोछ, J परिगयिअं (P 'यं), P om. रम्मं. 19 > J पूअफलिणी. 20 > P रायउत्ते, J मासलपहइ for महुमास, J मत्ता, J तो for ते. 21 > P परिगयिउं, P पेच्छंति, J om. य, P om. च. 22 > P कहंवि. 23 > P एकं, J om. णाय, P गुम, P अइकुडिलयवल्ली. 24 > P तत्थेय, P सत्त for सहस त्ति, J अहुरो for महुरो, P अन्वत्तो, P रसो for रवो. 25 > J किं एत्थ. 26 > J दीसंति गुंजालियाओ, J विअलंति, J संभवो, J पुच्छीयति P पुच्छीअत्ति. 27 > J om. जाव य इमं, P आसणीहूओ, P adds ओ before कुमार. 28 > P णेउर, P घरेघरे for घरघर, P जायति. 29 > J णाइदूर, J om. तओ. 30 > P सम्मं भावेसि, P महा for मह, J भागधेए, P ति. 31 > J ए for ते, P adds संभावइ before संभावइस्सं, P om. णियच्छियं P लयाहरोयरंतरेण. 32 > J सहीण, P मज्जगया हंसीण, J व for पि व P om. मियंकरेहिया etc. to तं च तारिसं. 33 > P सियं for तारिसं.

1 दृष्ट्वा चित्तियं कुमारेण 'अहो, सखं जं लोए सुणीयइ किर थेरो पयावई । जइ थेरो ण होइ, ता कहं एरिसं जुवइं विणिम्म- 1
विऊण अण्णस्स उवणेइ ति । अहवा णहि णहि, ण होइ थेरो, जेण थेरस्स कत्तो एरिसं दिट्ठि-कम्मं णिव्वइइ ति । तं सब्बहा
3 अण्णं तं पुहइ-मंडलं जत्थ इमं पाय-जल-कोमलंगुलीयं चलण-पडिबिंधं इमाए संठियं'ति चित्तियंतस्स भणियं कुवलयमालाए । 3
अवि य ।

पेच्छेज्ज व तं पुरिसं अत्ता सो वा ममं गियच्छेज्ज । एत्तिय-मेत्तं अठ्ठभत्थिओ सि हय-देव्व दे कुणसु ॥

6 कथेत्थ सो जुवाणो अत्ता कवडेण वंत्थियाओ म्हा । सब्भाव-विण्ण-हिययाण तुम्ह किं जुज्जए एयं ॥ 6
§ २७०) इमं च सोऊण महिंदेण भणियं 'एसो को वि अण्णो इमाए पत्थिज्जइ जुवाणो' । कुमारेण भणियं 'अत्थि
पुहइए बहुए रूव-जोव्वण-सोहग-सालिणो पुरिसा' । महिंदेण भणियं 'अवस्सं सुहओ पत्थिज्जइ, जइ असुहओ वि पत्थिज्जइ
9 ता तुमं ममं व किं ण कोइ पत्थेइ'ति । तओ सहासं भणियं कुमारेण 'दे णिहुओ चिट्ठ, पेच्छामो किं एत्थ एयाओ कुणंति' । 9
भणियं च भोगवईए 'पुत्ति कुवलयमाले, मा जूरसु, भागओ सो एत्थ जुवाणो । जइ इमे संख-चककुस-सपवत्तकिए दीसंति
चलण-पडिबिंधए तहा जाणिमो भागओ' । 'इहं चेय मग्गामो'ति भणंतीओ पहाइयाओ सब्बाओ चेय दिसादिसं चेडीओ ।
12 ण य उवलद्धा ते, तओ साहियं ताहिं 'सामिणी, ण कोइ एत्थ काणगे लक्खिओ अग्गेहिं भमंतीहिं पि' । तओ भणियं 12
भोगवईए 'वच्च पुणो कयलीहरेसुं चंपय-वीहियासु लवली-वणेसु अण्णिसह जाव पाविओ'ति भणिए पुणो वि पहावियाओ
ताओ सब्बाओ विलासिणीओ । भोगवईए भणियं 'पुत्ति कुवलयमाले, अहं सयं चेव इमाए पय-पडइए वच्चामि, सयं
15 चेव उवलहीहामि, तुमए पुण एयमिं ठाणे अच्छियव्वं'ति भणमाणी सा वि णीहरिया भोगवई । चित्तियं च कुवलयमालाए 15
'अहो सब्बो एस कवडो, किर दुट्ठो सो जुवाणो, तेण इमं इमं च भणियं, दिण्णो संकेओ इममिं उज्जाणे । ता सब्बं
अलियं । ण एत्थ सो जुवाणो, ण य पय-पंतीओ, णेय अण्णं किंचि । सब्बहा कथ सो देवाण वि दुल्लओ जुवाणो मए पाविओ,
18 कालेण जाव ताओ ममं परिणावेहिइ ताव को जीवइ ति । ता संपयं चेय तहा करेमि जहा पुणो एरिसाणं दोहगगं ण 18
पावेमि गोयरे ति । देव्वं उवालहिय, वणदेवयाओ विण्णविय, तायं पणमिया, अंबं अभिवाइय, तं पुरिसं संभरिय, भगवंतं
मयणं विण्णवेमि जहा पुणो वि मह सो चेय दइओ दाववओ ति । पुणो लया-पासं वंथिऊण अत्ताणयं उव्वद्विय वावाइस्सं
21 ति । ता तं च इह महं ण संपज्जइ, संपयं सहीओ पावंति । तेण इममिं धण-तरुवर-लवल्लि-लयाहरंतरमिं पविसिय अत्ताणो 21
अत्थ-सिद्धिं करेमि'ति चालिया तं चेय लयाहरंतरं जत्थच्छए कुमारे । दिट्ठा य कुमारेण संयुहं चालिया । तमिं य समए कुमारे
लज्जिओ इव, भीओ इव, विलक्खो विव, जीविओ इव, मओ विव आसि । सब्बहा अणात्थिक्खणीयं कं पि अवत्थंतरं पाविओ,
24 दिट्ठो य तीए सो । तओ एकिय ति भीया, सो ति हरिसिया, सयमागय ति लज्जिया, एस मे वरिओ ति वीसत्था, कथ 24
एसो ति संकिया, एसो सुरूवो ति ससज्जसा, वियणे पाविय ति दिसा-पेसिय-तरल-तारया-विट्ठी । सब्बहा तं कं पि
ससज्जस-सेउकंप-दीण-पहरिस-रस-संकरं पाविया जं दिव्व-णाणीहिं पि मुणिवरेहिं दुक्खमुवलक्खिज्जइ ति । तमिं अवत्थंतरे
27 वट्टमाणी कुमारेण अवलंबिऊण साहसं, ववसिऊण ववसायं, धारिऊण धीरत्तणं, संभरिऊण कामसत्थोवएसं, ठविऊण पोष्ठत्तणं, 27
अवहत्थिऊण लज्जं, उच्चिऊण सज्जसं, सब्बहा सत्तमवलंबिऊणं भणियं । 'एहि सुंदरि, सागर्थं ते' भणमाणेण पसारि-
ओभय-बाहु-डंडेण अस्थलेसु गहिया । तओ कुवलयमालाय वि ससज्जस-सेउकंप-भयाणुराय-पहरिस-णिबभरं ईसि-अवलं
30 चलमाण-लोयण-कडच्छ-विच्छोइ-रेहिरं भणियं 'मुंच मुंच, ण कज्जं सब्बहा इमिणा जणेणं लोगस्स' । कुमारेण भणियं । 30

'पसियसु मा कुप्प महं को वा तुह मंतुयं कुणइ मुद्धे ।'

तीए भणियं ।

33 'पडिबियणं पि ण विण्णं भण किं मह मंतुयं थोयं' ॥

33

1 > ज सुणीयति, ज पयावती, ज जुवई, ज जुवईं णिम्मऊण. 2 > ज ता सब्बहा. 3 > P खंडलं for मंडलं, ज लोय for पाय-
5 > ज पेच्छेज्ज, P आ for अत्ता, P अइ for इय देव्व. 6 > P inter. जुवाणो & सो, P कवडेहि वंत्थिओ अग्गे । 7 > P एयं for
इमं, ज पत्थिज्जओ, P पयडिज्जइ जुवाणो. 8 > P बहुरूव, P सालिणो, P अवस्स, P पडिज्जइ, ज om. वि. 9 > P मम, P पत्थेय, P
adds दे before चिट्ठ. 10 > P भोगवई, P om. पुत्ति कुवलयमाले etc. to भणियं भोगवईए. 13 > P उणो for पुणो, ज
om. लवलीवणेसु, ज पहाइओ. 14 > ज सब्बा, ज चेअ, ज पयपडइए P पयपडइए. 15 > P तुमए उण तंमि ट्ठाणे, ज भोगवई
P भोगवती. 16 > ज दिट्ठो for दुट्ठो, P inter. दुट्ठो & सो, P जुवा, P adds य before इमं, ज संकेयो, P उज्जाओणे, ज om. ता
सब्बं अलियं. 17 > P सो वाणो, ज om. ण य, ज पयंपंतीओ, P देवाण, P om. वि. 18 > ज परिणावेहिंति, P 'हित्ति, P जीवति.
19 > P देवं, ज उवालहीअं, ज वणविय for विण्णविय, P पणमिया, P अभिवाइया, ज संभरिअं. 20 > P चेव, P तओ for पुणो, ज
लतासं, P उवद्विय for उव्वद्विय. 21 > P ण पज्जइ ता संपयं, ज सहीओ, P इमं for इममिं, P तरुवर, ज लयली, P लयाहरंमि.
23 > P adds कंपिओ इव before विलक्खो, ज मयो इव. 24 > ज तीय, P एकिय, ज सहरिसा for हरिसिया, P वीसत्थी. 25 >
P adds संकिया before ससज्जसा, ज पेसि P पेसिया, ज om. दिट्ठी, ज तं कि पि. 26 > P सग्गस for ससज्जस, P जि for जं,
P om. पि, P दुक्खमुवलं. 27 > P om. ववसिऊण ववसायं, P ठाविऊण. 28 > P उच्चिणससज्जसं, P परिसाउभयबाहुडंडेण.
29 > P कुवलयमाला वि, P सेओकंप, P णिबभरं ईसि. 30 > ज om. चलमाण, ज लोअस्स. 31 > P मंतुवं. 33 > ज भण
किं ता मह मंतुयं भणिअं थोअं । P किं नामं तुम थोअं ।

- १ कुमारेण भणियं ।
 'एत्तिव-मेसं भूमिं पत्तो हं सुयणु जाणसे किं पि' ।
- २ तीए भणियं ।
 'जाणामि पुद्दह-मंडल-दंसण-कोकहलेण ति' ॥
 कुमारेण भणियं । 'मा एवं भणसु,
- ६ किं सुमरसि णेय तुमं मायाइच्छणमि जं भणियं । इच्छकारेण तुमे सम्पत्तं अहं दायव्वं ॥
 तं वयणं भणमाणो मुणिणा संबोहिओ इहं पत्तो । ता मा जूरसु मुदे संबुज्जसु मज्ज वयणेण ॥'
 § २७१) जाव एस एत्तिओ आलाओ पयत्तो ताव संपत्ता भोगवइ । 'वच्छे कुबलयमाले, राइणा वंजुलाभिहाणो
 ९ कण्णंतेउर-महल्लओ पेसिओ जहा अज वच्छा कुबलयमाला राइए व्वं असथ-सरीरा आसि, ता कथ सा अज परिभमइ ९
 ति सिग्वं गेण्हिय आगच्छसु ति भणमाणो इहं संपत्तो । मंदमंद-गइ-संचारो संपयं पावेइ, ता तुरियं अवकम इमाओ
 पएसाओ, मा अविणीय ति संभावेहिइ' ति । तं च सोऊण सयक-दिसा-मुह-विण्ण-तरल-लोल-खोयण-कडकस-विक्खेव-रेहिर
 १२ चलिया कुबलयमाला । तओ कुमारेण भणियं । 'सव्वहा १२
 किं जंपिण्ण बहुणा किं वा सव्वहेहि एत्थ बहुएहिं । सच्चं अणामि पत्तिय जीयाउ वि वल्लहा तं सि ॥'
 कुबलयमाला वि 'महापसाओ पडिवण्णो एवं अरहेहिं' ति भणमाणी तुरिय-पय-जिक्खेवं णीहरिया लवली-लयाहरंतराओ ।
 १५ विट्ठो य सो वंजुलो कण्णंतेउर-पालओ । तेण य खस-णिट्टुर-ककसेहिं वयगेहिं अंवाडिऊण 'पेच्छ, पेच्छ, एका चेष कइ पाविय' १५
 ति भणमाणेण पुरओ कया 'वच्च, तुरियं अंतेउरं' ति । तओ कुबलयमालाए वि चितियं 'माए, पेच्छ पुरिसाण य अंतरं ।
 एक्को महुर-पलावी सुंदर-भणिएहि हरइ द्विययाइं । अण्णो णिट्टुर-अण्णो पावो जीयं पि णासेइ ॥
 १८ दीसंतो अमय-मओ लोयण-मण-णंदणो इमो एक्को । विस-दल-णिग्गिमय-देहो एसो उण दूहवो अण्णो ॥' १८
 इमं चित्तंती समागया कण्णंतेउरं । कुमारो वि तं चेष पणय-कोव-कय-भंगुर-भुमयालंकियं वयणं हियय-रुगं पिव,
 पुरओ णिमियं पिव, वडिबं पिव, पासेसुं ठवियं पिव, उवरिं णिक्खित्तं पिव, महियलमि उप्पेक्खंतो तीए य चेष ताइं
 २१ सवियार-पेम्म-कोव-पिसुणाइं संभरमाणो वयणाइं कयत्थं पिव अण्णो मण्णमाणो तं महिंद अण्णेसिउं पयत्तो । विट्ठो २१
 एक्कमि पायवोयरे कुसुमावचयं करेमाणो । तओ भणियं कुमारेण 'वयंस, एहि वच्चाओ आवासं, दिट्ठं जं दट्ठव्वं' । तेण
 भणियं 'कुमार, भण ताव किं, तए तत्थ मयण-महासरवर-णियर-संकुले रणंगणे किं ववसियं' । कुमारेण भणियं 'वयंस,
 २४ विट्ठं अदिट्ठउव्वं तीए लायण्ण-मंडलं वयणं । वयणोयर-मंडल-भूसणाइं समाए णयणाइं ॥ २४
 महिंदेण भणियं 'कुमार,
 तं वयणं ताणि य लोयणाइं पढमं तए वि विट्ठाइं । तं किं पि साह मज्जं जं अरुभहियं तए रइयं ॥'
 २७ कुमारेण भणियं 'कुओ एत्तिथाइं भागधेयाइं । तह वि २७
 लायण्ण-महागिरिवर-सिहरेसु व तीय अंस-देसेसु । हत्था अमय-विहत्था वीसत्थं सुत्थिया मज्जं ॥'
 तओ महिंदेण सहासं भणियं 'एरिसो तुमं । अण्णहा,
 ३० बहु-दियह-मणोरह-पत्त-संगमालेद्ध-दुल्लह-पइरिक्का । वण-करिवरेण णल्लिणि व्व पाविया सा कइ सुक्का ॥'
 कुमारेण भणियं 'वयंस, मा एवं भण ।
 गुरु-देव-दियादीहिं करगहं जा ण पाविया पढमं । जालोलि-जलिय-भीमं मण्णामि चिहं व तं जुवइ ॥'
 ३३ महिंदेण भणियं 'एवं एयं, अण्णहा को विसेसो सुकुल-दुकुलाणं' । 'ता पयइ वच्चाओ आवासं' ति भणमाणा णीहरिया ३३

२ > P सुयण, P किं वि । ४ > P adds दंसणदंसण before मंडल, P om. दंसण. ६ > P इच्छकारेण, J तुमं for तुमे.
 ७ > J इहं, P इह संपत्तो, P संबुज्ज वयणेण. ८ > P भोगयती, J राइणे, P रायणा, J वंजुलाहिहाणी. ९ > P कण्णंतेउर, P राती-र, J
 परिभमइ. १० > J om. सिग्वं गेण्हिय आगच्छसु ति, J गई. ११ > J om. संभावेहिइ ति, P संभावेहिय ति, P
 मुहकण्णंतरलोयलोयणा, P विक्खेवरेरेहिरा. १२ > J adds वि after कुमारेण. १४ > P कुबलयमालाए वि, J om. एवं. १५ >
 P ते for तेण, P adds ककस before णिट्टुर, P एक्क चिय. १६ > P भणमाणे पुरओ, J om. वि. १७ > J पलाविर, P
 सुंदरिहियएण हरइ, J -अण्णो. १८ > J विसमओ for दूहवो. १९ > P इमं च चित्तंती, P om. पणय, P भुमयालंकियं. २० > P
 णिग्गिमयं, P ठिहअं for ठवियं, P उवेक्खंतो, J तीय चेष. २१ > P कोव for कोव, P महिंद अण्णसिउ, J adds य after विट्ठो.
 २२ > P पायवे कुसु, P आवासं जं दिट्ठं तं दट्ठव्वं । कुमार भणियं तेणं भण ताव किं. २३ > P संकुल, P adds व्व before किं, P
 वयंस. २४ > P अदिट्ठ उव्वं, P -मंडलं, P वयणायमंडण-, J मण्डलाहूसणाइ, P समाए. २६ > तव for तं, P लोवणाइं, J अरुभइअं
 २७ > P om. कुओ. २८ > J om. व, P तीययंस, J हत्थ. २९ > J इणियं for भणियं, P यसे for एरिसो. ३० > P दियर.
 for दियह, P adds अण्णहा before पत्त, P दुक्ख for दुल्लह, P वरेणे for 'वरेण, P कहिं for कइ. ३१ > P भणइ for भण.
 ३२ > J देवदियाहिं, P जालोलियमीम. ३३ > J अण्णह को.

१ उज्ज्वलाओ, संपत्ता आवासं । तथ य महाराहुणा पेसियाओ अजेयाओ सिणेह-कारा जल-ककस-सुबंध-पहाण-गंध-वण्णय-
 ३ तंबोळ-वावडाओ वारविलासिणीओ । तओ ताहिं जहाविहि मक्खिय-उच्चट्टिय-पहाविय-जिमिय-परिहिय-विलित्ता कया । तओ
 सुहासणत्थाण य संपत्ता एक्का विलासिणी । तीय उग्घाडिऊणं कणय-मय-पक्ख-संजोह्यं तंबोळ-मच्छयं पणाभियं ३
 कुमारस्स । भणियं च इमीए 'इमं केण वि जणेण पेसियं तंबोळं' । तओ कुमारेण गहियं, गिरुवियं च आव गियय-जव-
 पक्ख-विणिम्मवियं तंबोळ-पत्तेसु पत्तच्छेजं । तस्स य उवारीं पत्तक्खराइं, सिरिकुवलयचंदस्स णमं लिहियं । तओ तं च
 ६ वाइऊण कुमारेण भणियं 'अहो, गिठणत्तणं कस्स वि जणस्स' । गहियं तंबोळं । तओ कुमारेणावि एक्कम्मि पत्ते णह-सुहेहिं ६
 ८ रइयं सहंस-सारस-चक्काव-णल्लिणि-सयवत्त-भमर-रिंछोळि-रेहिरं सरवरं । विरइया य इमा गाहुळिया । अवि य ।

हियय-दइयस्स कस्स वि गिययण-दुक्खत्त-भत्ति-चित्तलियं । पेसिजइ केण वि किं पि कारणं सरवरं प्यं ॥

९ § २७२) तओ एवं च अण्णम्मि वियहे तेगेय कमेण णाणा-भोयणादीयं, पुणो कइया वि तंबोळं, कइया वि पत्त- ९
 च्छेजं, कइया वि वीणं, कइया वि आलेकळं, कइया वि पाणं, कइया वि गंध-जोओ, कइया वि किं पि तहाविइं गियय-
 णेळण-सिणेह-सवभाव-पिसुणं पेसिजइ कुमारस्स । एवं च ताणं कुमाराणं गियय-रज्जे च सुइंसुहेणं भुंजमाणं रज्ज-सिरिं
 १२ वचंति दियहा । कमेण य को उण कालो वट्टिउं पयत्तो । अवि य । १२

अगंधंति जम्मि काले कंबल-धय-तेल्ल-रल्लयगीओ । अच्छइ पाउय-देहो मंदो मंदो च्च सव्व-जणो ॥

किं च दीहरीहोति गिसाओ, इत्ति वोलेति वासरा, दूहवीहोति चंद-किरणाइं, परिहरिजंति जलासयइं, गिक्खिपंति
 १६ मुत्ताहार-लट्ठीओ, सिडिलिजंति हम्मिय-तलाइं, अणायरिजंति चंदण-पंकयइं, चेपंति रल्लयइं, संगहिजंति इंधणइं, विरइ- १६
 जंति वेणीओ, मक्खिजंति मुहइं, अज्जिजंति अच्छिवचइं, गियंसिजंति कुप्पासयइं, चमट्टिजंति सव्व-धण्णइं, उट्टिमजंति
 ख्खंजुर-सूईओ, गियत्तंति गियय-दइया-गियंबयड-विंब-पओहस्सा-सुहइं संभरमाणं पहिय ति । अवि य ।

१८ वण-बंधण-पम्मुक्को तुल्लग-लंगो य पत्त-धणु-वंसो । उय सूरु सूरु इव अह जाओ मउलिय-पयावो ॥ १८

गहिय-पलाला मय-भूलि-भूसरा खंध-णिमिय-कर-जुयळा । दीसंति अल्लियंता पहिया गामम्मि हेमंते ॥
 विरइ-भुयंगेण हओ खंडाळिइं कओ व सिसिरेण । एसो पसु च्च पहिओ पच्चइ अग्गिम्मि रयणीए ॥
 २१ दीसंति के वि पहिया कर-जुवल-गियंसणा फुडिय-पाया । गोसे मगालग्गा वापंता दंत-वीणाओ ॥ २१

बाहोमलंत-अयणा रहसुव्वेळंत-बाहुणो कइ । थिर-दिट्ठ-बंधवं पिच धम्मगिं कइ समलीणा ॥

मळ-खउरियंगमंगा तणुया गिक्किचणा मइळ-वासा । दीसंति के वि रिसिणो च्च धम्म-रहिया परं पहिया ॥

२१ अवि य । जम्मि य काले २४

हिम-सच्च-गिहय-सीसं सयलं दट्ठण काणणं सहसा । सिय-कुसुम-दसण-सोहं खलो च्च वइ विहसिओ कुंदो ॥

किं च । मंजरिजंति पियंगु-ल्लयउ, वियसंति रोइ-वल्लीओ, विसट्टंति तिल्लय-मंजरीओ, उवगिजंति महुर-मयवंद-बंध-भीसंद-
 २७ पाण-मय-मत्त-मउय-मणहर-गीयाकइ-भंडली-विलास-महुयरी-भमर-जुवाणेहिं मधमवेंत-मल्लियउ ति । सव्वहा २७
 चालम्मि तम्मि को वा ण भरइ धणिओवउहण-सुहाणं । णांगकुस-रुइ-मगे एके पर साहुणो मोनुं ॥

तम्मि य काले को कथ्य समलीणो ति । कालायरु-कुंकुम-सुगंध-सयणोयरेसु ईसर-जुवाणया, धम्मगि-धमण-पयावण-
 ३० तप्परा पंथ-कप्पडिया, जर-मंधर-कंधा मेत्त-देहया जुण्ण-धम्मिया, तण-पलाल-खळ-एक्क-सरणा कासया, खळ-तिल्ल-कंधा- ३०
 जीवणाओ दुग्गय-धरिणीओ, मुम्मुर-करीसगि-समाकडुण-वावडइं दरिइ-डिभरुयइं, थोर-अणवइ-कलत्त-वच्छयल-संपुड-
 सुह-पसुसइं पुअंड-मंडलइं ति । अण्णं च पंचगि-ताव-त्तवियंग-महासुणि-जइसिय जर-डोंव-थेरय, सिसिर-पवण-पइय-विमळ-

१ > P om. य, P om. अजेयाओ, P सणेह, P om. कारा, J om. जल, P सुगंध, J om. गंध. २ > P वाडाओ, P तेहिं
 मंक्खियउवट्टियणहिय. ३ > P कणमयमक्ख, J तंपूल for तंबोळ. ४ > P गिययकरणिकवनिम्मलवियतंबोळपत्ते. ५ > P om.
 य. ६ > P कस्सइ जणस्स, P णक्कं पि मि for एक्कम्मि, J णस for णह. ७ > P सार for सारस. ८ > P दुइयस्स, J गिअयल-
 इक्कंततस्सि, P चित्तलियं, P व for वि. ९ > P वेण य, P णाण for णाणा. १० > J गंधजोए P बंधुजोओ, J पं पि for किपि.
 १३ > P जंति काले, P कंबलयतेल्लरल्लयगीओ, P पाउदेहो. १४ > J गिसओ संति वोलेति, P वोलेति, J -किरणा, P जलासयाइं, P
 गिक्खिपंति. १५ > J लंठिओ, J हम्मियवट्टइं, P पंकइं, P रल्लयाइं, J इंधणयं P इंधणइं. १६ > J वेणीओ, P कुप्पासयाइं.
 १७ > J ख्खंजुर P गज्जंजुर, J गिअदइया J संभरमाणइअवति. १८ > P पम्मुक्को पयपत्त, P om. one सूरु. १९ > P मल for
 मय, P खंधणमिय, २० > P च्च for व, P अग्गि. २१ > P गियंसणे, P गोसग्गिमगालग्गा वायंता. २२ > J बाहोअलंत, केवि ।
 २३ > P गिक्कचणा. २४ > P om. जम्मि य काले. २५ > J om. सयलं, P च्च कुहविलसिओ कंदो. २६ > J मंजरिजंत, P
 पियंगुल्लयाओ, P उवग्गीजति. २७ > P मणहरं, P महुरीभवणजु, P मधमवेंति मल्लियाओ. २८ > P धणिओवउहणणाणं, P
 रुइतणो, P पुण for पर. २९ > P य का कथ, J सुअंध, J रमियर for ईसा, J जुआणया, P धम्मस्थिमण. ३० > J जरकंधर,
 J मेत्तदेवया, P देहया अजाहम्मिया, P कासवा, J कथ for कंधा. ३१ > P करिसगि, J समाकडुवावडइं. P समायडुणवावारं, J
 डिभरुयइं, P डिभरुयइं, P वच्छयल P वच्छयर. ३२ > P मंडलयं, J त्तवियमहा, P सय for जरसिय.

- 1 जल-पहलमाण-वीह-सरंग-भंग-भंगुर-वियरंत-मच्छ-पुच्छच्छडावाउलसंत-मुसाहल-हहर-जल-लवालंकिय दीसंति सरवर, 1
भाबिय-प्यतासरणस-संसार-महादुक्ख-गहण-विउडण-सज्जायउज्जागेक्क वावड पमुक्क-वरिसा-कप्पायावण-संठिया आयावेति
3 साहु-भडरय व ति । अवि य, 8

सिसिरेण को ण खविओ सिसिर-पवायंत-मउय-पवणेण । पर-मंस-पिंड-पुट्टे जंबुय-सुणए पमोत्तूण ॥

- § २७३) इम्मि एरिसे काले सुहंसुहेण अच्छमाणाण कुवल्लयमाला-कुवल्लयचंदाण अण्णम्मि दियहे सहाविओ
6 राहणा संवच्छरो 'ओ भो गणियं तए कुवल्लयमालाए विवाह-लगं' ति । तेण भणियं 'देव, तदियहं गगेमाणेण इमं सोहियं' । 6
तं जहा । इमस्स जम्म-गणक्खत्तस्स उवचयकरो सीयकिरणो, सुवण्णदो सहस्सरस्सी, पुत्त-लाभयरो वहस्सई, भोग-करो
बुधरायापुत्तो, कुडुंब-विजय-करो धरणीसुओ, णिव्वुहयरो उसणसो, भूमि-लाभयरो सणिच्छरो ति । अण्णं च णिवत्तं
9 उत्तरायणं, बलियं लगं, सयल-दिट्ठिणो सोम्मा, पाय-दिट्ठिणो पावा, ण पीडियं गब्भादाणं, अणवहुयं जम्म-गणक्खत्तं, अपीडियं 9
जम्मं, सुक्कम-णिक्ख-ओओ । सव्वहा ण विरुद्धं अट्टत्तरेणावि चक्कसएण णिरुविज्जंतं । कुक्कं च जहमिमं लगं ता दुवालसाणं
वासणं मज्जे ण एरिसो लग्ग-ओओ सुज्जइ ति । जारिसो एस कग्गुण-सुद्ध-पक्ख-पंचमीए बुधवारो साती-सुणक्खत्ते
12 राईए बोलीणे पढम-जामे दुइय-जामस्स भरियासु चउसु घडियासु पंचमाए णाडीए दोसु पाणियवलेसु पाऊण करिसा- 12
हिएसु बोलीणे सिंघे उयमाणे कण्णे पूरीए मए संखे परिणीया दारिया जइ तओ दीहाऊ से भत्ता, खिरं
अविहवा, सुहया वसीकय-भत्तारा, धणं कोडी-गणणाहिं, एक्को से पुहइ-सारो पुत्तो, भोय-भाइणी, पच्छा धम्म-भाइणी,
15 पढमं भत्तारओ मरणं ण अण्णह' ति भणिए गणएणं, णरवइणा वि 'तह' ति पडिवजिय 'कल्लाणं' ति भणमाणेण 16
णिवेइयं तं कुमारस्स । 'कुमार वच्छ, बहुयं कालंतरं तुइ कुवल्लयमालाए णियय-विण्णाण-सत्त-सहाव-पुव्व-जम्मजियाए वि
विओग-त्रुक्ख-वित्थरो कओ । ता संपयं इमीए पंचमीए गेण्हसु परम-कल्लाण-मंगलेहिं गुरुणं आसीसाए देवाणं पहावेणं से करं
18 करेणं बालियाए' ति । कुमारेण भणियं 'जहा महाराओ आणवेइ' ति । णिवेइयं कुवल्लयमालाय वि तओ हियय-दइय- 18
संगम-सुहल्लि-वयणायण्णण-पहरिस-वसूसलंत-रोमंच-कंचुइज्जंत-सल्लिय-मुणाल-णाल-ललिय-कोमल-बाहुलया विर-चितिय-
संवयंत-मणोरहाउरमाण-हियय-हलहला भुयणे वि माइउं ण पयत्ता । किंचि तम्मि रायउले कीरिउं पयत्तं । अवि य
21 मुसुमूरिज्जंति धण्णाइं, पुणिज्जंति सहिण-समियाओ, सक्कारिज्जंति खंड-खज्जाइं, उयक्खिज्जंति भक्खाइं, आहरिज्जंति 21
कुल्लाइं, कीरंति मंच-सालाओ, विरइज्जंति धवलहरइं, रइज्जए वर-वेई, कीरंति उल्लोयइं, परिक्खिज्जंति रयणाइं,
उप्पिज्जंति तुरंगमा, पणामिज्जंति करिवरा, णिमंतिज्जए रायलोओ, पेसिज्जंति लेह-वाहयाए, आमंतिज्जए बंधुयणो,
24 मंडिज्जए भवणोयरं, धवलज्जंति भिस्तीओ, घडिज्जए कलघोयं, वविज्जंति जवंकुरा, णमंसिज्जंति देवयाओ, सोहिज्जंति 24
णयर-रच्छाओ, फालिज्जंति पडीओ, सीविज्जंति कुप्पासया, कीरंति धयवडा, रइज्जंति चारु-चामरी-पिच्छ-पढभारइं
ति । सव्वहा

- 27 सो णथि कोइ एरिसो महिला वा तम्मि णयर-मज्जम्मि । जो ण विहल्लप्फलओ कुवल्लयमाला-विवाहेण ॥ 27
सो को वि णथि एरिसो कुवल्लयचंदो ण जस्स हिययम्मि । ण य सा पुरीए महिला कुवल्लयमाला ण जा भरइ ॥

§ २७४) एवं च होंत-विवाह-महुसव-वावडस्स जणस्स संपत्तो सो दियहो । केरिसो ।

- 30 कणय-घडिओ व्व एत्तो अमय-रसासाय-वडिय-सरीरो । सोहग-णिम्मिओ इव विवाह-दियहो समणुपत्तो ॥ 30
तम्मि य दियहे कुवल्लयमाला-जणणीए होंत-जामाओ य गुरु-सिगेह-पसर-सुच्छलंत-रोमंच-सेय-सलिल-राहाए पमक्खिओ
कुमारो । तओ कयं से जहा-विहीए सिद्धत्थक्खय-सत्थिय-मंगलोयारणयं । कयाणि य से णियय-वंस-कुल-देस-वेस-समयट्टाई

1 > P om. जल, P वीह, J °च्छडावायुलसंत P °च्छडाहयुलसंत, P °लवालंकित, P सरवर । अवि य भाविया. 2 > P सज्जाय-
ज्जाणक्क, J वावरपम्मुक्क, P पमुक्का, J °कप्पायावणासंठिअयायावेति साहुण भडरय च ति. 4 > P पयायत्तमउयवणेण । परमासवसापुट्टं एक्कं
चिय जंबुयं मोत्तुं ॥ 5 > J कंङ्गाविओ for सहाविओ. 6 > P गणियं, P om. तेण भणियं, J देव अदिअदं, P गणमाणेण. 7 > P
om. तं, P सहस्सरसी, P बुहस्ससी, P भोगयो बुधरायउत्तो कुडुंब. 8 > J बुधरायापुत्तो, P णेव्वुहयरो, J उसिणसो. 9 > P सोमा
पातट्ठिणो, P पीडितं गब्भदाणं, J अणवहुत्तं P अणवहुत्तं, J अपीडियं. 10 > P सुक्कमा, P अट्टत्तरेणापी, P जइ संलगं, J om. लगं ॥
11 > P inter. एरिसो & ण (न), P कयुणइपक्ख, J सातीं ण कयवत्तं P रेवनिणक्खत्ते. 12 > J दुतिअजामस्स, P पंचमारएणाली, P
पाणियवलेसु पाऊण. 13 > J उयमाण, P पूरिण संखे, P दीहाओ, P भत्तारे. 14 > P अवहिवावसीकयभत्तारो धणकोडीण गणाहिं,
P -सारो पत्तो पच्छा, P transposes भोगभाइणी before पढमं. 15 > P महरणं. 16 > P om. तं, J om. कुमारवच्छ, P
सत्तमुहाव. 17 > J विउअ for विओग. 18 > P जइ महाराय, P कुवल्लयमालाइ वि. 19 > P वत्तुच्छलंत, J सयल for सल्लिय
P om. णाल. 20 > P सयवत्त for संवयंत, P हलाहला, P माइओ ण, J किंच for किंचि. 21 > P मुणिज्जंति for पुणिज्जंति,
P -समिओ सक्कारिज्जंति, J खंडज्ज, P खंडकज्जादि उयक्खिज्जंति, J भक्खयं. 22 > P त्रियलिज्जंति धवलहर इव्वपवेती ।, J रइजवरवेई,
P उल्लोयइं, P रयणइ. 23 > P लेहवाहया. 24 > P सवणोयरं for भवणो, P भिस्तीए, P कलघोयं, P ठविज्जंति, J गज्जंकुरा for
जवंकुरा, J देवया, P सोहरिज्जंति देवयाओ णयर. 25 > P पयडीओ, J चमरी पिंछे. 27 > P को वि एरिसो, J णयरि. 28 > P
inter. ण (न) थि and कोवि, J पुरीय, P महिला, P कुवल्लयमाला ण. 29 > P महुस्सव. 30 > P णिम्मि इव, J विआह-
31 > P, after तम्मि य दियहो, repeats केरिसो । कणय etc. to दियहे as above, P सहए पमक्खिओ. 32 > P जहा
विहीए, P मंगला आरणं, P यय for णियय, J वेसमयं, P -समयट्ठिती.

- 1 मंगल-कोडयाहं, तओ पहाय-सुह-घोय-ववल-जुवलय-णियंसणो सिय-चंदण-चच्चिय-सरीरो वंदिय-गोरोयण-सिद्धय-रइय-तिलओ 1
 खंभराबलंबिय-सिय-कुसुम-सुराहि-दामो महिंदाणुगय-मगो अल्लीणो विवाह-मंडवं । कुवलयमाला वि कय-कायव्व-वावारा 3
 3 सिय-सण्ह-वसण-णियंसणा मंगल-मोत्ताहरण-रेहिर-सरीरा अल्लीणा वेदि-मूलं । तओ संपत्ताए वेलाए, पाविण् लणो, अग्गि- 3
 होत्त-सालाए जलणं आणियं छीरवच्छ-समिहा-घय-संधुक्खियं काऊण, समक्खीहूयाणं सव्व-कुल-जुण्ण-महत्तराणं, पच्चक्खे 9
 राइणो, मज्झट्टियस्स अणेय-वेय-समय-सत्थ-पारयस्स दुयाइणो, आमंतिय लोय-पाले, णामं गेण्हिय राइणो दढवम्मस्स, दिण्णाओ 6
 6 लायंजलीओ । समप्पिया य तस्स करंजली कुवलयमालाए । गहिया य कुमारेण । उभय-विरइयंजलीउडेहिं करयलेहिं ताव य 6
 पनीयाओ अविहवाओ । पवाइयाहं त्राइं । पूरियाइं संखाइं । पहयाओ झळरीओ । पढंति बंभण-संवाइं । जयजयावंति 9
 महासामंता । आसीसा-समुहा कुल-महलया, मंगल-पढण-वियावढ गाणायरिय ति । एवं च तेण दुयाइणा होमिउं पयत्तं । 9
 9 'इक्खागु-वंस-पभवस्स सोमवंस-कुलालंकारस्स महारायाहिराय-दढवम्म-पुत्तस्स कुमार-कुवलयचंदस्स विजयसेण-दुहिया कुव- 9
 लयमाला एसा दिण्णा दिण्ण ति जाव णिसुणेंति सयल-तेल्लोक्क-सक्खिणो भगवंता लोयवाला । पडिच्छड लायंजली भगवं एस 9
 सुरासुर-मणुय-तिरिय-लोयालोयणो जलणो' ति । इमिणा कमेण पढमं मंडलं । दुइयं पि पक्खिस्ता लायंजली । आहूया लोय- 12
 12 वाला । तइयं मंडलं । पुणो तेणेय कमेण दिण्णं दायवं । तहा चउत्थं मंडलं । तओ जय जय ति भणमाणा जरा-जुण्ण-देहा 12
 वि पहरिस-वसुव्वेळमाण-बाहुलयावली-वलया णच्चिउं पयत्ता कुल-जुण्ण-महिलय ति । कुवलयमाला-जणणी वि सरहसुव्वे- 15
 15 लमाण-बाहुलया-कंचण-मणि-वलय-वर-तरल-कल-ताल-वस-पय-णिकखेव-रेहिरा मंधरं परिसक्खिया । सेसो वि विलासिणियणो 15
 15 णिवढंति अविट्ठ-करयलंजलि-विमुक्काओ णाणाविह-वण्णाओ गंध-लुद्ध-मुद्ध-भमरोलि-माला-मुहलाओ दिव्व-कुसुम-बुट्टीओ 15
 ति । अवि य, 15
 18 गिजंत-सुमंगल-मणहरणं णञ्जंत-विलासिणि-सोहणए । मण्हंत-सुहासण-वामणए वज्जंत-पयत्तय-तूर-रवे ॥ 18
 खोभंताबल-वज्जिर-तूरं तूर-रसंत-पणच्चिर-खोरं । खोर-पणच्चिर-चच्चरि-सहं चच्चरि-सह-मिलंत-जणोहं ॥
 मिलिय-जणोह-सुकलयल-रावं कलयल-राव-वियंभिय-तोसं । तोस-वियंभिय-वगिर-मल्लं वगिर-मल्ल-पलंबिय-क्कच्छं ॥
 21 लंबिय-क्कच्छ-ललंत-सचूलं चूल-ललंत-सुमंधर-तालं । ताल-ललंत-फोडण-सहं सह-वियंभिय-पूरिय-लोयं ॥ ति । अवि य । 21
 21 तूर-रव-गहिर-सहं आऊरिय-संख-राव-गंमीरं । उव्वेलं व समुहं वियाह-वद्धावणं जायं ॥
 तओ वत्ते य वद्धावणए किं जायं । संमाणिज्जंति संमाणिजे, पृहज्जंति पृयणिजे, तोसिज्जंति तोसणिजे, मंछिज्जंति मंछणिजे,
 24 दिज्जए पणईणं, पणामिज्जइ राईणं, उवणिज्जइ गुरुणं, पक्खिज्जए जणवयाणं, अप्पिज्जए अंतैउरियाणं, पेसिज्जए णायरियाणं, 24
 24 दिज्जइ य अरणिज्जं जहाभिलसियं घणं दीण-वणीमय-किमिण-पणईणं ति । अवि य ।
 दिज्जउ देसु पडिच्छसु गेण्हसु पक्खिवसु दे पडिच्छाहि । मग्गसु भणसु जहिच्छं इय हलबोलो वियाहम्मि ॥
 27 § २७५) तओ णिव्वत्ते वद्धावणए महिए सुर-संघे सुपूहए गुरुयणे सव्वहा कए तक्काल-पाउग्गे करणीए विरइया 27
 27 कुमारस्स वासहरए महरिहा सेज्जा । अवि य ।
 रयण-विणिम्मिय-सोहा मुत्ताहल-णियर-रेहिरा धवला । खीरोदहि-वेला इव रइया वर-विहुमा सेज्जा ॥

1 > J कोउअहं, P पहाइमय, J दुई-, J सच्चिअ for चच्चिय, P गोरोयणो. 2 > P सुरहिरदामो (?) महिंदाणुजायमगो अल्लीणो, P वावार. 3 > P वेईमूलं. 4 > P आणिरच्छीर, J adds महु after घय, P संधुक्खियं, J समक्खीहूअणेसद्धकुल, P समक्खयाणं, P कुन्न for जुण्ण, P पच्चक्खं. 5 > P मज्झट्टियस्स, P अणेयअवेय, J यत्थ for सत्थ, P दियाइणो, P राइणा दढवम्मस्स दिज्जा, J दढधम्मदि-ण्णाओ. 6 > P om. य before तरस, P विरइयंजली. 8 > J विआवटणआयरिय, P णागायरिय for गाणायरिय (emended), P दियाइणा, J होइउं P होमियं. 9 > P पभवस्स, J P दढधम्म-, P om. कुमार, P विजसेणरस दुहिया. 10 > J repeats दिण्णा, J om. जाव before णिसुणेंति, P तेल्लोक्क, J भगवंतो लोगवाला, P पडिच्छओ, J भयवं, P एस ससुरासुर. 11 > P लोयलोयणो, J P मंगलं for मंडलं, P लायंजलायाभूता, J आहूता. 12 > J adds पि after तइयं, P मंगलं in both places (for मंडलं), P तेण च, P दातव्वं. 13 > P बाहुलमाणवलीलया णच्चिउं, J -महल्यं ति, J om. वि, J सहरसुवेळं P वि रसुवेळं. 14 > J बहुलयाकंठण, P चलयचलतरकल तारवस, P विलासिणीयणो. 15 > P repeats चलण, J माण for मणि, P om. जहिच्छं, P सहं 16 > P अविद्ध करयंजली, P बुट्टीओ. 18 > P गिज्जंति, J हल्लंत P मण्हंत, P वज्जंति. 19 > P खोस्तावज्जिरचत्तररसंतं पणच्चियखोर, P पणच्चिय. 20 > P om. मिलियजणोह, P वगियमेळं वगिय-, J पलंबिर. 21 > J लंबिय for लंबिय. P सुचूलं, J -सुमच्छ (स्थ?) रतालं. 23 > P om. तओ वत्ते य वद्धावणए किं जायं, P पृहणिजे, P मञ्चिज्जंति मञ्चणिजे. 24 > J दिज्जउ, P पणतीणं, P पणामिज्जपरादीणं उवणिज्जए, P पक्खिणिज्जए, P अप्पिज्जए, P णायराणं दिज्जए अमणिज्जं. 25 > J विज्जइ for दिज्जए, P उवाहिल-सियं. 26 > J देसु पयच्छसु. 27 > P णिवत्ति वद्धावणिए, P संघे पूहए, J गुरुअणो, P पाउग्गकरणीए. 28 > P वासहरे, J महरिआ, P inter. सेज्जा and महरिहा. 29 > P खीरोयहि.

- 1 तम्मि य सेज्जा-महोदही-पुलिणोवरे एव रायहंस-जुवल्यं विव गिबिट्टं कुमार-जुवल्यं ति क्वाणि य भारत्तियादीणि मंगल-
कोडयाणि । अच्छिऊण य कं पि कालं परिहास-हस्तिर-लोयण-जुवलो सहियायणो अलिय-कय-वक्खेवो सहर-सहरं णीहरिउं
3 एवत्तो । अवि य । 3
- अलिय-कय-वावडत्तण-विकखेवो विण्ण-महुर-संलावो । अवरोप्पर-कय-सण्णो णीहरिओ से सही-सत्थो ॥
तओ कुवल्यमालाय वि भणियं ।
- 6 'मा मा मुंचसु एत्थं पियसहि एकलियं वण-मइ एव ।'
ताहि भणियं । 6
- 'इय एकित्थाओं सुहरं पियसहि अग्गे वि होज्जासु ॥'
9 तीय भणियं । 9
- 'रोमंभ-कपियं सिण्णं जरियं मा मुंचह पियसहीओ ।'
ताहि भणियं ।
- 12 'तुज्ज पइ चिय वेज्जो जरयं अवणेही एत्तो ॥'
§ २७६) तओ एवं च भणिया समाणी लज्जा-ससज्जस-वेवमाण-पओहरा एसा 'अहं पि वच्चामि' ति भणमाणी
चलिया, गहिया य उवरि-वत्थइंते कुमारेण भणिया य 'कथं वच्चसि ।' तीय भणियं 'मुंच, सहियणेण समं वच्चामि' ।
15 [कुमारेण भणियं] 15
- 'वच्चसु सुंदरि वच्चसु वच्चती को व हंसए एण्हि । एकं पुण मह कीरउ जं गहियं तं समप्पेहि ॥'
तीय ससंभमं भणियं 'किं पुण मए गहियं' । कुमारेण भणियं ।
- 18 'तुह-विंता-रयण-करंभयं च विण्णाण-बुद्धि-पडहत्थं । हिययं मह चोरि हियं मा वच्चसु जाव णो विण्णं ॥'
तीय भणियं । 18
- 'हरियं व ण हरियं वा हिययं अण्णं च एत्थ को सक्खी । ण हु वयण-मेत्त-सिद्धा होइ परोक्खा हु ए किरिया ॥'
21 कुमारेण भणियं । 21
- 'एयाउ चिय तुज्जं सव्वाउ सहीउ मह पमाणं ति ।'
तीय भणियं ।
- 24 'आणेषु ता इमाओ सुहय तुहं उस्सरं देमि ॥'
कुमारेण वितियं । 'अहो, सुंदरो उवण्णासो मए कओ इमीए चेष पुट्टओ एस ववहारो' वितियंते । तीय भणियं 'किं इमं
वितियइ, आणेषु पिय-सहीओ जाम उतरं देमि, अहवा मुंचसु मए' ति । कुमारेण भणियं 'मा वच्च सुंदरि, सदेमि ए
27 पिय-सहीओ' ति भणंतेणं कओ ताणं सहे । 'आइससु' ति भगंतीओ समागयाओ । भणियं च ताहि 'कुमार, को अग्धाणं
णित्ति' । कुमारेण भणियं 'अहं ववहारो दट्ठवो' । ताहि भणियं 'करिसो, हुण्णिण्णउ पुव्व-पक्खो' । तेण
भणियं 'एसा तुमह पियसही चलिया गंतुं, हिययं समप्पेसु ति मए वारिया, इमीए मिचत्तो कयं तत्थ तुभमे पमाणं' ति ।
30 ताहि भणियं 'पियसहि पियसहि' किं एरिसो पुवंतर-पक्खाओ' । तीय भणियं 'एत्तिओ एस ववहारो' ति । ताहि
भणियं 'अहो, महंतो एस ववहारो, जइ परं सिरिविजयत्तेण-णरवइणो णयर-महल्लयाणं च पुरओ णिव्वइइ' ति ।
कुवल्यमालाए भणियं 'तुभे चिय महप्पमाणं ति जइ किंचि इमस्स मे गहियं' ति । कुमारेण भणियं 'सुंदरं सुंदरं' दे
33 भणइ तुभं पमाणं ति । अवि य । 33
- मा कुणह पियं एयं मा वइएस्सं ति कुणइ मा एसं । वम्मह-गुरु-पायच्छित्तियाए धम्मक्खरं भणइ ॥
ताहि भणियं । 'जइ फुडं भणामो ता सुणेह,
36 एएण तुज्ज हरियं तुज्ज वि एयाए वल्लहं हिययं । अवरोप्पर-जूवय-थेणयाण जं होइ तं होइ ॥'
इमम्मि भणिय-मेत्ते गहियाओ वत्थइंते । 'कुमार, तुमं लंपिक्को' ति भगंतीए तेण वि 'तुमं कुसुमालि' ति भणमाणेण
संवाए गहिया । तओ किं जायं । अवि य ।
- 39 एस गहियो ति कलमो अरइइ ए वंघणे कुमारेणं । भणिए मज्झं स्ति तं चिय तेण वि सा तक्खणं भणिया ॥ 39

1 > P om. तम्मि य सेज्जा, P महोदहीपुलिणोवरे, P जुवलं, P मंगलकोड before मंगल. 2 > P कोडयाइ, P om. य, J हरिस for वसि, J जुवलो सदियणो, J वअ for कय, P कयविकखेवो (?), J सरहर for सरर, J सहरणीहरिउं P सयरयणीहरिउं
4 > J सल्लावो. P repeats सही. 5 > P om. तओ कुवल्यमालाय वि etc. to ववहारो पडुओ उत्तरवाइ ति on p. 173, l. 17'.
This passage is reproduced here with minor corrections like ya-śruti etc. 10 > Better सुयइ for मुंचइ.
12 > Better अवणेहिइ य एत्तो. 14 > J चडिया for चलिया. 20 > J वण for व ण. 22 > J पमाणं ति (?). 34 >
Better एयं for एसं. 37 > J भणमाणेण संवाए (?).

- १ एवं अवरोप्पर-विचयमाणा सहीहि भगिया 'मा मा करण-समक्खं असमजसं भणह, जे अग्हे भणामो तं कीरउ' ति । 1
तेहिं भगियं 'सुहु ए भणह किंचि धम्मक्खरं' ति । सहीहि भगियं । 'जइ अग्हे पमाणं ता भगिमो ण भणणह' ति भणिए, 1
२ तेहिं भगियं 'पमाणं पमाणं' ति । ताहिं भगियं 'जइ पमाणं ता सुणेह । अवि य । 3
मुद्धे पिण्ह से हिययं च कुमार ओप्पेसु । अवरोप्पर-पाविय-हिययवाण अह णिब्बुद्धं तुभ ॥'
भगिय-मेत्ते कुमारेण भगियं ।
- ६ 'सुयणु इमं ते हिययं गेण्हसु हिययं ति मा वियारेसु । एयं पि मज्झ दिज्जउ जइ मज्झस्था पमाणं ति ॥' 6
भणमाणेणावयासिया । एवं च कए गुरु-कोव-फुरुफुरायमाणाराए विलसमाण-कुडिल-चारु-वंचल-मुमया-ख्याए भगियं
च तीए 'अब्भो माए इमिणा अलिय-कय-कवड-वंडिय-णड-पेडय-सरिसेणं दुज्जणी-सत्येणं इमस्स अणाय-सील-सहावस्सा-
७ हिचस्सावयासणं दवाविय' ति भणमाणी परहुत्ता संठिय ति । तओ ताहिं भगियं । 9
'मा सुयणु कुप्पसु तुमं किं कीरउ एरिसो वेय । णिक्करुणो होइ फुडं मयण-महाधम्म-ववहारो ॥
ता सुंदरो एस ववहारो जो संपयं पत्तो' । तीच भगियं 'ण सुंदरो' । ताहिं भगियं 'अणं सुंदरं विरएमो' । तीच
१२ भगियं 'ण कज्जं मह इमिणा वि जो संपयं रहओ' । ताहिं भगियं । 12
'मा कुमार वंचसु इमं अग्गं कवडेण बालियं मुद्धं । उप्पज्जउ से संपइ उं तुह एयाए तं दिण्णं ॥'
कुमारेण भगियं ।
- १६ 'जइ दाऊण सयं चिय पच्छायावं समुव्वहसि मुद्धे । मा होउ मज्झ दोसो गेण्हसु अवयासणं णिययं ॥' 15
ति भणमाणेण समवळंभाहिणव-सिगेह-भरा णिहयमवयासिया । तओ पहसिओ सहि-सत्यो 'अहो, एरिसो अग्गसंतिओ
धम्महागिरणो जं एरिसाईं पि गूढ-ववहारइं पयडीहोति ति अहो सुसिलिट्ठो ववहारो पडुओ उत्तरवाह' ति ।
- १८ § २७७) तत्थट्ठियाण तेसिं सुहं-सुहेण वोलिया रयणी । ताव य पडु-पडह-पडिहय-पडिरव-संखुद्ध-मुद्ध- 18
मंदिरुज्जण-वावी-कलहंस-सारस-कंठ-कूहय-कलयलाराव-रविजंत-महुरो उद्धाओ पाहाउओ य दूर-रवो । पठियं च मंगल-
पाठएहिं पाहाइय-मंगलं । उग्गीयं मंगल-गायणीहिं मंगल-गेयं । समागया तो वारविलासिणीओ । पणामियं मुह-धोवणं
२१ दंत-धावणं च । तओ पर्यसियं अहयं च भायणत्थं । पलोइयं तत्थ मुहयंदं । उग्गीय-मंगल-गायणीहिं पणामियं विमल-द्वपणं, 21
तह दहि-सुवत्त-गंदावत्त-अक्खयाणि य । वंदिया गोरोरया । सिय-सिद्धत्थएहिं विरहओ भालवट्टे तिलओ कुमारस्स । तओ
एवं च कय-देवयाहिदेव-पणामो पच्छा विविह-कला-कोसल-विण्णाण-णाण-सत्यत्थ-कहासु संपत्तो मज्झणह-समओ । भुत्तं
२४ जहिच्छियं भोयणं । पुणो तेणेय कमेण संपत्ता रयणी । तीय रयणीए केण वि वियद्व-पओयणंतरेण किंचि उप्पाइयं । वीसं- 24
अंतरं सहाविया अंगमंग-फरिस-रसं विण्णा मुहिया । पसारिओ कणचमय-घडिय-णालो विव कोमल-बाहु-दंडो करतलो णीवि-
देसंतरम्मि । एवं च कयावस्सय-कणीओ समुट्ठिओ सयणाओ । ताव दुइया वि रत्ती । तओ तेणेय कमेण संपत्ता तइया
२७ राईं अणुराय-पवडुमाण-णिभर-हिययाणं पिव । तओ तइय-रयणीय य णिब्बत्तिय-वीसंभेणं तेणं केणं पि लज्जा-सज्जस-सह- 27
रिस-सुहमुप्पायएण पओएण कयं किं पि कज्जं तं । अवि य ।
जुवईयण-मण-मोहं मोहं मूढाण सव्व-जीवाणं । होइ पसूहिं वि रमियं परिहरियं दिव्व-भावेहिं ॥
- ३० णिब्बत्ते य तम्मि जुवईयण-मण-मोहणे मोहणे कयाइं वद्धावणयाइं । दिण्णाइं महादाणाइं । 30
§ २७८) एवं च कय-कायव्व-वावारा अण्णम्मि दियहे समारूढा हिमगिरि-सिहर-सरिसं पासाय-तलं । तत्थ य
आरूढेहिं दिट्ठं तेहिं विजयपुरवरीए दक्खिण-पाचार-सेणी-बंधं धुयमाणं महारयणायरं । तं च केरिसं । अवि य ।
- ३३ गयणं गायं व रुद्धं धवलं कलधोय-धोय-पत्तं व । दुत्तार-दूर-तीरं खीर-समुहस्स खिंबं व ॥ 33
कहिंचि परिहत्थ-मच्छ-पुच्छच्छडा-छडिउच्छलंत-पाणियं, कहिंचि णिट्टर-कमठ-पट्टि-संठिउच्छलंत-विहुम-पल्लवं, कहिंचि
कराल-मयर-करगा-वगंत-सिप्पि-संपुडं, कहिंचि पक्कणक-चक्क-करवत्तुकंत-माण-मीणयं, कहिंचि दुग्गाह-गाह-गहिय-विवस-
१) J समेक्खं. ३) J ताहे for तेहि, J तेडि for ताहि. ४) Better हिययं तं for च, and कुमर for कुमार, J हिअंअ
वाण. ६) J मि for पि, J मज्झस्थ. ७) J माणाहरण, J चंचलमुमया. ८) J सडवस्सोहि. ९) J तेहि for ताहि. १५) J
सउव्वहसि. १७) J अहो ससिलिट्ठो. १८) J om. तत्थट्ठियाण etc. to रयणी, P तेसी, P वोलिओ, J पडिरवर-. १९) P
कलहंसस्स हंससारसकंठकूहय, J कुविय for कूरय, P रविजुत्त, J बाहुओ P पाहाओ for पाहाउओ, P adds ताव य before पठियं,
P य for च. २०) J om. पाहाइयमंगलं, P पाहायअमंगलं उयीयं, J om. मंगलगेयं समागया etc. to देसंतरम्मि l. 26 below,
२१) P अघयं च, P उयीयं for उयीयं. २२) P तदहिसुवत्तगंदा, P भालवट्टे. २५) P अंगमंगमंगफरिस, P पसारियाओ,
२६) J एवं for एवं, P om. कयावस्सय etc. to सयणाओ । ताव, P दुइया वि राती for दुइया वि रत्ती, P तेणय. २७) P राती, P
तइया, P om. य, P विसंभेणं, P सज्जाससरिस. २८) J सुहमुप्पायएण, J om. पओएण, P कयं कंप्पि जंनं. २९) P जुवतीयण, J
पसुट्ठिमि रमियं, P विसरिसं प रिहरियं दिट्ठिभावेहिं. ३०) J जुवईयण, J om. दिण्णाइं महादाणाइं. ३१) P om. कायव्व, P हिमगिरि-
३२) J सेणीयदं. ३३) P गयणं गायं व, P धवलकलधोय, P दुत्तारदुरं. ३४) J छडिउच्छलंत, P छोडिओच्छलंतपालियं, P कमठ-
पट्टिसंठिउच्छलंतविहुसंपल्लवं कलिहिंचि. ३५) P करगमगंत, P om. चक्क, P णीणयं for मीणयं, J गह for गाह, P गहित-

- 1 हीरमाण-वणचरं, कर्हिषि धवल-संखडल-लोलमाण-कमल-राय-रण-दिति-चित्तलं, कर्हिषि भिण्ण-सिपि-संपुडुलसंत-कंत- 1
मुत्ताहलुज्जलं, कर्हिषि जल-वड्ढिय-जल-विहुम-दुम-गाहण-राय-रंजियं, कर्हिषि तणुय-तंतु-तुलिय-हीरमाण-वण-करिवरं,
2 कर्हिषि मरगाय-मणि-सिलायल-गिसण्ण-भिण्ण-वण्ण-दीसंत-मच्छ-जुवलथं, कर्हिषि जल-करि-दंत-जुवल-भिज्जमाण-जल-माणुसं,
3 कर्हिषि उडवत्तमाण-महाभुयंग-भीम-भोग-भंग-भासुरं, कर्हिषि जल-मणुय-जुयाण-जुवलथ-पयत्त-सुरय-केली-हेला-जल-वीह-
संकुलं, कर्हिषि मज्जणावड्ढण-दिसा-गाहंदावगाहमाण-गंडयल-गलिय-मय-जल-संदोह-बिंदु-णीसंद-पयड-पसरंत-वेलावली-वल-
6 तुल्लसंत-चंदय-चित्तलं जलं ति । अवि य । 6

- § २७९) पत्रण-पसर-वेअ-संखुद-वीई-तरंगगहिजंत-तंतूहि संराणियासेस-मच्छच्छडा-घाय-वेउल्लसंतेण पीरेण
संखावली-खोह-दीणाणुणायाणुसारागयाणपसप्पेहिं पमोक्क-दाहा-विमुवेले-दिपंत-जालाउलं । जल-करिवर-रोस-णिभिण्ण-
9 दंतगा-वेवंत-कुमेहिं णक्खं कुसा-घाय-विज्जंत-ममहाउकत्तियासेस-कुंभत्थलुच्छल-मुत्ताहलुग्घाय-मजंत-कंतपपहा-भिण्ण- 9
दीसंत-वणण-माणिक्क-संघाय-रस्सीहिं तं संकुलं । वर-मयर-करग्ग-संलग-णक्खावली-घाय-वेउल्लच्छल-कीलाल-सेवाल-
संलग-मुत्तावली-लोह-णिदाहायाणेय-णीरंगणा-जुद-संखुद-पायाल-मजंत-माणिक्क-भक्खुल्ल-संतुट-मुदागाउल्लूरियाणेय-दीसंत-
12 सपल्लवं । पसरिय-जल-पूरमाणुल्लसंतग्गि-पूरंत-पायाल-संमेलियासेस-खुभंत-जंत-जवावत्त-संवत्तणी-संभमुक्कत-णायाणुसहुल्ल- 12
संतुट-णंभंत-देवंगणा-मुक्क-हुंकार-वाउज्जल्लवत्त-दिपंत-संवाडवं ति ॥ अवि य ।
णंभंत-तरंग-सुभंगुरयं वियरंत-समीण-महामयरं । दिपंत-समुजल-मणि-रणं दिट्ठं च समं रयणायरयं ॥

- 15 तं च दट्ठण वेला-महिलालिंगियं महाजलहिं भणियं कुवलथमालाए । 'अज्जउत्त, पेच्छ पेच्छ, 15
गंभीर-धीर-गरुओ होइ महत्थो वि अमय-णीसंदो । सामण्ण-दिण्ण-विहवो तुह चरियं सिक्खइ समुहो ।'
कुमारेण भणियं । 'पिण तुमं पि पेच्छ,
18 फुड-मुत्ताहल-दसणा फुरंत-णव-विहुमाहरा सामा । वेविर-तरंग-भज्जा तुज्झ णु सरिसा उयहि-वेला ॥' 18

- § २८०) तमो कुवलथमालाए भणियं । 'अज्जउत्त, अलं इमिणा बुहयण-परिणिदिण्ण इयर-बहुमण्ण अत्तणो
पसंसा-वयण-विथरेण, ता अण्णेण केण वि वियड्ढ-बुद्धि-परिकप्पिण्ण विणोण्ण अच्छामो'ति । कुमारेण भणियं 'पिण, सुंदरं
21 संलत्तं, तत्थ वियड्ढ-परिकप्पियाइं इमाइं विणोय-कारणाइं । तं जहा । पहेलिया बूढाओ अंतिमक्खराओ विंदुमइंओ अट्टा- 21
विडयं पण्डुत्तराइं पट्टाइं अक्खर-सुययाइं मत्ता-सुययाइं बिंदु-सुत्ताइं गूढ-चउत्थ-पाययाइं भाणियविवाओ हिययं पोम्हं संवि-
हाणयं गाहइं गाह्हा-रक्खसयं पढमक्खर-विरइयं ति । अण्णाणि य महाक्कवियर-कप्पियाइं कवि-दुक्कराइं पओयाइं ति । कुवलथ-
24 मालाए भणियं 'अज्जउत्त, जाइं तए भणियाइं इमाइं लक्खणं किं किं पि वा सरूवं' ति । कुमारेण भणियं । 'मुद्धे, सुणेसु 24
पहेलिया अंतिमक्खर-बूढाओ गोवाल-बालेसु वि पसिद्धाओ णजंति । सेसाणं पुण णिसुणेसु लक्खणं । अवि य ।
जत्थक्खराइं कीरंति बिंदुणो आहंमंतिं मोत्तुं । अत्थो उण साहिज्जइ सा बिंदुमइ ति णायव्वा ॥ तं जहा ।

- 27 तं वि ञं ञं ञं तु ञं ञं ञं ञं ञं वि ञं ञं वि ञं तु ञं तु ञं वि ञं ॥ 27
ञं ञं ञं ञं ञं ञं ञं ञं ञं ञं ञं ञं ञं ञं ॥

1) J हीरमाण, P जलकरिवरं for वणचरं, P लोलमाणकोमयराय, J सपुडुलं, P संपुडुलसंत, J कंत for कंत.
2) J वट्टिअ, J om. जअ, P रंहियं for रंजियं, J लिहअ for तुलिय, P वर for वण. 3) P णियत्तभिन्न, J om.
भिण्ण, J जुअलथं, J करिदंतजुअल. 4) J भोग for गोग, P जलदुमाणसजुयल, J जलवीई P जलवीयि. 5) J मज्जणवड्ढण,
P दिसामयंदानगाहण, J मिलिय for गलिय, J पयडपसरंतवेलावली for पयडपसरंतवेलावली. 7) J पसरंत for पसर,
P वीचीतरंग, J गंहाहिजंत P गंभज्जंत. 8) P दीयाणुणाथा, J णायाणुसारागयाणं, J पेहि पमुक्कंपमोक्कदाहा,
P पमोक्कदाहा, J विमुवेले P विसवेले, J रोसविणिभिण्ण. 9) J णक्खत्तसंघाविज्जंत, P विज्जंतं तं च माहयुक्क ति असेस,
J मुत्ताफुटुं, P मुत्ताहलुघाय, P कंतपहा. 10) P संघायरासीहिं, P णक्खावली, P घायतेल्लच्छलुल्ल. 11) P संसग्ग, J लोभ-, P
इयाणेयाणीरंगणाकूडसंखुद, P पायाल-भिज्जमाण्णक्कल्लसंतुट, J संखुद for संतुट, P गूलूरियाणेय. 12) J सपल्लवं P सपल्लव, J
ममहेलिया, P संतमुक्कंणायाणुसहुल्लसंतुड. 13) J संतुडवत्त, P हुंकारवाउज्जल्लवत्त, J वाउज्जल्लवंत, P संवाडवेत्ति. 14) P
णंभंततरंगसुभंगुरयं, J संभंगुरयं, P om. महा. 15) P adds च after भणियं. 16) P repeats धीर, P तरुओ for
गहओ. 17) P om. पिण, J om. पि and repeats पेच्छ. 18) J दंसगा, J मण (partly written between lines).
for णव, P कुज्जण for तुज्झ णु. 19) P इयरमहुण. 20) J om. ता, P बुद्धिपक्खिकप्पिण्ण, J repeats विणोण
21) P वियड्ढपरिकप्पियाइं, J adds करि (or परि) before कप्पि, J बूढाओ for बूढाओ, J अट्टाविअण्ण P अट्टाविडयं. 22) J
पट्टाहा P पयडं, J अक्खर-सुययाइं मत्ता-सुययाइं गूढ, P अक्खर-सुययाइं मत्ता-सुययाइं बिंदुसुत्ताइं, J om. बिंदुसुत्ताइं, P गूल्लवत्तपादाइं,
J भाणियविवाओ P भणोयदियाओ हिययं पोम्हं. 23) P पढमक्खर, P om. अण्णाणि य etc. सरूवं ति. 24) P मुद्धे
निंदुणेनु. 25) J संतिमक्खर-बूढाओ, P चूलाओ for बूढाओ. 26) J कीरंति for कीरंति, J आहंमंतिं पमोक्कं. 27) The
Mss. J & P have irregularly presented the symbols of bindus and vowels, so they are not reproduced
here. It may be noted that J does not give the *Śirorekha* or serifa but P gives it. In the text
the e are duly represented in the light of the verse for which they stand,

1 जह उण लद्धा तहं सा एसा पटिज्जह ।

तंमि महं बहु-जण-बलहंमि तं किं पि कुणसु सहि जेण । असईयण-कण्ण-परंपराएँ किस्ती समुच्छलह ॥

3 बत्तीसं-वरपुंसु वत्थ-समत्थेसु कुम्भहं सिलोओ । अहवा खप्परियासुं सो भण्णह अट्टविडओ ति ॥
तं जहा । लेखितव्यमित्यनन्तरमेव ।

स	मं	ल	ग	स	क	ण	र
प्र	नं	र्व	र्मा	जै	ज	ति	स
र्व	ग	मां	ह्यं	र्व	ह्या	का	णं
धा	स	ध	णां	नं	य	शा	नं

9 जह पुण बुद्धीए जाणियं तहभा पाढो पटिज्जए ।

सर्व-मंगल-मांगल्यं सर्व-कल्याण-कारणं । प्रधानं सर्व-धर्माणां जैनं जयति शासनं ॥

चत्तारि दोणिण तिणिण व चउयाओ जत्थ पुच्छिया पणहा । एकेण उत्तरेणं भणंति पणहुत्तरं तमिह ॥

12 किं जीवियं जियाणं को सद्दो वारणे विर्यंहुणं । किं वा जलमि भमराण ताण मंदिरं भणसु आतततं ॥

जह जाणह तओ 'कमलं' । इमं पुण पणहुत्तरं दइए, होइ बहु-वियप्यं । एकं समत्थयं, अवरं वत्थयं, अणं समत्थ-
वत्थयं, एक्कालावयं । पुणो लिंग-भिण्णं, विभत्ति-भिण्णं, काल-भिण्णं, कारय-भिण्णं, वयण-भिण्णं ति । पुणो सक्कयं, पाययं,

16 अवबंमंसो, पेसाहयं, मागहियं, रक्खसयं, मीसं च । पुणो आइउत्तरं बाहिरुत्तरं च सि । को गिरवसेसं भणितं तरह । गूढुत्तरं 15
साहेमो ।

पणहं काऊण तओ गूढं जा उत्तरं पि तत्थेय । पर-मह-वंचण-पडुयं तं चिय गूढुत्तरं भणियं ॥ तं जहा ।

18 कमलाण कत्थ जम्मं काणि व वियसंति पोंडरीयाइं । के काम-सराणिं चंद-किरण-जोणहा-समूहेणं ॥

जया पुण जाणियं तथा कमलाणं कत्थ जम्मं । के, जले । वियसंति पोंडरीयाइं । काइं, सराणि । तत्थ समत्थ-समत्थ-उत्तरं ।
के सराणि ।

21 जं पुट्टं तं दिज्जह अंधो विय णेय जाणए तह वि । तं पयड-गूढ-रहयं पट्टं भणणए अण्णं ॥ तं जहा ।

केण कथं सव्वमिणं केण व देहो अहिट्टिओ वहह । केण य जियंति जीया साहसु रे साहियं तुज्ज ॥

जह जाणसि, केण कथं सव्वमिणं । पयावइणा । कः प्रजापतिरुद्विष्टः । क इत्यात्मा निगद्यते । सलिलं कमिति प्रोक्तम् ।

24 असो तेण कथं सव्वं । ति ।

1 > P adds तं before जह, J पुण for उण, P पटिज्जए. 2 > P कुण साहि जेण, P असतीयणकन्नपरंपराणं किस्ती, J समु-
च्छलहं. 3 > P बत्तीसुं, P वत्थमवत्थेसु, J कुम्भए, J खप्परियासुं P खप्परिआसुं. 4 > P तं जहा । लेखितव्यमित्यनन्तरमेव । J °मित्या-
नन्तरमेव. 5 > It is uncertain from the mss. that at what place the diagram is to be put. In the
diagram and also in the subsequent verse वं is often written as व्वं in both the mss. Some syllables
are wrongly written in the diagram. 9 > P adds तं जहा before जह पुण, P दाऊण for पुण, J om. पटिज्जए.
10 > P सव्व for सर्वं in both places, J सासनं P शासनं. 11 > J has योजनीयः before चत्तारि; possibly the diagram
according to J would come after योजनीयः, J om. व, P बुद्धिआ for पुच्छिया, P तंति for तमिह, J adds तं जहा
after तमिह. 12 > P किं जीवं णं जीवाणं, J वारण, P किं च जलमि भमंताण मताण मंदिरं होइ भमराणं for the second line.
13 > J om. जह जाणह तओ कमलं, P om. दइए, P बहुविहं अप्पं, J om. अवरं वत्थयं. 14 > P om. एक्कालावयं, P विहत्तिभिन्नं,
P repeats कालभिन्नं, P कारयतिन्नं, P adds सव्वभिन्नं before ति, P सक्कयं पुणो पायं. 15 > J अवबंमंसो P अवबंमंसं, P आनि
उत्तरं, J चेति for चत्ति, P गिरवसेसं, P तरहं । गूढुत्तरं साहामो. 17 > P गूढुत्तरं, J om. तं जहा. 18 > J उ for व, P पोंड-
रीयाणि, P कामरसाणिच्चं तं किर जोण्हासमूहेण ॥ 19 > P तदा for तथा, P काइ, J om. तत्थ etc. to केसराणि. 21 > P ज
पट्टं दंसिज्जह, J पट्टं P पट्टं. 22 > J देहो अहिट्टिओ, P जीयति जिया साहसु मे याहितं तुज्ज. 23 > P adds तओ before केण,
P °पतिरुद्विष्टः । कः इत्यात्मा, P प्रोक्तं । अतो, J केण for कथं, कः प्रजापतिः etc., obviously three pādas of a śloka.

- 1 जत्थ सिलेसो विहडइ चालिजंतेण अक्खरेणेय । बडिए पुण घडियं चिय तं भण्णह अक्खरजुयं ॥ तं जहा । 1
- पञ्चग-धूय-गंधा सेविजंती सुरेहि जूडेहिं । गिम्हे वि होइ सिसिरा सा वडलावली रम्मा ॥
- 8 जइ जाणसि, ता सा देवकुलावली रम्मा । 3
- जत्थ य लुप्पइ किरिया मत्ता-भावेण होइ तब्भावो । तं चिय मत्ता-चुयं बिंदुचुयं पि एमेव ॥
- पयइ-धवलाहं पहिओ पवास-पञ्चागओ पिययमाण । तरलच्छाहं सयण्हो सरए वयणाहं व जलाहं ॥
- 8 जइ पुण जाणसि, पियइ वयणाहं व जलाहं ति । बिंदु-चुयं जहा । 6
- असुहं जं असुहं दुग्गंधाणं च होइ दुग्गंधं । बुहयण-सहस्स-परिणिदियं च को जगलं खाइ ॥
- लइयम्मि जंगलं ति ।
- 9 गूढ-चउत्थ-पायं णामेणं चेय लक्खणं सिट्ठं । आइम-पपसु तीसुं गोविजइ जत्थ तुरिय-पयं ॥ 9
- गूढ चउत्थ-पायं जहा ।
- सुण्णो भमामि पुसो आसणं मञ्च-लिंग-पत्तो हं । कण्णं दे सुण वयणं
- 12 किंतु गूढो चउत्थो पाओ । जइ पुण णजइ एत्थेय चिट्ठइ । 'सुभए आलिंगणं देसु' । सेसाणं पुण लक्खणं णामेणं चेय 12
- णायव्वं । अणिएच्चिया जहा ।
- जइ धम्मिजण भणियं दारे डाऊण देसु भिक्खं ति । ता कीस हलिय-धूया तुरियं रच्छए णिक्खंता ॥
- 15 भिक्खा-विणिग्गए धम्मिए मढे संकेओ ति । हियय-गाहा जहा । 15
- गोसे चिय हलिय-वहू पढमं चिय णिग्गया घरदारं । दट्ठं कलंब-कुसुमं दुहिया रोसुं समादत्ता ॥
- संकेय-भंगो दइएण साहिण्णाणं कलंबं ठवियं ति हिययं । पोम्हं जहा ।
- 18 ण कयाइ तेण रमिया सयणे सुयणे वि णो अहं वसिया । णामं पि णेय गहियं कीस पउत्थं तयं भरिमो ॥ 18
- पोम्हं पुण ।
- सो चेय मए रमियो वसिया वच्छत्थलम्मि अह तस्स । दइयं ति जो भणतो सो चेय महं भरउ णाहो ॥ ति ।
- अ गाहदं ति । जहा । 21
- अवहरियज्जण लज्जं गेणहसु कंठम्मि किं व ण सुयं ते । अम्भत्थियो ण लब्भइ चंदो व्व पिओ कला-णिलओ ॥
- एत्थं पुण अण्णं गाहदं ।
- 24 विट्ठो णयणाणंदो णिवुइ-जणो करेहिं वि छिवंतो । अम्भत्थियो ण लब्भइ चंदो व्व पिओ कला-णिलओ ॥ ति । 24
- संविहाणयं जहा ।
- अइ भणसु तं अलज्जं परलोय-बिरुदयं इमं काउं । घोरे तमम्मि णरए गंतव्वं संबलि-वणम्मि ॥
- 27 एत्थं संविहाणयं । केण वि दूई पेसिया पत्थेउं । णाइया कुबिया पडिवयणं देइ । किर परदार-गमणेण णरए कूड-सिबली-वणे 27
- कुम्भइ ति । इओ ताए पुण तस्स संकेयं दिणं । परलोओ एस वूई । इमिणा कजेण गंतव्वं तए एत्थ संबली-वणे । काए
- पुण वेलाए । घोरे तमम्मि । अरे पुरिस ए तए ति, अहं तत्थ बच्चीहामि ति । एत्तिओ संविहाणो ति । गाहा-रक्खसं जहा ।
- 30 एत्तियमेत्तं चिय से भणमाणो सुच्छिओ पहिओ ॥ 30
- इमं च पच्छिमदं । जा काइ भुयणे गाहा, तीय रक्खसो इव सव्वत्थेसु लग्गइ ति । पढमक्खर-इइयं जहा ।
- दाण-दया-दक्खिण्णा सोम्मा पयईए सव्व-सत्ताणं । हुंसे व्व सुद्ध-पक्खा तेण तुमं देसणिजासि ॥
- 1 > J सिलेसो, J चालिजंतेण, P विट्ठतेण अक्खरेणेय, P अक्खरजुयं. 2 > J पच्छिक्खचूम, P गंधो सेविजंता, P om. जूडेहिं which is added on the margin in J, P गिम्हेहिं होति. 3 > P देवलावली. 4 > P लुप्पति, P होति, J तब्भावे, J चिय, P बिंदुचुयं पि येमेय ॥ 5 > P पियमाण, P सयणहा, J मऊलहं for व जलाइ. 6 > J जे for जइ, P जाणसि, P वयणाइ जाणाइ ति बिंदुचुयं जहा. 8 > P जंगलं for जगलं, J om. लइयम्मि जंगलं ति. 9 > J चउत्थपादेणं चेअ. 11 > P adds आ after एसो. 12 > J किन्ता (?) for किंतु, P चउत्थपादो, P एत्थयं, P सुइए, P सेसाण उण. 13 > J अणिएच्चिया, P अणिएव्वे जहा, J om. जहा. 14 > P धम्मिजण, J डाऊ देसु, P तुरिय. 15 > J विणिग्गएण. 16 > P घरदारं, J दट्ठण P दट्ठं, J रोसुं P रोसु. 17 > P inter. दइएण and साहिण्णा (चा) ण, P हितयं, J पोम्हं for पोम्हं. 18 > P गहितं कीसं, P भणिमो. 19 > J पुम्हं for पोम्हं, P पोम्हमुण. 20 > J चेव, P दहां, P भण तो सो चेय, P om. ति. 22 > P कंठम्मि किं व ण सुअते, P व्व कउकलाणउणो. 24 > P णिवति व जणो, P भि for वि, P व्व कलाणउणो ॥ 25 > J संविहाणयं. 26 > J अइ for अइ, P अलज्ज, J om. इमं. 27 > J संविहाणयं, J om. पत्थेउं । णाइया, P पडिवयण न देइ, P परदार, P कूडसबलावणे कुम्भइ. 28 > J om. ति, P om. इओ, J om. ताए, P सकियं दियं दिअं, P om. परलोओ एस etc. to संवाहाणो ति. J संवाहाणो (? for संविहाणो). 30 > P एत्तियमेत्तं, P पुच्छिओ for सुच्छिओ. 31 > J om. च, P पच्छदं, J repeats जा, J P repeat तीय, P रइतं. 32 > P सोमा पयतीय सव्वभत्ताणं ।

- 1 तत्थ य पाय-पदमखराहं 'दासो हं' ति कामयतेण लिहिऊण पेसिया गाहा । 1
- एवं इमाई एर्यं अण्णाह भि होति बहु-बियप्पाहं । छप्पणय-बुद्धि-वियप्पियाई मह-वित्थर-कयाहं ॥
- 3 ता साहसु पिए, इमाणं मज्जे केण विणोएण चिट्ठामो'त्ति । कुवलयमालाए भणियं । 'अजउत्त, सच्चाहं चेष इमाई सुंदराहं, 3
ता चिट्ठेतु ताव इमाहं । अणं किंचि देवं विण्णवेमि, जइ देवो पसायं करेह' । कुमारेण भणियं 'पुच्छ वीसत्यं, णत्थि ते
अणाहक्खणीयं' । कुवलयमालाए भणियं 'अजउत्त, एत्तियं साहसु । कहं तए जाणिओ एस पायय-बुत्ततो, कहं इमं देसंतरं
6 पत्तो, कहं वा पायओ पूरिओ'त्ति । कुमारेण भणियं 'सुंदरि, णिसामेसु । 6
- § २८१) अत्थि अउज्जाए ददवम्मो णाम राया । सामा देवी । तीय पुत्तो अहं । दिव्व-तुरयावहरिओ वणं पत्तो
तत्थ य विट्ठो महारिसी, सीहो, दिव्व-पुरिसो य । तेण रिसिणा साहियं पुव्व-जम्मं पंचणह वि जणाणं । तं जहा । चंडसोमो कोव
9 जणिय-वेरगो उवसंतो धम्मणंणस्स पायमूले कोसंबीए पुरवरीए । माणभदो वि । एवं चिय मायाह्चो, लोहदेवो, मोहदत्तो 9
तओ एवं च तवं काऊण कय-जिणवर-धम्म-संकेया कालं काऊण पउमे विमाणे समुप्पणा । तत्थ वि धम्म-तित्थयर-संबो-
हिया कय-सम्मत्ता पुणो समागया जंबुहीवं । तत्थ य जो सो लोहदेवो सो इहं चंपा-पुरवरीए वणिउत्तो जाओ । तम्मि जाण-
12 वत्ते विणिगगओ पउमकेसरेण देवेण संबोहिओ, पव्वहओ, ओहि-णाणी जाओ । तेण वि णिरुवियं जाव चंडसोमो सीहो 12
जाओ, माणभदो अउज्जाए अहं जाओ । तओ अवहरिओ पउमकेसरेण मोहदत्तेण, रिसिणो य पासं संपाविओ । तेण य
भगवया साहिओ एस सच्चो बुत्ततो । गहियं च मए सम्मत्तं, जहा-सत्तीए किंचि देस-विरइय-वयं च । तत्थ य सीहेण
15 कयं अणत्तणं । पुच्छिओ य मए भगवं 'सो उण मायाह्च-देवो कत्थ ववण्णो संपयं' । साहियं च भगवया । 'दाहिण-समुह- 15
वेला-वण-लग्गा विजया णाम पुरवरी । तत्थ य विजय-राह्णो धूया कुवलयमाल' ति । मए भणियं 'भगवं, तीय को
होही उवाओ सम्मत्त-लंमे' ति । भगवया भणियं 'तुमं चेष पडिबोहेसि' । मए भणियं 'भगवं, किं मम सा वयणं
18 करेह' । भगवया भणियं 'तए सा परिणेषवा' । मए भणियं 'केण उवाएण' । भगवया साहियं 'तीय पुरिस-देसिणीए 18
अण्णो मुणिवरो सयलं पुव्व-भव-बुत्तंतं साहेइ सुय-गाण-पभावेणं । ता ताणं पंचणहं जणाणं एका एसा । अण्णे चत्तारि
अण्णत्थ उववण्णा । ताणं च मज्जे एकेण परिणेषवा, ण अण्णेण । तओ सा तप्पभिइं पाययं लंबेहिइ पुव्व-भव-बुत्तंत-
21 सूययं । तं च तुमं एको जाणिहिसि, ण उण अण्णो, तेण तुमं तं परिणेहिसि । पुणो संजाय-पीह-त्रीसंभ-परूह-पणयाए 21
संभरिऊण पुव्व-जम्म-बुत्तंतं, काऊण धम्म-कहं, जणिऊण वेरगं, णिदिऊण संसार-वासं, पसंसिऊण सम्मत्तं सच्चवा तम्मि
काले पओय-पुव्वयं तहा करणीयं जहा णाह्वत्तह सम्मत्तं' ति । तओ मए पुच्छियं 'भगवं, एस पुण पउमकेसरो देवो
24 कत्थ उववज्जिहिइ' ति । भगवया भणियं 'एस तीए चेष कुवलयमालाए पुत्तो पुहइसारो णामं होहिइ ति 24
तओ तुमहेहि पडिबोहेयवो' ति । तं च सोऊण पिए, इमं देसंतरं संपत्तो किर तुमं पडिबोहेमि ति । एवं च भिण्णो
पायओ । परिणीया एत्थ तुमं ति । ता पिए, संपयं इमं जाणिऊण पडिबज्जसु सम्मत्तं ।
- 27 § २८२) तं च केरिसं । अबि य । 27
- दुत्तार-दूर-तीरे फुडिए जाणम्मि बुज्जमाणस्स । पुरिसस्स उयहि-मज्जे जह फलहासायणं सरणं ॥
तह संसार-महोयहि-दुत्तारुत्तार-विसम-दुह-सलिले । जीवस्स होइ सरणं सम्मत्तं फलहयं चेष ॥
- 30 बहु-जोयण-विस्थिण्णे अडई-मज्जम्मि भीरु-पुरिसस्स । भीयस्स अयंडे चिय सत्थो पुरओ जहा होइ ॥ 30
संसाराडइ-मज्जे बहु-दुक्ख-सहस्स-सावयाइण्णे । जीवस्स णत्थि सरणं मोत्तुं सत्थं व सम्मत्तं ॥
जह कंठय-रुक्ख-समाउलम्मि गहणम्मि णट्ट-मग्गस्स । अबियाणिय-देस-दिस्सी-बिभारा-मूढस्स वर-मग्गो ॥
- 33 तह जीवस्स वि सुहरं कुसत्थ-मग्गोसु मूढ-हिययस्स । सिद्धि-महापुरि-गमियं मग्गं पिब होइ सम्मत्तं ॥ 33

1 > P ते for ति, J कामयते P भावयतेण. 2 > J adds विह after बहु, P मतिवित्थर, J कराहं ॥. 3 > P साहसु पिए P adds ति before भणियं. 4 > P ता for ताव. 5 > P अणाविक्वणीयं, P adds वा before इमं 7 > J adds अण्ण after अत्थि, P ददवम्मो महाराया, P तुरियावहरओ वणसंपत्तो. 8 > P तत्थ रिट्ठो, P रिसिणासीहियं, P को for कोव. 9 > P वेरगो, J कोसंबीपुर. 10 > P om. च, P om. काऊण after कालं, J om. वि, P तित्थयर बोहिया कयसमत्तण. 11 > P जंबुयदीवं, J om. य, P लोहदेवो सो इय, P वणिउत्ता जाओ, P तम्मि य जाणवत्त वि. 12 > P संबोहिओ, P सोहो for सीहो. 13 > P om. जाओ after अहं, P रिसिणो य, P संपावओ, P om. तेण य भगवया साहिओ. 14 > J अच्चो for सच्चो, P om. च, J किंच P किंचि, J देसविरइयवयं. 15 > J adds य before कयं, J सोऊण for सो उण, P उववण्णो for ववण्णो, J om. संपयं, P भणियं for साहियं. 16 > J पुरी for पुरवरी, J भयवं, P adds य before को. 17 > J होहि P होति, P उवाय, J लंमो, P तुमं वियपडिबोहेसु, J कयणं for सा वयणं. 18 > P adds भगवं before केण, P देसिणीय. 19 > J साहेहिति P साहेति, J प्यभावेणं, J om. ता. 20 > P adds एके before एकेण, P अण्णेण, J तप्पभूई, J लंबेहिति P बेहिति, P बुत्तंतं. 21 > P जाणहिसि, P om. तं, J P पीति. 22 > J om. पुव्वजम्मबुत्तंतं काऊण, J धम्मस्स कहं, P वेरयं for वेरगं. 23 > J णाह्वत्तह सा सम्मत्त, P णात्तिवत्तं इ, J भयवं P भगव, P एस for पुण. 24 > J P उववज्जिहिति, J om. ति, P चेष कवलयं, J repeats पुत्तो. 25 > J तत्थ for तओ, J तुमहेहि P तुमहेहि, P चेष for च, J पत्तो for संपत्तो, P पडिबोहेयव ति. 26 > J om. एत्थ, J पिए for पिए, J पडिबज्ज सम्मत्तं. 27 > P जं for तं, P adds से after च, P om. अवि य. 28 > P मज्जमाणस्स, P उहिमज्जे, P फलवायणं. 29 > P महोमहिदुत्तारो विसमदुहसयासलिले, J सुह for दुह, P चेष. 30 > P अडमज्जंमि, J सत्थं for सत्थो. 32 > P अबियाणयदेसदिसाविहायं, P मग्गो. 33 > J कुमग्गलग्गो for कुसत्थमग्गो.

- 1 जह होइ मरुथलीसुँ तण्हा-वस-सूसमाण-कंठस्स । पहियस्स सीयल-जलं होइ सरं पंथ-वेत्तम्मि ॥ 1
तह संसार-मरुथलि-मज्जे तण्हाभिभूय-जीवस्स । संतोस-सीयल-जलं सम्मत्तं होइ सर-सरिसं ॥
- 3 जह दुकाले काले असण-बिहीणस्स कस्सइ णरस्स । छायस्स होइ सहसा परमणं किं पि पुण्णेहिं ॥ 3
तह दूसमाए काले सुहेण हीणस्स एस जीवस्स । दुहियस्स होइ सहसा जिण-वयणं अमय-णीसंदं ॥
जह णाम कोइ पुरिसो सिस्सिरे पवणेण सीय-वियणत्तो । संकोइयंगमंगो जलमाणं पेच्छए जलणं ॥
- 6 तह चेष एस जीवो कम्म-महासिसिर-पवण-वियणत्तो । दुक्ख-विमोक्खं सहसा पावइ जलणं व जिण-वयणं ॥ 6
जह एत्थ कोइ पुरिसो दूसह-दारिइ-सोय-भर-दुहिओ । हेलाए च्चिय पावइ पुरओ चिंतामणिं रयणं ॥
तह णारयादि-दारिइ-वूसिओ दुक्खिओ इमो जीवो । चिंतामणिं भव पावइ जिण-वयणं कोइ तत्थेय ॥
- 9 जह कोइ हीरमाणो तरल-तरंगेण गिरि-णइ-जलेण । कह कह वि जीय-सेसो पावइ तड-विडव-पालंबं ॥ 9
तह राग-दोस-गिरि-णइ-पवाह-हीरंत-दुक्खिओ जीवो । पावइ कोइ सउण्णो जिण-वयणं तरुवरालंबं ॥
जह कौत-सत्ति-सव्वल-सर-वर-खग्ग-प्पहार-बिसमम्मि । पुरिसस्स होइ सबरे णिवारणं ताण संणाहो ॥
- 12 तह दुक्ख-सत्थ-पउरे संसार-रणंगणम्मि जीवस्स । जिण-वयणं संणाहो णिवारणं सव्व-दुक्खाणं ॥ 12
जह दूसह-तम-भरिए णट्टालोयम्मि कोइ भुवणम्मि । अंधो भव अच्छइ णरो समुग्गओ जाव णो सुरो ॥
अण्णाण-महातम-संकुलम्मि अंधस्स तह य जीवस्स । कत्तो दंसण-सोक्खं मोत्तुं सूरं व जिण-वयणं ॥
- 15 जह सयल-अलिय-हुयवइ-जाला-मालाउलम्मि गुबिलम्मि । वित्थिण्णं होइ सरं सहसा पुरिसस्स भीरुस्स ॥ 15
तह चेष महाओहाणलेण संतावियस्स जीवस्स । सव्वंग-गेबुइ-करं जिण-वयणं अमय-सर-सरिसं ॥
जह दूर-टंक-लिण्णे कह वि पमाएण णिवडमाणस्स । जीवस्स होइ सरणं तड-तरुवर-मूल-पालंबो ॥
- 18 तह दूर-णरय-पडणे पमाय-दोसेहिं णिवडमाणस्स । अवलंबो होइ जियस्स णवर मूलं व सम्मत्तं ॥ 18
इय जह सयले भुवणे सव्व-भएसुं पि होइ पुरिसस्स । सरण-रहियस्स सरणं किंचि व णो दीण-विमणस्स ॥
तह णरय-तिरिय-णर-देव-जम्म-सय-संकुलम्मि संसारे । जीवस्स णरिथ सरणं मोत्तुं जिण-सासणं एकं ॥
- 21 § २८३) इमं च एरिसं जाणिऊण दइए, किं कायव्वं । अवि य । 21
फलयं व गेण्हसु इमं लग्गसु अवलंबणे व्व णिवडंती । सलिलं व पियसु एयं ओयर पंथम्मि व पणट्टा ॥
चिंतामणिं व गेण्हसु अहवा उवसप्प कप्परुक्खं वा । णिय-जीवियं व मण्णसु अह जीवाओ गरुययरं ॥
- 24 तओ पिए, केरिसं च जिण-वयणं सव्व-धम्माणं मण्णसु । अवि य । 24
जह लोहाण सुवण्णं तणाण अण्णं धणाण रयणाइं । रयणाण काम-रयणं तहेय धम्माण जिणधम्मो ॥
जह णंदणं वणाणं दुग्गणं सिरिचंदणं मुणीण जिणो । पुरिसाण चक्कवट्टी तहेय धम्माण जिणधम्मो ॥
- 27 णागाणं णाहंदो चंदो णक्खत्त-तारयाणं च । असुराणं असुरिंदो तहेय धम्माण जिणधम्मो ॥ 27
देवाणं देविंदो जह व णरिंदाण णरवरो सारो । जह मयवई मयाणं सारो धम्माण जिणधम्मो ॥
एरावणो गयाणं सारो खीरोयही समुहाणं । होइ गिरीण व मेरू सारो धम्माण जिणधम्मो ॥
- 30 जह वणाणं सेओ सुरही गंधाण होइ वरयरओ । फरिसाणं मिउ-फरिसो धम्माण वि एस जिणधम्मो ॥ 30
अण्णं च दइए, एस स जिणवर-धम्मो केरिसो । अवि य ।
जह होइ जलं जलणस्स वेरियं हत्थिणो य जह सीहो । तह पावस्स वि एसो जिणधम्मो होइ पडिवक्खो ॥
- 33 जह जलणो कट्ठाणं मयरो मच्छाण होइ णिण्णाओ । जह मयवई पसूणं एयं पावाण जिणधम्मो ॥ 33

1 > J सूसमाणस्स, J writes कंठस्स on the margin and ठ is just a fat zero. 2 > P मरुथली-, P संतोसवसीय लयजलं. 3 > P वि for कस्सइ. 4 > P सुहेण, P सहस्स for सहसा. 5 > P को वि पुरिसो, P संकोवियंगमंगो. 6 > P जंम for कम्म. 7 > P inter. कोइ & एत्थ, J हेणय, P चिंतामणी. 8 > P णरयाइदारिइभूमिओ दुक्खिओ जिओ दीणो, P कोति तत्थिय ॥. 9 > J सरल for तरल, P जह for कह, J विअड-पालंबं, P पालंबं ॥. 10 > P तह कोहरायदोम, P -णति-, P हीरं दुरियओ, P सउणो, P तरुवरालंबं. 11 > P नइ for जह, J कौति, P खग्गहारोवसमंति, P समरे for सबरे. 14 > J दंसेण सोक्खं, P व्व for व. 15 > P विउलंमि for गुबिलम्मि, J विच्छिण्णं, P सहसा ण भीरुस्स. 16 > P चेष, P -गेबुइयरं, J रस for सर. 17 > P दूरकंटकिन्नो, P जह for तड, P सालंब for पालंबो, P has an additional verse here, and it runs thus: तह दूरणरयवडणे पसमाय दोसेहिं णिवडमाणस्स । जीवस्स होइ (?) सरणं जह तरुवरमूलसालंबं ॥. 18 > P -वडणे, J -वेसेहिं. 19 > P इह for इय, P णे for णो. 22 > J adds मूलं व before गेण्हसु, J व्व for व, P पियसु, JP उयर for ओयर-, J यणट्टा for पणट्टा. 23 > P चिंतामणिं व्व, J उअसप्प, P कप्पं रुक्खं व ।, J अहवा for अह, P जीवाउगुक्खयरं. 25 > P सुअन्नं नेणाण, P तहदो for तहेय, P जिणवयणं ॥. 26 > P जह चंदणं, P तहेव, P जिणधमो ॥. 27 > णायाणं, P गोविंदो for णाहंदो, P तहेव. 28 > P णरिंदाणराणवयरओ, P मयवती. 30 > P जह दिजाणं से तो सुरही, P वरवरओ, P मिऊ, 31 > J om. स, P जिणधमो, P om. केरिसो. 32 > J om. य, J जहा, P leaves a gap of two letters and has एस for होइ. 33 > P मयवती, J धम्माण for पावाण.

- 1 जह गख्खो सप्याणं मज्जारो मूसयाण जह बेरी । वग्घो इव वसहाणं तह भो पावाण जिणधम्मो ॥ 1
सूर-तमाण खिरोहो छाया-धम्मण जह व लोगम्मि । एसो वि तह खिरुद्धो कम्मणं होइ जिणधम्मो ॥
- 3 तावेण पारय-रसो ण वि णज्जइ कं दिसं समल्लीणो । जिण-वयण-ताव-तत्तं पावं पि पणस्सए तह य ॥ 3
जह गिहय-वज-पहार-पढण-दल्लिओ गिरी वि भिज्जेज्ज । तह जिणवरोवएसा पावं पि पणस्सए वस्सं ॥
जलण-पहओ वि रुक्खो पुणो वि सो होज्ज किसलय-सणाहो । जिण-वयण-जलण-दद्वस्स कम्मणो णत्थि संताणं ॥
- 6 मुक्को वि पुणो बज्जइ णरवइ-वयणेहिं कोइ गियलेहिं । जिण-वयणेण विमुक्को बंधाओ ण बज्जए जीवो ॥ 6
पज्जलइ पुणो जलणो धूलि-कळिबेहिं पुरिओ संतो । जिण-वयण-जलण-सित्तो मोहग्गी सब्बहा णत्थि ॥
अण्णं च पिए, एरिसं इमं मण्णसु जिण-धम्मं । अवि य ।
- 9 जह करि-सिरम्मि मुचाहलाहं फणिणो य मत्थए रयणं । तह एयम्मि असारे संसारे जाण जिणवयणं ॥ 9
जह पत्थराओ कणयं वेपइ सारो दहीओ णवणीयं । संसारम्मि असारे गेण्हसु तह च्चेय जिणधम्मं ॥
पंकाउ जहा पउमं पउमाउ महु महुउ रस-मेउ । णिउणं गेण्हइ भमरो गेण्हसु लोयाओ सम्मत्तं ॥
- 12 गज्जंकराओ कणयं खार-समुहाओ रयण-संघाओ । जह होइ असाराउ वि सारो लोयाओ जिणधम्मो ॥ 12
§ २८४) अण्णं च पिए,
भवणम्मि जह पइवो सूरु भुवणे पयासओ भणिओ । मोहंघयार-तिमिरे जिणधम्मं तह वियाणासु ॥ एरिसो य
अत्थाण होइ अत्थो कामो एयाण सब्ब-कामाण । धम्मण होइ धम्मो मंगल्लाणं च मंगल्लं ॥
पुण्णाण होइ पुणं जाण पवित्ताण तं पवित्तं ति । होइ सुहाण सुहं तं सुंदरयाणं पि सुंदरयं ॥
अच्चब्भुयाण अच्चब्भुयं ति अच्चैरयाण अच्चैरं । सेयाण परं सेयं फलं फलाणं च जाणेज्जा ॥
- 18 तओ पिए, धम्मं तिथयराणं, 18
जह आउराण वेज्जो दुक्ख-विमोक्खं करेइ किरियाए । तह जाण जियाय जिणो दुक्खं अवणेइ किरियाए ॥
जह चोराइ-भयाणं रक्खइ राया इमं जणं भीर्यं । तह जिणराया रक्खइ सब्ब-जणं कम्म-चोराण ॥
- 21 जह रंभइ वच्चंतो जणओ अयडेसु तरलयं बालं । जिण-जणओ वि तह खिय मच्चं रंभे अकजेसु ॥ 21
जह बंधुयणो पुरिसं रक्खइ सत्तुहि परिहविजंतं । तह रक्खइ भगवं पि हु कम्म-महासत्तु-सेण्णस्स ॥
जह जणणी किर बालं थणयच्छीरेण णेइ परियाहिं । तह भगवं वयण-रसायणेण सब्बं पि पोसेइ ॥
- 24 बालस्स जहा धाई णिउणं अजेइ अच्छिवत्ताई । इय णाण-सलागाए भगवं भन्वाण अजेइ ॥ 24
दइए, तेण तं भगवंतं धम्म-देसयं कइं मण्णह । अवि य ।
मण्णसु पियं व भायं व मायरं सामियं गुरुयणं वा । गिय-जीवियं व मण्णह अहवा जीवाओ अहिययरं ॥ अवि य ।
- 27 हिययस्स मज्ज दइओ जारिसओ जिणवरो तिहुवणम्मि । को अण्णो तारिसओ हूं णायं जिणवरो च्चेय ॥ सब्बहा । 27
जइ मं मण्णसि मुहे कज्जाकज्जाण जाणसि विसेसं । जइ इच्छसि अप्प-हियं सुंदरि पडिवज्ज जिण-वयणं ॥
जइ जाणसि संसारे दुक्खाहं अणोर-पार-भीमाहं । जइ णिब्वेओ तुमहं सुंदरि ता गेण्ह सम्मत्तं ॥
- 30 जइ सुमरसि दुक्खाहं मायाइच्चत्तणम्मि पत्ताहं । जइ सुमरसि णिब्वेओ सुंदरि ता गेण्ह सम्मत्तं ॥ 30
जइ सुमरसि कोसंबिं जइ जाणसि धम्मणंदणो भगवं । जइ सुमरसि पव्वजं सुंदरि पडिवज्ज जिणधम्मं ॥
जइ सुमरसि संकेओ अवरोप्पर-खिरइओ तहिं तइया । सम्मत्तं दायव्वं ता सुंदरि गेण्ह तं एयं ॥
- 33 जइ सुमरसि अण्णाणं पउम-विमाणम्मि देवि परिवारं । ता सब्ब-सोक्ख-मूलं दइए पडिवज्ज जिणधम्मं ॥ 33

2 > J कयोप्पम्माण for छायाधम्मण, J लोअम्मि, P जहा for वि तह. 3 > P तोवेण परिय, P पावं मि विणासए.
4 > P दल्लिरो, P वि भज्जेज्ज, J जिणवरोवएसं पहवं पावं, J वस्स ॥ 5 > P जलणेण कट्टरुक्खो, P किलयसणाहो, P किं पुणो for
कम्मणो. 6 > P inter. पुणो & वि, P णरवय- , P मुक्को for विमुक्को, P बंधए for बज्जए. 7 > P जणवयणजलयसित्तो. 8 >
P सं for इमं. 9 > P -सिरिम्मि, P repeats संसारे, P om. जिण, J धम्मो for वयणं. 10 > P तं for तह. 11 > P महुअ,
J रसहेउ P रसमेओ. 12 > P असारो तो वि. 14 > P तह वियाणा ॥. 15 > P अत्थीण, P धम्मा for धम्माण. 16 > P
सुहयं for सुहं तं. 19 > P आउरा वेज्जो दुक्खं करेइ. 20 > J चोराति- P चोराउभयं, P भव्वजणकम्म- . 21 > P जह इं रुमइ,
J खिय भयवं रुमहे अयजेसु. 22 > P पुरिसो, P सत्तूण. 23 > P णेय परियाहिं, P रसायणेण भव्व पि पासेइ. 24 > P धाई,
P -सिलागाए भगव. 25 > P om. धम्म, P om. कइं, P वण्णह for मण्णह. 27 > P हिअस्स, P जारिसो, P त्तिभुवणम्मि, P
हुं, P चैव. 28 > J जह इमं, P om. one वज्जा, P विसिसं, P धम्मं for वयणं. 29 > J -भीआहं । 30 > P सुमरं सि
तं दुक्खं मायारच्चव्वणं पि जं पत्तं । P om. second line जइ सुमरसि etc. 31 > J धम्मनिदणो भयवं । 32 > सुंदर गेण्ह तं.

- 1 जह तं जाणसि मुद्धे विट्ठो चंपाप धम्म-तिथ्ययो । गिसुओ धम्मधम्मो पडिवजसु ता जिणाणं ति ॥ सम्बहा । 1
जह जाणसि सुंदरमंगुलाण दिट्ठाण दोण्ह वि विसेसं । ता सयल-लोय-कळाण-कारणं गेण्ह जिणवयणं ॥ ति ।
- 3 इमं च गिसामिऊण कुवलयमालाप संलत्तं । 3
तं पाहो तं सरणं अज्जं चिय पावियं मए जम्मं । अज्जं चय कयथा सम्मत्तं जेण मे लद्धं ॥
ति भणिऊण गिवडिया कुमारस्स चलण-जुवले । कुमारेण भणियं ।
- 6 उण्णमसु पाय-पडिया दइए मा जूर इयर-जीओ व्व । लद्धा तए जिणाणं आणा सोक्खाण संताणं ॥ 6
ति भणमाणेण उण्णामियं वयणयं । भणियं च कुवलयमालाप ।
'जयइ जय-जीव-जम्मण-मरण-महादुक्ख-जलहि-कंतारे । सिव-सुह-सासय-सुहओ जिणधम्मो पायओ लोए ॥
- 9 जयइ जिणो जिय-मोहो जेण इमो देसिओ जए धम्मो । जं काऊण सउण्णा जम्मण-मरणउ मुचंति ॥ 9
जयइ य सो धम्म-धणो धम्म-रुई धम्मणंदणो भगवं । संसार-दुक्ख-तवियस्स जेण धम्मो महं दिण्णो ॥
मूढो महिला-भावे दियलोग-सुओ परोप्पर-विउत्तो । अम्ह जिओ पडिबुद्धो जिणधम्मो तुम्ह वयणेहिं ॥'
- 12 ति भणतीय पसंसिओ कुमारो ति । 12
§ २८५) जाव य एस एत्तिओ उल्लावो ताव समागया पडिहारी । गिवेहयं च तीए 'देव, तुवारे लेह-वाहओ चिट्ठइ' । कुमारेण भणियं । 'लहुं पेसिहि' ति भणिए णीहरिया पडिहारी, पविट्ठा य सह तेण्ये । पणमिओ लेह-वाहओ,
- 15 पुच्छिओ य कुमारेण 'कओ आगओ' । भणियं च तेण 'अओज्जा-पुरवरीए' । 'अवि कुमलं तायस्स, दढ-सरीरा अंवा' । 15
तेण भणियं । 'सव्वं सव्वत्थ कुमलं' ति भणमाणेण पणामिओ लेहो, वंदिओ य उत्तिमंगेण, अवणीया मुद्दा, वाइउं पयत्तो । अवि य ।
- 18 'सत्थि । अउज्जापुरवरीओ महारायाहिराय-परमेसर-दढवम्मे विजयपुरीए दीहाउयं कुमार-कुवलयचंदं महिंदं च सत्तिणेहं 18
अवगूहिऊण लिहइ । जहा । तुह विरह-जलिय-जालावली-कलाव-करालिय-सरीरस्स णत्थि मे सुहं, तेण सिग्घ-सिग्घयरं
अवस्सं आगतव्वं' ति । 'गिसुयं कुवलयमाले', भणियं च कुवलयचंदेण, 'एस एरिसो अम्ह गुरुसंतिओ आदेसो, ता
- 21 किं कीरउ' ति । कुवलयमालाप भणियं 'अज्जउत्त, जं तुह रोयइ तं पमाणं अमहाणं' ति । तओ सदाविओ महिंदो, दंसिओ 21
लेहो । उवगया णरवइ-सयासं । साहिओ लेहत्थो । णरवइणा वि वाइओ लेहत्थो, साहियं जहा । 'लिहियं ममं पि
राइणा । अवस्सं कुमारा पेसणीय ति । ता वच्च सिग्घं' ति भणमाणेण सदाविआ णिओइया, भणिया य 'भो भो, सजीकरेह
- 24 पुच्च-देस-संपावयाई दढ-कडिणाई जाण-वाहणाई, सजीकरेह वर-करिवर-वडाओ, अणुयट्ठ वर-तुरय-वंदुराओ, दंसेह 24
रहवर-णियर-पथारीओ, सज्जेह पक्क-पाइक्क-संघे, गेण्हइ महारथणाई, आणवेह ते महारणिंदे जहा तुम्हेहिं पुच्च-देसं
गंतव्वं' ति । आणत्ते य सव्वं सजीकरं, गणियं संवच्छरेण लमं । ताव य हलहलीहओ परियणो, खुहिया णयरी,
- 27 सोय-वियणा-विहुरा कुमारस्स सासू, हरिस-विसण्णा कुवलयमाला, उत्तावलो सहि-सत्थो, वावडो राया । एएण कमेण 27
कीरंतेसु पाधेएसु, पक्किजंतेसु संभारेसु, रुंविजंतासु कणिक्कासु, दलिजंतेसु उरुपुल्लेसु संपत्तो लम-दियहो । संपत्ता
कुवलयमाला, गुरुयणं परियणं सहियणं च आउच्छिउं ववसिया । ताव गया रुक्ख-वाडियं । वट्टण य बाल-रुक्ख-वाडियं
- 30 पसरंततर-सिणेह-भर-पसरमाण-बाहुप्पील-लोल-लोयणाए भणियं । अवि य । 30
अइ खमसु असोय तुमं वर-किसलथ-गोच्छ-सत्थ-संछण्ण । चलण-पहारेहिं समं दासो व्व तुमं मए पहओ ॥
भो बउल तुमं पि मए मइरा-गंवूस-सेय-पाणेहिं । सित्तो सि अलज्जं चिय जह रुसिओ खमसु ता मज्झं ॥

1 > P गिसु धम्मा, P repeats सु before ता. 2 > J दिट्ठोण, P लोव for लोय. 4 > J तण्णाहो. 5 > J जुअले P जुवलेसु. 6 > P णयवडिया for पायवडिया. 8 > P जलहिसंतारो, P सासयइओ जिणधम्मो. 9 > J जह for जयइ, P जयमोहो J तिओ for जए, J सउण्णो, J मुचंति. 10 > P धम्मरुती, P धम्मो for धम्मो. 11 > J दिअलोअ. 13 > P तुल्लावो for उल्लावो, J तीय for तीए, P लेहवाडओ चिट्ठइ. 14 > J लहुं पेसेहि (later correction), P तेण । पणामिओ लेहो पुं (the reading accepted is a marginal correction in J). 15 > P om. य, J अयोज्जा, P वि for अवि. 16 > P लोहो for लेहो, P om. य, J अवणिआ य मुद्दा P अविणीया मुद्दा. 18 > P अत्थि for सत्थि, P 'पुरवरीए, J 'हिरायायपर', J P दढधम्म विजय', P विजयपुरवरीए, J om. दीहाउयं, P om. कुमार. 19 > P अवगूहिऊण, J लिहियं for लिहइ, P जलण for जलिय, J सिग्घविग्घयरं, P तेण विसिग्घायविसिग्घतरं. 20 > J अवस्स, P कुवलयमालाप, P कुवलयचंदउत्तेण एस, P adds य before आदेसो, J आपसो. 21 > P om. अमहाणं, J om. ति. 22 > J om. वाइओ लेहत्थो. 23 > P अवस्स कुमारा पेसणीओ ति, J पेसणि, J वच्चह, P सदाविआ य णिइया, J नियोइआ. 24 > J संपावियाई, P करिवडाओ. 25 > P अणवेह for आणवेह, J om. ते, J तुम्हेहि for तुम्हेहिं. 26 > J ताव for आणत्ते य, P adds ताव य before सव्वं. 27 > P विमणा, P om. विहुरा, P सासुया for सासू, P पाणो for सत्थो, P एतेण. 28 > J कीरंतणसु P कीरंतिसु पाधेएसु उअकिजंतेसु संभारेसु, J संभारेसु, J रुंविजंतासु, P दलिजंतेसु, J ऊरुपुल्लेसु P उरुपुल्लेसु. 29 > P सहियणं च आउच्छिओ, P om. ववसिया, J om. ताव गया, P चाडीयं. 30 > J om. भरपसरमाण. 31 > P असोय, P adds कुसुम before गोच्छ, P om. सत्थ, P संछण्णा । 32 > P अलिज्जं.

- 1 भो भो तुमं पि चंपय दोहल-कजेण बुबिओ बहुसो । मा होज मज्ज दोसं खमसु य तं परिहवं एहं ॥ 1
वियलंत-कुसुम-बाहोह-दुम्मणा मज्ज गमण-सोएण । भाउच्छिवा सि पियसहि कुंदलए वूर-गमणाए ॥
- 3 अणुयत्त गियय-दइयं एयं सहयार-पायव-जुयाणं । पइ-सरणा महिलाओ भणिया गोमालिए खमसु ॥ 3
तं रोबिया मए चिय पुणो वि परिणाविया तमालेण । धूए माहवि एण्हि ण-याणिमो कथ दट्ठवा ॥
भो भो पियाल-पायव दिण्णा मे जूहिया सिणेहेण । एयाए तं कुणेज्जा जं किं पि कुलोइयं तुज्ज ॥
- 6 सच्चं चिय पुण्णागो पुंणाग तुमं ण एत्थ संदेहो । जालिगिज्जसि तं चिय सयंवरं माहविलयाहिं ॥ 6
रे णाय तुमं पि पुणो बहुसो विणिवारिओ मए आसि । मा छिवसु कुंदलइयं एण्हि तं खमसु दुब्बयणं ॥
हिंताल खमसु एण्हि बहुसो जं गिट्ठरं मए भणियं । किसलय-करग-णिहुयं पियंगु-लइयं फरिसमाणो ॥
- 9 भो भो कयं च तं पि हु अणुयत्तसु पाडलं इमं वरइं । छेए वि हु सप्पुरिसा पडिवण्णे णेय मुंचंति ॥ 9
अज्ज वि ण दीसइ चिय रत्तं कुसुमं इमाए बंधूए । मा तूरेज्जसु चंपय जणस्स कालो फलं देह ॥
हे हे पियंगु-लइए वारिजंती वि मुंच मा दइयं । एसो असोय-रुक्खो पेम्मेण ण हीरइ कयाइं ।
- 12 जाइ-विसुद्धा सि तुमं चंपय-दइयं ण मुंचसे जेण । कुलबालियाओ लोए होंति चिय सुद्ध-सीलाओ ॥ 12
इय एवं भणमाणी चिर-परिइय-पायवे खमावेंती । उव्वाह-बाह-णयणा रोत्तुं चिय सा समाठत्ता ॥
- § २८६) संठाविया य सा सहियगेणं समागया गिय-भवणं । तथ वि दिट्ठाइं णाणाविहाइं घर-सउण-सावय-
- 15 समूहाइं, भणिउं च पयत्ता, अवि य । 15
मुद्धे ण जीवसि चिय गिय-रहिया य मईएँ तुमं मइया । ता पसरसु वच्चाओ भाउच्छसु जो सि दट्ठवो ॥
सारसि मरसि सरती मुंचामि कहं इमो य ते दइओ । दोण्णि वि वच्चह एसो आवडिओ अंध-बुत्तंते ॥
- 18 अण्णं रुहर-कलावं मोरं तुह मोरि वरिहिमो अम्हे । धीरा मा रस-विरसं परिहासो मे कओ मुद्धे ॥ 18
हंमिणि सरस-सिणेहे गिय-हंसं भणसु हास-ससि-सरिसं । वच्चासु सामिणीए समयं सम-दुक्ख-सोक्खाए ॥
चक्काइ तुमं रयणि दइय-वियोगम्मि णेसि मह पासे । ता वच्चसु मा णिवडउ विओय-वच्चासणी तुज्ज ॥
- 21 मा होंतु विसेण व ते चओरि णयणाइं पिययम-विओए । गुंजाफल-सरिसाइं वच्चसु समयं पि दइएण ॥ 21
पढ कीरि किंचि भणिया दइय-विओयम्मि पडिहिसि अलक्खं । पत्थाण-वज्जणिजं अणुहव-सरिसं विरह-वज्जं ॥
आयल्लय-बुत्तंते जइ वि तए साहिओ म्हे दइयस्स । पिसुणे कुविया अहयं मुंचामि ह सारिए कस्स ॥
- 24 इय कीरि-मोरि-सारंगि-सारिया-चक्क-सारसि-चओरि । भणमाणी सा वियरइ स-णेउरा चारु-तरलच्छी ॥ 24
एवं च भाउच्छणयं कुणतीए समागया लग्ग-वेला । तथ कयं धवलहरस्स बहु-मज्ज-देस-भाए सव्व-धण्ण-विरुद्धंकरा
चाउरंतयं । तथ य दहि-अक्खय-सुवण्ण-सिद्धत्थय-दुब्बंकर-रोयणा-सत्थिय-वद्धमाणय-णंदावत्त-पत्त-छत्त-चमर-कुसुम-
- 27 महासणा-जवंकुर-पउमादिए सव्वे दिव्व-मंगले णिवेसिए । ताणं च मज्जे अहिणत्र-पल्लव-किसलयालंकियं तिल्लोदय-भरियं 27
कणय-पउम-पिहाणं चंदण-चच्चिक्क-चच्चियं णिबद्ध-मंगल-रक्खा-सुत्तयं कणय-कलसं ठावियं । तओ तथ य संठिया
दोण्णि वि पुक्खाभिमुहा, वंदिया रोयणा, कयाइं मंगलाइं । एत्थंतरम्मि ताव य संपत्तं लग्गं । पूरिओ संखो । भणियं
- 30 संवच्छरेण 'सिद्धि'त्ति । ताव य उच्चालिओ दाहिणो पाओ कुमारेण । कुवलयमालाय वि वाम-चलणं चालियं । पयत्त- 30
गंतुं, णिक्खंता बाहिं । संख-भेरी-तूर-काहल-मुइंग-वंस-वीणा-सहस्स-जयजयासह-णिबभरं गयणयलं आसी । समुहस्स
गुरुयणस्स संपत्ता रायंगणं । ताव य सज्जिओ जय-कुंजरो । केरिसो । अवि य ।
- 33 धवलो धवल-विसाणो सिय-कुसुमाभरण-भूसिओ तुंगो । जस-कुंजर-पुंजो इव पुरओ जय-कुंजरो विट्ठो ॥ 33

1 > P चंपयदोहल, P सहसा for बहुसो, P दोसो for दोसं, P परिहवं. 2 > J दुम्मणो. 3 > J पसररणं, P भणिणोमालए.
4 > J चिअ बाला परिणामिआ. 5 > P मे दूहिया, P कुणेज्जासु जं. 6 > P पुञ्जाणतुमणं, P 'लयाइं ॥. 7 > P छिदसु for छिवसु-
P ता for तं. 8 > P लिहियं for णिहुयं, P फरुसमाणो. 9 > P adds भो भो कयं फरुसमाणो before भो भो, P पाडलि-
11 > P देहे for हेहे, P व for वि, P माइमयं, P पेमेण ण हीरति. 12 > J जामिं for जेण, P सुद्धरीलेण ॥. 13 > J खमा-
वेंति, P रोत्तं. 14 > P समाए गथा, J om. गिय, P दट्ठइं, P धरसवणसावइयं. 16 > P बुद्धे for मुद्धे, J om. चिय, P चियर,
हिता य, J मइए, P adds मए before तुमं, J ता परसु. 17 > J पदइणु for ते दइओ, P दोभि, J विवच्चसु. 18 > P तुह पुत्ति
मोरि धरिहामो, P मुद्धो ॥. 19 > P सरसिसिणेहे, P सुह for सम. 20 > P चक्काय, J विओअम्मि. 21 > P मा होओ विमेण
विते चउरिणयाणाइं, J विसणवरे चउरिणयसाइं विअयम, J गुंजाइल, P मुंचसि तइयं for वच्चसु समयं. 22 > P inter. किंचि & कीरि,
P दय for दइय, P पथाण-, J मणुहव for अणुहव. 23 > P य for वि, P पिसुणि, P adds वि before अहयं, P अहियं. 24 >
J -सारमा-, P चक्कसारसचउरीं, J om. सा, J रसरि for स. 25 > P बहुदेसभार्यमि, J धण्णं. 26 > P सिद्धत्थयदुब्बंकरोवणा, P
-णंदावत्तयवमरकुसुमहासणाजंजकुरपउमादिया. 27 > J जायंकुर for जवंकुर, J 'पउमातीए, J om. सव्वे, P दव्व for दिव्व. 28 >
P पउमप्पहाणं, J om. चंदण, P -चच्चियं. 29 > J मंगलाइं, P संपएत्तं. 30 > P चालिओ for चालियं. 31 > J बडु for बाहिं,
P -सुयंगं, P गयणं आसी । सा स्सुहस्स, J सुसुहस्स गुरुहस्स. 33 > P धवलविसणो सिय, J विसालो for विसाणो, J जय for जस.

- 1 आरूढा य जय-कुंजरं दुचे वि जुवाणया । केरिसा य दीसिउं पयत्ता जगेणं । अवि य । 1
कुवलयचंद्रो रेहइ कुवलयमालाय कुंजरारूढो । इंदो इंदानीय व समयं प्रावणारूढो ॥
- 3 § २८७) एवं च णीहरिउं पयत्ता अहिणंदिज्जमाणा य जण-समूहेण, वियप्पिजंता णायरिया-लोएण । अवि य । अइ, 3
कोउय-रहस-भरिजंत-हियय-पूरंत-णेह-वहुमाणो । अइ जंपइ वीसथं णायर-कुलबालिया-सत्थो ॥
एक्का जंपइ महिला भणइ हला को व्व एत्थ अभिरूढो । किं कुवलयमाल च्चिय अइवा एसो सहि कुमारो ॥
- 6 तओ अण्णाए भणियं । 6
एयस्स सहइ सीसे कसणो अइ कौतलाण पढभारो । कज्जल-तमाल-णीलो इमाएँ अइ सहइ धम्मेल्लो ॥
एयस्स सहइ वयणं सरए अइ वियसियं व सयवत्तं । संपुण्ण-चंद-मंडल-लायणं सोहइ इमीएँ ॥
- 9 एयस्स णयण-जुयलं कुवलयदल-सरिसयं सहइ मुद्धे । तक्खण-वियसिय-सिय-कमल-कंति-सरिसं इमीएँ पुणो ॥ 9
रेहइ इमस्स पियसहि वच्छयलं धवल-पीवरं पिडुलं । उडिभज्जमाण-थणहर-विरावियं रेहइ इमीएँ ॥
सोहइ महंइ-रंदं णियंब-बिंबं इमस्स पेज्जालं । रइ-रहसामय-भरियं इमीएँ अहियं विराएज्जा ॥
- 12 ऊरु-जुयलं पि सुंदरि इमस्स सरिसं करेण गयवइणो । रंभा-थंमेण समं इमाएँ अहियं विराएज्ज ॥ त्ति । 12
अण्णाए भणियं । 'हला हला, एत्थ दुचे वि तए अण्णोण-रूढा साहिया, ण एत्थ एक्कस्स वि विसेसो साहिओ' ।
तीए भणियं 'हला, जइ एत्थ विसेसो अत्थि तो णांमं दंसीयइ, जो उण णत्थि सो कत्तो दंसीयइ' त्ति । अण्णाए भणियं
- 15 'किं विसेसो णत्थि, अत्थि से विसेसो । अवि य । 15
वच्छयलं विरायइ इमस्स असमं जयम्मि पुरिसेहि । एयाएँ णियंबयडं रेहइ महिलाण असमाणं ॥
अण्णाए भणियं 'अलं किमणेण एत्थ पुरिसंतरेण महिलंतरेण वा । इमाणं चेय अवरोप्परं किं सुंदरयरं' ति । तीए भणियं
- 18 'अत्थि इमाणं पि अंतरं' । ताहिं भणियं 'किं अंतरं' । अवि य । 18
'पुरिमाण एस सारो एसा उण होइ इत्थि-रयणाणं । एसो चेय विसेसो एसा महिला इमो पुरिसो ॥'
ताहिं भणियं 'किं इमिणा इत्थि-पुरिसंतरेणं, अण्णं भण' । अण्णाए भणियं 'जइ परं फुडं साहेमो । अवि य ।
- 21 एस कुमारो रेहइ एसा उण सहइ रेहइ कुमारी । छज्जइ सहइ य रेहइ दोण्ह वि सद्दा पयटंति ॥ 21
तओ ताहिं भणियं 'अहो एक्काए वि णायरियाए ण लक्खिओ विसेसो' । ताहिं भणियं 'पियसहि, साह को विसेसो तए
लक्खिओ' । तीय भणियं णिसुणेसु, अवि य ।
- 24 'मरगय-मणि-णिम्मविया इमस्स अइ सहइ कंठिया कंटे । एयाए उण सोहइ एसा मुत्तावली कंटे ॥' 24
तओ ताहिं हसमाणीहिं भणियं 'अहो, महंतो विसेसो उवलक्खिओ, जं रायउत्तस्स अवदाय-वण्णस्स मरगय-रयणावली
सोहइ, एमाए पुण सामाए मुत्तावलि त्ति । अण्णं पुच्छियाए अण्णं साहियं' ति । अण्णाए भणियं ।
- 27 धणयाण दोण्ह को वा रेहइ अच्छीण भणसु को कइया । इय एयाण वि अइसंसायाण को वा ण सोहेज्जा ॥ 27
ताहिं भणियं 'ण एत्थ कोइ विसेसो उवलक्खइ, ता भणइ को एत्थ धणयाणं धणयरो' । तओ एक्काए भणियं ।
'धणो एत्थ कुमारो जस्स इमा हियय-वल्लभा जाया । धण-परियण-संपण्णो विज्जओ राया गुरुयणं च ॥
- 30 अण्णाए भणियं 'णहि णहि, कुवलयमाला धणयरा । 30
धण्णा कुवलयमाला जीए तेलोक्क-सुंदरो एसो । पुण्णापुण्ण-विसेसो णज्जइ महिलाण दइएहिं ॥'
अण्णाए भणियं 'सव्वहा कुमारो धणो कुवलयमाला वि पुण्णवइ त्ति को इमाणं विसेसं करेउं तरइ' त्ति । अवरहिं भणियं ।
- 33 'धणो जयम्मि पुरिमो जस्सेसो पुत्तओ जए जाओ । महिला वि सा कयत्था जीय इमो धारिओ गढ्मे ॥' 33

1 > P om. य after आरूढा, P य दंसिउं. 2 > P कुवलयमाला कुं, JP कुंजरारूढा, J इंदानीअ P इंदानीइ. 3 > P पयत्तो आणंदिज्जमाणा, P वियप्पियंता णायरलोएण. 4 > P adds the verse कोउयरहस etc. to सत्थो and further adds एक्का जं ता णायरलोएण अवि य अइ before the verse कोउय etc., J परत्त for पूरंत. 5 > P अभिरूढो I, P कुवलयमाला च्चिय. 7 > P एतस्स, P कसिणो, P अहरेइ धम्मेल्लो, 8 > P एतरस, P सरिसं for णरए. 9 > P कुवलयदय-. 10 > P वच्छयलं for वच्छयलं. 11 > P जहंण for अहियं. 12 > P ऊरुजुवलं पि सुरिसरिसं, P रंभा for रंभा, P विराएज्जति. 13 > P साहियं for साहिओ. 14 > J तीय, P अओ for हला, P णो for तो, J दंसीयति P दंसियइ, J जो पुण, J दंसीयति, P om. अण्णाए भणियं किं etc. to असमाणं ॥. 17 > P adds वा after पुरिसंतरेण, P सुंदररयरं, J तीय. 18 > P om. अंतरं, P ताहे for ताहिं. 19 > P एसो उण होइ इत्थियणाणं I. 20 > J अइ for ताहिं. 21 > P सहइ रेह कुमारो । छज्जइ सहइ, P दोन्नि सद्दा पयटंति, J सद्दो पयत्तंति. 22 > J एक्काय. 24 > P -णिम्मरया, P अइइ कंठिया, P एताए, J पुण, P adds इ after एसा. 25 > P हसमाणीए, J अवदात-. 27 > P को वा वा ण सोहेज्जा. 28 > P को विसेसो उवलक्खइ. 29 > P धम्मो for धणो, P वल्लहा, P संपुब्बो. 30 > P कुवलयमाली. 31 > P एसु I. 32 > P विसेसो. 33 > P जाय इमो जारिओ.

1 भण्णाओ भणति ।

‘धण्णो विजय-गरिदो जस्स य जामाइओ इमो सुहओ । अहवा स धिय धण्णा इमस्स सासू जए जा सा ॥ अहवा,
8 अम्हे धिय धण्णाओ जाण इमो णयण-णोयरं पत्तो । रह-वम्महाण जुवलं केण व हो दिट्ठ-पुब्बं ति ॥’ 3
एवं च विअप्पिज्जमाणो णायरिया-कुलबालियाहिं, अहिणंदिज्जमाणो पुर-महल्लएहिं, पिज्जंतो तरुणियण-णयण-मालाहिं,
उहिसिज्जंतो अंगुलि-सहस्सेहिं, दाविज्जंतो विलया-बालियाहिं, पविसंतो जुवइयण-हिययावसहासु, जणयंतो मयण-मोहं
6 कामिणीणं, करंतो मुणीण वि मण-विअप्पंतं सव्वहा णीहरिओ पुरवरीओ । आवासिया य तहाविहे एक्कम्मि पपुसंतरे । 6
§ २८८) ताव य एयम्मि समए केरिसो विअप्पो पुरिसाण महिलाण य ।

धण्णा कुवलयमाला जीए इमो वल्लहो ति महिलाण । पुरिसाण इमं हियए कुवलयचंदो सउण्णो ति ॥
9 एवं च समावासिओ कुमारो णयरीए, थोवंतरे सेम-वलं पि गय-नुरय-रहवर-पाइक्क-पउरं समावासियं तत्थेय । तत्थ 9
समए णीहारिज्जंति कोसलियाइं, उवदंसिज्जंति दंसणिज्जाइं, संवइज्जंति गाणा-वत्थ-विसेसाइं, दाविज्जंति महग्घ-मुत्ता-णियराइं,
ओवाहिज्जंति महल्ल-कुलइं, उवणिमंतिज्जंति बंभण-संचइं, कीरंति मंगलइं, अवणिज्जंति अवमंगलइं, जंपिज्जंति पसत्थइं ।
12 कुमारो वि ‘णमो जिणाणं, णमो सव्व-सिद्धाणं’ ति भणमाणो भगवंतं समवसरणत्थं झाइऊण सयल-मंगल-माला-रयण-भरियं 12
चउव्वीस-तित्थयर-णमोक्कार-विज्जं झाएंतो चित्तिउं पयत्तो । ‘भगवइ पवयण-देवए, जइ जाणस्सि जियंतं तायं पेच्छामि,
रजं पावेमि, परियदुए सम्मसं, विरइं पालयामि, अंते पव्वज्जं अब्भुवेमि सह कुवलयमालाए, ता तह दिव्वेणं णाणेणं
16 आहोइऊण तारिसं उत्तिमं सउणं देसु जेण हियय-णेवुइं होइ’ ति चित्ति-मेत्ते पेच्छइं पुरओ उडुइ-पोंडरीयं । तं च 16
केरिसं ।

मणि-रयण-कणम-धित्तं सुवण्ण-दंडुलसंत-कंतिलं । लंबिय-मुत्ताऊलं सियायवत्तं तु सुमहग्घं ॥
18 उवणीयं च समीवे, विण्णत्तं च पायवडिओट्टिएण एक्केण पुरिसेण । ‘देव, इमस्स चेय राइणो जेट्ठो जयंतो णाम 18
राया जयंतीए पुरवरीए, तेण तुह इमं देवया-परिगहियं छत्त-रयणं पेसियं, संपयं देवो पमाणं’ ति । कुमारेण चित्तियं
‘अहो, पवयण-देवयाए मे संणिज्जं करं, जेण पेच्छ चित्ताणंतरमेव पहाणं सव्व-सउणाणं, मंगलं सव्व-दुव्व-मंगलाणं,
21 इमं आयवत्त-रयणं उवणीयं ति ता सव्वहा भवियव्वं जहा-चित्तिय-मणोरहेहिं ति चित्तिऊण साहियं कुवलयमालाए 21
‘पिए, पेच्छसु पवयण-देवयाए केरिसो सउणो उवणीओ । इमिणा य महासउणेण जं पियं अम्हेहिं मणसा चित्तियं तं
चेय सव्वं संपज्जइ’ ति ।

24 § २८९) कुवलयमालाए भणियं ‘अज्जउत्त, एवं एयं, ण एत्थ संदेहो । अह पत्थाणे काणि उण सउणाणि 24
अवसउणाणि वा भवंति’ । कुमारेण भणियं ‘संखेवेण साहिमो, ण उण वित्थरेणं । अवि य ।

दहि-कलस-संख-चामर-पउम-महावडुमाण-छत्तादी । दिव्वाण सव्वओ धिय दंसण-लाभाइं धण्णाइं ॥
27 दंसण-सुहयं सव्वं विवरीयं होइ दंसण-विरुयं । जं कण्ण-सुहं वयणं विवरीयं होइ विवरीयं ॥ 27
एवं गंधो फरिसो रसं च जा इंदियाणुकूलाइं । तं सव्वं सुह-सउणं अवसउणं होइ विवरीयं ॥
वडुसु सिद्धी रिद्धी लद्धी य सुहं च मंगलं अत्थि । सहा सउणं सिद्धा अवसउणा होति विवरीया ॥
30 ण्हाओ लिच्च-विलित्तो णर-णारि-गणो सुवेस-संतुट्टो । सो होइ णवर सउणो अवसउणो दीण-मल्लिंणो ॥ 30
समणो साहू तह मच्छ-जुवलयं होइ मंस-पेसी य । पुहईं फलाइं सउणं रित्तो कुडओ य अणुगामी ॥
छीतं सव्वं पि ण सुंदरं ति एक्के भणति आयरिया । अवरं समुहं मोत्तुं ण पिट्ठओ सुंदरं चेय ॥

1 > J भणियं for भणति. 2 > P जामाओओ, P जा या for जा सा. 3 > J जुवलं, J दिट्ठउव्वं. 4 > J विअप्पिज्ज-
माणो, P अभिणंदिज्जमाणो पुरमहिल्लएहिं, J ल्लएहिं पुइज्जंतो आणियणयण. 5 > J अंगुली-, J विसंतो for पविसंतो, P -हियय-
सेहासु जइणंतो मयणमोहं. 6 > P om. वि मण, J कम्मि for एक्कम्मि. 7 > J तावया एअम्मि. 8 > J जीअ, P हियाए, P
सउ for सउण्णो. 9 > P च समारोणीए थोवंतरे, J थोवंतरे, J समत्थोसिअं तत्थेय समए णीहाविज्जंति. 10 > P ज्जाइं for
दंसणिज्जाइं, P संवाइज्जंति for संवइज्जंति, P विसेसाइं, J णिअराइं P णियराइं. 11 > J अवहिज्जंति, P उवणमंनिमज्जंति बम्हणयंघइ,
J om. अवणिज्जंति अवमंगलइं. 12 > J सव्वजिणाणं ति, P रयणसरिसं चउवीस. 13 > P विज्जं ज्जायंतो चित्तियं, P तातं.
14 > P पव्वज्जमब्भुवेमि, J तहा for. तह. 15 > P सउणं देसु, P णेवुइं होय ति, P उइं. 17 > J गणय for रयण, P
कणय, J सुअण, J लंपिअमुणजलं. 19 > P जयंतीपुरवरीए, P देवतापरिगहियं, 20 > J सण्णज्जं P सन्नेज्जं. 21 > P
आयवत्तयणं, P तो for ता, P om. जहा चित्तिय etc. to चित्तियं तं, 23 > P adds जेण जं before चेय. 24 > P om.
अज्जउत्त, J एत्थणे for पत्थाणे, P om. उण. 25 > J om. अवसउणाणि, P om. वा, J adds दइए after अवि य. 26 > J
कमल for कलस, P वडुमाण, J छत्ताती ।, J दिव्वाण P देवाण. 27 > J adds समुणं P adds सव्वउणं after सव्वं, P विवरीय
होति, J विरुयं ।, J विवरीतं ॥. 28 > J विवरीतं ॥. 29 > J सिद्धि रिद्धो, P सउणसिद्धा. 30 > P णरणारयाणो, P परितुट्टो
for संतुट्टो, J om. होइ णवर, P सणो for सउणो. 31 > J मच्छजुवलं, J मुहईं P पुहइ, P फलाइं साउणं, J उडओ for कुडओ,
P आगामी for अणुगामी. 32 > J ण मिट्ठओ.

- 1 साणो दाहिण-पासे वामं जह वलहओ भवे सिद्धी । अह वामो दाहिणओ वलह ण कज्जं तणो सिद्धं ॥ 1
जह सुणओ तह सब्बे णाहर-जीवा भणंति सउणणू । अण्णे भणंति केहं विवरीयं जंबुओ होइ ॥
- 3 मउअं महुअं वामो लवमाणो वायसो भवे सोम्मो । उत्ताल-णिट्ठर-सरा ण देंति सिद्धिं भयं देंति ॥ 3
गोरूयस्स उ छीतं वज्जेजा सम्बहा वि जीय-हरं । मजारस्स वि छीयं पत्तिय-जीयं विणासेइ ॥
सारसर-रद्धियं सब्बथ सुंदरं जह ण होइ एक्कस्स । वामं भणंति फलयं जह सो य ण दीसए पुरओ ॥
- 6 इंदग्गेइजम्मा य णेरइं वारुणी य वायव्वा । सोम्मा ईसाणा वि य अट्ट दिसाओ समुद्धिटा ॥ 6
अट्ट य जामा कमसो होति अहोरत्त-मज्झयारम्मि । जत्थ रवी तं दित्तं तं दित्ति-दित्तं वियाणाहि ॥
जं मुहं तं अंगारियं ति आधूमियं च जं पुरओ । सेसाओ दिसाओ पुण संताओ होति अण्णाओ ॥
- 9 दित्तेण तक्खणं चिय होइ फलं होइहि ति धूमेणं । अंगारियम्मि वत्तं जह सउणो रवह तत्थेय ॥ 9
सूराहिमुहो सउणो जह विरसं रवह दित्त-ठाणम्मि । ता जाण किं पि असुहं पत्थाणे कस्स वि णरस्स ॥
सर-दित्तं सुह-विरसं सुह-सुहयं होइ जं पुणो संतं । संतेण होइ संतं दित्ते पुण जाण दुक्खं ति ॥
- 12 पासाण-कट्ट-भूती-सुक्कय-रुक्खेसु कंठहल्लेसु । एएसु ठाण-दित्तं विवरीयं होइ सुह-ठाणं ॥ 12
दियह-चरा होति दिया राइ-चरा होति तह य राइए । सउणा सउणा सब्बे विवरीया होति अवसउणा ॥
एस संखेवेणं सुंदरि, जं पुण पिवा-रुतं काय-रुतं साण-रुतं गिरोलिया-रुतं एवमाइणि अण्णाणि वि विसेसाइं को साहिउं
- 15 तरह ति । सम्बहा, 15
एयाणं सब्बाणं अवसउणाणं तहेय सउणाणं । पुव्वकयं जं कम्मं होइ णिमित्तं ण संदेहो ॥
तम्हा जिणवर-णामक्खराइं भतीएँ हियय-णिहियाइं । संभरिउं भगवंतं पाव-हरं समवसरणम्मि ॥
- 18 तस्स य पुरओ अत्ताणयं पि झाएज्ज पायवडियं ति । जह जाइ तेण विहिणा अवस्स खेमेण सो एइ ॥ 18
चमराइं आयवत्तं होइ असोओ य कुसुम-वुट्ठी य । भामंडलं धयं चिय महासणं दिव्व-णिम्मवियं ॥
एयाइं मंगलाइं उच्चारंते जिणं च झाएंतो । जो वच्चइ सो पावइ पुण्ण-फलं णत्थि संदेहो ॥
- 21 एवं च साहिए पडिववणं कुवलयमालाए 'अज्जउत्त, एवं चेय एयं ण एत्थ संदेहो' ति । 21
॥ २९० ॥ अण्णम्मि य दियहे दिव्वं पयाणयं महंतेण खंधावारेणं । तओ कत्तिय-मेत्तं पि भूमिं गंतूण भणियं कुमारेण
'ओ भो पउरा, णियत्तह तुम्हे कज्जाइं विहडंति तुम्हाणं । एवं भणियो णियत्तो पउरयणो पज्जरंत-लोयण-जलप्पवाहो । तओ कं
- 24 पि पएसं गंतूण भणियो कुमारेण राया 'ताय पडिणियत्तसु, जेण अम्हे सिग्घयरं वच्चाओ तायं च पेच्छिमो' ति । एवं च 24
पुणो पुणो भणियो णियत्तो कुवलयमालाए जणओ जणणी य । एवं च कमेण कुमारो संपत्तो तं सउण-सेल-सिहरवभासं,
आवासिओ य एक्कम्मि पएसे । साहियं च पुरिसेहिं 'कुमार, इम्मम्मि सरवर-तीरे सुण्णाययणं, तत्थ कामो व्व सरूवी,
- 27 इंदो व्व पक्खं, सरो व्व कोइ रूव-सोहाए अहियं पयासमाणो मुणिवरो चिट्ठइ' । कुमारेण भणियं 'अरे, को एस 27
मुणिवरो, किं ताव तावसो, आउ तिदंडी, आउ अण्णो को वि' । तेहिं भणियं 'देव, ण-याण्णामो तावसं वा अण्णं वा ।
लोय-कय-उत्तिमंगो सिय-वसणो पिच्छएण हत्थम्मि । उवसंत-वंसणीओ दीह-भुओ वम्महो चेय ॥'
- 30 कुमारेण चित्तियं । 'अहो कत्थ भगवं साहू, ता चिरस्स अत्ताणयं बहु-पाव-पंक-कलंकियं णिम्मलीकरेमि भगवओ 30
दंसणेणं' ति भणमाणो अडुभुट्ठीओ समं कुवलयमालाए । भणियं च णेण 'आदेसह मह तं मुणिवरं' । संपत्तो तं पएसं ।
दिट्ठो य मुणिवरो । चित्तियं च णेण । 'अहो मुणियो रूवं, अहो लायणं, अहो सुंदरत्तणं, अहो दित्ती, अहो सोम्मया । ता
- 33 सम्बहा ण होइ एस माणूसो । को वि दिव्वो कंण वि कारणेण मुणि-वेसं काऊणं संठिओ' ति चित्तयंतो णिरिक्खयं जाव णिमिसंति 33

1 > P साहो for साणो, J जति वल्लि, P चलण for वलह, J दाहिणवो वल्लि, P वणति, P सिद्धी ॥ 2 > J अह for जह, P inter. सब्बे and तह, P -जीवो, J सवणणू P सउणणू, J विवरीनं. 3 > P लवमाहो, P सोमो । 4 > J गोकअस्स च्छीरं P गोरूवसओ लच्छी तं वज्जेजा, J वज्जेजा, P जीवहरं, J छीनं, J छीनं for जीयं, P जीतं विणासेति. 5 > P उण for य ण. 6 > P इंदग्गेती-जंमायणेरुवी वारुणी, P सोमा. 7 > J अट्टा य, P रं for तं before दित्तं, P दित्तित्तं. 8 > P आहूमियं, P पुणो सत्थाओ. 9 > P दित्ते तक्खणं, JP होइति ति, P रवति. 10 > P सूराभिमुहो, P विरह for विरसं, J रमइ for रवइ, P om. रवइ, P दित्तट्ठाणम्मि । 11 > P दित्तं ति सुविरसं सुति, P दित्त पुण. 12 > P रक्खेसु, JP एतेसु, P ट्ठाणः, JP विवरीतं, P ट्ठाणं ॥ 13 > P रायचरा, P रातीए, P सउणो सउणो, P सउणाओ ॥ 14 > P एते for एस, P om. जं पुण, J एवमातीणि, P अन्नाण विसेसाइं. 16 > J 'णाणं च तह य. 17 > J सत्तीय for अतीए, P संभरियं, P समवसरंमि. 18 > P जति जाति तेण विहिण, P एति ॥ 19 > J आतवत्तं. 20 > P ज्जायंतो, P पावति, J पुण्णहलं. 21 > P adds भणियं after कुवलयमालाए, P चेय एतं णत्थि संदेहो. 22 > P खंधावारेण, P om. पि. 23 > P णियत्तम्मे कज्जाइं, P तुम्हा for तुम्हाणं, P जुयलं for जल. 24 > P तय for ताय, P जिणम्हे for जेण अम्ह, P adds ति after वच्चाओ. 25 > J कुवलयमालाजणओ, P संपत्तो वंच सज्जेसेल. 26 > J om. च, P कुमार मम्मि सरवतीरे, J सुण्णाययणं, J सरूई. 27 > J अधियं, P पुणिवरो चिट्ठति । 28 > P आउसओ को वि, J adds वि after अण्णो, J तावसं व अण्णं च. 29 > P -भुओ टंमहो च्छेय ॥; P कुमारे चित्तियं. 30 > J adds नि after कत्थ, P adds णिम्मलीकयं after कलंकियं. 31 > P णेण दंसंमि मह तं. 32 > J दिट्ठं for चित्तियं, P om. अहो दित्ती, P सोमया. 33 > J माणूसो, P om. वि कारणेण, P समुट्ठीओ for संठिओ, P om. ति, P चित्तयंतो णिरिक्खइ जाव.

1 गयणाई, फुसंति पाया महियलं । तभो चित्तियं 'ण होइ देवो, विहईति दिव्व-लक्खणाई । ता सुव्वत्तं विज्जाहरो होहिइ ति । 1
 एओ व जहा अहिणव-कथ-सीस-लोओ अज्ज वि अमिल्लाण-देहो उवलक्खीयइ तहा लक्खेमि ण एस आइसंजभो, संपयं 1
 3 एस पव्वइओ, वेसो वा विरइओ । ता किं वंदामि । अहवा सुट्टु वंदणीयं भगवंताणं साहूणं दिट्ठ-मेत्तं खेव लिंमं ति । जो 3
 होउ सो होउ ति साहू ति उवसत्पिकुण कुमारेण कुवलयमालाए य ति-पदाहिणं भत्ति-भर-विणमित्तिमंगेहिं दोहि वि 3
 वंदिओ साहू । भणियं च मुणिणा 'धम्मलामो' ति । तभो उवविट्ठो कुमारो महिंदो य । पुच्छियं च कुमारेण 'भगवओ, 3
 6 कत्तो तुमं एत्थ एणुहेसे, कथं वा तुम्मे इहागया, किं वा कारणं इमाए रूढ-संपयाए णिव्विण्णो' ति । 6

§ २९१) तेण भणियं 'जइ सव्वं साहेयव्वं ता णिसुणेसु वीसथो होऊणं ति ।

अत्थि पुहई-पयासो देसो देसाण छाड-देसो ति । णेवत्थ-देसभासा मणोहरा जत्थ रेहंति ॥

9 तम्मि य पुरी पुराणा णामेण य बारयाउरी रम्मा । तत्थ य राया सीहो अत्थि महा-दरिय-सीहो व्व ॥ 9
 तस्स सुभो इं पयडो भाणू णामेण पढमभो चय । अइवल्लहो य पिउणो बियरामि पुरिं विगय-संको ॥
 ममं च चित्तियम्मे वसणं जायं । अवि य ।

12 रेहा-ठाणय-भावेहिं संजुयं वण्ण-विरयणा-न्यारं । जाणामि चित्तियमं णरिंद दट्ठं पि जाणामि ॥ 12
 एवं च परिभमममाणो अण्णम्मि दिथहे संपत्तो बाहिरूजाणं । तत्थ य बियरमाणस्स आगओ एओ उवज्जाओ ।
 तेण भणियं । 'कुमार, मए चित्तवडो लिहिओ, तं ता पेच्छइ किं सुंदरो किं वा ण व' ति भणिए, मए भणियं 'इंसेहि मे 12
 15 चित्तियमं जेण जाणामि सुंदरं ण व' ति । दंसीओ य तेण पडो । दिट्ठं च मए तं पुहईए णत्थि जं तत्थ ण लिहियं । जं च 15
 तत्थ णत्थि तं णत्थि पुहईए वि । तं च दट्ठण दिव्व-लिहियं पिव अइसंकुलं सव्व-वुत्तंत-पव्वक्खीकरणं पुच्छियं मए
 विम्भिएण 'भो भो, किं एत्थ पडे तए लिहियं इमं' । तेण भणियं 'कुमार, णणु संसार-चक्कं' । मए भणियं 'किं अणुहरइ 15
 18 संसारो चक्कस्स' । तेण भणियं 'कुमार, पेच्छसु । 18

मणुयत्तण-णाहिं जीवाणं मरण-दुक्ख-णेमिलं । संसार-पाय-चक्कं भामिजइ कम्म-पवणेण ॥'

§ २९२) तभो मए भणियं 'बिसेसओ साहिजउ जं तत्थ लिहियं' । तेण भणियं 'देव, पेच्छ पेच्छ ।

21 एओ णारय-लोगो एओ उण होइ मणुय-लोओ ति । एओ उ देव-लोओ एयं तं होइ तेलोक्कं ॥ 21
 दंडगणं पदंसिउं पयत्तो ।

जो होइ अधिय-पावो सो इह णरगम्मि पावए दुक्खं । जो वि य बहु-पुण्ण-कओ सो सग्गे पावइ सुहाइ ॥
 24 जो किंचि-पुण्ण-कलिओ बहु-पावो सो वि होइ तिरियंगो । जो बहु-पुण्णो पावं च थोवयं होइ मणुओ सो ॥ 24
 एयासुं च गइसुं कुमार सव्वासु केवलं दुक्खं । जं पेच्छ सव्वओ खिय दीसंते दुक्खिया जीवा ॥
 जं एस एत्थ राया बहु-कोव-परिगहेहिं संपुण्णो । बहुयं बंधइ पावं थोवं पि ण पावए पुण्णं ॥
 27 जीवाण करेइ व्हं अत्थियं मंतेइ गेणहए सव्वं । णिबं मयणासत्तो वरुचइ मरिउण णरयम्मि ॥ 27
 आहेडयं उवगओ एओ सो णरवई इमं पेच्छ । जीव-वध-दिण्ण-चित्तो धावइ तुरयम्मि आरूढो ॥
 तुरओ वि एस वरओ णिहय-कस-घाय-वेविर-सरीरो । धावइ परयत्तो खिय कह व सुहं होउ एयस्स ॥
 30 पुरओ वि एस जीवो मारिजामि ति वेविर-सरीरो । णिय-जीविय-दुक्ख-भओ धावइ सरणं विमगंतो ॥ 30
 पुरओ वि एस वरओ हलओलिज्जइ जणेण सव्वेण । ण य जाणंति वराया अप्पा पावेण वेठविओ ॥
 एओ वि को वि पुरिसो गहिओ खोरेहिं णिहय-मणेहिं । सरणं अविदमाणो दीणं विक्कोसइ वराओ ॥
 33 एए करंति एयं किर अम्ह होइ कह वि इमं अत्थं । तेण य पाणं अह भोयणं च अण्णं सुहं होही ॥ 33

1 > P गयणाई, P adds मि after महियलं, J adds अहो before ण होइ, P होति for होइ, J adds ति before देवो, P विहडियाई for विहईति, P सव्वं for सुव्वत्तं, J ता सुव्वत्तं विज्जाहरो होइति ।, P होइति सोय. 2 > P अहिणवयसीम, J विज्जाणि for अज्जवि, P अनिल्लाण, J उवलक्खीयति, J आदिसंजतो. 3 > P विरइओ, P दिट्ठिमेत्तं. 4 > P तिपयाहिणं, J विणउत्तिमंगेहि, P दोहि ति. 5 > J वविट्ठो for उवविट्ठो, P कुमारेणा, P भगवं कओ तुमं. 6 > P एत्थज्जेसं कथं, P णिव्विण्ण ति. 7 > J साहेयव्वं P साहेतव्वं. 8 > P पुहतीपयामो, J om. देसो, P repeats देसो, J वेसभासा for देसभासा, P मणाहार, P रेहं ॥ तम्मि पुरी पुराणा. 9 > P om. य after णामेण, P रायायी अत्थि. 10 > P विअशरामि. 11 > P च चित्तयंतस्स वसणं. 12 > P रेहाणययावेत्तिसंजुयं. 13 > P अणंमि. 14 > J पेच्छ for पेच्छइ, J किम्वा for किंवा, P भणिए for भणिए. 15 > P repeats जेण, P जं for तं, P ण for णरिय, P णं for ण. 16 > J तण्णत्थि पुहईयं वि, P पुहई वि, P लिहियं, J अत्तिंसकुलं, P वुत्तंतं, J adds च before मए. 17 > J विम्भिएण, P om. पडे, P पच्छिहियं for लिहियं, P ते for तेण, P कुमारे, P om. किं 18 > J संसारचक्कस्स. 19 > J जीवारं, P वीस for पाय, P भामिज्जइ कम्म. 20 > P एत्थ for तत्थ. 21 > P एओ रयलोओ, J तु for उ, P उ देव, J P एतं. 23 > P अहिय, P इह णरगम्मि, P कयो सो सग्गे. 24 > P वि होति तिरियं वा ।, J थोवयं. 25 > P एयसु चउगीसु, P विय. 26 > P संसत्तो for संपुण्णो, P बहुतं बंधइ. 27 > P adds कण before करेइ, P मंतेहिं, P सव्वं । णोययणासत्तो. 28 > P नरवती इम पेच्छं ।, P वइ for वध, P धावति. 29 > P धाइ परायत्तो, P होइ एयस्स. 30 > J -भयो. 31 > P पुरओ for वरओ, P तुट्ठेण for सव्वेण. 32 > P दीणं वक्कोसइ. 33 > P एते करंति एयं किर अम्ह होइति इमं अत्थं, J अम्ह होहिं ।, J inter. इमं & कह वि, J पणं पट्टु for पाणं अह.

- 1 ण य चित्तयंति मूढा इह जग्मे चेष दुत्तरं दुक्खं । फालण-लंबण-मेयण-छेयण-करि-चमढणादीणं ॥ 1
परलोए पुण दुक्खं णरय-गयाणं महाफलं होइ । एयं अयाणमाणा कुमार चोरा इमे लिहिया ॥
- 3 एसो वि जो मुसिज्जइ पेच्छइ एयं पि परिसं लिहियं । तण्हा-राय-सरत्तो परिग्गहारंभ-दुक्खत्तो ॥ 3
पावइ परिग्गहाओ एयं अह परिभवं ण संदेहो । अह सुंचइ कह वि परिग्गहं पि ता णिब्बुओ होइ ॥
एसो पडिपहरंतो इमेहिं चेषूण मारिओ वरओ । मा को वि इमं पेच्छे खित्तो अयडम्मि पावेहिं ॥
- 6 § २९३) एए वि हलियडत्ता लिहिया मे णंगलेण वाहेंता । अम्हाण होहिइ सुहं मूढा दुक्खं ण लक्खेंति ॥ 6
एए वि एत्थ जुत्ता परयत्ता कट्टिऊण णत्थासु । खंधारोविय-जूया गलय-णिबद्धा बलीवहा ॥
रुहिरोगलंत-देहा तोत्तय-पहरेहिं दुक्ख-संतत्ता । पुब्ब-कय-कम्म-पायव-फलाहं विरसाहं भुंजंति ॥
- 9 एसा वि एत्थ धरणी फालिज्जइ णंगलेण तिकखेण । पुब्ब-कयं चिय वेयइ बंधइ हलिओ वि णिय-दुक्खं ॥ 9
पुहइं जलं च वाडं वणस्सइ बहु-विहे य तस-जीवे । दलयंतो मूढ-मणो बंधइ पावं अणंतं पि ॥
एसो वि मए लिहिओ पर-कम्मयरो कुडुंबिओ मूढो । पुत्त-कलत्ताण कए पावेंतो गरुय-दुक्खाइ ॥
- 12 छेत्तूण ओसहीओ फुल्लिय-फलियाओ मुग्ग-सालीओ । चमडेइ बइल्लेहिं गलए मेटी-णिबद्धेहिं ॥ 12
जइ होइ बहु धणं जीवेज कुडुंबयं पियं मज्झं । ण य चित्तेइ अउणणे कथ कुडुंबं कहिं अहयं ॥
एसो सो चिय लिहिओ जर-वियणा-दुक्ख-सोय-संतत्तो । डाहेण डज्झमाणो उच्चंततो इमो सयणे ॥
- 15 एयं पि तं कुडुंबं दीणं विमणं च पास-पडिवत्तिं । किं तुह बाहइ साहसु किं वा दुक्खं ति जं पत्तं ॥ 15
जं किं पि तस्स दुक्खं का सत्ती तत्तियं च अवणेउं । एक्केणं चिय रइयं एको चिय भुंजए तइया ॥
अह मंत-तंत-ओसह-जोए एसो वि को वि सो देइ । कत्तो से तस्स समं जाव ण भुत्तं तयं पावं ॥
- 18 § २९४) एसो सो चेष मज्जो चल-चल्लुब्बेत्थं करेऊण । मरणंत-वेयणाए किं च कयं हो कुडुंबेण ॥ 18
अह तस्स एस जीवो पुणं पावं च णवर चेषूण । कम्माणुभाव-जणियं णरयं तिरियं च अलीणो ॥
एसा वि रुयइ दइया हा मह एएण आसि सोक्खं ति । तं किं पि सुरय-कज्जं संपइ तं कथ पावेमो ॥
- 21 अणं च एस दासो सव्वं चिय मज्झ किं पि जं कज्जं । विपंतं करयं तो हा संपइ को व भुत्तं तो ॥ 21
को मह दाहिइ वयं को वा अमणं ति को व कजाइ । एयं चिय चित्तेती एसा लिहिया रुवंती मे ॥
एए वि हु मित्ताइं रुयंति भरिऊण दाण-माणाइं । संपइ तं णो होहिइ इय रुयमाणाइं लिहियाइं ॥
- 24 एसो सो चिय चेत्तुं खंधे काऊण केहिं मि णरेहिं । णिजंतो सव-सयणं अम्हे लिहिओ विगय-जीवो ॥ 24
एसो अक्कंतेतो बंधुयणो पिट्टओ य रुयमाणो । तण-कट्ट-अविग-हत्थो धाहाधाहं करमाणो ॥
हा बंधु णाह सामिय वल्लह जिय-णाह पवसिओ कीस । कथ गओ तं णिइय सरण-विहूणे वि मोक्खूण ॥
- 27 एए ते चिय लिहिया विरएता बंधवा चित्तिं एत्थ । एसो पक्खित्तो चिय कुमार अग्गी वि से दिण्णा ॥ 27
एयस्स पेच्छ णवरं चियाए मज्झम्मि किंचि जइ अत्थि । जं दुक्खेहिं विडत्तं तं सव्वं चिट्टइ घरम्मि ॥
खर-पवणुद्धय-दीविय-जलंत-जालोलि-संकुले एत्थ । एक्कं चिय से वासं भण अणं कथ दीसेज ॥
- 30 अणुदियह-सुरय-सोक्खेहिं लालिया बद्ध-गेह-सठभावा । रोवइ दइया पासे डज्झइ एक्कल्लओ जलणे ॥ 30
जेण य मणोरहेहिं जाओ संवड्ढिओ य बहुएहिं । एसो सो से जणओ रुयमाणो चिट्टए पासे ॥
अइ पुत्त-वच्छला सा एसा माया वि एत्थ मे लिहिया । दट्टण डज्झमाणं पुत्तं अह उवगया मोहं ॥
- 33 जेहिं समं अणुदियहं पीयं पीयं च गेह-जुत्तेहिं । अह एको चिय वच्चइ एए ते जंति घर-हुत्तं ॥ 33

1 > P जग्मे, J दुक्खं दुक्खं., J मेतण छेतण, P भोयण for मेयण, J चमढणादीजं. 2 > P देह for होइ. 3 > P मि for पि, P रायसरंते, P दुक्खंतो. 4 > P मुंचइ for सुंचइ, P व for वि, P ता णिब्बुओ. 5 > P मं for मा, P पेच्छ खित्तो. 6 > P एते, P मे लंगलेण, P मुहं for सुहं, P लक्खेंति. 7 > P कट्टिऊण. 8 > J रुहिरोगलंत., P तोत्तय., J पहराहिं, P om. विरसाहं, P adds वसहाओ after भुंजंति. 9 > J वेदइ, P बंधइ हलिओ. 10 > J पुहइ, J वणस्सइ, P बहुविहे य तसजीवा, P मूढमणा, J अणंतंमि. 11 > J य for वि, P कुडुंबिओ, P पावेंतो गरुया-. 12 > P मुग्गसीओ । चमडेहि. 13 > P बइ, P कुटुंबयं, P कुटुंबं, P सयणं for अहयं. 14 > P सो चेष, J इमे, P सयणो ॥ एयंमियं कुटुंबं. 15 > J पडिवत्ति P परिवत्ति, P कंमा for किं वा, P om. ति, P जयंता for जं पत्तं. 16 > J ताण नंति for तत्तियं च, P भुजंण for भुंजए. 17 > J अहमंत्तउसहजो उवएसो, J से for सो. 18 > P सो चेष, P चलं., P किं पि हु न कयहो कुटुंबेण. 19 > P कंमाणभाव-. 20 > दया for दइया, P एतेण, J अत्थि for आसि, P पावेमि ॥. 21 > P दोसो for दासो, J जं किं चि for किं पि, J को व्व, J व पोत्तवो ॥. 22 > P दाही for दाहिइ, P adds इय befor एयं, P om. चिय, J रुवंती. 23 > P एते, P रुयंति सरिऊण. 24 > P om. सो, J काऊण रेहिं, J सवसणं, P जीहोओ for जीवो. 26 > P जियणाम. 27 > P एते, P विरयंतो बंधवा, P विती for चित्तिं. 28 > J पेच्छ णवरं चियाए. 29 > P पवणुद्धय. 30 > P सुक्खेहिं लालियावडाणहसचाव । रोयइ. 32 > P adds तं सव्वं before माया, J से for मे. 33 > P अणुदियहो, J adds पिअं in between two पीयं, J गेहसंजुत्तेण P गेहजुत्ताहिं, P तं for ते.

- 1 बहु-असमंजस-वङ्गा-सएहिं जं अजियं कह बि अर्थ । तेण पयं पि ण दिण्णं गेहे चिय संठियं सव्वं ॥ 1
जा भासि सुट्टु दइया पुत्ता धूया य हियय-वल्लहिया । हा वावत्ति भणंती एसा अह वच्चइ वरम्मि ॥
- 3 एए वि पुणो लिहिया कट्टं भामेउ अत्तणो सीसं । सुक्कं तुह कट्टं चिय अपच्छिमो होसु अम्हाणं ॥ 3
एयं ते भणमाणा तळए गंतूण देंति से वारिं । एसं किर होहिइ से कत्थुट्टो कथ णेरयं णीए ॥
एए वि देंति गंतूण तस्स पुणणेहिं बम्हण-कुलाणं । किर तस्स होइ एयं एसो लोयस्स छउमत्थो ॥
- 6 § २९५) एयं कुमार लिहियं अण्णं च मए इमं इहं रइयं । पेच्छसु कुणसु पसायं विद्धं किं सोहणं होइ ॥ 6
एसो को वि जुवाणो एयाएँ समं जुवाण-विलयाए । वियसंत-पंकय-मुहो लिहिओ किं-किं पि जंपतो ॥
लज्जोणमंतवयणा पार्यगुट्टाय-लिहेंत-महिवट्टा । दइएण किं पि भणिया इसमाणी विलिहिया एथ ॥
- 9 एसो को वि जुवाणो फंसूसव-रस-वसेण हीरंतो । आलिंगतो लिहिओ दइयं अमए ध्व णिम्मवियं ॥ 9
ण य जाणए वराओ एसा मल-रुहिर-मुत्त-बीमच्छा । असुइ-कलिमल-णिलया को एयं छिवइ हत्थेहिं ॥
असुइ इमं सरीरं विबुहेहिं य णिवियं महापावं । तह वि कुणंति जुवाणा विसमो कम्मण परिणामो ॥
- 12 एयं पि मए लिहियं सुरयं बहु-करण-भंग-रमणिज्जं । जं च रमंति जुवाणा सारं सोक्खं ति मण्णता ॥ 12
एए कुमार मूढा अवरोप्परयं ण चेय जाणंति । एयं अलज्जयम्मं अप्पाण-विडंबणा-सारं ॥
उससइ ससइ वेवइ णयणे मउलेइ दीणयं कणइ । दीह-विय-सल-विद्धा कुणइ मरंति व्व सुरयम्मि ॥
- 15 जं जं से गुज्जयं रक्खिज्जइ मयल-लोय-दिट्ठीओ । विणिगूहिज्जइ सुइरं विट्ठम्मि मसज्जसो होइ ॥ 15
मल-रुहिर-मुत्तवाहोसयज्जिया असुइ-वाहिणी पावा । जो तं पि रमइ मूढो णमो णमो तस्स पुरिसस्स ॥
सुरयं ण सुंदरं चिय अंते काऊण लज्जए जेण । असुइं पिव असिऊणं तेण ण कज्जं इमेणं पि ॥
- 18 एयं पि मए लिहियं कीय वि महिलाए मंगल-सएहिं । कीरइ से फल-ठवणं वजिर-तूरोह-सहेणं ॥ 18
ण य जाणंति वराया जं ता अम्हेहिं किं पि एयंते । कुच्छिय-कम्मं रइयं तं पयडं होइ लोयम्मि ॥
§ २९६) एसो वि जणो लिहिओ णच्छंतो रहस-तोस-अरिय-मणो । ण य जाणए वराओ अत्ताण-विडंबणं एयं ॥
- 21 एसो पुण गायंतो लिहिओ णिव्वोल्लिएण वयणेणं । ण य जाणए वराओ एयं पलविज्जए सव्वं ॥ 21
एसो वि सहइ पुरिसो हा हा पयडाए दंत-पंतीए । जं पि हसंतो बंधइ तं रोवंतो ण वेएइ ॥
एसो वि ल्यइ पुरिसो असु-पवाहेण मउलियच्छीओ । अण्णं बंधइ पावं अण्णं वेएइ पुच्च-कयं ॥
- 24 एसो वि धाह पुरिसो तुरियं कज्जं ति किं पि चिंतंते । ण य जाणए वराओ मच्चू तुरियं ममल्लियइ ॥ 24
एसो मए सुयंतो लिहिओ अह णिच्छलेहिं अंगेहिं । किं सुयसि रे अल्लजिर मच्चू ते जीवियं हरइ ॥
एसो वि मए लिहिओ मल्लो अप्फोडणं करेमाणो । सारीर-बलुम्मत्तो इंदिय-विसएहिं अह णिहओ ॥
- 27 एसो वि रूवमंतो अच्छइ अत्ताणयं णियच्छंतो । ण य चिंतेइ अउण्णो खणेण रूवं विसंवयइ ॥ 27
एसो वि धणुम्मत्तो कंठय-कडएहिं भूसिय-सरीरो । ण य विगणेइ अयाणो कथ धणं कथ वा अम्हे ॥
एसो कुल-मय-मत्तो अच्छइ माणेण थइओ पुरिसो । ण य चिंतेइ वराओ काओ वि इमो हवइ जीवो ॥
- 30 एसो वि मए लिहिओ लोहुम्मत्तो अहं किर लहामि । ण य चिंतेइ अउण्णो कम्म-वसा होइ एयं पि ॥ 30
एसो पंडियवाइं लिहिओ वक्खाण-पोत्थय-करगो । जाणंतो वि ण-याणइ किं णाणं सील-परिहीणं ॥
एसो तव-मय-मत्तो अच्छइ उड्डेण बाहु-डंडेण । काऊण हणइ मूढो गव्वेण तयं ण संदेहो ॥
- 33 एसो वि कोइ पुरिसो कण्ठिय-कोडंड-भासुरो लिहिओ । मारंतो जीवाइं अगणंतो णरय-वियणाओ ॥ 33

1 > P घट्टण for घट्टणा. 2 > P जे for जा, J पुत्ता for पुत्ता, P जीव for हियय, P वा वावत्ति भणंती एए ते जंडंति ए हुत्तं for the 2nd line. 3 > P एते, P कडे भोमेउ अप्पणो, J भामेउं अत्तणीसेसो, P तह for तुह, J तिय for चिय. 4 > J एवं, P एयं चि भणमाणा, P वारि । एतं किर होहिंति से कत्थुट्टो, P णेरय. 5 > P एते, J म्हेण for बम्हण, J किरत्तस्स होईअं एसो P होति एतं एसो, J उम्मच्छो for छउमत्थो. 6 > J inter. इमं & मए, J om. इहं, P रइया । 7 > J जुआणो, P एताए, J जुआण, P सुहो for मुहो. 8 > J लअणमंतवयणो पार्यगुट्टायलिहितमहि-, P किम्मि for कि पि, P विहिलिहिया. 9 > J जुआणो. 10 > P जाणाए, J विवमच्छा ।, P असुइ-कलिमल. 11 > P वि for य. 12 > P एतंमि for एयं पि, P करणिभगरसणिज्जं ।, J जुआणा, P सारसोक्खं 13 > P एते, P अवरोप्परं. 14 > J मउलेउ दीणहं, P अणइ for कणइ. 15 > J असज्जसो for ससज्ज. 16 > J सुइर for असुइ, P तंमि for तं पि. 17 > J सुंदर चिय, P इमेणम्मि ॥. 18 > P एयंमि मए, J -ठवणं P ट्टवणं. 19 > J ते for ता, P जं त्त कम्हे कतं ति एयं ते. 20 > P रोस for रहस. 21 > J णिव्वोल्लिएण, P जाणेइ, P एतं. 22 > P वि सहइ, J रोअंतो. 23 > JP वेतेइ. 24 > P किम्मि for कि पि, J चिंतंते, J जाणइ. 25 > P अह निव्विलहिं, J ए for ते, P वरइ for हरइ. 26 > P इंदियवसएहिं अह निहिओ. 27 > J वि इअइमत्तो, P णिच्छंतो, P ण इ चिंतेइ, P खणेण. 28 > J तु for वि, P कणय for कंठय, P चिंतेइ for विगणेइ, J अयणओ for अयाणो, P वणं for धणं. 29 > P घट्ट for थइओ, P णइ चिंतेइ. 30 > P inter. मए & वि, P कम्मवत्तो होति एयं मि ॥. 31 > J पंडिय यातं P पंडिय वाती, P करायो for करगो, P वि ण जाणइ, P सीण for सील. 32 > P बाहुदंडेण, P इ for हणइ, P तव ण. 33 > JP को वि for कोइ (emended), P कोदंड, P मारंतो, P अगणंतो, J वियणाइ ॥.

- 1 एतो वि पहरइ चिय कङ्किय-करवाल-मीसणो पुरिसो । ण य चित्तेइ अउण्णो खणेण किं मे समाढत्तं ॥ 1
जइ कह वि अहं णिहओ कज्जे तं कथ पावियं होइ । अह कह वि एस णिहओ संबद्धो मज्झ पावेण ॥
- 3 एए वि कुमार मए लिहिया सुय-सारिया य पंजरए । पुव्व-कयं वेयंता अण्णं च णवं णिबंढंता ॥ 3
एसा वि का वि महिला वियणा-वस-मउलमाण-णयणिल्ला । पसवइ कं पि विभायं सारिच्छमिणं मए लिहियं ॥
जो पसवइ इह बालो सो संदेहम्मि वड्डए वरओ । संकोडियंगमंगो जीवेज मरेज वा णूणं ॥
- 6 एसा वि एथ महिला दोहाइजंत-गुज्झ-वियणाए । खर-विरसाइ रसंती पीलिजइ सरस-पोत्ति व्व ॥ 6
एसा वि एथ लिहिया का वि विवण्णा ण चेय णीहरियं । अण्णाएँ मयं बालं मयाइँ अह दो वि अचराइँ ॥
§ २९७) ए.ओ परिणिजंतो लिहियो अह पेच्छ कुमर वेदीए । तूर-रव-मंगलेहिं णखिर-महिला विलासेहिं ॥
- 9 ण य जाणए वराओ संसारो एस दुक्ख-सय-पउरो । हत्थेहिं मए गहिओ महाए महिल ति काऊण ॥ 9
णखंति ते वि तुट्ठा किर परिणीयं ति मूढया पुरिसा । ण य रोयंति अधण्णा दुक्ख-समुदे इमो छूढो ॥
एतो वि मए लिहियो कुमार उत्ताण-सायओ बालो । आउं ति परं भणियो अण्णं वरओ ण-याणाइ ॥
- 12 एतो सो धि अण्णो कीलइ अह कीलणेहिं बालो ति । असुइ पि असइ मूढो ण य जाणइ कं पि अत्ताणं ॥ 12
एवं सो चिय कुमरो कुकुड-सुय-सारियाय-मेसेहिं । दुल्लिओ अह वियरइ अहं ति गव्वं समुव्वहिरो ॥
एतो पुणो वि तरुणो रमइ जहिच्छाए कण्ण-जुवईहिं । कामत्थेसु पयत्तइ मूढो धम्मं ण-याणाइ ॥
- 16 एतो सो चेय पुणो मज्झारो बाल-सत्थ-परियरिओ । अणुविद्ध-पलिय-सीसो लग्गइ ण तहा वि धम्मम्मि ॥ 16
एतो सो च्चैय थेरो लिहियो अह वियलमाण-वल्लि-वल्लिओ । बालेहिं वि परिभूओ उन्वियणिज्जो य तरुणीहिं ॥
एतो वि भमइ भिक्खं दीणो अह णियय-कम्म-दोसेण । एण्हि ण कुणइ धम्मं पुणो वि अह होहिइ दरिहो ॥
- 18 एतो वि को वि लिहियो रोरो थेरो य सत्थर-णिवण्णो । नीवर-कथोत्थइओ पुव्व-कयं चेय वेयंतो ॥ 18
एतो वि को वि भोगी कय-पुण्णो अच्छए सुह-णिसण्णो । अण्णे करंति आणं पुव्व-अउण्णाण दोसेहिं ॥
§ २९८) एतो वि को वि लिहियो राया जंपाण-पवहणाइओ । पुरिसेहिं चिय बुज्जाइ जम्मंतर-पाव-वहएहिं ॥
- 21 एए वि मए लिहिया संगामे पहरणेहिं जुज्झंता । ण य जाणंति वराया अवस्स णरयं इमेणं ति ॥ 21
एतो वि पुहइ-णाहो अच्छइ सीहामणे सुह-णिसण्णो । णीसेसिय-सामंतो मत्तो माणेण य पयत्तो ॥
एयस्स पंच कवला ते चिय वासाइं दोण्णि काइं चि । एक्क चिय से महिला असरालं वड्डए पावं ॥
- 24 एतो वि को वि पुरिसो लोह-महग्गह-परिग्गहायलो । पइसइ भीमं उयहिं जीयं चिय अत्तणो मोसुं ॥ 24
एतो वि को वि पुरिसो जीविय-हेऊण मरण-भय-रहिओ । कुणइ पर-दव्व-हरणं ण य जाणइ बहुयरं मरणं ॥
एतो वि एथ लिहियो महइहे भीम-काल-बीभच्छो । पुरिसो चिय गेण्हंतो जालेणं मच्छ-संघाए ॥
- 27 ण य जाणए अउण्णो एयं काऊण कथ गंतव्वं । किं थोचं किं बहुयं किं वप्प-हियं पर-हियं वा ॥ 27
एए वि एथ वणिया सच्चं अलियं व जंपिउं अत्थं । विटवेंति मूढ-मणसा परिणामं णेय चित्तंति ॥
एए वि के वि पुरिसा वेरग्ग-परा घराइं मोत्तूण । साहंति मोक्ख-मग्गं कह वि विसुद्धेण जोएणं ॥
- 30 एयं कुमार लिहियं मणुयाणं विद्ध-ठाणयं रम्मं । संखेवेणं चिय से वित्थरओ को व साहेज्जा ॥ 30
§ २९९) एयं पि पेच्छ पत्थिव तिरिय-समूहस्स जं मए लिहियं । सोहणमसोहणं वा दिज्जइ दिट्ठी पसाएण ॥
तं चिय सुव्वसि णिउणो तं चित्त-कलासु सुट्ठु णिम्माओ । तेणेत्य देसु दिट्ठिं खणंतं ताव वर-पुरिस ॥
- 33 सीहेण हम्मइ गओ गएण सीहो ति पेच्छ णरणाइ । एस य मओ मइंदेण मारिओ रण्ण-मज्झम्मि ॥ 33

1 > P अउणो खणेण किमे. 2 > P णिहियो, J om. कथ, P सव्वद्धा मज्झ पावेण ॥ 3 > P एते, P सउणया for सारिया, J वेतंता for वेयंता, P अण्णं च णयं निबंढंता. 4 > P मउलमाण, P पसवइ किं पि. 5 > J वट्ठए, J वराओ P घरओ, P अंगसंगो. 6 > J मुज्झ for गुज्झ, P पीलिजिजइ, J पोत्ती व्व. 7 > JP inter. एथ & वि, P को for का, P मएयं for मयं. 8 > J कुमार वेईए P कुरवेदीए. 9 > P णइ जाणइए वराओ, J संसारवि for संसारो, P हत्थेण मए, P om. महाए. 10 > P रोयंति अउण्णा. 11 > P उत्ताणसोयओ, P आउत्ति, P भणियो रो, J अण्णा P अणं. 12 > J सोद्धि for सो धि, P एतो सोयव्वे पुणो कीलइ, P असुइम्मि असुइ ढोणय, P किं पि. 13 > P एतो for एयं. 14 > P कंनजुवतीण । 15 > P सो च्चैय. 16 > P repeats अह, P वलओ, J परिहूओ, P परिभूओ उन्वियणिज्जो. 17 > P इयर for णियय, J दोसेहिं, P अ for अह. 18 > P om. चैव, J वेयंतो. 19 > P पुव्वय अण्णाण. 20 > P चिय, J बुज्जइ for बुज्जाइ, P पावपवाहेहिं. 21 > P एते, P जुज्झंता, P ण य ज्जाणंति, P इमेहिं ति. 22 > P सामन्नो मओ माणेण परयत्तो ॥ 23 > P काइं वि, P एक्क विय, P असडालं. 24 > P पयसरइ सीमयाअहि जीयं. 25 > J हेतूय P हेऊण, P भीओ for रहिओ. 27 > P अउणो, J थोअं. 28 > P एते, P वणिया, J मणसो. 29 > P एते, J साहंति P साहंति, P जोगेणं. 30 > P सो for से, J को व्व साहेज्ज ॥ 31 > P एतं च for एयं पि, P लिहिउं, P om. सोहणमसोहणं वा etc. to ताव वरपुरिस. 33 > P सोहण for सीहेण, P गएत्ति सीहो, P repeats एस.

- 1 वग्नेण एस वसहो मारिज्जह विरसयं विरसमाणो । एसो उण भिण्णो चिय वग्घो सिंणेण वसभस्स ॥ 1
एए वि मए लिहिया महिसा अवरोप्परेण जुज्झंता । रागहोस-वसहा सारंगा जुज्झमाणा य ॥
- 3 ईसा-वसेण एए अवरोप्पर-पसर-वेर-वेलविभा । जुज्झंति पेच्छ पसवो अण्णाण-महातमे ह्ण्डा ॥ 3
आहारट्टा पेच्छसु इमिणा सप्पेण गिलियओ सप्पो । मच्छेण पेच्छ मच्छो गिलिओ मयरो य मथरेण ॥
विहएण हओ विहओ ईसा-आहार-कारणा कोह । सिहिणा य असिजंतो भुयंगमसो मए लिहियो ॥
- 6 एयं च पेच्छ सुंदर चित्तं चित्तमि चित्तं चित्तं । मच्चु-परंपर-माली जीवाण कमेण गिम्मविद्या ॥ 6
एआ मए वि लिहिया वणम्मि सर-भारएण भममाणी । लूया तंतु-णिबद्धा गहिया एआए लूयाए ॥
एओ वि य कोलियओ भममाणीए लूहा-किलंतीए । घरहारियाए गहियो पावो पावाए पावेण ॥
- 9 घरहारिया वि एसा कह वि भमंतीए तुरिय-गमणाए । सामाए इमा गहिया लुक्कह को पुच्च-कम्मस्स ॥ 9
एसा वि पेच्छ सामा सहसा पडिऊण गयण-मग्गाओ । ओवायएण गहिया पेच्छसु णरणाह कम्मस्स ॥
ओवायओ वि एसो णिवडिय-मेत्तेण जाव उट्टेह । ता रण्ण-भिरालेणं गहियो लिहियो इमो पेच्छ ॥
- 12 एसो वि पेच्छ पावो रण्ण-भिरालो बला णिवडिएण । कोलेणं गहियो चिय सुतिक्व-दाढा-करालेणं ॥ 12
कोलो वि तक्खणं चिय आहारट्टा इमेण पावेण । हम्मह य चित्तएणं पेच्छसु चित्ते वि चित्तेणं ॥
अह एसो वि हु दीयी दाढा-वियराल-भीम-वयणेण । लिहियो हि खलिजंतो खर-णहरा-वज्ज-घाएहिं ॥
- 15 एसो वि तक्खणं चिय पेच्छसु वग्घो इमेण सीहेण । फालिजंतो लिहियो कर-करवत्तेण तिक्वेण ॥ 15
एसो वि पेच्छ सीहो जाव ण मारेह दारुणं वग्घं । ता गहियो भीमेण सरहेण पहाविणा पेच्छ ॥
इय अवरोप्पर-सत्ता सत्ता पावम्मि णवर दुक्खत्ता । रायहोस-वसत्ता सत्तुम्मत्ता भमंति इहं ॥
- 18 § ३००) एयं पि पेच्छ णरयं कुमार लिहियं मए इह पडम्मि । बहु-पाव-पंक-गरुया झस ति णिवडंति जत्थ जिया ॥ 18
एए ते मे लिहिया उववज्जंता कुडिच्छ-मज्झम्मि । बहु-पूय-वसामिस-गडिभणम्मि धीभच्छ-भीसणए ॥
एत्थ य जाय चिय से णिवडंता एत्थ मे पुणो लिहिया । णिवडंता वज्ज-सिलायलम्मि उय भग्ग-सव्वंगा ॥
- 21 अह एए परमाहम्मिय ति पावंति पहरण-विहत्था । हण-लुंण-भिद-छिंदह मारे-चूरेह जंपंता ॥ 21
एए ते तेहिं पुणो वेत्तुणं जलण-तत्त-तउयम्मि । सुवभंति दीण-वियणा विरसा विरसं विरसमाणा ॥
एए भिजंति पुणो दीहर-तिक्खासु वज्ज-सूलासु । जेहिं पुरा जीयाणं बहुसो उप्पाइयं दुक्खं ॥
- 24 एए वि पुणो जीवा विरसं विरसंति गरुय-दुक्खत्ता । एयाण एत्थ तंबं मुहम्मि अह गालियं गलियं ॥ 24
एए पुण वेयरणिं धावंता कह वि पाविया तीरं । उज्झंति तत्थ वि पुणो तउ-ताविय-तंब-सीसेहिं ॥
एसा वि वहह सरिया वेदरणी तत्त-जल-तरंगिळा । एत्थ य झंपावडिया झत्ति विलीणा गघा णासं ॥
- 27 अह पुण संगहिय चिय भीम-महाकसिण-देह-भंगिळा । एत्थ विभिजंति पुणो वणम्मि असि-ताल-सरिसम्मि ॥ 27
एए वि मए लिहिया फालिजंता बला य बलिएहिं । करवत्त-जंत-सुत्ता सुत्ता बहु-रुहिर-पंकम्मि ॥
एए वि पुणो पेच्छसु अवरोप्पर-सिंघ-वग्घ-रूवेण । जुज्झंति रोह-भावा संभरिओ पुच्च-वेरि ति ॥
- 30 एए वि पेच्छ जीवा णरए वियणाए मोह-मूढ-मणा । विरसंति पुणो दीणं खर-विरसं भीसणं सहसा ॥ 30
एत्थ य कुमार एए णरए बहु-दुक्ख-लक्ख-लक्खम्मि । तेत्तीस-सागराहं भमंति णिच्चं ण संदेहो ॥
- 33 § ३०१) एयं पि मए लिहियं कुमार सगं सुओवप्सेण । जत्थ य जंति सउण्णा बहु-पुण्ण-फलं अणुहवंति ॥ 33
ता पेच्छ ते वि णरवर सयणिजे दिच्च-वत्थ-पत्थरिए । उववज्जंता जीवा मणि-कुंडल-हार-सच्छाया ॥

1 > P सिहेण वसहस्सं. 2 > P एते, P महिआ, JP वसह्ण्डा (?). 3 > J एणा P एते for एए, P पोस पसरं for पसरवेर, J पसओ. 4 > J इममि for इमिणा, P लिहियो for गिलिओ. 5 > P कारणे को वि I, P भुयंगमो एस मे लिहियो. 6 > P सुचित्त for चित्तं after सुंदर, P परंपरमाणीए, P om. जीवाण कमेण etc. to भममाणीए. 7 > J लूया, J लूयाए. 8 > J घरहारियाए, P repeats पावो. 9 > P भमतीए तु तुरियगमणाए, P गिलिया for गहिया. 10 > J ओवातएण, P ओवाएणं. 11 > JP ओवातओ, P मेत्ते ण. 13 > P म for य, P चित्तेवि चित्तेणं. 14 > P विकराल, P om. लिहियो हि ख, J om. हि, P लिज्जंतो खरणरहावज्जयापत्ति ॥ as the 2nd line. 15 > P पीलिज्जंतो, J काकरवंतेण. 16 > P महावणेण for पहाविणा. 17 > P writes सत्ता thrice, J दुक्खंता, P रागहोस, P सत्तुसत्ता, J भवंति इहं. 18 > P पडु for बहु, P उट्टह for झस. 19 > P एते ते, J उववज्जंता P उववज्जंता, J वस for वसामिस. 20 > J उवदग्गसव्वह्ण्डा ॥. 21 > P अह पत्ते परमाहम्मिए ति, P धावंति for पावंति, P हणलुपछिंदह मारे तूरेह. 22 > P एतेहिं पुणो धक्खण णारया जलण, P वयणा for विमणा. 23 > P एते for एए, P जीवाणं, P उप्पाइओ दुक्खं. 24 > P अ for अह, J अह गलियं, P om. गलियं. 25 > J उण. 26 > J य for वि, P वेयरणी, P नाम for तत्त, P उज्झंति for झत्ति, P पासं for णासं. 27 > P संगलिय, P महाकसण, P वि डिज्जंति. 28 > P एते वि, P बहुभक्खिंद. 29 > P एते वि पुणो, P वग्घवेण I, J संभरिउं, P वेर ति. 30 > P एते, P repeats वियणाए, J मूढवण-सण्णा I, P णो for पुणो. 31 > P om. य, J एते, P om. एए, P दुक्खा, P भमंति णच्चं. 32 > P एयं मि मए, J एत्थ for जत्थ, P सउणा, J इह for बहु. 33 > P सिंजायले for सयणिजे (which is a marginal correction of the former in J also), P om. वत्थ, P वत्थरिए. P उववज्जंती.

- 1 एए उण उववण्णा दिव्वालंकार-भूसिय-सरीरा । सोहंति ललिय-देहा दिव्वा दिव्वेहिं रूवेहिं ॥ 1
एसो देव-कुमारो रेहइ देवी-सएहिं परियरिओ । आरण्ण-मत्त-मायंग-सच्छमो करिणि-जूहेहिं ॥
- 3 एसो उण सुरणाहो अच्छइ अरथाण-मज्झयारम्मि । बहु-देवीयण-देवीहिं परिगभो माण-पडिच्चदो ॥ 3
एसो पुण आरूढो उवरिं एरावणस्स दिव्वस्स । विज्जुज्जल-जालावलि-जाला-मालाहिं दिप्पंतो ॥
एसो वि को वि देवो लिहिओ सुर-पेक्खणं पलोपंतो । णट्टोवयार-सरहस-हाविर-भावाओ देवीओ ॥
- 6 एयाओ पुण पेच्छसु मंयर-गमणाओ पिहुल-जहणाओ । तणु-मज्जेण य थणयल-रेहिरंगीओ ललियाओ ॥ 6
एया पुण विलयाओ गायंति सुहं-सुहेण तुट्टाओ । अच्छइ थंभिय-मणसो गीएण इमो वण-गओ च्व ॥
एयाण वि एथ पुणो कुमार दे पेच्छ विलिहिया एए । किब्बिसिया णाम सुरा किंकर-सरिसा इमे अहमा ॥
- 9 एए परिवेयंता दुक्खं वेदंति णत्थि संदेहो । एसो एथ महप्पा अम्हे उण किंकरा जाया ॥ 9
एसो वि को वि देवो चवणं णाऊण अत्तणो अहरा । परिहीयमाण-कंती मिलान-मल्लो दुहं पत्तो ॥
अण्णो वि एस जीवो विलयइ कलुणं सुदीण-मण-सुत्तो । हा हा अहं अउण्णो संपइ पडिहामि असुइम्मि ॥
- 12 एसो वि को वि देवो विलवंतो चेय देवि-मज्जाओ । पवणेण पईवो इव झत्ति ण णाओ कहिं वि गभो ॥ 12
एयं कुमार सव्वं देवत्तणयं मए वि लिहिऊण । एसो पुणो वि लिहिओ मोक्खो अञ्चत्त-सुभ-सोक्खो ॥
एथ ण जरा ण जम्मं ण ब्राहिणो णेय मरण-संतावो । सासय-सिव-सुह-ठाणं तं चेय सुहं पि रमणिज्जं ति ॥
- 16 एवं कुमार, तेण साहिए तम्मि तारिसे संसार-चक्क-पडम्मि पच्चक्खीकए चितियं मए । 'अहो, कट्टो संसार-वासो, दुग्गामो 16
मोक्ख-मग्गो, दुक्खिया जीवा, असरणा पाणिणो, विसमा कम्म-गई, मूढो जणो, णेह-णियलिओ लोओ, असुइयं सरीरं,
दारुणो विमओवओओ, चवलं चित्तं, वामाई अक्खाई, पच्चक्ख-दीसंत-दुक्ख-महासागरोगाढ-हियओ जीव-सत्थो ति ।
- 18 अवि य । 18

- मणुयाण णत्थि सोक्खं तिरियाण ण वा ण यावि देवाण । णरए पुण दुक्खं चिय सिद्धीए सुहं णवरि एक्कं ॥'
चित्तयंतेण भणियं मए । 'अहो तए लिहियं चित्तवटं, सव्वहा ण तुमं मणुओ, इमेण दिव्व-चित्तयम्म-पडप्पयारेण
21 कारणंतरं किं पि चित्तयंतो दिव्वो देवलोयाओ समागओ'ति । एवं भणंतेण दिट्ठं मए तस्स एक्क-पएसे अण्णं चित्तयम्मं । 21
भणियं च मए 'अहो उवज्जाय, एवं पुण इमाओ संसार-चक्काओ अइरित्तं, ता इमं पि साहिज्जउ मज्झं'ति ।

§ ३०२) इमं च सोऊणं दंसिउं पयत्तो उवज्जाओ । कुमार,

- 24 एयं पि मए लिहियं पेच्छसु सुविभत्त-रूव-सविभायं । काणं पि दोण्ह चरियं भवंतरे आसि जं वत्तं ॥ 24
एसा चंप ति पुरी लिहिया धण-रयण-कणय-सुसमिद्धा । दीसंति जीय एए पासाया रयण-पोंगिह्हा ॥
दीसइ णायर-लोओ रयणालंकार-भूसिओ रम्मो । दीसइ य विवणि-मग्गो बहु-धण-संवाहर-मणिज्जो ॥
- 27 एसो वि तत्थ राया महारहो णाम पण्ह-दाण-परो । अच्छइ तं पालंतो लिहिओ से मंदिरो एथ ॥ 27
एथ य महामहप्पा धणदत्तो णाम बहु-धणो वणिओ । देवी य तस्स भज्जा देवि च्व विलास-रूवेण ॥
ताणं च दोण्ह पुत्ता दुवे वि जाया मणोरह-सएहिं । ताणं चिय णामाई दोण्ह वि कुलमित्त-धणमित्ता ॥
- 30 ताणं जायाणं चिय णिहणं से पाविओ पिया सहसा । अत्थं सव्वं चिय से परिगयमाणं गयं णिहणं ॥ 30
णिज्जीण-विहव-सारा परिवियलिय-सयल-लोय-वावारा । परिहीण-परियणा ते दोग्गच्चं पाविया वणिया ॥
एक्का ताणं माया अवरो से ताण णत्थि बंधुयणो । अकय-विवाहा दोणिण वि कमेण अह जोष्वणं पत्ता ॥
- 33 भणिया ते जणणीए पुत्त मए बाल-भाव-मुद्धयरा । तुम्हे जीवावियया दुक्खिय-कम्माई काऊण ॥ 33

1 > JP एते, P लंकारभूविलासरूवेण । and further adds ताणं च दोण्ह पुत्ता etc. to णिहणं । निशीसियसरीरा before सोहंति etc. as at ll. 29-31, p. 190, J दिव्वे for दिव्वा. 2 > P देविकुमारो, P सच्छिमो करिणि. 3 > P उण सुरणाहो, P देवी उण, P पडिगओ. 4 > J एसो उण, P om. दिव्वस्स, J वज्जुज्जलजलणावलि, P दिप्पंता. 5 > J णट्टोवयारसरहिस- P णट्टोवयार-, P हाविरहावाउ. 6 > JP पुणो, P पेहुलजघणाओ, J जहणाओ । थणमज्जेण, J adds स before रेहिरं. 7 > J एता P एयाओ, P उट्टाओ ।, P वणमउ च्व. 8 > P एया वि, P विलहिया एत्ते । 9 > P एते, J परिवेयंता, P वेपंति णत्थ, P एसो, rather [अण्णे] उण. 11 > P अण्णे, P अउणो. 12 > J चेव. 13 > P inter. वि & पुणो, J सुह-, P साक्खो. 14 > P om. ण after जरा, P वाहिणा, P संतावो । सासय सिउं ठाणं, J सुहं परमणिच्चं ॥ इति ॥. 15 > P adds च after एवं, P चक्के पडम्मि, J om. मए । अहो. 16 > P लोहो for लोओ. 17 > J विसयोवओओ, P om. चवलं चित्तं, J अक्खई, P पच्चक्खं, J आढ for गाढ, P हिय for ति. 19 > J वि ताव for ण वा ण यावि, P देवेण । and further repeats णरए वामाई अक्खाई etc. to ण यावि देवेण । 20 > P चित्तियं तेण, P om. मए, P चित्तियंमपडसारेण. 21 > J देवलोयाओ, J तक्कपएसे, P अन्नं चित्तयमं. 22 > J एअं पुण, JP अतिरित्तं, P सादिज्जओ मज्झ ति. 23 > J उअज्जाओ. 24 > P एयं मि मए, J पेच्छअ for पेच्छसु, J रूवयविभायं, P ताणं for काणं, J हवंतरे for भवंतरे. 25 > P रयणवोंगिह्हा. 26 > J adds वर before रयणा, J विमणि.. 27 > P एथ for तत्थ, P पालंतो, P लिहिओ से मंदिरे. 28 > J धणमित्तो णाम बहुधणो धणिज्जो. 29 > J om. च, J दोण्हं, P inter. धणमित्त and कुलमित्त (त्ता). 30 > P णिहणं स पिया सहसा, J परिगमाणं. 31 > P निज्जीण, P दोग्गच्चं. 32 > P एक्काण ताण माया, P -विवाहा. 33 > P वियाय for वियया.

- 1 एण्हि जोव्वण-पत्ता सत्ता दाउण मज्झ आहारं । ता कुणह किं पि कम्मं इय भणिरिं पेच्छ मायं से ॥ 1
एए वि मए लिहिया लग्गा णिययम्मि वणिय-कम्ममि । तत्थ वि य णत्थि किंचि वि जेण भवे भंड-मोहं ति ॥
- 3 अह होइ किंचि तत्थ वि जं षिय नेण्हति भंड-जायं ति । जं जं येप्यइ दोहिं वि तं तं एक्केण विक्काए ॥ 3
जं एक्केण गहियं मग्गिज्जइ तं पुणो वि अदेण । अदेण जं पि किणियं वच्चइ तं ताण पाएणं ॥
इय जाणिउं वणिजं णत्थि अउण्णेहिं किंचि लाहं ति । ताहे लग्गा किसि-करिसणम्मि कह-कह वि णिव्विण्णा ॥
- 6 § ३०३) एए ते मे लिहिया हल-णंगल-जोत्त-पग्गह-विहत्था । अत्ताणं दममाणा गहिया दारिइ-दुक्खेण ॥ 6
जं किंचि घरे धणं सव्वं खेत्तमि तं तु पक्खिस्सं । मेहा ण सुयंति जलं सुकं तत्थेय तं धणं ॥
अह ते तं चइउणं लग्गा धोरेसु कह वि दुक्खत्ता । एए मए वि लिहिया आरोविय-भोगि-भरयाला ॥
- 9 एए वि ताण धोरा तिलयं होउण वाहिया सव्वे । णीसेसं ते वि मया तत्थ विभग्गा अउण्णेण ॥ 9
विस्तीणं संतुट्ठा पर-गेहे अच्छिउं समाठत्ता । एत्थ वि एसो सामी ण देह विस्ती अउण्णाण ॥
एए पुणो वि ते षिय वेरगेणं इमं परिच्चइउं । अण्णत्थ पुरवरीसुं उवागया जाय-णिव्वेया ॥
- 12 एत्थ वि एए भिक्खं भंमंति धरंयगणेसु भममाणा । ण ल्हंति तत्थ वि इमे वेण वि कम्मेण असुहेणं ॥ 12
एवं च ते कमेणं पत्ता णिव्वेय-दुक्ख-संतत्ता । रयणायरस्स तीरं अत्थं परिमगिरा वणिया ॥
ताव य को वि इमो सो परतीरं पत्थिओ इहं वणिओ । वेत्तूण बहुं भंडं जाणं भरिउण वित्थिणं ॥
- 15 एसो मो तेहिं समं वणिओ भणिओ वयं पि वच्चाओ । देज्जसु अहं विस्ती जा तुह पडिहाइ हिययस्स ॥ 15
वणिएण वि पडिचणं एवं होउ ति वच्चइ दुवे वि । दाहामि अहं वित्ति अण्णाण वि जं दइहामि ॥
एयं तं पोयवरं कुमार एयम्मि सलिल-मज्झम्मि । पम्मोक्कियं जहिच्छं धवलुव्वत्तं-विजयाहिं ॥
- 18 एयं ममुह-मज्जे वच्चइ जल-तरल-वीह-हेलाहिं । सहसा अह फुडियं चिय लिहियं तं पेच्छ बोहित्थं ॥ 18
एए वि वणिउत्ता दुवे वि सलिलम्मि दूर-तीरम्मि । कह कह वि णिबुहुंता फलयारूढा गया दीवं ॥
तरिउण महाजलहिं एए पुच्छंति एस को दीवो । एसो इमेहिं कहिओ केहि मि जह रोहणो णाम ॥
- 21 एयं म्पोउण इमे लट्ठं जायं ति हरिसिया दो वि । अवरोप्पर-जंपंता एए मे विलिहिया एत्थ ॥ 21
एयं तं दीववरं जत्थ अउण्णो वि पावए अत्थं । संपइ ताव खणामो जा संपत्ताइ रयणाइ ॥
- § ३०४) एवं भणिउण इमे खणिउं चिय णवर ते समाठत्ता । दियहं पि अह खणंता ण किं वि पावंति ते वरया ॥
24 अह तत्थ वि णिव्विण्णा अलीणा कं पि एरिसं पुरिसं । धाउव्वायं धम्मिमो ति तेण ते किं पि सिक्खिविया ॥ 24
तत्थ वि खणंति गिरि-कुहर-पत्थरे णट्ट-मयल-पुरिमत्था । ते षिय धंमंति सुइरं तत्थ वि छारो परं हत्थे ॥
तत्थ वि तेणुव्विग्गा लग्गा अह खेलिउं इमे जूयं । एत्थ वि जिणिउण इमे बद्धा सहिएण ते वणिया ॥
- 27 कह-कह वि तत्थ मुक्का लग्गा ओलगिउं इमे दो वि । तत्थ वि एसो जाओ संगामो पाडिया बद्धा ॥ 27
एत्थ वि चुक्का मुक्का अंजण-जोएसु पोय-रूवेसु । अंजंति य णयणाइ उव्वामो जाव से जाओ ॥
अह पुण ते षिय एए कं पि इमं गहिय-पोत्थय-करग्गा । पुरओ काउं पुरिसं बिलम्मि पविंसंतया लिहिया ॥
- 30 एत्थं किर होहिइ जक्खिणि ति अहं वि कामुया होहं । जाव विगराल-त्रयणो सहसा उद्धाइओ वग्घो ॥ 30
एए ते चिय पुरिमा मंतं गहिउण गुरुयण-मुहाओ । मुहा-मंडल-समएहिं साहणं काउमाठत्ता ॥
एत्थ वि साहंताणं सहसा उद्धाइओ परम-भीमो । रोहो रक्खस-रूवी पुव्व-कओ पाव-संघाओ ॥ सव्वहा,
33 जं जं करंति एए पुव्व-महा-पाव-कम्म-दोसेण । तं तं विहइइ सव्वं बालुय-कवलं जहा रहयं ॥ 33

1 > J सत्ता for सत्ता. 2 > P एते वि माइमणिया लग्गा, P किंची जेण. 3 > J inter. तत्थ & किंचि, J adds ता before जं चिय, P भंडमुहं पि ।, P om. वि, J om. one तं, J विकाइ for विक्काए. 4 > J तत्थाण for तं ताण. 5 > J ता for ताहे.
6 > P एते ते, P गहिता दारिइरक्खेण. 7 > P धणं सव्वं. 8 > P लग्गा धोरेसु, P व for वि, P एते. 9 > P एते, P ताण धोरा, P सत्थो for सव्वे, P णीसेसे for णीसेसं. 10 > P मी for सामी, P देति. 11 > P एते, P परिच्चइओ । 12 > P एते, P धरंयगणेसु.
14 > J इमा सा परतीरं, P बहु. 15 > P repeats मणिओ. 16 > P दाहामि तुहं विस्ती. 17 > J P एतं, J पोतवरं P पायवर, P एतंमि, P धवलुव्वत्तं. 18 > P एतं, P च्चिहिहेलीहिं, P अह for तं. 19 > P एतेवि, P om. one कह, P वि णिउत्तंता फलरूढा. 20 > P एते, P इमोण for इमेहिं, P केइम्मि जह. 21 > P एतं, P लट्ठं, P एते, P विलिया. 22 > P एतं, P तत्थ अतओ for जत्थ अउण्णो. 23 > P पत्ता ए for च्चिय णवर, P ता णं for ता ण, J ताण इंचि. 24 > P अलीणा किपि, P पुरि for पुरिसं. 25 > J किर for च्चिय, P हत्थो. 26 > P व्विग्गा अहत्ता खेहिउं इमे. 27 > P चुक्का for मुक्का, P इसो for एसो.
28 > P तत्थ for एत्थ, J जोएसु णायरूवेसु । अंजंति, J उव्वामो. 29 > J एते किं पि अहं, P इमं महिय, P करग्गं, J पुरिसं पिलंमि, P पविसंतया. 30 > P एत्थ किर होहिइ, J विगराल. 31 > J एते, P गुरुयमुहाओ. 32 > J साहंताणं P साहंताणं. 33 > P एते, P विहइसव्वं.

- 1 अह एए एयं जाणिऊण णिविण्ण-काम-रह-भोगा । देवीएँ पाय-वडिया चिट्ठंति इमे सुह-णिवण्णा ॥ 1
एथ वि सा हो देवी कथ वि अण्णत्थ पवसिया दूरं । एए वि पेच्छ वरया सेल्लत्थंभोवमा पडिवा ॥
- 3 दिवहेहिँ पुणो पेच्छसु सयलाहारेण वज्जिय-सरीरा । अट्टिमय-पंजरा इष णिविण्णा उट्ठिया दो वि ॥ 3
§ ३०५) कह कह वि समासत्था एए अणिऊण इय समावत्ता । अट्ठो देव्वेण इमो रोसो अम्हाण णिव्वडिओ ॥
जं जं करेसु अम्हे आसा-तण्हालुएण हियएण । तं तं भंजइ सव्वं विहिदासो पेच्छ कोवेषण ॥
- 6 अम्हाण विरत्थु इमं विरत्थु जीवस्स णिप्फलं सव्वं । घडियम्हे देव्वेणं अहो ण जुत्तं इमं तस्स ॥ 6
किं तेण जीविएणं किं वा जाएण किं व पुरिसेणं । जस्स पुरिसस्स देव्वो अम्हाण व होइ विवरीओ ॥
दीसंति केह पुरिसा कम्मि वि कम्मम्मि सुत्थिया बहुसो । अम्हे उण गय-पुण्णा एकम्मि वि सुत्थिया पेय ॥
- 9 ता अम्ह हो ण कज्जं इमेण जीवेण दुक्ख-पडरेण । आरुहिउं अहवा गिरियडम्मि मुच्चासु अत्ताणं ॥ 9
एयं चेय भणंता पत्ता य इमे चउर-सिहरम्मि । एयं च चउर-सिहरं लिहियं मे पेच्छ णरवसहा ॥
एत्थारुहंति एए पेच्छसु णरणाह दीण-विमण-भणा । आरूढा सिहरम्मि उ अत्ताणं मोत्तुमावत्ता ॥
- 12 भो भो गिरिवर-सिहरा जइ तुह पडणो वि अत्थि माहण्यो । तो अम्हे होज्जामो मा एरिसया परभवम्मि ॥ 12
इय भणित्तं समकालं जं पत्ता घत्तित्तं समावत्ता । मा साहसं ति भणियं कथ वि दिव्वाए वायाए ॥
सोऊण इमं ते श्विय दुवे वि पुरिसा ससज्जसा सहसा । आलोइउं पयत्ता दिसाओ पसरंत-णयणिल्ला ॥
- 15 केणेत्थ इमं भणियं मा हो एयं ति साहसं कुणह । सो अम्ह को वि देवो मणुओ वा दंसणं देह ॥ 15
एत्थंतरम्मि णरवर पेच्छसु एयं तवस्सिणं धीरं । परिसोसियंगमंगं तेएण य पज्जलंतं वा ॥
एएण इमं भणियं बलिया ते तस्स चेय मूलम्मि । अह वंदिऊण साहू भणियो दोहिँ पि एएहिँ ॥
- 18 § ३०६) भो भो मुणिवर सुव्वउ कीस तुमे वारियम्ह पडणाओ । णणु अम्ह साहसमिणं जं जीवामो कह वि पावा ॥ 18
भणियं च तेण मुणिया वर-पुरिसा तुम्ह किं व वेरगं । भणियो इमेहिँ साहू दारिहं अम्ह वेरगं ॥
तेण त्रि ते पडिभणिया कुणह य अत्थस्स बहुविह-उवाए । वाणिज्जं किसि-कम्मं ओलग्गादी बहु-वियप्पा ॥
- 21 तेहि वि सो पडिभणियो भगवं सव्वे वि जाणिया एए । एकेण वि णो किंचि वि तेण इमे अम्ह णिविण्णा ॥ 21
मुणिया पुणो वि भणियं एए तुम्हेहि णो कया विहिणा । जेण अहं तुह भणियो करेह तेणं चिहाणेणं ॥
भणियं च तेहिँ भगवं आइस दे केण हो उवाएण । अत्थो होहिइ अम्हं मुहं च परिभुंजिमो बहुयं ॥
- 24 भणियं च तेण मुणिया जइ कज्जं तुम्ह सव्व-सोक्खेहिँ । किसि-कम्म-वणिज्जादी ता एए कुणह जत्तेण ॥ 24
कुणसु मणं आमणयारयं ति देहामणेसु वित्थिण्णे । पुण्णं गेणहसु भंडं पडिभंडं होहिइ सुहं ते ॥
अह कह वि किसिं करेसि, ता इमं कुणसु ।
- 27 मण-णंगलेण पूए सुपत्त-खेत्तम्मि वाविए बीए । सयसाहं होइ फलं एस विही करिसणे होइ ॥ 27
अह कह वि गोवालणं कुणसि, ता इमं कुणसु ।
§ ३०७) गेणहसु आगम-लउडं वारे पर-दार-दव्व-खेत्तेसु । इंदिय गोरुयथाइं पर-लांए लहसि सुह-वित्तिं ॥
- 30 अह कम्मं ता करेसि, ता इमं कुणसु । 30
जं जं भणाइ सामी सव्वणू कुणह भो इमं कम्मं । तं तं करेह सव्वं अक्खय-वित्तीय जइ कज्जं ॥
अह वच्चह जाणवत्तेण, ता इमं कुणसु ।
- 33 कुण देह जाणवत्तं गुणरयणाणं भरेसु विमलाणं । भव-जलहिँ तरिऊणं मोक्खहीवं च पावेह ॥ 33

1 > P एते एतं, J तं for एयं, P णिव्वन्नकामरहभोगा, P सुहनिसन्ना ॥ 2 > P om. हो, P विरया for वरया, J वडिया for पडिया. 3 > P अट्टिमयं. 4 > P एते, P देवेण, J णिव्वरिओ. 6 > P om. इमं विरत्थु, J घडिअम्हे P घडिओ म्हे, P देवेणं. 7 > P देवो, P वि for व. 8 > P केयि for केह, P कम्मं वि. 9 > J जीएण, P आरुहयं, J अह for अहवा, P सुव्वम्ह for मुच्चासु. 10 > P एतं, P पडर for चउर, P वर for च चउर. 11 > P एते, P दीव for दीण, J om. उ. 12 > P पडणा त्रि, P परिभवंमि. 13 > J जाभता for जं पत्ता, P पत्ता घत्तित्तं, P om. भणियं, P adds भणिया after वि. 14 > P सज्जसा, P आलोइयं, J पयरंत- 15 > P त्रि दोवो, P देओ for देह. 16 > P पेच्छह एतं तवसिणं, J परिसेसि. 17 > P एए इमं, P भणिया, P एयस्स for ते तस्स, J साहू, J दोहं पि. 18 > P पव्वओ for सुव्वउ, P वारिया अम्ह. 19 > P inter. किंच (P किच्च) & तुम्ह, P तुह for तुम्ह, P इमेण साहू. 20 > P बहुविहओवाओ 1, J वाणिज्जविसी, P ओलग्गादी. 21 > J तेहिमिसो पडिभणियो, P एते 1, P णा for णो. 22 > J करेसु. 23 > P आइस देकेणेण, P होही अम्हं, J पडिभुंजिमो. 24 > J om. तेण, P अत्थे for सव्व, P कम्म-विणिज्जादी ता, J एते कुणसु. 25 > P कुपेसु for कुणसु, J आमणयारयं ति P आमणयारयंति, P देहामणे, P धुक्कं for पुण्णं, P भंडं हो हो पण्ण सोक्खं तो ॥ for भंडं etc. 26 > P वि कहिँ करेसु, J किसि करेसि. 27 > J पूते सुपयत्त, P पूसुपत्त, P टाविए for वाविए, P सयसोह, P करिसणा. 28 > P गोवालत्तणं, P om. कुणसि ता इमं. 29 > P गोरुवार्ह, P लहसु. 31 > P adds होह before कुणह, P मं for भो इमं. 33 > J कुण जाणवत्तं देहं, P तरेसु for भरेसु, P मोक्खे दीवं पि पां.

- 1 अह खणसि रोहणं, ता इमं कुणसु । 1
गाणं कुण कोहालं खण कम्मं रोहणं च विरिथणं । अहरा पाबिहिसि तुमं केवल-रयणं अणग्गेज्जं ॥
- 2 अह कुणह थोर-कम्मं, ता इमं कुणसु । 3
मण-थोरं भरिजणं आगम-भंढस्स गुरु-सयासाओ । एयं हि देसु लोए पुण्णं ता गेण्ह पढिभंढं ॥
अह मिकखं भमसि, ता कुणसु ।
- 6 गेण्हसु दंसण-भंढं संजम-कच्छं मइ करंके च । गुरु-कुल-घरंगणेसुं भम मिकखं गाण-मिकखट्ठा ॥ 6
अण्णं च जूयं रमियं, तं एयं रमसु ।
संसारम्मि कडित्ते मणुयत्तण-कित्ति-जिय-वराहीए । पत्तं जहत्तणमिणं मा वेप्पसु पाव-सहिएण ॥
- 9 अह धाउवायं ते धमियं, तं पि 9
तव-संजम-जोएहिं काउं अत्ताणयं महाघाउं । धम्मज्जाण-महग्गिणए जह सुज्झइ जीय-कणयं ते ॥
किं च राहणो पुरओ जुज्झियं तुम्हेहिं । तत्थ वि,
- 12 ओलग्गह सव्वण्णू इंदिय-रिउ-डामरेहिं जुज्झसु य । तव-कडिय-करवाला जह कज्जं सिद्धि-णयरीए ॥ 12
अह मल्लत्तणं कुणसु ।
संजम-कच्छं अह बंधिउण किरिया-बलम्मि ठाऊण । हणिउण मोह-मल्लं जय-गाण-पढाइयं गेण्ह ॥
- 16 किं च अजणजुत्ती तुम्हेहिं कया, तं पि सुणेसु । 15
संजम-दंसण-जोयं-गाण-सलायाए अजियच्छि-जुओ । पेच्छसि महाणिहाणे णरवर सुर-सिद्ध-सुह-सरिसे ॥
अण्णं च असुर-विवरे तुम्मे पविट्ठा आसि । तत्थ वि,
- 18 गाण-जलंत-पदीवं पुरओ काऊण किं पि आयरियं । विसिउं संजम-विवरे गेण्हह सिद्धिं असुर-कण्णं ॥ 18
§ ३०८) किं च मंतं साहिउं पयत्ता, तं च इमिणा विहाणेण साहेयव्वं । अवि य ।
समयम्मि समय-जुत्तो गुरु-दिक्खा-दिण्ण-सार-गुरु-मंतो । सिद्धंतं जवमाणो उत्तम-सिद्धिं लहसि लोए ॥
- 21 अण्णं च देवया आराहिया तुम्मेहिं सा एवं आराहेसु । 21
सम्मत्त-णिच्छिय-मणो संजम-देवंगणम्मि पडिउण । जह ते वरेण कज्जं दिक्खा-देविं समाराहे ॥
एयाइं वणिजाइं किमि-कम्माइं च एवं कीरमाणाइं उत्तिम-बहु-णिच्छय-फलाइं होति ण अण्णह त्ति 'ता ओ वणियउत्ता,
- 24 मा णिव्वेयं काऊण पाण-परिच्छायं करेह । जह सव्वं दुग्गच्च-णिव्वेएण इमं कुणह, ता किं तुम्ह इह पडियाणं दोहग्गं 24
अवसप्पइ, णावसप्पइ । कहं ।
पुव्व-कय-पाव-संचय-फल-जणियं तुम्ह होइ दोग्गच्चं । ता तं ण णासइ च्चिय जाव ण णट्ठं तयं पावं ॥
- 27 एवं च तस्स णासो ण होइ जम्मे वि पडण-पडियस्स । अण्णम्मि वि एस भवंतरम्मि तह चेय तं रइयं ॥ 27
ता मा होहिह मुद्धा अयाणुया बाल-मूढ-सम-सरिसा । अत्ताण-वज्झयारा पावा सुगइं ण पावेह ॥
तओ तेहिं भणियं ' भगवं, कहं पुण जम्मंतरे वि दारिइं पुणो ण होइ ' त्ति । भगवया भणियं ।
- 30 ' जह कुणह तवं विउलं दिक्खं वेत्तूण गरुय-वेरग्गा । ता हो पुणो ण पेच्छह दारिइं अण्ण-जम्मे वि ॥ ' 30
तओ एवं च णिसामिउणं इमेहिं भणियं ' भगवं, जह एवं ता दारिह-अय-विहलाण सरणं होहि, देसु दिक्खं ' त्ति । तओ कुमार, दिण्णा दिक्खा ताणं तेण मुणिणा, इमे य ते पव्वइया, मए लिहिया तवं काऊण समावत्ता । कालेण य इमे ते चेय
- 33 मरिउण देवलोणं पाबिया । पुणो तम्मि ओए भुंजिउण एसो एक्को ताणं चविउण देव-लोगाओ बारवइं णाम णयरी तत्थ 33
2 > J व for च, P अणग्गेय. 4 > P मणघोरं भणिउण आगम- , J ए.अम्मि P एतं हो for एयं हि. 6 > P दंसणदंडं संउ जमसमिइं तवं करंके च । 7 > P जूयरमियं, J एअं for एवं. 8 > P कडित्ते, P कत्ति for कित्ति. 9 > P धाउवायं ते धमियं तं. 10 > P धम्महा° for महा°, P महग्गी जय सुज्झइ जीयकणयं. 11 > P किं चि राहणो, P जुज्झिओ, J तुम्मेहिं. 12 > J सव्वग्ग for सव्वण्णू, P रिओडामएहिं जुज्झसि, J -डामरेहिं जुज्झसु आ । 13 > J मल्लत्तणं कुणह, P मल्लणं. 14 > P किरिय-. 15 > P किं चि अजणजुत्तीउ, J तुम्मेहिं, J सुणसु. 16 > P दंसणजोगं, J सिद्धि-, P -सरिसो. 17 > P सुह for असुर. 18 > J पईवं. 19 > P किं चि, P साहितव्वं. 20 > P om. समयम्मि, P -गुरुमंतो ।, P -सिद्धो लहसु. 21 > J om. च, P देवता, P तुम्मे सा. 22 > J ए for ते, P देवी समाराह । 23 > P एत्ताइं, J एत्ताइं अवणिज्झइ कित्तिक्कम्मादीणि एवं कीरमाणा अत्तमब्हु- णिच्छिअफलाइं, P adds जाह लोयंमि । before एवं, P adds च after एवं, P त्ति भो भो वणिउत्ता. 24 > J माणव्वेअं, P दोहग्गं for दुग्गच्च, P तुम्हाण इह, J दोग्गच्चं for दोहग्गं. 26 > J -जलियं तुम्ह, P दोग्गच्चं । तं दाण, P तवं for तयं. 27 > P om. वि, P चेव. 28 > P होहि मुद्धा, P अत्तावज्झायारो पावा सुगयं ण पावेति ॥. 29 > JP ततो, P हि for तेहिं, P inter. पुण & कहं, P adds दा वि after वि, P होहि त्ति. 30 > P कुणसि for कुणह, P दुक्खं for दिक्खं, P गुरुय-, J तुम्हा for ताहो, J अण्णजम्मि ॥. 31 > P om. च, P दारिइं, P दोहि for होहि, P om. ति. 32 > P दिक्खियाणं for दिण्णा दिक्खा ताणं, P मुणिणो दिण्णा इमे य, P repeats जह एवं ता etc. to मए लिहिया । तवं and adds च before काऊण. 33 > J देवलोअं, J तम्मि अ ओअ भुं, J देवलोआओ, P बारवती.

1 सीह-रणो पुत्तो भाणू णाम जाओ । सो एत्थ उज्जाणे वट्टइ, तुमं जो पुण दुइओ से भाया सो अहं एयं पढं लिहउण 1
तुम्ह पडिबोहणत्थं इहागओ । ता भो भो भाणुकुमार, पडिबुज्जह पडिबुज्जह । सीमो एस संसार-वासो, दुग्गमो मोक्ख-
3 मग्गो, तरलाओ संपयाओ, हत्थ-पत्ताओ विवत्तीओ, दूसहं दारिहं, सो से एस जीवो, असासयाहं पयत्थाहं । अवि य । 3
णाऊण इमं सव्वं संसार-महण्णवे महादुक्खं । बुज्जसु भाणुकुमारा मा मुज्जसु विसय-सोक्खेहिं ॥ ति ।

इमं च सोऊण ईहापोह-मग्गणं करेमाणो धस ति मुच्छिओ भाणुकुमारो । ताव य उद्धाइया पास-परिवत्तिणो वयंसया ।
6 तेहि य आसासिओ सीयलेणं कयली-दल-पवणेणं । समासत्थेण य भणियं भाणुकुमारेण । 6

‘तं णाहो तं सरणं तं चिय अह बंधवो महापुरिस । जेण तए हं मूढो एसो सुमराविओ एण्हिं ॥

सव्वं सरियं जम्मं पुव्वं अम्हेहिं जं कयं आसि । तं एयं सव्वं चिय चरियं अम्हेहिं अणुहूयं ॥

9 § ३०९) एवं च भणमाणो अहं णिवडिओ चलणेसु । पणाम-पञ्चुट्ठिओ य पेच्छामि तं उवज्जायं । अवि य । 9
वर-वेजयंति-माला-परियरिए रयण-किरण-विच्छुरिए । दिव्वे विमाण-रयणे मज्ज-गयं रयण-पुंजं व ॥

वर-हार-मउड-राहं वणमाला-धोलमाण-सच्छायं । मणि-कुंडल-गंडयलुलसंत-दिस्ती-पयासेंतं ॥

12 भणियं च तेण देवेणं । ‘भो भो भाणुकुमार, विट्ठो तए एस संसार-महाचक्क-वित्थरो, जायं तुह वेरगं, संभरिया जाई, अम्हे 12
ते दोण्णि वि सहोयरा वणिय-दारया, पावियाइं इमाइं दोगगच्च-दुक्खाइं । पुणो तेण रिणिणा संबोहिया, तओ एसा
रिद्धी पत्ता । तत्थ य तुमं एक्को चविऊण समागओ । ता दुल्लहं मणुयत्तणं, पत्थणीयाइं सुहाइं, परिहरणीयाइं
15 णरय-दुक्खाइं, तुल्लग-पावणीयं जिणवर-धम्मं, ता सव्वहा ण कजं माणुसेहिं भोगेहिं, दिक्खं पडिवज्ज भगवंताणं साहूणं 15
संतियं । जेण य पावेसि तुमं । अवि य ।

जत्थ ण जरा ण मच्च ण चाहिणो णेय सव्व-दुक्खाइं । सासय-सुहं महत्थं तं सिद्धिं पावसे जेण ॥’

18 एवं च कुमार, तेण देवेणं भणिए समाणे, मए उम्मुक्काइं तप्पखणं चेय आभरणाइं, कयं सयं चेव पंच-मुट्ठियं लोयं उत्तिमंगे, 18
उवणीयं च तेण य दिव्वेणं रयहरण-मुहपोत्तिया-पडिग्गहादीयं उवगरणं, णिक्खंतो उज्जाणाओ । ताव य हाहा-रय-मुहलो
वयंस-भिच्च-सत्थो उद्धाइओ सीह-रणो सयासं । अहं पि तेण देवेण तम्हाओ पदेसाओ अवहरिय इह पदेसे मुक्को । संपयं पुण

21 कं पि आयरियं अणिसस्सामि जस्स मूले पव्वज्जं करेमि ति । ता इमिणा वुत्तंतेण एत्थ वणे अहं इमिणा य पव्वइओ ति । 21
इमं च णिसामिऊण भणियं च कुमारेण । ‘अहो, महंतो वुत्तंतो सुंदरो एस संसार-चक्क-पओओ, णिउणो य भाया दिव्वो ।

कयं तुह भाउयत्तणं, तेण पुण्णवंतो तुमं जेणं इमं पावियं’ ति । इमं च सोऊण महिंदकुमारेण वि गहियं सम्मत्तं,

24 पडिवण्णाइं अणुवयाइं । भणियं च महिंदेण ‘अहो, एरिमो तुमं अम्हाणं णिण्णेहो जेण भगवओ धम्मं णाचिक्खियं’ । 24
कुमारेण भणियं । ‘महिंद, पुव्व-विहियं एयं णियय-परिणामेण पाविज्जइ’ ति भणिऊण वंदिऊण साहुं उवगया आवासं ति ।
भणियं च कुवलयचंदेण । ‘अहो एरिमो एस जिणवर-मग्गो दुग्गमो जेण बहुए जीवा मिच्छा-वियप्प-वामूढा परिवभमंति

27 संसारे, ण उण सयल-तेल्लोक्क-पयड-रूवं पि इमं जिणधम्मं पावंति । ता ण-याणाओ किं कम्माणं बलयत्तप्पणं, आदु 27
जीवस्स मूढत्तणं, किं वा जिण-मग्गस्स दुल्लभत्तणं, किं वा विहाणे एरिसं चेय सयल-जग-जीव-पयत्थ-वित्थरस्स’ ति । एवं

भणमाणा केवलि-जिण-साहु-धम्म-सम्मत्त-कहासुं महिंदकुमारस्स दहं सम्मत्त-परिणामं जाणेमाणा संपत्ता तं खंधावार-

30 णिवेसं । तत्थ कय-कायव्व-वावारा पडियगिय-सयल-सेणिय-जणा पसुत्ता । राईए वि पुणो विमले गयणंगणे णिवडमाणेसु 30
तारा-णियरेसु, संवरमाणेसु हरि-णउलेसु गुहा-मुहेसु, राई-खेय-णीसहेसु मयवईसु, चरमाणेसु महाकरि-जूहेसु, करयरंतेसु

वायस-सउणसु, णिलुक्कमाणेसु कोसिय-संधेसु, सव्वहा

33 कुंकुम-रायारत्ता सूरं दइयं व मग्गए एतं । पुव्व-दिसा महिला इव णहयल-सयणं समारूढा ॥ 33

1 > J adds य after सो and च after तुमं, J adds भो and P adds सोऊण before जो पुण, P इमं for एयं.

2 > P भाणुकुमार, P ति for second पडिबुज्जह, J भो भो for सीमो, J दुग्गे for दुग्गमो. 3 > P om. पत्ताओ विवत्तीओ etc.

to महादुक्खं । बु° 5 > J ईहापूह, P विसग्गणं for मग्गणं, J मुद्धाइया P उद्धाइय, P परियत्तणो, J वयंस तेहि. 6 > J om.

कयलीदल, J adds ति after भाणुकुमारेण. 7 > J मह for अह, P एण्हं. 8 > P om. जम्मं पुव्वं अम्हेहिं, J om. तं, J om.

चिय. 9 > P पणामि पञ्चुट्ठिओ. 10 > P कणय for किरण. 11 > P सोहं for राहं. 12 > P जाती. 13 > J om. वि, P

पवियाइं, P दोगच्च, P om. तेण. 14 > P om. य, P चविओ समाउगओ, P माणुसत्तणं. 15 > P om. णरय, P णु for ण.

16 > P om. अवि य. 17 > P णेय माणुसं दुक्खं सासयसुहपरमत्थं तं. 18 > P कुमारेणं देवेणं, P समाणो, P सयं वे मुट्ठियं

लोये उत्तिमंगे, J उत्तमंगे. 19 > P दिव्वेयं, J परिग्गहादीयं उवकरणं णिक्खंतोओ, P हा for हा हा. 20 > P om. भिच्च, P

पपसाओ, P पपसे. 21 > P पुण किं पि, P om. अहं इमिणा य. 22 > P च णेसामिऊण, P om. वुत्तंतो, J om. चक्क, P पओतो.

P य साया दिव्वो. 23 > J पुणमंतो, P एवं for इमं, J कुमारेणवि. 24 > J धम्म, P णाचिक्खियं. 25 > J णिय, J साहुं,

26 > J om. भणियं च कुवलयचंदेण, P परिवभमंति. 27 > P adds ता ण धम्मं पावंति after पावंति, P बलयत्तप्पणं, P आउ

for आदु. 28 > P om. किं वा जिणमग्गस्स दुल्लभत्तणं, J जय for जग, J om. पयत्थ. 29 > P भणमाणो, P जाणेमाणो संत्ता

पत्तो तं खंधावार, J खंधाणिवेसं. 30 > J adds य after तत्थ, P inter. पुणो & वि, J adds वि after पुणो. 31 > P

रातीमु for राईखेयणीसहेसु मयवईसु, P करयरंतेसु. 32 > J वायसउलेसु. 33 > J रायारत्तासूरं, P दइय ति, P एतं 1, J -सयलं.

- 1 § ३१०) एरिसम्मि य समए दिण्णं पयाणयं ताव जा संपत्ता कमेण विंझ-सिहरासण्णं, तत्थ य समावासिया । तन्नो 1
 कय-दिचह-सेस-परियारा कय-राई-वावारा य गिसण्णा सयणिज्जेसु । तन्नो कय-सयल-वावारा उवविट्ठो सयणयले कुमारो 1
 3 कुवलयमाला य । तत्थ य अच्छिउण कं पि कालं वीसंभालाव-णिम्मरा, पुणो कय-अरहंत-णमोकारा कय-जहा-विवक्खिय- 3
 पञ्चवक्खाणा य गिवण्णा सयणयले, पुणो सयल-खेय-णीसहा पमुत्ता । थोव-वेलाए य विबुद्धो कुमारो जाव तीए राईए दियङ्ग 3
 जामं ति पलोयंतेण गयणयलं दिट्ठं एक्कम्मि विंझ-गिरिवर-कंदरालंतरम्मि जलणं जलमाणं । तं च पेच्छिउण वियप्पिउं 6
 6 समाहत्तो कुमारो । 'अहो, किं पुण इमं, किं ताव एस वणदेवो । सो ण होइ, तेण विथारेण होयब्बं, इमं पुण एक्कथ पएसे । 6
 अह होज वसिमं, तं पि एत्थ णरिथि । अह च्चित्ति होज्ज, सा वि ण संभावीयइ । दीसंति य एत्थ पासेसु परिभममाणा के वि 6
 पुरिसा । किं वा ण होंति पुरिसा, रक्खसा पिसाया वा एए । ण मए दिट्ठा रक्खसा पञ्चक्खं । ता किं ण पेच्छामि के एए । 6
 9 किं वा एत्थ पज्जलइ' ति च्चित्तिउण सुहरं गिहुयं समुट्ठिओ कुवलयमालं मोत्तुं पल्लंकाउ ति । गिबद्धा छुरिया । गहियं 9
 खग-रयणं वसुणंदयं च । गिहुय-पय-संचारं वंचिउण जामइहे गंतुं पयत्तो, तं जलणं थोव-वेलाए य पत्रण-मण-वेवो 9
 कुमारो संपत्तो थोवंतर-संठियमुद्देसं थोवंतरेण य गिहुओ ठिओ कुमारो, दे किं वा एए मंतयंति, के वि रक्खसा वा पुरिसा 9
 12 व ति । तन्नो ते य जंपिउं पयत्ता । 'अरे लक्खह जलण-जालाओ । किं ताव पीताओ, आदु लोहियाओ, किं वा सुक्किलाओ, 12
 किं वा कप्पिण' ति । तन्नो अण्णेण भणियं 'अरे, किमेत्थ लक्खियब्बं । इमं जालाए लक्खणं । तं जहा । 12
 तंबम्मि होइ रत्ता पीता कणयम्मि सुक्किला रयए । लोहे कप्पिणा कंसम्मि गिप्पभा होइ जालाओ ॥ 12
 15 जइ भावट्ठे दव्वं ता एसा होइ अहिय-रेहिल्ला । अह कह वि अणावट्ठो स च्चिय मउया य विच्छाया ॥ 15
 अण्णे उण भणंति । 15
 लक्खेह अगियम्मं गिउणा होऊण लक्ख-बुद्धीए । राहा-वेह-समाणं एयं दुल्लक्खयं होइ ॥ 15
 18 जइ मउयं ता वंगं खर-जलणे होइ फुट्ठणं कणयं । मउयं वंग-विहीणं अज्ज वि बहुए ण जाणंति ॥' 18
 अण्णेण भणियं । 'किमेत्थ जाणियब्बं, 18
 जइ दीसइ अगि-समा मूसा-अंतो कठंत-धाउ-रसा । जइ य सिण्णिइ जाला तह कालो होइ वावस्स ।' 18
 21 एवं च जंपंता गिसुया । 21

- § ३११) कुमारेण च्चित्तियं च । 'अहो धाउवाइणो इमे तण्हा-वस-विणडिया वराया पिसाय व्व अइईए गिरि-गुहासु 1
 य परिभमंति । ता किं देमि से दंसणं, अहवा ण दायब्बं दंसणं मए इमाणं । कयाइ कायर-हियया एए मं दट्ठुणं दिव्वो ति 1
 24 संभाविउण भय-मीया दिसोदिसं पलाइस्संति विवज्जिस्संति वा । ता इहट्ठिओ च्चैय इमाणं वावारं पेच्छंती अच्छिस्सं' 24
 ति ठिओ । भणियं च तेहिं 'अहो, एस अवसरो पडिवावस्स, दिज्जउ पडिवावो गिसिच्चउ धाऊ-णित्तेगो' ति । भणमाणेहिं 24
 सव्वेहिं च्चैय पक्खित्ते सो चुण्ण-जोगो मूसाए । अवसारिया मूसा । पक्खित्ते गित्तेगो थोव-वेलाए य गियच्छियं जाव 27
 27 तंबयं जायं । तन्नो वज्जेणव पहया, मोगरेणव ताडिया, जम-डंडेणव उंडिया विमणा गिरासा सोयाउरा 'धिरत्थ 27
 जीवियस्स' ति भणिउण अवरोप्पर-वयणावल्लोवण-विलक्खा जंपिउं समाहत्ता 'भो भो भट्टा, कहिं भणह सामग्गीए जोओ 27
 ण जाओ, जेण कणयं ति च्चित्तियं सुव्वं जायं' । तन्नो एक्केण भणियं । 'दिट्ठ-पञ्चओ एस जोगो, सुपभिद्धं खेत्तं, कुसलो 27
 30 उवज्जाओ, गिउणा णरिंदा, सरसाओ भोसहीओ, सोहणं ललगं, दिण्णाओ बलीओ । तह वि विहडियं सव्वं । णत्थि 30
 पुव्व-पुण्णे अम्हाणं । को अण्णेो संभवो एरिसस्स वि विहडणे, ता एवं गए किं संपयं करणिज्जं' ति । तन्नो तेहिं भणियं 30
 'पयट्ठह वच्चामो गामं, किं अवरं एत्थ करियब्बं' ति भणमाणा च्चलिया । भणिया य कुमारेण 'भो भो णरिंदा, मा 30

1 > P मए for समए, P om. य. 2 > J आगया for कय (before राई), P रोती for राई, J गिसण्णो, P adds सन्ना before सयणिज्जेसु. 3 > J णमोकारा. 4 > J om. सयल, J णीसहो पमुत्तो थोववेलाए, P उवविट्ठो for विबुद्धो, J om. तीए, P रातीए विबुद्धुजायं. 5 > J पलोयंतेण, P विअप्पिअं. 6 > J om. अहो, J om. किं before ताव, P एक्कथ. 7 > P वो for होज्ज, J संभावीयति P संभावीयति, P परिभममाणा. 8 > JP एते, J adds ता and P adds ए before ण गए, P किं for के, JP एते. 9 > J वा एतं एत्थ पज्जलइ (ओ?), J सुहरं for सुहरं, P मोत्तुणं for मोत्तुं. 10 > P रयणी for रयणं, P वि for च, P पयसंचारो, P जलमालं for जलणं, J repeats तं जलणं, J थोव-. 11 > J adds तं before थोवंतर, J संठिअं उद्देसं P सद्धियमुद्देसं I, J थोवंतरेण, P ट्ठिओ, P om. दे, JP एते. 12 > J वंच्चित्ति for व च्चित्ति, P जंपियं, P पयत्तो, P लक्खेह, P repeats अरे लक्खेह जलणजालाओ, P आउ for आदु, J लोहिताओ. 13 > P ततो, P एक्केण for अण्णेण, P adds इमं जालाए लक्खियब्बं । before इमं जाणय एtc. 14 > P रयते I, P कप्पिण ति कंसम्मि गिप्पिइ होइ. 15 > J एस होइ, P om. कह, P अणावट्ठसि व्वय मउया य. 16 > J om. वण. 17 > P गिउण होऊण, P सव्व बुद्धाए, P वेहस्स माणं. 18 > P तो for ता, P मउयवगविहीण. 20 > P सिण्णिइ जा तह, J झाला for जाला. 21 > P जंपंतो. 22 > J धाउव्वाइणो, P अइसीए. 23 > P om. मए इमाणं, P ए for एते. 24 > J भयमीता, P दिसादिसं, P repeats पलाइस्सं, J विवज्जिअंति, P ट्ठिओ I. 25 > P दिज्जइ, J णित्तेगिच्छि. 26 > P जोगो, J अवसारिया, J पक्खित्तो, P तं for य. 27 > P तंबं जायं, P वज्जेण व हया, P मोगरेण व, J जमडंडेण व P जमडंडेण व मंडिया, P साआउरा. 28 > P जीवियस्स ति, P वयणावल्लोवलक्खा, J भट्टो for भट्टा, P om. कहिं, J भण, P adds किं after भणह. 29 > P तंबं for सुव्वं, J जोओ, P सुपसिद्धक्खेत्तं. 31 > P पुव्वपुञ्जाइ अम्हाणं, P परिसरस वि. 32 > P पट्ठ वच्चामो, J अपरं, P णरिंदा, P writes मा वच्चह thrice.

- 1 वचह, मा वचह' ति । इमं च गिस्तामिऊण संभम-वस-पसरिय-दिसिवह-लोल-लोयणा मीया कंयंत-गत्ता पलाहदं 1
पयस्ता । तमो भणियं कुमारेण 'भो भो मा पलायह, अहं पि णरिंदो कुतूहलेण संपत्तो, ण होमि रक्खसो । 'मा
3 पलायह' ति भणिया संठिया । संपत्तो कुमारो । भणिया य कुमारेण 'सिद्धि सिद्धि' ति । पडिभणियं तेहिं 'सुसिद्धि 3
सुसिद्धि सागयं महाणरिंदस्स, कत्तो ति आगभो' । कुमारेण भणियं 'अहं पि णरिंदो चेय, एयं चिय काठं इह
समागभो अयोज्झाभो' ति । तेहिं भणियं 'सुंदरं एयं, किं अत्थि किंचि सिद्धे णिव्वीयं अहवा होइ रस-बद्धो
6 अद्धकिरियावसिद्धो पाओ अहवा विउक्करिसो । कुमारेण भणियं । 6
'जह होइ किंचि दव्वं होति सहाय व्व णिउणया केह । ओसहि-जोयउ अक्खर ता सिद्धं णत्थि संदेहो ॥'
तमो सव्वेहि मि भणियं 'एवं एयं, ण एत्थ संदेहो । किंतु तुह किपि सिद्धं अत्थि' । कुमारेण भणियं 'कहं जानह जहा
9 मह सिद्धं' । तेहिं भणियं 'अत्थि लक्खणाहं सिद्ध-पुरिसस्स' । कुमारेण भणियं 'केरिसाहं सिद्ध-पुरिस-लक्खणाहं, 9
भणह' । तेहिं भणियं 'सुणसु,
जो सव्व-लक्खण-धरो गंभीरो सत्त-तेय-संपण्णो । भुंजइ देइ जहिच्छं सो सिद्धी-भायणं पुरिसो ॥
12 इमाहं च लक्खणाहं सव्वाहं तुज्झ दीसंति । ता साहसु किं तुह सिद्धं, किं ता अज्जणं, आउ मंतो, आउ तंतो, किं व 12
जक्खिणी, किं वा काह जोहणी, किं वा रक्खसी पिसाहं वा । किं वा तुमं, को वि विज्जाहरो देवो वा अग्गे वेळवेसि
दुक्खिए । ता साहिज्जउ, कीरउ पसाओ' ति । भणियं च कुमारेण 'अहं माणुसो णरिंदो, ण य मम किंचि सिद्धं' ति । तेहिं
15 भणियं 'सव्वहा अवस्सं तुह किं पि सिद्धं, तेण एत्थ महा-विंझ-कुहरंतरे सरस-मयणाहि-दिव्व-बिलेवण-पसरमाण-परिमलो 15
अहिणव-समाणिय-तंबोलो दिव्व-कुसुम-विसट्टमाण-कय-सुंढ-मालो तक्खण-सूहजंत-बहल-दइया-दिव्व-परिमलो झत्ति इहं
संपत्तो णिग्माणुसे अरण्ण-देसे' ति ।
18 § ३१२) चित्तियं च कुमारेण । 'अहो, इमाणं गरुओ अणुबंधो, तं जं वा तं वा उत्तरं देमि' ति चित्तियंतेण भणियं । 18
'जह एवं ता णिसुणेसु । अत्थि दक्खिण-समुह-वेला-लगं विजयं णाम दीवं । तत्थ य कुवलयमाला णाम जक्खिणी, सा
महं कहं पि सिद्धा, तीय एसो पभावो परिमलो य' ति । तमो तेहिं भणियं 'अहो, एवं एयं ण एत्थ संदेहो, केण उण
21 एरिसं मंतं तुह दिण्णं' ति । कुमारेण भणियं 'अण्णेण महामुणिणा दिण्णो' ति । तेहिं भणियं 'अहो, महप्पभावो मंतो 21
जेण आगरिसिया तए जक्खिणि' ति । कुमारेण भणियं 'तुम्हे उण किमेत्थ काउमाढत्तं' । तेहिं भणियं 'अउण्ण-फलं'
ति । कुमारेण भणियं 'तह वि साहह मे, केरिसो जोओ एसो समाढत्तो' । तेहिं भणियं 'जह फुदं सीसइ ता णिसुणेसु ।
24 एत्थ विंझ-गिरिवरे एयं खेत्तं पयमिम पपुसे तं च अग्गेहि धमिउमाढत्तं । तं च ण सिद्धं सुलुव्वं णिव्वत्तियं, कणयं तु 24
पुत्थए लिहियं । कुमारेण चित्तियं । 'ता ण-याणीयइ केरिस-दव्वेहिं वावो पडिबद्धो णिसेओ वा कओ इमेहिं'
ति चित्तियंतेण भणियं 'अहो, इमं ताव खेत्तं, ता इमस्स कहं पिंडी बद्धा, कहं वा पडिवाग-णिसेए कए' । तेहिं
27 सव्वं कहियं 'इमं इमं च दव्वं' ति । तमो कुमारेण चित्तियं 'अहो विरेयणाहं दव्वाहं, तह वि ण जायं कणगं 27
ति । ता किं पुण इमाणं एरिसं जायं ति । हूं, अत्थि अवहरियं तं इमाणं' । चित्तियंतेण भणियं कुमारेण 'अहो, गेणहह
सज्जेह दव्वं, धमह तुग्गे अहं पडिवायं देमि । जह अत्थि सत्ती रक्खमाणं वंतराणं वा अवहरंतु संपयं' ति
30 भणमाणस्स सव्वं सज्जीकयं, धमिउं समाढत्ता । थोव-वेलाए य जाणिऊण जाला-विसेसं कुमारेणं अवलंबिऊण सत्तं 30
णमोक्कारिया सव्व-जय-बंधवा जिणवारिंदा, पणमिया सिद्धा, गहियं तं पडिवाय-चुण्णं, अभिमंत्तियं च इमाए विजाए ।
अवि य 'णमो सिद्धाणं णमो जोणी-पाहुड-सिद्धाणं इमाणं' । इमं च विज्जं पढंतेण पक्खित्तं मूसा-मुहम्मि, धग ति य

1) J भीअकंपन. 2) P महा for मा. 3) P भडिभडिणियं सुद्धित्तिरतेहिं य सागयं for पडिभणियं etc. 4) J एयं
चि काठं, P चेव पर्यचियं. 5) P om. अयोज्झाओ, J adds ति after णिव्वीयं, J अहवा होराइ रसबंधो, P अद्धकिरियावसिद्धा पाउ
णहवा. 6) J पातो for पाओ. 7) J जं किंचि अत्थि दव्वं for जह etc., P अक्खरसिद्धि. 8) P वि for मि, P तु for तुह.
9) J मम P महा for मह, P सिद्धि 1, P पुरिसस्स लक्खं. 11) J हरो for धरो, P संपुओ । 12) P तायंजणं, J आउ, J
om. आउ तंतो, P रंतो for तंतो. 13) P किं रक्खसी पिसाती, P वेळवेमि. 14) J दुक्खए, P अहो for अहं, J सिद्ध ति ।
15) P मज्झ विंझकुहरंतरे, P दिव्वविलेव पसरं. 16) P कयकुंडमालो. 18) P इमाणं गुर्याणुबंधो, J अणुबद्धो ता जं, P
चित्तियंतेण. 19) J समुदं, J om. य, P जा for सा. 20) P एस भावो परिमलो व ति, P om. ण. 21) J महापभावो.
22) J तुग्गे for तुम्हे. 23) J om. कुमारेण भणियं, J om. मे, J एसमाढत्तो. 24) J धमिउं समाढत्तं P धंमिउमाढत्तं, P
च णिसुद्धं सुव्वं णिव्वत्तियं. 25) P पडियं for लिहियं, J om. ता, J णयाणसि केरिस, P पडिबंधो, J णिसिओ वा कतो. 26) J
तेण for चित्तियंतेण, P om. भणियं, P पडिबंधो for पिंडी बद्धा, J om. पडिवाग, J णिसेते कते तेहिं अ सव्वं. 27) P repeats
दव्वाहं, J कणयन्ति. 28) J om. चित्तियंतेण भणियं कुमारेण, P चित्तियंतेण, P om. अहो, J om. गेणहह. 29) J सज्जोह P
धंमइ तुम्हे अहं, J पडिवाव देमि, P om. जह, P om. वा. 30) P सज्जीवकयं धंमिउमाढत्ता, J अविलंबिऊण. 31) J पणमिता,
P अहमंत्तियं. 32) J सिद्धादि for इमाणं.

1 पञ्जलिया मूसा भोसारिया य, गिसिप्ता गिसेएण थोव-वेलाए गिवच्छियं जाव विज्जु-पुंज-सच्छयं कणयं ति । तं च दट्टण 1
सव्वे पहरिस-वसुल्लसंत-रोमंचा गिवडिया चरणेसु कुमारस्स, भणिउं च पयत्ता । 'णमो णमो महाणरिंदस्स । अहो
3 अच्छरियं । तं चेयं खेचं, तं चेयं चुण्णं, सो चेयं गिसेओ । अम्हं तंवं जायं, तुह पुण हेमं ति । अत्थि पुरिस-विसेसो 3
ति । ता साह, एस को विसेसो' ति भणिए संलत्तं कुमारेणं ' भो भो तुम्हे सद्धामिसंकिणो सत्त-मंत-रहिया । मए पुण
सत्तं अवलंबियं, पणमिओ इट्ट-देवो, मंतं पटियं, तेण मह सिद्धं एयं, ण उण तुम्हाणं' ति । तेहिं भणियं 'देसु अम्हाणं
6 तं मंतं, साहसु य तं सिद्ध-देव-सुयं ति' । कुमारेण भणियं । 'एत्थ अधिकय-देवओ भगवं सव्वणू जेण एयं सव्वं जोणीपाहुं 6
भणियं, ता तस्स णमोहारे जुज्जह । मंतो 'णमो अरहंताणं णमो सव्वसिद्धाणं' ति भणंतो समुट्ठिओ कुमारो 'वच्चामि
अहं' ति । तओ तेहिं ससंभमं पायवडिण्हि भणिओ 'देव, पसीदसु करेसु पडिवज्जसु ओलगं ति । तुम्मे उवज्जाया,
9 अम्हे चट्ट' ति । कुमारेण भणियं 'दिण्णा मए तुम्हाणं विज्जा । संपयं जं चेह कुणह तं चेयं सिज्जह ति । पडिवण्णा य 9
मए ओलगा । जइया कर्हिचि कुवलयचंदं पुहइवइं सुणेह तइया आगंतव्वं' ति भणमाणो पत्थिओ कुमारो मण-पवण-वेगो
तं चेयं दिसं जत्थागओ, संपत्तो कडय-संणिवेसं उवगओ सयणीयं जाव कुवलयमाला विउद्धा ससंभम-पसारिय-लोळ-लोयणा
12 ण य तं पेच्छह । कुमारं अपेच्छंती य चिंतिउं पयत्ता 'कत्थ मण्णे गओ मह दइओ, किं कत्थइ जुयइ-वियप्पेण, अहवा 12
मंत-साहणेणं, अह विज्जाहरीहिं अवहरिओ, किं णु एयं' ति चिंतयंतीए इत्ति संपत्तो पुरओ । तओ सहरिसाए गहिओ
कंठे वीसत्थो य पुच्छिओ । 'देव, जइ अकहणीयं ण होइ, ता साहिज्जउ कत्थ देवो गओ' ति । कुमारेण भणियं । 'किं
15 तमत्थि जं देवीए ण साहिज्जइ' ति भणिऊण साहिओ सयलो धाउव्वाइय-वुत्ततो ति । 15

§ ३१३) भणियं च कुवलयमालाए 'देव, सव्व-कला-पत्तट्टा किल्ल अहं, एयं गुरुणो समाइसंता, इमं पुण णरिंद-कलं
ण-याणिमो । ता कीस ममं ण होसि तुमं उवज्जाओ' ति । कुमारेण भणियं 'सुंदरि, कीस उण सयल-कला-कलाव-पत्तट्टाए
18 वि होऊण एयं ण सिक्खियं' ति । तीए भणियं 'अज्जउत्त, किर एत्थ णत्थि फलं, वादो चेयं केवलं' । कुमारेण भणियं 'मा 18
एवं भणह । अवि य ।

अवि च्छह मेरु-चूला सुर-सरिया अवि वहेज्ज विवरीया । ण य होज्ज किंचि अलियं जं जोणी-पाहुडे रइयं ॥'

21 तीए भणियं 'जइ णाह, एवं ता कीस एए धाउव्वाइणो णिरत्थयं परिभमंता दीसंति' । कुमारेण भणियं । 'अत्थि णिरत्थया 21
णरिंदा जे सत्त-परिहीणा सोय-परिवज्जिया अबंभयारिणो तण्हाभिभूया लद्धा मित्त-वंचणपरा कयग्वा अदेव-सरणा मंत-वज्जिय-
देहा असहाया अयाणुया अणुच्छाहिणो गुरु-णिंदया असहहमाणा अलसायंति । अवि य ।

24 जे पुरिसा णरिंदा भागम-सत्तेहिं वंचिया दूरं । रंक् व्व चीर-वसणा भमंति भिक्खं खल-णरिंदा ॥ 24
जे उण विवेणिणो उच्छाहिणो बंभयारिणो जिइदिया अलोलुया अगव्विया अलुद्धा महत्था दाण-वसणिणो मित्त-वच्छला गुरु-
भत्ता देव-पूयया अभिउत्ता मंतवाएसु ताणं णीसंसयं सिद्धि ति । अवि य ।

27 जे गुरु-देवय-महिमाणुत्पपरा सयल-सत्त-संपण्णा । ते तारिसा णरिंदा करंति विरिणो वि हेममए ॥' 27
कुवलयमालाए भणियं 'जइ एवं, ता कीरउ पसाओ साहिज्जउ मज्झ इमं' ति । कुमारेण भणियं ।

'किरियावाइ णरिंदा धाउव्वाइं य तिण्णि एयाइं । लोए पुण सुपसिद्धं धाउव्वाइं इमे सव्वे ॥

30 जो कुणह जोय-जुत्तिं किरियावाइं तु सो भवे पुरिसो । जो उण बंधइ णिउणो रसं पि सो भण्णइ णरिंदो ॥ 30

जो गेण्हिऊण धाउं खेसाओ धमइ खार-जुत्तीए । सो किर भण्णइ पयडं धाउव्वाइं जणे सयले ॥

किरिया बहु वियप्पा णिब्बीया होइ पाय-वीया य । अद्ध-किरिया य पयडा पाओ तह होइ उक्करिसो ॥

33 सा हेम-तार-भिण्णा दुविहा अह होइ सा वि दुवियप्पा । कट्ट-किरिया य पदमा दुइया सरसा भवे किरिया ॥ 33

1 > P पञ्जलियाओ मूसाओ, J गिसेएत्थोअ, P गिसेतेण, J adds य before गियच्छियं, P विज्जपुंज. 2 > P सव्वपहारिस-
वसुल्लसंतरोमंच, J वसुल्लसंत, P कुभणियं for भणिउं. 3 > P हेमन्ति. 4 > J तुम्मे for तुम्हे, P om. सद्धामिसंकिणो, J om.
सत्त. 6 > P adds हमु after साहमु, J देवयं for देवमुयं, P om. कुमारेण भणियं । 'एत्थ etc. to अम्हे चट्ट' ति । J अधिकअ.
देवतो. 9 > J चट्टति. 10 > J वेओ for वेगो. 11 > J सणियं for सयणीयं, P पसरिय. 12 > P om. य before
चिंतिउं, P कण्ण for कत्थ, P कत्थ वि जुवइ. 13 > J किण्ण P किण्णु एत ति, J चिंतयंतीय, P तह for तओ, J सहरिसाय.
14 > P जइ कहणीयं ण होति ता, P किमेत्थ for किं तमत्थि. 15 > J सयलधा, JP धाउव्वातिय. 16 > P दिव्व for देव, J
एतं, P om. एयं. 17 > JP पत्तट्टा य वि. 18 > P य for एयं, J तीअ, P om. णत्थि फलं, J वातो for वादो, P केवलो णत्थि
फलं । कुमारेण. 19 > J मण for भणह. 20 > P मरुचूला, P अवि हवेज्ज. 21 > J तीय, P धाउव्वाइणा, J णीरत्थयं, P
परिभमंता. 22 > P जे स परिवज्जिया, J तण्हाभिभूता लद्धा मित्तवचण परा, JP यदेव for अदेव, P सन्नि for मंत. 23 >
अलसत्ति । अवि य. 24 > P जे पुरिसा णतरिंदा, P रंक्वचीर, P तिक्कं for भिक्कं. 25 > P om. उच्छाहिणो बंभयारिणो J
जितिदिया, J om. अलोलुया, J अणुद्धा, P दाणवणवसणिणो, J वच्छलो. 26 > J मंतवातेसु. 27 > P गुण for गुरु, P महिमाण-
त्पपरा, P om. सत्त, J हेममये. 29 > JP किरियावाति, P णरिंदो, J धाउव्वाआ P धाउव्वाती, JP एताइं, J धाउव्वाती, P धाउव्वाओ
इमो सव्वो. 30 > J किरियावाती, P उ for तु, P रसं मि सो. 31 > J खेत्तातो, J धाउव्वाती P धाउव्वाती, P सयलो. 32 >
P होति, J पादवीआ य, J पातो तह. 33 > P होति सा वियप्पा अद्धकिरिया पदमा, J दुतिया.

- 1 तह वाव-णिसेगेहिं दवेणेकेण दव्व-जोएहिं । तह धाउ-मूल-किरिया कीरइ जीवेहिं अण्णा वि ॥ 1
- एवं बहु वियप्पा किरिया सत्थेसु सुंदरि पसिद्धा । ते सारोदाहरणे वाहिण्यंते णिसामेहि ॥
- 8 णागो गंधं सुव्वं घोसं तह तार-हेम-तिक्खाई । सीस-तउ-तंब-कंसं रूप-सुवण्णाई कोहं च ॥ 3
- आरं तथा पसिद्धं सूयय-कुण्डी य तालयं चेष । णाह्णि-भमराहंयं एसा भासा णरिदाणं ॥
- एसो धाउव्वाभो सुंदरि बोच्छामि संपयं एयं । सयलं णरिंद-वायं अहवा को भाणिउं तरइ ॥
- 6 § ३१४) ताव य पडु-पडह-पडिरव-संखुद्ध-विउद्ध-वण-सावय-सहस्स-पडिरवुच्छलंत-बहल-इलबोल-इलहलाउरमाण- 6
- दस-दिसं पहर्यं पाहाउय-मंगल-तूरं । ताव य णिवडंति तारया, गलियप्पभो णिसाणाहो, ऊसरिजंति दिसि-मुहाइं, वडुए
- गयणयलं, पणस्सए तिमिरं, अरुणाण्णा पुव्व-दिसा, पलवंति वण-कुक्कुडा, पलायंति रिच्छा, पविंसंति गुहासु मइंदा, गुविल- 6
- 9 मल्लियंति वग्वा, करयरेंति सउणया, मूहजंति घूया, करयरेंति रिट्ठा । दिणयर-णरवर-कर-णियर-विलुप्पणा भीय व्व झीण- 9
- विमणा पईव-कुडुंविणो ति । एत्थंतरम्मि पठियं बंदिणा । अवि य ।
- णासेतो तिमिरयं पि विछायइ ससि-बिंबयं । विमलंतो दिसि-मुहाइं अंधीकरेइ घूयए ॥
- 12 विहडंतो संगमाइं मेलंतो चक्कावायए । ओलगइ भुयणम्मि दिणयर-कर-पठभारओ ॥ 12
- इय एरिसे पभाए णिइं मोत्तण णाह दइयं व । कीरंतु अवक्खेयं गुरु-देवय-पणइ-कज्जाइं ॥
- इमं च पठियं णिसामिउण कुमारेण भणियं ।
- 15 'सुंदरि एस पभाया रयणी संपयं गुरु-देव-बंधु-कज्जाइं । कीरंति इमाइं वणे अच्छउ पासव्य-उल्लावो ॥' 15
- भणमाणा गिम्मल-जल-विमलिय-वयण-कमला पविट्ठा देवहरयं । 'णमो जिणाणं' ति भणमाणा पणमिया भगवंताणं कमल-
कोमलेसु चलण-जुवलेसु । तओ पुण भणिउमाडत्ता ।
- 18 सुप्रभातं जिनेन्द्राणां धर्मबोधिविधायिनाम् । सुप्रभातं च सिद्धानां कर्मौघघनघातिनाम् ॥ 18
- सुप्रभातं गुरूणां तु धर्मव्याख्याविधायिनाम् । सुप्रभातं पुनस्तेषां जैनसूत्रप्रदर्शनाम् ॥
- सुप्रभातं तु सर्वेषां साधूनां साधुसंमतम् । सुप्रभातं पुनस्तेषां येषां हृदि जिनोत्तमाः ॥
- 21 एवं च धुणिकण कयं कायव्वं । ताव य सजल-जलय-गंभीर-धीर-पडिसद-संका-विहाण-सरोयर-रायइंस-कुल-कलयल-मुहला 21
- अप्फालिया पयाणय-इक्का । तेण य सहेण जय-जयासइ-मुहलो विबुद्धो सव्व-खंधायार-परियणो सामग्गिउं पयत्तो
- सव्वभंडोवक्खराइं । किं च कीरिउं पयत्तं । अवि य कच्छिजंति गइंदे, पल्लाणिजंति तुरंगमे, भारिजंति करे, 24
- 24 भरिजंति बइहे, जुप्पंति रहवरे, जोइजंति सयडे, उट्ठाविजंति भारिए, संभाविजंति जंपाणिए, संभारिजंति कम्मयरए, 24
- संजमिजंति भंडयरे, संवेळिजंति पडउडीओ, परिहिजंति समायोगे, घेप्पंति य सर-सराएण-झरय-चक्क-कोतासि-णिवहे
- पक्कल-पाइक्क-णिवहेणं ति ।
- 27 उट्टेसु वच तूरसु गेण्हसु परिसक्क तह पयट्ठाहि । उच्छल्लिए बहल-बोले गोसग्गे तं बलं चलियं ॥ 27
- कुवल्यमाला वि समारूढा वारुयं करिणिं । कुमारो वि विविह-तुरय-खर-सुरगुदारिय-महियलुच्छलंत-रय-णियर-पूरमाण-
- दस-दिसामुह-णिरुद्ध-दिणयर-कर-पसर-पपरियंधयार-मुद्धिण-संकास-हरिस-तंडविय-सिहंढि-कलाव-रेहिरं वणं खणंतो गंतुं
- 30 पयत्तो । अणवरय-पयाणएहिं संपत्तो अत्तणो विमय-संधिं । ताव य महिंदेण पेसिओ सिरि-दढवम्मराइणो वद्धावओ 30
- जहा कुमारो संपत्तो ति । तं च सोउं राया वि सहरिस-वस-समुच्छलंत-रोमंच-कंसुओ णीहरिओ सपरियणो संसुहं गंतुं
- पयत्तो । पहाइओ कुमारस्स वद्धावओ जहा महाराया संपत्तो ति ।

1 > P णिसामेहिं, J धातु, J अण्णे वि. 2 > P सव्वेसु सुंदरि, P ते सामेता हरणे साहिण्यंते णिसामेह ॥ 3 > P वंगं for गंधं, J निकयत्ती P तिकवाती, P तंवा- 4 > J गृतय, P तालसंचय, J भयणातीयं P भमरादीतं. 5 > J धातुव्यातां, J पेच्छामि for बोच्छामि, P अहवा भणिउं. 6 > J adds पडिअ before पडु, P संखुव्व, J मुद्ध for विउद्ध, P पडिरावुच्छलंत- 7 > J गलियप्पमे, P ऊरिसारिजंति, P वट्टए. 8 > J रच्छा P तिरिच्छा for रिच्छा, P गुहामु सिंघा गुविसंतिमल्लियंति. 9 > P करयरेंति, J करयरेंति before रिट्ठा, J दीम for भीय, P भीय व्वझीणविमाणा पतीवकुट्टुविणो. 11 > J तिमिरचयं, P विच्छाश्यससि, J puts danda after विमलं, J अंधीकरेइ P अंधीकरेइ. 12 > P विहडंतो, J चक्कायए, P ओलगइं उअग्गइ, J सुअ गयम्मि, 13 > P पभाए, J णिइं for णिइं, P कीरओ सव्वक्खेयं, P पणयकज्जाइं. 14 > P inter. भणियं & कुमारेण. 15 > P एसा पभाया, J देवय for देव, P वंधकज्जाइं, P जाव संलायो for पासव्यउल्लावो. 16 > P om. जय, P विमल for विमलिय, J om. ति. 17 > J जुअलेसु P जुवणेसु, J भाणिउमाडत्ता P भणिउमाडत्तो. 18 > P धर्म बोधयि. 19 > P जिनेन्द्राणां for गुरूणां. 20 > J सर्वेषां, P साधुसंमतम्, P येषां हृदि शि जिनोत्तमः ॥ 21 > J वयं P कय for कयं, J अवि य for ताव य, P om. one जय, J adds सइ after पडिसद, P निदाण for विट्ठण, P हंसराय for रायहंस, J कल for कलयल. 22 > J पयाणयपयडक्का, P सहेण जयासइमुहलो, P खधावार, P सामग्गिउ पयत्तो. 23 > P किं चि for किं च, J पयत्ता । P पल्लाणिजंति. 24 > P adds, after जोइजंति, अरिउं पयत्तं । etc. to जोइजंति, P उट्टविजंति, J संभारिजंति जंपाणिए, P भंडायारे for भंडयरे. 25 > P adds जंति after संवेळिजंति, P समायोगे, P om. य, J om. सर, P सव्वस for सस. 27 > P उट्टसु वचमु तूरसु, J गेण्हसु परसव्व चक्कम पयट्ट । J उच्छल्लियवहलबोले, P उउच्छल्लिय इ बोयो. 28 > J वारुअकरिणि, P करिणी, J तुरयं, P णिय for णियर. 29 > P om. दस, P रिसिसामुह, P डियर, P om. पसर, P दुद्धिणासंकास, P om. हरिस, P तडुविय, J कलकरेहि खणंतो, P ता जणंतो for खणंतो. 30 > J अत्तो P अण्णो for अत्तो, P धारणो for राशो. 31 > P सोऊण for सोउं, J वि हरिसव्वस, P वियस for वस. 32 > J य after कुमारस्स.

- 1 § ३१५) तत्रो कुमारो वि पहरिस-वस-वियसमाण-कुवलय-दुल-दीह-लोयण-जुवलो 'सागयं तायस्व' ति भणतो 1
उत्तिण्णो तुरयाओ । सरय-समउगय-दिणयर-कर-परिमास-वियसियंबुरुह-सरिस-चलण-जुवलो चलणेहिं चैय गंतुं पयत्तो ।
3 ताव य वेणुं संपत्तो महाराया । दिट्ठो य णेण कुमारो देव-कुमारो व्व णयण-मणाणंदणो । कहं । अवि य । 3
कमलेण दिणयो इव अहवा कुमुएण चंदिमा-णाहो । सिहिणा घणो व्व अह कोइलेण चूओ व्व महुमासे ॥
तं च दट्ठण सरहस-पसारिय-दीह-बाहु-फलिहेण आलिंमिओ कुमारो राहणा । हिययदभंतर-घर-भरिउव्वरंत-पहरिस-वस-
6 णीहरंत-बाहुपील-लोल-लोयणा दोणिण वि जाया । पणामिओ य पाएसु महाराया । माया वि चिर-विरह-दुव्वलंयी 6
दिट्ठा कुमारेण । तीए सिणेह-णिभरं अवगूढो । रोइउं च पयत्ता, संठाविया य परियणेण । दिणं णयण-वयण-धोवणं
गंधोदयं उवविट्ठा तम्मि चैय ठाणे । कुमारो वि गहिओ उच्छंणे देवीए, लुंविओ उत्तिमंणे, भणिओ य 'पुत्त, दढ-कटिण-
७ हियओ सि तुमं । अग्हे उण पुत्त-भंड-णेह-णिभर-पसरमाण-विरह-जालावली-दूमिया मयं पिय अत्ताणं मण्णामो । ७
ता जीवेषु चिरं, अह्वहदुयं अह्व इमं जं जियंतो दिट्ठो सि' ति । भणियं च राहणा । पुत्त,
तद्वया अम्हाण तुमं देव्णेण हओ तुरंग-रूवेण । कथ गओ कथ टिओ कह चुको तं तुरंगाओ ॥
12 कह गमिओ ते कालो कथ व परिहिंदिओ अणाहो व्व । कह व मणि-पू-वण्णो कथ व सो पूवओ दिट्ठो ॥ 12
कह व तुमं संपत्तो वेलाउलमि कहं ममुहस्स । वच्छेण वच्छ इमिणा कह व महिंदेण संपत्तो ॥
कह व तए परिणीयं कह णओ विजयसेण-णरवइणा । किं तत्थ टिया तुडमे वेण व कज्जेण कालमिणं ॥
16 कह आगओ कह गओ कह वा दुक्खाइं पुत्त पत्ताइं । साहिज्जउ मह एयं जेणजं णिवुइं होइ ॥ 16
एवं च पुच्छिओ समाणो चलणे पणमिऊण साहिउं पयत्तो । साहियं च सयलं वुत्तं संखेवेणं ति । ताव य ।
उज्जमह धम्म-कज्जे मा बज्जह णेह-णियल-पासेहिं । णेहो ति णाम डङ्गं भणियं मज्झणह-दंडाए ॥
18 तत्रो अहो मज्झणहो जाओ ति कय-मज्जण-भोयणा संवुत्ता । पुणो सुहासणत्था जाया, विविह-देस-कला-कलाव-कहासु 18
चिरं टिया । गणियं च गणएहिं कुमार-गह-दिण-लग-वेला-पयेसस्स ममयं जुवरायाभिसेयस्स य । तत्रो हरिस-तोस-
णिभरंहेह य ममादत्ताइ य वद्धावणयाइं । धवल-धयवडाडोव-मंडिया कीरण अओज्जा पुरवरी । सजीकयं सयलं
21 उवगरणं । वीलीणो य सो दियहो ति । ताव य । 21
किं अच्छह वीसत्था दुक्कह कालो ति कुणह कायव्वं । उय जाम-संख-सदो कुविय-कयंतस्स हुंकारो ॥
तं च भोऊण समुट्टिया सव्वे धम्म-कज्जाइं काठं समादत्ता । पाओसियवयं अत्थाणि-मंडलं दाऊण पसुत्तो कुमारो । णिसा-
24 विरामे य पटियं वंदिणा । अवि य । 24
पडणम्मि मा विसूरह मा गध्वं वहह उग्गमे पुरिसा । इय साहंतो व्व रयी अत्थमिओ उग्गओ एण्हं ॥
इमं च भोऊण समुट्टिया सयल-महारायपसुहा णरिंद-वंदा । तत्रो कय-कायव्वानं च ववंति दियहा ।
27 § ३१६) पुणो समागओ कुमारस्स णयर-पवेस-दियहो । अओज्जा-पुरवरीए घोमावियं च राहणा जहा कीरउ 27
णयरीए सक्कारो ति । तत्रो किं च कीरिउं समादत्तं । अवि य सोहिज्जंति रच्छा-मुहाइं, अवणिज्जंति कयार-संकरे, सिचंति
गंधोदण्ण रायवहे, बज्जंति वंदणमालाओ, विरइज्जंति कणय-तोरणे, भूसिज्जंति धवलहरे, मंडिज्जंति वार-मूले, चित्ति-
30 ज्जंति राय-सभाओ, पृहज्जंति चच्चरे, समादपंति पेच्छणए, पत्थरिज्जंति सिंघवडए, वित्थारिज्जंति चंदोयवे, विहाडिज्जंति 30
पडिओ, उडिभज्जंति पट्ट-पडायाओ, लंविज्जंति कडि-सुत्तए, पयडिज्जंति महारयणे, विक्खिपंति मुत्ताहले, कीरंति कुसुम-
दामोजले, हलहलायइ कुमार-दंसणुसव-पसरमाणुकंठ-णिभरो णायर-लोओ ति । अवि य ।
33 मणि-रयण-भूसियंगी पिययम-दट्टव-पसरिउकंठा । वासय-सज्ज व्व पुरी अच्छइ कुमरं पडिच्छंती ॥ 33

1 > P om वस, J जुअलो, P adds य after जुअलो. 2 > P सरयमउगंत, P परिपंस for परिमास, J जुअलो. 3 > J चैय before संपत्तो. 4 > P दिव for इव, P घणा व्व, P मउ for चूओ. 5 > J सहरिस पसरिअ, J धरि for घर. 6 > P बाहुलोल, P om. माया, J विरहिर for चिरविरह. 7 > P णिभंतरं अवऊढो, J om. च, P संठाविया, P वयणे. 8 > J गंधोदयं, P उवविट्ठो, P च्छाणे for ठाणे, P om. दढ. 9 > P उभ for भंड, J दूमिया. 10 > P जीउसु, P om. इमं. 11 > J अम्हाण, J ए for हओ, P राओ for गओ, P ट्ठिओ, J कथ चुको, P तह for तं. 12 > J कह य गमिओ, J om. ते, J om. व and व्व. 13 > J वेलाजलमि किं समुहस्स, P वेलाउलं कहं, P मज्जां for वच्छ, P कह वि महिं. 14 > P कह वि तए, J om. णाओ, P ट्टिया. 15 > P om. कह गओ, J मए एअं. 16 > P चलणेषु पयत्तो, P संसंखेवेणं. 17 > P णेहणेव, P दंडं for डडुं. 18 > J कयभोयणमज्जणा P कयमज्झणहभोयणा. 19 > J om. च and adds गणियं on the margin, P adds पवेत्ता after वेला, J जुगराया P जुवरायाहिसयत य l, J om. य, rather [कुमारस्स गहदिणलगवेलासमयं पवेत्तस्स जुवरायाभिसेयस्स य]. 20 > P adds धवणयाइं after वद्धावणयाइं, J अओज्जा. 22 > P दुक्कयकालो, P उ for ति, P च उ for उय. 23 > P धम्मं for धम्म, J पाउसिअवयं अत्थाणि P पाओसिअं च अत्थाणि. 24 > P om. य before पटियं. 25 > P वहह मगव्वं च मंगव्वं उग्गमे पुरिसे. 26 > P समुट्टिता सयले महारायपसुहा णरिंदवदा, J om. च. 28 > P om. रच्छामुहाइं etc. to भूसिज्जंति. 29 > P वरमूले, J प चित्तिज्जंति राय. 30 > J सिंघवडए, P repeats सिंघवडए वित्थारिज्जंति, J वित्थारिज्जंति, P चंदोयवे, J विहाडिज्जंति पडीए. 31 > P पडिओभिमज्जंति पट्टपडाओ, P कडसुत्तए. 32 > J दामोजले, P हलहलाइ, P दंसणुसव, J पसरमाणुकंठ P पसरमाणुकंठो, P लोय ति.

- 1 पृथंतरम्मि कुमारो वि सह राहणा समाकरो जयकुंजरं पविसिउं समाठत्तो भयोज्झा-पुरवरीए । ताव य पूरिजंति संखाई 1
जयजयाविच्यं बंदिय-जणेणं । पविसंते य कुमारे सब्बो य णयर-णायरियायणो कोउय-रसाऊरमाण-हियओ पेच्छिउं
3 समाठत्तो । कमेण य बोलीणो कुमारो रायमग्गं, संपत्तो रायदारं । बोलीणे य कुमारे किं भणिउं समाठत्तो णायर-जणो । 3
अवि य ।

धम्मं करेह तुरियं जइ कज्जं एरिसीएँ रिद्धीए । मा हीरह चिंताए ण होइ एयं अउग्णाण ॥

- 6 कुमारो वि रायउले पेच्छइ परियणं । केरिसं । अवि य । 6

रजाभिसेय-मंगल-समूह-करणे-वावड-करणं । हियउगाय-हलहलयं बियरंतं परियणं पुरओ ॥

- § ३१७) पविट्टो य अत्थाण-मंडवं कुमारो, णिसण्णो य णाणा-मणि-किरणुल्लसंत-बद्ध-सुरचाव-विबभमे कणय-
9 महामहंदासणे । णिसण्णस्स य मंगल-पुब्बयं जयजया-सह-पूरमाण-महियलं उक्खित्ताई महाराय-पमुहेहिं महासामंतेहिं 9
णाणा-मणि-विचित्ताई कणय-पडम-प्पिहाणाई कोमल-किसलय-सणाहाई कंचण-मणि-रयण-कलस-संचायाई । तेहिं
जय-जयासह-णिबभरं अहिसित्तो कुमारो जोयरजाभिसेयम्मि, जोकारिओ य महाराय-दढवम्मप्पमुहेहिं । णिसण्णा सब्बे
12 सीहासणस्स पुरओ । भणियं च महाराहणा । 'पुत्त कुमार, पुण्णमंतो अहयं जस्स तुमं पुत्तो । इमाई च चिर-चित्तियाई 12
मणोरहाई णवरं अज्ज संपुण्णाई । ता अज्जप्पमुहं धण-धण्ण-रयय-भोत्तिय-मणि-रयण-जाण-वाहण-पवहण-खेड-कब्बड-णयर-
महाणयर-गाम-गय-तुरय-णरवर-रह-सय-सहस्सुदामं तुज्ज दे रजभरं दिण्णं । अहं पुण धम्माधम्म-णिब्वणत्थं कं पि
15 कालंतरं अक्खिउण पच्छा कायव्वं काहामो' ति । कुमारो वि एवं भणिओ सविणयं उट्टिउण णिवद्धिओ राहणो 15
चलण-जुयले 'महापसाओ' ति भणिय, 'जं च महाराओ आणवेइ तं अवस्सं मए कायव्वं' ति । दंसिया कुवलयमाला
गुरुयणस्स । कओ पणामो । अभिणंदिया तेहिं । एवं च अवरोप्पर-वयण-कमलावल्लोयणा-सिणेह-पहरिस-णिबभराणं
18 वच्चइ कालो, वोलेति दियहा । अण्णम्मि दिणे राहणा भणियं । 'पुत्त कुमार, णिसुणेसु । 18

जं किंचि एत्थ लोए सुहं व असुहं व कस्सइ णरस्स । तं अप्पण चिय कयं सुहमसुहं वा पुराकम्मं ॥

मा हो जूरह पुरिसा असंपडंतेसु विहव-सारिसु । जं ण कयं पडमं चिय कत्तो तं वास-लक्खेहिं ॥

- 21 ता जइ सुहेण कज्जं इह जम्मे कुणह आयरं धम्मे । कारण-रहियं कज्जं ण होइ जम्मे वि लोगम्मि ॥ 21
तओ कुमार, इमं णाऊण धम्मे आयरो कायव्वो । कालो य एस ममं धम्मस्स, ता तं चेय करिस्सं' ति । कुमारेण भणियं ।
'ताय, जं तए समाणत्तं तं सब्बं तहा, सुंदरो य एस धम्म-कम्म-करण-णिच्छओ, एक्कं पुण विण्णवेमि 'मो धम्मो जत्थ
24 सफल-किल्लेसो हवइ' ति । राहणा भणियं । 'कुमार, बडुए धम्मा, ताणं तो जो चेय एक्को समाठत्तो सो चेय सुंदरो' ति । 24

§ ३१८) कुमारेण भणियं 'ताय, मा एवं आणवेह, ण सब्बो धम्मो समो होइ' । तेण भणियं 'कुमार, णुण सब्बो
धम्मो समो चेय' । तेण भणियं 'देव, विण्णवेमि । अवि य ।

- 27 किं पुहईएँ गइंदा होति समा गयवरेहिं अवरेहिं । अहव तुरया तुरंगीहिं पव्वया पव्वय-वरेहिं ॥ 27
किं पुरिसा पुरिसेहिं अहवा तियसा हवंति तियसेहिं । किं धम्मेहिं वि धम्मा सरिसा हु हवंति लोयम्मि ॥
जइ एयाण विसेसो अत्थि महंतो जणेण उवल्लद्धो । तह धम्माण विसेस्यो अह कंण वि देव उवल्लद्धो ॥'

- 30 णरिं देण भणियं । 30

'जइ अत्थि कोइ धम्मो वरयरओ एत्थ सब्ब-धम्माणं । ता कीस सब्ब-लोओ एक्कम्मि ण लग्गए एसो ॥'

कुमारेण भणियं ।

- 83 'जइ एक्को णरणाहो सब्ब-जणेहिं पि सेविओ होज्ज । धम्मो वि होज्ज एक्को सब्बेहि मि सेविओ लोए ॥ 33
पेच्छंता णरवसहं सेवंते गाम-सामियं के वि । संति परमत्थ-रहिया अण्णाण-भयाउरा पुरिसा ॥
एवं एए मूढा पुरओ संते वि धम्म-सारम्मि । तं काउं असमत्था अहव विवेगो ण ताण इमो ॥

1) P पृथंतरं कुमारो, P अउज्झा, P त्राई for संवाद. 2) J बंदियजणेणं, J रत्तसाऊरमाण, P कम्मेष. 3) P om. य, P रायमग्गो, P om. संपत्तो रायदारं, P बोलीणो कुमारो, P भणियं, P णयरजणो. 5) P जयवच्यं, J एरिसीय. 7) J हिअयुगाय, P हियउगमहलहयं विरयंतं. 8) P om. य after पविट्टो. 9) P महामहंदासणे, J -प्पमुहेहिं. 10) P पडमप्पिहाणाई कोमले किसयल. 11) P अतिसित्तो, J जोअरजा, P जुयरजा, P जोकारिओ, J om. य, P य मेहराय, J P दढधम्मं, J adds य before सब्बे. 12) P om. च. 13) P अज्ज पुत्ताई, J अज्जप्पमुहं P अज्जपत्तई, J रयतमुत्तिय, P रयण for रयय, P णयरा. 14) P om. णरवर, J सहस्सुदमं, J om. दे, P रज्जहरं दिव्वं. 15) P om. ति. 16) J P भणियं, P महाराहणो आणवेइ, P अवस्स. 17) J गुरुअस्स, J अहिणंदिया, P अवसेप्परवरोप्परवयण. 18) J दिअहे for दिणे. 19) P होइ for एत्थ. 20) P adds एवं च before मा हो जूरह, J असंपडंतेसु, J जण्ण for जं ण, J पडमं चिय. 21) P सुहेहिं, J अह for इह, P adds कुण before कुणह, P रज्ज for कज्जं, J लोअम्मि. 22) P adds घ before एस. 23) J धम्मकारणणिच्छओ, J कत्थ for जत्थ. 24) P सफलं, P om. ताणं, J om. तो. 25) P om. ण सब्बो. 27) P पुहतीए, P समागयावरेहिं, P कुरया for तुरया, P om. पव्वया पव्वयवरेहिं. 28) J adds किं after पुरिसा, J धम्मे हि मि धम्मा. 29) P एयाविसेसो. 31) P ल for ण. 33) P -जणहिं, P होज्ज for होज्ज, P repeats सब्बेहिं. 34) P णरवसहे, J गाम for गाम, P भयाउयाउरा. 35) P मूढारओ.

- 1 तेण भणियं 'कुमार, कहं पुण धम्मस्स वरावरत्तणं लक्खिज्जइ'ति । कुमारेण भणियं 'देव, फलेण' । णरवइणा भणियं 1
'कुमार,
- 3 पच्चक्ख-पुमाण-उत्तक्कयस्स को एत्थ वावडो होइ । किं उवमाणं अहवा वि आगमो फल-उवेक्खाए ॥ 3
पच्चक्खं धम्म-फलं ण व दीसइ जेण होइ पर-लोए । पच्चक्खं जत्थ ण वा तत्थ कहं होइ अणुमाणं ॥
उवमाणं कूरे खिय अहवा किं अण्ह आगम-पमाणं । धम्मागमा सम खिय सफला सव्वे वि लोगमि ॥
- 6 ता कत्थ मणं कुणिमो कत्थ व सफलो ति होहिइ किलेसो । कत्थ व मोक्खं सोक्खं इय घोळइ मज्झ हिययं ति ॥ 6
कुमारेण भणियं 'ताव देव को उवाओ' । राइणा भणियं 'एक्को परं उवाओ ।
पुच्छिज्जउ को वि णरो पंडिय-पटिओ जयमि सविथदो । को एत्थ धम्म-सारो जत्थइ आयरं करिमो ॥
- 9 कुमारेण भणियं । 'देव, 9
को एत्थ किं वियाणइ अह जाणइ राय-दोस-वस-मूढो । अण्ह परमत्थ-गई अण्ह पुरिसो वियप्पेइ ॥
ईसाएँ मच्छेरेणं सपक्खराएण पंडियप्पाओ । अलियं पि भणंति णरा धम्माधम्मं ण पेच्छंति ॥
- 12 § ३१९) णरवरेण भणियं 'एवं वत्थिए दुमामे तत्त-परिणामे को उण उवाओ भविस्सइ' ति । कुमारेण 12
भणियं 'देव,
एक्को परं उवाओ मह हियए कुरइ णिच्च-संणिहिओ । परमत्थो तेण इमो णज्जइ धम्मस्स पच्चक्खं ॥
- 15 इक्खागु-वंस-पभवा णर-वसभा के वणंत-संखिहा । णिच्चाणमणुप्पत्ता इह धम्मं कं पि काऊण ॥ 15
आराहिऊण देविं मंगल-पुब्बं तवेण विणएण । पुच्छिज्जउ कुल-धम्मो को अह परंपरायाओ ॥
एवं कयमि जं खिय तीए कुलदेवयाएँ आइट्टं । सो चेय अह धम्मो बहुणा किं एत्थ भणिएण ॥
- 18 इमं पडिवणं राइणा भणियं च । 'साहु कुमार, सुंदरं तए संलत्तं, ता णिवियारं इमं चेय कायव्वं' ति भणमाणो 18
समुट्ठिओ राया, कायव्वं काउमाडत्तो । तओ अण्णमि दियहे असेसाए मंघ-कुसुम-बलि-पईव-सामग्गीए पविट्टो
देवहरयं राया । तत्थ य जहारुहं पूइऊण देवे देवीओ य पुणो थुणिऊण समाडत्तो । अवि य ।
- 21 जय विजय जयंति जए जयाहि अवराइए जय कुमारि । जय अंबे अंबाले बाले जय तं पिण लच्छी ॥ 21
इक्खागु-णरवराणं को कुल-धम्मो पुराण-पुरिसाण । साहिज्जउ मज्झ इमं अहवा वज्झा तुमं चेय ॥
इमं च भणिऊण णरवई णिसण्णो कुस-सत्थरे, ठिओ एकमहोरत्तं । दुइय-राईए य मज्झिम-जामे उट्टाहया
- 24 आगामयले वाया । 24
भो भो णरवर-वसभा जइ कज्जं तुम्ह धम्म-सारेण । ता गेणहसु कुल-धम्मं इक्खागूणं इमं पुब्बं ॥
इमं च भणंतीए समप्पियं कणय-सिलायलं णरिंदस्स कुलसिरीए । तं च पाविऊण विड-दो रावा जाव पुरओ पेच्छइ
- 27 कणय-सिलायलं । तं च केरिसं । अवि य । 27
ललिउव्वेळिर-मत्ता-वण्णय-पट्टंत-पत्तिया-णिवहं । बंभी-लिबीएँ लिहियं मरगय-खय-पूरियं पुरओ ॥
तं च दूइण हरिस-वस-समुच्छलंत-रोमंवेण सहाविओ कुमारे भणिओ य । 'पुत्त कुमार, एसो दिण्णो कुलदेवयाए अम्हाण
- 30 कुलधम्मो, ता णिरुवेइं वाएसु इमं' ति । कुमारेण वि 'जहाणवेसि' ति भणमाणेण धूव-बलि-कुसुमवणं काऊण सविणयं 30
भत्तीए वाइउं पयत्तं ।
§ ३२०) किं च तत्थ लिहियं । अवि य ।
- 33 दंसण-विसुद्धि-णाणस्स संपथा चरण-धारणं चेय । मोक्खस्स साधयाइं सयल-सुहाणं च मूलाइं ॥ 33
जत्थ ण इम्मइ जीवो संतुट्टो णियय-जोणि-वासेण । ण य अलियं मंतिज्जइ जियाण पीढायरं हियए ॥

1 > P कह ण धम्मवरावरत्तणं, P om. ति. 3 > J पचक्खाउमाण पमाणउत्तक्कयस्स, J om. वि. 4 > P om. य.
5 > P वि भणंति for किं भणह, P सफलो, J लोअमि. 6 > P होहिति, P हिययंति. 7 > J तह वि for ताव, J पर for परं.
8 > P पुच्छिज्जइ, J कोइ णरो, P सविअडो. 10 > J परमत्था, P गती. 11 > J पंडिअप्पाणा. 12 > P णरवइणा for णरवरेण,
P एवं वत्थिए, P परिणामो, J को उण. 14 > P एक्को महिहरपकओ यए कुरइ, J सणिहिओ P सनिहिओ. 15 > P पभवा णरवसहा,
J कवि अणंत- for केवणंत, P संखेजा for संखिहा, P धम्मं किं पि. 18 > P om. च, P om. चेव. 19 > J om. मंघ, J .पईव
P-पतीव. 20 > P om. य after तत्थ, P om. पुणो थुणिऊण etc. to को कुलधम्मो. 21 > J जए जयाहि अवराइए.
22 > P वज्झं for वज्झा, P च for चेय. 23 > P om. इमं च, P om. णरवई, P णिवण्णा for णिसण्णो, P adds परती
before कुस, P ट्ठिओ, J दुइअ य राईए मज्झिमजामे उट्टाहया. 25 > J वसहा, P कज्ज, J कुलधम्मो, P इक्खागुकुलाइयं पुब्बं.
26 > J भणंतीय, P om. पुरओ. 27 > P om. तं च केरिसं. 28 > P मत्तावण्णयपट्टंतिपत्तिया, J बंभीलिवाए, P पूरिउ for
पूरियं. 29 > P हरिसवसुच्छलंत, P कुलदेवता अम्हाण. 30 > P णिरुवेइ, P वाएसुइ इमं ति । कुमारे वि, P भणमाणो,
J कुसुमवणं. 31 > P पयत्तो । 32 > P लिहितं. 33 > P विसुद्ध, P साहणाइं सयणसुहाणं. 34 > P ण इम्म, P पीढाकरं.

- 1 ण य वेप्पइं अदिण्णं सरिसं जीएण कस्सइ जणस्स । दूरेण जत्थ महिला वज्जिजइ जलिय-जलणं व ॥ 1
अत्थो जत्थ चइजइ अणत्थ-मूलं जयम्मि सयलम्मि । ण य भुज्जइ राईए जियाण मा होज विणिवाओ ॥
- 3 तं णरवर गेणह तुमं धम्मं अह होइ जत्थ वेरगो । परियाणसु पुहइ-जिए जलम्मि जीयं ति मण्णेसु ॥ 3
अणिलाणले सजीए पडिबज्ज वणस्सइं पि जीवं ति । लक्खिजइ जत्थ जिओ फरिसैंदिय-मेत्त-वावारो ॥
अलस-किमिया दुइंदी पिवीलियाइं य होति तेइंदी । भमराइं चउरिंदी मण्णसु सेसा य पंचेंदी ॥
- 6 णर-पसु-देव-दइं सव्वे मण्णेसु बंधवे आसि । सव्वे वि मए सरिसा सुहं च इच्छंति सव्वे वि ॥ 6
णासंति पुक्ख-भीरु दुक्खाविजंति सत्थ-पउरेहिं । सव्वाण होइ दुक्खं दुव्वयण-विसेण हिययम्मि ॥
सव्वाण आसि मित्तं अहयं सव्वाण बंधवो आसि । सव्वे वि बंधवा मे सव्वे वि हवंति मित्ताइं ॥
- 9 इय एवं परमत्थे कह पहरिज्जउ जियस्स देहम्मि । अत्ताण-णिव्विसेसे मूढा पहरंति जीयम्मि ॥ 9
जं जं पेच्छसि जीयं संसारे दुक्ख-सोय-भय-कलियं । तं तं मण्णसु णरवर आसि अहं एरिसो चेय ॥
जं जं जयम्मि जीवं पेच्छसि सिरि-विहव-मय-मउम्मत्तं । तं तं मण्णसु णरवर एरिसओ आसि अहयं पि ॥
- 12 जीएसु कुणसु मेसिं गुणवंते कुणसु आयरं धीर । कुणसु दयं दीण-मणे कुणसु उवेक्खं च गव्वियए ॥ 12
असमंजसेसु कायं वायमसम्भेसु रंभ वयणेसु । रंभसु मणं अयजे पसरंतं सव्व-दव्वेसु ॥
काएण कुणह किरियं पढसु य वायाए धम्म-सत्थाइं । भावेषु भावणाओ भावेण य भाव-संजुत्तो ॥
- 15 कुणसु तवं सुविमुद्धो इंदिय-सत्तुं गिरुंभ भय-रहिओ । कोवम्मि कुणह खंति असुइं चिंतेसु कामम्मि ॥ 15
माणम्मि होसु पणओ माया-ठाणम्मि अज्जवं कुणसु । लोहं च अलोहेणं जिण मोहं णाण-पहराहिं ॥
अच्छसु संजम-जमिओ सीलं अह सेव णिम्मलं लोए । मा वीरियं णिगूहसु कुण कायध्वं जयं भणियं ॥
- 18 मा कुणसु पाग-किरियं भिक्खं भमिऊण भुंजसु विहीए । मा अच्छसु णिच्चित्तो सज्जाए होसु वक्खित्तो ॥ 18
णिज्झीण-पाव-पंको अवगय-मोहो पणट्ट-मिच्छत्तो । लोयालोय-पयासो समुग्गओ जस्स णाण-रवी ॥
संभिण्णं सो पेच्छइ लोयमलोयं च सव्वओ सव्वं । तं गत्थि जं ण पासइ भूतं भव्वं भविस्सं च ॥
- 21 सो य भगवं किं भण्णइ । 21
तित्थयरो लोय-गुरू सव्वण्णू केवली जिणो अरहा । सुगओ सिद्धो बुद्धो पारगओ वीयरगो य ॥
सो अप्पा परमप्पा सुहुमो य गिरंजणो य सो चेव । अव्वत्तो अच्छेज्जो अट्ठेज्जो अक्खओ परमो ॥
- 24 जं जं सो परमप्पा किञ्चि समाइसइ अमय-गीसंदं । तं तं पत्तिय णरवर तेण व जे दिक्खिया पुरिसा ॥ 24
अलियं अयाणमाओ भणइ णरो अह व राग-दोसत्तो । कह सो भणेज्ज अलियं भय-मय-रागेहिं जो रहिओ ॥
तम्हा णरवर सव्वायरेण पडिबज्ज सामियं देवं । जं किञ्चि तेण भणियं तं तं भावेण पडिबज्ज ॥
- 27 सुहुमो सरीर-मेत्तो अणादिमं अक्खओ य भोत्तादी । णाण-किरियाहि मुच्चइ एरिस-रूवो जहिं अप्पा ॥ 27
एसो णरवर धम्मो मोक्ख-फलो सव्व-सोक्ख-मूलं च । इक्खागू-पुरिसाणं एसो चिय होइ कुल-धम्मो ॥
जं जं एत्थ गिरुत्तं तं तं णरणाह जाण सारं ति । एएण विरहियं पुण जाण विहम्मं कुहम्मं च ॥
- 30 एयं अवमण्णंता णरवर णरयम्मि जंति घोरम्मि । एयं काऊण पुणो अक्खय-मोक्खाइं पावंति ॥ 30

§ ३२१) एवं च पलिए इम्मि धम्मं णरवइणा भणियं । 'अहो अणुग्गिहीया अम्हे भयवइए कुलदेवयाण । ता सुंदरो एस धम्मो, ण एत्थ संदेहो । एयं पुण ण-याणिज्जइ करिसा ते धम्म-पुरिसा जाण एरिसो धम्मो' ति । कुमारण भणियं 'देव, जे कइ धम्मिय-पुरिसा दीसंति ताणं चेय दिक्खं चेत्तूण कीरए एस धम्मो' ति । राइणा भणियं 'कुमार, मा 33

1) P वेप्पइ, P जियस्स for जणस्स, P जलण for जलिय. 2) P वट for चइजइ, P जलंमि for जयम्मि, P भुज्जति रातीए. 3) P धंमं जह होइ, P repeats जइ होइ, P इइ जए for पुहइ जिए, J पीअं for जीयं. 4) P तुजीए for सजीए, P जीवं पि ।, P फरिसेहियमेत्तवावारो. 5) P अलसा-, P दिइंदी for दुइंदी, J om. पिवीलियाय होति तेइंदी ।, P पिवीलियाती, P भमराती चउरेंदी, P पंचेंदी. 6) P अवे वि for सव्वे वि, P सा for सरिसा. 7) P दुत्ताविज्जंति, P पहरेहिं, J विसेए for विसेण. 9) P पहरिज्जइ. 10) P adds त after अहं. 11) P जीवे for जीवं, J -मपुमत्तं. 12) P मित्तं for मेसिं, J गुणवंते, P कुणसु अवेक्खं. 13) P वायममत्तं, J om. रंभ, P मव्वेसु for मव्वदव्वेसु. 14) P भाणसु भायणाओ. 15) P इंदियसेत्तुं, J णिसुंभ P णेरंभ, P खंती असुतिं, P देहंमि for कामम्मि. 16) P मायंमि for माणम्मि. 18) P पाव for पाग, P णिव्वित्तो for णिच्चित्तो, P आउत्तो for वक्खित्तो. 19) P णिज्झाण, P लोयालोय. 20) P पेच्छ लोयमलोयं, J सव्वत्तो, P पेच्छं for सव्वं, J जण पासति भोत्तुं सव्वं, P भूतसव्वं. 22) J सुगतो णिद्धो, J वीतरगो. 23) J अप्पा वरमप्पा, J चेअ ।, J सव्वत्तो for अव्वत्तो, P अमेज्जओ, J अक्खरो परमो. 25) J रागरोसत्तो, J भममय, P भयभमरोगेहिं. 27) P अणाइमं, J अक्खयभोत्तादी ।, J -किरियादी, P adds मुच्चा before अप्पा. 28) J om. च. 29) J णिहित्तं for गिरुत्तं. 31) P भयवतीए. 32) P इमं for एयं, P एसो for एरिसो. 33) P दिक्खा, J कीरउ, P om. मा.

१ एवं भण । णाणाविह-लिग-वेस-धारिणो धम्मपुरिसा परिवसंति पुहई-तले । ते य सव्वे भणंति 'अहं च उ धम्मो । सुंदरो,' अण्णो वि भणइ 'अहं च उ धम्मो,' अण्णो वि 'अहं च उ' ति । एवं च ठिप् कस्स सहहामो कस्स वा १
३ ण व' ति । कुमारेण भणियं 'ताय, जइ एवं ता एक्को अस्थि उवाओ । जो कोइ पुहईए धम्म-पुरिसो सो सव्वो पढहएण ३
आघोसिजइ जहा, राया धम्मं पडिवज्जइ जं चेष सुंदरं, ता सव्वे धम्म-पुरिसा पच्चक्खीहवंतु, साहेतु य अण्णो धम्माइं ३
जेण जं सुंदरं तं गेणहइ ति । पुणो देव, साहिए सयले धम्म-वित्थरे जो चेष एयस्स दिण्णस्स देवयाए विचारिजंतो ३
६ घडीहिइ, तम्मि चेष आयरं काऊण दिक्खं पडिवज्जीहामो' ति । राइणा भणियं 'एवं जइ परं पाविज्जइ विसेसो ति । ता ६
आणवेसु पडिहारं जहा पाडहियं सहावेसु । आपसाणंतरं च समाणसो पडिहारो, संपत्तो पाडहिओ, समाइटो राइणा जहा ६
इमिणा य अत्येण घोसेसु सव्व-णयर-चच्चरेसु पडहयं' ति । तओ 'जहाणवेह' ति भणमाणो णिग्गओ पाडहिओ घोसिडं ६
९ च पयत्तो । कथ्य । अवि य । ९

सिंगाडय-गोउर-चच्चरेसु पंथेसु हट्ट-मग्गेषु । वर-मड-देवउलेसु आराम-पवा-तलाएसुं ॥

किं च घोसिडं पयत्तो । अवि य ।

१२ जो जं जाणइ धम्मं सो तं साहेउ अज्ज णरवइणो । जो तथ सुंदरयो तं चिय राया पवज्जिहिइ ॥ १२
एवं च घोसेतेण 'ढं ढं ढं' ति अफ्फालिया ढक्का । किं च भणितं पयत्ता । अवि य ।
अफ्फालिया वि ढक्का छज्जीव-णिकाय-रक्खणं धम्मो । जीय-दया-दम-रहिओ ढं ढं ढं ति वाहरइ ॥
१६ तओ इमं च घोसिजंतं तिय-चउक्क-चच्चर-महापहेसु सोऊण सव्वे धम्म-पुरिसा संभेता मिलिया णियएसु धम्म-विसेस- १६
संभेसु अवरोपरं च भणितं पयत्ता । अवि य ।

ओ भो सहधम्मयरा वच्चह साहेह राइणो धम्मं । धम्मम्मि पुहइणाहो पडिज्जइ किं ण पज्जतं ॥

१८ एवं च अवरोपरं मंतिऊण जे जत्थ णिगाए ससिद्धंत-कुसला ते समुट्ठिया धम्मिय-पुरिसा, संपत्ता रायमंदिरं । राया १८
वि णिक्खंतो बाहिरोवत्थाण-मंडवं विट्ठो सव्वेहिं जहाभिरूव-दंसणीयासीसा-पणा-संभासणेहिं । णिव्विट्ठा य णियएसु
आसणेसु । भणिया य राइणा 'ओ भो धम्मिय-पुरिसा, गहियत्था तुम्हे अह्माभिप्पायस्स । ता भणइ कमेण अत्तणो
२१ हिययाभिरुइए धम्म-विसेसे ।' २१

§ ३२२) एवं च भणिया समाणा परिवाडीए साहिउं पयत्ता । एक्केण भणियं । अवि य ।

जीवो खण-भंगिलो अचेयणा तरुवरा जगमणिच्चं । णिव्वाणं पि अभावो धम्मो अह्माण णरणाइ ॥

२४ राइणा चित्तियं । २४
जीवो अणाइ-णिहणो सचेयणा तरुवरा वि मह लिहिया । मोक्खो सासय-ठाणं अह दूरं विहइए एयं ॥
अण्णेण भणियं ।

२७ सव्व-नाओ अह जीवो मुच्चइ पयईए ज्ञाण-जोएहिं । पुहइ-जल-सोय-सुद्धो एस तिदंडीण धम्मवरो ॥ २७
राइणा भणियं ।

सव्व-नाओ जइ अप्पा को ज्ञाणं कुणइ तथ सोयं वा । पुहइ-जलाउ सजीवा ते मारेउं कहं सुद्धी ॥

३० अण्णेण भणियं । ३०
सव्व-नाओ इह अप्पा ण कुणइ पयडीए बज्जए णवरं । जोगडभासा मुक्को इह चेष णिरंजणो होइ ॥
राइणा चित्तियं ।

३३ अप्पा सरीर-भेत्तो णिय-कम्मे कुणइ बज्जए तेणं । सव्व-गए कह जोओ विवरीयं वट्टए एयं ॥ ३३
अण्णेण भणियं ।

एक्को चिय परमप्पा मूए भूयम्मि वट्टए णिययं । णिच्चाणिच्च-विरहिओ अणाइ-णिहणो परो पुरिसो ॥

३६ राइणा चित्तियं । ३६

१) P भणइ for भण, J विसेस for वेस, P परिवसंति पुहतीयेले । २) J om. धम्मो before अण्णो, P adds भणइ before अहं, P सहहामि । ४) P घोसिजइ for आघो, P adds तं गेणहइ for ता, J 'हंतु for 'हवंतु, J यण्णो । ५) P om. जं, P तस्स धम्मस्स for एयस्स । ६) J घडीहिइति P ण वाही ति, J दिक्खं पवज्जीहामो, P राइण भणियं, J एयं, J पाविज्ज विसेसो । ७) P om. संपत्तो पाडहिओ । ८) J इममिणा for इमिणा, J णरय for णयर, P पडिहयं, P जहाणवेहि । १०) P सिंघाडगोउर-चच्चरे पथेसु हट्टमयेसु । ११) J पयत्तं । १२) P धम्मे, P साहेह, P ता for जो, J किय for चिय, J परिज्जिइति P पडिवज्जिइ ति । १३) P om. च, P om. ति, P भणितं । १४) P ढक्का जिणधम्मो सुंदरो ति लोगमि । अत्रे उण जे धम्मा ढं etc. १५) P घोसिजंति तिय, P चच्चरेसु महा, P णियपधम्म- । १६) J सामेसु for संभेसु, P भणियं, P om. अवि य । १७) J 'णाहो पडिवज्जइ किण्ण पव्वज्जं ॥ १८) P तथ णिकाएसु सिद्धंति कुसला । १९) P बाहिरअत्थाण, J दंसणीया । सीसा, J पिविट्ठाय णिआएसु, P णियए आसणेसु । २०) J तुम्हे for तुम्हे, P om. ता । २१) P हिययाहिसइए धम्मं । २२) P om. च, P साहिओ । २३) J णेव्वाणं । २५) P तवेयणा for सचेयणा, J तरुवरा, P मोक्खसासयं ठ्ठणं । २६) J om. अण्णेण भणियं । सव्वगओ अहजीवो etc. ending with कहं सुद्धी ॥ २७) P पयइएज्जाण- । २९) P सोयव्वा । ३०) P om. अण्णेण भणियं (after कहं सुद्धी ॥) सव्वगओ इह etc. ending with वट्टए एयं ॥ ३३) J तं ॥ for एयं ॥ ३५) P पुरो for परो ।

- 1 जह एक्को खिय अप्पा कह सुह-दुक्खाईं भिण्ण-रुवाहं । एक्केण दुक्खिएणं सव्वे ते दुक्खिया होंतु ॥ 1
अण्णेण भणियं ।
- 3 अण्णावारं विज्जहं पसुब्बो मारिज्जए यं मंतेहिं । माई-पिइस्स येहं गो-मेहो वा फुटो धम्मो ॥ 3
राइणा चितियं ।
जं दिज्जहं ते सारं जं पुणं मारिज्जए पसू गो वा । तमधम्मं महं लिहियं देवीए पट्टए सव्वं ॥
- 6 अण्णेण भणियं । 6
काय-बलि-वइस-देवो कीरहं जलणम्मि खिप्पए अण्णं । सुप्पीया होंति सुरा ते तुट्ठा देंति धम्मं तु ॥
राइणा चितियं ।
- 9 को पेच्छहं काय-बलिं जं पुणं जलणम्मि खिप्पए भत्तं । तं तस्स होइ अण्णस्स वा वि एयं ण-याणामो ॥ 9
अण्णेण भणियं ।
चइउणं सव्व-संगं वणम्मि गंतूणं वक्कल-णियत्थो । कंद-फल-कुसुम-भक्खो जहं ता धम्मो रिसी तेण ॥
- 12 राइणा चितियं । 12
सारो जहं णीसंगो जं पुणं कंदफलाहं भुंजंति । एसो जीव-णिकाओ जीव-दवा वट्टए धम्मो ॥
अण्णेण भणियं ।
- 15 दिज्जहं बंभण-समणे विहले दीणे यं दुक्खिए किंथि । गुरु-पूयणं पि कीरहं सारो धम्माणं गिहि-धम्मो ॥ 15
णरवइणा चितियं ।
जं दाणं तं दिट्ठं अणंत-घाओ ण पेच्छहं घरम्मि । एसो विधहं बालं चुक्कहं हत्थिस्स कंठेण ॥
- 18 अण्णेण भणियं । 18
भक्खाभक्खाणं समं गम्मागम्माणं अंतरं णत्थि । अइत-वाय-भणिओ धम्मो अम्हाणं णिक्खुहो ॥
राइणा चितियं ।
- 21 एयं लोय-विरुद्धं परलोय-विरुद्धयं पि पच्चक्खं । धम्मो उणं इंदिय-णिगगेण महं पट्टए लिहियं ॥ 21
अण्णेण भणियं ।
विण्णप्पसि देव फुटं पंच-पचित्तेहिं जासण-विहीय । सहइत-वाय-भणिओ धम्मो अम्हाणं णिक्खुहो ॥
- 24 राइणा चितियं । 24
लोमसहारे जिहिंभदियस्स अणुकूलमासणं फंसे । धम्माओ इंदिय-णिगगेण एसो वि धम्मो ति ॥
अण्णेण भणियं ।
- 27 धम्मट्टियस्स दिज्जहं णियय-कलत्तं पि अत्तणो देहं । तारेहं सो तरेतो अळावु-सरिसो भव-समुहं ॥ 27
राइणा भणियं ।
जहं भुंजहं कहं वं मुणी अहं ण मुणी किं च तस्स दिण्णेण । आरोक्खिया सिलोवरि किं तरहं सिल्ला जले गहिरे ॥
- 30 अण्णेण भणियं । 30
जो कुणहं साहस-बलं सत्तं अवलंबिउणं णरणाहं । तस्स किर होइ सुगई महं धम्मो एसं पडिहाहं ॥
राइणा चितियं ।
- 33 वेय-सुईसुं विरुद्धो अप्पवहो णिदिओ यं विबुहेहिं । जहं तस्स होइ सुगईं विसं पि अमयं भवेज्जासु ॥ 33
अण्णेण भणियं ।
गंतूणं गिरि-वरेसुं अत्ताणं मुच्चए महावीरो । सो होइ एत्थं धम्मो अहवा जो गुग्गुलं धरहं ॥
- 36 राइणा चितियं । 36

1 > P तिण्ण for भिण्ण, J होंति ॥ 3 > P मारिज्जएहिं मंतेहिं । P फुटो धम्मो ॥ 4 > P वि भणियं for चितियं. 5 > J मारिज्जई, P एयं खिलायकर्म एसं विहंमो जए जाओ ॥ for the second line तमधम्मं etc. 7 > J वैस for वइस, J सुप्पीया P सुप्पीया, J देंतु. 9 > P repeats को पेच्छहं, P जं पुणं लोणम्मि निक्खिवे भत्तं । तं तस्स तस्स ण वेवयाणं छारो परं इत्थे ॥ 13 > P एसो जीवणं वहो कहं कीरओ कुच्छिओ धम्मो ॥ for the second line. 15 > P दिज्जओ, P-स्मण, P पूयणं थि, J गिहधम्मो. 17 > J-घातो P-तायो, P after कंठेण ॥ omits अण्णेण भणियं । भक्खा* etc. ending with पट्टए लिहियं ॥ 19 > J अइतवात्त- 21 > J, after लिहियं ॥, omits अण्णेण भणियं । विण्णप्पसि etc. ending with धम्मो ति. 23 > P विण्णप्पसि, P वात्तभणितो, P णिक्खुहो. 27 > P सरिसं. 29 > P कहं वं मुणी, J वं मुणी भिनं तरस, P सिलोवरि, P सिल्लायले. 31 > J सामस for साहस, P मुणती. 33 > P जलणं जलं च जीए तस्स वहो अप्पवाहओ पुरिसो for the first line वेयसुईसुं etc. P सुगती, P अमयं हवेज्जासु. 35 > P मेरवगिरिं for गिरिवरेसुं, J महावीरो, P गुग्गुलं.

- 1 अस्ताणं मारंतो पावइ कुगई जिओ सराय-मणो । एवं तामस-मरणं गुग्गुल-घरणाहयं सध्वं ॥ 1
अण्णेण भणियं ।
- 3 खाणे कूव-तलाए बंधइ बावीओ देइ य पवाओ । सो एत्थ धम्म-पुरिसो णरवर अम्हं ठिओ हियए ॥ 3
राइणा चितियं ।
पुहई-जल-जलणानिक-बणस्सई तह य जंगमे जीवे । मारंतस्स वि धम्मो हवेज्ज जइ सीयलो जळणो ॥
- 6 अण्णेण भणियं । 6
गंगा-जळमि ण्हाओ सायर-सरियासु तह य तित्येसु । पुयइ मळं किर पावं ता सुओ होइ धम्मेण ॥
णरवइणा चितियं ।
- 9 भागीरहि-जळ-विच्छालियस्स परिसडड कह व कम्मं से । बाहिर-मळावण्यणं तं पि हु णिटणं ण जाएजा ॥ 9
अण्णेण भणियं ।
राईण रायधम्मो बंमण-धम्मो य बंमणाणं तु । वेसाण वेस-धम्मो णियओ धम्मो य सुहाण ॥
- 12 राइणा चितियं । 12
धम्मो णाम सहावो णिवय-सहावेसु जेण वट्टति । तेण चिय सो भणइ धम्मो ण उणाइ पर-लोओ ॥
अण्णेण भणियं ।
- 15 णाय-विटत्त-धणेणं जं काराविज्जंति देव-भक्काणं । देवाण पूयणं अण्णं च सो चेषइ इह धम्मो ॥ 15
राइणा चितियं ।
को ण वि इच्छइ एयं जं चिय कीरंति देवहरयाइ । एत्थं पुण को देवो कस्स व कीरंतु एयाइ ॥
- 18 अण्णेण भणियं । 18
काऊण पुढवि-पुरिसं डज्जइ मंतेहिं जत्थ जं पावं । दीविज्जइ जेण सुहं सो धम्मो होइ दिक्खाए ॥
राइणा चितियं ।
- 21 पावं डज्जइ मंतेहिं एत्थ हेज ण दीसए कोइ । पावो तवेण डज्जइ ज्ञाण-महग्गीए लिहियं मे ॥ 21
अण्णेण भणियं ।
ज्ञाणेण होइ मोक्खो सो परमप्या वि दीसए तेण । ज्ञाणेण होइ सगं तम्हा ज्ञाणं चिय सुधम्मो ॥
- 24 राइणा चितियं । 24
ज्ञाणेण होइ मोक्खो सध्वं एवं ति ण उण एक्केण । तव-सील-णियम-जुत्तेण तं च तुम्मेहिं जो भणियं ॥
अण्णेण भणियं ।
- 27 पिउ-माइ-गुरुयणमि य सुरवर-मणुएसु अहव सव्वेसु । णीयं करेइ विणबं एसो धम्मो णरवरिद ॥ 27
णरवइणा चितियं ।
जुज्जइ विणओ धम्मो कीरंतो गुरुयणेसु देवेसु । जं पुण पाव-जणस्स वि अइयारो एस णो जुत्तो ॥
- 30 अण्णेण भणियं । 30
णवि अत्थि कोइ जीवो ण य परलोओ ण चावि परमत्थो । भुंजइ खाह जहिच्छं एत्थिय-मेसं जए सारं ॥
राइणा चितियं ।
- 33 जइ णत्थि कोइ जीवो को एसो जएए इमं वयणं । मूहो णत्थिय-बाई एसो वट्टु पि णवि जोरगो ॥ 33
अण्णेण भणियं ।
गो-भूमि-धण्ण-दाणं हलप्ययाणं च बंमण-जणस्स । जं कीरइ सो धम्मो णरवर मह वल्लहो हियए ॥
- 36 णरवइणा चितियं । 36

1 > P कुगई, J गई for जिओ, P जिओ राहमणो । एयं तामस- 3 > J खणेइ for खाणे, J तलाए, J बावीए, P उ for य P अम्हट्टिओ. 5 > J दुविहो थ होइ धम्मो भोगफलो होइ मोक्खधम्मो य । दाणं ता मोक्खफलं ता भोगफलो जइ जिजाणं ण पीर-यरो ॥ for the verse पुहई जल etc., P repeats जल, P विहंमो. 7 > P सारय for सायर, P तो for ता. 9 > J जइ होइ सुद्धमावो आराइइ इदुदेवयं परमं । गंगाजलतलवाणं को णु विसेसो भवे तस्स ॥ for the verse भागीरहिजळ etc., P मळावण्यळं तं 11 > P रायाण, J सुद्धाण. 13 > J धम्मो, P णाचिचितियंहावो, J धम्मइ for भण्णइ, J उणाए. 15 > P कारविज्जंति, J चे अ. 17 > J एक्कं for एत्थं, P को इह for पुण को. 19 > P इह इ for पुढवि, P तेण for जेण. 21 > P कोति for कोइ, P सुद्धजळ-वेलवणो पासंडो एस तो रइओ ॥ for the line पावो तवेण etc. 22 > J om. सणियं. 23 > P विदीसते तेण, J जाणं for ज्ञाणं, J adds सुज before सुधम्मो, P सुधम्मा. 25 > P जुत्ते for जुत्तेण. 27 > J माउ for माइ, P गुरुजणमि, J om. य. 29 > J धम्मं, P गुणवएसु देवेसु, P ज for जं, J अतिवारो. 31 > J एत्थ for अत्थि. 32 > P को वि जीवो. 33 > P को एसं जएए, J णत्थियवारी, P दट्टूमि विणिजोगो. 35 > J धम्मदाणं P धणदाणं.

- 1 देह हलं जीयहरं पुहहं जीयं च जीवियं अण्णं । अबुहो देह हलाहं अबुहो चिय गेणहए ताहं ॥ 1
अण्णेण भणियं ।
- 3 दुक्खिय-कीढ-पर्यगा मोएऊणं कुजाह-जम्माहं । अण्णत्थ होंति सुहिया एसो करुणापरो धम्मो ॥ 3
राहणा चित्तियं ।
जो जत्थ होह जंतू संतुटो तेण तत्थ सो सव्वो । इच्छह ण कोह मरिउं सोउं पि ण जुज्जए एयं ॥
- 6 अण्णेण भणियं । 6
सहूल-सीह-रिच्छा सप्पा चोरा य दुट्टया एए । मारेंति जियाण सए तम्हा ताणं वहे धम्मो ॥
राहणा चित्तियं ।
- 9 सव्वो जीवाहारो जीवो लोयम्मि दिट्ठ-परिणामो । जह दुट्ठो मारिज्जह तुमं पि दुट्ठो वहं पावं ॥ 9
अण्णेण भणियं ।
दहि-दुद्ध-गोरसो वा घयं व अण्णं व किं पि गाईणं । मासं पिव मा भुंजउ इय पंडर-भिक्खओ धम्मो ॥
- 12 राहणा चित्तियं । 12
गो-मासे पडिसेहो एसो वज्जेह मंगलं दहियं । खमणय-सीलं रक्खसु मज्झ विहारेण वि ण कज्जं ॥
अण्णेण भणियं ।
- 15 को जाणह सो धम्मो पीलो पीओ व सुक्किलो होज्ज । णाएण तेण किं वा जं होहिह तं सहीहामो ॥ 15
राहणा चित्तियं ।
णज्जह अणुमाणेणं णाएण वि तेण मोक्ख-कज्जाहं । अण्णाण-मूढयाणं कत्तो धम्मस्स णिप्फत्ती ॥
- 18 अण्णेण भणियं । 18
जेण सिही चित्तलिए धवले हंसे कए तह म्हे वि । धम्माहम्मे चिंता काहिह सो अम्ह किं ताए ॥
राहणा चित्तियं ।
- 21 कम्मेण सिही चित्तो धवलो हंसो तुमं पि कम्मेण । कीरउ तं चिय कम्मं तस्स य दिव्वो विही णाम ॥ 21
अण्णेण भणियं ।
जो होह धम्म-पुरिसो सो चिय धम्मो पुणो वि धम्म-रओ । जो पुण पावम्मि रओ होह पुणो पाव-णिरओ सो ॥
- 24 राहणा चित्तियं । 24
जह एक्को चिय जीवो धम्म-रओ होह सव्व-जम्मेसु । ता कीम णरय-गामी सो चिय सो चेय सग्गम्मि ॥
अण्णेण भणियं ।
- 27 जो ईसरो केण वि धम्माहम्मेसु चोहओ लोगो । सो चेय धम्म-भागी पत्तिय अण्णो ण पावेह ॥ 27
णरवहणा चित्तियं ।
को ईसरो ति णामं केण व कजेण चोयणं देह । इट्ठाणिट्ठ-विवेगो केण व कजेण भण तस्स ॥
- 30 अण्णेण भणियं । 30
धम्माधम्म-विवेगो कस्सइ पुहवीए होज्ज पुरिसस्स । मूढ-परंपर-माला अंधाण व विरइया एसो ॥
णरवहणा चित्तियं ।
- 33 धम्माधम्म-विसेसो अवस्स पुरिसस्स कस्स वि जयम्मि । तेण इमे पव्वइया अण्णह को दुक्करं कुणह ॥ 33
अण्णेण भणियं ।
णाऊण पंचवीसय-पुरिसं जह कुणह बंध-हच्छाओ । तो वि ण लिप्पह पुरिसो जलेण जह पंकयं सल्लिले ॥
- 36 राहणा चित्तियं । 36

1 > P देह बलं जीयहरं पुहविजीवं च, P ताहं for ताहं. 3 > P मो मो ए for मोएऊणं, P अब्रत्थ, J करुणो परो, P धमो ॥
5 > P हो for सो, P सोउ पि ण जुए एयं. 6 > P adds पुण before भणियं. 7 > P -रिच्छा, P चोरा या मए ।, J एते ।, P मारेंति
जिणणसए. 9 > P लोयम्मि, P मारिज्जर तुमं, J तुमं पि दिट्ठो वधं, P पावा for पावं ॥ 11 > P किं पि काईणं, P भुज्जउ इय
पंडरवभिक्खवो धमो. 13 > P वखमणय-. 15 > P जो for जो, J पीहो व्व सु^१, P होज्जा ।, P होहिति तं. 17 > J -अब्जाए
for -कज्जाहं. 19 > P चित्तिलिंते, P तहेवे for तहग्हे, P धम्मोधम्मो. P काही सो. 20 > P om. राहणा चित्तियं before कम्मेण
J चिण्णा for चित्तो, P देवे for दिव्वो. 23 > P जो होषह, P after धम्मपुरिसो repeats अम्ह किं ताए । कंमेण etc. ending
with जो होह धम्मपुरिसो, P om. धम्मो, J होज्ज रओ for धम्मरओ, P सो उण पावरओ सो होह for जो पुण etc. 25 > P
तो for ता, P च्चे for चिय. 27 > P धंमाधंमेसु, J गाहिओ लोगो for चोहओ लगो, J च्चेअ, J पत्तिअण्णो P पत्तियणो. 29 >
P ईसर ति, J लोमं for णामं, J च्चेअणं for चोयणं, P -विवेओ, P भणंतस्स. 31 > P धम्माधम्मविवेओ कस्सव पुहवीए, J -माली
for माला. 33 > P -विसउवस्स पुरिसस्स, J व for वि, P दुक्कर कुणह. 35 > P पंचवीसयं, P पंकयसल्लिले.

- 1 जाणंतो खाह विसं कालउडं तेण सो णवि मरेज्ज । ता जह् होज्ज इमं पि हु ण य तं तम्हा हु धम्मोयं ॥ 1
अण्णेण भणियं ।
- 3 पाणि-वहाकिय-वयणं अदिण्णदाणं च मेहुणं अत्थो । वज्जेसु दूरभो षिय अरहा देवो इमो धम्मो ॥ 3
राहणा चित्थियं ।
पावट्ठाण-णियत्ती अरहा देवो विराग-भावो य । लिहियम्मि तम्मि धम्मो घड्ह इमो णत्थि संदेहो ॥
- 6 ५ ३२३) इमं च जाव णरवई चित्थित्तं समादत्तो ताव य । 6
सम्मत्त-जाणवत्तं अह एसो णरवई समारुहइ । आरुहइ जस्स कज्जं पुक्करियं जाम-संखेणं ॥
तं च मज्झण-संख-सहं सोऊण णियय-धम्म-कम्म-करणिज्ज-वावड-मणेहिं पुलइयाइं दस वि विसिवाहइं धम्म-पुरिसेहिं ।
- 9 णरवहणा वि गहिय-सव्व-धम्म-परमत्थेण भणिया सव्व-धम्म-वाइणो 'वच्चह तुब्भे, करेह णियय-धम्म-कम्म-किरिया-कलावे' 9
त्ति । एवं च भणिया समाणा सव्वे णिययासीसा-मुहला समुट्ठिया अत्थाणि-मंडवाओ । साट्ठणो उण भगवते राहणा
भणिए 'भगवं, तुब्भेहिं कत्थ एरियो धम्मो पाविओ' त्ति । साट्ठहिं भणियं 'अम्हेहिं सो महाराय, आगमाओ' त्ति ।
- 12 तेण भणियं 'को सो आगमो' त्ति । गुरुणा भणियं 'अत्त-वयणं आगमो' त्ति । राहणा भणियं 'केरियो अत्तो जस्स वयणं 12
आगमो' त्ति । गुरुणा भणियं ।
'जो राय-दोस-रहिओ किलेस-मुक्को कलंक-परिहीणो । णाणुज्जोइय-भुयणो सो अत्तो होइ णायव्वो ॥'
- 15 राहणा भणियं । 15
सो केण तुम्ह दिट्ठो केण व णिसुओ कइं कहेमाणो । केण पमाणेण इमं घेप्पउ अम्हारिसेहिं पि ॥
गुरुणा भणियं ।
- 18 अम्हेहिं सो ण दिट्ठो ण य णिसुओ किंवि यो कहेमाणो । आगम-गमएहिं पुणो णज्जइ इह अत्थि सव्वणू ॥ 18
राहणा भणियं ।
जइ ण णिसुओ कइं तो कइ भणस्सि महागमेण सव्वणू । जो ण सुओ ण य दिट्ठो कइ तं अम्हाण साहेस्सि ॥
- 21 गुरुणा भणियं । 21
जइ वि ण सुओ ण दिट्ठो तहा वि अण्णेहिं दिट्ठ-पुब्बो त्ति । गुरव-परंपर-माली-कम्मेण एसो महं पत्तो ॥
जइ तुम्ह इमं रज्जं पावइ पारंपरेण पुरिसाण । तह अम्ह आगममिणं पावइ जोगत्तण-विसेसो ॥
- 24 राहणा भणियं 'कइं पुण एस सुंदरो त्ति आगमो णज्जइ' । गुरुणा भणियं । 24
जीवाजीव-जहट्ठिणं य कम्म-फल-पुण्ण-पाव-परिकहणे । पुवावराविरुद्धो अणुहव-पच्चक्ख-गम्मो य ॥
अणुमाण-हेउ-जुत्तो जुत्ती-दिट्ठ-भावणा-सारो । अणवज्ज-वित्ति-रइओ तेणेसो आगमो सारो ॥
- 27 राहणा भणियं । 'सुंदरं सुंदरयरं इमं, जइ पुण इमस्स आगमस्स उवएसं जहा-भणियं करेइ पुरिसो, ता किं तस्स फलं 27
हवइ' त्ति । गुरुणा भणियं ।
सव्वणु-वयण-वित्थर-भणिए जो सइहइ सयल-भावे । विहि-पडिसेह-णिरुवण-परो य सो भण्णए साहू ॥
- 30 सो तव-संजम-सीले काउं विरइं च णाम संपत्तो । णिट्ठविय-सव्व-कम्मो सिद्धिपुरिं पावए अहुरा ॥ 30
जत्थ ण जरा ण मच्च ण वाहिणो णेय सव्व-दुक्खाइं । सासय-सिंव च सोक्खं तं सिद्धिं पावए सहसा ॥
साहिए भगवया गुरुणा तओ किं किं पि अंतोमुहं ससीसुक्कंपं पहरिस-वस-वियसमाण-वयण-कमलेण पलोइऊण कुवलय-
- 33 चंदे भणियं । 'कुमार, णिरुत्तं एस सो मोक्ख-धम्मो त्ति । अवि य । 33
एसो हि मोक्ख-धम्मो धम्माण वि एस सारओ धम्मो । एसो वि देवि-दिण्णो इक्खागूणं च कुल-धम्मो ॥'

1 > P विसं तालउडं निण सो, P होइ for होज्ज, J इमंमि हु, P तं तंमा कुधम्मो य ॥ 3 > P पाण for पाणि, P मेहुणे अत्थि । 5 > P विरागधम्मो य, P इमं णत्थि. 6 > P णरवइ चित्थित्तमादत्तो. 7 > P सामन्न for सम्मत्त, P णरवती, P कज्जं पुक्करियं. 8 > P संखइ सोऊण, J om. करणिज्ज, P om. वि. 10 > J भणिया सव्वे, J om. णियया, P अत्थाणमंडवाउ. 11 > P भणियं for भणिए, J om. अम्हेहिं सो. 12 > P om. को सो आगमो etc. ending with णायव्वो ॥ राहणा भणियं । 16 > P तुम्हे दिट्ठो, J इहं घेप्पइ, P अम्हारिसेहिंमि । 18 > J inter. सो & ण, P adds कइं before कहेमाणो. 20 > J कइं रे for कइं तो, P भणासि, P सुए for सुओ, P om. य. 22 > P om. सुओ ण, P adds अम्हे before तहा, P गुरुएस for गुरव, P एसा महं पत्ता. 23 > J पुरिसेण ।, P आगमेणं for आगममिणं, P जोगत्तण. 24 > P inter. त्ति & आगमो. 25 > J जहरियय, J कम्मफलो, P परिकहणा । पुवावरा. 26 > P वित्तिरहिओ तेण य सो. 27 > P सुंदरंमुहं. 29 > P सयलरुवे, P जो for सो. 30 > P सीले काओ विरयं, P ण for णाम, J संपुण्णो for संपत्तो, P णिट्ठवियसकमो सिद्धिपुरी. 31 > P णेय दुक्खसव्वाइं । 32 > P ससीसुक्कंपं. 33 > J om. अवि य. 34 > P हु for हि, P adds ति before धम्माण, P एसो देवी दिण्णी.

- 1 § ३२४) कुमारेण भणियं । 1
 विण्णप्पसि देव फुडं जइया हरिओ तुरंगमाळुओ । देवेण बोहणत्थं इमम्मि धम्मम्मि णरणाह ॥
 3 दिट्ठो रण्णम्मि मुणी सीहो देवो य पुब्ब-संगइया । पुब्बं पि एस धम्मो अग्हे काठं गथा सग्गं ॥ 3
 तेहिं पुणो मह दिण्णो एसो धम्मो जिणिंदवर-विहिओ । तेहिं चिय पेसविओ कुवल्लयमालाएँ बोहत्थं ॥
 वच्चतेण य णरवर अद्द-पहे देव-दाणव-समूहा । विजाहरा य जक्खा दिट्ठा मे तत्थ धम्मम्मि ॥
 6 जेण य सुएण कहिया अग्हे पउती गयाण तं देसं । तेण सयं चिय दिट्ठो सव्वण्णू एत्थ धम्मम्मि ॥ 6
 इंदो वि तयं वंदइ हरिसुफुल्लंत-लोचण-णिहाओ । रय-हरणं जस्स करे पेच्छइ बहु-पाव-रय-हरणं ॥ अण्णं च देव,
 देवत्तणम्मि दिट्ठो अग्हे चिय आसि धम्म-तित्थयरो । असुरिंद-णरिंदाणं आइसमाणो इमं धम्मं ॥
 9 ते वि सुरा असुरिंदा वंतर-विजाहरा मणुस्सा य । कर-कमल-मउल-सोहा दिट्ठा धम्मं णिसामेति ॥ 9
 दिट्ठा य मए रिसिणो इमम्मि धम्मम्मि सोसिय-सरीरा । उप्पाळिऊण णाणं सासय-सिद्धिं समणुपत्ता ॥
 ता सामिय विण्णप्पसि एसो धम्मो सुधम्म-धम्माण । चूडामणि व्व रेहइ चंदो वा सव्व-ताराण ॥ अण्णं च ।
 12 वज्जिंद-णील-मरगय-मुत्ताहल-रयण-रासि-वच्चइयं । पाविजइ वर-भवणं णरवर ण उणो इमो धम्मो ॥ 12
 सव्वंग-लक्खण-सुहं सुहेण पाविजए महारयणं । भिद्धि-सुह-संपयगरो दुक्खेण इमो इहं धम्मो ॥
 पीणुत्तुंग-पओहर-पिहुल-भियंबो रसंत-रसणिहो । होइ महिल्लाण सत्थो सुहेण ण उणो इमो धम्मो ॥
 15 सुह-संपय-सय-भरियं सुहेण पाविजए जए रजं । दुक्खेण एस धम्मो पाविजइ णरवर विसालो ॥ 15
 सग्गम्मि वि सुर-भवणे पाविजइ सयल-भोय-संपत्ती । एसो उण जो धम्मो पत्तो पुण्णेहिं थोवेहिं ॥
 तो णरणाह तुमे चिय अलद्धउव्वो इमम्मि संसारं । लद्धो णिउणेण इमो संपइ इह आयरं कुणह ॥'
- 18 ति भणिए पडिवणं णरवइणा । 'अहो सच्चं एयं जं एस दुल्लहो मग्गो । जेण अग्हे पलिय-उत्तिमंगा जाया तथा वि ण 18
 उवल्लद्धो एत्तियं कालंतरं' ति ।

- § ३२५) भणियं च णरवइणा सप्पणामं 'भो भो गुरुणो, कत्थ पएसे तुग्घाणं आवासो' ति । गुरुणा भणियं
 21 'महाराय, बाहिरुज्जाणे कुसुमहर-णामे चेइयहरं' ति । णरवइणा भणियं । 'वच्चइ सट्ठाणं, कुणह कायव्वं, पभावाए 21
 रयणीए अहं चेइयहरं चय आगमिस्सामि' ति भणमाणो समुट्ठिओ णरवइ कुमारे य । साहुणो य धम्मलाभासीसाए
 अभिवद्धिऊण णिगया उज्जाणं णियय-किरिया-कलाबेसु संपलग्गा । णरवइ वि संमाणिऊण संमाणिज्जे, पूइऊण पूयणिज्जे,
 24 वंदिऊण वंदणिज्जे, पेच्छिऊण पेच्छणिज्जे, रमिऊण रमणिज्जे, आउच्छिऊण आउच्छणिज्जे, काऊण कायव्वे, भक्खिऊण 24
 भक्खियव्वे सव्वहा जहा-पुत्तं पुत्त-मित्त-कलत्त-भिच्च-भइ-भोइय-णरिंद-वंदस्स काऊण तओ णिरुविउं पयत्ते भंडायारे
 जाव अक्खयं पेच्छइ अत्थ-संघायं । तओ किमेएणं पुहइ-परिणामेणं कीरइ ति, इमेण वि को वि सुहं पावइ ति, आदिट्ठा
 27 सव्वाहियारिया । 'अहो महापुरिसा, घोसेसु तिय-चउक्क-चवर-महापहेसु सिंगाडय-णयर-रच्छामुहेसु उज्जाण-देवडल-मव- 27
 तलाय-वावी-बंधेसु । अवि य । तं जहा ।

- जो जं मग्गइ अजं जीयं मोत्तूण संजम-सहायं । तं तं देइ णरवइ मग्गिजउ णिडभयं पुरिसा ॥
 30 एवं च घोसाविऊण, दाऊण य जं जहाभिरुइयं दाणं जणस्स, णहाय-सुइ-विल्लित्त-सुयंघ-विल्लेवण-विसेसो सव्वालंकार- 30
 रेहिर-सरीरो सुकुसुम-महादाम-मणहरो पूइय-देवया-विइण-धम्म-रयणो आइओ सिबिया-रयणं णरवइ, गंतूण य
 पयट्ठो । अणेय-णायर-विल्लया-दाविज्जमाणुली-पसर-मणोहरो किं-को-त्थ इयासेस-णरिंद-लोओ संपत्तो कुसुमहरं उज्जाणं
 33 तत्थ य अवइणो, पाएसु गंतुं पयत्तो । दिट्ठो य तेण सो मुणिवरो अणेय-मुणि-सय-परियारो णक्खत्त-सहस्स-मज्ज-गओ 33

3) P पुव्वसंगमिया । पुव्वंमि एस. 4) P दिण्णा एसो, J लिदिओ for विहिओ, J कुवल्लयमालाय, P कुवल्लयमाए बोहेत्थं
 5) P वच्चते णरवर अहपहे, J अद्दवओ for अद्दपहे, P एत्थ for तत्थ. 7) P तयं तंदइ हरिसुफुल्लंतलोचण, J हरिसुफुल्लंत.
 8) P एस for आसि. 9) P मउलि for मउल, P णिसामेत्ता. 10) P रिसिण. 11) P एसो धंमो सुधंमो धंमधम्माण ।
 12) P मरगल, P om. मुत्ताहल, J वरभुवण, P -भवण, P ण उणा, J इमं धम्मं. 13) P inter. सुहं & लक्खण, J om.
 महा', P संपयकरो. 14) J पिहुत्तुंगपओहर, P णिउणो for ण उणो. 15) J -सुइभरियं P -स्तभरियं, P पाविजइ णइ णरवर.
 J णरवर for णरवर. 16) P सलभोगसंपत्ती, P कत्तो for पत्तो. 17) J ता for तो, J अह for इह. 18) P adds जं
 before सच्चं, J जेणग्हे वलिअउत्तिमंगो जाओ. 19) J उअलद्धो. 21) P णोम for णामे, J चेतिअहरे, J inter. कुणह &
 कायव्वं, J पभाए. 22) J चेतिअहरं वेअ ममिस्सं ति, P चेईहरं, P om. चय, P om. ति. 23) P अभिणिद्धिऊण, P णरवती.
 24) J om. वंदिऊण to पेच्छणिज्जे. 25) P adds पायव्वे before सव्वहा, P तओ विरुवयं, P भंडायारो. 26) P om.
 ति, J adds जइ before इमेण, J कोइ for कोवि, P आयट्ठा. 27) J सव्वा वि आरिआ P सव्वाहि आयरिया, P om. घोसेसु,
 P सिंगाडय. 28) P वंधिसु, P om. तं. 29) P णरवती. 30) P om. य, P णहाइसुर, P सुयंघ. 31) J सरीरो
 कुसुमदाममण', P -महामणोहरो, J पूइअवयाविइण, P णरवर, P om. य. 32) J पयत्तो for पयट्ठो, J मणहरो, P कुसुमहरउज्जाणं.
 33) P परिवारो.

- 1 विव सरय-समय-सरिसरीओ ससलंछणो अलंछणो त्ति वंदिओ भगवं राइणा कुमारेहिं महिंदप्पमुहेहिं य सव्व-णरवईहिं । 1
भणियं च णरवइणा वइ-करवळजलिणा 'भगवं, णियव-दिक्खाए कीरउ अम्हाणं पसाओ' त्ति । गुरुणा भणियं
3 'ओ ओ णरणह, किं तुह पडिहायइ हियए एसो धम्मो जेण दिक्खं गेण्हसि' त्ति । राइणा भणियं 'अवस्सं मह 3
हिययाभिमओ तेण दिक्खं पव्वज्जम्मो' त्ति । भगवया भणियं 'जइ एवं, ता अविग्गं देवाणुप्पिया, मा पडिबंधं करेसु ।'
णिरुवियं लगं जाव सुहयरा पावग्गाहा, सस-दिट्ठिणो सोम्मा, वट्टए जिणमती छाया, अणुक्खला सउणा । इमं च
6 इट्ठण गुरुणा पुलइयाइं सयल-णरिंद-मंति-सइल्लय-वयणाइं । तेहिं भणियं । 'भगवं, एसो अम्ह सामी, जं खेय इमस्स 6
पडिहायइ तं अम्ह पमाणं' ति भणिय-भेते गुरुणा सज्जावियं चेइहरं, विरइया पूया, उभियाओ धयाओ, णिम्मजियं
मणि-कोट्ठिमं, णहाणिवा तेलोक्क-बंधवा जिणवरा, विलित्ता विलवणेणं, आरोवियाणि कुसुमाणि, पवज्जियाइं तराइं,
9 जयजयावियं जणेणं । 'अह णरवई पव्वज्जमम्भुवज्जइ' ति पयइ-हलबोल-बहिरियं दिभियकं ति । तओ णरवइणा वि 9
ओवारियाइं आहरणयाइं, णिविस्वत्तं पट्टंसुअ-जुवलयं, विरइओ तक्कालिओ महाजइ-वेसो, परिसंठिओ जिणाणं पुरओ ।
पणमिए भगवंते उप्पियं बहु-पावर-ओ-हरणं रयहरणं, उप्पाडिओ कुविल-तरंग-अंसुराओ माया-रुवाओ त्रिणिण
12 केसाण अट्ठाओ, उच्चारियं तिणिणवारं भव-सय-पावरय-पक्खालणं सामाइयं ति । आरोविओ य मंदर-मिरि-गरुयरो 12
पव्वजा-आरो त्ति । पणमिओ मुणिवर-पमुहेहिं वंदिओ य कुवलयचंदप्पमुहेहिं सव्व-सामंत-मंति-पुरोहिइ-जण-सय-
सइस्सेहिं, उवविट्ठो गुरु रायरिसी सव्वो य जणवओ ।

15 § ३२६) सुहासणत्थस्स य जणस्स भणियं गुरुणा । अवि य । 15

चत्तारि परमंगाणि दुल्लभाणीह जंतुणो । माणुसत्तं सुई सद्धा संजमम्मि व वीरियं ॥

कहं पुण दुल्लहं मणुयत्तणं ताव । अवि य ।

- 18 जह दोणिण के वि देवा अवरोप्पर मंतिउण हासेणं । एओ वेतुं जूयं अवरो समिलं (सुप्पइओ ॥ 18
जो सो जूय-करगो वेगेणुइओ दिसं पुच्चं । समिलं वेत्तण पुणो धावइ अवरो वि अवरेण ॥
जोयण-बहु-लक्खिल्ले महासमुइमि वूर-दुत्तारे । पुच्चम्मि तओ जूयं अवरो समिलं च पक्खिवइ ॥
21 पक्खिविउणं देवा समिलं जूयं च सायरवरम्मि । वेगेण पुणो मिलिया इमं च भणितं समावत्ता ॥ 21
पुच्चम्मि तडे जूयं अवरो समिला य अम्ह पक्खिवत्ता । जुग-छिडे सा समिला कइया पक्खिसेज्ज पेच्छामो ॥
अह पेच्छिउं पयत्ता सा समिला चंद-वाय-वीट्ठेहिं । उच्छालिजइ बहुसो पुण हीरइ जल-तरंगेहिं ॥
24 उच्चेल्लिजइ बहुसो णिव्वोला जाइ सायर-जलम्मि । मच्छेण गिलिय-मुक्का कमठ-णहुक्कतिया भमइ ॥ 24
गीलिजइ मयरं मयर-करावाय-णोलिया तरइ । तरमाणी वेप्पइ तंतुएण तंतु पुणो मुवइ ॥
सिसुमार-गहिय-मुक्का पइइइ कुंभीरयस्स वयणम्मि । कुंभीर-दंत-करवत्त-कत्ति-उक्कत्तिया गलइ ॥
27 गलिया वि मच्छ-पुच्छल्लडाहया धाइ गयण-मरणेण । गयणावडणुल्लिया वेप्पइ भुयगेहिं विसमेहिं ॥ 27
विसम-भुयंगम-डक्का धोर-विसालुक्खणेण पज्जलिया । विज्जाविया य जलेणं हीरइ पवणेण वूरयरं ॥
हीरंत चिय वेवइ अणुमरगं हीरणं तरंगेहिं । मुज्जइ विहुम-गहणे वेप्पइ संखेहिं विसम-कयं ॥
30 धावइ पुव्वाभिमुहं उद्धावइ दक्खिणं तडं तत्तो । वडइ य उत्तरेणं उत्तरओ पक्खिमं जाइ ॥ 30
तिरियं वडइ सहेलं वेलं पुण वगिरा तरंगेसु । भमइ य चक्काइइं मज्जइ आवत्त-गत्तासु ॥
इय सा बहु-अंगिला गह-गहिओम्मत्तियं व्व भममाणी । जलमइय-जीव-लोए सायर-सलिले य पारम्मि ॥
33 अच्छेज्ज भमंत चिय किं पावइ णिय-जुवस्स तं छिइं । सा सयलं पि हु खुटं देवाणं आउगं ताणं ॥ 33

1) P ससिलंछणो. 2) J करयंजलिणा, P दिक्खए, J अम्ह for अम्हाणं. 3) P पडिहायए, J गेण्हहिं त्ति, P अवरस.
4) J पवज्जामो, P विदग्गं for अविग्गं, J मा बंधं. 5) P पावग्गाहा सम्मदिट्ठिणो सोमा वट्टण जिणसगती. 6) P इट्ठण गुणा
पलोइयाइं. 7) P पडियाइ, J भणिए भेते, P सिज्जावियं चेइहरयं. 8) P णरवइ पव्वज्जमम्भु, P हलबोलं विहरियं. 9) P
ओवावियाइं आहरणाइं, P णिविस्वत्तं for णिविस्वत्तं, J जुअल्लयं, P adds णिययं हंससारसमं वत्थजुवलयं before विरइओ. 10) P
पणमिए, P अप्पियं, P बहुपावरयंमुअज्जुअलयं । णिययं हंससारसमं वत्थजुवलयं । विरइओ तक्कालिओ महाजइवेसो एरिसं ठिओ जिणाणं
पुरओ पणमिए भगवंति अप्पियं बहुपावरयं ओहरणा for बहुपावरओहरणं, P उप्पाडिओ, P om. कुविल, J मायासओ. 11) P
त्रिणिणवारओ भव, P पावरयइरपक्खालणं, J आरोविओ, P गरुयरो. 12) J मुणिवरमुहेहिं, P om. कुवलयं, J परोहिइजणसएहिं,
13) P adds वि before सव्वो. 14) P जणत्थस्स for य, P भणितं. 15) P परंपरमंगणि, J दुल्लभाणि अजंतुणो.
P दुल्लहाणीह, J सद्धा for सद्धा. 16) P माणुसत्तणं for मणुयत्तणं. 17) P दोणिह. 18) P दिसि पुच्चं. 19) P च
क्खिवइ. 20) P भणितं. 21) P तओ for तडे, J जुअच्छिडे, P एमज्ज for पक्खिसेज्ज. 22) P पेच्छिओ, P वीट्ठेहिं.
23) P उच्चेल्लिजइ, P णिव्वोला. 24) J गीलिजइ, P मयरं, P मुणा for पुणो. 25) J पक्खिसेज्ज, P भमइ for गलइ.
26) P om. मच्छ, J गयणावडणुल्लिया, J मुअएहिं विसमवयणेहिं ॥ 27) P विज्जावियजलेणं. 28) P हरत्ति for
हीरंत, P विससंकेणं for विसमकयं. 29) P पुव्वाहिमुहं, P om. तडं, P उरओ for उत्तरओ, P जाओ for जाइ. 30) P तिरिय,
J वेलं, P तरंगेत्ताणु, P om. 2nd line भमइ etc. 31) P repeats य. 32) J जुअल्लस for णियजुवस्स, P has
blank space for सा सयलं पि हु खुटं.

- 1 एसो तुह दिट्ठतो साहिज्जइ अबुह-बोहणद्वाए । जो एस महाजलही एसो संसार-वासो त्ति ॥ 1
जा समिला सो जीवो जं जूयं होइ तं खु मणुयत्तं । जे देवा दोण्णि इमे रागहोसा जियस्स भवे ॥
- 3 अह तेहिं चिय समिला उक्खित्ता णवर मणुय-छिड्ढाओ । परिभवइ कम्म-पवणेरिया व वरं भव-समुहम्मि ॥ 3
अह राग-दोस-वसओ चुक्को मणुयत्तणाओ सो जीवो । चउरासीति-सहस्से सयाण मूढो परिबभमइ ॥
मणुयत्तणाउ चुक्को तिरिक्ख-जोणीसु दुक्ख-लक्खासु । भमइ अणंतं कालं णएसु य धोर-रूवेसु ॥
- 6 अह राग-दोस-दालिह-दुक्ख-संताव छिण्णासो । कम्म-पवणेण जीवो भामिज्जइ कहिय समिल व्व ॥ 6
कालेण अणंतेण वि सा समिला जह ण पावए छिड्ढं । तह मणुयत्तण-चुक्को जीवो ण य जाइ मणुयत्तं ॥
§ ३२७) भणियं च गुरुणा ।
- 9 जह समिला पबभट्टा सायर-सलिले अणोरपरम्मि । पविसेज्जा जुग-छिड्ढं इय संसइओ मणुय-लंभो ॥ 9
पुव्वंते होज जुयं अवरंते तस्स होज समिला उ । जुय-छिड्ढम्मि पवेसो इय संसइओ मणुय-लंभो ॥
सा चंड-वाय-धीई-पणोल्लिया वि लमेज्ज जुयल्लिड्ढं । ण य मणुसाओ चुक्को जीवो पुण माणुसं लहइ ॥
- 12 अह मणुयत्तं पत्तं आरिय-कुल-विहव-रूव-संपण्णं । कुसमय-मोहिय-चित्तो ण सुणइ जिण-देसियं धम्मं ॥ कहं । 12
जह काय-मणिय-मज्जे वेरुल्लिओ सरस-विहव-संठाणो । इयरेण णेय णज्जइ गुण-स्य-संदोह-भरिओ वि ॥
पयं कुसम्म-मज्जे धम्मो धम्मो त्ति सरिस-उल्लावो । मोहंघेहिं ण णज्जइ गुण-स्य-संदोह-भरिओ वि ॥
- 15 जह णल-वेणु-वणेसुं कह वि तुलगेण पाविओ उच्छू । ण-यणंति के वि बाला रस-सार-गुणं अलक्खेता ॥ 15
तह कुसमय-वेणु-महावणे वि जिणधम्म-उच्छु-बुच्छेओ । मूढेहिं णेय णज्जइ सुह-रस-रस-रसिय-रसिओ वि ॥
जह बहु-तरुवर-गहणे ठवियं केणावि कप्पतरु-रयणं । पुरिसेहिं णेय णज्जइ कप्पिय-फल-दाण-दुल्लियं ॥
- 18 तह कुसमय-तरु-गहणे जिणधम्मो कप्प-पायव-समाणो । मूढेहिं णेय णज्जइ अक्खय-फल-दाण-सुहओ वि ॥ 18
जह मज्जे मंताणं मंतो बहु-सिद्धि-सिद्ध-माहप्पो । असयणोहिं ण णज्जइ सरिसो सामण्ण-मंतेहिं ॥
तह कुसमय-मंत-समूह-मज्ज-परिसंठिओ इमो धम्मो । असयणोहिं ण णज्जइ सिद्धि-सयंताह-रिद्धिल्लो ॥
- 21 जह सामण्णे धरणीयलम्मि अच्छइ गिहित्तयं अत्थं । अबुहो ण-याणइ चिय इह बहुयं अच्छइ णिहाणं ॥ 21
तह धम्म-धरणि-गिहियं जिणधम्म-णिहाणयं इमं सारं । अबुहो ण-याणइ चिय मण्णइ सरिसं कुत्तित्थं ॥
इय णवर जिणधम्मो पयडो वि णिगूहिओ अउण्णाण । दिट्ठं पि णेय पेच्छइ ण सुणइ साहिज्जमाणं पि ॥
- 24 अह णिसुयं होइ कहं पि तह वि सद्धं ण सो कुणइ । मिच्छा-कम्म-विमूढो ण-याणइ जं सुंदरं लोए ॥ 24
जह पित्त-जरय-संजाय-डाह-डज्जंत-वेविर-सरीरो । खंड-घय-मीसियं पि तु खीरं अह मण्णए कडुयं ॥
तह पाव-पसर-संताव-मूढ-हियओ य अयणओ कोइ । पायस-खंड-सम-रसं जिण वयणं मण्णए कडुयं ॥
- 27 जह तिमिर-रूढ-दिट्ठी गयणे उंसंते वि पेच्छए रूवे । संते वि सो ण पेच्छइ फुड-वियडे घडय-पड-रूवे ॥ 27
तह पाव-तिमिर-मूढो पेच्छइ धम्मं कुत्तित्थ-त्तित्थेसु । पयडं पि णेय पेच्छइ जिणधम्मं तत्थ किं कुणिमो ॥
जह कोसिय-पविक्ख-गणो पेच्छइ राईसु बहल-तिमिरासु । उइयमि कमलणाहे ण य पेच्छइ जं पि अत्ताणं ॥
- 30 तह मिच्छा-दिट्ठि-जणो कुसमय-तिमिरेसु पेच्छए किं पि । तयल्लुजोविय-भुयणे जिणधम्म-दिवायरे अंधो ॥ 30
जह अंगिघण-तत्ते जलम्मि सिज्जंति बहुयरा मुग्गा । कंकदुया के वि तहिं मणयं पि ण सिज्जरे कडिणा ॥
तह धम्म-कहा-जलणेण तविय-कम्मस्स पाव-जीवस्स । कंकदुयस्स व चित्तं मणयं पि ण होइ मउययरं ॥
- 33 जह मुद्ध-बालयओ दुक्कइ वग्गीणं जणणि-संकाए । परिहरइ पुणो जणणी मूढो मोहेण केणावि ॥ 33

1 > P संसारं वापो. 2 > P सा for सो, P तु for खु, J महाभावा for भवे. 3 > J जीव P जीव for चिय, J उत्थाणिआ for उक्खित्ता णवर, J om. 2nd line परिभवइ etc., Rather विरं for व वरं. 4 > P परिमगइ. 5 > P लक्खेसु, P त for य. 6 > P दोसदालिह, J adds ताव after संताव. 7 > P कहं पि for जह ण, J मणुअंतं ॥ 9 > P सागर-, J पविसेज्ज जुअच्छिड्ढं, P om. इय संसइओ मणुयलंभो etc. to लमेज्ज जुयल्लिड्ढं ॥ 10 > J पुव्वतो, J समिला तु । 11 > J चंडवात-, J पणोल्लिया. 12 > P संपण्णं । J कहं for कहं. 13 > P कहं for जह J वेरुल्लिआ सरिसवयणसंठाणा । 14 > J कुद्धम्म, P सरिसओल्लो, J मोहंघेण. 15 > P विओ for पाविओ, J उच्छू, J रसभार, P अलक्खे वा ॥ 16 > P जह for तह, J adds हो after तह, P कुसमय, J विच्छेओ P बुच्छेओ, P om. रसिय. 17 > P तरुवर, P कप्पतरुयं । 18 > P कुसुमय 19 > P om. ण before णज्जइ. 20 > P कुसुमय. 21 > J adds अ before गिहित्तयं, P अइ for इह, J अच्छइ अत्थं ॥ 22 > P repeats धम्म, P repeats the line अबुहो न याणइ चिय अइ बहुयं अच्छइ णिहाणं ॥ after इमं सारं । 24 > P होनि कहं, J adds अ before सद्धं, P सद्धं, P ण इ for ण सो कुणइ, P जह for जं. 25 > P जय for जरय, J दोहडज्जंति, P मीसयं, J तु खीरं. 26 > P संजाय for संताव, P om. य, P अयाणुउ को वि । 27 > JP गयणे संते, P पेच्छइ, P om. रूवे । संते वि सो ण etc. to पि णेय पेच्छइ. 28 > P तुसिमो for कुणिमो. 29 > P पविक्खगणो, P तिमिरेसु. 30 > P कुसुमय, P भुयणो. 31 > P तत्ते, J किंकदुया, J मणायं, J सिज्जरे कडिणे, better सिज्जंति, सिज्जरे. 32 > J किंकदुयस्स P कंकडवरस्स, J वि for व, P मणुयं. 33 > J मुद्धबालसओ, J वग्गीय, J जणणी, J मेहेण for मोहेण.

- 1 तह सुद्धो कोइ जिओ कुसुमय-वग्धीसु पुद्धइ सुहृथी । परिहरइ जिणाणत्ति जणणि विव मोक्ख-मग्गस्स ॥ 1
इय णरवर केइ जिया सोऊण वि जिणवरिंद-वयणाइ । ण य सहइति मूढा कुणति बुद्धि कुतित्थेसु ॥
- 8 अह कह वि कम्म विवरेण सहहाणं करेज एस जिओ । अच्छइ सहहमाणो ण य लग्गइ णाण-किरियासु ॥ 3
जह अयइ-तडे पुरिसो पयलायइ मुणइ जह पढीहामि । ण य वच्चइ सम-भूमि अल्लो जा णिवडिओ तत्थ ॥
तह णरय-कूव-तड-पढण-संठिओ कुणइ पाव-पयलाओ । तव-णियम-समं भूमि ण य वच्चइ णिवडिओ जाव ॥
- 6 जह सयल-जणिय-काणण-वण-द्व-इज्झंत-सीसणं जलणं । दट्टूण जाणइ णरो इज्झजइ सो ण य पलाइ ॥ 6
तह सत्तु-मित्त-वर-वास-जलण-आलावली-विलुट्टो वि । जाणइ इज्झामि अहं ण य णासइ संजमं तेण ॥
जह गिरि-णइ-वेय-वियाणुओ वि मजेज गिरि-णइ-जलमि । हरिऊण जाणमाणो णिज्जइ वूरं समुद्धरिमि ॥
- 9 तह पाव-पसर-गिरि-णइ-जल-रय-हीरंतयं मुणइ जीयं । ण य लग्गइ संजम-तरुवरमि जा णिवडिओ णरए ॥ 9
जह कोइ णरो जाणइ एसो चोरेहिं मूसए सत्थो । ण य धावइ गामंतो जा मुसिओ दुट्ट-चोरेहिं ॥
तह इंदिय-चोरेहिं पेच्छइ पुरओ मुसिजए लोए । जाणइ अहं पि मुसिओ संजम-गामं ण अल्लियइ ॥
- 12 जह कोइ चोर-पुरिसो जाणइ कइया वि होइ मह मरणं । ण य सो परिहरइ तयं जाणंतो पाव-दोसेण ॥ 12
तह पाव-चोरियाए गिद्धो जीवो वियाणए दुक्खं । जाणंतो वि ण विरमइ जा पावइ णरय-णिग्गहणं ॥
इय णरवर को पावइ मणुयत्ते पाविए वि जिण-वयणं । णिसुए वि कस्स सद्धा कत्तो वा संजमं लहइ ॥
- 15 तेण णरणाह एयं दुल्लहं भव-सायरे भमंतस्स । जीवस्स संजमं संजममि अह वीरियं दुल्लहं ॥ 15
तुमए पुण संपत्तं सम्मत्तं संजमं च विरियं च । पालेसु इमं णरवर भागम-सारेण गुरु-वयणं ॥
धम्ममि होसु रत्तो किरियाए तग्गओ रओ ज्ञाणे । जिण-वयण-रओ णरवर विरओ पावेसु सव्वेसु ॥
- 18 होसु दढव्वय-चित्तो णित्थारग-पाग्गो तुमं होसु । वड्डसु गुणेहिं मुणिवर तवमि अक्खुज्जओ होसु ॥ 18
भावेसु भावणाओ पालेसु वयाइ रयण-सरिसाइ । कुण पावकम्म-स्ववणं पच्छा सिद्धि पि पावेसु ॥ त्ति ।

§ ३२८) एवं च णिसामिऊणं भगवं दढव्वम-राय-रिसी हरिस-वसुल्लसंत-रोमंची पणमिओ चलणेसु गुरुणो, भणियं

- 21 च । 'भगवं, अवि य, 21
अजेय अहं जाओ अज्ज य संवड्ढिओ टिओ रज्जं । मण्णामि कयत्थं अप्पयं च जा एस पव्वइओ ॥
जं जं मह करणिज्जं तं तं तुमहेहिं आइसेयव्वं । जं जं चाकरणिज्जं तं तं पडिसिज्झइ मुणिंद ॥' त्ति ।
- 24 गुरुणा भणियं । 'एवं हवउ' त्ति भणिए चलण-पणामे अक्खुट्ठिओ वंदिओ सयल-सामंत-चक्रेण कुमारेण य । णायर-जणो वि 24
कय-जय-जय-सहो अभिणंदंतो आगओ णयरिं । णरिंद-लोओ वि 'अहो महासत्तो महाराया दढव्वमो' त्ति भणंतो आगंतुं
पयत्तो । तओ गुरुणा वि महाराया काराविओ तक्कालियं करियव्वं त्ति । एवं च करंतो कायव्वाइ, परिहरंतो अकायव्वाइ,
27 भणंतो भणियव्वाणि, अभणंतो अभणियव्वाइ, जंतो गम्माणि, वज्जंतो अगम्माणि, भुंजंतो भक्खाणि, अभुंजंतो अभक्खाणि- 27
पियंतो पेयाणि, परिहरंतो अपेयाणि, इच्छंतो इट्ठाणि, वज्जंतो अणिट्ठाणि, सुणंतो सोयव्वाणि, अवमण्णंतो असोयव्वाणि,
पसंसंतो पसंसणिज्जाणि, उवेक्खंतो अपसंसणिज्जाणि, वंदंतो वंदणिज्जाणि, वज्जितो अवंदणिज्जाणि, णिंदंतो संसार-वासं, पसं,
30 संतो जिणिंद-वर-मग्गं त्ति । अवि य । 30
कजाकज्ज-हियाहिय-गम्मागम्माइं सव्व-कज्जाइं । जाणंतो विइ विहरइ किंचिमेत्त-परिसेस-कम्मंसो ॥ त्ति ।

1 > J को वि, P कुसुमय, J -वग्धीय, P जिणाणत्ती जणणि, P मोक्खसारस्स. 2 > P इय नर को वि, J बुद्धी. 3 > J सहहणं जह करेज्ज. 4 > J मुणइ for मुणइ, J एत्थ for तत्थ. 5 > P नयर for णरय. 6 > P तण for दव, P om. three lines दट्टूण जाणइ णरो etc. to संजमं तेण ॥ 8 > P वियाणओ. 9 > P मुणइ for मुणइ, P तरुवरमि. 11 > P adds पुइ before पुरओ, P -गाम. 12 > P पावदोसेहिं. 13 > J जीओ, J विरइ for विरमइ, P -णियमणं. 14 > J पावि for पाविए, P सिद्धा कत्ता. 15 > P दुल्लहं भवसागरे, P वीरियदुल्लहं. 16 > P च विरइयं. 17 > P om. रओ, P ज्ञाणे, J inter. णरवर & विरओ, P पावसु. 18 > J णित्थारया, P अक्खुज्जओ. 20 > P भयवं, P -वसुच्छलंतरोमिंचो पणामिओ, P गुरुणा, P om. भणियं च. 22 > J आउ for जाओ, P ट्ठिओ, P अपियं च जाएणु पव्वइओ. 23 > J तुमहेहिं for तुमहेहिं, P आयसेयव्वं, P जं च न करणिज्जं, J परिसिज्झइ P पडिसिद्धइ. 24 > J हवतु, P हणिए for भणिए, J -पणामक्खुट्ठिओ, P पणामे पक्खुट्ठिओ य वंदिओ य सयल, J णायरजणेहि कय. 25 > P अभिंददिऊण, P नरिंदलो, J om. वि, P आहो for अहो, J दढव्वमदेवो, P दढव्वमो. 26 > J पयत्ता, J adds तं before तओ, P कारिओ तक्कालियं किरियव्वं, P करणो for करंतो. 27 > P om. भणंतो भणियव्वाणि, J om. भणियव्वाणि अभणंतो, P वज्जंतो, J om. भुंजंतो भक्खाणि, P भुंजंतो for भुंजंतो (emended). 28 > P पेयाणि for अपेयाणि, P असुणंतो for अवमण्णंतो. 29 > J वंदंतो for वरंतो, P वंदणियाणि, P repeats अवंदंतो for वज्जितो. 31 > J जाणंतो विइर केइ किंचिमेत्तपरिसेय-

१ § ३२९) एवं च तस्स मुणिणो वच्चइ कालो कुवलयचंदस्स । पुण असेस-परिंद-वंद-मंडली-मउड-कोहि-विहं-क-
मणि-गिहसमाण-मसिणिय-बलण-पट्टस्स कोलीणाइं सत्त-वास-कक्खाइं रजं करंतस्स । एवंतरम्मि पठमकेसरस्स देवस्स को
२ बुत्ततो वट्ठिं पयत्तो । अवि य । ३

जायइ आसण-कंपो छाया परियलइ गळइ माहप्पो । विमणा य वाहणा परियणो य आणं विलंवेइ ॥
तओ तं च जाणिऊम तहक्खयं खणमेकं परिचित्तिऊण दीण-विमण-दुम्मण-हियएण वियारियं हियए ।

६ मा होह रे विसण्णो जीव तुमं विमण-दुम्मणो दीणो । ण हु चित्तिएण फिइइ तं दुक्खं जं पुरा रइयं ॥ ८
जइ पइससि पायालं अबइं व वरिं गुहा समुइं वा । पुव्व-कयाउ ण मुंचसि अत्ताणं खायसे जइ वि ॥
जइ ख्यसि वलसि वेवसि दीणं पुलएसि दिसि-विदिसियके । हा हा पलवसि विलवसि लुक्कसि कत्तो कयंताओ ॥
९ जइ गासि भासि दुम्मण मुज्जसि अह लोलसे धरणिवट्ठे । जंपसि मूओ च्च ठिओ लुक्कसि ण वि तं कयंताओ ॥ ९
जं चैय कयं तं चैय मुंजसे णत्थि एत्थ संदंहो । अकयं कत्तो पाविसि जइ वि सयं देव-राओ ति ॥
मा हो जूरह पुरिसा विहवो णत्थि ति अम्ह हियएण । जं पुव्वे चिय ण कयं तं कत्तो पावसे एण्हि ॥
१२ मा हो मज्जह पुरिसा विहवो अम्हं ति उत्तुणा हियए । किं पि कयं सुकयं वा पुणो वि तं चैय मे कुणह ॥ १२
होऊण अम्ह ण हुयं मा दीणा होह इय विचित्तेह । काऊण पुणो ण कयं किं पि पुरा सुंदरं कम्मं ॥
ता एत्तियं मए चिय सुकयं सुकयं ति अण्ण-जम्ममि । एत्तिय-मेत्तं कालं जं भुत्तं आसि विय-लोए ॥
१५ जेहिं कयं सरिसोहिं पुव्व-तवं धम्मणंदण-समक्खं । ते सव्वे मह सहया पुव्ववरं पाविया पडणं ॥ १५
ता मज्जं चिय विहवे चिरयरं आसि काल-परिणामं । एवं टियम्मि किं जह अप्पाणं देमि सोयस्स ॥

§ ३३०) ता जं संपइ संपत्त-कालं तं चैय काहामि ति आगओ भयोज्जा-पुरवरिं, विट्ठो राया कुवलयचंदो,
१८ कुवलयमाला य । साहियं च ताण जहा 'अहं अमुग-मासे अमुग-दियहे तुम्ह पुत्तो भवीहामि ति । ता इमाइं पठमकेसर- १८
णामंकियाइं दिव्वाइं कडय-कोडल-कंठाभरणदीयाइं आभरणाइं गेण्हह । इमाइं च मह पसरमाण-बुद्धि-वित्थरस्स परिहियव्वाइं ।
जेण इमाइं बहु-काल-परिहियाइं पेच्छमाणस्स मह जाइंसरणं उप्पज्जइ ति । पुणो जेण उप्पण्ण-पुव्व-जाइंसरणो २१
२१ संजाय-वेरगो ण रज्ज-सुहे सुट्ठु वि मणं करिस्संति । किंतु भव-सय-सहस्स-दुल्लहे जिण-मगो रइं करेमि' ति भणमाणेण २१
समप्पियाइं आभरणायाइं । उप्पइओ य णहयलवहं संपत्तो सगं । त्थ य जहा-तव-विहवं पुणो वि भोए भुंजितं पयत्तो ।
एवं च वच्चेत्तेसु दियहेसु तम्मि चैय पठमकेसर-देव-दिणो ओहि-दियहे उठमइए कुवलयमालाए उप्पण्णो गढओ ।
२४ जहासुइं च मणोरह-सय-सएहिं संवट्ठिओ । णिय-काल-मासे य संपुण्ण-सयल-दोहलाए सुकुमाल-पाणि-पाओ जाओ २४
मणिय-वाडल्लओ विय दारओ ति । सो य परिवाडीए बहुमाणो गहियासेस-कला-कलाओ पसरमाण-बुद्धि-वित्थरो
जाओ । तओ तस्स य से णामं पुव्व-कयं चैय मुणिणा पुहइसारो ति । तओ तस्स समोप्पियाइं ताइं आभरणाइं । ताणि
२७ य पेच्छमाणस्स 'इमाइं मए दिट्ठ-पुव्वाइं' ति इहापूह-मगण-गवेसणं कुणंतस्स श्चत्ति जाइंसरणं समुप्पणं । तओ संभरिष- २७
पुव्व-दुक्खो मुच्छिओ पडिओ धरणिवट्ठे । ससंभमं पहाइएण य सित्तो चंदण-जलेण सहयर-सखेणं ति । तओ आसासिओ
चित्तिं पयत्तो । 'अहो, तारिसाइं सम्मो सुहाइं अणुभवित्तिण पुणो वि एरिसाइं तुच्छासुइ-णिदियाइं अइ मणुय-सुहाइं
३० जीवो अभिलसइ ति धिरत्थु संसारवासस्स । अहवा धिरत्थु जीवस्स । अहवा धिरत्थु कम्मस्स । अहवा धिरत्थु ३०
रायहोसाणं । अहवा धिरत्थु पुणो वि इमस्स बहु-दुक्ख-सहस्साणुभव-णिव्विकक्खस्स णिय-जीव-कलिणो, जो जाणंतो वि
दुक्खाइं, वेणंतो वि सुहाइं, बुज्जंतो वि धम्मं, वेयंतो वि अहम्मं, पेच्छंतो वि संसारं, अणुभवंतो वि वाहि-वियारं, वेवंतो

१) P मुषिदो वच्चए, P णियसेस for पुण असेस, J कोली- २) J गिहसणामसिणीअयलणवट्ठं बोलीणाइं- ३) P वट्ठिउं
for वट्ठिं, P om. अवि य- ४) P विमणो, P परियणा वि आणं विलंवेत्ति- ५) J एवं for तं, J हियएणावि आविअहियए-
६) P होभि for होह, J दिट्ठइ for फिइइ, P इयं for रइयं- ७) P पयससि, P गुहं, P मुंचणि for मुंचसि, P खायसे- ८) J
दस- for दिसि, J विलवसि for पलवसि- ९) P वासि for भासि, P om. अह, P लोलसि, J अउ for मूओ, J कत्तो for ण
वि तं- १०) P जं चिय कयं तं चिय मुंजसि, J पावइ for पाविसि- ११) J विहओ णत्थि, J मज्ज for अम्ह, J inter. तं &
कत्तो, P पावसे इन्दि ॥ १२) P म हो गव्वह पुरिसो, J अहं for अम्हं, P असुणो for उत्तुणा, J सुकयं हो पुणो वि- १३)
J विहंवेह- १५) P जे कहिं, J सयरया for सहया- १६) P विहवो चिरयरं, J आसि परिमाणं, P अत्ताणं- १७) P जं तं for
ता जं, P adds कायचं before तं चैय, P चैय काहामि, P आउज्जापुरवरिं- १८) P om. च, J adds य before तुम्ह, P om.
त्ति, J om. ता, J adds च after इमाइं, P पठमसारणामंकियाइं किं दिव्वाइं- १९) J कणय for कटय, P om. 'भरणा',
J आहरणाइं- २०) P om. जेण इमाइं, J जातीसरणं, P जाइसरणं उक्खइ ति, J जातीसरणो य जातवेरगो ण रज्जसुहेसु इह मणं
वरइस्सं किंतु सयसयसहस्स दुल्लंभे, P जातिसरणो- २१) P जिणमगो, P भणमाणेण समप्पियाइं आभरणायाइं- २२) P om. उप्पइओ
य णहयलवहं etc. to समोप्पियाइं ताइं आभरणाइं- २३) J उउमतीए- २४) J कुमुमाल for सुकुमाल- २७) P दिट्ठा पुव्वाइं
त्ति, P करंतस्स for कुणंतस्स, P om. श्चत्ति, J जातीसरणं- २८) J धरणिवट्ठे, J ससंभमपभाइएण, P पहाइएणंमि सित्तो- २९)
P पुत्तेणो for पुणो, J om. वि, J तुच्छासुइं P वच्छासुत्ति, P om. अइ, P मणुसुहाइं- ३०) P अहिलसह- ३१) P रागदोसाणं,
P सदसाणुभव, P णियजीवस्स वणिणो जोणंतो वि- ३२) P वेणंतो वि, J om. वेयंतो वि अहम्मं, J वाधिवियारं-

- 1 वि महाभयं, तह वि पसतो भोयसु, उम्मत्तो विसपसु, गम्भिजो भय्येसु, खुदो विह्वेसु, धदो माणेसु, दीजो क्वसाणेसु, 1
मुच्छिभो कुटुंबेसु, बद्धे सिणेह-पासेसु, गहिजो माया-रक्खसीए, संजमिजो राय-णियलेहिं, पच्छित्तो कोव-महाज्जणेण,
2 हीरंतो आसा-महाणह्वपवाहेणं, हिंदोकिजंतो कुवियप्प-वरंग-भंगेहिं, दिज-पक्ख-जक्खत्त-करवत्त-वंतावली-सुसुपूरिजो 3
महाकाल-मच्चु-वेयालेणं ति । ता सव्वहा एवं टिए इमं करणिजं, पव्वजं वेत्तूणं उप्पण्ण-वेरगो तव-संजमं करेहामि ति
चित्तयंतो भणिजो वयंसएहिं । 'कुमार, किं णिमं सव्व-सरीरस्स ते सुच्छा-वियारो' ति । तेण भणियं 'ममं आसि उचरे
4 अजिण्ण-वियारो, तेण मे एसा भमली जाव' ति ण साहिजो सब्भावो वयंसयाणं ति । एवं च वचंतेसु वियहेसु अणिच्छंतो 6
वि अहिसित्तो जोवरजाभिसेए कुमारो, कुवलयचंद-राइणा भणिजो 'पुत्त, तुमं रजे, अहं पुण तुज्ज महज्जो ति ता करेसु
रजं' ति । कुमारेण भणियं 'महाराय, अच्छसु तुमं, अहं चेव ताव पव्वयामि' ति । राइणा भणियं 'पुत्त, तुमं अज्ज वि
9 बालो, रज-सुहं अणुभव, अग्हे उण भुत्त-भोगा । इमो चेय कुलकमो इक्खागु-वंस-पुव्व-पुरिसाणं जं आए पुचे अभिसित्ते 9
परलोग-हियं कायवं' ति । एवं भणियं सव्व-महज्जएहिं । टिजो कुमारो । राया वि णिविण्ण-काम-भोगो पव्वजाभिसुहो
संजम-दिण्ण-माणसो अच्छिउं पयत्तो कस्स वि गुरुगो आगमणं पडिच्छंतो ति ।

12 § ३३१) एवं च अण्णमि दिणे विण्ण-महादाणो संमाणियासेस-यरियणो राया कुवलयमालाए समं किं-किं पि 12
कम्म-धम्म-संबद्धं कइं मंतयंतो पसुत्तो । पच्छिम-जामे च कह-कह वि विबुद्धो चित्तिउं पयत्तो । अवि य ।

कइया खणं विबुद्धो विरत्त-समयम्मि काय-मण-गुत्ते । चरण-करणणुयोगं धम्मज्जायणे अणुगुणेस्सं ॥

15 कइया उवसंत-मणो कम्म-महासेल-कटिण-कुलित्थं । वजं पिव अणवजं काहं गोसे पडिक्कमणं ॥ 15

कइया कय-कायब्बो सुमणो सुत्तथ-पोरिसिं काउं । वेरग-मगा-रग्गो धम्मज्जाणम्मि वट्ठिस्सं ॥

16 कइया णु असंभंतो छट्टम-तव-विसेस-सुसंतो । जुय-मेत्त-णिमिय-विट्ठी गोवर-वरियं पवजिस्सं ॥

18 कइया वि हसिजंतो णिदिजंतो य मूढ-बालेहिं । सम-मित्त-सनु-चित्तो भमेज्ज भिक्खं विसोहंतो ॥ 18

कइया खण-वीसंतो धम्मज्जायणे समुट्ठिओ गुणिउं । रागहोस-विमुक्को भुंजे सुत्तोवपसेण ॥

19 कइया कय-सुत्तथो संसारेगत्त-भावणं काउं । सुण्णहर-मसाणेसुं धम्मज्जाणम्मि ठाहस्सं ॥

21 कइया णु कमेण पुणो फासु-पप्पसम्मि कंदरे गिरिणो । आराहिय-चड-खंधो देहखायं करीहामि ॥ 21

इय सत्त-सार-रहिओ चित्तेइ चिय मणोरहे णवरं । एस जिजो मह पावो पावारंमेसु उज्जमइ ॥

धण्णा हु बाल-मुणिजो बालत्तणयम्मि गहिय-सामण्णा । अणरसिय-णिव्विसेसा जेहिं ण विट्ठो पिय-विजोओ ॥

24 धण्णा हु बाल-मुणिजो अकय-विवाहा अणाय-अवण-रसा । अहिट्ट-दइय-सोक्खा पव्वजं जे समलीणा ॥ 24

धण्णा हु बाल-मुणिजो अगणिय-पेम्मा अणाय-विसय-सुहा । अवहत्थिय-जिय-लोया पव्वजं जे समलीणा ॥

25 धण्णा हु बाल-मुणिजो उज्जय-सीला अणाय-वर-सोक्खा । विणयम्मि वट्टमाणा जिण-वयणं जे समलीणा ॥

27 धण्णा हु बाल-मुणिजो कुटुंब-भारेण जे य णोत्थइया । जिण-सासजम्मि लग्गा दुक्ख-सयावत्त-संसारे ॥ 27

धण्णा हु बाल-मुणिजो जाणं अंगम्मि णिव्बुद्धो कामो । ण वि णाओ पेम्म-रसो सज्जाए वावड-मणेहिं ॥

28 धण्णा हु बाल-मुणिजो जाय चिय जे जिणे समलीणा । ण-यणंति कुमइ-मग्गे पडिक्कूले मोक्ख-मग्गस्स ॥

30 इय ते मुणिजो धण्णा पावारंमेसु जे ण वट्टंति । सुद्धंति कम्म-गहणं तव-कट्टिय-तिक्ख-करवाला ॥ 30

अग्हे उण णीसत्ता सत्ता विसपसु जोव्वणुम्मत्ता । परिवियलिय-सत्तीया तव-भारं कह वहीहामो ॥

पेम्म-मडम्मत्त-मणा पण्ड-रज्जा जुवाण-कालम्मि । संपइ विवलिय-सारो जिण-वयणं कह करीहामो ॥

33 सारीर-बलुम्मत्ता तइया अप्पोडणेक्क-दुल्लिया । ण तवे लग्गा एण्हिं तव-भारं कह वहीहामो ॥ 33

1) P पमत्तो for पसत्तो, P विमत्तो for उम्मत्तो. 2) P कुटुंबेसु, P सिणेह, J रक्खसीसु, J रायणिअणेसु. 3) P महाणह्वपवाहेणं, P वियय्य for कुवियय्य, J णक्खत्तकरणत्त. 4) P मच्चु, P एवं टिए. 5) P चित्तियंतो, J किंणिमिजं, P किंणिमसत्थं, J ए for ते, P अउरे for उचरे. 6) J अजिण्णो, P वयंसयाणं ति 1, J om. च, J om. अणिच्छंतो वि. 7) J अभिसित्तो. 8) J om. अहं चेव ताव पव्वयामि ति राइणा भणियं पुत्त तुमं, P मं for तुमं. 9) J भत्तभोगा, P om. पुव्व, J adds य after अभिसित्ते. 10) J परलोअहिजं, J om. ति, J भणिजो for भणियं, P adds ति after कुमारो. 13) P om. कम्म, P om. य, P कइं विबुद्धो, P चित्तयंतो पयत्तो. 14) J विबुद्धो for विबुद्धो, J धम्मज्जाणो. 16) P om. सुमणो. 17) P यंसंतो for असंभंतो, P दिमिय for णिमिय. 20) P संसारे गंतु भावणा कउं, P ट्ठाहस्सं. 22) P संबसार. 23) P adds उक्कायसीला अणेय before बालत्तणयम्मि, P repeats बालत्तणयंमि गहिय साम(मि)ण्णा, P अणरसिय P पिओ for पिय. 24) J विवाहा, P -नयणरसा 1, P अदिट्टकदइय, P जेण for जे. 25) J om. four lines from धण्णा हु बालमुणिजो अगणियपेम्मा elo. to जे समलीणा, P -जेयलोया, P अणेयधारसोक्खा. 27) P कुटुंब, J णो छइआ. 28) J णिव्बुओ. 29) J कुमत्तमग्गे. 30) J वट्टंता. 31) P ववभारं for तवभारं, 32) J -मसुम्मसमणा, P जुवाण, P करीकामो. 33) P अप्पोडणेक्क, P जरमरणवाहिद्वुरा for ण तवे लग्गा एण्हिं.

- 1 अगणिय-कञ्जाकञ्जा रागहोसेहिं मोहिया तह्या । जिणवयणमि ण लग्गा एण्हि पुण किं करीहामो ॥ 1
जह्या धिईए वलिया कलिया सत्तीए दप्पिया हियए । तह्या तवे ण लग्गा भण एण्हि किं करीहामो ॥
- 3 जह्या णिट्ठुर-देहा सत्ता तव-संजममि उज्जमिडं । ण य तह्या उज्जमियं एण्हि पुण किं करीहामो ॥ 3
जह्या मेहा-जुत्ता सत्ता सयलं पि आगमं गहिडं । ण य तह्या पव्वइया एण्हि जह्या य वड्ढा य ॥
इय वियलिय-णव-जोषण-सत्तिहा संजममि असमत्था । पच्छायाव-परद्धा पुरिसा झिञ्जंति चिंतेता ॥
- 6 जह् तह्या विरमंतो सम्भत्त-महादुमस्स पारोहे । अज्ज-दियहमि हंतो सत्थे परमत्थ-भंगिल्लो ॥ 6
जह् तह्या विरमंतो सुय-णाण-महोयहिस्स तीरमि । उच्चंतो अज्ज-दिणं भव्वाहं य सेस-रयणाहं ॥
जह् तह्या विरमंतो आरुडो जिण-चरित्त-पोयमि । संसार-महाजलहिं हेलाए च्ये तीरंतो ॥
- 9 जह् तह्या विरमंतो तव-भंडावार-पूरियप्पाणो । अज्ज-दिणं राया हं मुणीण हंतो ण संदेहो ॥ 9
जह् तह्या विरमंतो वय-रयण-गुणेहिं वड्ढिय-पयावो । रयणाहिथो त्ति पुज्जो हंतो सव्वाण वि मुणीणं ॥
जह् तह्या विरमंतो रज्ज-महा-पाव-संचय-विहीणो । झत्ति खवंतो पावं तव-संजमिओ अणंतं पि ॥
- 12 जह् तह्या विरमंतो तव-संजम-णाण-सोसियावरणो । णाणाण कं पि णाणं पावंतो अइसयं एण्हि ॥ 12
इय जे बालत्तणए मूढा ण करंति कह वि सामणं । सोयंति ते अणुदिणं जराए गहियाहमा पुरिसा ॥
ता जह् कहं पि पावइ अमहं पुण्णेण को वि आयरिओ । ता पव्वयासि तुरियं अलं म्ह रज्जेण पावेणं ॥
- 15 § ३३२) इमं च चित्तयंतस्स पट्ठियं पहाउय-पाढएणं । अवि य । 15
हय-तिमिर-सेणण-पयडो णिवडिय-तारा-भडो पणट्ट-ससी । वित्थय-पयाव-पसरो सूर-णरिदो समुग्गमइ ॥
इमं च सोऊण चित्तियं राइणा 'अहो, सुंदरो वाया-सउण-विसेसो । अवि य ।
- 18 णिज्जिय-गुरु-पाव-तमो पणट्ट-गुरु-मोह-णरवइप्पसरो । पसरिय-णाण-पयावो जिण-सूरो उग्गओ एण्हि ॥ 18
चित्तयंतो जंभा-वस-वल्लिउव्वेल्लमाण-भुय-फलिहो,
' नमस्ते भोग-निर्मुक्त नमस्ते द्वेष-वर्जित । नमस्ते जित-सोहेन्द्र नमस्ते ज्ञान-भास्कर ॥'
- 21 इति भणंतो समुट्ठिओ सयणाओ । तओ कुवलयमाला वि 'णमो जिणाणं, णमो जिणाणं' ति भणमाणी संभम-वस-ललमाण- 21
खलंतुत्तरिज्जय-वावडा समुट्ठिया । भणिओ य णाए राया 'महाराय, किं तए एत्तियं वेळं दीहुणह-मुक्क-णीसासेणं चित्तियं
आसि' । राइणा भणियं 'किं तए लक्खियं ताव तं च्ये साहेसु, पच्छा अहं साहीहामो' ति । कुवलयमालाए भणियं ।
- 24 "महाराय, मए जाणियं जहा तह्या विजयपुरवरीए णीहरंतेण तए विणणत्ता पव्वयण-देवया जहा 'जइ भगवइ, जियंतं 24
पेच्छामि णरणाहं, रजाभिसेयं च पावेमि, पच्छा पुत्तं अभिसिंचामि, पुणो पव्वज्जं अंते गेण्हामि । ता भगवइ, देसु उत्तमं
सउणं' ति भणिय-मेत्ते सव्व-दव्व-सउणाणं उत्तमं आयवत्त-रयणं समप्पियं पुरिसेणं । तओ तुम्हेहिं भणियं 'दइए उत्तमो
- 27 पस सउणो, सव्व-संपत्ती होहिइ अम्हाणं' ति । ता सव्वं संजायं संपइ पव्वज्जा जइ घेप्पइ' ति । इमं तए चित्तियं' ति । 27
णरवइणा भणियं 'देवि, इमं च्ये मए चित्तियं' ति । अवि य ।
पुहइसार-कुमारो असिसित्तो सयल-पुहइ-रज्जमि । संपइ अहिसिंचामो संजम-रज्जमि जइ अम्हे ॥
- 30 कुवलयमालाए भणियं । 'देव, 30
जाव इमं चित्तिज्जइ अणुदियहं सूसमाण-हियएहिं । ताव वरं रइयमिणं तुरिओ धम्मस्स गइ-मग्गो ॥'
राइणा भणियं । 'देवि, जह् एवं ता मग्गामो कत्थ वि भगवंते गुरुणो जेण जहा-चित्तियं काहामो' ति भणंतो राया
- 33 समुट्ठिओ सयणाओ, कायव्वं काऊण समाढत्तो । 33

1 > J रायहोसेहिं, P मोहिय तह्या, P करीहार for करीहामो and then repeats four lines from बहुमत्ता तह्या etc. to एण्हि पुण किं करीहामो, J adds a line जह्या मेहंजुत्ता सत्ता सयलं पि आगमं गहिडं which occurs at its place below (line 4). 2 > J धितीय P वित्थिय for धिईए, J वलिया for कलिया, J दप्पिया for दप्पिया. 3 > P उज्जमियं, P तह्या उज्जमिया. 4 > P सयलंमि आगमं, P एहिं जह्या. 5 > P परद्धा परिग्गहिञ्जंति. 6 > P भंगिल्लो. 7 > P om. य, P सीस for सेस. 8 > P सइया for तइया, J पोतम्मि. 9 > P पूरियप्पाणो. 10 > P रयणाधरो त्ति पुरिसो हंतो. 11 > P संचिय, P उच्चत्ति, P अणंतंमि. 12 > P सोहियावरणो. 13 > P सामणं l. 14 > P कोइ for को वि, JP अलम्ह. 16 > J om. णिवडियताराभडो, P निपडिय, J विणिययपयावपसरो for वित्थयपयावपसरो. 17 > P राइणो. 19 > P चित्तियं भावसल्लि-ओव्वेल्लमाणुभुय. 21 > J om. णमो जिणाणं ति, P संभव, P ललमाणंतुत्तरिज्जय. 22 > J तुत्तरिज्जंतय. 23 > P रायणा, P तं विय, J साहियो त्ति. 24 > J om. महाराय मए जाणियं, J विजयपुरीए. 25 > P अभिसिंचामि, P वत्तियं for उत्तियं. 26 > P om. दव्व, P उत्तमं, P repeats उत्तमं आयवत्तरयणं, J तुम्हेहिं for तुम्हेहिं, P चइए for दइए. 27 > P होही for होहिइ, P सव्वत्तं जायं संपयं पव्वज्जा, J adds च before तए. 28 > J adds ए before देवि. 29 > P असहिसित्तो सुयलपुहरज्जमि. 31 > P चित्तिज्जंति, P गतिमग्गो. 32 > P देव for देवि, J कत्थ for कत्थवि.

- 1 § ३३३) एवं च अञ्जमणेण तस्मिं चेष दिवहे बोलीगे मञ्जणह-समण पडिणियत्तेसु सेस-समण-माहण-वणीमय- 1
किमिण-सत्थेषु भुत्त-सेस-सीयल-विरसे भाहारे जणवयस्स णिय-मदिरोवरि णिञ्जह-सुहासणत्थेण दिट्ठं साहु-संघाडयं णयरि- 2
३ रच्छा-मुहम्मि । तं च केरिसं । अवि य । 3
- उवसंत-संत-वेसं करयल-संगहिय-पत्तयं सोम्मं । जुय-मेत्त-णिमिय-दिट्ठिं वासाकप्पोठिय-सरीरं ॥
तं च साहु-संघाडयं तारिसं पेच्छिऊण रहस-वस-समूससंत-रोमं च-कंचुओ राथा अवइण्णो मंदिराओ । पयट्ठो य गयवर-गमणो 6
६ तं चेष दिसं जत्थ तं साहु-जुवलयं । तस्मिं य पयट्ठे पहाइओ सयल-सामंत-मंडल-संणिहिओ राय-लोओ सयलो य पक्कल- 6
पाइक्क-णिवहो । तओ तुरिय-तुरियं गंतूण राथा तस्मिं चेष रच्छा-मञ्जयारे तिउणं पयाहिणं काऊणं णिवडिओ चलणेसु 7
साहुणं । भणितं च पयत्तो । 8
- ९ चारित्त-णाण-दंसण-त्तव-विणय-महाबलेण जिणिऊण । गहियं जेहिं सिव-पुरं णमो णमो ताण साधूणं ॥ 9
भणमाणेण पुणो पुणो पणमिया णेण साधुणो । उच्चूओ य चूडामणि-किरण-पसरमाण-दस-दिसुज्जोविण उत्तिमंणेण बहु-भव- 10
सय-सहस्स-णिम्महणो मुणि-चलण-कम्मल-रओ त्ति । मुणिवरेहिं पि 11
- १२ सम-मित्त-सत्तु-चित्तणणेण सम-रोस-राय-गणणेहिं । विम्हय-संभम-रहियं अह भणियं धम्ममलाओ त्ति ॥ 12
भणिया य भत्ति-भरावणउत्तमंणेण राइणा भगवंतो समणा । अवि य । 13
- तव-संजम-भार-मुण्डिभरस्स सुय-विरिय-वसभ-जुत्तस्स । देह-सयडस्स कुमलं सिद्धि-पुरी-मग-नामिस्स ॥
१५ साधूहिं भणियं 'कुसलं गुरु-चलणप्पभावेण' ति । राइणा भणियं 'भगवंतो, अवि य, 15
गुरु-कम्म-सेल-वज्जं अण्णाण-महावणस्स दावणिं । किं णामं तुह गुरुणो साहिजउ अह पसाएणं ॥
साधूहिं भणियं । 'महाराया, 16
- १८ इक्खामु-वंस-जाओ पाविय-गुरु-वयण-सयल-सत्थयो । कंदप्प-दप्प-फलिहो दप्पफलिहो त्ति आयरिओ ॥ 18
राइणा भणियं । 'भगवं, किं सो अम्ह भाया रयणमउडस्स रिसिणो पुत्तो दप्पफलिहो किं वा अण्णो' त्ति । साधूहिं 19
भणियं । 'सो चेष इमो' त्ति भणिय-मेत्ते हरिम-वस-वियसमाण-लोयण-जुवलेण भणियं 'भगवं, कस्मिं ठाणे आवासिया 20
२१ गुरुणो' त्ति । तेहिं भणियं । 'अत्थि देवस्स मणोरमं णाम उज्जाणं, तत्थ गुरुणो' त्ति भणना साहुणो गंतुं पयत्ता । णरवई 21
वि उवगओ मंदिरं । साहियं च कुवलयमालाए महिदस्स जहा 'पत्तं जं पावियव्वं, सो चेष अम्ह भाया दप्पफलिहो संपत्तो 22
आयरियत्तण-कलाणो इहं पत्तो । ता उच्छाहं कुणह तस्स चलण-मूले पव्वजं काऊणं' ति । तेहिं भणियं । 'जं महाराया 23
२४ कुणइ तं अवस्सं अम्हेहिं कायव्वं' ति भणमाणा काऊण करणिजं, णिरुविऊण णिरुवणिजं, दाऊण देयं, उच्चलिया कोउय- 24
सिणेह-भत्ति-पहरिस-संवेय-पद्दा-णिव्वेय-हलहलाऊरमाण-हियवया संपत्ता मणोरमं उज्जाणं । तत्थ य दिट्ठो भगवं दप्प- 25
फलिहो, वंदिओ य रहस-पहरिस-माणसेहिं । तेणावि धम्ममलाभिया पुच्छिया य सरीर-सुह-वट्टमाणी, णिविट्ठा आयणेसु । 26
- २७ § ३३४) पुच्छियं च राइणा । 'भगवं, तइया तुमं चिंतामणि-पल्लीओ णिक्खमिऊण कत्थ गओ, कत्थ वा दिक्खा 27
गहिया, किं च णामं गुरु-जणस्स' ए पुच्छिओ भगवं साहितं पयत्तो । महाराय, तइया अहं णीहरिऊण संपत्तो भरुयच्छं 28
णयरं ति । तत्थ साहुणो अण्णेत्तिउं पयत्तो । दिट्ठो य मए भगवं महामुणी, वंदिओ मए जाव तेणाहं भणिओ 'भो भो 29
३० दप्पफलिह रायउत्त, परियाणसि ममं । मए भणियं । 'भगवं 30
पंच-महव्वय-जुत्तं ति-गुत्ति-गुत्तं तिदंढ-विरय-मणं । सिवउरि-पंधुवणसं को वा तं ण-यणए जीवो ॥'
तेण भणियं 'ण संपयं पुव्वं किं तए कहिंत्थि दिट्ठो ण व' त्ति । मए भणियं 'भगवं, ण मह हिययस्स मई अत्थि जहा मए 31
३३ दिट्ठो सि' त्ति । तओ तेण भणियं 'कण उण चिंतामणी पल्ली तुह दिण्ण' त्ति । मए भणियं 'भगवं, किं तुमं सो' त्ति । तेण 33

1 > P तस्मिं य चेष हे बोलीगे, P सेसयणमाहणवलीमयकिसिणसत्थेषु भुत्तसेसे. 2 > P निज्जहिय for णिञ्जह. 3 > P om. तं च केरिसं. 4 > P पत्तं य सोमं, P -दिट्ठी, P वासाकप्पोठिय-. 5 > J समूससंत, P अवइमो महिमंदिराओ. 6 > P adds य after जत्थ, J पयट्ठो, P मंडव for मंडल. P om. लोओ, P लो for सयलो, J पक्क for पक्कट. 9 > P संमत्त for चारित्त, P णियम for विणय, P साहुणं. 10 > P णे for second पुणो, P om. णेण, P साधुणो. P उच्चूओ य चूडामणी, P दसु for दस, J सय for अव. 11 > J om. मुणिवरेहिं पि. 12 > J चित्तणेण, P समरोसरायणणेहिं, J तह for अह. 13 > On this page the writing in J is very much rubbed, J भत्तिभरावणयुत्तमंणेण, P समाणा. 14 > J सुत्त for सुय, P तिरिय for विरिय, P देव for देह. 15 > P साधूहिं, J गुरुण चलणं, P भगवंतो. 16 > J मोह for कम्म, P वयं for वज्जं, J किण्णामं P किनामं, J अम्ह for अइ, J पसएणं. 17 > J देव for महाराया. 18 > P इयु for इक्खामु, P विणय for वयण, P -सुत्तयो, J दप्पफलिहो. 19 > P रायणा, P कि एसो, P रिसिणो दप्पपुत्तो फलिहो. 20 > P वियमाण, J जुवलेण, J om. भणियं before भगवं. 21 > P om. देवस्स, J मणोरमनामुज्जाणं, P णरवत्ती वि गओ. 22 > J adds य before जहा, P अप्पमह for अम्ह, P संपत्तायरियत्तणो इहं. 24 > P adds वि before कायव्वं. 25 > P हलहलाकरमाण, P om. य. 26 > P वंदिओ य रहसिमाणसेहिं तेहिं वि धम्ममलाहिया, P सरीर for सरीस, J वट्टमाणी णिविट्ठा, J णिविट्ठामासणेमु. 27 > P om. भगवं, J चिंतामणी. 28 > P किंत्थि णामं, J गुरुअणस्स, P om. ए, P तीहारिऊण. 29 > P om. नि, J inter. भगवं & महामुणी, J adds य before मए. 31 > J तिडणड. 32 > J हियसम्मत्ती, P मती. 33 > P om. मए भणियं भगवं किं etc. to आमं ति ।

१ अश्विनं 'जामं' ति । मए भणियं 'भगवं, तए मह रज्जं विण्णं' । तेण भणियं 'भासि' । मए भणियं 'जह एवं ता भगवं १
रयणं रायरिसि-संपयं पि देसु मे संजम-रज्जं' ति । तेण भणियं । 'जह एवं ता कीस बिलंबणं करेसि' ति भणंतएण तरस ३
३ कयं मए पंच-मुट्टियं लोयं । भगवया वि कयं मज्झ सव्वं कायव्वं । तओ जहारिहं अज्जावयंतेण सिक्खाविओ सव्वलं ३
पवयणसारं । णिक्खित्तो गच्छो, विहरिउं पयत्तो । भगवं ति-रयणयरणहिओ विहरमाणो संपत्तो भयोज्जाए । तथ य ३
णिक्खंतो तुज्जं जणओ महाराया दवम्म-रिसी । सो य भगवं मासक्खवणेहिं पारयंतो कम्मक्खयं काउमाहत्तो । तओ तं ६
६ च एरिसं जाणिऊण गुरुण णिक्खित्तो अहं गच्छ-आरो । एवं च काऊण वेत्तण दवम्म-रिसिं सव्वेय-सेल-सिहरे ६
वंदण-वत्तियाए संपत्तो । तथ य जाणिऊण अप्पणो कालं, कयं संलेहणा-पुव्वयं कालमासे अउव्वयं करणं खवग-सेटीए ६
केवल-णाणं आउक्खयं च । तओ अंतगह-वेवली जाया भगवंते दो वि मुण्णिद-वसहे ति ।

९ § ३३५) एवं च सोऊण कुबलयवंदप्पमुहा सव्वे वि हरिस-वस-संपत्ता णरिंदा । तओ भगवया भणियं । 'सावग, ९
सो खिय एको पुरिसो सो खिय राया जयमिं सयलमिं । हंतूण मोहणिजं सिद्धिपुरी पाविया जेण ॥'
भणियं च सव्वेहिं । 'भगवं, एवं एयं ण एथ संदेहो । ता कुणह पसायं, अहं पि उत्तारेसु इमाओ महाभव-समुदाओ'
१२ ति । भगवया वि पडिवण्णं । 'एवं होउ' ति भणमाणस्स भगवओ राह्णा ओयारियाहं आभरणहं महिंदप्पमुहेहिं कुबलय- १२
माहाए वि अणेय-णारीयणेण परियालियाए । पवयण-भणिय-विहाणेण य णिक्खंता सव्वे वि । समप्पिआ य कुबलयमाहा १२
पवत्तिणीए । तथ जहा-सुहं आगमाणुसारेण संजमं काऊण संपुण्णे णिय-आउए संपत्ता सोहम्मं कप्पं दु-सागरोवमट्टिईओ १२
१५ देवो जाओ ति । कुबलयचंद-साधू वि गुरुवएसे वट्टमाणो बहुयं पाव-कम्मं खविऊण कालेण य णमोक्कारमारहिऊण १५
वेरुलिय-विमाणे दु-सागरोवम-ट्टिईओ देवो उववण्णो ति । सीहो उण पढमं अणसणं काऊण विंझाडईए संपत्तो तं चेव १५
विमाण-वर-रयणे ति । सो वि भगवं ओहिण्णाणी सागरदत्त-मुणी संबोहिऊण सव्वे पुव्व-संगए काले य कालं काऊण १५
१८ देवत्तण-बद्ध-णाम-गोत्तो तम्मिं चेव विमाणमिं समुप्पणो ति । अहं पुहईसारो वि कं पि कालंवरं रज्जं काऊण पच्छा १८
उप्पण-पुत्त-रयणो संठाविय-मणोरहाह्व-रज्जाभिसेओ संभंतो संसार-महारक्खसस्स णाऊण असारत्तणं भोगाणं सो वि १८
गुरुणं पाय-मूले दिक्खं वेत्तण पुणो कय-सामण्णो तम्मिं चेव विमाणे समुप्पणो ति । एवं च ते कय-पुण्णा तम्मिं १८
२१ वर-वेरुलिय-विमाणोय-उववण्णा अवरोप्परं जाणिऊण कय-संक्या पुणो गेह-णिम्बर-हियया अंपिउं पयत्ता । 'ओ सुरवरा, २१
णिसुणेह सुभासियं ।

जर-मरण-रोग-रय-मल-किलेय-बहुलमिं णवर संपारे । कत्तो अणं सरणं एक्कं मोत्तूण जिण-वयणं ॥
२४ तिरिय-णर-दणुय-देवाण होति जे सामिणो कह वि जीवा । जिण-वयण-भवण-रूवाण कं पि पुव्वं कयं तंहिं ॥ २४
जं किं पि कह वि कस्स वि कथं वि सोक्खं जणस्स भुवणमिं । तं जिण-वयण-जलामय-णिसिंत्त-रूक्खस्स कुसुमं तु ॥ यच्चहा, २४
किं सोक्खं सम्मत्तं किं य दुहं होइ मिच्छ-भावो ति । किं सुह-दुक्खं लोए सम्मामिच्छत्त-भावेण ॥
२७ सम्मत्तं सग्ग-समं मिच्छत्तं होइ णरय-सारिच्छं । माणुय-लोय-सरिच्छो सम्मंमिच्छत्त-भावो उ ॥ २७
सम्मत्तं उड्ड-गई अहर-गई होइ मिच्छ-भावेण । तिरिय-गई उण लोए सम्मामिच्छत्त-भावेण ॥
सम्मत्तं अमय-समं मिच्छत्तं कालऊढ-विस-सरिसं । अमय-विस-मीसियं पिव मण्णे उभयं तु लोगस्स ॥
३० सम्मत्तं जय-सारो मिच्छत्तं होइ तिहुयण-असारो । सारासार-सरिच्छो सम्मामिच्छत्त-भावो उ ॥ ३०
जं जं जयमिं सारं तं तं जाणेषु सम्म-पुव्वं तु । जं जं जए असारं तं तं मिच्छत्त-पुव्वं तु ॥

एरिसं च तं जाणिऊण भो भो देवाणुपिया, अणुमण्णह जं अहं भणिसं ति । तओ सव्वेहिं वि भणियं 'को वा ३३
अहं ण-याणहं जं सव्वं सम्मत्त-पुव्वयं ति । एवं टिए किं भणियव्वं तं भगह तुव्वे' ति । तेण भणियं 'एत्थियं भणियव्वं ३३

१) P रिज्जं for रज्जं, J om. जह, P तं for ता. २) J रयणंगयरीसी संपयं, P करिसि. ३) J मम for मज्झ, J om. कायव्वं. ४) P पयत्तो । रयणंगणरयणाहिओ, P अउज्जाए. ५) J तुव्वं or तुव्वं for तुव्वं, P गहाय for महाराया, JP दव-धम्मरिसी, J मासव्वमणेहिं, J तव for तं. ६) P णिक्खिवअहं गच्छअरो, JP दवधम्मरिसि, P संसेलसेलसिहरे वंदण- ७) P om. कयं, J अउव्वं. ८) J -भगवंतो, JP वसहे ति. ९) J विसण्णा for वससंपत्ता, J देव for सावग. १०) P सेक्को for एको, P जलमिं for जयमिं, P मोहरज्जं, P पावया. ११) P कुणह पिसायं, P om. अ. १२) J om. वि, P ओयारियाओ आहरणह. १३) P वियणेणारीयणपूरियालियाए, J -णारित्तणेण, P यणिक्वित्ता, P om. वि. १४) J एथ for तथ, J य for णिय, J *ठिठीओ P ट्टिठी. १५) P साधू, P बहुपाव, J काले य. १६) J वेरुलिया, J दुसगरोवमट्टिठीओ उववण्णे P दुसागर-ट्टिईओ, P उण सणं काऊण. १७) P ओहिण्णाणी. १८) P देवत्तवद्ध, P चेय विमाणे, P अहं for अह. १९) J -रज्जाभिओ, जाणिऊण for णाऊण. २०) J पणो for पुणो, J कयसंपुण्णा P कयपुत्रो. २१) P विमाणायरे उववायरे उण्णा, P पुणो णिय P गेहम्बर. २२) P सुभासियं, J adds अवि य before जरमरण etc. २३) P किमल for मल, J om. एक्कं, J जिणिदवर for जिण. २४) P निरिनरदणमुदेवाण, J होति जा सामिणो, P adds रूव before रूवाण. २५) P om. कथं वि, P सोक्खं तु जणस्स होइ भुवणमिं, P मूलं for कुसुमं. २६) P होति. २७) P om. the verse सम्मत्तं सग्गसमं etc. to भावो उ ॥, J तु for उ. २८) P inter. verses सम्मत्तं उड्डगई etc. & सम्मत्तं अमयसमं etc., P उड्डगती, P तिरियगती. २९) J विसमीसियं, J पि for तु. ३०) P adds जय before होइ, P होइ संसारे । सोरासार, J तु for उ. ३१) P om. तु, J ण सारं for असारं. ३२) P adds इमं च before एरिसं, P om. च तं, P om. one ओ, J देवाणुपिया, P भविसं ति, om. तओ सव्वेहिं वि भणियं. ३३) P om. भणियव्वं तं.

1 जं दुत्तारो संसार-सागरो, विसमा कम्म-गई, अणिच्चं जीवियं, भंगुरो विसय-संगो, चंचला इंदिय-तुरंगा, अंधण-सरिसं 1
वेर्यं, उम्मायणो मयण-बाण-पसरं, मोहणं मोहणीय-कम्म-महापडलं ति । ता तुलग-पावियं पि सम्मत्त-रयणं एत्थ 2
3 महोयहि-समे संसारे अक्खिप्पइ महाराय-मच्छेहिं, उल्लुरिजइ महारोस-जल-भाणुसेहिं, पदहत्थिजइ महामाया-कम- 3
टीए, गिलिजइ महामोह-मयरेणं ति । तओ इमं च जाणिऊण पुणो वि सयल-सुरासुर-णर-तिरिय-सिद्धि-सुह-लंभ-कारणे 4
अगावंताणं वयणे आयरं कुणह पावियब्बे । तेहिं भणियं 'कहं पुण पावियब्बं' ति । तेण भणियं 'पुणो वि रोण्हइ समायाणं 5
6 जहा जत्थुप्पण्णा तत्थ तुम्हाण मज्झे केण वि अइसय-णाणिणा सब्बे संबोहणीया जिणधम्मं' ति । तेहि वि 'तह' ति 6
पडिक्खणं । तं च तारिसं समायाणं काऊण वीसत्था भोए भुंजिउं समाठत्ता ।

§ ३३६) एवं च भुंजताणं भोए वच्चइ कालो जाव भुत्ताइ दोणिण सागरोवमाइ किंचि-सेसाइ । इमम्मि य जंबुदीवे 7
9 दाहिण-भरहे बोलीणेसु तिसु कालेसु किंचि-सेसे चउत्थे काले सिद्धिं गणुसु इहाव-पिणी-वट्टमाणेसु उसभाइसु पास- 9
जिण-वरिमेसु तित्थंकरेसु समुप्पणे तिलोय-सरोय-र-महापंकए व्व महावीर-जिणिंदे ति । एरिसे य अवसरं रो कुवलय- 10
चंद-देवो णिय-आउयं पालिऊण देव-लोगाओ चुओ समाणो कत्थ उववण्णो । अवि य । अत्थि कायंदी णाम णयरी । सा य 11
12 केरिसा । अवि य । 12

तुंगहालय-तोरण-मंदिर-पुर-गोउरेहिं परियरिया । तिय-चच्चर-सुविभत्ता जण-धण-मणि-कंचण-विच्चिता ॥

तम्मि य महाणयरीए कंचणरहो णाम राया ।

16 रिउ-कुंजराण सीहो जो य रवी भित्त-पंकय-वणस्स । पणइ-कुमुयाण चंदो वासारत्तो व्व धरणियले ॥ 15
तस्स य महिलाए इंदीवर-णामाए सुपुत्तो मणिरहो णाम समुप्पण्णो । सो य संवट्ठिओ बहुएहिं मणोरहसएहिं परिवट्ठ- 16
माणस्स कहं कहं पि तारुव-कम्मोदणं पारद्धि-वसणं समुप्पणं । तओ दियहं राइए य अवीसंतो आहेडयं वच्चइ 17
18 पडिसेहिजंतो वि गुरुयणेणं, णिदिजंतो वि वयंमएहिं, णिरुजंतो वि मंतियणेणं, वारिजंतो वि परियणेणं ति । अणया 18
य तस्स तम्मि अवसरं पारद्धिं अरणं पविट्ठस्स को वुत्तंती जाओ । अवि य ।

णर-सुर-दइच्च-महिओ थुव्वंतो थुइ-सुहासिय-सएहिं । उप्पण-णाण-सारो पत्तो वीरो तिलोय-गुरू ॥

21 तस्स य भगवओ महइ-महावीर-वट्टमाण-जिणयंदस्स विचित्ते पएसे विरइयं देवेहिं मणि-सुवण-रयय-पायार-तियं, ठावियं 21
दिव्वं वियड-दाहा-कराल-वयण-सीहाहिट्टियं आसण-रयणं, णिम्मविओ मउय-सिसिर-सुरहि-पवण-चलमाण-साहा-समूह-पेरंत- 22
णव-वियमिय-सुरहि-कुसुम-गोच्छ-रिंछो-लि-णिलीण-महु-मत्त-भमर-रणणाबद्ध-संगीय-मणहरो रत्तासोय-पायवो । तस्स य 23
24 अथे णिविट्ठो भगवं सुरासुर-णरिंद-वेदिय-चलण-जुयलो संमार-महोवहि-णिमज्जमाण-जंतु-सहस्स-हत्थावलंबण-दाण-दुल्लिओ 24
महावीरो । तत्थ य इंदभूइप्पमुहाणं एगारसणं महामइणं गणहर-देवाणं सोधम्म-णाहस्स महिंदस्स य अणणां च भवण- 25
वइ-वाणमंतर-जोइस-विमाण-वाभीणं सुराणं कंचणरहस्स य राइणो सपरियणस्स सम्मत्त-मूलं भव-भय-विणासणं दुविहं 26
27 धम्मं साहिउं पयत्तो । अवि य । 27

णारय-तिरिय-णरामर-भव-सय-संवाह-दुग्गम-दुरंने । संसार-महा-जलहिम्मि णत्थि सरणं सिवाहित्तो ॥

सम्मत्त-णाण-दंसण-तिएण एएण लब्भए मोक्खो । जीवस्स गुणा एए ण य दव्वं होइ सम्मतो ॥

30 सम्मं भावो सम्मं जहुजुयं णत्थि किंचि विवरीयं । धम्माधम्मागासा-पोगाल-जीवेसु जो भणिओ ॥ अहवा । 30
जीवाजीवा आसव-संवर तह बंध-णिज्जरा मोक्खो । एयाइ भावेण भावेंतो होइ सम्मत्ते ॥ अहवा ।
जं चिय जिणेहिं भणियं पडिहय-मय-दोस-मोह-पपरैहिं । तं सब्बं सब्बं चिय इय-भावो होइ सम्मत्तं ॥

33 अरहा जाणइ सब्बं अरहा सब्बं पि पासइ समक्खं । अरहा भासइ सब्बं अरहा बंधू तिहुयणस्स ॥ 33

1) P कमगती. 2) P मोहणीय, P ति for पि, P adds ति before एत्थ. 3) P -समें संसारि, P महारायकमडिणा.
5) J समायारं जहा जत्थु. 6) P जं हो for जहा, P य for वि, J अतिसय, P om. जिणधम्मं ति, J तेहि मि तह. 7) J om. तारिसं.
8) P यच्चएइ, P किंच, P इमं पि य जंबुदीवे. 9) P किंचसेसे, P सिद्धि, P इहावगोसपिणीए, P उसभाइपास-
जिणवट्टेसु तित्थंकरेसु. 10) P इव for व्व, P कुवलयवेदो णिय-. 11) J देवलोआओ. 13) J गोउरेहिं, P सुविहत्ताजण-
धणिमणि. 14) J कणरहो for कंचणरहो. 15) P रत्तो व धरणियले ॥ 16) J णामाए पुत्तो रयणरहो णामो,
P संवट्ठिओ. 17) P णे for रूव, J adds से before समुप्पणं, P रातीए, J वीसंतो P अविसंतो. 18) P गुरुतरेणं,
P निरुंभणो for णिरुजंतो, P om. वारिजंतो वि परियणेणं. 19) J अणया, J inter. तस्स & तम्मि, P पारद्धिए रणे. 21) P om. य after तस्स, J वच्चमाण, J रयत P रइय, J तिसं for तियं. 22) J -सिहाहिट्टियं, P णिमिओ for णिम्मविओ.
23) P -निलीणमरणणावत्तसंगीय. 24) P अधि for अथे, P om. णरिंद, P महो for महोवहि, P जंतुहत्थावलंबण. 25) P तस्स for तत्थ य, JP इंदभूनि, P महामंतीणं गणं, P सोहमनाहरस, J om. च. 26) J जोनिम, P वासीसुराणं. 27) P adds जिणे before धम्मं. 28) P दुग्गदुरंते, P जिणं मोजुं for सिवाहित्तो. 29) P तिणएतेण, P एतेण दिव्वं होत्ति सम्मत्तं.
30) P जहुजुइसं for जहुजुयं, P inter. णत्थि & किंचि, P धम्माभासा, J सो for जो. 31) J जीवासव, P भावें च तो अह होइ सम्मत्तं.
32) P भणियं हयरागदोस, P adds, after होइ सम्मत्तं ॥, अरहा जाणइ सब्बं सब्बं चिय इय भावो होइ संमत्तं ।
33) P जाणं for सब्बं before पि.

- 1 अरहा भासइ धम्मं अरहा धम्मस्स जाणए मेयं । अरहा जियाण सरणं अरहा बंधं पि मोएइ ॥ 1
अरहा तिलोय-पुजो अरहा तिर्यं करो सुधम्मस्स । अरहा सयं पबुद्धो अरिहा पुरिसोत्तमो लोए ॥
- 3 अरहा लोय-पदीवो अरहा चक्खु जयस सब्बस्स । अरहा तिण्णे लोए अरहा मोक्खं परूवेइ ॥ 3
इय अत्थि अरहंते कुण्ह पसंसं च भाव-गुण-कलिओ । साहूण भत्तिमंतो इय सम्मत्तं मए भवियं ॥
तं जिण-वयण-रसायण-पाण-विबुद्धस्स होइ एकं तु । दुइयं पुण सहस चिय कम्मोवसमेण पुरिस्सत्त ॥
- 6 एवं तिलोय-सारं एयं पढमं जयमि धम्मस्स । एएण होइ मोक्खो सम्मत्तं दुल्लहं एयं ॥ 6
§ ३३७) एवं च तिलोय-गुरुणा साहिए सम्मत्ते जाणमाणेणावि अबुह-बोहणत्थं भगवया इंदभूइण गणहमिण्ण
भावइ-करयलंजलिउडेण भणियं 'भगवं, इमं पुण सम्मत्त-रयणं समुपपणं भावओ कस्सइ जीवस्स कहं ण्णइ जहा एस
9 सम्महिटी जीवो' त्ति । भगवया भणियं । 9
उवसम-संवेगो खिय णिव्वेओ तह य होइ अणुकंपा । अत्थित्त-भाव-सहियं सम्मत्ते लक्खणं होइ ॥ अहवा,
मेत्ती-पमोव-कारुणं मज्झत्थं च चउत्थयं । सत्त-गुणवंत-दीणे अविणए होति सम्मं ॥
- 12 खामेमि सच्च-सत्ते सव्वे सत्ता खमंतु मे । मेत्ती मे सव्व-भूएसु वेरं मज्झ ण केणइ ॥ 12
सम्मत्त-णाण-दंसण-उत्ते साधुमि होइ जो पुरिसो । ठिइ-वंवण-विणयादी करेइ सो होइइ पमोवो ॥
संसार-दुक्ख-तविए दीणाणाहे किलिस्समाणमि । हा हा धम्म-विहीणा कह जीवा खिज्जिरे करुणा ॥
- 15 दुट्टाण मोह-पंककियाण गुरु-देव-जिंदण-रयाण । जीवाण उवेक्खा एरिसाण उवरिम्मि मज्झत्थं ॥ 15
अहवा वि जय-सभावो काय-सभावो य भाविओ जेण । संवेगो जेण तवे वेरगं चैय संसारे ॥
सम्भं जयं अणिसं गिस्सारं दुक्खहेउ असुहं च । अह तम्हा णिव्वेओ धम्ममि य जायरो होइ ॥
- 18 वेरगं पुण गिययं सरीर-भोगेसु उवहि-विसएसु । जाणिय-परमत्थ-पमो णत्रि रज्जइ धम्मिओ होइ ॥ 18
एएहिं लक्खणेहिं णज्जइ अह अत्थि जस्स सम्मत्तं । उवसम-विराग-रहियं णज्जइ तह तस्स सम्मत्तं ॥
§ ३३८) एवं च सुरासुरिंद-गुरुणा साहिए सम्मत्त-लक्खणे भणियं गोयम-सामिणा 'भगवं, इमं पुण सम्मत्त-महा-
21 चिंतामणि-रयणं केण दोसेण दूसियं होइ, जेण तं दोसं दूरेण परिहरामो' त्ति । भगवया भवियं । 21
दीहाऊ गोयम इंदभूइ अह पुच्छियं तए साहु । सम्मत्तं रयण-समं दूसिज्जइ जेण तं सुणसु ॥
संका-कंवा-विइमिच्छा होइ चउत्थं च कुसमय-पसंसा । पासंडियाण संथव पंच इमे दूसेण-कराइं ॥
- 24 जीवादीए पयत्थे जाणइ जिण-वयण-णयण-विट्ठिलो । किं होज्ज इमं अहवा ण व त्ति जो संकए संका ॥ 24
कंखइ भोए अहवा वि कुसुमए कह वि मोह-हय-चित्तो । आकंखइ मिच्छत्तं जो पुरिसो तस्स सा कंखा ॥
एत्थं पि अत्थि धम्मो एत्थ वि धम्मस्स साहिओ मग्गो । एवं जो कुमइ मणं सा विइकिच्छा इहं भणिया ॥
- 27 इह विजा-मंत-बलं पक्खलं जोग-भोग-फल-सारं । एयं चिय सुंदरयं पर-तित्थिय-संथवो भणियो ॥ 27
एए णिउणा अह मंतिणो य धम्मपरा तवस्सी य । पर-तित्थ-समणयाणं पासंडाणं पसंसा तु ॥
जह खीर-खंड-भरिओ उडओ केणावि मोह-सूढेण । मेलिज्जइ णिब-रसेण असुइणा अह व केणावि ॥
- 30 एत्तं सम्मत्तामय-भरिओ जीवाण चित्त-वडओ वि । मिच्छत्त-वियपेणं दूसिज्जइ असुइ-सरिसेणं ॥ 30
तम्हा भणामि 'तुम्हे पडिवज्जह सम्मत्तं, अणुमण्ह सुय-रयणं, भावेह संसार-दुक्खं, पणमह जिणवरे, दुक्खेह साहुणो,
भावेह भावणं, खामेसु जीवे, बहु मण्ह तवस्सिणो, अणुकंपह दुक्खिए, उवेक्खइ हुट्टे, अणुगेण्ह विणीए, वियारेह
33 पोगाल-परिणामे, पसंसह उवसमे, संजणेह संवेगं, णिव्विज्जइ संसारे, परूवेह अत्थिवायं, मा कुण्ह संकं, अहमण्ह 33

1 > P जाणई मेयं, J जिणाण for जियाण, P म्बरणं for सरणं, P वद्धे विमोएइ. 2 > P तिलोय, J सुबुद्धो for पबुद्धो, P adds पुरिहा before पुरिसो', P पुरिसोत्तमो. 3 > J लोयपदीवो, P तिसो for तिणो, P पदीवेइ ॥ 4 > J भत्तिवतो. 5 > दुतियं. 6 > J परमं for पढमं. 7 > J इंदभूतिमगं. 8 > J adds च after भणियं, JP भावतो. 10 > JP चिय, J अत्थेत्तिभाव, P समत्ति for सम्मत्ते. 11 > J पमोत, P मज्झत्थयं च चरययं, P संनगुणवंतदीवणयं तह विणए होति, J खिज्जिणए, P समं P सम्मं तु. 13 > P साहुमि, P जो हरिसो, J थिति P ठिति, J विणयाती, J सो हेइति पमोतो, P adds त्ति after पमोओ. 14 > P दीणाणाहे, J कीलेसभावमि, P जीवो किज्जरे. 15 > P दुट्टाण for दुट्टाण, P उवेक्खा. 16 > J जय सभावो P मणसम्भावो, P कायसभावो, J संवेओ, J भवे for तवे, P चे for चैय. 17 > J तम्हा for तम्हा, P होइति for होइ. 18 > J repeats वेरगं, P नियरं for गिययं. 19 > P कह for तह. 20 > J गोतम, P सम्म for सम्मत्त. 21 > J om. चिंतामणि, P दूसेण. 22 > P दीहाओ, J गोतम, JP इंदभूति, P पुच्छिउं, P सुणेसु. 23 > JP वित्तिमिच्छा, P थेवं for संथव. 24 > J जीवादीए अत्थे जाणमि, P जीवादीण, P om. णयण, J संकते. 25 > J कंठति P कंठति, J अधवा, P कुसमये, J कहवि लोहमोहइदियचित्तो । आकंखति, मीछत्तं, P सो for सा. 26 > JP वित्तिमिच्छा, P इमं for इहं. 27 > J बल for फल, P तित्थं for तित्थिय. 28 > P एते, P अभि for अह, J अह संतिणो पारम्परा, P ओ for तु. 29 > P inter. खंड & खीर, [कुडओ or वडओ for उडओ]. 30 > J मयसरिओ जीआण, P चित्तवडिओ, P वियपे जीवेणं दूसिज्जइ. 31 > J तुम्हे for तुम्हे. 32 > J om. उवेक्खइ हुट्टे, P अणुगेण्ह. 33 > P सवेगं, J अत्थिवातं.

- १ कलं, विगिच्छेह विगिच्छेह, पमाएह कुसमव-पसंसं । 1
- सम्भक्त-सार-रहिष् मा सज्जह उतुणे पर-कुत्तिये । मिच्छत्त-वदणं भो होइ कयं अलिय-वयणं च ति ॥ तम्हा, 1
- जइ सुकमह पायाले पण्हएज्जह गिरिस्स टंकम्मि । जइ छिज्जह कह वि सिरं मा मुंचह तह वि जिणवयणं ॥ ति । 3
- § ३३९) एयं दंसण-रचणं जाणं पुण सुणसु जं मए भणियं । एकारसंग-ओहस-पुवं अत्यं च वित्थरियं ॥
एकम्मि वि जम्मि पदे संवेयं कुणइ वीयराम-मए । तं तस्स होइ जाणं जेण विरामत्तणमुवेइ ॥
- ६ किं बहुणा वि सुएणं किं वा बहुणा वि एत्थ पडिपणं । एकम्मि वि वटंता पयम्मि बहुए गया सिद्धिं ॥ 6
- तम्हा करेसु जचं दंसण-चरणेसु सव्व-भावेणं । दंसण-चरणेहिं विणा ण सिज्जरे णाण-सहिवा वि ॥
- § ३४०) णाजेण होइ किरिया किरिया कीरइ परस्स उवएसो । चारिसे कुणह मणं तं पंच-महव्वए होइ ॥
- ९ पाण्डिहहलिय-वयणं अडिण्णदाणं च मेहुणं वेय । होइ परिग्गह-सहियं एएसु य संजमो चरणं ॥ 9
- एयाइ पावयाइं परिवज्जंतो करेसु विरइं तु । इह परलोए दुह-कारयाइं वीरेण भणियाइं ॥
- जो हिंसओ जिघाणं णिचं उव्वेय-कारओ पावो । असुहो वेरावंधो वेरेण ण मुचइ कया वि ॥
- १२ णिदिज्जइ सव्व-जणे वह-बंधं घाय-दुक्ख-मरणं वा । पावइ इहं चिय णरो पर-लोए पावए णरयं ॥ 12
- सव्वं च इमं दुक्खं जं मारिज्जइ जिओ उ रसमाणो । जह अप्पा तह य परो इच्छइ सोक्खं ण उण दुक्खं ॥
- जह मम ण पियं दुक्खं सोक्खत्थी जह अहं सजीयस्स । एमेव परो वि जिओ तम्हा जीवाण कुण अनयं ॥
- १५ § ३४१) एवं च साहिए भगवया तित्थयरेण पुच्छियं गणहर-देवेण 'भगवं, कहं पुण हिंसा भण्णइ' । 15
- भगवया भणियं ।
- जीवो अणादि-णिहणो सो कह मारिज्जए जणेण इहं । देहंतर-संकमणं कीरइ जएं णाम तस्सेय ॥
- १८ एक्के भणंति एवं अण्णे उण वाइणो जहा सुहुमो । ण य सो केणइ जीवो मारिज्जइ णेय सो मरइ ॥ 18
- अण्णे भणंति पुरिसा सव्व-गओ एस तस्स कह घाओ । अण्णे पुण पडिबण्णा अणुमेत्तो केण सो वहिओ ॥
- अवरे भणंति एवं उट्ठु-गाईं किर जिओ सभावेण । अच्छइ देह-णिवज्जो जो मोयइ चम्मिओ सो हु ॥
- २१ अवरे भणंति कुमइच्छुदो अह एस अच्छइ वराओ । अह जोमि-विप्पमुक्को वच्चउ सुगइंसु भावेओ ॥ 21
- अण्णे भणंति मूढा पुराण-घरयाउ पइसइ णवम्मि । को तस्स होइ पीडा देहंतर-संकमे भणसु ॥
- अण्णे भणंति पुरिसा एएणं मारिओ अहं पुट्ठिं । तेण मए मारिज्जइ विज्जइ तस्सेय जो देइ ॥
- २४ अवरे विहियं ति इमं इमस्स जायस्स मरण-जम्मं वा । तं होज अवसयं चिय मिस-मेत्तो मज्ज अवराहो ॥ 24
- अवरे भणंति विहिणा एतो अह पेसिओ महं बज्जो । तस्सेव होउ पुण्णं पावं वा मज्ज किं एत्थ ॥
- अण्णे पुण पडिबण्णा कम्म-वसो कम्म-ओइओ जीवो । कम्मेणं मारिज्जइ मारेइ य कम्म-परयत्तो ॥
- २७ इय एवमाइ-अण्णाण-वाइणो जं भणंति समएसुं । तं सव्वं अलियं चिय जीव-वहे होति दोसाइं ॥ 27
- जीवो अणाइ-णिहणो सचं देहंतरम्मि संकमइ । देहाओ से ण सुहं विउणए होइ दुक्खं से ॥
- उसाम-इंदियाइं अडिभतर-बाहिरा इमे पाणा । ताणं विओय-करणं पमत्त-ओएण सा हिंसा ॥
- ३० अह तेहिं विउज्जंतस्स तस्स जीवस्स दुत्तसहं दुक्खं । जं उप्पज्जइ देहे अइ पावो तस्स सो भणिओ ॥ 30
- तिल-तेह्णान परोप्परमणुगाथ-सरिस्सस्स जीव-देहस्स । दुक्खं ताण विओओ कीरइ जो कुणइ सो पावो ॥ चि ।
- एवं च साहिए सुरासुर-गुरुणा पुच्छियं भगवया गोयम-सामिणा 'भगवं, इमं पुण पाणाइवाय-वेरमणं महावच-रयणं
- ३३ केरिसेण चुरिसेण रक्खिउं तीरइ' ति । भगवया भणियं । 33

१ > P विगिच्छेह, J विगिच्छं, P कुमुय. २ > J सामर्थं व for मा सज्जह, J परकुडिच्छे ।, P सो for भो, P कयं for कयं, P om. तम्हा. ३ > P पायालो, J पण्हएज्जह, P कहं वि. ४ > J पुण भणसु, P पुच्छे for पुवं, J अणं for अत्यं. ५ > P एकम्मि जो पयंसी संवेयं, J वीतरामते P वीयमए, J ता for तं, J जेण for जेण. ६ > J om. वि before एत्थ. ७ > P करेसु जुत्तं, P चरणेणसु, J दंसणचरणेसु विणा. ८ > J om. one किरिया, P कीरस्सइ, P उवएसो. १० > JP एताइं, P पडिबज्जंतो, J ति for तु, P दुह काइं वीरेण, J वीरेहिं. ११ > J णहिमओ for हिंसओ, P उव्वियकारणो, J अमहो रोदावंधो, J कयाइ ॥ १२ > J adds ण before वहबंधं, J वहबंधघाय, J णरओ for णरयं. १३ > J जयंमि for उ, P वि for य, J सोक्खे. १४ > J अक्खयं, १५ > P तित्थंकरेण, J गणघर-, P inter. कहं & पुण. १७ > P अणाइ-, P सो किर माणिज्जए जणिण इहं, J जाण माण for जए णाम, P जय for जय. १८ > J पुण for उण, P वाइणा, P कखेण वि for केणइ, P adds चि after मरइ. १९ > P को for कह, P अवरे उण for अण्णे पुण, J अणुमेत्ता. २० > P एयं उट्ठुगती, P सहावेण, P जो मायाइ, P साहू for सो हु. २१ > J कुगईं, J विप्पवुत्तो, P मुचइ for वच्चउ, P सुगइं सुयावेयो. २३ > P पुवं, P om. दिज्जइ, P वेइ for देइ. २४ > J जीवस्स for जायस्स, J होइ for होज. २५ > J तस्सेय P तस्सव, P जोओ for होउ. २६ > P उण for पुण, P पडिबज्जो, P परियत्तो. २७ > J एवमाति अण्णाणवातिणो, P अण्णाणवाणो भणंति, P होइ for होति. २८ > J संभमइ for संकमइ, P सो ण य अहं J सो ण सुहं for से ण सुहं (emended). २९ > P इंदियाइं भवति अडिभतरा इमे, J भवे for इमे, P ताओ for ताणं, J अमत्तजोएण. ३० > P om. तस्स. ३१ > P तिह्वेह्णान, J सरिस्स जिअस्स देहस्स, P जं for जो. ३२ > P पुच्छिउं, J गोतम-, P गोयमगण-हारिणा, J पाणातिवातविरमण महावयणरयणं, P पाणातिपात, P महावइरयणं. ३३ > J om. पुरिसेण.

- 1 इरिया-मण-समिद्धो एसण-पडिलेह तह य आलोयं । पढमस्स वयस्स इमा समिद्धो पंच विण्णेया ॥ 1
जुगमेत्त-दिण्ण-विट्ठी जंतु-परिहरण-विण्ण-णयण-मणो । आवासयम्मि वच्चइ इरिया-समिद्धो हु सो पुरिसो ॥
- 3 तव-णियम-सील-रक्खे भजंतं उपपहेण वच्चंतं । णाणंकुसेण संभइ मण-हत्थि होइ मण-समिद्धो ॥ 3
असणं पाणं वत्थं व पत्तयं संजमम्मि जं जोगमं । एसंतो सुत्तेणं मग्गइ जो एसणा-समिद्धो ॥
सेज्जा-संधारं वा अणणं वा किंचि दब्ब-जायं तु । गेणहइ जइ वा मुंचइ पडिलेहेउं पमज्जेउं ॥
- 6 गहियं पि जं पि भत्तं पाणं वा भोयणस्स कालम्मि । आलोइऊण मुंजइ गुरुणो वा तं णिवेपइ ॥ 6
एयाहिं पंच-समिद्धिं समियओ जो भये कह वि साधू । सो सुहुम-जंतु-रक्खं कुणमाणो संजओ भणियो ॥
पाणाइवाय-विरमणमह पढमं इह महव्वयं भणियं । संपइ भण्णइ एयं मुम-वयण-णियत्तं विइयं ॥
- 9 § ३४२) असवाय-कवलियं मि उ अलियं वयणं ति होइ मुसवाओ । तच्चिरमणं णिवत्ती होइ मुसावाय-विरइ त्ति ॥ 9
अलियं जो भणइ णरो णिंदिय-अहमो इहं दुसद्धेओ । अह चप्फलो त्ति एसो हीलिजइ सब्ब-लोएण ॥
दुक्खेहिं ठवेइ जिए अब्भक्खाणोहिं अलिय-वयणेहिं । ताणं पि सो ण चुक्कइ पुब्बं अह बंध-वेराण ॥
- 12 मारण-लुंण-दुक्खे पावइ जीहाणं छेयणं लोए । मरिऊण पुणो वच्चइ णरए अह दुक्ख-पउरम्मि ॥ 12
जं मज्झ इमं दुक्खं अलिय-अभक्खाण-पडिवयस्स भवे । तह एयस्स वि तग्हा कुणह णियत्तिं तु अलियस्स ॥
एवं परुविए तिहुयण-गुरुणा पुच्छियं गोयम-गणहारिणा 'भगवं, केरिसं पुण अलिय-वयणं होइ' त्ति । भगवया भणियं ।
- 15 सब्भाव-पडीसेहो अत्थंतर-भासणं तहा णिंदा । एयं ति-मेय-भिण्णं अलियं वयणं मुणेयव्वं ॥ 15
सब्भाव-पडीसेहो आया णत्थि त्ति णत्थि पर-लोओ । अब्भुय-भणणं आया तंदुल्लयं गुट्टमेत्तो वा ॥
जो हत्थि भणइ खरं एसो अत्थंतरो उ अलियस्स । पेसुण्ण-भाव-जुत्तं अरहा तं भण्णए अलियं ॥
- 18 फरुसं णिंदियमहमं अपच्छियं कोव-माण-संवलियं । सच्चं पि जइ वि भण्णइ अलियं तं जिणवर-मयम्मि ॥ 18
सच्चं पि तं ण सच्चं जं होइ जियाण दुक्ख-संजणयं । अलियं पि होइ सच्चं जियाण रक्खं करेमाणं ॥
एयं अलियं वयणं अह कुणइ इमस्स विरमणं जो उ । दुइयं पि हु धरइ वयं दिण्ण-महा-सह-पुब्बं तु ॥ २
- 21 एवं च परुविए भगवया तिवसिंद-वंदिण्णं पुच्छियं गोयमसामिणा 'भगवं, कहं पुण एवं मुसावाय-विरमण-महव्वय-रयणं 21
रक्खणीयं' त्ति । भगवया भणियं ।
अणुवीइ-भासणं, कोह-माय-लोहं च णिवभर-पयारो । हासखाओ य तहा पंचेए भावणा होन्ति ॥
- 24 एयम्मि मए भणिए वयणेहिं होज्ज ताव चित्तेमि । जंतूण सुहं दुक्खं होज्जा अणुवीइ-भासा तु ॥ 24
कोवेण किंचि भण्णइ अलियं वयणं ति केण वि णरेण । तग्हा पक्खखाणं कोवस्स करेह हियएणं ॥
लोह-महा-गह-गहिओ को वि णरो किं पि जंपए अलियं । दूरेण तं अहिविखव मुणिवर संतोस-रक्खाए ॥
- 27 इह लोयाजीव-भएण कोइ पुरिसो भणेज्ज अलियं पि । सत्तविहं तं पि अयं परिहर दूरेण मुणिवसभा ॥ 27
होइ परिहास-सीलो को वि णरो वेलवेइ हासेणं । तं पि ण जुजइ काऊण सच्च-संधाण साधूणं ॥
एयाओ भावणाओ भावेंतो रक्ख संजयं वयणं । एयाहिं विणा मुणिवर सच्चं पि ण सच्चं होइ ॥
- 30 § ३४३) तह तेणो वि हु पुरिसो पर-दब्बं जो हरे अदिण्णं तु । सब्बत्थ होइ वेस्सो जण-संपयणं च पावेज्ज ॥ 30
बंध-वह-वाय-छेयण-लंबण-तडिवडण-सूल-भेयादी । पावइ अवस्स चोरो, मओ वि णरयं पवज्जेज्ज ॥
जइ इट्ट-दब्ब-विरहे होइ विजोओ महं तह इमस्स । एयं चित्तेऊणं कुणह णियत्तिं पर-घणस्स ॥
- 33 एवं च समाइट्टो भगवया संसार-महोयहि-जाणवसेण भणियं च गोयम-मुणिवरेणं 'भगवं, इमं पुण अदिण्णदाण-विरमण- 33

1 > JP समिद्धो, P अलोया ।, P om. वयस्स, JP समिद्धो. 2 > J आपसयंमि, J समितो. 3 > P रक्खो, P रंभ मणहत्थी, J मणसमिनो. 4 > J -समितो. 5 > P किं पि for किंचि, JP दब्बजानं, P मुचइ, J पडिलेहेतु वमज्जेतुं. 7 > J एताहिं पंचसमिद्धिं समितो, P समिद्धो जइ भवे, P साहू, J संजतो भणितो. 8 > J पाणातिवात्, P om. भण्णइ, P एवं, JP वितियं. 9 > J मासवाकुअन्निअम्मि तु अलियं, P असवाय, J मुसवातो, J मुसावाविरमि, P -विरए त्ति. 10 > P adds हि before इहं, P अइ निफलो. 11 > P ठवेइ, P वंक् for बंध. 12 > P लंछण for लुंण. 13 > P जइ for जं, P अलिय-उभक्खाणमखियस्स, P निवत्ति. 14 > J adds च after एवं, P पुच्छिओ, J गोतम, P inter. पुण & केरिसं. 15 > P पडिसेहो, P -भावणं. 16 > P पडिसेहो, J अब्भयसगमाया. 17 > P हत्थी, J तु for उ, J गरहा for अरहा, 18 > J सुपच्छिमं P अपच्छिम. 19 > P संजणं P करेमाणो. 20 > J तु for उ, J दियसं for दुइयं, P सो for पि हु. 21 > J गोतमं, P गोयमगणहारिणा, J पुण एवं मुसावात्. 23 > P कोहवायजामं च णिवभय, J पंचेते, P om. पंचेए. 24 > P होइ अणुवीति भासाओ ॥ 25 > J किअएण for हियएणं. 26 > P के वि for कोवि, J अभिविखव. 27 > P लोयाजीव, P परिहरइ, J मुणिवसभा ॥ 28 > P किं पि for वेलवेइ, P काउं सच्च, J संधारण, P साहूणं. 29 > J एताओ, P सब्बं for संजयं, P एताहिं. 30 > P परेदब्बं, P हरेइ दिजं तु, P वेस्सो जणजंपयणं. 31 > J पंच for बंध, P पाय for वाय, J लंण, J सूलमेताइ, P पविज्जेज्ज. 32 > P नियत्ती. 33 > J महोवहि, J om. च, J गोतम.

- 1 महध्वज-रयणं कंह पुण सुरक्खियं साहुणो हवइ' ति । भगवया भणियं । 1
- अणुवीह य भक्खण एत्थियं ति साहम्मिउग्गाहो च्चै । अणुणाय-भत्त-पाणो भुंजणए ताओ समिहो ॥ 2
- 3 देविंद-राय-सामंत-वग्गाहो तह कुहुंभिय-अणस्स । अणुवीह विचारंठं मग्गिजइ जस्स जो सामी ॥ 3
- वक्खित्त-कोव-माणेहिं होज दिण्णो कया वि केण्णावि । मग्गिजए य भिक्खं अवग्गाहो तेण कजेण ॥ 4
- इह सुत्त-गंध इह मंतयाहं एयम्मि होज मे उयुही । अविथसं मा होहिइ अवग्गाहो एत्तिओ अहं ॥ 5
- 6 पासत्थोसण्ण-कुसील-संजया होज सङ्कया वा वि । तं जाइऊण जुजइ साहम्मियवग्गाहो एसो ॥ 6
- उसस-णीसस-रहियं गुरुणो सेसं वसे हवइ यवं । तेणाणुण्णा भुंजइ अण्णह दोसो भवे तस्स ॥ 7
- एयाओ भावणाओ कुणमाणो तत्थियं वयं धरइ । एत्तो वोच्छामि अहं मेहुण-विइ ति णामेण ॥ 8
- 9 § ३४४) काम-महागाह-गहिओ अओ बहिरो व्व अच्छए मूओ । उम्मत्तो सुच्छियओ व्व होइ वक्खित्त-चित्तो य ॥ 9
- विडभम-कडच्छ-हसिरो अणिष्णुओ अणिहुओ य उअंतो । गलियं कुसो व्व मत्तो होइ मयंओ गयवरो व्व ॥ अविहं अतिथुत्त 3२ प्रान्त
- अलियं पि हसइ लोए सवियारं अप्पयं पलोएइ । उग्गाइ हरिसिय-मणो खणेण दीणत्तणं जाइ ॥ 10
- 12 विहसिजइ लोएण एसो सो भिदिओ जणवएणं । कजाकजं ण-यणइ मोहेण य उत्तुणो भमइ ॥ 12
- परदार-गमण-दोसे बंधण-वहणं च लिंग-छेदं च । सध्वस्स-हरणमादी बहुए दोसे य पावेइ ॥ 13
- मरिऊण य पर-लोए वच्चइ संसार-सागरे घोरे । तम्हा परिहर दूरं इत्थीणं संगमं साहू ॥ 14
- 15 अह कोइ भणइ मूढो धम्मो सुरएण होइ लोगम्मि । इत्थीणं सुह-हेऊ पुरिसाण य जेण तं भणियं ॥ 15
- आहारं पिव जुजइ रिस्तिणो दांठं च गेण्हउं च्चै । जं जं सुहस्स हेऊ तं तं धम्मफ्फलं होइ ॥ 16
- एयं पि मा गणेजसु दुक्खं तं दुक्ख-कारणं पढमं । तं काऊण अउण्णा उवेंति कुगई गई जीवा ॥ 17
- 18 दुक्खं च इमं जाणसु वाहि-पडीयार-कारणं जेण । पामो-कंडुयणं पिव परिहर दूरेण कुरयं तं ॥ 18
- असुहं पि सुहं मण्णइ सुहं पि असुहं ति मोहिओ जीवा । दुक्ख-सुह-णिच्चिसेसो दुक्खं चिय पावए वस्सं ॥ 19
- पामा-कच्छु-परिगओ जह पुरिसो कंडुय-रइ-संतत्तो । णह-कट्ट-सकराहिं कंडुयणं कुणइ सुह-बुदी ॥ 20
- 21 तह मोह-कम्म-पामा-विद्येणए चुल्लुल्लेत-सव्वंगो । सुरय-सुहासत्त-मणो असुहं पि हु मण्णइ सुहं ति ॥ 21
- एवं च भगवया तियासिंद-णारिंद-वेद-सुंदरी-वेदिय-चलणारविदेण साहिए समाणे भगवया पुच्छियं गोयम-गणहारिणा 'भगवं इमं पुण मेहुण-वेरमण-महध्वज-महारयणं कंह पुण सुरक्खियं होइ' ति । भणियं च भगवया ।
- 24 वसहि-कर्हा-महिळिंदिय-पुव्वणुसरणं पणीय-रस-भुत्ती । एयाओ परिहरंते रक्खइ मिहुणव्वयं पुरिसो ॥ 24
- 46 इत्थि-पसु-पंडुय-वजियार्यं वसहीए अच्छइ णीसंगो । सज्जाय-झाण-गिरओ इय बंभे भावणा पढमा ॥ 25
- इय छेयाओ ताओ णायरियाओ चलंत-णयणाओ । किलिक्किंचिय-सुरयाइ इत्थीणं वज्जए साहू ॥ 26
- 27 यण-जहण-मणहराओ पेच्छामि इमाओ चारु-जुवईओ । इय बंभवेर-विरओ मा मा आलोयणं कुणसु ॥ 27
- इय हसियं इय रमियं तीय ममं मा हु संभरेजासु । धम्मज्झाणोवगओ हवेज णिच्चं सुणी समए ॥ 28
- मा भुंजेज पणीयं घय-गुह-संजोग-जोहयं बहुयं । जइ इच्छसि पालेउं बंभव्वयमुत्तमं धीर ॥ 29
- 30 एयाओ भावणाओ भावेंतो भमसु भाव-पव्वइओ । संपइ वोच्छामि अहं परिग्गहे होति जे दोसा ॥ 30
- § ३४५) कुणइ परिग्गाह-सारं जो पुरिसो होइ सो जए लोमी । अग्गि व्व इंधणेणं दुप्पूरो सायरो चैव ॥ लोभाभिभूय-चित्तो कजाकजाइं णेय चित्तेइ । अज्जेतस्स य दुक्खं दुक्खं चिय रक्खमाणस्स ॥
- 33 छुद्धो ति एस लोए णिदिजइ परिभवं च पावेइ । णट्टेसु होइ दुक्खं तम्हा वोत्तिरसु परिगहणं ॥ 33

1) P सुक्खियं, 2) J अणुवीह अभक्खणं P अग्गिक्खण, P भत्तपाणे भुंजणाए, J समितीओ P समिता. 3) J सामं for सामंत, J om. वग्गाहो. 4) J विक्खित्त, P मालेहिं for माणेहिं. 5) P मताइं for मंतयाइं, J होहिति P होहित्ति. 6) J संजया, P अट्टया for सङ्कया, P ते for तं. 7) P तेणाणुसोयं for तेणाणुण्णा, P हवइ for भवे. 8) J तत्थियं वतं P तत्थियं वयं. 9) J होइ P होति. 10) J विडभम, P कडक्क, P अणिच्छओ, J अणिहिओ. 11) P लोएइ for सवियारं अप्पयं पलोएइ. 12) P निंदओ. 13) P छेयं, J हरणमाती, P सो for दोसे, J पावेति. 14) P पलोए वच्चइ संसायरे, P परिहरइ. 15) P सुरते कंह न for सुरएण होइ, J लेअंमि. 16) P adds, after जुजइ, पुरिसा एएणं मारिओ अहं पुव्वं । तेण मए मारिज्जइ तस्सेय ओ देइ ॥ अवरं विहियंति, J हेउं तं. 17) P कुगई गई. 18) P वाहीपडियार, J पतीआर. 19) P च for पि सुहं, P om. पि, P सुहं for असुहं. 20) P पामाकंडुपुरिगओ, J कंडुअरति, P कंडुयणं. 21) P कंमपावाविणयाते चल्लुल्लेतसव्वंगं, J विअणाय चुल्लुल्लेत. 22) J गोतम, P गणहारिणो. 23) J मेहुणं वेरमण, P वेरमणं महध्वजं, P पुण रक्खियं भवइ ति । 24) P रसभोई, J एताए for एयाओ. 25) J इत्थीपसुपंडिय, J वसईए अच्छ णीसंको, P निरसंगो, P पंगते for इय बंभे. 26) P adds य after ताओ, P किलिक्किंची सुरयादी. 27) P यणहरमणथराओ, J आलोयणं. 28) P ओ for हु, P धम्मज्झाणावगओ. 29) J संजोग, P इच्छइ, P धीर for धीर. 30) J एताओ, P भातो for भावेंतो, P adds संपइओ before संपइ. 31) J ते for सो, J चैव. 32) J P भूतचित्तो, J अज्जेतस्स. 33) P परिहवं.

- 1 मरिचण जाह णरयं आरंभ-परिगगहेहिं जो जुत्तो । तस्स ममत्ते पाव ममं ति अण्व प्व संकुणह ॥ 1
- एवं च सयल-विमल-केवलालोहय-लोकाकोएण परुक्खि मणियं गोवम-मुणिणाहेण 'भगवं, इमं पुण परिगगह-वैरजण-मह-
- 3 व्वय-रयणं कइ सुरक्खियं हवह' ति । भगवया भणियं । 3
- पंचणह इंदियाणं विसए मा कामसु ह सुखे य । असुहे य मा दुगुंळसु ह्य समिहं पंच परिगगहे ॥ ति । इव
- पंच-महव्वय-जुत्तो ति गुत्ति-गुत्तो तिदंड-विरय-मण्णे । साहू खवेह कम्मं अणेय-भव-संचियं जं तु ॥ पुणे,
- 6 जत्थ ण जरा ण मच्चू ण वाहिणो णेय सव्व-दुक्खाइं । सासयमकारिमं चिय णवर सुहं जाह तं सिदिं ॥ 6
- एयाण वयाण पुणो भेया दो होति जिणवर-मएण । अणुव्वय-महव्वयाइं गिहिणो मुणिणो य सो भेदो ॥
- एए मुणिणो कहिया जावज्जीवं हवति सव्वे वि । गिहिणो उण परिमाणं अणुव्वए ते वि बुच्चंति ॥ अण्णं च ।
- 9 कुणह दिसा-परिमाणं अणुदियहं कुणह देस-परिमाणं । तेणुहुं विरओ सो कम्मह सव्वेसु अत्येसु ॥ 9
- तइयं अणद्वंदं उवमोगं अत्तणो परिहरेत्ता । सेसेसु होह विरओ पावट्टाणेषु सव्वेसु ॥
- सामाहयं चउत्थं एयं कालंत्तरं महं जाव । समणो व्व होमि विरओ सावजाणं तु जोगाणं ॥
- 12 पोसह-उववासो चिय पव्वे अट्टमि-चउत्तसीय अण्णव्वरे । उववासो होह तहिं विरइं सावज-जोगाणं ॥ 12
- घर-भोग-जाण-वाहण-सावज-जियाण दुपयमादीण । परिमाण-परिच्छेदो विरइं उवमोग-परिओमे ॥
- णाएण जं विदुत्तं खाणं पाणं च वत्थ पत्तं वा । साहूण जा ण दिण्णं ताव ण सुंजामि विरओ हं ॥
- 16 तिणिण य गुणव्वयाइं चउरो सिक्खावयाइं अण्णाइं । पंच य अणुव्वयाइं गिहि-धम्मो बारस-विहो उ ॥ अण्णं च । 16
- मरणंतमि पवजइ छट्टम-तव-विसेस-सूसंतो । समणो व सावओ वा मरणं संलेहणा-पुव्वं ॥
- ३ ४६) एवं च तियतिद-सुंदरी-वंद्र-रहस-पणमंज-पारियाय-मंजरी-कुसुम-रय-रंजिच-कलणारविंदेण साहिए जिणिं-
- 18 देण भणियं गणहर-देवेण 'भगवं, इमाणं पुण बारसणं वयाणं संवेग-सद्धा-गहियाणं गिहिणा के अइयारा रक्खणीव' ति । 18
- भगवया भणियं ।
- एक्केके पंच जहा अइयारा होति सव्व-वय-सीले । सह भणिमो सव्वे चिय संखेवत्थं णिसामेह ॥
- 21 बंध-वहच्छवि-छेदो अइभारोवणं चउत्थं तु । पाणण-णिरोधो वि य अइयारा होति पडमस्स ॥ 21
- मिच्छोवदेस-करणं रहसमक्खण कूड-लेहो य । णासावहार-करणं अलियं मंतस्स भेदं च ॥
- तेण-पउंजण-आहिय-गहणं विरुद्ध-रजं वा । उणाहिय-माणं चिय पडिरुवं तेणिया होति ॥
- 24 परउव्व्याहो इत्तर-परिगगहे गमण होइ पर-महिला । क्खिरइ अणंग-कीडा तिक्को वा काम-अहिलामो ॥ 24
- खेत्त-हिरण्णे अण्णे दासी-दासेसु कुप्प-मंठेसु । होइ पमाणाइकम अइयारो होइ सो वत्तं ॥
- खेत्तात्तिकम-सीमा-वइकमो तह हिरण्ण-अइचारो । खेत्तस्स बुद्धि-सइअंतरं च पंचेव य हिमाए ॥
- 27 सुइइव्वायणं पेस-पओगो य सह-पाओ य । रुवाणुपाय-पोगाल-पक्खेवो होइ देसस्स ॥ 27
- कंदप्ये कुक्कुट्टए मोहरिए चैव होइ असमिक्खा । उवमोगो चि य अचिओ अणद्वंदस्स अइयारो ॥
- मण-वयण-काय-ओगे दुप्पणिहाणे अणादरो चैव । ण य सुमरइ तिय-कालं सामाहइं होति अइयारा ॥
- 30 उच्छग्गो आयाणं संघारो वा अजोइए कुणइ । ण य आदरो ण भरइ पोसध-धम्मस्स अइयारा ॥ 30

1) P जोइ for जाइ, J adds य before ममत्ते, P पाव, J ममहि अपव्व संकुण ॥ 2) P लोइया लोयालोए J (लोआ) लोएण for लोयालोएण, J गोतम, P गोममुणिं. 4) P कामसुहे सुरज्जेजा । अहेसु य, JP समिती, P परिगगहेणे, P om. इय, 6) P मच्चू, P ण य for णेय, P चिय नवरं अह जीहमं तं, J सिद्धी. 7) P अणुव्वय. 8) J उण मरियाणं, J तु for वि, P विमुच्चंति. 9) J तेणत्थं for तेणुहुं, J विरतो सो P परिओसो. 10) P अणत्थदंडं, P परिहरित्तो, J विरतो P विरत्तो. 11) P repeats एवं, J महो P मह for महं [=महं], P सव्वणो, J विरतो. 12) J पोसध-, J अट्टमी चउत्तसीय P अट्टमि चउत्तसीउ, P होति, JP विरती. 13) J दुपयमादीण, P परिच्छेओ, J विरती. 14) J तत्थ for वत्थ, P विक्कं for दिण्णं, P विरतो. 15) P बारसविहाओ ॥. 16) J संजतो for सवओ. 17) J पत्तं for एवं, P om. वंद्र, P-परियाय-, J कुसुमरयंजिअ. 18) J adds च after भणियं, P भणियं for भगवं, P गहियाण, JP अतियारा. 20) P adds एक्केके पंच पंच जहा अतियारा. होति रक्खणीय ति । भगवया भणियं before एक्केके, P चिय, P निसामेहा. 21) P बंधं वं च छेओ, P-निरोहा वि, J अतियारा. 22) P मिच्छोवपस, P रहसमक्खण कूडलोहो य ।, P मेयं. 23) J पयुंजयथाहित, P-आहित, J होइ for होति. 24) P परिनिवाहो इत्तर, J उत्तर for इत्तर. 25) P खेत्त हिरसे मुवन्ने धणधन्नादासिदासे कुप्प, J पमाणात्तिकम अतिआरो, P होइ सव्वस्सं. 26) J खेत्तात्तिकम, J वत्तिकमो P वइकमे, J अइयारो P अतिचारो, J-सतिअंतरं P-रसइअंतरं. 27) J सहो दव्वायणं परं पेस- P सद्धा दव्वायणं, J सहपातो P सहपाओ, J रुवाणुपात P रुवाणुपाय, P होति. 28) P कंदप्ये, P असमिक्को, P उवमोगो, P अहिओ अणत्थ-, J अतिआरो. 29) J जोइ, J अणादरो चैव P अणायेरे चैव, J सुमरति. 30) P उवसग्गो für उच्छग्गो, P अजोयणे for अजोइए, P आरो for आदरो, J भरइ P भरेइ पोसध-, P अतिचारो.

- 1 सञ्चिते संवदो मीसो सञ्चित-अभिसव-दुपको । आहारंतो पुरिसो अह्वारं कुणह उवभोगे ॥ 1
सञ्चिते निम्बोको अथवा सिद्धं परस्स एयं ति । देह व मच्छर-सुत्तं अथवा काले अह्वरते ॥
3 संलेहणार्थं जीवित्त-मरणे मिच्छापुराण-मुह-हियणो । कुणह गियाणं एए मरणंते हंति अह्वारा ॥ 2
इय सम्मत्त-महववय-वय-सील-गुणेषु रक्ख अह्वारे । णर-सुर-सिद्धि-सुहेहिं अह कजं तुम्ह अह्वजिय ॥ ति ।

- § ३४०) एवं च संसार-महोवहि-कम्म-महापवण-पहय-दुपण-सहस्स-तरंग-भंग-भंगुरे अरय-महामयर-करवत्त-कराल-
6 दादावली-मुसुमुरणा-सुक्कस्स अहिच्छिय-तीर-गामिण् जियस्स जाणवत्ते व्व साहिए समण-सावय-महाधम्म-रचणे जिण्दिदं देणं 6
ति अचसरं जाणिकण बहु-जीव-बह-पावासंकिण्ण पुच्छिअं कंचणरहेण राहणा 'भगवं, मणिरह-कुमारो किं भवो, किं वा
अज्जो' ति । भगवया तिळोय-गुण्या भणियं 'महाणुभाव, ण केवलं भवो चरम-सरीरो वि' । कंचणरहेण भणियं
9 'भगवं, अह अम्म-सरीरो ता कीस णिरुज्जंतो वि पारदि-वसणी जाओ' । भगवया भणियं 'किं कीरउ एत्थ एरिसा तस्स 9
कम्म-अवियव्वय' ति । राहणा भणियं 'भगवं, कट्टं पुण कइया तस्स बोही जिण-मग्गे होहिइ' ति । भगवया भणियं
'देवाणुपिया, पच्छिमुहो वि एत्थियं वेहं उबकंठ-चारित्तवरणो जाव जाय-णिज्जेओ पत्त-संवेग्गे इहेव पत्थिओ' ति । राहणा
12 भणियं 'भगवं केण उण जुत्तेण से संवेगं जायं' ति । भगवया भणियं 'अत्थि इओ जेयणप्यथाण-भूमि-भाए कोसंभं णाम 12
वणं । तत्थ बहुए मय-संबर-वरइ-सस-संघाया परिवसंति । तत्थ पारदि-णिसिं संपत्तो अज्ज मणिरह-कुमारो । तत्थ मममाणेण
दिहं एक्कम्मि पप्पे मयउठं । तं च दट्टण अवल्लुपं अवल्लुपण संकमंतो उबगओ समीवं । केरिसो य स्से । अवि य । 12
15 आयण्ण-पूरिय-सरो णिच्छल-दिट्ठी णिउंविद्यग्गीओ । णिम्मविओ लेप्प-मओ व्व कामदेवो कुमारो स्से ॥ 15
स्से वि कट्टं-कट्टं वि णियय-मंस-बिलुंफणा-अय-चकिय-लोल-दम-दिसा-पेत्तिय-कस्सिय-तरल-तारण्हिं विट्ठो मुह-मव-सिद्धिहेहिं ।
तं च दट्टण सहसा संभंता एणट्टा दिसोदिसिं सव्व-मया । ताणं च मउग्गे एक्का मय-सिल्लिबी तं कुमारं दट्टण चिरं णिउसाइ-
18 उण दीहं षीलसिज्जण णिउंदि-लोयण-जुयला सिणेह-वस-पम्मुट्ट-णियय-जीय-विलुंफण-अया पफुल्ल-लोयणा उण्णण-हियय-18
वीसंभा सम्भंग-मुक्क-णीसहा तं जेय आयण्ण-पूरिय-सरं कुमारं अहिकसेह ति । तं च तारिसं दट्टण कुमारेण चित्तियं । 'अहो,
किमेयं ति । जेण सव्वे मत्ता मइओ मय-सिल्लिबी य दिमोदिसं पणट्टा, इमा पुण मयसिल्लिबी ममं दट्टण चिर्याल-दिट्ट-
21 दइयं पिब अववाम्पण-लालसा अमिमुहं उवेह' ति चित्तयंतस्स संपत्ता तं पण्णं । कुमारो वि संपत्तो । तओ दिट्ठो य तीथ 21
अण्ये-सावय-जीवंतयरो अइयंद-सरवरो । तह वि,

दइयं पिब चिर-दिहं पुत्तं पिब पाविया पियं मिसं । अअणय-मरण-वियप्पा कुमरं अह पाविया मइया ॥

- 24 तं च तहा दट्टण सिणेह-पिरंतरं पिब दइयं षण-मय-सिल्लिबी कुमारेण 'आ अणजो अहं' ति णिइयं भग्गं तं सरवरं, 24
चलणग्गेय य अक्कमिज्जण मोडियं तं अत्तणो चावं । तओ मोडिय-कोडंडो अच्छोडिय-अत्ति-वेणुओ इमं भणितं पयत्तो ।
अवि य ।
27 जो मह पहरइ समुहं कइिय-करवाल-वावड-करगो । तं मोत्तूण रण-मुहे मज्ज णियत्ती पहरिउं जे ॥ 27
जो पहरइ जीवाणं दीणाणं असरणाण णिज्जणाणं । णासंताण वस-दिसं कत्तो अण पोरिसं तस्स ॥
मारिअइ दुट्ट-मणो समुहं मारेइ पहरण-विहत्थो । जो उण पलाइ भीओ तस्स मयस्सावि किं मरइ ॥
30 मर होह अत्थिव-मणा अम्मि किर विणिहया जिया रण्णे । एएहिं चिय वहिया लुग्गे एवं चियप्पेसु ॥ 30
एए अम्हेहिं जिया एक्कं वारंति विणिहया रण्णे । अम्हे पुण एएहिं अणंतसो मारिहिज्जामो ॥
अहओ चिल्लीण-कम्मो पावो अह विहलो षिहीणो य । जो अवराह-विहीणे पहरइ जीवन्मि पाव-मणो ॥

1 > J सञ्चित्ता अभिसवदुपको, P अभिसवदुपको । आहारंतो, P अश्वारो, P उवभोगो. 2 > P अहव पियाणं, P एतं ति, P अहवा. 3 > J जीवित, P मिच्छापुराय, J कुणह मित्ताणं च एते, P मरणं तो, J अतिआरा. 4 > P सम्मत्त P रय for वय, P वएसु for गुणेषु, J अतिआरे P अतिआरे, J अज्जा, JP भवजिय. 5 > P महोयहिकंममहपवण, P om. भंग. 6 > P जिस्स for जियस्स, P साहिते, 7 > P पावासाकण, P रायणा. 8 > P केवलो, J om. वि, P कंचणरहेण भणितं. 9 > P निरुभंतो वि, P after पारदिवसणीजाओ repeats the further portion, namely, भगवया भणियं देवाणुपिया etc. to संवेगं जायं ति, J adds अ before किं, J repeats एत्थ, J एरिसो. 10 > J om. भगवं, P om. कट्टं. 11 > J देवाणुपिया, P पत्तियवलं, J om. जाव, P om. जाय, J पयस्स for पत्त. 12 > P om. से, J वेरगं for संवेगं, J प्यमाणे भूमाए. 13 > J तत्थ य बहुमय, P मणोरेहकुमारो. 14 > J संकतो, P उवगतो. 15 > P णिउंविद्यग्गीओ. 16 > P -नियमास, J भूय for भय, JP चकित. 17 > J सहा for सहसा, J हिसादिसं, J om. मय. 18 > J om. दीहं षीलसिज्जण, P सिणेह, P णियजीविया विलुपणभया वप्पुफुल्ल, J वक्कफुल्ल. 19 > P च for जेय, J अहिलेइ ति, P om. अहो किमेयं ति. 20 > J adds य after मइओ, P दिसादिसि पणट्टा, P उण for पुण, J adds एक्का after पुणो, P चिरकाल. 21 > P अहिमुहं, P चित्तियंतस्स. 22 > J जीवंतरो अइयंद, P जीवंतपरो अइयंदस्स वरो तहे वि. 23 > P कुमारं, P inter. अह & कुमारं, P मतिया. 24 > P inter. तहा & तं च, P अण्यथासिल्लिबी, P अयं for भग्गं. 25 > P मोडितं अत्तणो, P कोडंडो, J ससिवेणुओ. 27 > J om. तं, P रणमहो, J जो for जे. 28 > P मीयणं for दीणाणं, P कत्तो पुण पाल्लं. 30 > P गन्धिवयणो अम्मि किर विणिहया, P repeats जिया, P विहया for वहिया, P वियप्पेओ । 31 > P एते, P उण for पुण. 32 > P विणिट्ठो for विहलो, P विहीणो.

1 § ३४८) एवं च चिंतयंतेण उप्पण्ण-मित्त-करुणा-भाषेण छित्ता करयलेहिं सा मय-सिल्लिबी । अवि य । 1
जह जह से परिमासह अंगे मइयाए णिहुययं कुमरो । पणय-कलहे व्य तह तह दइयाए गळंति अच्छीणि ॥
3 कुमारस्स वि तं दट्ठेण वियसिय-लोयणेहिं उक्खुदो अंगेसु रोमंचो, पसरिओ हियए पहरिसो, णायं जहा 'का वि एसा 3
मम पुब्ब-अम्म-संबद्धं त्ति । अवि य ।

जाहंभराहं मण्णे इमाहं णयणाहं होति लोयस्स । वियसंति पियम्मि जणे अब्बो मडलेंति वेसम्मि ॥
6 सा एयं पुण ण-याणिसो कम्मि जम्मंतरम्मि का मम एसा आसि' त्ति चिंतयंतस्स ठियं हियए 'अज्ज किर ताओ गोसे 6
चेय चंपाउरिं उवगओ किर तत्थ भगवं सव्वण्णू समवसरण-संठिओ, तस्स वंदणा-णिमित्तं ता अहं पि तत्थ गमिस्सं
जेण पुच्छामि एयं वुत्तं 'का एसा मय-वहू आसि अहं जम्मंतरे' त्ति चिंतयंतो चलिओ । संपयं पडमए समोसरण-पायार-
9 गोउरंतरे वट्ठह, मय-सिल्लिबी वि त्ति भणंतस्स भगवओ पुरओ मणिरह-कुमरो ति-पयाहिणं च काउं भगवंतं वंदितं 9
पयत्तो ।

'जय जय जियाण बंधव जय धम्म-महा-समुद-सारिच्छ । जय कम्म-सेल-दारण जय णाणुजोविय मुणिंद ॥' त्ति ।

12 भणमाणो पणमिओ चलणेसु । पणाम-पञ्चुट्टिएण भणियं । 'भयवं, 12
तं णत्थि जं ण-याणसि लोमालोमम्मि सव्व-वुत्तं । ता मह साहसु एयं का एसा आसि मह मइया ॥'
एवं च पुच्छिओ भयवं णाय-कुल-तिलओ जय-जीव-बंधवो बहुयाण जिय-सहस्साण पडिबोहणत्थं णियय-जाय-पव्वत्तं
15 पुव्वक्खाणं साहिउं पयत्तो । 15

§ ३४९) 'ओ भो देवाणुप्पिया, अत्थि इओ एकम्मि मह जम्मंतरे सागेयं णाम णगरं । तत्थ मयणो णाम राया ।
तस्स य पुत्तो अहं, अणंगकुमारो य महं णामं तम्मि काले आसि । एवं च अच्छमाणस्स तम्मि णयरे को वुत्तं आसि ।
18 अवि य । आसि वेसमणो णाम महाधणो सेट्ठी । तस्स य पुत्तो पियं करो णाम । सो य सोम्मो सुहओ सुयणो सुमणोहरो 18
वाइ कुसलो विणीओ पियंवओ दयालू दक्खिण्णो संविभागी पुव्वाभिभासी य त्ति । तस्स य एरिसस्स समाण-जम्म-काला
सह-संबद्धिया सहज्झय घरे पिउ-मित्तस्स धूया णामेण सुंदरि त्ति । मा वि रूवेण मणोहरा मुणीणं पि भावाणुरत्ता य ।
21 तस्स पियंकरस्स तं च तारिसं दट्ठेण तेण पिउणा तस्सेय दिण्णा, परिणीया य । धणियं च बद्ध-णेह-सवभावा अवरोप्परं 21
खण-मेत्तं पि विरहे उसुया होति । एवं च ताणं अहिणव-सिणेहे णव-जोव्वण-वस-पसरमाण-सिणेह-पेम-राय-रसाणं वच्चए
कालो । अण्णया य तथा-भविष्यव्व-कम्म-दोसेण वेयणीउदएण अपट्ट-सरीरो सो पियं करो जाओ । अपट्ट-सरीरस्स सा सुंदरी
24 महासोगाभिहया ण भुंजए ण सुयए ण जंपए ण अण्णं कायव्वं कुणइ, केवलं संभाविष-दइव-मरणा हिययअंतर-घरुव्वरंत- 24
संताव-ताविय-णयण-भायणुव्वत्तमाण-वाह-जल-लवा दीण-विमणा सोयंती टिया । तओ तहाविह-कम्म-धम्म-भविष्यव्वयाए
आउय-कम्ममक्खययाए य मओ सो वणिय-पुत्तो । तओ तं च मयं पेच्छिउण विसण्णो परियणो, सो य विमणो पल-विउं
27 पयत्तो । अवि य । 27

'हा पुत्तय हा बालय हा मुव्वड-गुण-गणाण आवाम । कत्थ गओ सि पियंकर पडिवयणं देसु मे तुरियं ॥'

एवं च पलाव-णिअरे घर-जणवए हलबोलीहूए परियणे कयं च करणिज्जं, थिणिम्मिवियं मय-जाणवत्तं । तओ तत्थ वोहु
30 माडत्ता । तओ तं च तारिसं दट्ठेण सुंदरी पहाइया । 'ओ भो पुरिसा, किं एयं तुव्वेहिं ममाडत्तं' । तेहिं भणियं । 'वच्छे 30
एस सो तुह पई विवण्णो, मसाणं णऊण अग्गि-सक्कारो कीरइ' त्ति णिसुए कोव-विरजमाण-लोयणाए बद्ध-तिवली-भंगुर-
णिडालवट्टए भणियं 'अवेह, णिकरुणा पावा तुव्वे जं दइयं मयं भणइ, इमस्स कारणे तुव्वे चेय मया पडिहया डड्ढा य,

- 1 > P चिंतयंतो, P कट्टण for करुणा, P छित्ता for छित्ता, P महसिल्लिबी. 2 > P परिमुसती अंगे मइया णिहुययं, J दइयाय.
3 > P उक्खुदो अंगे य. 4 > J om. पुव्वजम्म, P om. अवि य. 5 > P जाईमगई मत्ते, P जमे for जणे, J वेसम्मि. 6 >
P अजंतरम्मि, P ट्ठियं, P गोसो चेय चंपाउरी आगओ. 7 > J समवसरिओ तस्स, P वंदण, P om. पि. 8 > P एतं, P inter. आसि
& अहं, P समवसरण. 9 > P वट्ठंति, P om. त्ति. 11 > P om. one जय, P दारुण. 12 > P पणामिओ, P पणामपयुट्टिएण
13 > P जं न जाणसि, J लोआलोअम्मि. 14 > J भयवं, J repeats जय, J पट्टेण for बहुयाण, J णियअजातयवत्तं. 16 >
J देवाणुप्पिया, J सागेयं. 17 > P अहं for य महं. 18 > P adds वु before महाधणो, J om. य before पुत्तो, P सोमो.
P सुयणा. 19 > P कुसली, P 'भागी पुभासी व त्ति, J च for य before त्ति, P om. य एरिसस्स, J समाणकम्मकालासह,
P अमकालसमाणसंबद्धिया. 20 > J सयज्झय P सयज्झिय, P पिय for पिउ, P om. पि. 21 > J तेण से पिउणा तस्स य, P adds
परिणा before परिणीया, P बद्धणे for बद्धणेह. 22 > J om. पि, J adds तओ before एयं, P -सिणेह, J पेमरायवसाण.
23 > J अण्णत्ता, J adds य before वेयणी, P अपट्ट- in both places, P om. सा. 24 > J 'सोगाहिहया, J adds
न हसए after सुयए, P adds त्ति after कुणइ, J 'हिअअंतर P हिययअंतर. 25 > P सं for संताव, P ट्टिया, J
भविष्यव्वयाए. 26 > P वंमक्खयाए, P वणियउत्तो, J वि पुणो for विसण्णो. 28 > P पुत्त महा, J गुणमणाणभयणया ।. 29 >
J कयं च जं करणीयं थिणिम्मियं मयजाणं ।, P मयजाणवत्तं, J तत्थ वोहुं पयत्तो P तत्थ छोहुमाडत्ता, J om. तओ. 30 > P किमेयं,
31 > P तुह पती, P णाऊण for णऊण, P नयणाए for लोयणाए. 32 > J -वट्टए for वट्टए, P repeats वट्टए, J om. पावा'
J रड्डाए P वट्टइय for डड्ढा य.

- 1 न कयाई एस मह वल्लहो मरीहह डज्जिस्सह' ति । तओ तेहिं चितियं 'अरे, एस गेह-गह-गहिया उम्मत्तिया पलवह 1
बराई' । 'गेणह एयं कलेवरं, णिक्कासेह मंदिराओ' ति भणमाणेहिं पुणो वि उक्खिबिउं पयत्तं । तओ पुणो वि अभिधावि-
- 3 उणं लमा सुंदरी । 'ओ ओ दुट्ट-दुट्टुद्विय-पुरिसा, कथ ममं इमं दइयं वेत्तुं चलिय' ति । अवि य । 3
'पेच्छह पेच्छह लोया एसो मह वल्लहो जियंतो वि । हीरह कहिं पि माए किं एस बराउलो देसो ॥'
ति भणंती णिवडिया उवारिं, तं च सव्वंगियं आलिंणिउण टिया । तओ य ते सयणा सव्वे किं-कायच्च-विमुट्ठा विमणा
- 6 दुम्मणा चित्तिउं पयत्ता । भणिया य पिउणा 'सुंदरि वच्छे, एस ते भत्ता मओ, मा एयं छिवसु, मुंचसु, डज्जह एसो' 6
ति । तीए भणियं 'एयस्स कए तं चिय डज्जसु' ति । तओ जणणीए भणियं ।
'कीस तुमं गह-गहिया एयं परिरक्खसे विगय-जीयं । मा होह पुत्ति मूढा एस मओ डज्जए एण्हि ॥'
- 9 तओ तीए भणियं । 'अत्ता, 9
णाहं गहेण गहिया गहिया रक्खेण तं चिय अलज्जा । जा मज्ज पियं दइयं डज्जह एसो ति वाहरसि ॥'
एवं च ससुरेण अण्णेण य गुरुण्णेण सही-सत्थेण भणिया वि
- 12 पेम्म-महा-गह-गहिया मयं पि सा पेच्छए पियं मोत्तुं । राणेण होंति अंधा मण्णे जीवा न संदेहो ॥ 12
तओ विसण्णो से जणओ गारुळिए भूय-तंतिए अण्णे य मंतिवादिणो मेलेह, न य एक्केणं पि से कोइ विसेसो कओ
ति । तओ णत्थि को वि उवाओ सि पम्मोक्किया, तम्मि चेय अच्छिउं पयत्ता । तओ दुइय-दियहे जीय-विमुक्कं तं कलेवरं
- 15 सुज्जिउं पयत्तं । पुणो अण्ण-दियहे य उप्पण्णो पोगल्लाण वि गंधो । तह वि तं सा मडयं 15
आलिंणह बाहाहिं गुललह हत्थेहिं सुंभइ मुहेण । कीयंत-सुरय-लीलं तं चिय सा सुमरए मूढा ॥
तओ णिदिज्जमाणी परिचणेण वारिज्जमाणी सहीहिं इमं भणिउं पयत्ता । अवि य ।
- 18 'एहेहि मज्ज सामिय वच्चाओ बाहिरं वणंतम्मि । जत्थ न पेच्छामो चिय अप्पिय-भणिरं इमं लोणं ॥ 18
पेच्छ इमो गह-गहियो लोणो इह भणइ किर मओ तं सि । इय णिट्ठर-वयणाणं कह मज्जे अच्छिउं तरसि ॥
किर तं पि य मय-कुहिओ एसो अह जंपए जणो धट्टो । एयस्स किं व कीरउ अहवां गह-गहियओ एसो ॥
- 21 मज्ज ण जुजइ एयं सामिय तुह णिंदणं सहेउं जे । तम्हा वच्चाओ चिय जत्थ जणो णत्थि तं ठाणं ॥' 21
ति भणमाणीए उक्खिचत्तं तं करकं आरोविउं उत्तिमंगे ओइण्णा मंदिराओ पयत्ता गंतुं रच्छा-मुहम्मि बिम्हय-करणा-हास-
बी-मच्छ-भय-भावेण जणेण दीसमाणी णियगया णयरीओ । केरिसं च वेत्तुं कलेवरं कुहियं । सिमित्तमैत-अंतो-किमि-संकुलं
- 24 भिणिभिणंत-अच्छियं सडसडंत-चम्मयं फसफसेंत-केसयं कलकउंत-पोट्टयं उच्चमंत-दुगंधयं दीसंत-हड्डयं फुरंत-पवणयं 24
तुटंत-अंतयं फुटंत-सीसयं वहतं-मुत्तयं पयट्ट-पुच्चयं खिरंत-लोहियं वमंत-पित्तयं किरंत-मज्जयं ति ।
अंतो असुह-सयच्चं बाहिर-दीसंत-सुंदरावयवं । कंचण-कलस-समाणं भरियं असुहस्स मज्जम्मि ॥
- 27 तं पि तारिसं भीमं दुइसणं पेम्म-गह-गहिया वेत्तुं उवगया मसाणं । तत्थ खंधारोविय-कंकाला जर-चीर-णियंसणा धूलि- 27
पंडर-सरीरा उट्ट-केसा मलिण-वेसा महा-भइरव-वयं पिव चरंती भिक्खं भमिउण जं तत्थ सारं तं तस्स णिवेएइ ।
भणइ य ।
- 30 'पिययम एयं भुंजसु भिक्खं भमिउण पावियं तुज्ज । सेसं पि मज्ज दिज्जउ जं तुह णवि रोयए एत्थ ॥' 30
एवं च जं किंचि भुंजिउण दियहे दियहे कयाहारा कावालिय-बालिय च्च रक्खसी वा पिसाई व तस्सेय रक्खण-वावडा
अच्छिउं पयत्ता तम्मि महा-मसाण-मज्जम्मि ।

1) J मरीहह, J डज्जिस्स ति P डज्जिस्सह ति, P ओमत्तिया विलवह. 2) P गेणह एयं कलेवरं, P पुणो उवक्खिउं, J अओ for तओ. 3) J ओ ओ दुट्टिपुरिसा. 4) P कहिं पि. 5) P om. ति, J om. य after तओ, P विमणदुम्मणा चित्तापरा अच्छिउं पयत्ता. 6) P सुंदरी, J ए for ते, J मा एवं, P om. मुंचसु. 7) J तीय, J डज्जसु P डज्जस, P माया पलविउं पयत्ता for जणणीए भणियं (on the margin in J). 8) P एतं, P जीवं, P एहिं for एण्हि. 10) P om. one गहिया, J अणज्जे for अलज्जा. 11) P om. वि. 12) J राएण, J जीआ. 13) P गारुलीए भूते, J भूतंतिए, J मंतवातिणो मेलेति न य एक्को पि, P म for न य, P सो for से. 14) P तं उ for तओ, J कोइ for कोवि, P पुणो for तओ before दुइय, J adds य before जीय. 15) P सुज्जिउं, J अंओ for गंधो. 16) J गोलह for गुललह, P हत्थेण, P जायंत for कीयंत. 17) P सहियणेण इमं भणियं पयत्ता. 18) P adds चिय after वच्चाओ, P भणियं इमं, J लोचं. 19) J लोओ किर भणइ किर, P तरइ. 20) P म for मय, J वेट्टो. 21) P तुह निहणं पि सोउं जे, P जणे णत्थि. 22) J भणमाणीय, J उत्तमंगे P उत्तिमंगो. 23) P राय for मय, P om. कलेवरं, J किमिकुलं. 24) P फसफसेते. 25) J तुटंत for तुटंत, P adds फुटंत अंतयं after अंतयं, J फुरंत P फुटंत for फुटंत, P पुच्चयं, J किरंतलोहियं, P adds रसंतबंधयं पयंतमेत्तयं after पित्तयं, P किरयंत. 26) J सरिस for कलस. 27) P भीम-, P रोवयं for मसाणं, P खंधारो वि य, P धूली-. 28) J om. तं before तस्स, P तत्थ for तस्स. 30) P पाविया एयं, P तुज्ज for तुह, P न for न वि. 31) P om. जं किं चि, J कावालियिअ च्च रक्खसी, J वा P य for व after पिसाई, P बहु च्च for तस्सेय रक्खणवावडा. 32) P om. महा.

1 § ३५०) पुणो तेण तीए पिउणा विण्णत्तो अम्ह ताओ जहा देव एरिसो जुत्तंते, अम्ह धूया गह-गहिया, ता तं 1
जह कोह पडिबोहेह तस्स जं च्चये मग्गइ तं च्चये अहं देमि ति दिज्जउ मज्झ वयणेण णयर-मज्जे पडहओ' ति । एवं 3
च तायस्स विण्णत्तं तं गिसुयं मए । तओ चित्तिंयं मए । 'अहो, मूढा घराई पेम्म-पिसाएण ण उण अण्णेणं ति । ता 8
अहं बुद्धीए एयं पडिबोहेमि' ति चित्तयंतेण विण्णत्तो ताओ । 'ताय, जह तुमं समादिससि ता इहं इमस्स वणिग्यस्स 8
संबोहेमि तं धूयं' ति । एवं च विण्णविएण ताएण भणियं । 'पुत्त, जह काऊण तरसि ता जुत्तं इमं कीरइ वणिगाण 6
उवयारो' ति भणिए चलिओ अहं मसाण-संमुहं । जाणिया मए कम्म ठाणे सा संपयं । जाणिऊण णिवारियासेस-परिबणो 6
एगागी गहिय-बीर-माला-णियंसणो धूली-भूसर-सरीरो होऊण खंधारोविद्य-दुइय-कंकालो उवगओ तीए समीवं ।
ण य मए किंचि सा भणिया, ण य अहं तीए । तओ जा जं सा तस्स अत्तणो कंकालस्स कुणइ तं अहं पि णियय-कंकालस्स 6
करेमि ति । तओ वञ्चंतेसु दियहंसु तीए भणिओ अहं 'भो भो पुरिसा, किं तए एयं कीरइ' ति । मए भणियं 'किं 9
इमाए तुज्झ कहाए' । तीए भणियं 'तह वि साहिज्जउ को एस जुत्तंते' ति । मए भणियं 'एसा अम्ह पिया दइया 9
सुरूवा सुभगा य । इमा य मणयं अपडु-सरीरा संजाया । ताव य जणो उल्लवइ 'एसा मया, मुंच एयं, इज्झइ' ति ।
12 तओ अहं तेण जणेण गह गहियो इव कओ । मए वि चित्तिंयं 'अहो, एस जणो अलिओ बलिओ य । ता इमिणा 12
ण किंचि मज्झ कज्जं ति घेत्तूण दइयं तथ्य वच्चांमि जत्थ णत्थि जणो' ति । एयं च णित्तामिऊण तीए भणियं 'सुंदरं 12
कयं जं णीहरिओ पियं घेत्तूण, एस जणो अलिय-भणियो, इमिणा ण कज्जं ति । महं पि एसो च्चिय जुत्तंते' ति । ता
15 अम्ह सम-सहाव-वसणाणं दोणहं पि मेत्ती जाया । मए वि भणियं 'तुम्हं मम भइणी, एस य भइणीवइओ, किं च 15
इमस्स णामं' ति । तीए साहियं 'पियं करो' ति । 'तुह महिलाए किं णामं' । मए भणियं 'मायादेवि' ति । एवं च
कय-परोप्पर-सिणेहा अण्णमण्णं अचंछंति । जइया उण आवस्सय-णिमित्तं जल-पाण-णिमित्तं वा वच्चइ तइया य ममं 15
18 भणिऊण वच्चइ । 'एस तए मह दइओ ताव दट्टवो' ति भणंती तुरियं च गंतूण पुणो पडिणियत्तइ ति । अहं पि जइया 18
वच्चांमि तइया तं मायादेविं समप्पिऊण वच्चांमि, इत्ति पुणो आगच्छामि' ति । एवं च उप्पण्ण-वीसंभा अण्णं पुण दियहं
मम समप्पिऊण गया आगया य । तओ मए भणियं 'भइणि सुंदरि, अज्ज इमिणा तुह पइणा किं पि एसा मह महिला
21 भणिया तं च मए जाणियं' ति । तीए भणियं । 'भो भो दइय, तुह कारणे मए सव्वं कुलहरं सहियणो य परिचत्तो । 21
तुमं पुण एरिसो जेण अण्णं महिलंतरं अहिलससि' ति भणिऊण ईस-कोवा ठिया । पुणो अण्णमिं दियहे मह समप्पिऊण
गया कायव्णेणं । मए वि घेत्तूणं दुवे वि करंका कूवे पक्खिसा । पक्खिविऊण य तीय च्चये मग्गालगो अहं पि उवगओ ।
24 दिट्ठो य तीए पुच्छिओ । 'कस्स तए समप्पियाइं ताइं माणुसाइं' ति । मए भणियं 'मायादेवी पियं करस्स समोप्पिया, 24
पियं करो वि मायादेवीए ति । अम्हे वि वच्चांमो च्चये सिग्गं' ति भणमाणा काऊण आवस्सयं संपत्ता संभंता जाव ण
पियं करो णा मायादेवि ति ।

27 § ३५१) तओ तं सुणं पएसं दट्टण मुच्छिओ अहं खणं च समासथो धाहाविउं पयत्तो । अवि य, 27
धावह धावह सुसिओ हा हा दुट्टेण तेण पुरिसेण । जीवाओ वि वल्लहिया मायादेवी अवहिया मे ॥
धावह धावह पुरिसा एस अणाहो अहं इहं सुसिओ । अवियाणय-सील-गुणेण मज्झ भइणीए दइएणं ॥
30 भइणी सुंदरि एण्हि साहसु अह कथं सो तुहं दइओ । घेत्तूण मज्झ जाया देसाओ विणिग्गओ होज्ज ॥ 30
किर तं सि महं भइणी सो उण भइणीवइ ति वीसथो । तं तस्स समप्पेउं पिय-दइयं णिग्गओ कजे ॥
जाव तुह तेण पइणा सील-विहूणेण णट्ट-धम्मणेण । साल-महिलं हरंतेण सुंदरं णो कयं होज्जा ॥

1 > J तीय, J om. ता. 2 > P om. मज्झ वयणेण, J om. णयरमज्जे, J शं for एवं. 3 > J तातस्स, P व नस्स विच्रप्यंतं, J तओ for अहो, P वगती पिम्म- 4 > P ताहं for अहं, P om. एयं, J om. ताओ, J जदि तुमं समादिससि ता इमरस अह वणिअस्स, P समाइससि. 5 > P जुत्तमिं कीरइ वयारो ति. 6 > P हं for अहं, P संमुहं, P ट्ठाणे. 7 > P चीरमला, P -सरीरो, J om. दुइय. 8 > J तीय, P जं for जा, P repeats तं, P om. पि. 9 > J तीय, P om. मए भणियं. 10 > P तुह for तुज्झ, J तीय, P तहा वि, J अम्हं. 11 > J मुहया for सुभगा, P om. य, P मणुयं for मणयं, P अपडुसरीरा, J जाया for संजाया, J om. य, P एतं. 12 > P om. इव कओ, P om. वि, P अलिय for अलिओ, J om. बलिओ. 13 > J तथ्य for जत्थ, P om. च, J तीय. 15 > J om. तुम्हं, P य सणीवीवइओ. 16 > P om. ति, J तीय. 17 > P अण्णमण्णं इचंछंति, J पुण for उण, P om. य, J मं for ममं. 18 > P om. च. 19 > J समोविऊण, P -विंसंभा. 20 > P समप्पिऊ गया, J भइणो, P om. पि. 21 > J adds ण after मए, P om. ति, J तीय, P सव्वकुसलहरं, J om. य, P व्व for य. 22 > J अभिलससि, P मम for मह. 23 > P गय, P पक्खिविऊण तस्सेय मग्गा, P पिय for पि. 24 > J तीय, J adds य after पुच्छिओ, P ताहं for तए, P समप्पिया. 25 > P मायादेवी इ ति, P om. च्चये, P भणमाणो, J ण सुहं करो णा. 26 > P om. णा. 27 > J inter. अहं & रूपं, J om. च, P सहाविउं for धाहाविउं, P om. अवि य. 28 > P सो for मे. 29 > J अविय ॥ णिय-, J भइणीय, P adds, after दइएणं ॥, भइणि सुंदरि एस अणाहो अहं इहं सुसिओ । and repeats the line अवियाणय etc. 30 > J भइणी P भइणि, P साहइ अह, P सो द तुह दइओ, P जायं, P अज्ज for होज्ज. 31 > J ममं for महं, J तीय for तस्स, J पिअ दुइयं. 32 > P सालमहलं.

- 1 तद्दृश्यं चिद्य मे गार्थं जह्या अवरोप्यरेण जंपता । किं-किं पि विहसमाणा जह एस ण सुंदरो पुरिसो ॥ 1
ता संपह कथ गभो कथ व मग्गामि कथ वच्चामि । जो चोरिऊण वच्चइ सो किर ओवल्लभए केणं ॥
- 3 ति भणमाणो पुणो पुणो वि अलियमलिय-दुक्ख-भर-मउलमाण-णयण-उवल्लो विमुक्क-णीसह-वेवमाण-सव्वंगो णिवदिओ 3
धरणिवट्टे । पुणो वि सो विलविडं पयत्तो ।
हा दइए हा मह वल्लहिए हा पिययमे अणाहो हं । कथ गया वर-सुंदरि साहसु तं ता महं तुरियं ॥ ति । अवि य ।
- 6 तुज्ज कएणं सुंदरि धण-जण-कुल-मित्त-बंधवे सव्वे । परिहरिए जीयंते तुमए पुण एरिसं रइयं ॥ 6
इमं च अलिय-पलवियं सोऊण मुद्ध-सहावाए चित्तियं वणिय-दारियाए जहा 'किर तेण मह पइणा इमस्स महिला उच्चालिऊण अणत्थ णीया होज्जा । ता एरिसो सो अणजो णिक्खिओ णिविणो णिहओ अणप्पणो कयग्घो पावो
- 9 चंडो चवलो चोरो चप्फलो पारदारिओ आलप्पालिओ अकज-णिरओ त्ति जेण मह भाउणो महिलं वलविऊण 9
कहिं पि चेत्तूण पलाणो त्ति । अवि य ।
तुज्ज कए परिचत्तो घर-परियण-बंधु-वग्ग-परिवारो । कह कीरउ एत्ताहे अणज भण विप्पियं एक्कं ॥
- 12 दइओ त्ति इमीए अहं मरइ विमुक्का मए त्ति णो गणियं । अह कुणइ मज्झ भत्ति भत्तो अवहत्थिओ कह णु ॥ 12
अह एस मह विणीया तुमए गणियं ण मूढ एयं पि । मोत्तूण ममं णिहय का होहिइ एरिसा महिला ॥
एस महं किर भाया एसा उण साल-महिलिया मज्झ । गम्मागम्म-विवेगो कह तुह हिययम्मि णो फुरिओ ॥
- 15 ता जो एरिस-रूवो माइल्लो कवड-कूड-णिण्णेहो । किं तस्स कएण अहं झिज्जामि असंभला मूढा ॥ 15
§ ३५२) जाव य इमं चित्तिडं पयत्ता ताव मए भणियं । 'सुंदरि, एरिसे ठिए किं कायव्वं' ति । तीए भणियं 'णाहं जाणामि, तुमं जाणामि किमेत्थ करणीयं' ति । भणियं च मए । 'सुंदरि,
- 18 ✓ को णाम एत्थ दइओ कस्स व किर वल्लहो हवइ को वा । णिय-कम्म-धम्म-जणिओ जीवो अह भमइ संसारं ॥ अवि य । 18
सव्वं इमं अणिच्चं धण-धणिया-विहव-परियणं सयलं । मा कुणसु एत्थ संगो होउ विभोगो जणेण समं ॥
सुंदरि भावेसु इमं जेण विभोगे वि ताण णो दुक्खं । होइ विवेग-विसुद्धो सव्वमणिच्चं च चित्तेसु ॥
- 21 ✓ जह कोइ मय-सिलिओ गहिओ रोवेण सीह-पोएण । को तस्स होइ सरणं वण-मज्जे इममाणस्स ॥ 21
तह एस जीव-हरिणो दूसह-जर-मरण-वाहि-सिंघेहिं । चेप्पइ विरसंतो चिय कत्तो सरणं भये तस्स ॥
एवं च चित्तयंतस्स तस्स णो होइ सालया बुद्धी । संसार-भट्ठिवग्गो धम्मं चिय मग्गए सरणं ॥
- 24 ✓ एस अणादी जीवो संसारो कम्म-संतति-करो य । अणुसमयं च स बज्जइ कम्म-महाकसिण-पंकेण ॥ 24
णर-तिरिय-देव-णारय-भव-सय-संबाह-भीसण-दुरंते । चक्काइद्धो एसो भमइ जिओ णत्थि से थामं ॥
ण य कोइ तस्स सरणं ण य बंधू णेय मित्त-पुत्तो वा । सव्वो चिय बंधुयणो अव्वो मित्तं च पुत्तं च ॥
- 27 सो णत्थि कोइ जीवो जयम्मि सयलम्मि जो ण जीयाण । सव्वान आसि मित्तं पुत्तो वा बंधवो वा वि ॥ 27
होऊण को वि माया पुत्तो पुण होइ दास-रूवो सो । दामो वि होइ सामी जणओ दासो य महिला य ॥
होऊण इत्थि-भावो पुरिसो महिला य होइ य णपुंसो । होऊण कोइ पुरिसो णपुंसयं होइ महिला वा ॥
- 30 एवं चउरासीई-जोणी-लक्खेसु हिंइए जीवो । रागदोस-विमूढो अण्णोणं भक्खणं कुणइ ॥ 30
अण्णोणं वह-बंधण-घाउखेवेहिं पावए दुक्खं । दुत्तार-दूर-तीरं एयं चित्तेसु संसारं ॥
एवं चित्तैतस्स य संसार-महा-अएण गहियस्स । णिव्वेओ होइ फुडं णिव्विणो कुणइ धम्मं सो ॥

1 > J तइउ, P पि वहसमाणी. 2 > P गभो जत्थ व, P ओवल्लभए णं के त्ति. 3 > J om. one पुणो, J जुअलो. 4 > J om. वि सो. 5 > P दयए, P om. हा मह, J adds हा before अणाहो, J कथ गयासि तुमं । अवि य. 6 > P जाण for जण, P रत्तियं. 7 > J -वलवियं (विलवियं ?), J जह किर. 8 > P उच्चालिऊण अणत्थ, P om. कयग्घो. 9 > P inter. चंडो & चवलो, P पारदारिओ आलपालिओ, J अयज्जणिरओ, P माइणो. 11 > P om. परिचत्तो धर, J परिआरो, J एयाए for एत्ताहे. 12 > P दइ त्ति इमीए हं, P भग्गो for भत्तो. 14 > P सा for साल. 15 > J तउ for ता, P माइण्णो, P inter. कूड & कवड, J महं for अहं, P असंभलाडा. 16 > P मए भणिओ ।, P ट्टिए, J तीय. 18 > J inter. णाम & एत्थ. 19 > P धणवणिया, J होइ विओओ. 20 > J विआए for विओगे, P विवो for विवेग, J 'णिच्चं ति चित्तेह. 21 > P को वि. 22 > P सिंघेण ।. 23 > JP om. तस्स, J सासता, J भट्टिवग्गो, P धंमो चिय. 24 > P अणाई, J -संततिकरो P संततिरो. 25 > J माणुस for णारय, P सो for से. 26 > P को वि तस्स, J तत्थ for तस्स, P णेय पुत्त मित्तो वा, J सव्वो for अव्वो. 27 > P को वि for कोइ. 29 > J पुरिसो, P होइ अणुपुरिसो ।, P णपुंसयं. 30 > J चउरासीती P चउरासीतिजोणि. 31 > J घायुखेवेहिं P घाउखेवेहिं, J एवं for एयं. 32 > P निव्वेओ होइ पुई, J से for सो.

- 1 ✓ एको विय एस जिओ जायइ एको य मरइ संसारे । ण य हं कस्तइ सरणं मह अण्णो णेय हो अत्थि ॥ 1
ण य मज्झ कोइ सरणं सयलो सयणो व्व परज्जो वा वि । दुक्खम्मि पत्थि विदिओ एको अह पच्चए णरए ॥
- 3 एवं चिंतैतीए भाविय-एगत्तणाए तुह एण्हि । सयणेसु अवेइ फुडं पडिबंधो सुट्टु वि पिएसु ॥ 3
ण य परज्जणेसु रोसो णीसंगो भमइ जेण चित्तेण । पारंपरेण मोक्खो एगत्तं चित्तए तेण ॥
- ✓ अण्णं इमं सरिरं अण्णो हं सब्बहा विचित्तेसु । इंदिय-रहिओ अप्पा सरिरयं सेंदियं भणियं ॥
- 6 अण्णं इमं सरिरं जाणइ जीवो वि सब्ब-भावाइं । खण-भंगुरं सरिरं जीवो उण सासओ पत्थ ॥ 6
संसारम्मि अण्णंते अण्णंत-रूवाइं मज्झ देहाइं । तीयाणि भविस्संति य अहमण्णो ताणि अण्णाणि ॥
- ✓ एवं चिंतैतीए इमम्मि लोगम्मि असुइ-सरिसम्मि । ण य होइ पढीबंधो अण्णसं भावए तेण ॥
- 9 अह भणसि कहं असुइं सरिरमेयं ति तं णिसामेहि । पढमं असुइय जोणी विइयं असुइत्तणं च तं अंते ॥ 9
असुइय-भायणमेयं असुइं-संभूइमसुइ-परिणामं । ण य तं तीरइ काउं जेण सुइत्तं इमं होइ ॥
- 12 पढमं चिय आहारो पक्खित्तो वयण-कुहर-मज्झम्मि । उल्लेज्जइ सेंमेण सेंभट्ठाणम्मि सो असुइं ॥ 12
तो पावइ पित्तेण अंबिल-रस-भाव-भावित्तो पच्छा । पावइ वायुट्ठाणं रस-खल-मेदे य कीरए तेण ॥
- 15 होइ खलाओ मुत्तं वच्चं पित्तं च तिविह-मल-मेओ । रस-मेओ पुण भणित्तो सो णियमा तीय सत्त-विहो ॥ 15
जो तत्थ रस-विसेसो रत्तं तं होइ लोहियं मासं । मासाओं होइ मेओ मेयाओ अट्ठिओ होति ॥
- 16 अट्ठीओ पुणो मज्जा मज्जाओ होइ सुक्क-भावेण । सव्वं च तं असुइयं सेंभादी सुक्क-पज्जंतं ॥ 16
णह-दंत-कण्ण-णासिय-अच्छी-मल-सेय-सेंभ-वक्खाणं । असुइं-घरं व सुंदरि भरियं राओ कहं होउ ॥
- 18 असुइंओ उप्पण्णं असुइं उप्पज्जइ ति देहाओ । गम्मे व्व असुइ-वासे असुइं मा बहुसु सुइ-वायं ॥ 18
उदु-काल-रुहिर-बिंदू-णर-सुक्क-सभागमेण पारइं । कललब्बुद-दब्बादी-पेसी संबद्धए एवं ॥
- 21 बाल-कुमारय-जोव्वण-मज्झिम-धेरत्त-सव्व-भावेसु । मल-सेय-दुरहि-गंधं तम्हा असुइं सरिरं तु ॥ 21
उव्वट्ठण-पहाण-विलेवणेहिं तह सुरहि-गंध-वासेहिं । सव्वेहिं वि मिलिएहिं सुइत्तणं कत्थ तीरेज्ज ॥
- 24 सव्व्हाइं पि इमाइं कुंकुम-कप्पूर-गंध-महाइं । ताव चिय सुइमाइं जा देहं णेय पावेंति ॥ 24
देहम्मि पुणो पत्ता खणेण मल-सेय-गंध-परिमिलिया । ओमालयं ति भण्णइ असुइत्तं जंति सव्वे वि ॥
- 27 तम्हा असुइ सरिरं सुंदरि भावेसु जेण णिव्वेओ । उप्पज्जइ तुह देहे लग्गसि धम्मम्मि णिण्णेहा ॥ 27
(चित्तेसु आसवाइं पावारंभाइं इंदियस्साइं । फरिसिंदिय-रस-विक्खिता बहुए पुरिसा गया णिहणं ॥
फरिस-सुहामय-लुद्धा वेगसरी गेण्हए उ जा गम्भं । पसवण-समए स चिय अह दुक्खं पावए घोरं ॥
बहु-करिणी-कर-कोमल-फरिस-रसासाय-दिण्ण-रस-लोलो । बज्जइ धारीबंधे मत्त-गओ फरिस-दोसेण ॥
- 30 इह लोए चिय दोसा परलोए होइ दुग्गई ताण । फारिसिंदिय-लुद्धाणं एसो जिडिभदियं सुण्णसु ॥ 30
(मय-हत्थि-देह-पविसण-रुंभण-वासोह-पत्त-उयहि-जले । जह मरइ वायसो सो धावंतो दस-दिसं मूढो ॥
हेमंत-धीण-घय-कुंभ-भक्खणे मूसओ जहोइण्णो । गिम्हम्मि विलीयंते मरइ वराओ रसण-मूढो ॥
गोट्टासण्ण-महइह-वासी कुम्भो जहा सुबीसत्थो । रसणंदिय-लोल-मणो पच्छा मारिज्जइ वराओ ॥
जह मास-पेस्सि-लुद्धो वेप्पइ सेणो झसो व्व बडिस्सस्स । तह मारिज्जइ पुरिसो मओ य अह दोग्गई जाइ ॥
घाण्हिए वि लुद्धो ओसहि-गंधम्मि बज्जए सत्थो । पल्लेण मूसओ वा तम्हा मा रज्ज घाणम्मि ॥
रूवेण पुणो पुरिसा बहुए णिहणं तु पाविया वरया । दीवेण पयंगो इव तम्हा रूवं पि वज्जेसु ॥

1) P जायति, P ण for य, P अह for मह. 2) P inter. मज्झ & कोइ, P om. सयलो, J सुयणो for सयणो, P सुवणो for व्व परज्जो, P बीओ for विदिओ. 3) P एग for एगत्तणाए, P सुयणेसु, J पडिबद्धो P पडिबद्धो, J सुट्टु वि, P पएसु. 4) P परज्जणेय रोसो, P भणइ जेण, P एगंतं. 5) J सेंदधं P सेंदियं. 6) J अयणं for अण्णं, J repeats after सासओ पत्थ ॥, a verse from above ण य परज्जणेसु रोसो etc. to चित्तए तेण and some other portion. 7) P om. अण्णंते, J तीयाणि, J अह अण्णो ताणं अणाईणि, P अहमत्ते. 8) J लोअंमि, J पढीबद्धो P पडिबंधो. 9) P असती सरिरमेत्तं, J सरिरमेत्तं, J वितियं, P चित्तिद for विइयं, P om. च तं. 10) P असुइं भोयणमेत्तं असुती, J संभूतअसइ, J जोण for जेण. 11) P सेंमेण संभट्ठाणंमि, J जो असुइं P सो असुती. 12) P अंबरसंभाव, J भावित्तो, P पावइ असुइट्ठाण, J रसविलंभतेण कीरए. 13) P मुत्तु वच्चं, J मलमाति for तिविहमलमेओ, J om. a line रसमेओ पुण etc. 14) J लोहिआ, J मेज्जो मेताओ, P अट्ठिए. 15) P पुणो मिज्जा मिज्जाओ, J सुक्कसंवेण P सुक्कमावे. 16) J नासिय, P om. अच्छी, J सेतसेंभवच्चारं, P सेत for सेंभ, P घरयं सुंदरि, P राउं, P होउ. 17) P असुतीओ, J उप्पज्जति, P गम्भो, P वासो असुती, J सुइवातं. 18) P उवकाल, J कललब्बुदवुहादी P करलंलब्बुदवुहादी. 19) J कुमार, J परंत for धेरत्त, J गंधे. 20) P सव्वेहिं मि मिलिएहिं मि, J महेहिं for मिलिएहिं. P कुंकुर, J चिय असुइअइं, P जावेहं. 22) J परिमलिया. 23) P om. जेण णिव्वेओ etc. to णिण्णेहा ॥ चित्तेसु, J विरया for विक्खिता. 24) P इंदियस्साइं. 25) P सुरहामय, J वेगसरीगेण्हए, J तु for उ. 26) P बहुकरिसरसायदिक्करस, P बज्जति, P महागओ. 27) P दुग्गती. 28) P वासोयपत्त, P दसदिसि. 29) P जहोइण्णा. 30) P लोकुमणो. 31) P वेप्पइ सयणो, J पडिस्सस्स P बडिस्सस्स, P वि for य. 32) P तम्हा मारेज्ज. 33) P पुरिसो, P पावया, J पतंगो.

- 1 सवर्णियिन्मि लोला तित्तिरय-कवोय-हरिणमादीया । पावंति अप्य-गिहणं तम्हा परिहरसु वूरेण ॥ 1
एवं भासव-भावं सुंदरि भावेसु सव्व-भावेण । पडिह्द-भासवो सो जेण जिओ मुच्चए तुरियं ॥
- 3 ✓ चित्तिसु संवरं चिय महव्वए गुत्ति-समिह्-गुण-भावे । एएहिं संसुतप्पा जीवो ण य बंधए पावं ॥ 3
✓ चित्तिसु गिज्जरं चिय णरए घोरम्मि तिरिय-मणुएसु । भवसस्स होइ दुक्खं पावं पुण बंधए गिययं ॥
जइ पुण सहामि एहिं परिसहे भीसणे य उवसन्ने । ता मज्झ होइ धम्मो गिज्जरं चिय कम्मस्स ॥
- 6 एहिं च रम्मए चिय थोरं दुक्खं ति चित्तियं एयं । मा णरय-तिरिय-मज्जे उहणं कण-बंधण-सएहिं ॥ 6
एवं चित्तेतीए परिसहोवह्वेहिं णो चलस्ति । धम्मम्मि घडस्ति तुरियं गिज्जरं भावए एवं ॥
✓ पंचस्थिकाय-मइयं पोग्गल-परिणाम-जीव-धम्मादी- । उप्पत्ति-णास-ठाणं इय लोगं चित्तए मतिमं ॥
- 9 एवं चित्तेतस्स य लोए तत्तं च पेहमाणस्स । संजम-जोए बुद्धी होइ थिरा णाय-भावस्स ॥ 9
एसो अणादि-जीवो संसारो सागरो च्च दुत्तारो । णर-तिरिय-देव-णारय-सएसु अइ हिंइए जीवो ॥
✓ मिच्छत्त-कम्म-मूढो कइया वि ण पावए जिणाणस्ति । चित्तिसु दुल्लहत्तं जिणवर-धम्मस्स एयस्स ॥
- 12 § ३५३) एवं च भो सुरासुर-णरवरिंदा, मणिरह-कुमार तुमं च गिसुणेसु । एवं च साहिए सयल-संसार-सहावे 12
तभो आगय-पुव्व-बुद्धीए जाया अवगय-पेम्म-राय-महग्गहा अंपिउं पयत्ता ।
तं णाहो तं सरणं तं चिय जणओ गुरु तुमं देवो । पेम्म-महा-गह-गहिया जेण तए मोइया एहिं ॥
- 15 भणमाणी णिवडिया चलणेसु । मए वि भणिया 'सुंदरि, एरिसो संसार-सहावो किं कीरउ त्ति ता संपयं पि तं कुणसु 15
जेण एरिसाणं संसार-दुक्खाणं भायणं ण होसि' त्ति भणिए सुंदरीए भणियं ।
ता पसिय देव मज्जं आप्सो को वि दिज्जउ असंकं । किं संपइ करणिज्जं किं वा सुकयं कयं होइ ॥
- 18 त्ति भणिए मए भणियं । 18
सुंदरि गंतूण घरं दिट्ठीए ठविऊण गुरुयणं सयलं । जिणवर-कहियं धम्मं पडिवज्जसु सव्व-भावेण ॥
पडिवज्जसु सम्मत्तं गेणहसु य महव्वए तुमं पंच । गुत्तीहिं होसु गुत्ता चारित्ते होसु संसुत्ता ॥
- 21 णाणेण कुणसु कज्जं सीलं पालेसु कुणसु तव-जोगं । भावेसु भावणाओ इय कहिओ भगवया धम्मो ॥ 21
एयं काऊण तुमं सुंदरि कम्मेण विरहिथा तुरियं । जत्थ ण जरा ण मच्च तं सिद्धिं पावसे अइर ॥ त्ति ।
एवं च भो मणिरह-कुमार, संबोहिया सा मए सुंदरी घरं गया । कम्मो वणिएण महुसवो । पयट्ठो य णयरे वाओ
- 24 'अहो कुमारेण पडिबोहिया एस' त्ति । ता भो भो मणिरह-कुमार, जो सुंदरि-जीवो सो तम्मि काले लड-सम्मत्त-नीओ 24
मरिऊण माणभओ जाओ, पुणो य पउमसारो, पुणो कुवलयचंदो, पुणो बेरुलियप्पओ, पुणो एस मणिरह-कुमारो त्ति ।
जो उण सो वणियउत्त-जीवो सो इमं संसारं भमिऊण एस वणे वणमई जाओ त्ति । तुमं च इट्ठूण कइं कइं पि
- 27 जहा-णाणेण तुह उवहिं पुव्व-जाई-णेहो जाओ' त्ति । 27
§ ३५४) एवं च भगवया सयल-जय-जंतु-जम्म-मरणासेस-बुत्तंत-सक्खिणा साहिए विण्णत्तं मणिरह-कुमारेण ।
'भगवं, एवं णिमं, ता ण कज्जं मह इमिणा भव-सय-रहइ-बडी-सरिसेणं जम्म-जरा-मरण-णिरंतरेण संसार-वासोणं त्ति ।
- 30 देसु मे सिव-सुह-सुहयं पव्वजा-महारयणं' ति भणमाणेण कयं पंच-मुट्ठियं लोयं । दिक्खिओ भगवया मणिरह-कुमारो त्ति । 30
एयम्मि अवसरे पुच्छियं भगवया गोयम-गणहरेणं 'भगवं, संसारि-जीव-मज्जे को जीवो दुक्खिओ' त्ति । भगवया भणियं
'गोयम, सम्मादिट्ठी जीवो अविरओ य णिच्चं दुक्खिओ भणिओ' । गोयमेण भणियं 'भगवं, केण उण कजेणं' ति ।
- 33 भगवया भणियं । 33

1 > J सवर्णिदिजं पि लोला P सवर्णिदि लोला, J तित्तिरय कवोतहरिणयादीया, P तित्तरकाओयहरिणं, P अप्यहगिहणं प तम्हा परिहरसु. 2 > J सव्वहावेण. 3 > JP तिय for चिय, P adds तुरियं before गुत्ति, J समिति, P समिति, J एतेहिं. 5 > P होउ for होइ. 6 > J अण्णे व्व रंमई विय for एहिं एतो., P दहणं. 7 > P एवं च चित्तेती परी, J एज्जं for एवं. 8 > P परिमाणजीव, J धम्माती, P द्वाणं, J लोअं. 10 > P अणाइ, P णायर for णारय, P आ for अह. 11 > P ढो for मूढो, P जिणाणं ति. 12 > P नरिवरिंदा, J adds य after णरवरिंदा, J मणिरहकुमारं, J om. तुमं, J om. च after एवं, P सयले, P -सहावो. 13 > P om. तभो आगय-पुव्व एतो. to एरिसो संसारसहावो before किं कीरउ. 15 > P om. तं before कुणसु. 16 > P एरिसारं, J inter. भायणं & ण, J होमि. 17 > P संकं for असंकं, J कइं for कयं. 19 > P चित्तेतीए for दिट्ठीए. 20 > P गुत्तीसु, P गुत्तो. 21 > J तवजोअं. 22 > P दूरं for तुरियं, P तत्थ for जत्थ, P पावए, J अइर ॥ इति. 23 > P om. च भो, P om. य, J ततो for वाओ. 24 > J कुमारा जो सुंदरीजीओ, P adds सो before सुंदरि. 25 > J पउमप्पओ for पउमसारो, P कुवलयचंदो, P मणिरकुमारो. 26 > J वणियउत्तो P वणियउत्त, P om. इमं, P मयी for वणमई. 27 > P जहा-णेण, P -जाती. 28 > P यंम for जम्म, P सक्खिणो. 29 > P मिमं for णिमं, J भवसायरहइवडो- P भवसायरअरहइवडो, P मरणे. 30 > P मि for मे, P सिवसुहयं. 31 > J adds पुणो before पुच्छियं, J om. गोयम-, P -गणहरिणा, P संसार जीवाण मज्जे जीवो. 32 > P गोयम संगमदिट्ठी अविरओ निच्चं, J अविरतो, J उ for उण.

- 1 'जो होइ सम्मदिट्टी जाणइ णर-तिरिय-अणुय-वियणाओ । पेच्छइ पुरओ भीमं संसार-भयं च आवेइ ॥ 1
ण य कुणइ विरइ-भावं संसार-बिमोक्खणं खणं पि णरो । अणुइबइ णरय-दुक्खं अणुदिण-वहुंत-संतावो ॥
- 3 एएण कारणेणं अविरयओ सम्मदिट्टि-जीवो उ । सो दुक्खियाण दुहिओ गोयम अह भणइ जयम्मि ॥ 3
गणहारिणा भणियं 'भगवं, सुहियाण को जए सुहिओ' ति । भगवया भणियं ।
सुहियाणं सो सुहिओ सम्मदिट्टी जयम्मि विरओ य । सेसा उण जे जीवा ते सव्वे दुक्खिया तस्स ॥
- 6 गणहरेण भणियं 'भगवं, केण कजेण' । भगवया भणियं । 6
'जो होइ सम्मदिट्टी विरओ सव्वेसु पाव-जोगेसु । चित्तेण होइ सुद्धो ण य दुक्खं तस्स देहम्मि ॥
जिणवयणे वट्ठतो वट्ठइ जइ-भणिय-सुत्त-मग्गेण । अवणेइ पाव-कम्मं णवयं च ण बंधए सो हु ॥
- 9 संसार-महाजलहिं तरियं पिव मण्णए सुचित्तेणं । अत्ताणं पुण पत्तं सिद्धि-पुरिं मण्णए सहसा ॥ 9
सारीरे वि हु दुक्खे पुव्व-कए णरिय एथ अण्णं तु । ण य भाविजइ तेहिं ण य दुक्खे माणसे तस्स ॥
इय गोयम जो विरओ सम्मदिट्टी य संजयप्पाणो । सो सुहिओ जीवाणं मज्जे जीवो ण संदेहो ॥ भणियं च ।
- 12 देव-लोगोवमं सोक्खं दुक्खं च णरओवमं । रयाणं अरयाणं च महाणिरय-सारिसं ॥ ति । 12
एवं बहुयाइं पण्हावागरण-सहस्साइं कुणता भविय-सय-संबोह-कारए अदूर-ववहिय-अंतरिय-सुहुम-तीयाणागय-वट्टमाण-
वुत्तताइं साहिजणं समुट्ठिओ भगवं सव्व-जय-जीव-बंधवो महत्ति-महावीर-वट्टमाण-जिणिंदयंदो ति ।
- 15 § ३५५) ताव य उवगया णियय-ठाणेसु देव-दाणव-णरवरिंदा, अण्णे उण उप्पण-धम्ममाणुराय-परमत्था अणुयाया 15
सुरासुर-गुरुणो जिणवरिंदस्स । भगवं पि णिट्ठविद्य-अट्टकम्मइ-समुप्पण-णाण-धरो विहरमाणो सावर्धि पुरवरिं संपत्तो ।
अण्णम्मि य दियहे समोसरिओ भगवं, तेणेय समवसरण-विरयणा-कमेणं समागया सुरासुर-मुणि-णाणिंदा । णिग्गओ
- 18 सावत्थी-वत्थव्वओ राया रयणंगओ साहिउं च समाढत्तो संसार-महासागर-तीर-पारयं धम्मं । एवं च साहिए सयले 18
धम्मं जाणमाणेणावि अबुइ-जण-बोहणत्थं पुच्छिओ भगवया गोयम-रिसिणा तिरथयरो ति । भणियं च तेण ।
सो चिय वच्चइ णरयं सो चिय जीवो पयाइ पुण सगं । किं सो चिय तिरिणसुं सो चिय किं माणुओ होइ ॥
- 21 सो चेय होइ बहिरो अंधो सो चिय केण कम्मेणं । होइ जडो मूओ वि हु पंगू अह ईसर-दरिहो ॥ 21
सो चिय जीवो पुरिसो सो चिय इत्थी णपुंसओ सो य । अण्णाज दीहाज होई अह दुम्मणो रूवी ॥
केण व सुहओ जायइ केण व कम्मेण दूहवो होइ । केण व मेहा-जुत्तो दुम्महो कह णरो होइ ॥
- 24 कह पंडियओ पुरिसो केण व कम्मेण होइ सुक्खत्तं । कह धीरो कह भीरू कह विजाा णिफला तस्स ॥ 24
केण व णासइ अत्थो कह वा संगलइ कह थिरो होइ । पुत्तो केण ण जीवइ केण व बहु-पुत्तओ होइ ॥
जच्चंधो केण णरो केण व सुत्तं ण जिजइ णरस्स । केण व कुट्टी खुज्जो कम्मेण केण व अस्सत्तो ॥
- 27 केण दरिहो पुरिसो केण व सुकण्ण ईसरो होइ । केण व रोगी जावइ रोग-विहूणो हवइ केण ॥ 27
संसारो कह व थिरो केण व कम्मेण होइ संखित्तो । कह णिवडइ संसारे कह बद्धो मुच्चण जीवो ॥
सव्व-जय-जीव-बंधव सव्वणू सव्व-दंसण-मुणिंद । सव्वे साहसु एयं कस्स व कम्मस्स कज्जमिणं ॥
- 30 § ३५६) इमं च पुच्छिओ भगवं तियसिंद-सुंदरी-वंदिज्जमाण-चलणारविंद-जुयलो साहिउं पयत्तो । अवि य । 30
गोयम जं मे पुच्छसि एक्को जीवो इमाइं सव्वाइं । पावेइ कम्म-वसओ जइ तं कम्मं णिसामेसु ॥
जो मारओ जियाणं अलियं मंतेइ पर-धणे हरइ । परदारं चिय वच्चइ बहु-पाव-परिग्गहासत्तो ॥
- 33 चंडो माणत्थद्धो मायावी णिट्ठरो खरो पावो । पिसुणो संगह-सीलो साहूणं णिंदओ अधमो ॥ 33

1 > P सम्मदिट्टी, P-वियणातो, J भवेति. 2 > J कुणति विरति-, P सदतावो for संतावो. 3 > J एतेण, J अविरतओ P
अविरओ, P संमदिट्टी जो जीवो, J तु for उ, J गोतम, P जग्गि ॥ 6 > P om. केण कजेण, P या for भगवया. 7 > P
संमदिट्टी, J-जोयमु. 8 > P वट्ठतो, J भणित-, P मग्गेणे, P बंधते साहू ॥ 9 > J सचित्तेण, P सिद्धिपुरिं. 10 > P कए एथ
नत्थिअं तु, P माणसो. 11 > J गोतम सो विरतो संजयप्पणो, P सम्मदिट्टी. 12 > J देवलोगोयमं P देवलोउवमं, J
णरयोवमं, J रताण अरताणं च महाणरय सरिसं, P-सरिसं. 13 > J सहस्साहि, J-ववहित P-ववहिय for ववहिय, J सुहुमती-
ताणागत, P-तीताणागय. 14 > P महती-, P वट्टमाण. 15 > P-ट्टाणेसु. 16 > P जिणिंदस्स, P निट्ठविद्य, P om. अट्ट, P
कम्मसमुप्पन्न, J-णाणवरो. 17 > P om. य, P तेणेव, P समोसरयणाकमेण, J-विरयाणा-. 18 > P-वत्थतुव्वओ, P राया
हरणंगओ साहिउं समाहा सागरतीर-, J सयले for सयले. 19 > P जीणमाणेणावि, J यबुइ for अबुइ, P om. जण, P भगवं for
भगवया, J गोतम, P om. गोयमरिसिणा तिरथयरो ति । भणियं च तेण. 20 > J adds भयवं before सो चिय, J om. सो चिय
before जीवो, P पयाति. 21 > P सो चिय, J सो चेअ कजेण, P बेय कम्मेणं, P मुओ, P पंगू दोसो य सो जीवो. 22 > P
होइ. 23 > J दूहओ, P होति. 24 > P पंडिओ य पुरिसो. P होइ दुक्खत्तं. 25 > J संखित्तो, P व for ण. 26 > J
जिज्जय, J कुज्जो for खुज्जो, J केण अवसत्तो. 27 > P केण व कम्मेण दुक्खलो ईसरो होति । 28 > P-संखित्तो, P बुद्धो for
बद्धो. 30 > J adds वंदिअ after वंदिज्जमाण. 31 > J गोदम, J om. पावेइ, P निसामेह. 32 > P मारेओ. 33 > P
माणो धट्टो मायावी, J णिट्ठरुक्खरो, P निदिओ अहम्मो.

- 1 आलप्याल-पसंगी दुट्टो बुद्धीं जो कयग्यो य । बहु-दुक्ख-सोय-पठरे मरिउं णरयम्मि सो जाइ ॥ 1
कज्जथी जो सेवइ मितं कय-कज्जो उज्जए सवो कूरो । पिसुणो मइ-दुम्मइओ तिरिओ सो होइ मरिउण ॥
- 3 अज्जव-मइय-जुत्तो अकोहणो दोस-वज्जिओ सउओ । ण य साधु-गुणेषु ठिओ मरिउं सो माणुसो होइ ॥ 3
तव-संजम-दाण-रओ पयइए महवो किवालू य । गुरु-विणय-रओ णिअं मओ वि देवेषु सो जाइ ॥
जो चवलो सड-भावो माया-कवडेहिं वणए सुवणं । ण य कस्सइ वीसरथो सो पुरिसो महिलिया होइ ॥
- 6 संतुट्ठा सुविणीया य अज्जवा जा थिरा हवइ णिअं । सअं जंपइ महिला पुरिसो सा होइ मरिउण ॥ 6
आसं वसइ पसुं वा जो लंछइ वडियं पि हु करेइ । सो सव्वाण वि हीणो णपुंसओ होइ लोगम्मि ॥
मारैइ णिइय-मणो जीवे परलोयं णेय मण्णए किंपि । अइ-संक्किलिट्ट-कम्मो अप्पाऊ सो भवे पुरिसो ॥
- 9 मारैइ जो ण जीवे दयावरो अभय-दाण-परितुट्ठो । दीहाऊ सो पुरिसो गोयम भणिओ ण संदेहो ॥ 9
देइ ण णियथं संतं दिण्णं हारेइ वारए देतं । एएहिं कम्मएहिं भोगेहिं विवज्जओ होइ ॥
सयणासण-वत्थं वा पसं भक्खं च पाणयं वा वि । हियएण देइ तुट्ठो गोदम भोगी णरो होइ ॥
- 12 अगुणो य गव्विओ चिय णिंदइ रागी तवस्सिणो धीरि । माणी विअंओ जो सो जायइ वूहवो पुरिसो ॥ 12
गुरु-देवय-साधूणं विणय-परो संत-दंयणीओ य । ण य कं पि भणइ कडुयं सो पुरिसो जायए सुमगो ॥
तव-णाण-गुण-समिद्धं अवमण्णइ किर ण-याणए एसो । मरिउण सो अउण्णो दुम्मोहो जायए पुरिसो ॥
- 15 जो पडइ सुणइ चित्तइ अण्णं पाडेइ देइ उवएसं । सुद-गुरु-भत्ती-जुत्तो मरिउं सो होइ मेहावी ॥ 15
जो जंत-दंड-कस-रज्ज-खग्गा-कौतेहिं कुणइ वियणाओ । सो पावो णिक्करुणो जायइ बहु-वेयणो पुरिसो ॥
जो ससे वियणसे मोयावइ बंधणाओ मरणाओ । कारुण-दिण्ण-हियओ थोवा अइ वेयणा तस्स ॥
- 16 मारैइ खाइ पियह य किं वा पडिएण किं व धम्मेण । एयं चिय चित्तंते मरिउणं काहलो होइ ॥ 16
जो उण गुरुयण-सेत्री धम्माधम्मइ जाणितं महइ । सुय-देवय-गुरु-भत्तो मरिउं सो पंडिओ होइ ॥
विज्जा विण्णाणं वा मिच्छा-विणएण गेण्हउं पुरिसो । अवमण्णइ आयरियं सा विज्जा णिप्फला तस्स ॥
- 21 बहु मण्णइ आयरियं विणय-समगो गुणेहिं संजुत्तो । इय जा गहिया विज्जा सा सहला होइ लोगम्मि ॥ 21
देमि त्ति ण देइ पुणो आसं काउण कुणइ विमुहं जो । तस्स कयं पि हु णासइ गोयम पुरिसस्स अहमस्स ॥
जं जं इट्ठं लोए तं तं साहूण देइ सअं तु । थोवं पि मुणइ सुकयं तस्स कयं णो पणस्सेज्ज ॥
- 24 जो हरइ तस्स हिज्जइ ण हरइ जो तस्स संचओ होइ । जो जं करेइ पावं विवरीयं तस्स तं होइ ॥ 24
पसु-पक्खि-मणूमाणं बाले जो विप्पउंजइ सकामं । सो अणवच्चो जायइ अइ जाओ तो विवजेज्ज ॥
जो होइ दया-परमो बहु-पुत्तो गोदमा भवे पुरिसो । असुयं जो भणइ सुयं सो बहिरो जायए पुरिसो ॥
- 27 अदिट्ठं चिय दिट्ठं जो किर भासेज्ज कह वि मूढप्पा । जअंधो सो जायइ गोदम एएण कम्मेण ॥ 27
जाइ-मउम्मत्त-मणो जीवे विक्रिणइ जो कयग्यो य । सो इंदभूइ मरिउं दासत्तं वणए पुरिसो ॥
जो उण चाइ विणओणओ य चारिस्स-गुण-सयाइण्णो । सो जण-सय-सम्माओ महिद्धिओ होइ लोगम्मि ॥
- 30 जो वाहेइ णिसंसो छाउव्वायं च दुक्खियं जीयं । सीयंत-गत्त-संधिं गोदम सो पंगुलो होइ ॥ 30
महु-घाय-अग्गि-दाहोदहणं जो कुणइ कस्सइ जियस्स । बालाराम-विणासो कुट्ठी सो जायए पुरिसो ॥
गो-महिस्स-पसुं करहं अइभारारोवणेण पीडेइ । एएण णवरि पावेण गोदमा सो भवे खुज्जो ॥
- 33 उच्चिद्धमसुंदरयं पूहं जो देइ अण्ण-पाणं तु । साहूण जाणमाणो अुत्तं पि ण जीरए तस्स ॥ 33

1 > J बुद्धीय, P बहुसोगदुक्खपठरे, P जायइ ॥ 2 > P उज्जए, J मयगुम्मइओ. 3 > J उज्जय for अज्जव, P दीस for दोस, J साधुणेषु, P सुद्धु for साधु, P ट्ठिओ. 4 > P मइओ for महवो, P जायइ for जाइ. 5 > P सुवणो । 6 > J सुविणीया, P om. य, P अज्ज विज्जा, J अतिथरा for जा थिरा, P सो for सा. 7 > J आसकसइ, J बुद्धिअं for वडियं, J सव्वाण णिहीणो, J लोगम्मि. 8 > P om. जीवे. 9 > J गोदम. 10 > J एतेहिं, P कंमेहिं. 11 > P भत्तं च पाणियं, J देइ दुट्ठो, P om. गोदम, P सोगी for भोगी. 12 > P अगुणे वि गव्विओ, P धीरो, P मोणी for माणी, J दूहगो. 13 > P साधूणं, P सुइओ. 15 > P सुयगुरु. 16 > J दण for दंड. 17 > J थोआ. 18 > P मारियह, P खाइ पीयह किं, P om. चिय. 21 > P सफला, J लोयंमि. 22 > P त्ति न देमि, J गोदम. 23 > P देइ दवं हु, P पणसेज्जा. 25 > P माणुसाणं, J विप्पयुंजइ P विप्पउंजइ, P विवजेज्जा. 26 > P गोयमा, J असुत्तं, J सुत्तं. 27 > J अदिट्ठं, P किर for चिय, P गोयम, P एतेण. 28 > J मयुम्मत्तमणो P मणोमत्तमाणो, J विक्खिणइ, J इंदभूती. 29 > P उण चादी विणओ य, J विणओणतो, J उण for जण, P सयसमइओ, J लोयंमि. 30 > J सीयंत, P संधी गोयम. 31 > J घात, P को for जो, P कस्स वि. 32 > P पसू करमं, P गोयम पसो. 33 > P उच्चिद्धमं, J पूतं, P पुवं for पूहं, P भत्त for अण्ण, P पि न जिज्जए.

- 1 लहु-हृत्थदापे धुत्तो कूड-गुला-कूड-माण-भेडेणे । ववहरइ गियडि-बहुलो तस्सेगं हीरए अंगं ॥ 1
कुडुड-तित्तिर-लावे सुधर-हरिणे य अहव सव्व-जिए । धारेइ गिच्च-कालं गिच्चुविग्गो हवइ भीह ॥
- 3 ण य धम्मो ण य जीवो ण य पर-ल्लोगो ति णेय कोइ रिसी । ह्य जो जंपइ मूढो तस्स थिरो होइ संसारी ॥ 3
धम्मो वि अत्थि लोए अत्थि अधम्मो वि अत्थि सव्वण्णू । रिसिणो वि अत्थि एवं जो मण्णइ सो ण संसारी ॥
सम्मत्त-गाण-वंसण-ति-गुणेहिं इमेहिं भूसिय-सरीरो । तरिऊण भव-समुदं सिद्धि-पुरिं पावए अइरा ॥
- 6 § ३५७) एवं च साहिए भगवया तियसिंद-सुरिंद-परिवंदिय-चलणारविंद-जुयलेण तभो सव्वेहि मि कर-किसल- 6
यंजली-वळिय-भालवट्टेहिं भणियं तियसिंद-गरिंद-पमुहेहिं । 'अहो, भगवया साहिणो सयल-जय-जंतु-जम्म-जरा-मरण-
अरहइ-घडी-परिवाडी-कारण-वित्थरो' ति । एत्थंतरम्मि समागभो पलंब-दीह-भुयप्फलिइ-मणोहरो पिहुल-वच्छत्थलं-
9 दोलमाण-मुत्ताहल-हार-रेहिरो बहुद-कसिण-कंत-कौतल-कलावो गंडयल-विलसमाण-मणि-कुंडल-किरण-पडिप्फलंत-दिणयर- 9
कर-संघाभो, किं च बहुणा,
वेळहल-ललिय-बाहू वच्छत्थल-रेहमाण-हारिल्लो । समवसरणे पविट्ठो देवकुमारो ध्व कोइ णरो ॥
- 12 तेण य 'जय जय' ति भणमाणेण ति-पयाहिणी-कभो भगवं छजीव-णिकाय-पिय-बंधवो जिणिंदो । पायवडणुट्टिएणं भणियं 12
तेणं । 'भगवं,
दिट्ठं सुयमणुभूयं रयणी-मज्झम्मि जं मए अजं । तं साहसु किं सुमिणं महिंदजालं व सव्वं वा ॥'
- 15 भगवया भणियं । 15
'देवाणुपिया सव्वं सव्वं ति जं तए दिट्ठं । जोगिंदयाल-कुहयं णरवर सुविणं पि हु ण होइ ॥'
एवं च भणिय-मेत्ते गुरुणा तक्खणे चेष तुरिय-पय-णिकखेवं णिगगभो समवसरणाभो दिट्ठो य तिय-वलिय-वलंत-कुवल-य-
18 दल-दीहराहिं दिट्ठि-भालाहिं तियसिंदप्पमुहेहिं जण-समूहेहिं । एत्थंतरम्मि जाणमाणेणावि भगवया गणहारिणा पुच्छिभो 18
भगवं महावीरो । 'भगवं,
को एस होज्ज पुरिसो किं वा दिट्ठं सुयं व राइए । जं पुच्छइ मह साहसु किं सुमिणं होज्ज सव्वं वा ॥'
- 21 इमम्मि य पुच्छिए सव्वेहिं सुरिंदप्पमुहेहिं भणियं 'भगवं, अम्हाणं पि अत्थि कोऊहलं, ता साहउ भगवं, करेउ 21
अणुगगं' ति भणिय-मेत्ते गुरुणा भणियं ।
§ ३५८) 'अत्थि इभो णाइदूरे अरुणाभं णाम पुरवरं, जं च विरियणं पि बहु-जण-संकुलं, अणंतं पि रम्मोववण-
24 पेरंतं, महंतं पि फरिहा-वल-य-मज्झ-संठियं, थिरं पि पवण-बंधल-धयवडं ति । तम्मि य णयरे रणगइंदो णाम राया । 24
सो य सूरुो धीरो महुरो पबल्लो दक्खो दक्खिणो दया-दाण-परायणो ति । तस्स य पुत्तो कामगइंदो णाम । सो य
कामी काम-गय-मणो कामतो काम-राय-रइ-रत्तो । कामेणं कामिज्जइ काम-गइंदो सहावेण ॥
- 27 तस्स य बहूणं पि मज्जे महिलाणं वल्लहा एक्का राय-दारिया पियंगुमदी णाम । अह अण्णम्मि विथहे रायपुत्तो 27
मज्जिय-जिमिय-विलित्तो महादेवीए सह मत्त-वारणए णिसण्णो आलोएंतो णयर-जण-विहव-विलासे अच्छिउं पयत्तो ।
तेण य तहा अच्छमाणेण एक्कम्मि वणिय-वरोवरि-कोट्टिमे एक्का वणिय-दारिया कुमारी कंदुव-कीला-वावडा दिट्ठा । तं च
30 दट्ठणं चित्तियं कामगइंदेण । 'अहो, पेच्छ पेच्छ वणिय-धूयाए परिहृत्थणं । जेण 30
ता वलइ खलइ वेवइ सेय-जलं फुसइ बंधए लक्खं । सुरय-पडुय व्व बाला कंदुय-कीलाए वट्टंती ॥
एवं पेच्छमाणस्स काम-महाराय-वसयस्स गुरुभो से अणुराभो समुप्पणो । अवि य ।
- 33 होइ सुरूवे पेम्मं होइ विरूवे वि कम्मि वि जणम्मि । मा होह रूव-मत्ता पेम्मस्स ण कारणं रूवं ॥ 33
तभो पासट्टिय-महादेवीए बीहमाणेण कयं आयार-संवरणं । तीय य तं सयं लक्खियं तस्स पेम्म-च्चिंतं । तभो तस्स
रायउत्तस्स तं ज्ञायंतस्स हियए उव्वेवो जाओ, ण य पुच्छिओ वि साहइ । पुणो तीए चित्तियं । 'किं पुण इमस्स

1) P हृत्थयाह धत्तो. 2) P तित्तिलावे, P अइ for अह, P गिच्च, P भवइ for हवइ. 3) P जीवो नयरल्लोगो. 4) P अहम्मो. 5) P सिद्धिपुरी. 6) P जुलेण, P om. मि, P करयंजली. 7) JP भालवट्टेहिं, J -पमुहेहिं, P मययल, P om. जम्म. 8) P अरिहट्टघटी; P दीहरंतभुयफलिइ, J मणोहर. 9) J om. हार, J कुंतला-, P गंडल-, P om. मणिकुंडलकिरण, P -परि-फलंत. 11) P बाहुवच्छलरेहिमाणहारिल्लो, J को वि णरो. 14) J सुतमणुभूतं, P तं कहयसु किं सु किं सुमिणं अरिंदियालं व, 16) P सुविणं मिहु. 17) P तक्खणं चिय, J om. य, P तिवलिय-. 18) P प्पमुहेहिं जणेहिं. 20) P inter. एस & होज्ज, P रातीय. 21) P इमं पुच्छिए, J अत्थि कुऊहलं, P साहइ, P करेइ. 22) P मयणियमेत्ते. 23) J इतो, J अरणहं, P पुरवं for पुरवरं, P रम्मोववणा-. 24) P रयणगइंदो, J om. धीरो. 25) J om. दया. 26) P कामगयणो कामतो कामराया, P कामगयंदो. 27) P om. य, P पियंगुमती णामा, P रायउत्तो. 28) P जिमियविलित्तो, P आलोयंतो णरजण. 29) P तह for तहा, J वणिदारिया. 30) P कामगयंदेण, J वणिअधूताए, P परिहृत्थणं. 31) P पडुय. 33) P सुरूवपेम्मं, P अकारणं for ण कारणं. 34) J सयलं for सयं, P adds तं before पेम्म. 35) P ज्ञायंतस्स, P उव्वोओ,, P साहइइ, J तीय.

- 1 उब्बेय-कारणं होज । अहवा जाणियं मए सा च्चेय कंदुय-रमिरी वणिय-दुहिय ति । ता दे अवणेमि से उब्बेवंति 1
चित्तिऊण पियंगुमईए सदाभिया तीय दारियाए माया । सा तीए भणिया 'रायउत्तस्स देसु धूदं' ति । तीय
3 वि दिण्णा, उब्बूदा य । तओ तुट्टेण कामगइंदेण भणिया महादेवी 'अहो, लक्खिओ तए भावो मम, ता भण 3
भण किं ते वरं देमि' । तीए भणियं 'जह सच्चं देस्सि, ता भणाभि' । तेण भणियं । 'भण णीसकं, अवस्स देमि' ति
भणिए, तीए भणियं ।
- 6 'जं किंचि तुमं पेच्छसि सुणेसि अणुहवसि एत्थ लोगम्मि । तं मज्झं तए सच्चं साहेयव्वं वरो एमो ॥' 6
तेण भणियं 'एवं होउ' ति । तओ एवं च ताणं अच्छमाणाणं अण्णम्मि दियहे समागओ एक्को चित्तयर-दारओ ।
तेण य पडे लिहिया समप्पिया चित्त-पुत्तलिया । सा य केरिसी । सयल-कला-कलाव-कुसल-जण-वण्णणिज्ज ति ।
- 9 तं च दट्टूण भणियं कामगइंदेण 'अहो, सच्चं केणावि भणियं । त्रीण्येते नरकं यान्ति राजा चित्रकरः कविः ।' 9
तेण भणियं 'देव, किं कारणं' । राहणा भणियं ।
पुहईए जं ण दीसह ण य होहिह्णेय तस्स सब्भावो । तं च्चेय कुणह्ण राया चित्तयरो कवियणो तहओ ॥
- 12 अलियस्स फलं णरयं अलियं च कुणंति तिण्णि ते पुरिसा । वच्चंति तेण णरयं तिण्णि वि एए ण संदेहो ॥ 12
तओ चित्तयर-दारएण भणियं । 'देव, विण्णवेमि ।
राया होह सतंतो वच्चउ णरयम्मि को णिवारेह् । जं चित्त-कला-कुसलो कइं य अलियं पुणो एयं ॥
- 16 सत्तीए कुणह्ण कच्चं दिट्ठं व सुयं व अहव अणुभूयं । चित्त-कुसलो वि एवं दिट्ठं च्चिय कुणह्ण चित्तम्मि ॥' 16
§ ३५९) भणियं कामगइंदेण ।
'जह दिट्ठं चित्तयरो अह रूवं कुणह्ण ता विरुद्धमिणं । कथं तए दिट्ठमिणं जं रूवं चित्तियं पडए ॥'
- 18 तेण भणियं 'णणु देव, दिट्ठं मए लिहियमिणं' । राहणा भणियं 'कहिं ते दिट्ठं' । तेण भणियं । 18
उज्जेणीए राया अत्थि अवंति ति तस्स धूयाए । दट्टूण इमं रूवं तहूउ च्चिय विलिहियं एत्थ ॥'
तं च सोऊण राया पुणहत्तं पलोइउं पयत्तो जाव पेच्छइ णिइं पिव मण-णयण-हारिणी, निलोत्तिमं पिव अणमिस-
- 21 दंसणं, सत्तिं पिव हियय-दारण-पच्चलं, सगपुरिं पिव बहु-पुण्ण-पावणिज्जं, सुइ-पक्ख-पढम-चंदं पिव रेहा-विसुइं, 21
महाराय-रज-वित्तिं पिव सुविभत्त-वण्ण-सोहियं, धरणिं पिव ललिय-दीसंत-वत्तिणी-विरयणं, विवणि-मग्गं पिव माण-जुत्तं,
जिणाणं पिव सुपइट्ठिय-अंगोवंगं सुंदरि ति । अवि य ।
- 24 भंतूण मयण-दंहे मस्सिणं मुसुमूरिऊण अमएण । चित्त-कला-कुसलेणं लिहिया पूणं पयावइणा ॥ 24
तं च दट्टूण राया खणं थंभिओ इव ज्ञाण-गओ इव सेलमओ इव आसि । पुणो पुच्छियं 'अहो एसा किं कुमारी' । तेण भणियं
'देव, कुमारी' । राहणा भणियं ।
- 27 'भुमय-धणु-कालवट्ठा सिय-पम्हल-दीहरच्छि-बाणेहिं । मारेंती भमइ जणं अहो कुमारी ण सा मारी ॥' 27
भणमाणो राया ममुट्ठिओ । कयं कायव्वं पुणो । दंसिया महादेवीए, भणियं च तेण 'सुंदरं होह, जह एसा कुमारी पाविजइ'
ति । पुणो मंतीहिं भणियं । 'देव, णियय-रूवं चित्तवडए लिहावेसु, तेणय चित्तयरएण पुणो तं च्चेय पेसेसु तत्थ जेण
- 30 राय-धूया तं दट्टूण सयं च्चेय तं वरेहिइ' ति भणिए मंतीहिं तं च्चेय णिरुवियं । लिहिओ कामगइंदो । णिग्गओ 30
चित्तयर-दारओ, संपत्तो उज्जेणीए, दंसिओ राय-दुहियाए, अभिरुइओ हिययस्स । साहियं रण्णो अवंतस्स जहा
'अभिरुइओ इमीए पुरिसहेसिणीए रायधूयाए कामगइंदो णाम रायउत्तो' । इमं च सोऊण अवंतिणा 'अहो, सुंदरं
- 33 जायं जं कथं वि चित्तस्स अभिरुइं जाया' । दिण्णा तस्स । जायं वद्धावणयं । 'एहि परिणेषु' ति संदिट्ठो पयट्ठो 33

1 > P कंदुय, J रमिणी. 2 > P पियंगुमतीए, J माना, J ती for तीए, P भणिया उत्तस्स, P धूय ति. 3 > P om. one भण.
4 > J तीय, P om. भणियं, P निरसकं. 5 > J तीय. 6 > P om. सुणेसि, J लोअम्मि, J साहेतव्वं P सायव्वं. 7 > P
एक्को for एक्को. 8 > P पडिलेहिया, P om. कला, P कुसला, P वण्णणिज्जति. 9 > J तुण्येते, J याति. 10 > P om. देव.
11 > J पुहईअ, P inter. पुहईए & जं, J होहिति, P om. णेय, P adds होह after तस्स, J संभवो (followed by जस्स
written on the margin), P चेव, P कइयणो. 12 > P कुणंति ति ति पुरिसा, J एते. 14 > P होति, P वच्चइ, P
adds वि after को. 15 > P भत्तीए for सत्तीए, J सुतं, J अणुभूतं. 17 > P इह for अह, P विरुद्धमण. 18 > P कइं
ति दिट्ठं. 19 > P inter. राया & अत्थि, J धूयाए, P धूणइ मं for धूयाए, P om. दट्टूण इमं, J तत्थ for एत्थ. 20 > P या
for राया, J पलोइउं, P मणियणहारिणी, P अणमिस-. 21 > P सत्तं for सत्तिं, P दारण, J om. पक्ख. 22 > P गुविहत्त, P पि
for पिव, J वत्तणी. 23 > J अंगोवंग P अंगोवंगु. 24 > P इंतूण for भंतूण, P पयाविहिणा. 25 > P ज्ञाणगओ. 27 >
P मुमइ, P पत्तल for पम्हल, P बाणेणि । मारेंती, P कुमारी. 29 > P णियरूवं, P चित्तपडए, P लेहाविय तेणय चित्तयरेण पुणो, P
adds तं after जेण. 30 > J वरेहिति, P वरेहिति, P च्चेय नियरूवं गहिओ कामगइंदो. 31 > J चित्तयरओ, P उज्जेणीए, P साहिउं.
32 > J अभिरुइओ P अभिरुविओ, J रायधूयाए. 33 > P कथं चित्तत्तस्स अभिरुवी.

- 1 कामगद्दो तं परिगेडं समं महादेवीए बहु-खंधावारेण य । ह्यो णाहदूरे समावासिओ । ताव य अर्थं गओ बहु- 1
जण-समूहेक-लोयणं स्रो । तओ राईए कय-कायव्व-वावारी खंधावार-जणो बहुओ पसुत्तो, को वि जामइओ, को
3 वि किं पि गायइ, अण्णो अण्णं किं पि कुणइ ति । एवं च राईए दुइए जामे पसुत्तो राया पडंके समं महादेवीए 3
जाव विउडो केण वि अउव्व-कोमल करयल-फरिसेणं, चित्तिडं च पयत्तो । 'अहो, एरिसो मए फरिसो ण अणुहुय-
पुव्वो ति । सब्बहा ण य कोइ इमं सामणं माणुस-फरिसं' ति चित्तयंतेण विहडियाइं गियय-लोयणंदीवराइं जाव पेच्छइ
6 दुवे कुमारीओ पुरओ टियाओ । 6

§ ३६०) केरिसाओ पुण ताओ । अवि य ।

- एक्का रणत-गेउर-णच्चिर-चलणगा-रेहिर-पयारा । अण्णा णिहित्त-जावय-रस-राय-मिलंत-कंतिहा ॥
9 एक्का कोमल-कयली-थंभोरु-जुण्ण जियइ तेलोकं । अण्णा करि-कर-मासल-लायण्णपीण-जंविहा ॥ 9
एक्का गियंय-गरुइं रणत-रसणा मणं वियारेइ । अण्णा पिहुल-कडियला घोलिर-कंची-कलाविहा ॥
एक्का मडंद-मज्जा तिवलि-तरंगेण रेहरा सुयणू । अण्णा मुट्टिगोज्जे अह मज्जं वहइ रहसेण ॥
12 एक्का णामी-वेदं महाणिहाणस्स वहइ वयणं व । अण्णा लायण्णामय-वावि-सरिच्छं समुव्वहइ ॥ 12
एक्का माल्ल-थणी किंचि-समुत्तिभण्ण-रोम-राइहा । अण्णा कविट्ट-सरिसा पयहर-जुवलेण रेहिहा ॥
एक्का मुणाल-कोमल-बाहु-लया सहइ पल्लव-करिहा । अण्णा णव-लय-बाहा पउम-दलारत्त-पाणिहा ॥
15 एक्का मियंय-वयणा रुइराहर-रेहमाण-वयणिहा । अण्णा सयवत्त-मुही कुवलय-दल-वियसमाणच्छी ॥ 15
एक्का पियंगु-वण्णा रेहइ रयणेहिं भासरच्छाया । अण्णा वर-चामीयर-णिम्मविया णजए बाला ॥
इय पेच्छइ णरणाओ संभम-कोउहलेक-तल्लिच्छे । दोणहं पि ताण रूवं कामगद्दो रइ-दिहीणं ॥

- 18 § ३६१) चित्तियं च णरवइणा । 'अहो 18

किं होज्ज रइ-दिहीओ किं सिरि-हिरि-रंभ-उव्वसीओ व्व । किं वा सावित्ति-सरस्सइओ अच्वो ण-याणामो ॥'
इमं च चित्तिउण भणियं राइणा । अवि य ।

- 21 'किं माणुसीओ तुम्भे किं वा देवीओ किं गरीउ व्व । किं वा विजाहर-बालियाओं साह मह कोउयं एत्थ ॥' 21
ताहिं भणियं ।

'विजाहरीओ अम्हे तुह पासं आगयाओ कजेणं । ता पसिय कुणसु कजं आसा-भंगो ण कायव्वो ॥'

- 24 राइणा भणियं । 24

'आसंधिउण घरमागयाण पणइण कज-हिययाण । सुंदरि आसा-भंगो ण कओ म्ह कुलम्मि केणावि ॥'
ताहिं भणियं ।

- 27 'जइ ण कओ तुम्ह कुले आसा-भंगो कहं पि पणइण । ता भणसु तिणिण वयणे कजं तुम्हाण कायव्वं ॥' 27
राइणा चित्तियं । 'ण-याणीयइ किं ममाओ इमे पर्येहिंति । अहवा

- जं ण पणइण दिज्जइ भुज्जइ भित्तेहिं बंधु-वग्गेण । आ सत्तमम्मि वि कुले मा हो अम्हाण तं होउ ॥

- 30 सत्तेण होइ रजं लभंति वि रोहणम्मि रयणाइं । णवर ण कहिं पि कथं वि पाविज्जइ सज्जणो पणइं ॥ 30

विजाहर-बालाओ महुरा मुद्धाओ गुण-समिद्धाओ । कं पर्येति इमाओ मं चिय मोत्तुण कय-पुण्णं ॥

ता जइ मग्गंति इमा धण-रजं विहव-परियणं बंधुं । सीसं व जीवियं वा तं चिय मे अज्ज दायव्वं ॥'

- 33 ति चित्तयंतेण भणियं णरिंदेण 'सुंदरि इमं तुम्हेहिं भणियं जहा भणसु तिणिण वयणे ति । अवि य । 33

जइ पढमं चिय वयणं होइ पमाणं णिरत्थया दोणिण । अह ण पढमं पमाणं णिरत्थयं सेस-लक्खं पि ॥

सब्बहा भणह तं कजं' ति

1 > P कामगद्दो, P बंधकंधावारी णीहरिओ णाहदूरे, J इतो, 2 > P रातीए, J वउउ for बहुओ. 3 > P अन्नं पि, P एवं गतीए, J सुत्तो for पसुत्तो. 4 > J विउडो, J फरिसेणं, P फरिसो अणुभूय-. 5 > J om. य, P adds किं पि before इमं, J माणुस-हरिसं, P लोवणिदीवराइं. 6 > P पुरट्टियाओ. 7 > J om. केरिसाओ पुण ताओ. 8 > P -कुंतिहा. 9 > P जुवेण, J जिणेइ for जियइ, P मंसल्लायणापीण, J *पील. 10 > J गरुइ, P मयं for मणं, P कलत्ता for कडियला. 11 > J -मज्जा, P तरंगेण रेहरे अण्णा । अत्रापे मुट्टिगोज्जे, J अप्यज्जं for अहमज्जं, P inter. अह & मज्जं. 12 > P णामीवेदं. 13 > J समुत्तिण P सुभित्त for समुत्तिभण्ण, J पय for पयहर, P पओहरजुवेण. 14 > P अण्णाणव, P -वाहो पउदलारत्त. 15 > P रेहिमाण, P कुवलयदलयदलवियसमाणच्छी ॥ 16 > P भासरच्छाया. 17 > P कामद्दो. 19 > P om. किं before सिरि, J रंभ-सीउव्व P रंभव्व उव्वसीउ, P सावित्ति, J adds सवित्ति after सावित्ति. 21 > J किं विजाहरबालिया सोहइ मह, P साहइ मह. 24 > P रायणा. 25 > P केणावि ॥ 27 > J तुम्ह for अम्ह. 28 > P णताणियइ किं ममाओ ममच्छेहि ति । 29 > P ज ण पणदीण दिज्जइ, P भित्तेण. 30 > P विराहणंमि, P ता भण for णवर ण, P ममं च for मं चिय. 32 > J इमे (or इमं) for इमा, P बंधू, P जीविसं वा. 33 > P चित्तियंतेण, J तुम्भेहिं, P तिणि वयणे. 34 > P om. ण पढमं.

1 § ३६२) तार्हि भणियं । 'जह एव ता सुणसु । अत्थि इओ उत्तर-दिसा-भाए सच्च-रयण-णिम्मिओ पज्जरंत- 1
 कंचण-घाऊ-रसा पिंजर-कडएक-वेसो दरि-सुह-रममाण-विजाहर-मिहुण-सुंदरो वार्जिदणील-मरगाय-भूसिय-कडओ सिद्ध-
 3 भवणोवरि-विहण-धवल-धयवड-रेहिरो णाणा-विह-पज्जलंत-दित्तोसही-सय-मंढिओ वेयडो णाम पव्वय-वरो । तत्थ 3
 य दोणिण सेटीओ, उत्तर-सेटी दाहिण-सेटी य । तत्थ विजाहराण णिवासो । तत्थ रायउत्त, उत्तर-सेटीए सुंदराणंदमंदिंरं णाम
 णयरं । तं च कुमार, बहु-मंदिंर-सुंदरं बहु-पुरिस-सेवियं बहु-महिलायण-मणहरं बहु-रयण-रेहिंरं बहु-जलासय-परिगयं
 6 बहु-कुसुमिओववणं, किं बहुणा, बहु-वयण-वण्णणिज्ज-सरुवं । तत्थ य राया पुहईसुंदरो णाम, सो य बहु-वण्णणिज्जो । 6
 तस्स य महिला महादेवी मेहला णाम । तीय धूया समुप्पण्णा, तीए णामं बिंदुमती । सा उण चउरा महुरा दक्खा
 दक्खिण्णा दयालू रुविणी सोहरगंत-विण्णाण-णाणा-कला-कोसलेणं सव्वहा असरिसा पुहईए महिलायणेण बहु-वास-
 9 कोडि-बीवणेहिं पि पंडिय-पडिय-पुरिसेहिं अलइ-गुण-समुह-पार ति । ता कुमार, किं बहुणा जंपिएणं, सा य 9
 पुरिसदेसिणी जाया, रुव-विहव-विलास-पोरुस-माहप्प-जुत्ते वि णेच्छइ विजाहर-बालए । पुणो जोव्वण-वसं च वट्टमाणी
 गुरु-जणेण भणिया । 'अहो गेण्हसु सयंवरं भत्तारं कं पि जं पावसि' ति भणिया भमिउं समाढसा । तत्थेक्कम्मि
 12 दिवहे तीए भणियं 'हला वयंसीओ, एहि, दाहिण-सेटी-दाहिण-संसिए उववणाभोए परिभमामो' ति । अम्हे वि 12
 'एवं होउ' ति भणंतीओ समुप्पइयाओ धोय-खग-णिम्मलं गयणयलं, अवहण्णाओ य एक्कम्मि गिरि-वर-कुहर-काणणं-
 तरम्मि । तत्थ रममाणीहिं णिसुयं एक्कं किण्णर-मिहुणयं गायंतं । तं च णिसामिऊण दिण्णं सविसेसं कण्णं जाव ।
 15 तेहिं गीया इमा गीदिया । अवि य । 15

रूवेण जो अणंगउ संगय-वेसो जसेण लोयम्मि । कत्तो कामगइंदउ लब्भइ वट्टुं पि पुण्ण-रहिएहिं ॥

§ ३६३) इमं च सोऊण पियसहीए भणियं 'हला हला एवणवेगे, पुच्छसु इमं किण्णर-जुवलं को एस, कत्थ
 18 वा कामगइंदओ, जो तुम्हेहिं गीओ' ति । अहं पि 'जहाणवेसि' ति भणिऊण उवगया पुच्छियं च तं किण्णर-जुवलं 18
 'को एस कत्थ वा कामगइंदओ जो तुम्हेहिं गीओ' ति । तओ तीए किण्णरीए भणियं ।

किं विजाहर-बाले सुणेसि कण्णेहिं पेच्छसे किंवि । जह सव्वमिणं सच्चं कामगइंदो कहं ण सुओ ॥

मए भणियं । 21

21

'तण्णाया सि वियट्ठा इमिणा परिहास-वित्थरेण्ये । ता सहि साहसु मज्झं कामगइंदो कहिं होइ ॥

तीए भणियं 'जह तुह कामगइंदेणं कज्जं, ता पुच्छसु इमं' ति । पुच्छिओ किण्णरो । तेण भणियं । 'अत्थि रयणाहं
 24 पुरं । तत्थ रणगइंदस्स पुत्तो कामगइंदो णामं । सो एरिसो जेण तस्स चरिय-णिबंधाहं दुवई-खंड-थड-जंभेट्टिया-चित्त- 24
 गाहा-रुवयाहं संपयं सयल-किण्णर-गणेण गिज्जंति । इमं च सोऊण रायउत्त, णिवेइयं मए बिंदुमइए । तप्पभूइं च
 सा केरिसा जाया । अवि य सरवरुत्तारिय व्व कमलिणी, थल-गय व्व सफरुल्लिया, मोडिया इव वण-रूया, उक्खुडिया
 27 इव कुसुम-मंजरी, विउत्ता विव हंसिया, गह-गहिया इव चंदलेहिया, मंताहया इव भुयंगिया, ण कुणइ आलेक्खयं, 27
 ण गुणइ णइयं, ण मुणइ गीययं, ण पठइ वागरणं, ण लिहइ अक्खराहं, ण पेच्छइ पोत्थयं, ण वायइ वीणं, ण जवइ
 विज्जं । केवलं मत्ता इव परायत्ता इव सुत्ता इव गह-गहिया इव मया विव भणिया वि ण भणइ, दिट्ठा वि ण
 30 पेच्छइ, चलिया वि ण चलइ, णवरं पुण अकारणं वच्चइ, आलेक्खं णियच्छइ, अकज्जं कुणइ, णिहयं उट्टइ, विभभणं 30
 उट्ठाइ, अमणं ज्ञायइ, दुम्मणं गायइ, दीहं णीससइ, सहियणं णिंदइ, परियणं जूरइ, गुरुयणं हसइ । किं च कइया
 वि हसइ, कइया वि रुवइ, कइया वि धावइ, कइया वि गाइ, कइया वि चलइ, कइया वि वलइ, कइया वि सुणइ ।
 33 कइया वि कणइ ति । किं च बहुणा । 33

1) J सव्वरयदमणिच्चित्तो. 2) J धातूरसा P धाओ रसो, P हरि for दरि, P वज्जंदनील, J भूसियकडगु. 3) J पिइण for विहण, P दित्तोसहि, J सम for सय. 4) P राय for रायउत्त. 5) P महिला for मेहला, J धूता. 6) J कुसुमिउववयणं, J repeats बहु, P वक्कणिज्जं, J पुहईसुंदरो, J बहुदिअहवण्णणिज्जो. 7) P महिला for मेहला, J धूता. 8) P om. दक्खिण्णा, J सोहरगणविण्णाण, P om. णाणा, P om. सव्वहा, J असरिस, P पुहतीए. 9) P पडिय, P समुहं. 10) P माप्य for माहप्प, P बालाए, P om. च. 11) P गुरुयणेण, J भणिअं P भणिय for भणिया, P भत्ताइं । किं पि, J भणिउं for भमिउं, P तत्थेक्कम्मि. 12) P om. एहि दाहिणसेटी, P adds च before उववगां. 13) P गयणयत्तं. 14) P रममाणहिं. 15) तेहिं गीइया इमा गीया । 16) P अणंगओ संसयवेसो, P कामगइंदो. 17) P पवणवेए, P किन्नरजलयं । सो एस. 18) P तुमेहिं, P भमिऊण गया, P जुवलं । को एस कामगइंदो ति । तओ. 20) J -बाला, P सुणेसु, P पेच्छसि, J सुणसु for ण सुओ ॥ 22) J वियडो, P वित्थरेण्ये । 23) P कामगइंदेण. 24) P रणगरं इंदरस, P जेणस्स चरिय निवद्धां, P दुवइखंडवडजंतेहि य वित्तगाहा. 25) J सयलकिण्णरयणे गिज्जइ ति । P सयलं किन्नरगणगणेण, J बिंदुमतीए, J तप्पभूइं च. 26) P adds य before केरिसा, P सरवरुत्तारिय, P वया for वणलया, J उक्खुडिया P उक्खुडिया. 27) P om. विउत्ता, P मंताहया, P कुणइयालक्खयं ण कुणइ. 28) P वायरणं. 29) P मत्ता विव, P परायत्ता, P परात्ता विव, P मया इव. 30) P om. पुण, P वच्चाइ, J om. णिहयं उट्टइ, P om. विभभणं उट्ठाइ. 31) P ज्ञायइ दुम्मणं, P किं च कइया. 32) J सइ for रुवइ, P दार for धावइ, P om. कइया वि वलइ, J सुणेइ for सुणइ. 33) P कइ वि भणइ ति, P om. च.

- 1 सा बलइ खलइ वेवइ जूरइ सोएण परिगया होइ । भीय व्व सुहव-सुद्धा कामगइंदस्स णामेण ॥ 1
तओ मए जाणियं इमाए कामगइंदो वाही, कामगइंदो चिय ओसहं । अवि य ।
- 3 जो किर भुयंग-डको डंके अह तस्स दिजए महुंरं । एसा जणे पउत्ती विसस्स विसमोसहं होइ ॥ 3
त्ति चित्तयंतीए मए भणिया माणसवेणा इमा 'हला, इमीए कामगइंदो परं वेजो पियसहीए' । ततो कामगइंदो त्ति सहायणणेण केरिसा जाया । अवि य ।
- 3 उळ्ळ-दिण्ण-हियया कामगइंदस्स सुहय-सहेण । तंडविय-कण्ण-वण-हत्थिणि व्व ततो-सुही जाया ॥ 6
तओ मउय-मंजु-महुरक्खरालावं तीए पलसं । अवि य ।
पियसहि अत्थि विसेसो इमिणा मंतेण मम य वाहिस्स । पीयक्खराइं जं मे कामगइंदो त्ति ता भणसु ॥
- 9 तओ रायउत्त, अम्हेहिं मंतियं हिययाणुकूलत्तणं कीरंतीहिं । चिरइओ इमो अलियक्खरालावो मंतो । अवि य । ओं । 9
सरलो सुहओ दाया दक्खो दयालु दक्खिण्णो । अवणेउ तुज्ज वाहिं कामगइंदो त्ति हुं साहा ॥
तओ कुमार इमिणा य मंत-गोत्त-कित्तणेण केरिसा जाया पियसही । अवि य ।
- 12 सुक्कोदय-तणु-खेजण-कड्डयालय-बलिय व्व सा सुहय । तुह सूर-गोत्त-किरणेहिं ताविया मरइ व फुडंती ॥ 12
तं च तारिसं दट्टूण चित्तियं अम्हेहिं । सव्वहा,
काम-भुयंगम-डक्का अइकाय-विसोयलंत-विहलंगी । धीरिजइ कामगइंद गरुल-मंतेहिं जइ णवरं ॥
- 15 इमं च चित्तयंतीहिं सा भणिया 'पियसहि, तुमं अच्छसु । अम्हे गंतूण तत्थ जो सो कामगइंदो तं अडमत्थिउण इहाणेमो, 15
जेण पिय-सहीए वाही अवणेइ' त्ति । तीए मणिय-सणियं भणियं । अवि य ।
'वच्चह दुवे वि वच्चह एक्को दूओ ण जाइ वेज-घरे । दाउण वि णिय-जीयं करेह तह तं जहा एइ ॥'
- 18 तओ इमं च वयणं सोऊण अम्हेहि 'तह' त्ति पडिवण्णं । तओ एकमिम वियड-गिरिवर-कुहर-सिलायलमिम विविह-चंदण- 18
कप्पतरवर-साहा-लयाहरए विरइओ मत्थरो सरस-परोरुह-दलेहिं । तत्थ णिक्खिविउण समुप्पइयाओ कुवल्लयवभंतर-दलंत-
णीलं गयणयलं । तओ कुमार, पेच्छंतीओ विविह-णगरागर-णइ-गाम-तरु-गहण गोउल-जलामयं पुहईयलं ति संपत्ता य
- 21 इमं पएसं । तओ ण-याणिमो कत्थ सा णयरी जत्थ तुमं होहिसि, कत्थ वा तुमं पावेयव्वो त्ति । इमस्स य अत्थस्स 21
जाणणत्थं आहूया भगवइं पण्णत्ती णाम विज्जा, विण्णविया य 'साहसु कत्थ उण कामगइंदो अम्हेहिं दट्टव्वो'
त्ति । भगवईय वि आणत्तं जहा 'एस अहो, खंधावार-णिवेसे संपयं' ति । इमं च णिभामिउण अम्हे अवहण्णाओ
- 24 संपयं 'वेव, तुहायत्तं पियसहीए जीवियं' ति । तओ कामगइंदेण चित्तियं 'अहो, अइगरुया कामावत्था वराइए' । 24
भणियं च मए जहा 'अवस्सं कज्ज तुम्हाणं कायव्वं' ति । चित्तयंतेण भणियं 'ता संपयं भणह को एत्थ उवाओ,
जेण ए पिय-सही जीएज्ज' । ताहिं भणियं । अवि य ।
- 27 'एक्को परं उवाओ काम-करेणए सुंदरं होज्ज । कामगइंद-करालिहण-फरिस-सुह-संगमोवाओ ॥ 27
ता मा विलंबसु, उट्टेसु संपयं जइ कह वि जीयंतिं पेच्छसि पियसहिं । अवि य ।
तुज्जाणुराय-हुयवह-जाला-हेलाहिं सा विलुट्टंगी । एत्तिय-मेत्तं वेलं सुद्धा जइ दुक्कं जियइ ॥'
- 30 § ३६४) कामगइंदेण भणियं 'जइ अवस्सं गंतव्वं ता साहेमि इमीए महादेवीए' । तओ ताहिं भणियं 30
'एरिसो तुमं राया मव्व-णीइ-कुसलो लोयं पालेमि जेण महिल्लाण रहस्सं म्हासि । किं ण सुओ ते जणम्मि एसो
तंतक्खणे य सिलोओ । अवि य ।

1 > P बलइ for खलइ, P जूरइ for जूरइ, P सेएण for सोएण. 2 > P मे for मए, J मए for इमाए, P वही for वाही.
3 > J दंसे for डंके, J पयुत्ती. 4 > P चित्तयंनं, J om. मए, J इमाए for इमा, P वर for परं, P पियसहिए, J तओ कामगइंद
त्ति सहायणणेण. 6 > P अइव for सुहाय, P तट्टुट्टियकत्त. 7 > P मंजुर for मंजु. 8 > J इमय P इमस्स for मम य
(emended), P बीइक्खराइ जं मि क्खामगइंदो, J जंमि for जं मे. 9 > J om. कीरंतीहिं, J अलियक्खरालावो, P क्खरालावो, J
उडं P ओ for ओ. 10 > JP दाना, JP दयालु, P उवणेओ for अवणेउ, P वाही कामइंदो हुं स्वाहा ॥. 12 > J सुखेदयतणु,
P सा सुहाया, J फुरंती ॥. 16 > P बाहिं, J तीय, P om. मणिय सणियं. 17 > J दूतो, P वेज्जहरे, J करेसु. 19 > P
साहलयाहरए, P trans. मत्थरो after -दलेहिं, P दलं for दलंतणीलं. 20 > J णगणत्रा for णगरागरा, P पुहतीयलं, P संपइत्ता
इमं. 21 > P adds कत्थ व तुमं होहिसि after तुमं होहिसि, P व for वा, J पावेयव्व त्ति, P om. य. 22 > J आहूता, P
भगवती, P om. कामगइंदो अम्हेहिं दट्टव्वो etc. to जीवियं ति । तओ. 24 > P वरातीए. 25 > J जहावस्सं, P तेण for चित्तयंतेण.
26 > P पियसहीए, J जीएज्ज. 27 > P कामगइंदक्खलिहणफरिस. 28 > P जीयंती, P पेच्छमि पियसही. 29 > P विलुट्टंती.
31 > J णीति- P निती, J किण्ण P तेन for किं ण. 32 > J तक्खण य preceded on the margin by पंचत्तं (in a
later hand).

1 'नीयमानः सुपर्णेन नागः पुण्डरिकोऽब्रवीत् । वः स्त्रीणां गुह्यमालम्ब्याति तदन्तं तस्य जीवितम् ॥' 1
 2 ता मा साहसु णारीणं रहस्सं' ति । तेण भणियं 'सच्चमिणं, किंतु अत्येत्थ कारणं, कर्हिं पि कारणंतरे तथा-तुट्ठेण मए
 3 वरो इमीए दिण्णो जहा 'जं किंचि सुविणं पि तं मम साहेयच्चं । मए 'तह' ति पडिचणं । ता एस महंतो बुत्तंतो । 3
 विजाहर-लोय-गमणं अवस्सं एस साहेयच्चो' ति । तार्हिं भणियं 'जइ एवं ता साहसु, किंतु अवस्सं गंतच्चं' ति ।
 पडिबोहिया महादेवी । तीए साहियं सयलं बुत्तंतं । 'ता दइए, संपयं वच्चामि अहं तस्य' । तीए भणियं 'जारिसं
 6 चेष महाराइणो रोयइ तारिसं चेष कुणउ, को पडिबंधं कुणइ देवस्स । केवलं इमाओ दिव्वाओ विण्णवेमि' । 6
 बद्ध-करयलंजलीए भणियं देवीए । अवि य ।

'विजाहरीओ तुब्भे देवीय व विण्णवेमि ता एकं । एसो तुज्जं णासो अप्पेजसु मज्ज दीणाए ॥'

9 ति पडिया पाएसु । 'एवं होउ' ति भणमाणीहिं आरोविओ विमाणम्मि । उप्पइया तमाल-दल-सामलं गयणयलं । 9
 देवी वि उप्पाडिय-फणि-मणि-रयणा इव फणा, उक्खुडिय-कुसुमा इव कुसुम-मंजरी, उड्डीण-इंसा इव णल्लिणिया,
 अचंदा इव रयणिया, दिणयर-कर-विरह-विओय-विमणा इव चक्काय-वालिय ति सुविणं पिव, इंदयालं पिव, कुहयं
 12 पिव, चक्खु-मोहणं पिव, परलोयं पिव, दिट्ठं पिव णिसुयं पिव अणुहूयं पिव मण्णमाणी चित्तिउं पयत्ता । 'कस्म 12
 साहामि, किं भणामि, किं मा भणामि, किं करेमि, किं वा ण करेमि, कथं वच्चामि, को एस बुत्तंतो, कहां गओ,
 किं गओ, काओ ताओ, एरिआ मणुस्सा, विसमा विसयाता, भीसणो णेह-रक्खओ, रोदो विरह-भुयंगमो, एरिमाओ
 15 कवड-बहुल-पत्तल-दल-समिद्धाओ होंति महिलाओ महाविस-वल्लीओ ति । अवि य । 15

किं होज्ज इमं सुमिणं दिट्ठी-मोहं व किं व अण्णं वा । कइया पुण पेच्छामो अवहरिओ माए देवीहिं ॥'

§ ३६५) जाव य इमाइं अण्णाणि महादेवी विइतेइ ताव य थोवावसेसिया रयणी जाया । अवि य ।

18 जह जह झिज्जइ रयणी दइय-विउत्ता वि मुद्धड-कवोला । तह तह झिज्जइ देवी गयणं-मुह-दिण्ण-दिट्ठीया ॥ 18
 तओ एवं च गयणंगण-दिण्ण-णीलुप्पल-दल-सरिस-दीहर-दिट्ठीए दिट्ठं देवीए विमाणं । तओ णल्लिणी-वण-दंसणेण व
 रायइंसिया, अहिणव-जलय-वंद-हरिसेण व बरहिण-वालिया, अवर-सरवर-नीरागमेण व रहंगस्स रहंगिय ति । तं पेच्छ-
 21 माणीए ओवइयंतम्मि पएसंतरम्मि दिट्ठाओ ताओ सुंदरीओ कामगइंदो य, ओइण्णो विमाणाओ, णिसण्णो सयणवट्ठे । 21
 भणियं तार्हिं विजाहरीहिं । अवि य ।

'देवि इमो ते दइओ णिकखेवो अइह जो तए णिहिओ । एस महत्थेणं चिय पणामिओ मा हु कुप्पेज ॥'

24 ति भणंतीओ समुप्पइयाओ धोय-खग्ग-सामलं गयण-मगं । राया वि दिट्ठो देवीए अणहय-सरीरो । तओ किं सो किं 24
 वा अण्णो ति चिंतयंतीए पुलइयाइं असाहारणाइं लक्खण-वंजणाइं जाव जाणियं सो चेष इमो नि । चिंतियं च देवीए ।
 'संपयं एस दीण-विमणो विव लक्खीयइ' ति । 'ता किं पुच्छामि । अहवा दे पुच्छामि' ति चिंतयंतीए पायवडणुट्ठियाए
 27 सविणयं पुच्छिओ कामगइंदो । 'देव, भणइ कहां तस्य तुमं गओ, कहां वा पत्तो, किं वा दिट्ठं, किं वा अणुहूयं, कहां वा सा 27
 विजाहरी पाविया । बहु-कोऊहल-संकुलो य विजाहर-लोओ, ता पसीय सव्वं साह मज्जं' ति भणिए राया साहिउं
 समाठत्तो । अत्थि इओ समुप्पइया अइहे मुसुमूरियं जण-पुंज-सच्छमं गयणयलं । तओ देवि, अउच्च-णहयल-गमण-रहस-
 30 पसरमाण-गमणुच्छाओ विमाणाओ गंतुं पयत्तो । तओ इमम्मि सरय-काले राईए गयणयल-गमण-वेएणं किंचि 30
 दीसिउं पयत्तं । अवि य ।

1 > P नीयमानो सुपर्णेन राजा नागाधियो ब्रवीत्, J सुपर्णेन, J तदंतं जीवितमिति. 2 > P adds मि after कारणं, J om. कर्हिं
 पि, P कारणे for कारणंतरे, J om. तथा. 3 > P दिण्णो तथा जं किं पि सुविणं मि तं. 5 > J तीय, J inter. साहियं & सयलं, P
 तावइए, J तीय. 6 > P च for चेष, P को वि पडिबंधं, J करेइ for कुणइ, P om. दिव्वाओ. 7 > P करयंजलीए. 8 > P देवीमु
 व, P मित्थं for एकं, P उप्पेजसु. 9 > J आरोवितो, P आरोविओ माणंमि. 10 > J हणा for फणा, P उक्खुडिया इव, J om.
 कुसुम. 11 > P रयणीय, P om. रिओय, J om. कुहयं पिव, P repeats कुहयं पिव. 12 > J चक्खुम्मोहणं, P चिंतयं पयत्ता.
 13 > J कं भणामि कण्ण भणामि, P adds वा before करेमि, J om. किं वा ण करेमि, P किच्छ वा न करिमि. 14 > P जओ
 for काओ. 15 > P वह for बहुल, P -वेलीओ. 16 > J मोहं व किण्णमणं वा 1, P कइया उण, J माय, P देवेहिं. 17 >
 P इमाणि, P महादेवी ति विंतेइ. 18 > P om. one जइ, P विपुत्ता, P om. one तह, P गय से मुह. 19 > P om. दल, J
 दिट्ठिआ. 20 > P रायइंसिया, P हरिसेणेव, P तीरागमेणे, P om. रहंगस्स, P om. तं, J पेच्छमाणीय. 21 > P ओवयंतमि, J
 adds य after दिट्ठाओ, J om. सुंदरीओ, P निसण्णा सयणे निविट्ठो । भणियं. 23 > J ए for ते, P लिहिओ । 24 > P
 अणहसरीरो. 25 > P पुलोइयाइं, P om. जाव, P जाणिउं, J चेष P विव. 26 > J om. पायवडणुट्ठियाए. 27 > P om.
 सविणयं, J भण आव for भणइ, P कथं for कहां तस्य, J अणुहूतं, P कर्हिं for कहां. 28 > P बहू, P य ज्जाहरलोओ ता पसिय-
 29 > J इतो for इओ, P मुसुमूरियं जसच्छमं. 30 > J किंचि दीसिउं.

- 1 गयण-सरे तारा-कुमुय-मंडिष् दोसिणा-जलुप्पीले । सेवालं पिव तिमिरं ससिहं सो सहइ भमिऊण ॥ 1
गिरि-स्वस्व-सणाहाणं गामाणं मंदिराहं दीसंति । जोणहा-जलहर-पडिपेछियाहं कीडोयराहं च ॥
- 3 कास-कुमुमेहिं पुदइ गयणं ताराहिं हसइ भणोणं । ददूण सराहं पुणो कुमुएहिं समं पहसियाहं ॥ 3
जायमि भडुरत्ते णलिणी-महिलायणे पसुत्तमि । फुल्ल-तरुहिं हसिज्जइ जलेण सह संगया जोणहा ॥
तेल्लो-मंथणीए जोणहा-तल्लेण अद्द-भरियाए । दीसंति महिहरिंदा देवि किलाड व्व तरमाणा ॥
- 6 § ३६६) तओ सरथ-समय-ससि-दोसिणा केरिसा मए वियप्पिया हियएणं । अवि य । वडुइ व धरणिहर-सिहरेसु, 6
वित्थारिज्जइ व जल-तरंगेसु, हसइ व कास-कुमुमेसु, अंदोलइ व धयवडेसु, णिसम्मइ व धवल-धरेसु, पसरइ व जाल-
गवक्कएसु, धावइ व वेलायडेसु, वगइ व समुह-कल्लोलेसु, णिवडइ व ससिमणि-मय-धडिय-पणाल-णाल-मुहेणामय-जलं
9 व ति । अवि य । 9
इय बहु-तरुवर-जोणहा-गिरि-चंद-सराहं पेच्छमाणो हं । वच्चांमि देवि देवो व्व सरहसं गयण-मग्गेण ॥
पुणो ताओ कुमारियाओ भणिउं पयत्ताओ । अवि य ।
- 12 कामगहंद गहंदो एसो रणमि पेच्छसु पसुत्तो । कामि व्व करणि-कुंभत्थलमि हत्थं णिमिऊण ॥ 12
पेच्छ कुमुएहिं समयं ददुं हसमाणिउ व्व ताराओ । सस-लंछणेण महलं करेइ मुह-मण्डलं चंदो ॥
धवल-सुरहीण वंदं गोदुंगणयमि पेच्छ पासुत्तं । रे अणिया-लिणं पिव सेरीसि-सिरं पिहु-पिडमि ॥
- 15 एयं पि पेच्छ णयरं जामय-पूरंत-संख-घोराहिं । लक्खिज्जइ सुत्तं पिव पसंत-जण-कलकलारावं ॥ 15
एयं च पेच्छ गोदुं अज वि आबद्ध-मंडली-बंधं । रासय-सरहस-ताला-वलयावलि-कलयलारावं ॥
जोणहा-चंदण-परिधूमराओ चकाय-सह-हुंकारा । किं विरहे किं सुरए पेच्छसु एयाओ सरियाओ ॥
- 18 एसो वच्चइ चंदो तारा-महिलायणं इमं घेनुं । अत्थाहो व्व सरहसं अवर-समुहस्स तित्थेसु ॥ 18
एवं च जाव ताओ वच्चंतीओ पहमि सोहंति । ता पत्ता वेएणं दइए तं ताण आवासं ॥
तओ तं च मियंकर-सच्छमं ददूण महावेयडु-गिरिवरं भणियं ताहिं विजाहर-बालियाहिं । अवि य ।
- 21 'एसो वेयडु-गिरी एस णियंबो इमो वणाओओ । एसो सो धवलहरो संपत्ता तक्खणं अद्दे ॥' 21
त्ति भणंतीओ पविट्ठाओ तमि वियड-गिरि-गुहा-भवण-दारमि । विट्ठं च मणि-पइव-पज्जलंनुज्जोचिय-दिसियकं भवणो-
वरं । तत्थ य णलिणी-दल-सिसिर-सत्थरे णिवण्णा दिट्ठा सा विजाहर-राय-कुमारिया । केरिसा उण दइए । अवि य ।
- 24 कोमल-मुणाल-वलया चंदण-कप्पर-रेणु-धवलंगी । कयली-पत्तोच्छइया कावालिणिय व्व सा बाला ॥ 24
§ ३६७) तओ तं च तारिसं ददूण सहसिं उवगयाओ ताओ बालाओ । भणियं च ताहिं । अवि य ।
'पिय-अहि उट्टेसु लहुं लग्गसु कंठमि एस तुह दइओ । संपत्तो अह भवणं जं कायव्वं तयं कुणसु ॥'
- 27 एवं च भणमाणीहिं अवणीयाहं ताहं णलिणी-दलाहं । पेच्छंति जाव ण चलंति अंगाहं । तओ अत्ति ससंकाहिं पुलइयाहं 27
णयणाहं जाव विट्ठाहं मउलायमाण-कंदोह-सच्छमाहं । ताहं च ददूण संभंताहिं दिणं हियए कर-पल्लवं जाव ण फुरइ तं ।
तओ हा हा इ ति भणंतीहि णिहितं वयण-पंकए करयलं जाव ण लक्खिओ ऊमासो । परामुसियाहं मयलाहं मम्मट्टाणाहं ।
- 30 सच्च्राहिं मि णिप्पुराहं सीयलीहूयाहं ति । तओ दइए, तं च पेच्छऊण ताहिं धाहावियं विजाहर-बालियाहिं । अवि य । 30
हा देव्व तए हा हा हा पिय-सहि हा हयं महाकट्टं । हा कामगहंद इमा पेच्छ सही केरिसा जाया ॥
तओ दइए, अहं पि तं तारिसं पेच्छंतो गरुय-मण्णु-थंभिज्जमाण-बाहुप्पीलो 'हा किमेयं' ति ससंभमं जंपंतो पलोइउं

1 > P मंडिदोसिणी-; J सो अहइ असिऊण ॥, P हसति for सहइ. 2 > J -जलयर-, J कीडोअराहं P सीरोअराहं. 3 > P कासव-
कुसमेहिं, P पुणो कुमरेण समं पहसिहं. 5 > P महहरिंदा लोणियपिड व्व तरमाणा. 6 > J -दोसिणा. 7 > P om. कासकुमुमेसु,
अंदोलइ व, P धवलहरेसु, P वेलायडेसु. 10 > J गहतरुवर P बहुतरयर, P om. व्व. 12 > P कामगहंदो, J करणि-, P हत्थं
मिमिऊणा. 13 > P पेच्छसु for पेच्छ, P समं for समयं, P ससि-. 14 > P गोदुंगणयमि, P रे यणआ, P सेरीसि for सेरीसि, P
पिडंति. 15 > P णयं for णयरं, J पलंत for पसंत, P जलकलारावं. 16 > J रोसव-, P रासव सारहस 17 > J हुंकाओ I,
P य इमाओ for एयाओ. 18 > P सत्थाउ for अत्थाहो. 19 > P om. च, P सहंति I. 20 > J inter. वेयडु & महा-
21 > J वणाहोउ. 22 > J om. त्ति, P -हरण- for भवण, P दिसायकं भवणोयरं. 23 > P om. य, P णिवण्णो for णिवण्णा,
P दए for दइए. 24 > P करली. 25 > J om. तारिसं, J om. ताओ. 26 > P उट्टेह लहुं. 27 > P ण चलंति तओ
अंगायाहं, P inter. अत्ति & तओ, J सासं काहि. 28 > P विट्ठायं, P कंदोह, P संभंताहं, J om. ण, P om. तं. 29 > P हा
हा हिति, P तं for णिहितं. 30 > J सच्च्रा मि णिप्पुराहं सीयलीहूआहं, P om. मि, P णपुराहं, P repeats सीयलीहूआहं, P धाहा
for धाहावियं, P बालियाहं. 31 > P देव्व for देव्व, J हा हयंहा हा कट्टं, P कामगहंद इहं पेच्छ इमा केरिसा. 32 > J -थंभिज्जमाण-

- 1 पवतो जाव पेट्ठामि चंयण-पंक-समलं णिच्चलंगी विणिमीलिय-लोचणं णिच्चलंगोवंगं दंत-विणिमिमयं पिव वाउल्लियं ति । 1
हा दइए, तं च तारिसं दट्टण मए वि भणियं । अवि य ।
- 3 हा मह दइए हा हा बाले हा अयाणुए सुदे । हा मह विरह-विवरणे हा देव्व ण एरिसं जुत्तं ॥ 3
ति भणमाणो मोहमुवगयो खणं च विबुद्धो णिसुणेमि ताणं विलावे । अवि य ।
हा पियसहि कीप तुमं पडिबयणं णेय देस्सि अम्हाणं । कि कुवियासि कियोवरि अइ-विर-वेला कया जेण ॥
- 6 किं वा पियसहि कुविया जं तं अम्हाहिं णिइय-मणाहिं । हा एकिय ति मुक्का तुमए चिय पेसिया अम्हे ॥ 6
हा देव्व ण ए जुत्तं तं स्सि मणूसो जयन्मि पयडयरो । एसा महिला बाला एक्का कह परिहयं कुणसि ॥
हा हा तिहुयण-कामिण-जण-मण-वासन्मि दूर-दुल्लिया । काम ण जुज्जइ तुम्हं अबलं एयाइणी हंतुं ॥
- 9 वहसि मुह चिय चावं हा णिजिय-तिहुयणेक्क-खंभं व । हा तं सक्क-जसं चिय धिरत्थु तुह अवगयं एण्हिं ॥ 9
पिय-सहि कामगईदो एसो सो पाविओ घरं एण्हिं । एयस्स कुणसु सयलं जं कायव्वं तयं सुयणु ॥
जो किणरोहिं गीओ पिय-सहि एस म्ह अच्छइ सहीणो । तुमए चिय पेसविया जस्स कए एस सो पत्तो ॥
- 12 भणंतीओ मोहमुवगयाओ । तओ खणं च मए णव-कयली-दल-मारुएण आसासियाओ पुणो भणितं समाढत्ताओ । अवि य । 12
हा देव्व कय्य संपइ किं काहं कय्य वधिमो कहय । को वा सरणं होहिइ किमुत्तरं राइणो साहं ॥
§ ३६८) एवं च भणमाणाओ पुणो पुणो से परामुसंति तं कोमल-मुणाल-सीयलं अंगं । भणियं च ताहिं ।
- 15 कामगईद इमा सा जा तुह अम्हेहिं साहिया बाला । एसा तुह विरहाणल-करालिया जीविय-विसुक्का ॥ 15
ता संपइ साह तुमं का अम्ह गई कहं व किं काहं । किंजुत्तरं व दाहं जणणी-जणयाण से एण्हिं ॥
इमं दइए, सोऊण महं पि महंतं उव्वेय-कारणं जायं । ण-याणामि किं करेमि, किं वा ण करेमि, किमुत्तरं देमि, किं वा
- 18 भणामि, विलक्खो विव थंभिओ इव मोहिओ विव परायत्तो इव, सब्बहा इंदयाळं पिव मोहणं पिव कुहयं पिव दिव्वं पिव 18
माया-रमणं पिव पडिहायइ ति । तह वि मए भणियं
'अव्वो ण-याणिमो चिय किं करणिजं ति एत्थ अम्हेहिं । तुम्मे चिय तं जाणहु इमस्स कालस्स जं जोगं ॥'
- 21 जाव य एस एत्तिओ उल्लावो ताव य, 21
अरुण-कर-भासुरंगो दस-दिस-णासंत-तम-महामहिसो । णहयल-वणम्मि दइए सूर-महंदो किलोइण्णो ॥
तं च दट्टण पणट्ट-तम-वंदं दिणयरं भणियं ताहिं बालियाहिं 'रायउत्त, पभाया रयणी, उगगओ कमलिणी-रहंगणा-पिय-
- 24 पणइणी-पसंग-संसग-पत्तट्टो सूरु, ता जं करेयव्वं तं करेमो' ति । मए भणियं 'किमेत्थ करणीयं ।' ताहिं भणियं 'अग्गि- 24
सक्कारो' ति । मए भणियं । 'एवं होउ' ति भणिए आहरियाइं चंदण-ऊवंग-सुरदारु-कप्पर-रुक्खागुरु-सुक्खाइं दारुयाइं ।
रइया य महाच्चिती । पक्खित्ता य सा महागईद-दंत-घडिय व्व वाउल्लिया विज्जाहर-बालिया । दिण्णो य अग्गिणुग्गय-
- 27 दिणयर-कर-पुंज-पिंजरो जलणो । बज्जितं च समाढत्ता जलण-जालावली-करालिजंतावयवा सा बालिय ति । तओ तं च 27
दट्टण 'हा पियसहि' ति भणंतीओ मोहमुवगयाओ बालियाओ । अहं पि ताओ समासासितं पयत्तो । समासत्थाओ य
विल्लिबितं पयत्ताओ । अवि य ।
- 30 हा पियसहि हा बाले हा सुदे हा वयंसि हा सोम्मे । हा बिंदुमई सुहए हा पिउणो बल्लहे तं स्सि ॥ 30
तुज्ज ण जुज्जइ एयं अम्हे मोत्तुण जं गया एक्का । अम्हेहिं विणा एक्का कय्य व तं पवसिया भदे ॥
वच्चाओ कस्म घरं अहव गया णाम किं व पेच्छामो । किं उत्तरं च दाहं बिंदुमई कय्य पुच्छाए ॥
- 33 ता पियसहि अम्हाणं किमेत्थ जीएण दुक्ख-तविएण । तुमए चिय सह-गमणं जुज्जइ सुदे हयासाण ॥ 33

1 > P -पंकफलसंगी विणिमी*, J समलं or ससलं, J णिच्चलंगी वणिमीलियलोअणं णिच्चलं अंगोवंगं दंतविणिमिमं, P वाउल्लिय ति.
3 > P हा हा मइए हा हा. 4 > J om. ति, P मोहमवगयो. 5 > P नय for णेय, P कियोवरि, P -वेला कयं तेण ॥ 7 >
P तुह for ए, P एस महिला, P एक्को, P परिहवं. 8 > J कामिणि, J एआए णिहणं तु ॥ 9 > P णिजिय, P खंभं व्व. 10 >
P adds पियसहि कामगईदो before एयस्स, P तए for तयं. 11 > JP किणरोहिं, P ज for जस्स. 12 > J कयली, P आसा-
सियाओ J समाढत्त. 13 > J वधिमो, JP होहिति, P om. से. 14 > P पुरामुसंति. 15 > P विरहानल. 16 > P गती, J किं
उत्तरं, J एण्हिं for एण्हिं. 17 > P महंतं पि महं उव्वेय, J om. महंतं, J णयरेमि, J om. वा. 18 > P इव for विव, J परयत्तो,
P इंदयाळं, P पिव देव्वं. 19 > J om. माया(रमणं पि), P पि for पि, J पडिहायदि ति. 20 > P om. अव्वो ण-याणिमो etc.
ताहिं बालियाहिं, J कालस्स जो अंगं. 24 > P तो for ता, P किमेत्थ. 25 > J झाइविझारं, P आहारयाइं for आहरियाइं
(emended), J कप्परुक्खागुरु, P रुक्खागामुक्काइ दारुयाइं. 26 > P महा चिता, J बाहुल्लिया, J om. विज्जाहर बालिया, P
अग्गिणुग्गय. 27 > P om. च, P जलणजावली, P om. तं च. 28 > J om. बालियाओ, P समासत्थिओ. 29 > P विल्लिबितं.
30 > P हा सोमे, P बिंदुमती. 31 > J आसि for भदे. 32 > J adds व before घरं, P णामं च पेच्छामो, J किमुत्तरं P किं
उत्तरं, P बिंदुमं. 33 > J अम्हाहिं, P किमेत्थ, J जुज्जइ मइए गयासाणं.

- 1 इमं च परुवंतीओ इति तस्मिं चेष चित्ताणलस्मि पविट्टाओ । तं च दट्टण ससंभसो हं 'मा साहसं, मा साहसं' ति 1
भगते पहाइओ जाव खर-पवण-जलण-जालावली-विलुट्टाओ अट्टि-सेसाओ । तं च दट्टण अहं पि पहाओ इव महामोह-सोगरेण,
3 भिण्णो इव महासोय-कोत्तेण, परुओ इव महापाव-पव्वण चित्तिउं समाहत्तो । 'अहो, पेच्छिहिस्सि मह विहि-विहियसणस्स,
जेण पेच्छ ममं चेष अणुराय-जलण-जालावली-विलुट्टा विवण्णा विंदुमहं, तीए चेष मरण-दुक्ख-संतत्त-प्रणाओ इमाओ वि
बालाओ जलणे पविट्टाओ । ता मए वि किमेरिसेणं इत्थी-वज्झा-कलंक-कलुसेण जीविण्ण । इमस्मिं चेष चियाणले अहं पि
6 पक्सामि' ति चित्तयंतस्स तेण गयणंगण-पहेण विजाहर-जुवलयं वोळिउं पयत्तं । तओ भणियं तीए विजाहरीए 6
'पिययम, पेच्छ पेच्छ,

अह एरिसा मणुस्सा णिकरुणा णिट्टा णिसांसा । जेणं डज्झइ दइया एसो उण एस पासत्थो ॥

- 9 § ३६९) विजाहरेण भणियं । 'दइए, मा एवं भण । अवि य । 9
महिलाण एस धम्मो मयस्मि दइए मरंति ता वस्सं । जेण पडिज्झइ सत्थे भसारो ताण देवो ति ॥
एस पुरिसाण पुरिसो होइ वियङ्को य सत्त-संपण्णो । जो ण विमुच्चइ जीयं कायर-महिलाण चरिएण ॥
12 जुज्झइ महिलाण इमं मयस्मि दइयस्मि मारिओ अप्पा । महिलत्थे पुरिसाणं अप्प-वहो णिंदिओ सत्थे ॥' 12
ति भणंतं वोळीयं तं विजाहर-जुवलयं । मए वि चित्तियं 'अहो, संपयं चेष भणियं इमिणा विजाहरेण जहा ण जुज्झइ
पुरिसस्स महिलत्थे अत्ताणं परिच्चइउं । ता णिंदियं इमं ण मए कायव्वं ति । दे इमाए सच्छच्छ-खीर-वारि-परिपुण्णाए
15 विमट्टमाणेदीवर-णयणाए धवल-मुणाल-वलमाण-त्रलय-रेहिराए वियसिय-सरस-सयवत्त-वयणाए तरल-जल-तरंग-रंगंत-
भंग-भंगुर-मज्झाए वियड-कणय-तड-णियंब-वेडाए वावी-कामिणीए अवयरिऊण इमाणं जलंजली देमि' ति चित्तिऊण
दइए, जाणाभि अवइण्णो तं वाविं णिबुद्धो अहं, खणेण उव्वुद्धो हं उभिमल्लिय-णयण-जुवलो पेच्छामि गयणंगण-वल्लगे तरुयरे
18 महापमाणाओ ओसहीओ गिरिवर-सरिसे वमहे महल्लाई गोहणाई ऊसिय-देहे तुरंगमे पंच-अणु-सय-पमाणे पुरिसे महादेहे
पक्खिणो णाणाविह-समिद्ध-सफल-ओसहि-सणाहं धरणि-मण्डलं ति । अवि य ।

इय तं पेच्छामि अहं अदिट्टउव्वं अउव्व-दट्टव्वं । गाम-पुर-णगर-खेडय-मडंब-गोट्टुगणाइणं ॥

- 21 तं च तारिसं सव्वं पि महप्पमाणं दट्टण जानो मह मणे संकप्पो । 'अहो, किं पुण एयं । अवि य । 21
किं होज्ज इमो सग्गो किं व विदेहो णणुत्तरा-कुरवो । कीं विजाहर-लोओ किं वा जम्मतरं होज्ज ॥
सव्वहा जं होउ तं होउ ति । अहं दीवं ताव ण होइ, जेण तत्थ सत्त-हरथप्पमाणा पुरिसा । एत्थं पुण पंच-अणु-
24 सयप्पमाणा गयणंगण-पत्तं व लक्खिज्जांति । ण य इमे रक्खसा देवा वा संभावियंति, जेण सव्वं चियं महल्ल-पमाणं इमं ।
अण्णं च विविह-कुसुमामोओ रुणरुणंत-महु-मत्त-मुहय-महप्पमाण-भमर-गणा य तरुयरा । ता सव्वहा अण्णं किं पि इमं
होहिइ' ति चित्तिऊण उत्तिण्णो वावि-जलाओ जाव दइए, पेच्छामि तं वाविं । अवि य ।
27 जल-जाय-फलिह-भित्ति विगह-कंदोट्ट-दिण्ण-चाच्चकं । विमलं वावि-जलं तं जलकंत-विमाण-सच्छायं ॥ 27
तं च दट्टण मए चित्तियं । 'अहो, अउव्वं किं पि वुत्तंतं, जेण पेच्छ जं तं वावि-जलं तं पि विमाणसणं पत्तं । ता एत्थ
कंचि पुच्छामि माणुसं जहा को एस दीवो, किं वा इमस्स णामं, कत्थ वा अहं दीवो, को व अह्हाण वुत्तंतो' ति । इमं
30 च चित्तयंतो समुत्तिण्णो वावि-जल-विमाणाओ परिभमिउमाहत्तो जाव पेच्छामि सग्ग-सरिमाइं णयरइं णयर-सरिस- 30

1 > J विलवंतीओ, J om. तस्मिं चेष, P चित्तानंस्मि, P om. one मा साहसं, J om. ति. 2 > P om. पवण, J om. जलण, P विलुट्टाओ, J om. 'मोह. 3 > J भिण्णोविण, P मज्झोकोत्तेण, J कुत्तेण, P पाण्डो, J पेच्छमए P पेच्छमिहि, P om. मह. 4 > P मज्झं for ममं, P विलुट्टा, P विंदुमह, P om. वि. 5 > P जलण, P किं for वि, J वज्झा, J जीवमाणेण for जीविण्ण, J चित्ताणले, P om. अहं पि. 6 > P वोळिउं. 8 > P repeats मणुसा for मणुसा, P एसो for एस. 9 > P वं for मा एवं. 11 > P एसो पुण सप्पुरितो होइ, P विमुच्चइ. 12 > J मारिउं, P अथवहो. 13 > P om. ति, J om. तं, P om. वि. 14 > P महिलाजत्थे, J अत्ताणयं, P णिंदियं, P कायव्वो ति । दो इमाए, J खीरोअवारि, P पारिपुण्णाए. 15 > P om. विमट्टमाणं-दीवरणयणाए, P om. वलमाण, P सरससयवणाए, J adds भं before तरंग, J om. रंगंतभंग. 16 > J भंगुरंमज्झाए, P भंगुर for भंगुर, P तडंणियंब, P अवतरिऊण, J जलंजली P जलंतजली. 17 > P अवइण्णा तं वावीओ णिउडोहं खणेण उव्वेद्धोहं, J णिउडो, J om. हं, J उव्वुद्धो अहं, P जुयलो, J adds य before पेच्छामि, J तरुयरे. 18 > P महप्पमाणाओ, P अउव्वे for गिरिवर-, सरिसे, P महल्लाई मोहणाई, J देहतुरंगमे, J सतप्पमाणे, P पमाणपुरिसे. 19 > J पक्खिणो णविहमिद्धं सफलोसहि, P सफला. 20 > J गामणगरखेडकवडगोट्टुगणयवरोहिहं ॥. 22 > P मो for इमो, P किं व देहाण, J om. ण after विदेहो. 23 > J om. पंचअणुसयप्पमाणा. 24 > P गयणंगणं पत्ता । अहं च विविह. 25 > J कुसुमामोओ रंत्तमहु. 26 > J होहिइ चित्ति'. 28 > P om. वाविजलं तं (before पि), P एत्थ किंचि वुच्छामि 29 > J दीवं को व. 30 > P वाचिपासायहोओ विमाणाओ परिभमिउं समाहत्तो.

- 1 विह्वलाहं गाम-ठाणाहं, गाम-ठाण-समाहं गोट्टाहं, गोट्टगणाउलाहं सयल-सीमंताहं, सीमंत-वसिमाहं वणंतराहं, पुरंदर- 1
सम्यपभावा राहणो, वेसमण-समा सेट्टिणो, कामदेव-सरिसो जुवाण-जणो, कप्पतरु-सरिसा तरहरा, गिरिवर-संठाणाहं 2
3 मंदिराहं, विरुव-धरिणी-रुव-लायण्ण-वण्ण-विण्णाम-कला-कोसला ववण-सरिसाओ महिल्लियाओ स्ति । अवि य । 3
जं जं एत्थ महग्गं सुंदर-रुवं च अम्ह दीवस्स । तं तं तत्थ गणिज्जह पक्कण-कुल-कयवर-सरिच्छं ॥
४ ३७०) ता संपयं किंचि पुच्छामि । 'को एस् दीवो' स्ति चिंतयंतेण दिट्ठा दुवे दारया । केरिसा । अवि य ।
6 बाला वि तुंग-देहा रहरा कंदप्प-वप्प-सच्छाया । रयण-विमूसिय-देहा णज्जह दइए सुर-कुमारा ॥ 6
दट्ठण मए चित्थियं । 'दे इमे णयण-मणहरे सोम्म-सहावे पुच्छामि ।' चिंतयंतेण भणिया मए 'भो भो दारया, किंचि
पुच्छिमो अम्हे, जह णोवरोहं सोम्म-सहावाणं' ति । इमं च सहं सोऊण धवल-विलोल-पम्हला पेसिया दिट्ठी । कहं
9 च तेहिं दिट्ठो । 9
कीडो व्व संचरंतो किमि व्व कुंयू-पिबीलिया-सरिसो । मुत्ताहल-ट्टिहुं पिव दइए कह कह वि दिट्ठो हं ॥
तमो जाणामि पिए, तेहिं अहं कोउय-रहस-णिळभरेहिं पुलइओ । भणियं च अवरोप्परं । 'वयंस, पेच्छ पेच्छ, केरिसं
12 किंपि माणुस-पलावं माणुसायारं च कीडयं ।' दुइएण भणियं । 'सच्चं सच्चं केरिसं जीव-विसेसं । अहो अच्छरीयं सयलं 12
माणुसायारं माणुस-पलावणं च । ता किं पुण इमं होऊ ।' पढमेण भणियं 'अहो मए णायं इमं' । दुइएण 'वयंस, किं' ।
तेण भणियं । अवि य ।
15 'वण-सावयस्स लीवं छाउव्वायं सुदुक्खियं दीणं । माऊए विप्पणट्ठं उढभंत-मणेरयं ममइ ॥' 15
दुइएण भणियं 'वयंस, कसो एरिसाहं एत्थ वणाहं जत्थ एरिसाहं वण-सावयाहं उप्पजंति ।'
'सर-खेव-मेत्त-गामं गामंगण-संचरंत-जण-णिवहं । जण-णिवह-पूरमाणं अवर-विदेहं वयंस इमं ॥'
18 इमं च सोऊण दइए मए चित्थियं । 'अहो, अवरविदेहो एस्स, सुंदरं इमं पि दिट्ठं होहि' स्ति चिंतयंतस्स भणियं पुणो 18
एकेण दारएण 'वयंस, जइ एस्स वण-सावओ ता केण एस्सो कडय-कंठयादीहिं मंडिओ होऊ' स्ति । तेण भणियं 'वयंस,
एस्सो माणुसाणं हेलिओ दीविय-मह व्व मणुएहि मंडिओ' स्ति । अण्णेण भणियं 'सव्वहा किं वियारेण । इमं च गेण्हऊण
21 सयल-सुरासुर-वंदिज्जमाण-चलणारविंदस्स सयल-संसार-सहाव-जीवादि-पदत्थ-परिणाम-वियाणयस्स भगवंत-सीमंथर-सामि- 21
तित्थयरस्स समवसरणं वच्चाओ । तथ इमं दट्ठण सयं चेष उप्पण-कोउओ को वि भगवंतं पुच्छिहिइ जहा 'को एस्स
माणुसागिहं सावय-विसेसो' स्ति मणंतेहिं दइए, चडओ विव गहिओ हं करयलेणं, पथिया गुंतुं । अहं पि चित्तेमि ।
24 'सुंदरं इमं जं भगवओ सव्वणुस्स समवसरणं ममं पावेहिंति । तं चेष भगवंतं पुच्छिहामि जहा को एस्स बुत्तंते' स्ति 24
चिंतंतेो चिय पाविओ तेहिं जाव पेच्छामि पुहइ-मंडल-णिविट्ठं पिव सुरगिरिं भगवंतं धम्म-देसयं सीहासणत्थं अणेय-
णर-णारी-संजुया सुरासुरिंद-प्पमुहा बहुए दिव्वा य रिद्धी जा सव्व-संसारीहिं सव्व-कालेणं पि सव्वहा णो वण्णेउं तीरह् स्ति ।
27 ते य वंदिऊण भगवंतं करयल-संगहियं काउं ममं णिसण्णा एक्कमि पएसे । भणियं च तेहिं । 'वयंस, ण एस्स अवसरो 27
इमस्स कीडयस्स दंसियव्वे । भगवं गणहारी किं पि पुच्छं पुच्छइ, ता इमे णिसुणेमो' स्ति चिंतयंता णिसण्णा एक्कमि
पएसंतरमि सोउं पयसा ।
30 ४ ३७१) भणियं च भगवया गणहारिणा । 'भगवं, जं तए णाणावरणीयाह-पयडी-सलाया-वडियं कम्म-महापंजरं 30
साहियं इमस्स किं णिमिंतं अंगीकाउं उदओ खयं वा खओवसमो उवसमो जायइ' स्ति । इममि पुच्छिअ भणियं तेण
बहु-मुणि-सय-वंद-वंदिज्जमाण-चलण-कमलेण सीमंथर-सामि-धम्म-तित्थयरेण । 'देवाणुप्पिया, णिसामेसु ।

1) P गामट्टाणाहं गामंगणसमाहं, J om. गोट्टगणाउलाहं, सयलसीमंताहं सीमंतवसिमाहं वणंतराहं. 2) J सप्यभावा P समयप्यभावा, P से for सेट्टिणो, P संट्टाणाहं. 3) J रुवलायणगुवण्णकुलाकोमला, P रुयलोयण्ण, P वण्ण for ववण. 4) P मणग्गं, P अम्हदीवमि, P एक्केण, J करिवर for कयवर. 5) J दुवे दो राया. 6) J विउंगदेहा. 7) P सोमसहावे, P तेण for चिंतयंतेण. 8) P अम्ह पुच्छामि अहं for पुच्छिमो अम्हे जह णोवरोहं सोम्मसहावाणं ति, P adds मह before दिट्ठी. 10) P व्व कंयू, P पुरिसो for सरिसो, P om. one कह. 11) P जाणामि पए, J om. अहं, P रहसपुरेहिं पुलइयं, P om. one पेच्छ. P om. किं after केरिसं. 12) P om. कीडयं, P om. one सच्चं, P अच्छरियं. 13) P om. (after सयलं माणुसा) यारं माणुसपलावणं etc. to भणियं । अवि य, J पलाविणं. 15) P विप्पणयं. 16) P दइएण for दुइएण, J repeats एरिसाहं before एत्थ. 17) P om. जणणिवह. 18) P दइए, P om. अहो, P विदेहे, P होहिस्ति स्ति, P inter. पुणो & एकेण. 19) J कंठयाहीहिं, J एस्स for एस्सो. 20) P हेलिओ धाडेरव होहिस्ति स्ति, P om. च. 21) P वंदिज्जमाण, P जीवाह-पयत्थ, J विआणायस्स, P भगवयातो सीमंथरसामि वित्थयरस्स. 22) P चेष, P om. उप्पणकोउओ, J om. को वि, J पुच्छिही P पुच्छिहि स्ति. 23) J माणुसगिती सावतविसेसो, P माणुसागिति. P om. चडओ, P विव, J करेणं P कारयलेणं. 24) J भगवतो, P पावेति, J पुच्छिहामि. 25) P चिंततो, P om. तेहिं. 26) J om. संजुया, P बहुवे दिव्वाए रिद्धीए संपण्णा जो सो सव्व-, J सव्वहा ण विण्णेउं. 27) J तेण for तेहिं, P adds ण before वयंस. 28) P कीडस्स, P om. पुच्छं, P पुच्छति, J इमं णिसुणेमि. 30) JP 'वरणीयाति, P पयतीसलाय. 31) J उदयो, J खयोवसमो, P वसमो for उवसमो, J जायति स्ति । इमं च पुच्छिअ. 32) P चल for चलण, J om. देवाणुप्पिया णिसामेसु.

- 1 उदय-स्वय-स्वभावसमोवसमा जं च कम्मुणो भगिमा । दब्बं खेतं कालं भवं च भावं च संपप्य ॥ 1
कम्मस्स होइ उदओ कस्स वि केणावि दब्ब-ओपण । पहयस्स जह व विषणा वज्जेण व मोहणीयस्स ॥
- 3 नाणावरणीयस्स व उदओ जह होइ दिसि-विमूळस्स । पत्तस्स किं पि खेतं खेत-णिमित्तं तयं कम्मं ॥ 3
पित्तस्सुदओ गिन्हे जह वा छुह-वेयणीय-कम्मस्स । कालम्मि होइ उदओ सुसमादीसुं सुहादीणं ॥
विहय-गह-णाम-कम्मं होइ भवं पप्य जहा पक्खीणं । तथ भवो चिय हेऊ णरय-भवो वा वि विषणाए ॥
- 6 पढमे कसाय-भावे दंसण-मोहस्स होइ जह उदओ । जिण-गुण-वण्णण-भावे दंसण-कम्मस्स जह उदओ ॥ 6
एग्गिहं स्वयं पि वोच्छं तित्तय-दब्बेण जह य सेंभस्स । होइ खओ खगणेण व भाडय-कम्मस्स सुपस्सिदं ॥
खेत्ताणुबंधि-कम्मं एरिसयं होइ किं पि जीवस्स । जं पाविऊण खेतं एक्कं चिय होइ तं मरणं ॥
- 9 सुसमा-कालम्मि खओ जीवाणं होइ कम्म-जालस्स । दुसमाएँ ण होइ चिय कालो चिय कारणं तथ ॥ 9
णाणावरणं कम्मं मणुय-भवे च्चेय तं स्वयं जाइ । सेस-भवेसु ण वळइ कारणमित्थं भवो च्चेय ॥
भावम्मि तस्मि णियमा अउव्वकरणम्मि वट्टमाणस्स । होइ खओ कम्माणं भावं चिय कारणं एत्थ ॥
- 12 जह ओसह-दब्बेणं विषणा-कम्मस्स कत्थइ कहिं पि । होइ खओवसमो वि हु अण्णो णवि होइ दब्बेण ॥ 12
आरिय-खेत्तम्मि जहा अविरइ-कम्मस्स होइ मणुए वा । स्वय-उवसमाइँ एत्थं खेतं चिय कारणं भणियं ॥
सुस्सम-दुसमा-काले चारित्तावरण-कम्म-जालस्स । होति खओवसमाइँ काले वि हु कारणं तथ ॥
- 15 देवाण णारयाण य अवही आवाण-कम्म-पंकस्स । होति खओवसमाइँ होइ भवो च्चेय से हेऊ ॥ 15
उदए त्ति होति मणुए मणुस्स-भावम्मि वट्टमाणस्स । स्वय-उवसमेहिं तह इंदियाइँ अधवा मइँ-णाणं ॥
जं दब्बं अवलंबइ खेतं काउं च भाव-भव-हेऊ । उवसम-सेणी जीवो आरोहइ होइ से हेऊ ॥
- 18 इय दब्ब-खेत्त-काला भव-भावो च्चेय होति कम्मस्स । उदय-स्वय-उवसमाणं उदयस्स व होति सव्वे वि ॥ 18
§ ३७२) एवं च भगवया सव्व-तेल्लोकेकल्ल-बंधवेण सयल-गम्मागम्म-सीमंधरेण सीमंधर-सामिणा समाहट्टे कम्म-
परिणाम-विसेसे पडिवण्णं सव्वेहिं मि तियसिद-णरिंद-मुणि-गणिदप्पमुहेहिं भणियं च । 'अहो भगवया सिट्ठाओ कम्म-
21 पयडीओ, साहियं कम्मस्स उदयादीयं सयलं वुत्तं' ति । एत्थंतरम्मि अवसरो त्ति काऊण तेहिं कुमारेहिं मुक्खे अहं 21
करयल्ल-करंगुली-पंजर-विवराओ ठिओ भगवओ तित्थयरस्स पुरओ । एत्थंतरम्मि ममं च्चेय अइ-कोउय-रहस-भरमाण-
णयण-मालाहिं दिट्ठो हं देव-देवि-णर-णारीयणेणं, अहं च पयाहिणीकाउं भगवंतं थुणित्तं पयत्तो । अवि य ।
- 24 'जय सव्व-जीव-बंधव संसार-जलोह-जाण-सारिच्छ । जय जम्म-जरा-वज्जिय मरण-विमुक्का जयाहि तुमं ॥ 24
जय पुरिस-सीह जय जय तेल्लोकेकल्ल-पत्थिय-पयाव । जय मोह-महामूरण रण-णिजिय-कम्म-सत्तु-सय ॥
जय तिद्धिपुरि-गामिय जय-जिय-सत्थाह जयहि सव्वण्णु । जय सव्वदंस्ति जिणवर सरणं मह होसु सव्वत्थ ॥'
- 27 त्ति भणंतो णिवडिओ चलगेसु, णिसण्णो य णाह्वरे । ममं च णिसण्णं दट्टण दइए, एक्केण आवद-करयल्लंजलिण 27
पुच्छिओ णरणाहेण भगवं सव्वण्णु । 'भगवं, किमेस माणुसो किं वा ण माणुसो, कहं वा एत्थं संपत्तो, किं वा कारणं,
केण वा पाविओ, कथं वा एस त्ति महंतं महं कोऊहलं, ता पसीय साहेसु'त्ति मणिऊण णिवडिओ चलगेसु ।
- 30 § ३७३) एवं च पुच्छिओ भगवं मुणि-गण-वंदिय-चलगण-जुवलो भणित्तं समाहत्तो । अवि य । 'अस्थि इमम्मि 30
च्चेय जंबुडीवे भारहं णाम वासं । तत्थ य मज्झिम-खंडे अरुणाभं णाम णयरं । रण्णइंदो णाम राया । तस्सेस पुत्तो
कामगइंदो णाम । इमो य इमेहिं देवेहिं महिला-लोलुओ त्ति काऊण महिला-वेस-धारीहिं अवहरिऊण वेवइ-कुहरं पाविओ ।

1 > P उदओ, J -स्वयोवसमो, P खओवसमो जं च कम्मुणा भणियं ।, J भगिमा । 2 > J उदयो, P कम्म व, J मज्जेण for वज्जेण. 3 > P नाणावरणीयकम्मस्सवरणीयस्स व उदओ, J कम्मि for किं पि. 4 > J जह वण्णुहेवेदणीअस्स कम्मस्स ।, J ससमादिसु जहे सुहादीण, P मुहादीणि. 5 > J -गति-, J होइ, P होइ तयं जह पप्य पक्खीणं, J जह, P भवे चिय, J हेतु, P om. वि. 6 > J उदयो ॥ 7 > J तित्तय for तित्तय, P जह वसंतस्स । 8 > P होइ कंप्पि, J जीअस्स, P होति. 9 > J कालवयो यो जीवाणं हीउ कम्म-, P दसमाण, P कालो चिय. 10 > J भवं च्चेय P भवो च्चेय, P जायइ ।, J कारणमित्थं. 11 > P अउव्वकरणं निवट्टं, J P कम्माणं ताव चिय, P तथ for एत्थ. 12 > J स्वयोवसमो, P अन्ना वि होइ-. 13 > P आयारिय, P व्हो for जहा, J अविरि-
P खउवसमाइँ. 14 > P दुस्समा, J कालो, P होति, J स्वयोवसमाइँ, P खओवसमाइँ होइ भवो च्चेय से होओ ॥ 15 > P om. the gāthā देवाण णारयाण etc., J स्वयोवसमाइँ होइ भवे चिय तेहिं हेतु ॥ 16 > P उदयस्सि होइ, P om. four lines स्वयउव-
समेहिं etc. to होति कम्मस्स ॥, J मतीणाणं. 17 > J हेतु ।, J हेतु ॥ 19 > J सयल for सव्व, P तेल्लोकेकल्ल, P गंमागंमा, J समाइट्टो P इट्टे. 20 > P -मुणिदप्पमुहेहिं महेहि भणियं. 21 > P om. ति, P अत्थंतरम्मि, 22 > P करयंजलीपंजर, P विओव for ठिओ, P च्चेय, J भरमाणे. 25 > P om. देवि, P पयाहिणीत्तं, J om. थुणित्तं. 26 > P जलोहजारिच्छ ।, P विमुक्क जयाह तुमं. 25 > P om. one जय, P पयावा ।, J सया ॥ 26 > P जय जसत्थाह, J जिण सरणमइँ, P सणं for सरणं. 28 > J किं एस. 29 > J पाविओ, J त्थि for त्ति, P om. महं, P पसिय. 30 > J मणिउमाहत्तो. 31 > J भरहं for भारहं, P om. य after तत्थ, J अरुणाभं, P रणइंदो, P तस्सेय. 32 > P om. य, P om. त्ति, P adds य after पाविहिं.

- 1 तत्त्व अलिय-विठविषय-भवणे किर विजाहर-वालिषा, सा उण मया, किर तुह विभोय-दुक्खेण एसा मय त्ति विलवमाणीहिं 1
 २ द्वा, ते वि तत्थेय आरुदा । इमेणावि कवड-महिळा-भवहरिय-माणसेण चित्तिंयं 'अहं पि जल्लणं पविसामि'त्ति । एवं-
 3 मणस्स विजाहर-जुवलय-रुवं दंसियं अवरोप्परं-मंतण-वयण-विष्णाण-वयण-विष्णासेण गियत्तिओ इमाओ साहसाओ । 3
 पुणो दे एत्थ वाचीए ण्हामि त्ति जाव णिउड्डो जाव जल्ल-कंत-विमाणेणं इहं पाविओ । पुणो कुमार-रुवं काळण इमेहिं
 4 अरण्ण-सावओ त्ति काळण अलिय-परिहास-दुस्तिरेहिं इहाणीओ जेण किर सव्वण्णु-दंसणेण एत्थ सम्मत्तं पाविहिह् त्ति
 5 अयसरेण विमुक्को'त्ति । णरवइणा भणियं 'भगवं, किं पुण कारणं एस अवहरिओ इमेहिं देवेहिं ।' भगवया आइहं 'पुव्वं 6
 पंचहिं जणेहिं अवरोप्परं आयाणं गहियं ता 'जत्थ ठिया तत्थ तए सम्मत्तं अम्ह दायव्वं'त्ति । एसो सो मोहवत्तो देव-
 7 कोगाओ चविज्जण पुहइसारो भास्ति । पुणो देवो, पुणो एस संपयं चरिम-सरीरो कामगइंदो त्ति समुप्पण्णो । ता भो भो
 8 कामगइंदा, पडिउज्जसु एत्थ मग्गे, जाणसु विसमा कम्म-गइं, दुग्गामो मोक्खो, दुरंतो संसार-समुदो, चंचला इंदिय- 9
 10 तुरंगमा, कलि-कलंकिओ जीवो, दुज्जया कसाया, विरसा भोगा, दुल्लहं भव-सएहिं पि जिणयंद-वयणं ति । इमं च
 11 ज्जणिकण पडिवज्जसु सम्मत्तं, गेण्हसु जहा-सत्तीए विरहं' ति । इमम्मि भणिए मए भणियं 'जहा संदिससि भगवं, तह'
 12 त्ति । एत्थंतरम्मि पुच्छियं णरवइणा 'भगवं, जह एस माणुसो, ता कीस अम्हे पंच-धणु-स्यप्पमाणा, इमो पुण सत्त- 12
 13 रयण्णिप्पमाओ ।' भगवया भणियं । 'देवाणुणिया, मिसुणेषु । एस अवरविदेहो, सो उण भरहो । एत्थ सुह-काळो,
 14 तत्थ आसण्ण-वूसमा । एत्थ सासओ, तत्थ असासओ । एत्थ धम्मपरो जणो, तत्थ पावपरो । एत्थ दीहाउया, तत्थ
 15 अप्पाउया । एत्थ बहु-पुष्णा, तत्थ थोव-पुष्णा । एत्थ सत्तवंता, तत्थ णीसत्ता । एत्थ थोव-दुज्जण-बहु-सज्जण-जणो, तत्थ 15
 16 बहु-दुज्जणो थोव-सज्जणो । एत्थ एग-तित्थिया, तत्थ बहु-कुत्तित्थिया । एत्थ उज्जव-पण्णा, तत्थ वंक-जहा । एत्थ सासओ
 17 मोक्ख-मग्गो, तत्थ असासओ । एत्थ सुह-रसाओ ओसहीओ, तत्थ दुह-रसाओ । सव्वहा एत्थ सासय-बहु-सुह-परिणाम-
 18 पत्तट्ठा, तत्थ परिहीयमाण-सुह-परिणाम त्ति । तेणेत्य महंता पुरिसा तत्थ पुण थोयप्पमाणा ।' एवं च भगवया साहिए 18
 19 किर मए चित्तिंयं देवि जहा 'अहो, एरिसो अम्हाण दीवो बहु-गुण-हीणो । एसो पुण सासय-सुह-परिणामो । एरिसो एस
 20 भगवं सव्वण्णु सव्व-दंसी सव्व-जग-जीव-बंधवो सव्व-सुरिंद-वदिओ सव्व-मुणि-गण-णायगो सव्व-भासा-वियाणओ सव्व-
 21 जीव-पडिबोहओ सव्व-लोग-चूडामणी सव्वुत्तिमो सव्व-रूबी सव्व-सत्त-संपण्णो सव्व-महुरो सव्व-पिय-दंसणो सव्व-सुंबरो 21
 22 सव्व-वीरो सव्व-चीरो सव्वहा सव्व-तिहुयण-सव्वहाइसय-सव्व-संदेहो त्ति । अवि य ।

जह सव्वण्णु महायस जय णाण-दिवायरेक्क जय-णाह । जय मोक्ख-मग्ग-आयग जय भव-तीरेक्क-बोहित्थ ॥

- 24 त्ति भणंतो णिवडिओ हं चलणेषु । पायवडिओ चेष भत्ति-अरेक्क-चित्तत्तणेण विणिमीलमाण-लोल-लोचणो इमं चित्तिउ- 24
 25 माउत्तो । अवि य ।

दंसण-भेत्तेण चिय भगवं बुद्धाण एत्थ लोगम्मि । मग्गे हं ते पुरिसा किं पुरिसा वण-मया वरह ॥

- 27 त्ति भणिज्जण जाव उण्णामियं मए सीसं ता पेच्छामि इमो अम्हं चिय कडय-संणिवेसो, एयं तं सयणं, एसा तुमं देवि' त्ति । 27

§ ३७४) एवं च साहिए सयले गियय-वुत्तंते कामगइंदेण देवीए भणियं । 'देव, जहाणवेत्ति, एकं पुण विष्णवेमि

- 28 'देव, जो एस तए वुत्तंते साहिओ एत्थ उग्गओ दिवायरो, तओ दिट्ठा विभाया रयणी, महंतोवक्खेवो, बहुयं परिकहियं,
 29 बहुयं णिसामियं, सव्वहा महंतो एस वुत्तंते । ता ममं पुण जत्तो चिय तुमं ताहिं समं गओ, तप्पभूहं चैव जागरमाणीए 30
 31 जाम-भेत्तं चेष वोलियं । तो बिरुद्धं पिय लक्खिज्जए इमं । ता ण-याणीयह किं एयं इंदयालं, उदाहु कुहगं, किं वा सुमिणं,
 32 होउ मह-मोहो, किं णिमित्तं, किं अलियं, आदु सच्चं' ति वियप्पयंतीए किं जायं । अवि य ।

1 > P त for तत्थ, J om. विउव्विय, J किर, J सोळण for सा उण, P विलवमाणेहिं. 2 > P om. आरुदा, P इमिणा वि, P
 -वहरिय-, P एवं माणस्स. 3 > P विजाहजुवलयं, J जुवलरुवं, P देसियं for दंसियं, J अवरोप्परा-, J मंतणा-, P मंतणवेयणविजासेण.
 4 > P निउत्तो for णिउड्डो, P जाव जाल्लकंतं विमाणे इहं. 5 > J पावेहि पावेहिं. 6 > J दिव्वेहिं for देवेहिं. 7 > P जत्थ गया तत्थ
 गया संमत्तं. 8 > P चरम-. 9 > J पडिवज्ज for पडिउज्जसु, P कमगती, P मोलो. 10 > J तुरंगमा, P कल for कलि, J भोआ
 for भोगा, P दुल्लहं, P om. च. 11 > J जहा दिससि. 12 > J सत्तप्पमाणा ईसो पुण. 13 > P रयणिप्पमाओ, J देवाणुणिया.
 14 > J तत्थासण्ण-. 15 > P उप्पाइया for उप्पाउया, J थोअपुष्णा, J सत्तमंता, P णीसंता, J थोअदुज्जण. 16 > P -दुज्जण, J
 थोअसज्जणो, P बहुत्तित्थिया, P एत्थ उज्जपुण्णो तत्थ, J एस सासओ. 17 > P दुरसाओ, J एस सासत-. 18 > J पत्तत्था P पव्वट्ठा,
 P परिहीयमाणसुपरिणाम, J तत्थ उण, J थोअयमाणा, P थोयप्पमाओ त्ति. 19 > P एसो उण. 20 > P गय for गण. 21 > J लोअ
 for लोअ, P सव्वत्तमो. 22 > J -सव्वातिसय-. 23 > P सव्वण्णु, P adds दिवाण after णाण, P भगवं एक-बोहित्थ, J बोहित्थे.
 24 > P om. हं, P अरेक्क, P विणिमीलमाण, J om. लोल, P चित्तिदं समाउत्तो. 26 > J भगवं जे तुह बुद्धाण एत्थ लोअम्मि, P
 वणमयावय ॥ 27 > P उण्णामयं, J ताव for ता, P अहं for अम्हं, J करय for कडय, P देवि ति । 29 > J दिट्ठो विभाता, P महंतो
 विक्खेवो. 30 > J बहुयं णिसामियं, J om. ता, J समयं गओ, J तप्पभूतं चैअ. 31 > J ता for तो, P लक्खिज्जए, J ण
 याणीयति किं एतं, P कुहगं, P कुहयं. 32 > J P मतिमोहो, P om. किं णिमित्तं, P आउ सच्चं पि, J वियप्पयंतीय P वियप्पंतीय.

- 1 कीरइ सक्खिचणयं विट्ठ-वल्ली-पलिय-पंडुरंगेण । सव्वं सच्चं ति अहो भणियं गोसग्ग-संखेण ॥ 1
 ताव य पवज्जियं पाहाउय-मंगल-सूरं, पडियं वंदि-वंदेहि, उग्गीयं वारविलासिणीयणेण । इमं च णाऊण एरिसं पभाय-
 3 समयं भणियं कामगहंदेण । 'सच्चं इमं मए विट्ठं गिसुयं अणुभूयं च, णत्थि वियप्पो । जं पि तए भणियं महंतो बुसंतो 3
 एस थोवं कालंतरं । एत्थ वि देव-माया य । देवा ते भगवंतो अवित्त-सत्ति-जुत्ता जं हियएण किं चित्तिज्जइ तं सव्वं तक्खणं
 6 अहं पेच्छंतो चेय अज्ज वि हियएण चिट्ठामि, मंतयंतं पिव उप्पेक्खामि । अहवा किमेत्थ विचारेणं । एस भगवं सव्वण्णू 6
 सव्व-दरिसी कीर-वद्दुमाण-ज्जियंद्दो विहरइ एयमि पएसंतरमि । संपयं पभाया रयणी । तेण तं चेय गंतूण भगवंतं
 पुच्छिमो 'भगवं, किं सच्चमिणं किंवा अलियं'ति । ता जइ भगवया समाइट्ठं 'सच्चं', ता सच्चं, अण्णहा इंदयाळं ति भण-
 9 माणो पत्थिओ कामगहंदो ममेतिए । पत्थिओ य भणिओ महादेवीए । 'देव, जइ पुण भगवया सव्वण्णुणा आइट्ठं होज्ज 9
 जहा सच्चं ता किं पुण कायव्वं देवेण' । कामगहंदेण भणियं 'देवि, णणु सयल-संसार-दुक्ख-महासायर-तरणं ति किमणं
 कीरउ' । तीए भणियं 'देव, जइ एवं ता अवस्सं पसाओ कायव्वो, एक्कं वारं दंसणं देज्जं, जेण जं चेय देवो पडिवज्जइ तं
 12 चेव अम्हारिसीओ वि कहं पि पडिवज्जिहिंति' ति भणमाणी णिवडिद्या चलणेसु । तओ पडिवणं च कामगहंदेण । 'एवं 12
 होउ' ति भणंतो एस संपत्तो मम समवसरणं । वंदिओ अहयं पुच्छिओ इमिणा 'किं इंदयाळं आउ सच्चं' ति । मए वि
 भणियं 'सच्चं' ति ।
 15 § ३५) इम च गिसामिऊण कय-पव्वजा-परिणामो उप्पण-वेरग्ग-मग्गो 'विसमा इमा कम्म-गई, असासया 15
 भोगा, दुरंतो संसारो, दुल्लंघं सिणेह-बंधणं, विरसाइं पिय-विओयाइं, कहुय-फळो कामो, पयडो मोक्ख-मग्गो, सासयं
 मोक्ख-सुहं, पडिबुद्धो अहं' ति चित्तयंतो कडय-णिवेसं गओ ति । एवं च भगवया वीर-मुणिणाहेण साहिए पुच्छियं गणहर-
 18 सामिणा 'भगवं, इओ गएण किं तेण तत्थ कयं, किं वा संपइ कुणइ, कत्थ वा वट्टइ' ति । भगवया आइट्ठं 'इओ गंतूण 18
 साहियं महादेवीए जहा सव्वं सच्चं ति । तओ विसागहंदं पठम-पुत्तं रजे अभिसिचिऊण आउच्छिय-सयल-गरवइ-ओओ
 संमाणिय-बंधुयणो पूरमाण-मणोरहो पडिणियत्त-पणइयणो एस संपयं समवसरण-पठम-पागार-गोउर-दारे वट्टइ' ति भण-
 21 माणस्स चेय समागओ ति । पयाहिणं च काउं भणियं तेण 'भगवं, अवि य, 21
 मा अच्छुसु वीसत्थं कुणसु पसायं करेसु मज्ज दयं । संसारोयहि-तरणे पव्वजा-जाणवत्तेण ॥
 एवं च भणिए पव्वाविओ सपरियणो राया कामगहंदो, पुच्छिओ य 'भगवं, कत्थ ते पंच जणा वट्टंति' । भगवया
 24 भणियं 'एक्को परं देवो, सो वि अप्पाउ, सेसा उण मणुय-ओए । दाविओ य भगवया मणिरह-कुमारो महरिसी । अवि य । 24
 एसो सो माणअडो तमि भवे तं च मोहदत्तो ति । एसो उ पउमसारो विइय-अवे पउमकेत्तरो तं ति ॥
 एसो कुवलयचंदो पुहईसारो इमस्स तं पुत्तो । वेरुलियाओ एसो वेरुलियंगो तुमं देवो ॥
 27 मणिरहकुमार एसो कामगहंदो पुणो तुमं एत्थ । भव-परिवाडी-हेउं एएण भवेण सिज्झहिइ ॥ 27
 ति आदिसंतो समुट्ठिओ भव-कुमुद-मियंको भगवं ति । एवं च भगवं तिहुयण-चरोदरेक्क-पदीव-सरिसो विहरमाणो
 अण्णमि दियहे संपत्तो कायंदीए महाणयरीए बाहिरुजाणे । तत्थ वि तक्खणं चेय विरइओ दंचेहिं समवसरण-विहि-
 30 वित्थरो । गिसण्णो भगवं सीहासणे । साहिओ जीव-पयत्थ-वित्थरो, संविओ य जीव-सहावो, उप्फालिओ कम्भासव-विसेतो, 30
 वज्जरिओ जीवस्स बंध-भावो, सिट्ठो पुण्ण-पाव-विहाओ, सूइओ सव्व-संवरप्पओगो, णिदरिसिओ णिज्जरा-पयारो, पयं-
 सिओ सयल-कम्म-महापंजर-मुसुमूरणेण मोक्खो ति ।

1) P सक्खिचणयं पिव विट्ठ, J वलिअ for पलिय, J सच्चं सच्चं. 2) P ताव पडिवज्जियं. 3) P om. गियुयं. 4) J थोवं, J P ए for य, P देवया ए for देवा ते, J सत्ति-जुत्तो जो. 5) P om. ति, P पडियं for भणियं, J वाचया पत्थिवानामिति, P पार्थिवानामिति, P *सामी, P दिट्ठा. 6) J उप्पेक्खामि, P अहवा, P om. सव्वण्णू after भगवं. 7) P वद्दमाण, P विहरइ ति इममि, P इ for तं. 8) P om. सच्चं before ता. 9) P पुच्छिओ for पत्थिओ, P पट्ठिओ भणिओ देवीए, P adds after भणिओ देवीए । देव जइ, some fourteen lines beginning with पि य साहइ लेसामेएण बंधए कम्मं etc. to एक्कमि तरवरमि तं मत्तं ट्ठायियं तेहिं ॥ which come again below, p. 245, lines 7-13. 10) P देवेण, P दुक्खसायर, J adds किमणं ति before किमणं. 11) J तीअ P तए, P inter. देव & जइ, J तावस्सं, J देज्जा, P पडिवज्जए. 12) J चेव, J कहं पि, P कहं ति पडिवज्जहिंत. 13) P वंदिउं, J उच्छयं for पुच्छिओ, P इंदयाळं, P om. मए वि भणियं सच्चं ति. 15) J om. च, P कंमगती. 16) P दुल्लंघं, J पिव, P कहुयफळो. 17) P कहुय for कहुय, P *मुणिणा साहिए, P गहर for गणहर. 18) J कत्थ for तत्थ, J संपयं कुणइ, P वट्टइ, J इतो, P इयं for इओ. 19) P महादेवि, P adds देवि after जहा, J णरवइणाओ. 20) P पूरमाणारहो, J पणईअणो, J पायारगोउरदारे. 21) P काऊण for काउं. 24) P परं for परं, J उ for उण, P om. य after दाविओ, J कुमारमहारिसी. 25) J माणहदो, J P वितियभवे, P adds त before पउमं. 26) P वेरुलियओ तुमं. 27) P -कुमारो, P om. पुणो, P adds पुण before एत्थ, P परिवाडीए हंतुं, J हेतुं एतेण, J सिज्झहिइ ति P सिज्झहिइ ति. 28) J अइट्ठो, J adds भगवं after आदिसंतो, P -कुमुय, J चरोअरेक्क, P विरमाणो. 31) P सुइया, J *पयोगो णिदरिसिओ, P णिज्जारापायारो पसासिओ. 32) J सयलमहापावपंजर.

- 1 § ३७६) एत्यंतरमि पुच्छियं भगवया गोदम-महासुणि-गायणेणं । अवि य । 1
भगवं पुरिसा बहुए वहुंता एकम्मि वावारे । थोय-बहु-मेय-भिण्णं किं कम्मं केह् बंधंति ॥
- 3 भगवया वि सयल-कम्म-पयडी-पक्खल-सव्व-द्व-सहावेण समाणत्तं । अवि य । 3
गोदम बहुए पुरिसा जोगे एकम्मि ते पुणो लग्गा । थोय-बहु-मेय-भिण्णं गियमा बंधंति अवि पावं ॥
भणियं च राणहरेणं । अवि य ।
- 6 केणट्टेणं मंते आहट्टं तियसिद-बद्ध-पुच्छेहिं । बहुए जीवा एकं कुणमाणा बंधिरे भिण्णं ॥ 6
अह भगवं पि य साहइ लेस्सा-मेएण बंधिरे कम्मं । बंधइ विसुद्ध-लेस्सो थोवं बहुयं असुद्धाए ॥
किण्हा णीला काळ तेऊ पडमा । य होइ सुक्का य । छवेय इमा भणिया संसारे जीव-लेस्साओ ॥
- 9 जह फलिह-पत्थरम्मि य कसिणे णीले इव पीय-रत्ते इव । उवहाणे तं फडियं कसिणं णीलं व जाएज्जा ॥ 9
अप्या वि तह विसुद्धो फालिह-महओ इव गोयमा जाण । कसिणाह-कम्म-योग्गल-जोए कसिणत्तणं जाइ ॥
जारिसयं तं कम्मं कसिणं णीलं व पीय पडमं वा । तारिसओ से भावो जंबू-फल-भक्ख-दिट्ठतो ॥
- 12 गामाओ छप्पुरिसा भत्तं वेत्तूणं गिग्गया रण्णं । सव्वे वि परसु-हत्था किर दारं छिंदिमो अरहे ॥ 12
गहणं च ते पडिट्ठा पेच्छंति य तरुवरे महाकाए । एकम्मि तरुवरम्मि तं भत्तं टावियं तेहिं ॥
अह छिंदितं पयत्ता भमितं रण्णम्मि ते महारुक्खे । ता तम्मि भत्त-रुक्खे वाणर-जूहं समारुद्धं ॥
- 16 अह तेण ताण भत्तं सव्वं खइज्जण भायणे अग्गे । अह लुंपिज्जण सव्वं पडिवह-हुत्तं गया पवया ॥ 16
वण-छिंदिया वि पुरिसा मज्झणहे तिसिय-भुक्खिया सव्वे । किर भुंजिमो सि एण्हं तं भत्त-तरुं समलीणा ।
पेच्छंति ण तं भत्तं ण य भायण-कप्पडे य फालियए । अह णायं तेहिं समं वाणर-जूहं समलीणं ॥
- 18 ता संपइ छायाणं का अम्हाणं गइ त्ति चित्तमो । वण-पुप्फ-फले असिमो वणम्मि अण्णेसिमो सव्वे ॥ 18
एत्यंतरमि काळो दर-पच्छि-जंबु-पिक्क-सहयारो । पडमोबुट्ट-मही-रय-पसरिय-वर-गंध-गंधद्वो ॥
अह एरिसम्मि काले तम्मि वणे तेहिं अण्णिसंतेहिं । दिट्ठो जंबुय-रुक्खो गिरुविओ फलिय-दर-पिक्को ॥
- 21 दहूणं छावि पुरिसा तुट्ठा ते मंतिउं समाठत्ता । संपइ पत्ता जंबू भण पुरिसा कह वि खायामो ॥ 21
एक्केण तत्थ भणियं फरसू सव्वान अत्थि अम्हाणं । मा कुणह अलसं तो मूलाओ छिंदिमो सव्वं ॥
छिण्णो पडिहिह एसो कडयड-रावं वणम्मि कुणमाणो । पडिणं रुक्खेणं भक्खेस्सं राय-जंबूणि ॥
- 24 एवं च गिसामेठं भणियं दुहएण तत्थ पुरिसेण । छिण्णेण इमेण तुहं को व गुणो भणसु मूलाओ ॥ 24
छिजंतु इमाओ परं एयाओ च्चेय जाओ साहाओ । पडियाओ भक्खेस्सं मा अलसा होइ हो पुरिसा ॥
तइय-पुरिसेण भणियं मा मूलं मा य छिंद साहाओ । छिंदइ पडिसाहं से जा जा फलिया इहं होज्जा ॥
- 27 पुरिसो भणइ चउत्थो मा बहुयं भणइ कुणह मह बुद्धी । थवए छिंदइ सव्वे जे जे सफले य पेच्छेज्जा ॥ 27
अह पंचमेण भणियं मा पलवह किंचि कुणह मह भणियं । लउडेण हणइ एयं पक्कं आमं च पाडेह ॥
सोऊण इमे वयणे ईसी हेलाए हसिय-वयणेण । छट्ट-पुरिसेण भणिया सव्वे वि णरा समं च्चेय ॥
- 30 किं कट्टं अण्णाणं अहो महारंभया अयाणत्तं । थोवा तुम्हं बुद्धी एरिसयं जेण मंतेह ॥ 30
किं एत्थ समाडत्तं जंबू-फल-भक्खणं तु तुम्मेहिं । जइ ता किं एण्हिं मूलाइच्छेय-पावेहिं ॥
एए सहाव-पिक्का पडिया सुय-सारियाहिं अण्णे वि । पिक्क-फल-जंबु-णिवहा धरणियले रयण-णिवह व्व ॥
- 33 वीसमिज्जण णिवण्णा अहव निसण्णं ट्टिया च इच्छाए । वेत्तूणं साह तुम्मे वव्वह अहवा वि अण्णत्थ ॥ 33

1) J om. भगवया, P गोयम. 2) P बहुए भगवंता एकम्मि. 3) P inter. सयल & कम्म, P om. सहावेण. 4) P गोयम. 6) P ति अस्वदः, J om. बद्ध. 7) J आह for अह, P लेसा-, P बंधए कम्मं, P बंधइ य मुद्धलेसो, J लेस्से थोवं. 8) J तेजा for तेऊ, P मा for इमा, P लेसाओ. 9) P om. य, P पीवरत्ते वा ।, P तं पडियं, J लीलं for णीलं. 10) P कह for तह, P फालिद्वयमइ उव्व, J गोतमा, P जायइ ॥. 12) P वि फरसहत्था, P दारं. 13) P om. ते, J तरुवरे, P ट्ठावियं. 14) P भमितं इम्मि. 16) P वणच्छिंदिया, J मज्झणह for मज्झणहे. 17) P कप्पडेण फां, J य फलियए, J अह णाओ. 18) J छायाणं, P गय त्ति, P -पुप्फ-. 19) P काले दरपिच्छजंबु, J वट्ट for बुट्ट, P -महीपरयपसरियपरसुगंधद्वो. 20) J विक्को for दिट्ठो, P -रुक्खा. 21) J मंतिउं. 22) J परसू, P मूलाउं. 23) J छिण्णा पडिहिति एसा, J कुणमाणो, J पडिआए पक्खएणं, P एक्केणं for रुक्खेणं, J राजजंबूणि. 24) P एवं निसामेत्तं, J छिण्णाए इमाए तुहं कोव्व, J मूलाओ. 25) J छिजंति इमाए इहं एयाओ, J दो for हो. 26) P साहा ।, P होज्जः. 27) P मा बहुयं, P कुहण for कुणह, J बुद्धी । चवए छिंदइ, P जो जस्स फले. 28) P एयं for भणियं, P हण एयं. 29) J ईस P इमी. 30) J अयाणत्तं । थोआ. 31) J तत्थ for एत्थ, J एतेहिं, P मूलाइं छेय. 32) P -पक्का पाडिया, P पक्क-. 33) P वीसमिज्जण निवण्णो, J om. अहव निसण्णं, J ट्टिया, J adds हि after तुम्मे.

- 1 इय ते भणिया सव्वे एयं होउ त्ति णवर भणमाणा । अस्तिउण समाडत्ता फळाहं धरणीं पडियाहं ॥ 1
- तित्ता तेहिं चिय ते धरणी-वडिपहिं णवर जंबूहिं । सरिसो से फल-भोओ पावं पुण बहु-विहं ताणं ॥
- 3 जो सो मूलं छिंदइ थोवे कज्जमि बहु-विहारंभो । मरिउण कण्ह-लेस्सो अवस्स सो जाइ णरवमि ॥ 3
- विदिओ साळं छिंदइ वरयरणो सो वि णील-लेसिओ । मरिउण पाव-चित्तो णरथं तिरियं व अछियइ ॥
- वहुओ वि पाव-पुरिसो भणइ पसाहाउ छिंदिमो अम्हे । कावोय-लेस्स-भावो सो मरिउं जाइ तिरिएसु ॥
- 6 जो उण चउत्थ-पुरिसो थवए सव्वे वि एत्थ अवणेह । सो तेयस-लेस्साए पुरिसो वा होइ देवो वा ॥ 6
- जो उण पंचम-पुरिसो पक्के आमे व्व गेण्हिमो सव्वे । सो पडम-लेस्स-भावो अवस्स देवत्तणं उहइ ॥
- जो उण छट्ठो पुरिसो भूमिगए गेण्हिमो त्ति सदय-मणो । सो होइ सुद्ध-भावो मोक्खस्स वि भायणं पुरिसो ॥
- 9 ता गोदम पेच्छ तुमं कजे एक्कमि जंबु-भक्खणए । छण्हं पि मिण्ण-भावो लेसा-भेओ व सध्वाणं ॥ 9
- मिण्णो य कम्म-बंधो मिण्णा य गइं मइं वि से मिण्णा । एक्कमि वि वावारे वट्टता ते जहा मिण्णा ॥
- एवं जं जं कज्जं केण वि पुरिसेण काउमादत्तं । कज्जमि तम्मि एया छलेसा होंति णायव्वा ॥
- 12 हण छिंदं भिंदं मारे-चूरे-चमडेह लुंपह जहिच्छं । जस्स ण दया ण धम्मो तं जाणह किण्ह-लेस्स त्ति ॥ 12
- जो कुणइ पंच-कजे अधम्म-जुत्ते व्व भणइ जो ववणे । थोवं पुण करुणवरं तं जाणह णील-लेस्सं तु ॥
- चत्तारि वियण-कजे कुणइ अकजे व्व पाव-संजुत्तो । जो धम्म-दया-जुत्तो कवोय-लेस्सं पि तं जाण ॥
- 15 जो कुणइ तिण्णिण पावे तिण्णिण व वयणे स कक्खसे भणइ । धम्ममि कुणइ तिण्णिण य तेउल्लेसो हु सो पुरिसो ॥ 15
- काऊण दोण्णिण पावे चत्तारि पुणो करेइ पुण्णाहं । णिंदइ पावारंभं तं जाणसु पडम-लेस्सं तु ॥
- एकं पावारंभं पंच य धम्मस्स कुणइ जो पुरिसो । सो होइ सुक्क-लेस्सो लेसातीओ जिणो होइ ॥
- 18 § ३०७) एवं च साहिए भगवया भव्वारविंद-संद-पडिबोहण-पडु-वयण-किरण-जालेण जिणवर-दिवायरेण 18
- आवद्ध-करयलंजलिउडेहिं सव्वेहिं मि भणियं तियसिदप्यमुहेहिं । 'भगवं, एवं एयं, सइहामो पत्तियामो, ण अण्णाहा
- जिण्णिद-वयणं' ति भणतेहिं पसंसियं ति । एत्थंतरम्मि पविट्ठो समवसरणं एक्को रायउत्तो । सो य,
- 21 दीहर-मुओ सुणासो वच्छत्थल-धोलमाण-वणमालो । णिमिसंतो जाणिजइ अठ्वो किर माणुसो एसो ॥ 21
- तेण पयाहिणीकओ जय-जंतु-जम्मण-भरण-विणासणो वीरणाहो । भणियं च ।
- जय मोह-मल्ल-मूरण णिस्सुंभण राय-रोस-चोराणं । जय विसय-संग-वज्जिय जयाहि पुज्जो तिहुयणम्मि ॥
- 24 पाय-पणाम-पच्छुट्टिएण य भणियं । अवि य । 24
- भगवं किं तं सव्वं जं तं दिव्वेण तत्थ मह पटियं । मंगलमंगलं पिव को वा सो किं व तं पडइ ॥
- भगवया वि आइहं ।
- 27 देवाणुपिया सव्वं सव्वं तं तारिसं चिय मुणेसु । सो दिव्वो तुज्ज हियं परलोए पडइ सव्वं पि ॥ 27
- इमं च सोऊण 'जइ एवं ता तं च्चेय कीरउ' त्ति भणंतो णिक्खंतो समवसरणाओ । णिमाए य तम्मि आवद्ध-करयलं-
- जलिउडेण पुच्छिओ भगवं गोयम-गणहारिणा । अवि य । 'भगवं,
- 30 को एस दिव्व-पुरिसो किं वा एएण पुच्छिओ तं सि । किं पटियं मंगलवाटणं अह णिग्गओ कत्थ ॥' 30
- एवं च पुच्छिओ अणेय-भव्व-सत्त-पडिबोहणत्थं साहिउं पयसो ।
- § ३०८) अथि इमम्मि जंबुहीवे भरइइ-मज्झिम-खंडे उसमपुरं णाम णयरं । तं च
- 33 बहु-जण-कय-हलबोलं हलबोल-विसट्टमाण-पडिसइं । पडिसइ-मिलिय-वज्जं वज्जिर-सूरोध-रमणिजं ॥ 33

1 > P भणमाणो, P समारूढो फलाहं. 2 > J तेसिहिं चिअ तित्ता धरणी, P धरणिपडिगपहिं, P om. से, P बहुविहत्ता ॥ 3 > P किण्ह for कण्ह, P लेसो, P जाय for जाइ. 4 > P बीउं for विदिओ, P णीय for णील, P च for व. 5 > P ततिओ, J कावोत, P लेसभावो, P मरिओ जाय तिरियं सो. 6 > J चवए for थवए, J तेअसत्तलेस्सोए, P -लेसाए. 7 > P पडमो लेसभवो. 8 > P हायणं for भायणं. 9 > P तायम, P कज्जं, P जंबुतक्खण, J छण्हं पि, P लेसा तेउ य. 10 > P गती मती. 11 > P कम्मं केण, P पत्ते for एया. 12 > P लपह जरिच्छं, P -लेस त्ति. 13 > J छट्ठं पुण धम्मिट्टं तं जाणसु णीललेस्सं ति for थोवं पुण etc., P नीललेस्सं. 14 > P वयण for वियण, J अयज्जे, P व for व, J -जुत्ते, P कावोतलेस्सं. 15 > P वि for व, J तेउल्लेसो P तेउल्लेसो. 16 > J कोऊण for काऊण, J पावाइं for पुण्णाहं, P -लेस्सं. 17 > P पारंभं पंच, P सा for सो, P -लेसो लेसातीरे, J लेसातीतो. 18 > J -संद-, J पडुअ-. 19 > P -करकमलंजलेउडेहिं, J om. सव्वेहिं, P यइहामो for सइहामो. 20 > P सम-वसरणंमि एक्को. 21 > J अणासो P सुवेसो for सुणासो, P वलमालो । णिमिसंतो, J जाणिज्जति. 22 > J पयाहिणीकओ, P -जंमभरण-, J -विणासणारी (?) वीरणाहो. 23 > J णिस्सुंभणाराय, J पुज्जा. 24 > P पच्छुट्टिएण भणियं. 27 > P देवाणु-पिया, P मुणेसु for मुणेसु. 28 > P om. य. 29 > J गोतम-. 30 > P पुच्छिउं, P अग्ग for अह. 31 > J adds व after पुच्छिओ, P सव्व for भव्व. 32 > P मज्झिमे. 33 > P विसट्टमाणहमाणपडिसइं, P वज्जियसूरोध-.

- 1 तथ य राधा सूरौ धीरो परिमलिय-सत्तु-संगामो । नामेण चंद्रगुप्तो गुप्तो मंते न उण नामे ॥ 1
 २ तस्स य पुत्तो एतो नामेण इमस्स बहरगुत्तो ति । संपइ इमस्स चरियं साहियंते गिसामेह ॥
- 3 तस्स य चंद्रगुत्तस्स अण्णम्मि दिवहे पायवडण-पञ्चुट्टियाए विण्णसं पडिहारीए 'देव, दुवारे सव्व-पुर-महल्लया देवस्स 3
 चलण-दंसण-सुई पत्येति, सोढं देवो पमाणं' । भणियं च ससंभमं णरवड्ढणा 'तुरियं पवेसेसु णयर-महल्लए' ति । भिग्गया
 पडिहारी, पडिहा महल्लया, उण्णियाणि दंसणीयाणि । भणियं च णरवड्ढणा 'भणह, किं कज्जं तुम्हागमणं' ति । तेहिं भणियं
 6 'देव, उभय-वेळं येय इट्ट-देवथं पिच दंसणीओ देवो, किंतु णत्थि एत्थि पुण्ण-विसेसे, अज्जं पुण सविसेसं दंसणीओ' 6
 ति । राहण्ण भणियं 'किं तं कज्जं' । तेहिं भणियं 'देव, दुर्वलानां वलं राजा ।' इति । ता अण्णिसावेउ देवो दिव्वाए
 9 सुंदरं तं वि देव णत्थि । एवं टिए देवो पमाणं' ति । राहणा भणियं । 'वच्चह, अकाल-हीणं पावेसि' ति भणतेण तेण 9
 पेत्तिवा णयर-महल्लया । आइट्टो पडिहारो 'तुरियं दंडवास्सिं सहावेह' । आप्पसामंतरं च संपत्तो दंडवास्सिओ । भणियं
 च तेण 'आइसड देवो' ति । राहणा भणियं 'अहो, णयेरी कीस एरिसो चोर-उवड्ढवो' ति । तेण भणियं । 'देव,
 12 ण य दीसइ हीरंतं चोरो वि ण दीसए भमंतेहिं । एक्क-पए चिय सुव्वइ गोसे सयलं पुरं मुत्तियं ॥ 12
 ता देव बहु-वियथं अग्हे अणुरक्खिओ ण उवळडो । अण्णस्स देव देवो आप्पसं जो तयं लडइ ॥'
 इमम्मि य भणिए राहणा पलोइयं सयलं अत्थाणि-मंडळं । तज्जो बहरगुत्तो समुट्टिओ, भणिओ य तेण चलण-पणाम-
 15 पञ्चुट्टिएण राया । 'देव, 15
 अइ सत्त-रत्त-मज्जे चोरं ण लहामि एत्थ णयरम्मि । ता जल्लिधण-जालाउलम्मि जलणम्मि पविसामि ॥
 ता देव कुणसु एयं मज्ज पसायं ति देसु आदेसं । पढसो चिय मज्ज इमो मा भंगो होउ पणयस्स ॥'
 18 विण्णत्ते बहरगुत्तेण राहणा चंद्रउत्तेण भणियं । 'एवं होउ' ति भणिय-मेत्ते 'महापसाओ' ति पडिवण्णं कुमारेण । बोलीणो 18
 सो दिवहो, संपत्तो पणोस-समओ । तथ य णिम्मज्जियं परियरं जारिसं राईए परिभमणोइयं । तं च काउं गिग्गओ
 रायतणओ मेदिराओ । पुरियं च पउट्टे वेसुणंदयं । करयल-संगहियं च कयं खग्ग-रवणं । तज्जो गिहुय-पय-संचारो परिभमिउं
 21 समाढत्तो । केसु पुण पएसेसु । अवि य । 21
 रक्खामुह-गोउर-चच्चरेसु आराम-तह-तलाएसु । देवउलेसु पवासु य वावीसु मडेसु णीसकं ॥
 एवं च वियरमाणस्स बोलीणा छट्टा राई तह वि ण कोइ उवळडो दुट्ट-पुरिसो । तज्जो सत्तमए य दिवसे चित्तियं
 24 बहरगुत्तेण 'अहो, अमाणुसं किं पि दिव्वं कम्मं, जेण वेच्छ एवं पि अणुरक्खिज्जंतो तह वि ण पाविज्जइ चोरो । ता 24
 को एत्थ उचाओ होहि ति । पञ्चूसे य मज्ज पड्ढणा पूरइ । अवि य ।
 जइ सत्त-रत्त-मज्जे चोरं ण लहामि एत्थ णयरम्मि । ता जल्लिधण-जालाउलम्मि जलणम्मि पविसामि ॥
 27 ता आगओ मज्ज मच्च अपूर-पड्ढणो हं । ता सव्वहा अज राईए मसाणं गंतूण महामंसं विक्केऊण कं पि वेयाळं आराह्ण 27
 पुच्छामि अहा 'साहसु को एत्थ चोरो' ति, अण्णहा णीससयं मज्ज मरणं' ति । बोलीणो सो दिवहो । संपत्ता राई ।
 णिग्गओ रायतणओ राईए णगरीए संपत्तो महामसाणं ।
 30 § ३७९) तथ य काऊण कायव्वं उक्कत्तियं अस्सिधेणूए ऊरुसु, णिययं महामंसं गहियं हत्थेण, भणियं च तेणं । 30
 'ओ भो रक्ख-पिसाया भूया तह वंतरा य अण्णे य । विक्केमि महामंसं चेप्पउ जइ अत्थि ते मोळं ॥'
 एवं च एक्क-बारं दुइयं तइयं पि जाव वेलाए । उट्टाहओ य सहो भो भो अह गेण्हिमो मंसं ॥

1 > P धीरो for धीरो, P परिमलियमत्तुसंगामे, P om. गुप्तो, P मंतेण न उण. 2 > P बयरगुत्तो. 3 > P -पञ्चुट्टियाए.
 4 > P नयेरे महल्लए. 5 > J उणियाणि P उण्णयादं, P दंसणीयादं, J om. च, P om. तेहिं भणियं. 6 > P उभयवेयं,
 P इत्तिओ पुत्रविसेसो. 7 > P om. तं before कज्जं, J दुर्वलानां, P दुर्वलानामनाथानां बालवृद्धतपस्विनां । अनार्यै [:]
 परिभूतानां सर्वेषां पारिवो गतिः ॥, P om. इति. 8 > J कोइ ण, J किपि for किं चि, P किपि सुंदरं. 9 > P ट्टिए, J om. तेण. 10 > P
 आइट्टो. 11 > J आइससु ति, P om. अहो, P om. देव. 12 > P हीरंतो, P भमंतंमि, P गोस सयलं. 13 > P अग्हे आर-
 क्खिओ, J adds उण after ण, P आप्पसो. 14 > P om. राहणा, P सयलमत्थाणमंडळं, J adds अत्थं after सयलं, J वेरगुत्तो,
 P समट्टिओ अ भणिओ, P पणाममञ्चुट्टिएण. 15 > J adds अवि य after देव. 16 > P om. रत्त, P ता जल्लिधण, P जलणे
 पविसामि. 17 > J एवं for एयं, J ति देव आप्पसं. 18 > P om. राहणा चंद्रउत्तेण. 19 > P निम्मिजयपरियरं, J राई परिं
 J काऊण for काउं. 20 > P खयरयणं, P निहुयपयं. 22 > P तह लाएसु. 23 > P बोलीण, P राती, P कोवि उवळडो, P om.
 दुट्टपुरिसो, P सत्तमे य दिवसे. 24 > P अमाणुसो. 25 > J होदिति, P अपूरमाणस्स for पूरइ. 26 > P चोरो न, J णवरंमि,
 P जल्लिधण, P जलणे पविसामि. 27 > J अपूरइ-, P अ for अज्ज, J महामंसं, P किपि, J वेअरं for वेयाळं, P साहिऊण for
 आराह्ण. 28 > J से for सो, P संपत्त. 29 > P रायतओ नगरीए, J णगरीए, P जहामसाणं. 30 > P repeats काऊण,
 P उक्कत्तियं, J णिभयमहामंसं. 31 > P रक्खस, J भूया, J तथ वंतरा व अण्णे वा ।, J अत्थि सेम्मोळं. 32 > J एक्कं, J महामंसं
 for मंसं.

- 1 पहाइओ रायतणओ तं दिसं 'को इहं गेण्हइ मंसं' । वेयालेण भणियं 'पेच्छामि केरिसं मंसं' । कुमारेण भणियं । 1
 'एयं मंसं गेण्हसु जिग्घसु चक्खसु सुरहिं मिट्ठं च । ता मह देजसु तुट्ठो जं दायव्वं इहं मोल्लं ॥'
- 3 ति भणिए पसारिओ हत्थो वेयालेणं । णिक्खित्तं तस्स करयले मंसं कुमारेण । तओ तेण आसाइऊण भणियं । 3
 'ओ ओ एयं आमं णिस्सत्तं विस्सगंधियं एयं । णाहं गेण्हामि इमं जइ पक्कं देसि अग्गीए ॥'
 रायउत्तेण भणियं ।
- 6 'पक्कं देमि जहिच्छं पयइ वच्चासु इह चित्तिं जाव । उक्कत्तिय पक्क-रसं देमि अहं भुंज तं तत्थ ॥' 6
 वेयालेण भणियं 'एवं होउ' त्ति भणंता उवगवा दोणिण त्ति तक्खण-पलीविय-विय-समीवं । तत्थ य 'णिसम्मसु भुंजसु'
 त्ति भणंतेणं रायतणएणं उक्कत्तियं अण्णं महामंसं, पोइय-संठए पक्कं, पणामियं तस्स वेयालस्स । गहियं तेण भुत्तं च ।
- 9 § ३८०) एत्थंतरम्मि पुच्छिओ भगवं महावीर-जिणिंदो गोदम-सामि-गणहारिणा 'भगवं, किं पिसाया रक्खसा 9
 वा देव-जोणिया इमे महामंसं अण्णं वा कावलियं आहारं आहारंति' । भगवया समाणत्तं 'गोदमा ण समाहारंति' ।
 भणियं गोयमेण 'भगवं, जइ ण आहारंति, ता कीस एयं महामंसं तेण असियं ति भण्णइ' । भगवया समाइट्ठं 'पयइए
 12 इमे वंतरा केलीगिल-सहावा बाल व्व होंति । तेण पुरिसेहि सह खेलंति, सत्तवंतं च दूट्ठण परितोसं वच्चंति, बलियं पिव 12
 मल्लं रायउत्तं, तस्स सत्तं णाणा-खेलावणाहिं परिक्वंति । तेण मंसं किर मए भुत्तं ति देसंति, तं पुण पक्खिं वंति । तेण
 पक्खित्तं तं मासं । पुणो भणियं वेयालेण । अवि य ।
- 15 ओ ओ एयं मासं णिरट्ठियं णेय सुंदरं होइ । जइ देमि अट्ठि-सरिसं भुजं तं कडयडारावं ॥ 15
 कुमारेण भणियं ।
 भुंजसु देमि जहिच्छं मंसं वा अट्ठिएहिं समयं ति । एयं च्चैय भणंतेण कप्पिया दाहिणा जंवा ॥
- 18 छूढा थिताणले, पक्का उप्पिया वेयालस्स । पक्खित्ता तेण । भणियं पुणो । 18
 ओ ओ अलं इमेणं संपइ तिसिओ पियामि तुह रुहिरं । पियसु त्ति भाणिउणं कुमारेण विचारियं वच्छं
 तं च रुहिरं पाऊण पुणो वि भणियं । अवि य ।
- 21 'एयं जं तुज्झ सिरं टिण्णं करवत्त-कत्तिय-विरिकं । माणस-वस-रहिरासव-चसयं मह सुंदरं होइ ॥' 21
 कुमारेण भणियं ।
 छेत्तूण देमि तुज्झं जं पुण करवत्त-कत्तरण-कम्मं । तं भो सयं करेजसु एत्तिय-मेत्तं महायत्तं ॥
- 24 ति भणमाणेण कवलियो कंत-कसिण-कौतला-कलावो वाम-हत्थेण दाहिण-हत्थेण य छेत्तूण पयत्तो असिणेणए । ताव य 24
 हा-हा-रव-सइ-मुहलो उद्धाइओ अट्ट-हासो गयणगणे । भणियं च तेण वेयालेण । अवि य ।
 'एएण तुज्झ तुट्ठो अणण-सरिसेण वीर-सत्तेण । ता भणसु वरं तुरियं जं मग्गसि अज्ज तं देमि ॥'
- 27 कुमारेण भणियं । 27
 'जइ तं सि मज्झ तुट्ठो देसि वरं णिच्छियं च ता साह । केण मुसिजइ णयरं चोरो भण कत्थ सो तुरियं ॥'
 तेण भणियं ।
- 30 'एसा महइ-महल्ला वीर तए पुच्छिया कहा एण्ह । तुह सत्त-णिज्जिएणं साहेयव्वं मए वस्सं ॥ 30
 लद्धो वि णाम चोरो कुमार भण तस्स होज्ज को मल्लो । दिट्ठो वि सो ण दीसइ अह दिट्ठो केण गहियव्वो ॥'
 तओ 'कीस ण घेप्पइ' त्ति चित्तयंतेण पुलइयं अत्तणो देहं जाव सव्वंग-संपुण्णं अक्खयं सुंदरयरं ति । भणियं च कुमारेण ।
- 33 'ओ ओ, 33
 पेच्छामि परं चोरं एत्तिय-मेत्तं सि पुच्छिओ तं मे । घेप्पइ ण घेप्पइ व्वा एत्थ तुहं को व वावारो ॥'
 तेण भणियं ।

1 > P om. रायतणओ, J केरिसं मासं. 2 > J मासं, P जिवसु भक्खसुरमि मिट्ठं च, J adds जइ तुमं पट्टिहाइ before सुरहिं, P ता मेह. 3 > J मासं. 4 > J ओअं P एवं for एयं, P णिस्समयं विस्सगंधियं. 6 > P जहिच्छं, P पक्करिसं. 7 > P दो for दोणिण, P om. य, J पलीवियं. 8 > P उक्कत्तियं, J महामासं, P पोइयं सोउए पक्कं, P om. तस्स, J om. भुत्तं च. 9 > P om. भगवं, P गोतम-, P पिसाया रक्खसा वा. 10 > P इमं, J महामासं, P वा कालियं, P om. आहारं, J आहारंति, P गोयमा णो आहारंति. 11 > J गोदमेण, P जर णा, J महामासं, P om. ति. 12 > P केलीकिल, P पुरिसेण सह. 13 > J महारायउत्तं P मल्लं रायउत्ता, P तं for तस्स, P परिक्वंति, P परिक्ववे for पक्खिं वंति, P om. तेण पक्खित्तं तं मासं etc. to तं कडयडारावं ॥. 14 > J तस्मासं. 17 > J मज्झं P तुज्झं for मंसं, P सि for ति. 18 > J वूढा for छूढा, J inter. पुणो and भणियं and adds अवि य. 19 > J इमिणा संपइ, J भणिएण, J कुमारेण. 20 > P om. वि. 21 > J किरिकं, P सुह for मह. 23 > P देह, J तुम्हं for तुज्झं, J कत्तणं कम्मं, P को for ओ, J महापत्तं ॥. 24 > P repeats दाहिण, P वेत्तूण for छेत्तूण, P om. अवि य. 26 > P एत्तेण, P अण्णणसरिसेत्तेण. 28 > P निच्छियं ति ता, P मुणिज्जइ. 30 > J महति-, P तु for तुह, P साहे-यव्वो. 31 > P गहियव्वो ॥. 32 > P om. तओ, P चित्तियंतेण पलोइत्तं, P सव्वंगं, P अक्खरसुंदरयरं ति. 34 > P पुच्छिउं, P घेप्पइ वा.

- 1 'णं बप्पो तस्सम्हे पुरओ ठाडं पि णेय चाएमो । जो पुण तस्सावासो तं वूरत्था पयंसेमो ॥' 1
कुमारैण भणियं ।
- 3 'अइ तं मज्झ ण साहसि आवासं मज्झ तं चिय कहेसु । रक्खामि ताव तं चिय जा दिट्ठो सो वि तत्थेय ॥' 3
तेण भणियं 'अइ एवं ता गिसुणेसु ।
जो एस मसाण-वडो आरुहिउं एत्थ कोत्थरो अत्थि । तं चेय तस्स दारं चोरावासस्स हो वीर ॥'
- 6 § ३८१) इमं च सोऊण पविरल-पयच्छोहो पहाहओ तं चेय दिसं रायतणओ, संपत्तो तं च वड-पादवं । अवि य । 6
इय बहल-पत्तलं तं साह-पसाहा-लुलंत-घर-जाळं । बहु-पसरिय-पारोहं मसाण-वड-पायवं पत्तो ॥
तं च दट्टूण आरूढो कुमारो, अण्णेसिउं पयत्तो तं च कुडिच्छं । कथ ।
- 9 साहासु पसाहासु य मूल-पळंवेसु पत्त-णियरेसु । णिककडिय-करवालो बिलस्स वारं पलोएइ ॥ 9
कहं पुण पलोइउं पयत्तो । अवि य ।
परिमुसइ करयलोहिं पायं पविस्ववइ जिघए गंधं । खण-णिट्टुयंगो सइ इच्छइ सोउं कुडिच्छेसु ॥
- 12 एवं च पुलोएतेण एकमिम कुडिच्छ-समीवे उवणीयं वयणं, जाव 12
णिम्महइ धूव-गंधो कुकुम-कप्पूर-मावलुगारो । उच्छलइ तंति-सहो वर-कामिणि-गीय-संवल्लिओ ॥
तं च सोऊण अघाइऊण य चित्तियं राय-तणएण । अब्बो,
- 15 लद्धं जं लहियच्चं दिट्ठं चोरस्स मंदिरं तस्स । तस्स य महं च एण्हि जो बलिओ तस्स रज्जमिणं ॥ 15
इमं च चित्तिऊण पबिमिउं समावत्तो । थोवंतरं च जाव गओ ताव
बहु-णिज्जहय-सुहयं आलय-सुंपाल-वेइया-कलियं । धुब्बंत-अयवडायं वर-भवणं पेच्छए कुमरो ॥
- 18 तं च दट्टूण रहस्य-वस-विसेस-पसरिय-गइ-पसरो पविट्ठो तं भवणं । केरिसं च तं पेच्छइ । अवि य । 18
फालिह-रयण-अयं पिव गाणा-अणि-चुण्ण-विरइयालेक्खं । कंचण-तोरण-तुंगं वर-जुवई-रेहिर-पयारं ॥
चित्तियं च तेण 'अहो महंतं इमं भवणं' । 'कथ दुरायार-कम्मो होहिइ चोरो' ति चित्तियंतेण दिट्ठा एक्का जुवई ।
- 21 केरिसा । अवि य । 21
णीलुप्पल-दीहच्छी पिडुल-णियंवा रणंत-रसणिळा । अहिणव-तुंग-थणहरा देवाण वि मणहरा बाला ॥
तं च दट्टूण चित्तियं रायतणएण । 'अहो एसा तुरिय-पय-णिकखेवं तस्सेव आप्सेण पत्थिया, ण ममं पेच्छइ, ता किंचि
- 24 सइ करेमि जेण ममं पेच्छइ' ति । भणियं तेणं । अवि य । 24
'गरुओ सिहिणाण भरो तणुयं मज्झं ति सुयणु चित्तेसु । मा गमण-वेय-पहया भरेण कणइ व्व भज्जिहिसि ॥'
तं चिय सहसा सोऊण कह तीए पुलइयं । सुण ।
- 27 संभम-विलास-मीसं वल्लिउं अइ-दीह-लोयण-तिभायं । तह तीए पुलइओ सो जह भिण्णो मयण-आणेहिं ॥ 27
§ ३८२) तं च तथा दट्टूण संभम-अयाणुराय-कोउय-रस-अंभिया इव डिया । तं च तारिसं दट्टूण चित्तियं
रायतणएण । 'अहो,
- 30 जत्तो विलोल-पमहल-धवलाहं वलंति णवर णयणाइं । आयण्ण-पूरिय-सरो तत्तो चिय धावइ अणंगो ॥' 30
किं च इमाए पुच्छामि किंचि पुच्छियच्चं' ति भणिया ।
'को य इमो आवासो का सि तुमं सुयणु को इहं णाहो । कथ व सो किं व इमो गायइ महिलायणो एत्थ ॥'

1 > P ण for णं, P पुरउ हाउं पि णोय चाएमो, P जं for जो. 3 > P दिट्ठा, P तत्थेवा. 6 > P-पविरथोहो, P om. च.
7 > P अइ for इय, P पत्तलंवं तं, J -ललंतघरयाळं. 8 > P om. च before कुडिच्छं. 9 > P बिलस्स दारं पलोएत्ति ॥, 12 > P
पलोएत्तेण, P कुडिच्छय. 13 > P णिस्सइ for णिम्महइ. 14 > J अघाइऊण, P om. य, P अघो for अब्बो. 15 > P
तस्स रब्बं तु ॥. 16 > P adds अवि य before थोवंतरं, JP add पेच्छइ after ताव. 17 > P adds तु before आलय,
P पालयणरुयवेस्ताकलियं । 18 > J वससविसेस, J inter. तं & च after केरिसं. 19 > J हालिय P फलिह for फालिह, P
रयणाअयं, P रेहिर for तोरण. 21 > J om. च, J होहिति P होहि ति, P चित्तियं तेण, P adds आए before दिट्ठा, P om.
एक्का. 22 > P नीलुप्पील, P वि मणहरा. 23 > P पयनिकखेवो, J तस्सेअ. 24 > P भणिया. 25 > P सुयण, P trans.
भरेण after कणइ व्व, P कणय व्व. 26 > P च for चिय, J कय तीय पुल, P सुयणुं for सुण. 27 > P वल्लियं, J तीय for
तीए. 28 > P अंभिय इव वट्ठिया. 30 > P आइत्त, 31 > P किं वा इमा. 32 > J को व इमो, J adds हो before कथ,
P कथ वि सो.

- 1 तीए भणियं । 'सुंदर,
जो जं जाणइ थाणं अह सो पावेइ तं सकजेणं । कह तं अयणंतो चिय एत्तिय-मेत्तं अइगओ सि ॥'
- 3 तेण भणियं ।
'अयणंतो चिय मूढो कह वि तुलगेण पाविओ एत्थ । ता साहसु परमत्थो को एत्थ वहु कहिं सो वा ॥'
- 6 तीए भणियं ।
'जइ तं पंथ-चिसूढो कत्तो णयराओ आगओ एत्थ ।' भणियं च तेण 'सुंदरि उसभपुरा आगओ अहयं' ॥
तीए भणियं ।
'जइ तं उसभपुरे चिय किं जाणसि चंदउत्त-णरणाहं । पुत्तं च वहरगुत्तं सुहयमणंगं व रूपेणं ॥'
- 9 तेण भणियं ।
'सुंदरि कहं वियाणसि रूवं णामं च ताण दोणहं पि ।'
तीए भणियं ।
- 12 'किं तेण बोलियं तं आसि गुलो खाइओ एण्हि ॥'
तेण भणियं ।
'सुंदरि साहेसु फुडं ताणं किं होसि किंचि पुरिसाणं । कह व वियाणसि ते तं केण व हो पाविया एत्थं ॥'
- 15 तीय भणियं ।
'सावत्थी-णरवइणो धूया हं वल्लहा सुरिदस्स । बाल चिय तेणाहं दिण्णा हो वहरगुत्तस्स ॥
एत्थंतरम्मि इमिणा विज्जासिद्धेण सुहय केणावि । हरिउण एत्थ कथ वि पायालयलम्मि पक्खिता ॥
- 18 जाणामि तेण ते हं णामं रूवं च ताण गिसुयं मे । णाहं एक्का हरिया महिलाओ एत्थ बहुयाओ ॥'
तेण चित्तियं । 'अहो, एसा सा चंपयमाला ममं दिण्णा आसि, पच्छा किर विज्जाहरेणावहरिया गिसुया अग्गेहिं, ता सुंदरं जायं, दे साहिमो इमाए सव्भावं' । चित्तिउण भणियं तेणं ।
- 21 'सो वहरगुत्त-णामो पुत्तो हं सुयणु चंदगुत्तस्स । एत्थं विज्जासिद्धं अणिसमाणो इहं पत्तो ॥
ता साह कथ संपइ विज्जासिद्धो कहं व हंतव्वो । मह किंचि साह मम्मं जइ णेहो अत्थि अग्हेसु ॥'
तीए भणियं ।
- 24 § ३८३) जइ तं सि वहरगुत्तो ता पिययर सुंदरं तए रइयं । साहामि तुज्ज सव्वं जइ सो मारिज्जए पावो ॥
जं जं परम-रहस्सं सिद्धं वसुणंदयं च खगं च । एत्थं चिय देवहरे अच्छइ तं ताव तं रोणइ ॥
गहिएहिं तेहिं सुपुरिस अल-च्छिणो विव्वओ व्व सो होही । अह तं पावइ हत्थे उप्पइओ केण वीसेज्ज ॥
- 27 रायउत्तेण भणियं 'ता सुंदरि, साहसु कहं पुण सो संपइ वट्टइ विज्जासिद्धो । तीए भणियं 'कुमार, राईए सो भमइ, अत्थमिए महिलं वा अण्णं वा जं किंचि सुंदरं तं अक्खिवइ । दिथइओ उण एत्थ विल-भवणे महिला-वंद-मज्ज-गओ अच्छइ । ता संपइ णत्थि सो एत्थ । अह सो होइ ता अत्थि तुमं अहं च एवं अवरोप्परं वीसत्था आलावं करेता ।' तेण
- 30 भणियं 'जइ सो णत्थि ना कीस एयाओ महिलाओ गायंति' । तीय भणियं ।
'सुंदर तेणेय विणा इमाओ हरिसम्मि वट्टमाणीओ । गायंति पढंति पुणो रुयंति अण्णाओ णत्थंति ॥'
तेण भणियं ।
- 33 'सुंदरि साह फुडं चिय विज्जासिद्धस्स मज्ज दोणहं पि । को होहिइ एयाणं वेमो व्व पिओ व्व हिययस्स ॥'
हसिउण तीए भणियं ।
'अइ सुद्ध किं ण-याणसि महिला-वरियं वियाणियं केण । गामेळओ व्व पुच्छमि महिल चिय महिलिया-हिययं ॥

2 > J तं तं for अह, J पावइ अ कजेणं, P अह तं अयाणंतो. 4 > P अयाणंतो, P कह व, P कव हि for कहिं. 6 > P आहयं ॥ 8 > P चि for चिय, J च वेरगुत्तं संगमणंग व, P वहरगुत्तं सुहयमणंगं. 11 > J तेण for तीय. 12 > J खवइओ for खाइओ. 13 > P om. तेण भणियं. 14 > P वि for व, P inter. तं and ते, P केण वि हो. 15 > P om. तीय भणियं. 17 > P विज्जो-, P पायालयलम्मि. 19 > P विज्जाहरेण अनहरिया, J गिसुय, P सुरं for सुंदरं. 21 > P "गुत्तज्जमा P सुयण चंद". 22 > P किंचि साहसु तुमं. 24 > P जं for जइ, J सुंदर for पिययर, P पियय सुंदरं, P रइ for रइयं, P om. साहामि तुज्ज सव्वं जइ etc. to चंचलहिययेममाओ इमाओ. This passage is reproduced in the text with ya-sruti and minor corrections etc. from J alone. 26 > J अलच्छिणो.

- 1 चेप्यद् जलमि मच्छे पक्षी गवणमि भिज्जए राहा । गहियं पि विहडइ चिय तुमोज्जं महिलिया-हिययं ॥ 1
- वेस्सं पि सिणेहेण वि रमंति अइवल्लहं पि गिण्णेहा । कारण-वसेण णेहं करंति गिक्कारणेणं पि ॥
- 3 रामंति विरुवं पि हु र्विं पुण परिहरंति कूरेण । रुव-विस्व-वियप्पो हियए किं होइ एयाण ॥ 3
- भीहंति पंढियाणं कुमार लज्जंति रुवमंतस्स । वंके वंसेंति पुणो उज्जय-सीलं उवयरंति ॥
- रज्जंति अयवंते रसे पुण परिहरंति रोर व्व । जाणंति गुणा पेम्मं करंति ते गिण्णुणे तह वि ॥
- 6 सूरं जाणइ पुरिसं तहा वि तं कायरं समल्लियइ । जाणंति जं विरसं षडेति पेम्मं तहिं चेष ॥ 6
- गुण-रहिए वि हु पेम्मं पेम्म-पराओ वि तं गिसुंभंति । हंतूण तं सर्यं चिय जलणे पविसंति तेणेय ॥
- सम्भे जाणंति गइ अत्तत्तयाण सुहिइ-हिययाण । महिल्ला गिययस्स पुणो हिययस्स गइ ण-याणंति ॥
- 9 इय विज्जु-विलसियं पिव खर-पवणुदुय-धयवड्ढाचलणं । महिल्लाण हियय-पेम्मं कुमार को जाणितं तरइ ॥ 9
- तह वि एत्तियं लक्खेमि जइ तुमं पेच्छंति ता अवस्स तुममि णेहो जायइ । अण्णं च सब्वा इमाओ उसभपुर-
वत्थव्वाओ तुमं च दट्टूण अवस्सं पक्खभिजाणंति, तेण इमाणं दिज्जउ दंसणं' ति । कुमारेण भणियं 'सुंदरि, तं चाव
12 सिद्ध-वसुणंदयं खग्गं च सम्पप्सेसु, ता पच्छा दंसणं दाहामि' । तीए भणियं 'एवं होउ' ति । 'केवलं कुमारेण एयमि 12
चेय पपसे अच्छियव्वं जावाहं तं खग्ग-खेडयं चेतूण इहागच्छामि' ति भणितं गथा । कुमारो वि तम्मि ठाणे अच्छिउं
पयत्तो । चित्तियं च तेण । 'अहो, संपयं चिय इमीय चेष साहियं खर-पवणुदुय-धयवड्ढ-चंचल-हियय-पेम्माओ इमाओ
15 महिलियाओ होंति, ता कयाइ इमा गंतूण अण्णं किं पि मंतं मंतिऊण ममं चेष गिसुंभणोवायं कुणइ । ता ण तुत्तं मम 15
इहं अच्छिऊणं' ति चित्तयंतो अण्णत्थ संकंतो, आयारिय-खग्ग-रयणो पूरिय-वसुणंदओ य अच्छिउं पयत्तो । थोव-वेलाए
य आगथा गहिय-वसुणंदया गहिय-खग्ग-रयणा य । पलोइए तम्मि पपसे, कुमारो ण दिट्ठो । तओ तरल-तार-पम्हल-वलंत-
18 लोयणा पलोइउं पयत्ता । भणिया य कुमारेण । 'एहि एहि सुंदरि, एस अहं अच्छामि' भणिया संपत्ता । तीए भणियं 18
'रायउत्त, कीस इमाओ ठाणाओ तुमं एत्थ संपत्तो' । तेण भणियं । सुंदरि, णणु तुमए चेष साहियं जहा 'चंचल-
पेम्म-बंधाओ होंति जुवईओ' । तेण मए चित्तियं 'कयाइ कहं पि ण भिरुइओ होमि, ता गिहुयं होऊण पेच्छामि को
21 वुत्तंतो ति तेण चलिओ हं' । तीए सहरिसुफुल्ल-लोयणाए भणियं । 'कुमार, जोग्गो पुहइ-रज्जस्स तुमं जो महिल्लाणं ण 21
वीसंभसि' ति । सब्बहा,
- भुयगस्स व मुह-कुहरे पक्खिव ता अंगुली सुवीसत्थो । महिल्ला-चंचल-भुयईण सुहय मा वच्च वीसंभं ॥
- 24 ता सुंदरं कयं, जं चलिओ सि । गेणहसु एयं वसुणंदयं खग्ग-रयणं च ।' गिक्खित्तं वसुमईए । रायउत्तेणावि गिययं 24
विसज्जिऊण ति-पयाहिणं वंदिऊण गहियं तं वसुणंदयं दिव्वं खग्ग-रयणं च । तओ गहिय-खग्ग-रयणो केरिसो सो दीसिउं
पयत्तो । अवि य ।
- 27 विज्जाहरो व्व रेहइ तक्खण-पड्डिवण्ण-खग्ग-विजाए । संपह उप्पइओ इव विज्जाहर-बालियार्ये समं ॥ 27
- तओ तीए भणियं 'विजयाय होउ कुमारस्स एयं खग्ग-रयणं' ति । कुमारेण भणियं 'सुंदरि, साहसु संपयं कथ सो
दट्टव्वाओ विज्जासिद्धो' ति । तीए भणियं 'कुमार, तुमं केण मग्गेणेत्य पविट्ठो' । तेण भणिण 'वड-पायव-विलेय' । तीए
30 भणियं 'णाहं किंवि जाणामि, परं एत्तियं पुण जेण दारेण तुमं आगओ तेणेय सो वि आगमिस्सइ ति । ता जाव इमिणा 30
मग्गेण पढमं उत्तिमंणं पेसेइ, ता तं चेष छेत्तव्वं । अण्णहा दुस्सज्जो पुण होहिइ' ति । कुमारेण भणियं । 'एवं होउ'
ति भणिऊण आयारिय-खग्ग-पहारो ठिओ विल-दुवारे ।

- 2) J सिणेहेण. 3) J हिअयंमि for हियए. 15) J कयाइ मा P कयावि मा, J कंयि for किंयि, P गिसुंभणावायं. 16) P
om. ति, P पायट्टिय for आयारिअ, J य पुच्छिउं. 17) P om. य before आगया, P om. गहिय before खग्ग, P रयणे य ।
पणेइओ, P तओ तारतरलपंतलवलंत. 18) P संपत्ती. 19) P ट्ठणाओ, P एस for एत्थ, J om. णणु, P मए for तुमए.
20) J पेम्माबंधाओ, P जुवतीउ, P कया वि कहिं पि, P om. ण भिरुइओ होमि, J तेण for गिहुयं होऊण. 21) P om. ति, P
ण for तेण, P सहरिसुफुल्ल, P भणिउं, P om. पुहइरज्जस्स, P om. जो. 23) P पक्खिवि, P य for ता, P भुयंगीण सुह मा.
24) J जं वलिओ, P वसुणंदयं, P वसुमतीए. 25) J om. ति-, P om. दिव्वं, P रयणा before केरिसो, P om. सो before
दीसिउं. 26) P तवण, P समं ॥. 28) J तीय for तीए, P विजाओ for विजयाय, P om. एयं, P om. साहसु, J om. सो.
29) J तीय, P केणे मग्गण पविट्ठो, J तीय. 30) P वारं for परं, J तेणय, P om. वि. 31) P पेसइ, P दुस्सज्जो, P om.
पुण, J होइ ति P होहिति ति. 32) J द्विओ.

- 1 § ३८४) एयंतरमि किंशि-सेसाए राईए वियलमाणेसु तारा-णियरेसु पलायंतेसुं तम-बंधेसु वूरीहूयासु सयल- 1
दिसासु पहायं ति कलिऊण परिभमिऊण धवलहरोवर-अंतेउर-चवर-रच्छासु उसमपुरवरस्स समागओ । तस्सेव
3 राय-तणयस्स एकल-पसुत्तं भारियं चेतूण पविट्टो य तं बिलं । तं च पविसंतं दट्टुण धाहाभियं राय-भूयाए । 3
'हा वहरगुत्त-सामिय एसा सा तुज्ज महिलिया अहयं । गहिया केण वि धावसु रक्खस-रूवेण रोहेणं ॥
चंपावइ-णामा हं महिला हा वहरगुत्त-णामस्स । एसा हीरामि अहं सरण-विहीणा वराइ व्व ॥'
- 6 एवं च तीए विलवंतीय भणिया विजासिद्धेणं । 6
'ओ कस्स होइ सरणं कथं व सो किं व तेण करणिजं । जइ तं पावेमि अहं तुह दइयं तं चिय असांमि ॥'
त्ति भणंतो णिसुओ कुमारेण । 'अहो, एस दुरायारो आगओ सो मह महादेवी चेतूण । ता दे सुंदरं जायं सलोत्तो एस
9 चोरो' ति चितयंतस्स णीहरियं उत्तिमंगं बिलाओ सिद्धस्स । चितियं कुमारेण 'एयं उत्तिमंगं छिंदांमि । अहवा णहि णहि । 9
किं जुजइ पुरिसाणं छल-वाओ सव्वहा ण जुत्तमिणं । पेच्छामि ताव सत्ती इमस्स ता णवर सिद्धस्स ॥'
चितयंतो णिक्खंतो बिलाओ, भणियो य कुमारेण । 'रे रे पुरिसाहम, अवि य,
- 12 जइ तं विजासिद्धो वट्टसु णाएण एथ लोअमि । जं पुण राय-विरुद्धं करेसि किं सुंदरं होइ ॥ 12
ता जं चोरेसि तुमं राय-विरुद्धाईं कुणसि कम्माइं । तेणेस णिग्गहिज्जसि अह सज्जो होसु सत्तीए ॥'
एवं च राय-तणयं पेच्छिऊण चितियं विजासिद्धेण 'अहो, एस सो वहरगुत्तो, कइं एस सयं पत्तो । विणट्टं कजं ।
- 15 ता किं इमिणा बलेणं ।' चितियं तेण, भणियं च । 15
केणेत्य तुमं छूटो कयंत-वयणे व्व रोइ-बिल-मज्जे । अओ सुंदर-रूओ कह णिहणं गच्छइ वराओ ॥ ति
'अरे अरे, खगं खगं' ति भणंतो चलिओ तं देवहरयं । तेण गहियं च तं खगं वसुणंदयं च, जं रायउत्त-संतियं ।
- 18 गहियं जाणियं च ण होइ तं सिद्ध-खगं । ता किं व इमिणा समत्थस्स' चितयंतो कुमार-मूलं पत्तो । भणियं च तेण । 18
'सुणमि मज्ज अंतेउरमि तं मूढ पेसिओ केण । अहवा कुविओ देवो लउडेणं हणउ किं पुरिसं ॥
ता तुज्ज जमो कुविओ संपइ तुह णत्थि एथ णीहरणं । सुवार-सालवडिओ ससओ व्व विणस्पसे एण्ह ॥'
- 21 कुमारेण भणियं । 21
'आलप्पालिय रे रे अक्खसि महिलायणं म्हा हरिऊण । जारो होऊण तुमं संपइ वर-सामिओ जाओ ॥
चोरो ति मज्ज वज्जे अरहसि तं चैय पढम-दुव्वयणं । इय विवरीयं जायं ससएहिं वि लउडया गहिया ॥'
- 24 अणमाणो पहाविओ कुमारो तस्स संमुहं, पेसिओ खग-पहारो । तेण वि बहु-कला-कोसल-परिहत्थेणं वंछिऊण पडिपहारो 24
पेसिओ । सो वि कुमारेण वंछिओ । तओ पहर-पडिपहर-विसमं संपलगं महाजुद्धं । कइं ।
दोणि वि ते सुसमत्था दोणि वि णिउणा कलासु सव्वासु । दोणि वि अणंग-सरिसा दोणि वि सत्ताहिया पुरिसा ॥
- 27 दोणि वि रोसाइट्टा दोणि वि अवरोपपरेण मच्छरिणो । दोणि वि णिट्टुर-पहरा दोणं वि खगगाइं हत्थमि ॥ 27
दोणि वि फरमि णिउणा दोणि वि उक्कोट्ट-भिउडि-भंगिहा । दो वि वलंति सहेलं दोणि वि पहरे पच्छिंति ॥
§ ३८५) एवं च एक्केमस्स पहरंता केरिसा दिट्ठा जुवइ-वंद्रेणं । अवि य ।
- 30 विजाहर व्व एए अहव समत्थत्तणेणं वण-महिसा । अह व दिसा-करि-सरिसा दोणि वि चालेंति महिवेढं ॥ 30
एवं च जाव ताणं एक्को वि ण छलिउं तीरइ ता चितियंतीए चंपावइए ताव 'एएण एस छलिउं ण तीरइ विजासिद्धो ।
ता दे कवडं किं चितेमि' ति भणियं तीए 'कुमार, सुमरसु इमं खग-रयणं' ति । कुमारेण वि चितियं 'सुंदरं पलत्तं'
33 ति । भणियं तेण । अवि य । 33

1 > P रातीए, P दूतीहूयासु. 2 > P परिभमिऊण, J धवलहरोवरंतेउरे चवर-, P चवरवच्छासु. 3 > P एकलयसुत्तं भारि
चेतूण, J रायभूयाए. 4 > J वैरं, P धाविमु. 5 > P चंपावइणो भूया महिला हो वहरं, J वैरगुत्त, P सरणविहूण. 6 > P तीए
पलोविउं सोऊण भणिया. 7 > P किं कस्स. 9 > P नीहरिउं, P चितियं. 11 > P चितयंतरस for चितयंतो, P पुरेसाहम.
12 > J लोअमि. 13 > P चोरोसि, P कुणम, P तेणेय, J मत्तीय ॥. 14 > J तं for एवं, P om. सो, P एस संपत्तो. 15 > J
om. किं, J इमिणा बालेण. 16 > P सुंदर for रूओ, J गच्छिहिति वराओ. 17 > J om. अरे अरे, P om. तं, J खगयं, P
रायउत्तस्स संतियं. 18 > J inter. चाणियं & च, P om. व, P मूलं संपत्तो. 19 > P अज्जमि for सुणमि, P देवो, P हणइ
किं पुरिसो. 20 > P एथ नीसरणं, P सुतारसाल, J विणस्पण. 22 > J आलवाल्लिअरे रे रे, P आल्लिपालिय, P महिणम्म हरिऊण P
होइ पुण for होऊण. 23 > J वज्जे, P जीयं for जायं, P मि for वि. 24 > P संमुहो, J कलाकोमलपरिहच्छेण वंछिऊण पडिपहा
पणि वि सत्ताहिया पुरिसा । दोणि वि रोसाइट्टा ; thus J has omitted some portion here. 26 > P दोणि मि in two
places. 27 > P मच्छरिणो, P दोणि मि निट्टुर, J दोणि वि P दोणि मि for दोणं वि (emended). 28 > P
दोणि मि फरमि, P उक्केमभमरंमिहा, J -भडिहा, P दो वि णिलंति, P दोणि मि पहरे. 29 > P om. च. 30 > P एते, P
-महिसे, P -सरिसे, P मि for वि, J चालंति. 31 > P om. जाव, P ण विच्छलिउं, P om. चंपावइए J ण for एएण, J om. ण.
32 > J तीव for तीए, P om. वि, J om. चितियं, J संवलत्तं for पलत्तं.

- 1 'अहं सिञ्जसि चक्षीणं विज्ञा-सिद्धाण सत्त-सिद्धाण । ता खग्ग-रयण एयं पहरसु मह करयलत्थो वि ॥' 1
आव इमं भणह ताव विज्ञासिद्धेण चित्तियं 'अरे इमीए विलयाए इमं खग्ग-रयणं इमस्स समप्पियं' । 'आ पावे कथ
3 वच्चसि' ति पहाइओ तं च्चेय द्विंस् विज्ञासिद्धो । अवि य । 3
जा पावह महिलानं करणं मोत्तूण जुञ्ज-समयम्मि । ताव ज्ञह ति लुइयं सीसं अह रायउत्तेण ॥
दिट्ठो य धरणिवडिओ केरिसो । अवि य ।
6 कस्सिणं रुक्ख-विवण्णं लहुयं सिरि-विरहियं व दीणं व । दिट्ठं पडिय-कबंधं सीसं पुण अहिय-तेइलं ॥ 6
इमं च चित्तयंतस्स भणियं चंपयमालाए । 'कुमार, वयणे इमस्स गुलिया अच्छह, तं पि गेणहउ कुमारो' ति भणिण्ण
वियारियं मुह-पुडं असिषेणूए । दिट्ठा य कणगप्पमा गुलिया । पक्खालिऊण पक्खिता वयणे कुमारेण । अवि य ।
9 दिप्यंत-अहिय-सोहो गिण्वडिय-विसेस-रुव-सच्छाओ । वडिय-दप्पुच्छाहो सो कुमरो तीए गुलियाए ॥ 9
तओ जय जय ति अभिवाइय-ललिय-विलासिणी-चलण-खलण-मणि-गेउर-रणणाराव-मुहलं पमक्खिओव्वत्तिय-ण्हाणिओ
कओ गिसण्णो सीहासणे, अहिसित्तो तम्मि महिला-रज्जम्मि । महिलाहं समं च विविहं च भोए भुंजितं पयत्तो ।
12 अवि य । 12
जुवइयण-मज्ज-गओ बिल-भवणे खग्ग-खेडय-सणाहो । गुलिया-सिद्धो सो वि हु गिस्संको भुंजए भोए ॥
§ ३८६) एवं च तस्स अणेय-महिला-णियंब-बिंबुत्तुंग-पओहर-सहरिस-समालिगण-परिरंहणा-फरिसामय-सुहेलि-
15 गिण्णरस्स पग्गुट्ट-सयल-गुरु-धण-विहव-रज्जस्स गिय-सत्ति-विणिज्जिय-सिद्ध-लद्धाणेय-पणइणी-सणाहं पायाल-भवणम्मि 15
रज्ज-सुहमणुहवंतस्स अहकंताइं बारस संबच्छराइं, बारसमे य संबच्छरे संपुण्णे पसुत्तस्स राइए पच्छिम-जामे सहसा
उद्धाइओ अविस्समाणस्स कस्स वि बंदिणो सओ 'जय, महारायाहिराय वहरउत्त-परमेसर दरिय-रिउ-गिहलण-लद्ध-
18 माहप्प । अवि य । 18
उज्जोविय-भुवणयलो एसो णरणाह झिजए चंदो । अहवा उदयत्थमणं भण कस्स ण होइ भुवणम्मि ॥
णासइ तारायकं अरुण-करालिडयम्मि गयणम्मि । माणं मा वहउ जणो बलिययरा अत्थि लोमम्मि ॥
21 एयं पि गलह तिमिरं राइ-विरमम्मि पेच्छ णरणाह । अहवा णियय-समाओ अहियं भण को व पावेइ ॥ 21
उदय-गिरि-मत्थयत्थो अह सरो उग्गओ सुतेइलो । मा वहह किंचि गव्वं पुण्णेहिं जणस्स उग्गमणं ॥
इय एरिसम्मि काले पहाय-समयम्मि बुज्ज णरणाह । उज्जसु णिहा-मोहं परलोग-हियं पवजासु ॥
24 इमं च सोऊण चित्तियं रायतणण 'अहो, कथ एसो बंदि-सहा, अपुव्वं च इमं पडियं' । पुच्छिओ य परियणो 'केण 24
इमं पडियं' । तेण भणियं 'देव, ण-याणामो कणावि, ण दीसइ एत्थ एरिसो कोइ केवलं सओ चेय सओ सुव्व' ति ।
§ ३८७) एवं दुइय-दियहे तम्मि पभाय-समयम्मि पुणो पडिउमाडत्तं । अवि य ।
27 रमसु जहिच्छं णरवर को गेच्छइ तुज्ज भोग-संपत्ती । किंतु विवत्ती वि धुवा चित्तज्जउ सा पयत्तेण ॥ 27
को गेच्छइ संजोगं गरुय-णियंबाहिं देव विलयाहिं । किंतु विओगो वस्सं होहिइ एयाहि चित्तेसु ॥
सच्चं हीरइ हिययं जुवइयण-णयण-बाण-पहरेहिं । किंतु दुरंतो कामो पावारंमेसु उज्जमइ ॥
30 सच्चं भो हरइ मणं लीलावस-मंथरं गयं ताण । किंतु ण गज्जइ एसो अप्पा अह कथ वच्चिहिइ ॥ 30
सच्चं हरंति हिययं लज्जा-अर-मंथराहिं हसियाइं । किंतु इमो चित्तज्जउ णरवर एयस्स परिणामो ॥
सच्चं हरंति हिययं महिलानं पेम्म-राय-वयणाइं । किंतु दुरंतं पेम्मं किंपाग-फलं व कडुयं तं ॥
33 इय जाणिऊण णरवर मा मुज्जसु एत्थ भोग-गहणम्मि । संबुज्जसु वीर तुमं विरइं ता कुणसु हिययम्मि ॥ 33

1) P repeats सत्तसिद्धाणं, P महं. 2) P रे for अरे, P ता for आ. 3) P om. अवि य. 4) J उज्जण for ज्जह, P ति पलुहयं, J चिय for सीसं अह रायउत्तेण. 5) P धरणिवट्टे केरिसो. 6) J सु for व before दीणं, J अविअ for अहिय. 7) P भणिए for भणिण्ण. 8) P मुहयंतं असिषेणू किं दिट्ठा, P om. य, P वयणो. 9) P सोहा. 10) P रणणारावमुहलं पमक्खिओ उव्वत्तिअ, J मुण्हाणिओ for 'यण्हाणिओ. 11) J सीहासणेसु अभिसित्तो, P रज्जम्मि, J om. समं च, P repeats विविहं च. 12) P om. अवि य. 13) P नियंबउत्तुंग, P परिमरिमलफरिसां, J- हरिसामयसुहेलि. 14) P- निज्जरस्स, J सत्त for सत्ति, J भवणस्स P भुवणम्मि. 15) J om. रज्जसुहमणुहवंतस्स, P 'मणुहवंतो, P बारस वच्छराइं, P om. य, P संपन्नो for संपुण्णे, P रातीए. 16) J अहस्सं, P om. 'माणस्स, J om. जय महारायाहिराय etc. to लद्धमाहप्प, P वयरउत्त, P निहलणलद्धमाहप्पा. 17) P उदयत्थवणं. 18) P करालिययंमि गणंमि, J लोअम्मि. 21) P राइ for राइ, J अहवालियसमयाओ, J को व्व. 22) P तुज्ज for बुज्ज, P परलोअ-, P पवज्जयं ॥. 24) J adds आई before इमं, J नदी, P om. अपुव्वं च इमं पडियं, J पुच्छिमो परिणो. 25) P पडियं for पडियं, J ताहि for तेण, P न याणिमो, J तत्थ for एत्थ, P को वि केवलो चिय. 26) P om. तम्मि, P पहाय-. 27) J भो for को, P भोय-, P पयत्ते ॥. 28) J संजोगो, J देववामाहिं, J होहिति एताहि. 29) P रह for हीरइ, P जुवइयं नयण, J पहराहिं. 30) J हो for भो, P कइ for अह, J वच्चिहिति. 32) J किंपाक-. 33) P adds एसु before एत्थ, P संबुज्जसु, P विरयं कुणसु.

- 1 § ३८८) एवं च तद्व्य-दियहे पहाय-बेलाए पुणो वि भणितं समाहत्तो । अवि य । 1
कीरउ भोग-पसंगो जइ किर देहमि जीवियं अचलं । अह उट्टुऊण काओ पडिहिइ णटवेडयं अणणं ॥
- 3 पावं काऊण पुणो लग्गाइ धम्ममि सुंदरो सो वि । सा वि सह श्विय णरवर जा एइ पहाय-समयमि ॥ 3
मा अच्छसु संसारे णिणितो वीर वीह मणुस्स । मयरेण सह विरोहो वासं च जलमि णो होइ ॥
भोग-तिसिओ वि जीवो पुणोहिं विणा ण चय पावेइ । उट्टो जइ परिओ श्विय पंगुरिओ भणसु सो केण ॥
- 6 धम्मं ण कुणइ जीवो इच्छइ धम्मफलाइ लोणमि । ण य तेळं ण य कलणी बुद्धे तं पयसु वड्ढाई ॥ 6
जो कुणइ तवं इहइ सो पर-लोए सुहाई पावेइ । जो सिचइ सहयारे सो साउ-फलाइ चक्खेइ ॥
जइ इच्छसि परलोगो इह णत्थि अहइ णवर ण परं । दोल्लंतस्स य णरवर अवस्स किर णासए एक्कं ॥
- 9 जो अलसो गेहे श्विय धम्मं अहिलसइ एरिसो पुरिसो । वडवड-मुहमि पडिया भाउय-मज्झमि तं भणसु ॥ 9
इय वीर पाव-भोए भोत्तुं णरयमि भुंजए दुक्खं । खासि करंबं णरवर विडंबणं कीस णो सहसि ॥
- § ३८९) एवं च पुणो चउत्थ-दियह-राइए पभाय-समए णिसुयं पडिजमाणं । जय महारायाहिराय-सेविय,
12 जाणामि कमल-मउए, चलणे एयाण तुज्ज जुवईण । सरणं ण होंति णरए कुप्पेजसु तं च मा वीर ॥ 12
कोमल-कदली-सरिसं ऊरु-जुयलं ति जाणिमो वीर । णरए ण होइ सरणं मा कुप्पसु तेण तं भणिमो ॥
एयाण णियंबयडं पिहुलं कल-कणिर-कंचि-वामिळं । णरए ण होइ सरणं वीरग्हे जूरिमो तेण ॥
- 15 पीणं पक्कल-तुंगं हारावलि-सोहियं च धणवट्टं । णरए ण होइ सरणं भणामि धम्मकखरं तेण ॥ 15
वियसिय-सयवत्त-णिभं मुहयंदं जइ वि वीर जुवईण । णरए ण होइ सरणं तेण हियं तुज्ज तं भणिमो ॥
दीहर-पग्गल-धवलं णयण-जुयं जइ वि वीर जुवईण । णरए ण होइ सरणं चिंता सह तेण हिययमि ॥
- 18 इय जाणिऊण णरवर ताणं सरणं च णत्थि णरयमि । तग्हा करेसु धम्मं णरयं चिय जेण णो जासि ॥ 18
§ ३९०) एवं च पुणो पंचम-वियह-राइए पहाय-समय-बेलाए पुणो पठियं । जय महारायाहिराय, जय,
सगं गणए णरवर तियासिंद-विलासिणीहिं सह रमियं । कंतार-बंभणस्स व पज्जती णत्थि भोएसु ॥
- 21 मणुयत्तणे वि रजं बहुसो भुत्तं चलत-चमरालं । जीवस्स णत्थि तोसो रोरस्स व धण-णिहाएण ॥ 21
असुरत्तणे वि बहुसो बलवंतो देवि-परिगओ रमिओ । तह वि ण जायइ तोसो जलणस्स व वीर कट्टेहिं ॥
जक्खत्तणमि बहुसो रमियं बहुयाहिं जक्ख-जुवईहिं । तह वि तुह णत्थि तोसो णरिंद जलहिस्स व जलेहिं ॥
- 24 बहुसो जोइस-वासे देवीयण-परिगणए ते रमियं । तह वि ण भरियं चित्तं णरिंद गयणं व जीवेहिं ॥ 24
इय णरवर संसारे पत्ताइ सुहाइ एत्थ बहुयाइ । जीवस्स ण होइ दिही बट्टइ राओ तह वि एहिं ॥
- § ३९१) एवं च छट्ट-दियह-राइए पभाय-समए पुणो पठियं । जय महारायाहिराय, जय । अवि य ।
- 27 सूलारोवण-डंभण-वेयरणी-लोह-पाण-दुक्खाइ । मा पग्गुस चित्तेण मा होसु असंभलो वीर ॥ 27
बंधह हणेज णत्थण-गुरु-भारारोवणाइ तिरियत्ते । पग्गुट्टाई खणेण किं कम्मं तुग्ग णरणाह ॥
जर-खास-सोस-वाही-दूसह-दारिइ-दुग्गणस्साइ । पत्ताइ मणुयत्ते मा पग्गुस वीर सव्वाइ ॥
- 30 अभियोग-पराणत्ती चवण-पलावाइ वीर देवसे । दुक्खाइ पग्गुसंतो किं अणणं कुणासि हिययमि ॥ 30
असुइ-मल-रुहिर-कहम-वमालिओ गढम-वास-मज्झमि । वसिओ सि संपयं श्विय वीर तुमे कीस पग्गुट्टं ॥
संकोटियंगमंगो किमि न्व जणणीए जोणि-दारेणं । संपइ णीहरिओ श्विय पग्गुट्टं केण कजेणं ॥

1) J पुणो पडिउमाहत्तो. 2) P भोय-, J कीर for किर, P अवलं, JP पडिहि, P नटवेडयं. 3) J एति पभाय-, P कालमि for समयमि. 4) J विष्म for वीह, J वामो, J om. च, P कि for णो. 5) P उट्टो पत्थविहिओ केण सो भणसु for the second line उट्टो जइ etc. 6) J लोअमि, P वयडाई. 7) J जो किर थावर णरवर सो खायइ भोरमंसाइ for the second line जो सिचइ etc., P से for सो, P नरवेइ for चक्खेइ. 8) J परलोगो णत्थि अह इहं ण परं । दोल्लंतस्स, P इह इहं नवरं न य तेळं । 9) P अहिसइ, J पट्टया, J -मज्झं पि तं भणया ॥. 10) J मोल्लिती for भुंजए, J विलंबयं कीसु णो सहसि. 11) J जय महाराजाहिराजसेविय. 12) P जुवईण, J होइ for होंति, J तं सि मा वीर. 13) J कयली, P -जुवलं, P जाणि नो वीर, J वीर for वीर. 14) P किंति for कंचि, P वीरग्हे सूरिमो. 16) P inter. जइ वि & वीर, P जुवतीण, P om. ण. 17) J दीहरवग्गल, P -पंभल, P जुवतीण. 18) P भरियंति । 19) P रातीए, P om. समय, P भणियं for पठियं. 20) P रमियं, J धज्जती for पज्जती. 21) P adds ण before वि, P चत्तं for सुत्तं, P धणनिहाणेण. 22) P परगओ, P सार for वीर. 23) P रमिओ, P adds दुं before जक्ख, P जुवतीहिं, P जलणरस व जलणेहिं. 24) J जोतिस, J परिगए ते, P रमियं, J गयणं जादेहिं । The letters on this folio (No. 227) in J are rubbed and not clearly readable. P adds, after जीवेहिं । three lines: इय नरवर संसारे पत्ताइ सुहाइ एत्थ बहुसो । जोइसवासे देवीयण-परिगणए ते रमियं ॥ तह वि न भरियं चित्तं नरिंद गयणं च जीवेहिं । 25) P संसा for संसारे, P होइ दीही बट्टइ, P adds इ before राओ. 26) P -रातीए पहाय-, P पुवि for पुणो. 27) P सूलारोवणेणं किं कम्मं तुग्ग, i. e., it omits a portion of about three lines ending with पग्गुट्टाई खणेण. 29) P खासे, P दुग्गणस्साइ. 30) J अहियोग-, P अभिगण्णे पराणत्ती कंकण-पलावाइ वीर, P कुणसे. 31) J कदमपमालिओ, J om. वसिओसि. 32) J जणणीय जोणिभारेणं.

- 1 संपद् बालत्तण कजाकजेसु मूढ-चित्तेसु । अवि असियं ते वचं पम्हुट्टं तुज्ज ता कीस ॥ 1
- 2 इय णरवर संसारो घोरो अह सयल-दुक्ख-दुत्तारो । बुज्जसु मा मुज्ज तुमं विरमसु मा रमसु जुवहेहिं ॥
- 3 § ३९२) एवं च पुणो सत्तम-राईए पच्छिम-जामे णिसुयं । जय महारायाहिराय, जय । अवि य । 3
- फरिसिंदियम्मि लुद्धो णरवर बहुसो वि पाविओ णिहणं । विरमसु एण्हि बज्जसि वारी-बंधम्मि व गहंदो ॥
- रसणिंदियम्मि लुद्धो णरवर बहुसो विबंधणं पत्तो । विरमसु एण्हि जाससि गलेण मच्छो एव जल-मज्जे ॥
- 6 धारिंदिय-गय-चित्तो मत्तो णरणाह पाविओ दुक्खं । विरमसु एण्हि चेप्पसि ओसहि-गंधेण भुयगो एव ॥ 6
- णयणिंदिएण बहुसो रुवे गय-वेयगो विणट्ठो सि । विरमसु एण्हि डज्जसि णरवर दीवे पर्यगो एव ॥
- सोईदियम्मि लुद्धो सुद्धो बहुसो विणासिओ धीर । विरमसु एण्हि चेप्पसि वाहेण मओ एव गीएहिं ॥
- 9 इय णरवर पंचेए एकेकेएहिं वायणं पत्ता । तुह पुण पंच वि एए महारिणो एथ देहम्मि ॥ 9
- ता धीर फुडं भणिओ पंचहिं समिईहिं समियओ होउं । काय-मण-वाय-गुत्तो णीहरिउं कुण तवं घोरं ॥
- § ३९३) एवं च अणुदिणं भणिज्जमाणस्स रायउत्तस्स तम्मि पायाल-भवणे अच्छमाणस्स चित्ते वियप्पो जाओ ।
- 12 'अहो, को पुण एस दियहे दियहे जयकार-पुच्छं इमाइं वेरगुप्पादयाइं कुलयाइं पठह् । ता जह् अज्ज एह् अवस्सं ता 12
- पुच्छामि' ति चित्तयत्तस्स, जय महारायाहिराय वहरगुत्त जय, अवि य, जाव पठिउं समाढत्तो ताव भणियं रायउत्तेण ।
- 'ओ ओ दिण्वो सि तुमं केण व कजेण एसि मह पासं । किं च इमं वेरगं अणुदियहं पठसि मह पुरओ ॥'
- 15 दिण्वेण भणियं । 15
- 'तुज्ज हिययम्मि णरवर जह् किंचि कुज्जहलं पि ता अत्थि । णीहरिउणं पुच्छसु पायाल-वराओ सब्वणू ॥'
- कुमारेण भणियं ।
- 18 'किं पायाल-वरमिणं केत्तिय-कालं च मज्ज बोलीणं । कत्तो वषामि अहं सब्वणू कथ दट्ठवो ॥' 18
- तेण भणियं ।
- 'एयं पायाल-वरं बारस-वासाइं तुज्ज एयम्मि । एएण णीहि दारेण पेच्छसे जेण सब्वणू ॥'
- 21 अणिए समुट्ठिओ पास-परिवत्तमाण-विलासिणी-गुरु-णियं व-विंबयड-मणि-मेहला-णिबद्ध-किंकिणी-जाल-माला-रवारद्ध-संगीय- 21
- पूरिज्जमाण-पायाल-भवणोयरो वहरगुत्त-कुमारो पायवडणुट्ठियाहिं विण्णत्तो सच्चार्हिं । 'देव,
- जं सुपुरिसाण हियए कह वि तुलग्गेण संठियं किंचि । तं तेहिं अवस्सं चिय धीर तह् खेय कायव्वं ॥
- 24 ता को तीरह् काउं आणा-भंगं णरिंद देवस्स । होउ तुह कज्ज-मिद्धी एकं अठ्ठमथ्यं सुणसु ॥ 24
- जह् पठमं पडिवण्णो सुपुरिस पुरिसेहिं जो जणो कह वि । सो तेहिं तह् चिय आयरेण अंते वि दट्ठवो ॥
- अण्णं च देव, किं ण णिसुयं तुम्हेहि णीदि-सत्थेसु ।
- 27 सत्संगतमार्येषु अनाये नास्ति संगतम् । अनया सह राजेन्द्र एकरात्र्युषिता वयम् ॥ इति । 27
- ता देव,
- एत्तिय-मेत्तं कालं तुमए समयं जहिच्छियं रमियं । एक्क-एए चिय णरवर कीस विरत्तो अउण्णण ॥'
- 30 एवं च भणिओ कुमारो भणित्ताडत्तो । 30
- 'जं तुम्हेहिं पलत्तं सच्चं सच्चं पि णत्थि संदेहो । पडिवण्णं सप्पुरिमा छेए वि ण मुंचिरे पच्छा ॥
- किं मुंचह एक्कएए जं तुम्हे भणह चंदवयणओ । तं तुम्हेहि मि णिसुओ सत्त-दिणे धम्मवयणोहो ॥'
- 33 ताहिं भणियं । 'देव, 33

1) J यहियं (?) for असियं, J तं for ता. 2) P संसारे घोरमहासयल, P दुत्तारे, P मा बुज्ज, P जुवतीहिं. 3) J एवं पुण सत्तम, P रातीए. 4) P बज्ज वारी, P वि for व. 5) J om. णरवर, J adds वि after बहुसो, P adds वि after पत्तो, P विरमसु, P णामसु गलेण. 6) P om. मत्तो, J भुअओ एव. 8) J सोतिंदियम्मि. 9) J पंचं एकेक्यरेहिं, J पत्तो, P तुज्ज पुणं च एए, J एते. 10) J P समितीहिं, J समितओ होउ. 11) P adds रायस्स before रायउत्तस्स, J adds वि before वियप्पो. 12) P को उण, P वेरगपाययाइं. 13) P om. ति, P जा for जाव, P ता for ताव. 14) J कुज्जहलं P कुज्जहलं. 20) P एतेण, P सब्वणू. 21) J णियंबयड, P रवावद्ध. 22) P -पाणयाल, P -पायवडणोययाहिं. 23) P सुपुरिसाण, J तव for तह. 24) J -भंगो, P तुम्हाण for देवस्स, P कुणसु for सुणसु. 25) P पुरिसेण जो, P आयरेहिं. 26) P तुम्हेहि तीहसत्थेसु. 27) P एकरात्रोषिता वयमिति । 28) J om. ता देव. 29) P समियं, P adds वर before कीस, P अउत्ता for विरत्तो. 31) J सपुरिस छेए, P मुंचव for मुंचिरे. 32) P मुंचवह, P जं for तं, P निमुचं, J धम्मवियणोहो.

- 1 जेणं चिय णिसुओ सो देवं अह विण्णवेसु तेणेय । संसार-सायरं तो अम्हे हि वितरिउमिच्छामो ॥ 1
तओ हुरिस-पुल्लुज्जमाण-सरीरेण कुमारेण भणियं । अबि य ।
- 3 महुर-मिउ-मम्मणुल्लाविरीहिं णाणा-विलास-लासाइं । बारस-वासाइं अहं तुम्हाहिं वासिओ एत्थ ॥ 3
इह-परलोय-विसुद्धं सपक्ख-परपक्ख-रामयं वयणं । अम्हेहिं असुय-पुव्वं अभणिय-पुव्वं च तुम्हाहिं ॥
ता सुंवरीओ सुंदरमिणो संपइ विचिंतियं कज्जं । जर-मरण-सोग-विसमो संसारो जुज्जए तरिउं ॥ किंत्तु,
- 6 पुच्छामि ताव गंतुं सव्वं सव्वण्णु हियमणहियं च । को एस किं च जंपइ किं काउं जुज्जए एवं ॥ 6
ति भणिए ताहिं भणियं । 'एस
तुह अजली विरइओ अम्हं सव्वाहि सुणसु वेण्णप्यं । जं पडिवज्जसि णवर अम्हाहि वि तं करेयव्वं ॥'
- 9 ति भणिऊण णिवडिया चलणेसु । एवं 'पडिवण्णं' ति भणमाणो णिगओ वहरगुत्त-कुमारो तेणेय वड-पायव-कुडिच्छ-मग्गेणं, 9
समागओ य इह समवसरणे । पुच्छिऊण संदेहं णीहरिओ समवसरणाओ ति ।
- § ३९४) ता ओ गोयम, जं तए पुच्छियं जहा को एस पुरिसो । एस चंदगुत्त-पुत्तो वहरगुत्तो, इमिणा दिव्व-
12 पओगेण पडिबुद्धो ति । भणियं च भगवया गणहारिणा 'भगवं, संपयं कथं सो उवगओ' ति । भगवया भणियं 'तं 12
सव्वं महिलायणं तम्हाओ पायाल-धराओ णिक्कासिऊण आणेहिइ । एसो य संपयं समवसरण-तइय-तोरणासण्णे संपत्तो'
ति, जाव एत्तियं साहइ भगवं सो संपत्तो, पयाहिणीकाऊण समं महिला-सत्थेण भगवं कुमारेण पणामिओ उवविट्ठो ।
- 15 सुहासणत्थेण य पुच्छिओ भगवं 'केण कजेण को वा एस दिव्वो ममं पडिबोहेइ, कहिं वा सो संपयं' ति । भगवया 15
वि साहिओ सयलो पंचणह वि जणाणं भव-परंपरा-वित्थरो ता जा मणिरह-कुमारो, कामगइंदो, तइओ सो चेय वहरगुत्तो ।
तथ देवलोग-चुओ तुमं लोहंदेव-जिओ एत्थ उववण्णो पमत्तो य । तओ मायाइच्च-चंडसोम-जीएहिं इमिणा पाहाउय-
- 18 मंगल-पढणच्छलेण पडिबोहिओ ति । इमं च सोऊण भणियं । 'भगवं, किं संपयं विलंबसि, देसु मे दिक्खं' ति भणिए 18
दिक्खिओ समं चेय विलासिणीहिं वहरगुत्तो ति ।
- मणहर-विलासिणीयण-करेणु-परियारिओ वण-गओ व्व । दिक्खा-वारी-बंधे सुहफले णवर सो बद्धो ॥ ति ।
- 21 § ३९५) एवं च सयल-तेलोकैकल-सरोयर-सरस-पुंडरीय-सिरि-सोहिओ भगवं महावीरणाओ विहरमाणो पुणो 21
संपत्तो हत्थिणाउरं णाम णयरं । तथ य बाहिरुजाणे विरइयं देवेहिं से समवसरणं विहि-वित्थरा-बंधेण । तथ य भगवया
साहियं जियाणं अणेय-भव-लक्ख-परंपरा-कारणं । पुणो आबद्ध-करयलंजलिणा पुच्छिओ भगवं गोदम-गणहारिणा
- 24 धम्म-तित्थयरो ति । 'भगवं, 24
लोगम्मि केइ पुरिसा णरणाहं सेविरे सुसंतुट्ठा । दाहिइ एसो अत्थं तेणम्हे भुंजिमो भोए ॥
अह ताण सो वि तुट्ठो देइ धणं हरइ सो चिय अनुट्ठो । अह ताण तस्स सेवा जुज्जइ सफला भवे जेण ॥
- 27 जो पुण एसो लोगो देवं अचेइ भत्ति-विणएण । तस्स ण दीमइ किंचि वि इह लोए जं फलं होइ ॥ 27
एवं च पुच्छिएणं भगवया भणियं वीरणाहेण ।
- 'गोदम जं मे पुच्छियि देवच्चणयम्मि कह फलं होइ । इह-लोए पर-लोए जे फलया ते य तं सुणसु ॥
- 30 देवाणुपिया दुबिहा देवा एयम्मि होति लोगम्मि । एके होति सरागा विरागिणो होति अण्णे वि ॥ 30
गोविंद-खंद-रुहा वंतर-देवा गणाहिवो दुग्गा । जक्खा रक्खस-भूया होति पिसाया तहा मण्णे ॥
किंणरा य किंपुरिसा गंधव्वा महोरगा य चंद-तारया उडु-गहाइच्चा ।

1 > P विन्नवेमि, J हो for तो. 3 > P विलासकाइं. 4 > P परलोयविरुद्धं, P अम्हाहिं for तुम्हाहिं. 5 > P सुंदरमिणिमो, J सोअ for सोग, P दुज्जए for जुज्जए. 6 > J P om. सव्वं, J सव्वण्णु P सव्वन्नू, J हिअं अणहिअं च, J कातुं, J एअं ॥. 8 > J विरओम्ह, P om. अम्हं, P adds अम्हाहिं before सुणसु, P करेयव्वमिति भणि. 9 > J om. भणिऊण, P om. पायव. 10 > J adds ति before समागओ, P om. य, P om. ति. 11 > J गौतमा, J जया, P adds ता after पुरिसो, J चंदवत्त, P चंडगुत्तो गुत्तो. 12 > J पओएण, J om. भगवया, J सोवगओ. 13 > P महिलाणयं, J पयालधराओ, P repeats पायालधराओ, J णिक्कासिऊण, J आणेहिहिं P अणेहाति ।, एस संपयं. 14 > P om. ति, P ताओ for सो, J कओ for काऊण, J पणामिओ, P adds य after पणामिओ. 15 > P मुहासणत्थेण. 16 > P om. वि before साहिओ, P तव for भव, P ताव जाव for ता जा. 17 > J चुतो, P देवेहिं for जीएहिं, P पभाओ य for पाहाउय. 19 > P वयरगुत्तो, P om. ति. 20 > P करिकरेणुपरि-वारीओ वणगइंदो व्व ।, J बद्धे, P सुहफलेण. 21 > P तेलोकैकल, P सरोअ-, J adds सरय before सरस, P विहारमाणो पत्तो. 22 > P विरइओ, P om. से, P समवसरण, J बद्धेण, P बंधो for बंधेण. 23 > J साहिया, J om. कारणं, P करयंजलिणा, P गोयम-. 24 > P भणियं च भगवया for भगवं. 25 > J लोअंमि, J ए दाहिति. 26 > J विअ for चिय, P सफला पभवे तेण. 27 > P अचेइ, P दीसति. 29 > P गोयम, P होति. 30 > P देवाणुपिया, P एवमि होति, J लोयंमि, P om. वि. 31 > P दुग्गा for दुग्गा, J रक्खसभूता पिसाय तह किंणरा etc. 32 > J गंधव्वमहोरयचंद, P om. य.

- 1 नागा उदहि-सुवण्णा अग्गी विज्जू थ जाव इंदंता । एए सव्वे देवा सराइणो दोस-मोहिछा ॥ 1
 एयाण पूयणं अच्चणं च जो कुणइ परम-भत्तीए । राय च्च तस्स तुट्ठा देति धणादी य क्खणाणे ॥
- 3 भत्तीए जे उ तुट्ठा णिवमा रूंसंति ते अभत्तीए । सह-भाविणो थ मोहे रागहोसा इमे दोणिण ॥ 3
 जह णरवइणो कुविया रज्जादी-दिण्णं पुण हरंति । इय तह देवा एए सुहमसुहं वा फलं देति ॥
 अह पुच्छसि पुण्णेहिं सा रिद्धी ताण किं व देवेहिं । अह देवेहि मि कीरइ ता कम्मं णिप्फलं तत्थ ॥
- 6 जह तस्स तारिसं चिय कम्मं ता किं व तत्थ देवेहिं । अह तस्स देवय च्चिय करंति ता णिप्फलं कम्मं ॥ 6
 एसो तुज्ज वियण्णो गोदम च्चित्तमि वट्टए एत्थ । तं अनुह-बोहणत्थं साहिप्पंतं णिसामेहिं ॥
 णणु भणियं उदयाई खय-उवसम-मिस्स-परिणए कम्मे । दव्वं खेत्तं कालं भवं च भावं च संपप्प ॥
- 9 तत्थेरिसयं कम्मं किं पि भवे णमस्सिएण देवाण । वच्चइ उदयं खय-उवसमं च खेत्तमि वा काले ॥ 9
 ता तारिस-कम्ममुदओ देवाणं णमस्सियं च सहभावी । तं खल्लि-बिल्ल-सरिसं कागागम-तालवडणं च ॥
 जं णरवदी वि गोदम सेवा-कम्मेण तोसिओ देइ । कम्माण सो विवागो तह वि हु दिण्णं ति णरवइणा ॥
- 12 देवा य मंगलाइ सउणा सुमिणा गहा य णक्खत्ता । तह तह करंति पुरिसं जह विट्ठं पुव्व-कम्मेहिं ॥ 12
 इय एए राग-मणा संपह णीराणिणो वि वोच्छामि । जाण पणामो वि कओ मोक्खस्स गइ णिरुवेइ ॥
 तित्थयरा भगवंतो सिद्धा णिहइ कम्म-वण-गहणा । भव-केवलिणो एए रय-मय-मोहेहिं परिहरिया ॥
- 15 ताणं वयणाभिरए आयरिउज्जाय-सव्वसाहू य । भावेण णमंसंतो गरुयं पुण्णप्फलं लहसि ॥ 15
 पुण्णेण होइ सगो सगामो सुमाणसेसु पुण जम्मं । सुकुलाओ धम्म-बुद्धी सम्मत्तं जिणमए होइ ॥
 तत्तो णाणं णाणाओ होइ चरणं पि तेण णिजरणं । णिजरणाओ मोक्खं मोक्खे सोक्खं अणावाहं ॥
- 18 जो ताण कुणइ थवणं भयणं विवं च पूयणं अहवा । पारंपरेण सो वि हु मोक्ख-सुहं चय पावेइ ॥ 18
 अह भणस्सि तुमं गोदम काय-मणो-वाय-विरहिया कह णु । कोव-पसाय-विमुक्का कुणंति कह मोक्ख-मोक्खाई ॥
 जिय-राग-दोस-मोहा कह ते तुट्ठा कुणंति वर-सावे । सावाणुगगह-रहियं को किर सेवेज थाणुं वा ॥
- 21 § ३९६) एत्थ णिसुणेसु गोदम रागहोसेहिं वज्जिया जइ वि । सावाणुगगह-हेऊ भवंति ते भावण-वसेण ॥ 21
 जह वण्णंतो वण्णे सुवण्ण-वण्णे पुरमि चउरंसे । माहिंद-वज्ज-चिंघे चिंचित्तिओ कुणइ विस-यंमं ॥
 जह तज्जणीए ओ च्चिय अट्टमि-चंदमि अमिय-भरियमि । पउमच्चण-जलदेवे हरइ विसं खत्तिय-फणिमि ॥
- 24 जह मज्झिमाए सो च्चिय रत्ते तं सेय-सोत्थिय पसत्थे । वइस-फणिदे छूटो विसस्स अह थोहणं कुणइ ॥ 24
 जह य अणामाए पुणो कसणो वट्टो य विहुम-विचित्तो । सुद्ध-फणि-वाउ-देवे छूटो संकामणं कुणइ ॥
 सो च्चिय हंसो णह-मंडलमि रव-मेत्त-संठिओ सुहुमो । चित्तिय-मेत्तो एसो विसस्स णिवाहणं कुणइ ॥
- 27 एवं गोदम पुहई आऊ तेऊ य पवण-गयणंता । पंच वि भूया पंचगुलीसु पयरंति कम्माइ ॥ 27
 एको च्चिय विण्णत्तो मंडल-भेदणं कुणइ कम्माइ । ण य तस्स राग-दोसा हिय-अणहिय-चित्तणं णेय ॥
 एएण चिंचित्तो हं पीओ थंमं करेमि एयस्स । एएण अमय-वण्णो एयस्स विसं व णासेमि ॥
- 30 एवं थोहो संकम-णिवाहा रत्त-कसिण-सामेहिं । ण य सो करेइ चिंतं अणुगहं णिगहं कुणइ ॥ 30
 एसो तुह दिट्ठंतो वण्णंतो गोदमा मए दिण्णो । जह एसो तह भगवं जाणेजसु वीयरगो वि ॥
 ण य सो चिंतेइ इमं अणेण जह संथुओ अहं एसो । पावेमि सिद्धि-वसइ ण कयाइ विचित्तए एवं ॥ अहवा,

1 > J उयाई, J एते, P होति for दोम. 2 > P adds पडिमा before पूयणं, P om. अच्चणं, J धणाइ. 3 > J om. उ, P रुमंति ते य तुट्ठीए ।, P मोहो रागं दोसा इमे होति ॥ 4 > P जह चवरं नरवइणा कुविया, P रज्जादि-दिज्जय हरंति ।, J एते. 5 > P अहं, P किंचि for किंव, P अहवा देवेहिं मि, P तस्स for तत्थ. 6 > P तस्स दियय, J adds ताणि before ता. 7 > P गोयम चित्तं पि वट्टए, P जं for तं. 8 > J उदयाती, P om. उदयाई, J मिस्सदि परिणदि कम्मे, P मिस्सादी-. 9 > P भवे नमस्सिएण, J देवेण, P repeats उदयं, P om. वा, P कालो. 10 > J कम्मउयो, P कंमुवओ देवाणमस्सियं च सुहभावी ।, J तं खिल्लि विहि, P कागागमल-वडणं. 11 > P णरवई, P गोयम सेवाधमेण, J तोसितो, P विवागो तह. 12 > J सउणा for सुमिणा, P तं for second तह. 13 > J एदे. 14 > J मयवंतो, P सिद्ध निद्ध, J णिहइ, J एते. 15 > P वयणा तिगए, P गरु for गरुयं. 17 > P सोखं. 18 > P भवणं for थवणं. 19 > P गोयम, J कोय, P तह for कह, J सोक्खाती P सोक्खाइ. 20 > J जिन, P जे वीतरागमोहा, P च्च for वा. 21 > P गोयम, J हेतू, P मणंति ते. 22 > J वण्णा J वंजो for वण्णे, P चउरंसि, P चिंघे for चिंघे, J विण्णत्तिओ for चिंचित्तो, P विसं. 23 > P जे for जह, J तज्जणीय, J अट्टमि, J अमय, P जलदेवा. 24 > J से for सो, P सो चि रत्ते तं चिय मोच्चिय पसत्थे, J वेइसउणछूटो, P अहवा कुणं हणइ ॥ 25 > J कसणवट्टो, P पुणो वसणे वट्टे य विंदुयविचित्तं । अहफणि, J वायु-. 26 > J सामो for हंसो, P वर for रव, P चित्तियेत्तो, J च्चिय सो for एसो. 27 > P गोयम, P पवणमयणे य ।, J भूता पंचगुलिआ पयरंति, P कंमाइ. 28 > J वण्णंतो for विण्णत्तो, P एण वि for अणहिय, J अणहियं. 29 > J पीतो P पीडं, J adds देत्ता before थंमं, J एतस्स, J एतेण, J एदस्स विसं व णासंमि. 30 > P adds च ॥ after एवं, J रतं, P से करेइ, J अणुमओ णिगहइ. 31 > J om. वण्णंतो, P गोयमा, J दिट्ठाणो for दिण्णो, J वीतरागो. 32 > P जह for ण य सो, J अणेण जह संथुतो, P कयावि, P om. एवं.

- 1 एण्ण णिदिओ हं इमस्स पावं करेमि ता बहुयं । ण कयाइ वीयरारो भगवं चित्तेहिइ वियप्पं ॥ 1
जेण ण मणो ण रागो ण य रोसो तस्स णेय सा इच्छा । णिक्कारणं णिरत्थं अमणं को चित्तिउं तरइ ॥
- 3 तह वि थुणंतो गोदम थुइ-फलमउलं तु पावप् पुरिसो । णिंदंतो णिंदा-फलमहवा अह णरयवडणाइं ॥ 3
तम्हा एक्को भगवं पुण्ण-फलो होइ पाव-हेऊ य । विस-थंभण-णिग्वाहे जह वण्णंतो मए भणियो ॥
मा चित्तेसु वियप्पं गोदम दब्बाईं होंति लोगम्मि । अवरोप्परं विरोहो जाणसु अह दीसए पयडो ॥
- 6 जह अग्गी पज्जलियो तावण-उज्जोवणं च सो कुणह । अरहा तह य पयासं पावस्स य तावणं कुणह ॥ 6
गोदम जह य रसिंदो अर्थभियो अग्गि-मज्झ-पक्खित्तो । फुडिऊण तक्खणं थिय विसो-विसं वच्चइ अदिट्ठो ॥
तह जिग-दंसण-जलणेण तावियो पाव-पारय-रसोहो । एत्थि ज्ञत्ति विलिज्जइ असहंतो संगमं तस्स ॥
- 9 जह रविणा तिमिरोहो तिमिरेण वि चक्खु-दंसणं सहसा । दंसण-प्रोहेण जहा णासिज्जइ कह वि सम्मत्तं ॥ 9
तह गोदम जिण-दंसण-जिण-चित्तण जिणवराण वयणेहिं । णासइ पाव-कलंकं जिण-वंदण-जिण-गुणेहिं च ॥
एवं च साहिए सयल-पुरिसिंद-पुंढरीएण भगवया णाय-कुलंवर-पुण्णयं देण जिण-चंदेण पडिवण्णं सव्वेहि मि आबद्ध-कर-
- 12 कमल-मउल-सोहैहिं तियसिंदप्पमुहेहिं सयल-सत्तेहिं । 12

§ ३९७) एत्थंतरम्मि पविट्ठो एक्को बंभण-दारओ समवसरणम्मि । केरिमो । अवि य ।

सामल-वच्छत्थल-घोलमाण-सिय-बम्ह-सुत्त-सोहिल्लो । पवणंदोलिर-सोहिय-कंठइ-णिबद्ध-वसणिल्लो ॥

- 15 तियुणं पयाहिणीकओ णेण भगवं । पायवडण-पच्चुट्टिएण य भणियं तेण । भगवं, 15
को सो वणम्मि पक्खी माणुस-भासाएँ जंपए किं वा । जं तेण तत्थ भणियं तं वा किं सच्चयं सव्वं ॥
भगवया भणियं ।
- 18 देवाणुपिया सुव्वउ जो सो पक्खी वणम्मि सो दिव्वो । जं किंचि तेण भणियं सच्चं तं सोम्म सव्वं पि ॥ 18
तेण भणियं ।
भगवं जइ तं सच्चं वणम्मि जं पक्खिणा तहिं भणियं । ता रयणाणि इमाइं ताणं सामीण उप्पेमि ॥
- 21 भगवया आइट्टं । 21
देवाणुपिया जुजइ पच्छायावो बुहाण काउं जे । दिट्ठो थिय तम्मि वडे तुमए पक्खीण चवहारो ॥
एवं च भणिय-मेत्ते णिक्खंतो समवसरणाओ सो बंभण-दारओ । तओ पुच्छिओ भगवं ज्ञाणमाणेणावि गोयम-गणहारिणा ।
- 24 'भगवं, 24
को एस दियाइ-सुओ किं वा एण्ण पुच्छिओ भगवं । को सो वणम्मि पक्खी किं वा सो तत्थ मंतेइ ॥'
एवं च पुच्छिओ भगवं महावीरो साहिउं पयसो । 'अत्थि णाइदूरे सरलपुरं णाम बंभणाणं अग्गाहारं । तत्थ जण्णदेवो
- 27 णाम महाधणो एक्को चउव्वेओ परिवसइ । तस्स य जेट्टउत्तो सयंभुदेवो णाम । सो य इमो । एवं च तस्स 27
बहु-सयण-जण-थेय-विज्जा-धण-परिवारियस्स वच्चंति दियहा । एवं च वच्चंतेसु दियहेसु, अवस्सं-भावी सव्व-जंतुण एस मच्चू,
तेण य सो जण्णदेवो इमस्स जणओ संपुण्ण-णिय-आउयप्पमाणो परलोगं पावियो । इओ य सव्वं अत्थं परियलमाणं
- 30 गिहणं पावियं । सव्वहा तारिसेणं कम्म-परिणामेणं तं ताण णत्थि जं एग-दियह-अभणं । तओ एवं च परिवियल्लिए 30
विहवे ण कीरंति लोगयत्ताओ, विसंवयंति अतिहि-सक्काराईं, सिदिलियाओ बंभण-किरियाओ, अवहत्थियाइं णिद्ध-बंधु-
दाणाइं ति । सव्वहा,
- 33 गुरु-णिद्ध-भिच्च-बंधव-परियण-जण-सामिणो य पुरयम्मि । ता मण्णिज्जइ पुरिसो जा विहवो अत्थि से तस्स ॥ 33

1 > P कयावि, JP चित्तेहिति. 2 > P तम्हा for अमणं. 3 > P गोयम, JP थुत्ति, J पावई, P निदिनो, J फल अहवा. 4 > J हेतु, P थंभणे निग्वाहो जइ, P भणियं ॥ 5 > P गोयम, J लोगम्मि. 7 > P गोयम, P फडिऊण, P दिसि वच्चए. 8 > P असंतो संगमं. 9 > P om. वि. 10 > P गोयम, P om. दंसण, P om. वंदणजिण, P adds सि after च. 11 > J भगवता. 14 > P बंभ for बम्ह. 15 > J जिणउं पयाहिणीकओ, P तियुणी, J पायवडणणु, P om. पायवडण etc. to भगवं. 16 > P after तत्थ repeats भणिल्लो । तियुणीपयाहिणीकओ णेण भगवं । पायवडणुट्टिएणं भणियं तेण भगवं को for भणियं तं वा किं etc. to सुव्वउ जो. 18 > P om. पक्खी, P सोम सव्वं. 20 > P रयणाइं, J तं पि for ताणं, P सामाण उप्पेमि. 21 > P भणियं for आइट्टं. 22 > P बुहाण for बुहाण. 23 > P भणियमेत्तो, J om. तओ पुच्छिओ, J गोदम. 25 > P एतेण, P om. किं. 26 > P अग्गाहारं । जत्थ. 27 > P जेट्टो उत्तो. 28 > P वर- for धण, J असव्वं भावी P अवस्सभावी. 29 > J णिअयाउअं P नियआओयं, J परलोजं, J इतो, P om. य, P परिसयलमाणं. 30 > P तारिसाणं, J ना for तं, P ता for ताण, P असण्णं, P परिवल्लिए. 31 > P कीरयंति, J लोगयत्ताओ, J सक्काराईं, P बंधु for बंभण, J अवहत्थियाइं, J बंधुदाणाइं P णिद्धदाणाइं. 33 > P निद्ध for णिद्ध.

- 1 गिञ्जीण-पुष्व-विहवा पुरिसा पुरभो ठिया ण दीसंति । दारिङ्गण-शुता पत्तिय-सिद्ध व्व दीसंति ॥ 1
इमं च परिसं णाऊणं सयंभुदेवस्स जणणीए भणिओ सयंभुदेवो । भवि य ।
- 3 पुत्त धण-सार-रहिओ उवहसणिओ जणम्मि सब्बम्मि । मय-किरियाएँ विहूणो जीवत-मयल्लओ पुरिसो ॥ 3
अम्हाण तुमं पुरिसो गिक्खित्तं तुह कुडुंब-भारं ति । ता तह करेसु पुत्तय जह पिउ-सरिसं कुणसि अत्थं ॥
णिउणो तुमं पि पुत्तय पंडिय-पडिओ य सूर-चित्तो य । ता तह करेसु संपह जह जियइ कुडुंबयं मज्झं ॥
- 6 § ३९८) एवं च दीण-करुणं भणिओ जणणीए इमो सयंभुदेवो अहिय-संजाय-मण्णु-गगार-वयणो भणिउमाढत्तो । 6
भवि य ।
पुण्णेहिं होइ अत्थो अम्हं पुण्णाई माएँ णट्टाहं । वेत्तूण विहव-किरणे रवि व्व सो चेय अत्थमिओ ॥
- 9 एक्कस्स होइ पुण्णं ण पोरुसं दोणिणं होंति अण्णस्स । अण्णो दोहिं पि विणा सपोरुसो पुण्ण-रहिओ य ॥ 9
पुण्णेहिं होइ लच्छी अलसा महिल व्व णाम-मेत्तेण । पुण्ण-णियलेहिं बद्धा अण्णमणा चेय बंदि व्व ॥
जो पुण्ण-पोरुसेहिं लच्छी पुरिसस्स होइ दोहिं पि । सुरय-वियद्दा पोढ व्व सहइ सा वंशियं साहुं ॥
- 12 जा पुण पुण्णेहिं विणा एक्केणं पोरुसेण गिक्खडिया । अथिरा सा होइ पुणो णव-पाउस-विज्जु-रेह व्व ॥ 12
पोरुस-पुण्ण-विहूणा लच्छी घेत्तुं ण तीरइ जणेण । चवलत्तण-दुल्लिया माए जल-चंद-रेह व्व ॥
पुण्ण-रहियाण अम्हं अम्मो सत्तेण किं पि जइ होइ । तं तं करेमि एहिं जं भणियं तं खमिज्जासु ॥
- 15 त्ति भणंतो गिवडिओ चलणेसु, समुट्ठिओ य । भणियं च तेण । भवि य । 15
भमिऊण सयल-पुहई छाउप्वाओ खुड त्ति पडिऊण । भवि णाम मरेज्ज अहं अकयत्थो णो घरं एमि ॥
त्ति भणंतो गिक्खंतो मंदिराओ सो बंभण-दारओ । तप्पभूई च णयर-पुर-भोहियं वसुंधरं भमिउमाढत्तो । कत्थ । भवि य ।
- 18 णयर-पुर-खेड-कब्बड-गामागर-दीव-तह-मडंवेसु । दोणमुहाडइ-पट्ठण-आराम-पवा-विहारेसु ॥ एवं च, 18
अत्थ-परिमगिरो सो सब्बोवायाई णवरि काऊण । भमिऊण सयल-पुहई चंपा-णयरिं समणुपत्तो ॥
§ ३९९) तत्थ य अत्थंगए दिणयरं ठहय-दुवारे सब्बम्मि णयरि-जणवणं चित्तियं तेण । 'दे एत्थ जुण्णुज्जाणे
- 21 पविसिय एक्कम्मि पायवे समारुहिऊण राइ-सेसं गेमि' त्ति चित्तयंतो पविट्ठो आरुढो य एक्कम्मि तमाल-पायवम्मि । 21
तत्थ य अच्छमाणो चित्तित्तं पयत्तो । भवि य ।
'अब्बो भवणुप्वाओ उदर-दरी-भरण-वावडो दियहं । तरु-साहासु पसुत्तो पक्खा-रहिओ अहं काओ ॥
- 24 ता धिरत्थु इमस्स अम्ह जम्मस्स, ण संपत्तं किंचि मए अत्थं, जेण घरं पविसामि' त्ति चित्तयंतेण गिसुओ कस्स 24
वि सहो । तओ 'अहो, को एत्थ जुण्णुज्जाणे मंतेइ' त्ति जायासंको आयण्णयंतो अच्छित्तं पयत्तो जाव एक्केण भणियं ।
'एस तमाल-पायवो, इमस्स अघे कीरउ इमं कज्जं' ति भणंता संपत्ता तमाल-पायवं दुवे वि वणियउत्ता । गिरुवियाओ
- 27 तेहिं दस वि दिसाओ । तओ भणियं । 'अहो, सुंदरं इमं ठाणं, ता दे गिहणसु इमम्मि पदेसे' त्ति भणंतेण तेण 27
खणिउमाढत्तं तं पपुसंतरं । गिक्खित्तं च तत्थ तेहिं तंबमय-करंडयं, पूरियं धूलीए, वेह्लि-लयाहिं कयं साहिण्णाणं ।
तत्तो तेहिं भणियं । भवि य ।
- 0 'जो एत्थ को वि रक्खो भूय-पिसाओ व्व होज्ज अण्णो वा । णासो तस्स गिहित्तो पालेज्जासु अह पसाएणं ॥' 30
त्ति भणिउं जधागयं पडिगया । चित्तियं च इमेण । अहो,
जं जेण जहिं जहया जत्तिय-मेत्तं च जस्स पासामो । तं तेण तहिं तहया पाविज्जइ तत्तियं चेय ॥
- 33 जेण पेच्छ । 33

1 > P गिञ्जीण, J ट्टिआ P ट्टिया, J जगसिद्धा पत्तिय. 2 > P परिसं नाऊणं भुदेवस्स. 3 > P सव्व for मय, P जीय व्व मयल्लओ. 4 > P अम्हा तुमं, P तह कुडुंब, P पिओ सारिसं. 5 > P पंडियओ सूर-. 6 > P adds स before दीण, P इमं for इमो, J अहिअंजाय, J adds माए after भवि य. 8 > P करणे, P चेव. 9 > P होई अत्थं पुत्रेहिं पोस्सेण दित्रं पि 1, P दो for दोहिं, P विणा अपुरुसो. 10 > P अण्णमण्णो. 11 > P होति, J सुरयावियड्डु, P सब्बंणियं for सा वंशियं, P साहु for साहुं. 12 > P जो पुण, P एक्केणं पुरिसेण, J गिक्खरिआ, J चिज्जरेह. 13 > J विहीणा, P घेत्तुं, P रेहि. 14 > P होइ । ता तं, J भणिया तं खमेज्जासि. 16 > P पुहइ, JP खुडु त्ति, P ति for त्ति, P मरेज्जाहं. 17 > J तप्पभूई. 19 > P अरिय for अत्थ, P om. भमिऊण, P पुहती, J चंपं. 20 > J अत्थंगदे, P दिणयरट्टविय, P घर for णयरि, P जिगुज्जाणे परिवसिय. 21 > J om. य. 22 > P तत्थ माणो चित्तित्तं. 23 > J उअर for उदर, P तव for तरु. 24 > P तो for ता, P adds जं before अम्ह, P संसत्तं किं पि मए. 25 > P जिगुज्जाणे, P अण्णेण for एक्केण. 26 > P अहो for अघे, P om. ति, J adds तं before तमाल, J दुवे विणियउत्ता. P दुवे वणियउत्ता. 27 > P दसा दिसाओ, J P ततो for तओ, P इमं थाणं ता देहिंमि हणमु, P पपसे, J om. तेण. 28 > J खणिउमाढत्तो, J om. तंबमय, J om. धूलीए, P वेह्लि for वेह्लि. 29 > J तनो. 30 > P वि रक्खे भूय, P अण्णा वा, J अम्ह पसाएणं. 31 > J जधागतं, P जहागया तहा पडिगया, P om. च, P om. अहो. 32 > P जत्तियेत्तं, P चेव for चेय.

- 1 सयलं भमिऊण इमं पुहई वण-सेल-काणण-सणाहं । अज्ज इहं संपत्तो देव्वेण पणामियं अत्थं ॥ 1
अवहण्णो पायवाओ । अवणीयं सयलं कयारुक्केरं । उप्पाडिया करडिया । उग्घाडिऊण पुलहया जाव पेच्छइ पंच
3 अणवेयाई रयणाई । ते य दट्टण हरिस-वसूसलंत-रोमंच-कंसुओ अंगे वि ण माहउं पयत्तो । 'दे, संपयं घरं वच्चांमि' 3
त्ति पयत्तो सयल-पुरग्गहाराभिमुहं । अट्टपहे य तस्स महाडई, तीए वच्चमाणस्स का उण वेला वट्टिउं पयत्ता । अवि य ।
संकोडिय-रत्त-करो आयंओ अत्थ-सेल-सिहरम्मि । दीवंतर-कय-सज्जो रेहइ पवओ विय पयंगो ॥
- 6 इमम्मि य वेला-समए चित्तिर्यं सयंभुदेवेण । 6
अव्वो वण-मज्झगओ पत्तो रहसेण गत्थि इह वभिंमं । ता किं करेमि संपइ कत्थ व रयणीए वच्चांमि ॥
चित्तयंतस्स बुद्धी समुप्पण्णा । 'दे, इमम्मि अण्येय-पाटव-साहा-समाउले वड-पारोहे आरुहिऊण गिसं अइवाइयामि ।
9 बहु-पञ्चवाओ एस् वणाभोगो' ति । आरुद्धो तम्मि वड-पायवम्मि । एक्क-पएसे य बहु-विडव-संकुले अण्येय-साहा-पत्त-णियरे 9
अच्छिउं पयत्तो । चित्तिर्यं च गेण 'अहो, विहिणा दिणं जं मह दायव्वं । संपयं गंतूण घरं एक्कं विक्केऊण रयणं पुणो
सयल-कुडुंब-बंधवाणं जं करणीयं सव्वं काहामि' ति । इमं चित्तयंतस्स बहलो अंधारो उत्थरिउं पयत्तो दस-दिसं ।
- 12 आवासीहूया सव्वे सउण-साधय-णिवहा । बहुए य पक्खि-कुले तत्थ णिवसंति वडोयरे । ते य णाणाविह-पलावे 12
णाणाविह-वण्णे बहुप्पमाणा पेच्छंतो तक्काल-सुलह-वियपंतर-संभरंत-चित्त-महापवंगो अच्छिउं पयत्तो सयंभुदेवो ति ।
§ ४००) एत्थंतरम्मि समागओ झत्ति एक्को महापक्खी । सो य आगंतूण एक्कस्स महापक्खि-संध-मज्झट्टियस्स
15 महाकायस्स चिर-जरा-जुण्ण-पक्ख-जुवल-परिसडिय-पत्त-पेटुणस्स पुरओ ठाऊण पायवडणुट्टिओ विण्णविउं पयत्तो । अवि य । 15
'ताय तुमे हं जाओ तुमए संवड्ढिओ य तरुणो हं । कुणसु य मज्झ पसायं ता विण्णसिं गिसामेसु ॥
णयणे अज्ज कयत्थे मण्णे कण्णे वि अज्ज मह जाए । एयं पि पक्ख-जुवलं अज्ज कयत्थं ति मण्णामि ॥
18 अज्ज तुमे हं जाओ अज्ज य मण्णामि सफलयं जीयं । गरुडा अवि अज्ज अहं अप्पाणं गरुयमं मण्णे ॥' 18
मणियं च तेण जुण्ण-पक्खिणा ।
'किं अज्ज जोग-रजं णिक्खित्तं अज्ज तुज्ज खगवइणा । किं पुत्त पुत्त-लाहो पत्तं वा अक्खय-णिहाणं ॥'
21 तेण भणियं । 21
'को ताय रज-लाभे तोसो को वा घण-पुत्त-विहव-लाभेहिं । तं अज्ज मए लद्धं कत्तो खग-राइणो होज्ज ॥
जुण्ण-पक्खिणा भणियं ।
- 24 'दे पुत्त साह सव्वं दिट्ठं व सुयं व अज्ज अणुभूयं । किं व तए संपत्तं कीस व हो हरिमिओ तं मि ॥' 24
तेण भणियं । 'णिसुणेसु, अज्ज अहं तुम्हाण सयासाओ उप्पइओ गयणयलं किंचि आहारं अण्णेसिउं बट्ट-लक्खो
धरणियले-परिभमामि जाव दिट्ठं मए एक्कम्मि पएसे पायार-परिययं महाजण-समूहं । तत्थ य उप्पयंति देवा, णिवयंति
27 विज्जाहरा, परिसकंति मणुया, गायंति किंगरा, णच्चंति अच्छरा, वरगंति वंतरा, धुणंति सुरवरा, जुज्जंति असुर-मल्ल ति । 27
तं च दट्टण जाओ ममं हियए वियप्पो 'अहो, किं पुण इमं' ति । 'दे पेच्छामि' ति चित्तयंतो उवइओ गयणयलाओ
जाव पेच्छामि अण्णे वि बहुए पक्खिणो एक्कम्मि पायारंतरम्मि । तओ हं ताणं मज्झ-गओ पेच्छामि कोमल-किसलय-
30 सिलिसिलेंत-विषसमाण-णव-कुसुम-गोच्छस्स रत्तायोय-पायवस्स हेट्टओ महरिहे सीहासणे णियण्णो भगवं को वि 30
दिव्व-णाणी तेलोक्क-सुंदरावयव-सव्वंग-दंसणीओ मगहरो सयल-जय-जंतु-जण-णिवहाणं सदेवासुराए परिसाए मज्झ-गओ
धम्माधम्मं साहंतो । तं च दट्टण चित्तिर्यं मए 'अहो, मए दिट्ठं मए जं दट्टव्वं एरिसं तिहुयणच्छेरयं पेच्छमाणेण' ।

1 > J पुहई, J om. सेल, P सेण for सेल, P इमं for इहं. 2 > J अवणिअं, P कयारुक्केरं, P पेच्छओ पंच, J पंचअणवेयाई P पंच अणवेयाई. 3 > P inter. माहउं & ण. 4 > P om. त्ति, P पयत्ता, J पुरग्गहा, P पुरग्गहादिसुहं, P महाडईए, J तम्मि य वट्टमाणस्स for तीए etc. 5 > J यत्तमज्जो P कयसिज्जो, P पहविओ विय, J इव for विय, J पयंगो. 6 > P om. य, P वेलासए. 7 > P व for वसिंमं, P after इह व repeats सिहरंमि । दीवंतरकयसिज्जो etc. to रहसेण नत्थि इहत्थ and again सेलसिहरंमि । दीवंतर etc. to इह वसिंमंतो, P om. ता, J adds कत्थ before वच्चांमि. 8 > J पाटव P पाठव for पाटव, J अतिवाइयामि. 9 > J पनेसे, P विडवि-, P अण्येय-. 10 > P adds जह before जं, P om. मह. 11 > P कुटुंब. 12 > P आवासीभूआ, P गिहाया for णिवहा, P वहले for बहुए, P कुले त्थ णिवसंति, J वडे य एतो for वडोयरे, P ते अज्ज विहपलावे, J -पलाव. 13 > P बहुप्पमाणो, P मूलम, J संवरंतमहा, P अच्छिओ, P पवत्तो. 14 > P एयस्स for एक्कम्म, P rep. महापक्खिसंय. 15 > J om. महाकायस्स, P -जुयल-, P ट्ठाऊण. 16 > P संड्ढिओ य, P वा for ता. 17 > J om. मण्णे, J अज्जमेव सह, P अज्जे, P एतं जुअलं, P adds अ before कयत्थं. 18 > J सफलं, P जायं, P गरुडा य वि [गरुडाण वि]. 20 > J पुत्तलाओ P पुत्तलाहो. 22 > P -लाओ, P विहवलोभेहिं । अज्ज मए, P कत्ता. 23 > P om. जुण्णपक्खिणा भणियं. 24 > P साह व्वं, J om. अज्ज, J अणुभूयं, P हरिसिउं. 25 > J अण्णेमित्तं. 26 > P धरणियलं, P पयसो, P देवा नियवंति. 27 > J किण्णरा P किण्णरा, P जुज्जंति. 28 > J हियय. 29 > P ताव for जाव, P पायारंतंमि, J ततो, P om. हं, P पेच्छाओ. 30 > J सिलिसिलेंत, P को for को वि. 31 > P पसत्थ for सव्वंग, P मूलमयजंतु. 32 > J धम्माधम्मं, P साहंतो, J om. अहो मए दिट्ठं जं दट्टव्वं, P एरिसं तुहणयच्छेरयं.

- 1 तत्रो ताय, तेण भगवया सव्वण्णुणा साहिओ सयलो संसार-सहावो, पदंसिओ जीव-संसरणा-वित्थारो, वित्थारिओ 1
कम्म-पयइ-विसेसो, विसेसिओ बंध-णिज्जरा-भावो, भाविओ संवरासव-वियप्पो, वियप्पिओ उप्पाय-ट्टिइ-भंग-वित्थारो,
3 परूविओ जहट्टिओ मोक्ख-भग्गो ति । तत्रो इमं च सोऊण सव्वं उप्पण-संवेय-सद्धा-सुद्ध-हियण्ण पुच्छिओ मए भगवं 3
सव्वण्णू जहा 'भगवं, अम्हारिसा उप्पण-बेरगा वि किं कुणंतु तिरिय-जोणिया परायत्त-करणा' । तो इमं च लुक्खिऊण
मह हिययर्थं भणियं भगवया ।
- 6 देवाणुपिया सण्णी तिरिओ पंचिदिओ सि पज्जत्तो । सम्मत्तं तुह जायं होहिइ विरइ वि देसेण ॥ 6
§ ४०१) एत्थंतरम्मि पुच्छिओ भगवं गणहर-देवेण । अवि य ।
'भगवं के पुण सत्ता णरयं वच्चंति एत्थ दुक्खत्ता । किं वा कम्मं काउं बंधइ णरयाउयं जीवो ॥'
- 9 भगवया भणियं । 9
'णरयाउयस्स गोदम चत्तारि इहं हवंति ठाणाइ । जे जीवा तेसु ठिया णरयं वच्चंति ते चेय ॥
पंचेदियाण वहया पुणो पुणो जे हणंति जीव-गणं । केवट्टाई गोदम ते मरिउं जंति णरयम्मि ॥
- 12 कुणिमाहार-पयत्ता कुणिमं मेसं ति तं च आहारो । सावय-पक्खीण वहो मरिऊणं ते वि णरयम्मि ॥ 12
सर-दुह-तलाय-भोसण-हल-णंगल-जंत-वावडा पुरिसा । मरिऊण महारंभा गोदम वच्चंति णरयम्मि ॥
गाम-णगर-खेड-कडरड-आराम-तलाय-विसय-पुहईसु । परिमाण-विरइ-रहिया मुच्छिय-चित्ता गया णरयं ॥'
- 15 तत्रो इमं च सोऊण ताय, मए चित्तिंयं । 'अहो भगवया मंसाहारिणो पंचेदिय-वह-कारिणो य णरय-गामिणो आइट्टा । 15
ता अम्हे पंचेदिय-वहया मंसाहारिणो य गया णरयं, ण एत्थ संदेहो । ण-याणिमो अत्थि कोइ संपयं उवाओ ण व'त्ति
चित्तयंतस्स पुणो पुच्छिओ भगवं गणहारिणा 'भगवं, जइ पढमं इमेसु ठाणेसु होऊण पच्छा उप्पण-विवेगत्तणेण य
18 णरय-दुक्ख-भीरू कोइ विरमइ सव्व-पाव-ठाणाणं ता किं तस्स णरय-णियत्तणं हवइ किं वा ण हवइ' ति । भगवया 18
भणियं । 'गोयम, होइ जइ ण बद्धाउओ पढमं । बद्धाउओ पुणो सव्वोवाएहिं पि ण तीरइ णरय-गमणाओ वारेउं' ति ।
तत्रो ताय, इमं च सोऊण मए चित्तिंयं 'अहो, महादुक्ख-पउरो णरयावासो, पमाय-बहुला जीव-कला, विसमा कम्म-गई,
21 दुरंतो संसार-वासो, कट्ठिणो पेम्म-णियला-बंधो, दारुण-विवागो एस पंचेदिय-वहो, णरयग-दूओ एस कुणिमाहारो, 21
पिंदिओ एम तिरियत्त-संभवो, पाव-परमं अम्हाणं जीवियं ति । एवं च ववत्थिए किं मए कायव्वं'ति । तत्रो एत्थंतरम्मि
भणियं भगवया । अवि य ।
- 24 जो छिंदिऊण पेहं इंदिय-तुरए य संजमेऊण । विहिणा मुंचइ देहं जहिस्सिछयं पावए सिद्धिं ॥ 24
ति भणंतो समुट्टिओ भगवं सव्वण्णु ति । विहरिउं समाढत्तो । जहागयं पडिगया देव-दाणवा ! अहं पि ताय, अहो
भगवया अण्णोवएसेण दिण्णो महं उवएसो । इमं चेय काहामि । अवि य ।
- 27 छेत्तण पेह-णियले इंदिय-तुरए य संजमेऊण । कय-भत्त-णियत्तमणो मरिउं सुगई पुण लहामि ॥ 27
ति । ता दे करेमि, अहवा णहि णहि गुरुयणं आउच्छामि । अवि य ।
आउच्छिऊण गुरुणो सयणं बंधुं पियं च मित्तं च । जं करियव्वं पच्छा तं चेय पुणो अहं काहं ॥
- 30 ति चित्तयंतो अज्ज अकयाहारो एत्थ संपत्तो ति । 30
ता विण्णवेमि संपइ ताय तुमे एम पायवडणेण । देसु अणुजं खमसु य मह अजं सव्व-अवराहे ॥
ति भणिऊण णिवडिओ चलण-जुवलेसु ।

1 > J सहाओ, P संसिओ for पदंसिओ, P संसरणापयत्थागे वित्थारिओ. 2 > P विसेमओ बद्धनिज्जग, J om. वियप्पिओ, P ट्टिति- 3 > J पञ्चदिओ for परूविओ, P मोक्खमग्ग ति, P om. सव्वं, P उप्पणसंवेसद्धा. 4 > P repeats किं, P कुणंति, P जोणीयपरायत्तकरणा, J परयत्त, J तत्रो for तो. 5 > P om. भणियं. 6 > P देवाणुपिया, P adds पज्जत्तियाहिं before पज्जत्तो, J होहिति, P ति for वि. 7 > P एत्थंतरंति. 10 > P गोयम, P ट्ठाणाइं, P हिया for ठिया. 11 > P जीवाणं केवट्टाती गोयम. 12 > P आहारो. 13 > P सोसेण, J जुत्त for जंत, P मरिउ महारंभा, P गोयम, P णरयंति. 14 > P गामागर-खेडमदंबआराम-, P पुहतीसु. 15 > J तत्रो, P भाय for ताय, J om. य. 16 > P काउं for कोइ. 17 > J किं तायवस्स for चित्तयंतस्स, J गणहारिणो, P om. पढमं, P ऊण for होऊण, P विवेगत्तणेण नरय-. 18 > P भएण for भीरू, J विमरइ सव्व-, P पाण्डुणाणं ता, P तस्स रयणत्तणं हवइ. 19 > J गोतम, P होइ जणइ बद्धाउयं, J om. पढमं । बद्धाउओ, P om. पुणो, J सव्वं वाएहिं, P धारिउं for वारेउं. 20 > P om. च, J य for मए, P णरयत्तासो, J बहु-णे जीवफली, P कंमगती. 21 > P कट्ठिणो, P एसं विंदियवहो णरयविगदूओ. 22 > J संभवो, P पोव for पाव, P om. च, J किम्मए P किं मयं. 23 > J om. अवि य. 24 > P जहच्छियं पावसिद्धिं, J सिद्धि ति. 25 > P सव्वचू, P जहा पडिगया, P ताह for ताय. 26 > P अण्णोवएसेण. 27 > P छेत्तण, P -णियलो, P भत्तू for भत्त, P om. पुण, P लहीहामि. 28 > P om. one णहि, P अउच्छामि, P अहवा for अवि य. 29 > J णिद्धं for मित्तं, P काहिति. 30 > P अज्ज कयाहारो. 31 > J विण्णवेसि (?), P अणुजं. 32 > P ति for ति, J चलणेसु । तत्रो, P बलय for चलण.

- 1 § ४०२) तत्रो पसरंतंतर-सिणेह-पगलमाण-णयण-जुयलेण अंसु-किलिण-वयणेण भणियं जुण-पक्खिणा । अवि व । 1
'पुत्त ण कीरइ एसो ववसाओ दुत्तरो सुरेहिं पि । अण्णं च अहं थेरो वच्छ ममं मुंचसे कहयं ॥'
- 3 तेण भणियं 'ताय जं तए भणियं तं गिसामेसु । 3
किं दुत्तरं तिलोए णरयावासाउ होज्ज बहुयं पि । णियओ जो तुह जणओ ताय तुमे कस्स सो मुक्को ॥'
बुद्धेण भणियं ।
- 6 'जह पायवस्स पुत्तय पारोहो होइ लगणक्खंभो । तह किर पुत्त तुमं पि हु दोहिमि मह पुत्तओ सरणं ॥' 6
तेण भणियं । 'ताय,
को कस्स होइ सरणं को वा किर कस्स लगणक्खंभो । णिय-कम्म-धम्म-वसओ जीवो अह भमइ संसारे ॥'
- 9 बुद्धेण भणियं । 9
'अज्ज वि तरुणो पुत्तय मा मर इह ताव भुंजसु सुहाइं । पच्छा काहिमि धमं वच्छय जा बुद्धओ जाओ ॥
तेण भणियं ।
- 12 'किं मरइ णेय तरुणो बुद्धत्तं ताय को ण पावेइ । तं अच्छसि बुद्धयरो ण-यणसि धम्मस्स णामं पि ॥' 12
बुद्धेण भणियं ।
'अथो कामो धम्मो तरुणत्तण-मज्झ-बुद्ध-भावेसु । कीरंति कमेणेवं पुत्तय मा तिक्कमं कुणसु ॥
- 15 तेण भणियं । 15
'को व ण इच्छइ एसा परिवाडी ताय जा तुमे रइया । जइ अंतरेण पड्डिउं मच्चु-गहंदो ण बिहणेइ ॥'
बुद्ध-पक्खिणा भणियं ।
- 18 'जणिओ सि पुत्त दुक्खं दुक्खं संवड्ढिओ य जणणीए । किर होहिमि आलंबो बुद्धत्तणयमि अम्हाण ॥' 18
तेण भणियं ।
'सुरयासत्त-मणेण जाओ संवड्ढिओ य आयाए । इंधण-कज्जेण गओ ससयं जह पावए को वि ॥'
- 21 बुद्ध-सउणेण भणियं । 21
'एथ वि तुज्झ अधम्मो होइ थिय पुत्त ताव चित्तेसु । बुद्धं मोत्तूण ममं कायर-पुरिसो व्व तं जासि ॥'
तेण भणियं ।
- 24 'जइ तं वच्छसि णरयं मए वि किं ताय तथ गंतव्वं । अयडे णिवइइ अंधो ता णिवइउ किं मचक्खू वि ॥' 24
बुद्ध-पक्खिणा भणियं ।
'तह वि पिओ मे पुत्तय तुह विरहे णेय धारिमो जीयं । पिह-वज्जाए घेप्पसि एस अधम्मो तुहं गरुओ ॥'
- 27 तेण भणियं । 27
'ताय ण तुज्झं दइओ जेणं णरयमि खिवसि घोरमि । को कस्स मरइ विरहे जाव ण खुट्टं णियं कम्मं ॥'
बुद्धेण भणियं ।
- 30 'तुज्झ पिओ हं पुज्जो पुत्तय ता कुणसु मज्झ वयणं ति । मुच्चउ मरणासंसा पढमं पिव अच्छ णीसंको ॥' 30
तेण भणियं ।
'को कस्स होइ जणओ को व जणिज्जइ जणेण हो एथ । जणओ सो थिय एक्को धम्मवदेसं तु जो देइ ॥'
- 33 बुद्ध-पक्खिणा भणियं । 33
'जइ पुत्त तुमे एयं अवस्स करणिज्जयं तु ता विसह । जा ते पेच्छामि सुहं दीह-पवासमि चलयस्स ॥'
तेण भणियं ।

1 > J पसरंत सिणेहेण पगलं, J-जुअले आलिकिलण, P जुगओ for जुयलेण. 2 > P एसो ओ दुत्तारो, P अजं वाहं घोरा वच्छ, J मए for ममं, J कस्स for कहयं, P adds थेरं after कहय. 3 > P निसामेहि. 4 > J णरयावासो हु. 6 > P पुत्तस्स, P लगणक्खंभो. 8 > P inter. कस्स & होइ, P परि for अर. 11 > J adds य after तेण. 12 > P ताव को, J को व for को ण, P न य जाणसि धम्मनामं पि. 13 > P बुद्धेण. 14 > J om. मज्झ, P बुद्धभावेणु, P कामं णेयं for कमेणेवं, J उज्जमं for तिक्कमं. 16 > P पड्डियं, J गहंदे, J हारेइ for विण्णेइ. 17 > J बुद्धेण for बुद्धपक्खिणा. 18 > P संठिओसि जणणीए. 20 > J गओ संसयं J कोइ ॥. 22 > P तुज्झ न धम्मो, P तुमं for व्व तं. 24 > P जइ सि तं, P अंधो जइ निवडिओ किं. 26 > P पिय, P एस अहंमो. 27 > J adds तत्रो before तेण. 28 > P adds ति after खुट्टं. 30 > P कुक्ख पियाहं. 32 > J होइ सरणं को. 34 > P तए for तुमे, P ति for तु, J ए for ते.

- 1 'जं कायव्यं कीरड को जाणह् दियह्-पक्ख-मासाणं । किं होहिह् अहिययरं वयणं जेणम्ह दीसेज् ॥'
का खमसु अहं वच्चामि' ति भणतो उवगओ माऊए समीवे । 1
- 3 § ४०३) तस्थ य पायवडणुट्टिएण विण्णविया माया । अवि य । 3
तं धरणीं साविन्ती सरस्सइ तं भगीरही पुहइ । धारणि-अम्मा देवी माया जणणी य जीयं च ॥
ता खमसु माए एण्ह कय-पुव्वं जं म्ह अविणयं किंचि । संपह् मरियव्वमिणं उवट्टियं अम्ह संसारे ॥
- 6 इमं च सोऊण जरा-जुण्ण-खुडिय-पक्खावली-वियडणा-पयड-पंडर-सरंडय-डंडावली-मेत्त-पक्ख-पडली-सणाहाए भणियं 6
जुण्ण-पक्खणीए । अवि य ।
'हा हा पुत्त किमेयं वयणं अह् गिटुरं तए भणियं । थक्किय-पडिहयमेयं ण सुयं म्ह ण यावि ते भणियं ॥'
- 9 तेण भणियं । 9
चिरजीविणीए अम्मो दिट्ठो व्व सुओ व्व कोइ लोगम्मि । मरणाओ जो चुक्को मंगल-सय-लक्ख-वयणेहिं ॥'
थेरीए भणियं ।
- 12 'पुत्त तहा वि ण जुज्जइ भणिऊणममंगलं इमं वयणं । सोऊण इमं दुल्लह् मह् दुक्खं होइ हिययम्मि ॥'
तेण भणियं । 12
'अम्मो वयणेण इमं दुक्खं जायं ति तुज्ज दुत्तारं । जइ सच्चं चिय मरणं हवेज्ज ता किं तुमं आसि ॥'
- 15 थेरीए भणियं । 15
'पुत्त ण वट्ठइ एयं भणितं जे जइ पुणो कह् वि होजा । ता पुत्त तुम्ह णेहेण तं चित्तिं चेय पविसेज्जा ॥'
तेण भणियं ।
- 18 'अम्मो मा भण अलियं एक्केकं अणुमरेज्ज जइ तं सि । ता कह् थेरी होती बाल चियं तं मुआ होती ॥'
थेरीए भणियं । 18
'मा पुत्त भणसु एयं जीयाओ वि वल्लहो तुमं मज्झ । मा मं मुंचसु एण्ह थेरत्तण-दुक्ख-संतत्ते ॥'
- 21 तेण भणियं । 21
'अम्मो को कस्स पिओ को वा जीवेज्ज कस्स व वसेण । को वा मुच्चइ केणं को थेरो किं व से दुक्खं ॥'
थेरीए भणियं ।
- 24 'पुत्त इमो ते अम्मो अम्मा-तायाण कुणसि जं विणयं । बंधुयणस्स य पोसं पम्मुक्को होहिह् अहम्मो ॥'
तेण भणियं । 24
'अम्मो सच्चं एयं भणियं घर-वास-संठिय-जियस्स । जो पुण मुंचइ सच्चं तस्स ण कज्जं इमेहिं पि ॥'
- 27 थेरीए इमं भणियं । 27
कुच्छीए मए धरिओ णव-मासे पुत्त-भाए-मुट्टियाए । उवयारस्स फलं ते पच्चुवयारो कओ को वा ॥'
तेण भणियं ।
- 30 'अम्मो कीम तए हं धरिओ गम्भम्मि केण कजेण । णियय-जणणीए तुमए उवयारो को कओ होज्ज ॥ 30
माए हं ते जणिओ तुमं पि जणिया मए भव-सएसु । अरहट्ट-वडि-समाणा अवरोप्परयं पिया-पुत्ता ॥'
भणतो उवगओ जेट्ट-भाउणो समीवं ।
- 33 § ४०४) तस्थ वि पायवडणुट्टिओ विण्णविउं पयत्तो । अवि य । 33
'भाउय तं सि खमेज्जसु अम्हे उच्छेण-वड्डिया तुम्ह । डिंभत्तण-दुल्लिएण्हिं तुज्ज जो अविणओ रइओ ॥'
भाउणा भणियं ।

1) P जाणओ for जाणइ, JP होहिहि, P दीसेज्जा. 2) P समीवं. 3) P विण्णविय, P om. माया, P adds after अवि य like the following which is partly repeated subsequently तं धरणीं सत्तवती सरस्सीती तं भगीरही पुहती । धार-अंगादेवी माय जण अहं वच्चामि ति भणतो उवगओ माऊए समीवं । तस्थ य पायवडणुट्टिएण विण्णविय. 4) P धरणी सत्तवती सरस्सीती, P पुहती । धारणिअंगी, J धरणीअम्मा, P जणणी अजीयं च. 5) J जम्ह P जम्ह for जं म्ह, P अम्ह for अम्ह. 6) P खुडिया से सडिय पक्खावली वियडणापयडा, J पम्हावली, J -संडंडय-, J -पडली. 8) J थुक्किय, J ण मुंचइ P णयं अम्हे for ण सुयं म्ह, J ए P तं for ते. 10) J चिरजीविणीय P चिरजीवणीए, P repeats सुओ व्व, J लोगम्मि, P सउक्ख-. 12) P भणिऊण अमंगलं, P om. दुल्लह् मह्. 14) P दुक्खं जीयं ति पइसेज्जा ।, P om. जइ सच्चं चिय मरणं etc. to चित्तिं चेय पविसेज्जा ।. 18) P होति in both places. 20) P पुत्त धणपुणसुं जीयाउ वि. 22) J वा मुंचइ, P केण व को. 23) J थेरीय P थोरीए. 24) J ए for ते P बंधुयणस्स पसायं पम्मुक्के, JP होहिहि. 26) P भणियं परवाससंठियस्स जीवस्स, P उण for पुण, P ति for पि. 27) P has additional lines here beginning with थेरीए भणियं । कुच्छीए etc. धरिओ गम्भं ति which are repeated below, P om. इमं. 28) P भणिओ for धरिओ, P टुट्टियाए. 32) P जेट्ट भाउणो समीवं तस्स. 33) P पायवडणुट्टिओ विउं पयत्तो. 34) P खमज्जसु, P तुम्हे for तुज्ज.

- 1 'हा कीस वच्छ मुंचसि केण व तं किंचि होज्ज भणियो सि । को णाम एत्थ धम्मो किं वा पावं भवे लोए ॥' 1
तेण भणियं ।
- 3 'मा भाउय भण एवं धम्माधम्मोहिं संठिओ लोओ । अह अत्थि को वि धम्मो विणयाए सुओ जहा राया ॥' 3
भाउणा भणियं ।
'मुद्धो सि वच्छ बालो केण वि वेयारिओ वियङ्गेण । सो को वि इंदयात्ती वेयारंतो भमइ छोयं ॥'
6 तेण भणियं । 6
'भाउय विवेग-रहिओ तं मुद्धो जं भणासि कावडिओ । मा हो तं भण एवं तियसिंद-णमंसियं वीरं ॥'
भाउणा भणियं ।
- 9 अच्छसु भुंज जहिच्छं परलोओ वच्छ केण सो दिट्ठो । एकं हूयं अण्णं होहिइ का तम्मि ते सद्धा ॥' 9
तेण भणियं ।
'धम्मेण एत्थ भोगा भाउय धम्मेण होइ सगं पि । ता तं चेय करिस्सं णत्थि सुहं धम्म-रहियस्स ॥'
12 भणमाणो उवगओ कणीयसं भाउयं, तं पि उत्तिमंगे चुंबिऊण भणितं समाहत्तो । अवि य । 12
'उच्छं-लालिओ मे वच्छ तुमं पुत्तओ व्व मह दइओ । खर-फरुसं सिक्खविओ अवराइं खमसु ता मज्झं ॥'
कणीयसेण भणियं ।
- 15 'हा भाउय कत्थ तुमं चलिओ होजा णु अम्ह मोत्तूण । अम्हाण तं सि सामी तुज्जायत्ते इमं सव्वं ॥' 15
तेण भणियं ।
वच्छ चलिओ मि मरिउं तुम्हे मोत्तुं पुणो वि गंतव्वं । को कस्स वच्छ सामी जम्मण-मरणेहिं गहियम्मि ॥
- 18 § ४०५) इमं भणतो उवगओ जेट्ठं भइणिं, तीय पायवडणुट्टिण भणियं । 18
भइणी तं महादेवी सरस्मई तं सि पूयणिजा सि । ता खमसु अविणयं मे डिंभ-सहावेण जं रइयं ॥
तीए वि वियलमाण-णयण-जल-पवाहाए भणियं । अवि य ।
- 21 'वच्छम्हाण तुमं चिय कुलम्मि किर भो कुमारओ आसि । पोमाय ऋ तुमे चिय तुमए चिय जीविमो अम्हे ॥' 21
तेण भणियं ।
जीयइ कम्मेण जिओ पोमायइ सुंदरेण तेणेय । जइ हं कुले कुमारो माए ण य लज्जणं काहं ॥'
- 24 तीए भणियं । 24
'थेरं मुंचसि पियरं कस्य इमं मायरं च गइ-वियलं । सत्थेसु किर पटिज्जइ अयण-परिपालणं काउं ॥'
तेण भणियं ।
- 27 'किर वाहेण तओ हं बद्धो पासेण अहव ण य जाओ । मोत्तूण ममं पुत्ता अण्णे वि हु अत्थि तायस्स ॥' 27
§ ४०६) इमं भणतो उवगओ कणीयसं भइणिं । तं पि साणुणयं उवसप्पिऊण भणितमाहत्तो । अवि य ।
'खर-णिट्टर-फरुसाइं वच्छे भणिया सि बाल-भावम्मि । ता ताईं खमसु एणिं होसु विणीया गुरुणं ति ॥'
- 30 तं च सोऊण मंतु-गमगरं तीए भणियं । अवि य । 30
'हा भाउय मं मोत्तुं दीणमणाहं च कत्थ तं चलिओ । ताओ वट्टइ थरो तुज्जम्हे चित्तीयाओ ॥'
तेण भणियं ।
- 33 'अलिओ एस वियप्पो जं चित्तिजइ जणो जणेणं ति । वच्छे पुव्व-ऊएणं दुक्ख-सुहे पाविरे जीवा ॥' 33
§ ४०७) एवं च भणमाणो उवगओ भारियाए समीवं सो पक्खी । भणियं च तेण । अवि य ।
सुंदरि सुहय-विलासिणि तणुयंगे पम्हलच्छि घर-लच्छि । धणिए मह हियय-पिए वल्लह-दइए य सुण वयणं ॥

3 > P एवं धंमेहिं, J धम्माधम्मोहिं, P लोए । 5 > J सि बड्ढवाला, P वेयारंतो. 7 > P विवेय-, P भणामि for भणासि.
9 > P जहिच्छि, P om. वच्छ, P adds कत्थ before मो, JP होहिति, P ते सिद्धा. 11 > J भोआ. 12 > J कण्णसं भाउअतेण
तं पि, P भणियो. 13 > P से for मे, P तुह for मह. 14 > J कण्णसेण भणिअं. 17 > P मरिओ तुम्हे न्हेत्तुं पुणो, P
मरणिहिं, J गहियस्स ॥. 18 > P भणितं for भणंतो, P जेट्ठभणिणीं, J adds तेण before तीय. 19 > J तमहं देवी, P तं
महादेवी, J भो for मे. 20 > J तीय वि, P om. णयण, P जलह-. 21 > P वुच्छम्हाण, P पिय for चिय, P हो for भो, J
कुमासओ, J पोमाय P पामाय. 23 > P सुंदरे य तेणेय, JP कुमासो. 24 > J तीअ for तीए. 25 > P अइह for अयण-
27 > P कर for किर, P कओ हं [हओ हं?], P बद्धो पोसेण अह वि न य, P सत्थे for अण्णे. 28 > J कण्णस्स for कणीयसं,
P भइणी. 29 > P फरिसाइं, P ता माइं खमसु. 30 > J मणु for मंतु, P मंतुयगरं. 31 > P थोरो (थोरो?). 33 > P
जीवो ॥. 34 > P गओ for उवगओ. 35 > J वंभलच्छि, P घरलच्छी I, P om. य, P सुवयणं.

- 1 खडाणि च पीयाणि च तुमए समयं बहुणि तणुयंगि । नचणंणमिभ भमियं लक्खणे णिवसियं समयं ॥ 1
सुरसरि-पुलिणेषु तए समयं तणुयंगि भिक्खसिं बहुसो । माणस-सरस-सरोवह-दलेसु सुहरं पसुत्ता मे ॥
- 3 किलिक्किचियं च बहुसो कय-कलवल-राव-मुहय-मणसेहिं । तं णरियं जं ण रइयं दइए ता सससु तं सव्वं ॥ 3
इमं च सोऊण गुरु-दुक्ख-भर-भार-सुडिया इव णिवडिया से मुच्छा-णीसदा दइया । तं च णिवडियं दइए तेण भणियं ।
'आसस मुद्धे आसस सरल्ल-सहावा ण-याणसे किंचि । किं ण सुयं ते सुंदरि संजोचा विप्पओयंता ॥
- 6 आसस मुद्धे आसस विहडइ अंते सराय-वडियं पि । संपुण्ण-णियय-कालं पेम्मं चक्काय-जुवलं व ॥ 6
आसस मुद्धे आसस च्चल्लं संकमइ अण्णमण्णेषु । विंझमिरि-सेल-सिहरे वाणर-लीलं चइए पेम्मं ॥
आसस मुद्धे आसस च्चवलं परिसकए सराइल्लं । णव-पाडस-जलहर-विज्जु-विलसियं चेय हय-पेम्मं ॥
- 9 आसस मुद्धे आसस एयं चित्तेषु ताव लोगमि । सार-पवणुदुए-धयवड-चवलं छउयंगि हव-पेम्मं ॥ 9
इय बुज्झिऊण सुंदरि मा मोहं च्च आससु मुहुत्तं । गय कलइ-कण-चंचल-चलाओं पेम्माण पयइओ ॥' ति ।
इमं च भणमाणेण आसासिआ सा तेण पक्खिणी । तओ होंत-विओयाणल-अणिय-जाळावली-पिलुट्ट-हिचयुत्त-णयण-
- 12 भायणोयर-कठंनुक्ख-वाह-जल-पवादाए भणियं सगगयं तीए पक्खि-विलासिणीए । भवि च । 12
'हा दइय णाह सामिय गुण-णिहि जियणाम णाह णाह ति । एक्क-पए च्चिय मुंचसि केण वि देयारिओ अइहं ॥
हा णाह विणा तुमए सस्यं को होहिइं अउण्णाण । कस्स पछोएभि मुहं सुण्णाओ दस दिसाओ वि ।'
- 15 तेण भणियं । 15
'मा विलव किंचि सुंदरि एस पकाओ गिरस्थओ एहिं । जंतो च मरंतो विय किं केणइ वारिओ को वि ॥
जं जस्स किं पि विहियं सुहं व दुक्खं व पुच्च-जम्ममि । तं सो पावइ जीवो सस्यं को कस्स लोगमि ॥
- 18 तीए भणियं । 18
'जइ एवं णिणोहो वज्जमओ तं ति मुच्चसे अइहं । ता किं जाणसि डिंमे अइ जणिए किं परिचयसि ॥'
तेण भणियं ।
- 21 'मोहंघेणं सुंदरि किंचि-सुहासाय-जणिय-राएण । एयं कयं अकळं दुक्खमणंतं ण तं दिट्ठं ॥ 21
जइ काम-मोह-मूढो बढो वारीएँ कह वि वण-इत्थी । मुद्धे किं मरउ तहिं किं वा बंधं विमोएउ ॥
जं कह वि मोह-मूढेण सेविओ किं मरेज तस्येव । जो जाओ गोत्तीए किं जाउ सयं तहिं चेय ॥
- 24 जइ सेवियमिह कामो कह वि पमाएण तं च इहामि । किं कह वि जो विउड्ढो सो पायाळं समल्लिवउ ॥ 24
तीए भणियं ।
'जइ तं वच्चसि सामिय अइ पि तस्येव णवरि च्चामि । भत्तार-देवताओ णारीओ होंति लोगमि ॥'
- 27 तेण भणियं । 27
'सुंदरि पयइ वच्चसु पारस-हियं ण रोयए कस्स । पेच्छसु भव-जल-रासिं जम्म-वरा-दुक्ख-संगिळं ॥'
तीए भणियं ।
- 30 'एयं बाळारामं गिंसंस-मुळं तए अइ मरेज । किं मुच्चसि तुमे च्चिच जइ अइयं सुंचियो एवं ॥' 30
तेण भणियं ।
'णिव-कम्म-अम्म-आमा जिंसंति गिक्कए च्चेव कम्मोण । बाळण किं मए किं तए च्च मा कुणसु गिसमेयं ॥'
- 33 इमं च गिसामिऊण सीए मणिय ते दिंअक्खा । 33
एसो च तुमइ अण्णओ पुक्ख मरणमि विण्ण-ववससओ । ता कगगइ पावाहिं कम्ममि इमस्स गाडयरा ॥

1 > J वीआणि for खडाणि P बहुणि तणुयंगी, P भमिउं. 2 > P पुल्लेसु. 3 > P om. च, P om. ता. 4 > J om. भर, P सुडिया, P णिवडिय, J adds अवि य after भणियं. 5 > P णयासे. 6 > P यते for अंते, P repeats पेम्मं. 7 > J विशाररि, J वाणरणीजं चइय. 8 > J चलं च for चवलं. 9 > P एवं, J चित्तेषु आव लोगमि, P लोगं, P धयधयवडचंचलं. 10 > J आसस. 11 > J om. तेण, J -विओआलि-जलिअजाळावलीविलुट्ट, P पिलुट्टहियपुत्तणयमायाणडराकडंतुवत्त. 12 > P -पवादाए, P सगगारं, J तीय पक्खिविलासिणीय. 13 > P हे for हा, P जियनाहराह ति, P मुद्धय for मुंचसि, J केणावि, P वियारिओ. 14 > JP होहिती, J अउण्णाए. 16 > P किंच सुंदरि, J गिरस्थयो, P केण व धारिओ, J कहिमि for कोवि. 17 > J लोगमि. 18 > J तीय. 19 > P जइ व णिणोहो, P तं च से अइहं, P जणेहि for जाणसि, J adds पि after किं. 21 > J सुहासाय. 22 > P कोव for मोह, P वारीय कह व, J बइं, P बंधं विमोएउ. 23 > P जीवो for जाओ after जो, P किं for सयं, P तहिं च्चिच. 24 > J सेविअमिह P सेविओसि, J जो णिउड्ढो, P समल्लियर. 25 > J तीय. 26 > P देवताओ, J लोगमि. 29 > J तीय. 30 > P गिंसंसं, P मरेजा, P adds अइ before अइयं, P मुंचमा. 33 > J तीय भणियं तेण ते, P विमुक्खा. 34 > J om. य, J तुमइ, P ता लयइ पावाहिं, J मा दइहिइ for पावाहिं, J कणमि, J गाडयरं.

- 1 § ४०८) एवं च भगिन्या समाणा किं काउमाळता । अवि च । 1
उद्धाहया सरहसं सन्वे चिय मुद्-मम्मणुहावा । खंचम्मि केह कंठे जण्णे पट्ठिं समारुहा ॥
- 3 'मोत्तूण ताव अम्हे करय तुमं पवससि ति णिण्णेहो । अं वं पेच्छ खंतिं अम्हे वि मरामु तुह विरहे ॥'
तेण भगिन्यं ।
- 6 'पुत्त मए तुम्हाणं ण किंवि कज्जं ति जियउ ए अंबा । स चिय दाही मत्तं होह समस्था सयं चेष ॥'
तेहिं भगिन्यं । 6
- 9 'अंबाए ताव कहियं ताएण विणा मरामि हं पुत्त । तुम्हे वि मए मुक्का मरिहिह मा देसु गंतुं जे ॥'
तेण भगिन्यं ।
- 9 'मा पत्तिवाह पुत्तय एसा अह कुणह तुम्ह परिहासं । को केणं जीविज्जह को केणं मरह लोगम्मि ॥
अव-रुक्ख-पाव-कुसुमफलाहं एयाहं विम-रुवाहं । महिला णियलमलोहं वंचण-पासं च वंधुयणो ॥
ति चित्तयंतणे धुणिरुणं देहं तरुयरं पिव पिक्क-फलाहं व पाळिउण विम-रुवाहं चलिओ ससुरंतणं । भगिन्यं च तेण ।
- 12 'तुह ताव पाववडणं करेमि एसो म्हु खमसु जं भगिन्यं । जारिसओ मह जणओ तारिसओ चेष तं पुज्जो ॥'
तेण भगिन्यं । 12
- 15 'कल्लणं ते पुत्तय जह मरियव्वं अवस्स ता सुणसु । अज्ज वि वालो ति तुमं को काळो वच्छ मरणस्स ॥'
तेण भगिन्यं । 15
- 18 'वालो तरुणे बुद्धो ताव करयत्तस्स णत्थि संकप्पो । जल्लणो व्व सव्व-मक्खो करेउ वालो वि तो चम्मं ॥'
ति मणंतो डवगओ अत्ततेण । भगिन्यं च ।
- 18 'अत्ता तुह पाववडणं अम्हं जणणी तुमं ण संदेहो । ता खमसु किंवि भगिन्यं विंभसण-विकसियं अम्ह ॥'
तीए भगिन्यं । 18
- 21 'अज्ज वि पुत्तय वालो कुग्गाहो केण एरिसो रहओ । मुंजसु मोए पच्छा बुद्धो पुण काहिंसी चम्मं ॥'
तेण भगिन्यं । 21
- 24 'चम्मत्थ-काम-मोक्खा अत्ता चत्तारि तरुण-जण-ओग्गा । जोव्वण-गलियस्स पुणो होति ससुरो व्व दुत्तारो ॥'
तीए भगिन्यं ।
- 24 'धूर्यं मोत्तूण हम्मं फुल्ल-फल-भरिययं सुरुवं च । सा मरसु पुत्त मुद्धो ण-याणसि अत्तणो सारं ॥'
तेण भगिन्यं ।
- 27 'अत्ता फुल्ल-फलेहिं किं वा रुवेण किं व तरुणीए । धोरं णए दुक्खं हह जम्माणंवरं होह ॥'
तीए भगिन्यं । 27
- 30 'अं तुह कुलस्स सारिसं भगिन्यं तं पुत्त आसि पडमम्मि । भिंदसि कुल-मजायं संपह तुह हो ण जुत्तमिणं ॥
तेण भगिन्यं ।
- 30 'अत्तार-देवयाणं अत्ता जुत्तं ण एव गारीणं । अहयं मरामि सा उण ण मरह जुत्तं कुळं तीय ॥'
सि मणंतो चलिओ पिय-मित्ततेणं । भगिन्यं च तेण ।
- 33 'मित्तं ति णाम लोए वयंस अह केण णिम्मियं होज्ज । वीसंम-गग्ग-हरओ पणय-दुमो विण्ण-फळ-णिवहो ॥
परिहास-मूल-पसरं रह-खंधं पेम्म-राय-साहिल्लं । धिह-कुसुम-चित्तिय-फळं मित्त-तर्कं को ण संमरह ॥
ता मित्त तुमे समयं जयम्मि तं णत्थि जं तुहं गुज्जं । जह किंवि अम्ह खलियं खम सव्वं पत्तिय तं सुयणु ॥'
मित्तेण भगिन्यं ।
- 'साहसु मह सडभावं किं कज्जं मित्त पवससे तं ति । को णाम एस णओ मुद्धो ति चियारिओ केण ॥'

2 > P उद्धाहय सरहसं, P को वि for केह. 3 > J पाव P ताव for ताव, P पवसस, P पेच्छे, J खंतिं P खंती, P तुह for तुह. 5 > P तु for ति, P inter. अंबा & ए, J दाहिहि for दाही, J चेअ. 7 > P तुम्हे, P मरहिह, P देसु गंतव्वं ॥. 9 > P पत्तिवाहि, P कुणहह, P। जा वाविज्जह केणं को केणं, J लोअम्मि. 10 > J -रुवाहं, J णियलमलोहं वं व पासं. 11 > J om. पिव, P पिव पक्क, P ससुरतेणं. 12 > J चेव. 14 > J जह करिअव्वं. 16 > P तया for ताव, J करेसु, P उ for वि. 17 > P अणेण for अत्ततेण, P om. च. 19 > J तीय. 20 > P एरिसो वरओ. 22 > P मोक्खो अत्थ चत्तारि. 23 > J तीय. 24 > J धूर्यं, P रयं for भरिययं, J याणसी. 26 > J repeats किं वा. 27 > J तीय. 28 > J inter. पुत्त and तासि for आसि, J भिंदसि. 30 > P एव for एव. 31 > P om. भगिन्यं च तेण. 32 > J adds पिय before मित्तं, P चित्तं ति णाम, J मोए for लोए, J होज्जा, P पणयदुमो विण्णल. 33 > P पेम्मराह-, J चित्ति-, P चित्तसफल. 34 > J तुमं समयं, J तुहं गुज्जं, P खम्मियव्वं पत्तियं तं सुयणु. 36 > J मुद्धो वेआरिओ.

- 1 तेज भणियं । 1
 'पृथ न कुञ्जह भणियं क्वरि तुहं मित्त-वयण-मेत्तं पि । गहियं जं तुह चित्तं तं सि बभन्वो भकल्लाणो ॥'
- 3 तेज भणियं । 3
 'जह भणियं कोह क्वरि पावो व हवेज्ज जीव-विहणेणं । किं एस सव्व-कोजो ण मरह जह तं मरिड-कामो ॥'
- 6 तेज भणियं । 6
 'किं सव्वो चिय पेच्छह तं वीरं सुणह किं व वयणाहं । णिसुए वि कस्स सत्ती जो सुं चह सव्व-पावाहं ॥'
- 9 तेज भणियं । 9
 'तं एहो पंडियवो मज्जे किं पक्खि-कक्ख-कोडीण । गो-सय-मज्जे कुल्लो खज्जह मसएहिं जह एहो ॥'
- 12 तेज भणियं । 12
 'किं सव्वस्स विवेवो धम्मो बुदी व होह पक्खीण । रुक्ख-सवाण वि मज्जे विरकं को चंदणं होह ॥'
- 12 'भो भो हो पक्खिणाणा वसिया एक्कमि रुक्ख-सिहरमि । गयणमि समं भणिया सारिया-पुलिणेसु कीलिवया ॥ 12
 ता खमह किंवि भणियं भवो बालत्तणेण दुग्घयणं । सहवास-परिहवो हो होह चिय सव्व-लोगमि ॥
 इमं च भणिया सव्वे सहसि-दीण-कलुणा हास-रस-भरिज्जमाण-माणसा भणियं पयसा ।
- 15 'एवं होड खमेज्जसु जं तुह रुहं करेसु तं वीर । सुट्टु वि जह विण्णप्पत्ति ण कुणत्ति भन्तं तुमं वयणं ॥ 15
 तेज भणियं ।
 'कीस ण कीरह वयणं ओसारिय-मच्छरस्स पुरिसस्स । किं तु ण दीसह कथं वि एहं मोत्तण तं वीरं ॥'
- 18 भणंतो समुप्पहो तमाक-दल-सामलं गयणवलं सो विहंगमो । 18
 एत्थं तरमि सूरु कय-मेरु-पयाहिणे णियसिगं । विवसाविय-कमल-वणो जिण्णं कुणह भत्तीए ॥
 ताव थ करयंति सडणया, णिलुक्कंति वूया, णिसियंति वावा, वियरंति सिंवा, वियसंति कमलायरा, संकुयंति कुमुयायरा,
- 21 कुसुमिय-सिय-कुसुमह-हास-हसिरा वणत्तिरि ति । जवि य । 21
 सिय-कुसुम-लोयणोवर-णिविट्ट-मूयल्लिएक-भमरेहिं । गोसभाग्गि वण-त्तिरी पुलएह दिसीओ व विठ्ठा ॥
 (४०९) तजो तं च तारिसं पंडरं पहायं दट्टण उप्पहआ सव्वे ते पक्खिणो तम्हाओ वड-पायवाओ ति । ते य
- 24 उप्पहए दट्टण विग्गिय-खित्त-हियवो चित्तित्तं पयत्तो सयंभु-देवो । 'अहो, महंतं अच्छरीयं जं पेच्छ वणे पक्खिणो ते वि 24
 माणुस-पलाविणो फुडक्खरं अंतवंति, ते वि धम्मपरे । ता कहं आहार-अय-मेहुण-सण्णा-मेत्त-हियय-विपुत्त-विण्णाणा, कहं
 वा परिसी धम्म-बुद्धि ति । ता ण होह एयं पयहत्थं, दिग्घ-पक्खिणो रथ एए । अहो तस्स पक्खिणो फुडक्खरालावत्तणं,
- 27 अहो सत्तसारो, अहो ववसाओ, अहो पियं वत्तणं, अहो णिट्टुरत्तणं, अहो णिण्णेहया, अहो-गुरु-गठरवो, अहो दद-धम्मया, 27
 अहो वेरगं, अहो णय-भीरुत्तणं अहो मरणाणुबंओ ति । सव्वहा ण सुट्टु जाणीयह किं वि इमं जं सो पक्खी
 कुट्टुवं सव्वं परिक्कडण अत्तणो हियं धम्मं पडिवज्जह ति । अहवा पेच्छ, पक्खिणो वि धम्मपरा कुट्टुव-णिण्णेहा धम्म-गय-
- 30 चित्ता । अहं पुण कीस पर-संतिपाहं रवजाहं चोरिडण इमं एरिसं विट्ट-सडभावं विड-कक्ख-कुट्टुवं जीवावेमि । ता संपयं 30
 इमं एत्थ करणीयं । जस्स सवासे इमिणा धम्मो णिसुओ तं गंतण पेच्छामि । पुच्छामि व जहा 'भगवं, के ते वणमि
 पक्खिणो, किं वा तेहिं मंतिर्यं, किं कारणं' ति । इमं च सोडण पक्खा जं करियव्वं तं काहामि जं इमिणा पक्खिणा कयंति
- 33 चित्तिडण अक्खण्णे वड-पायवाओ, गंतुं पयत्तो हत्थिणपुराभिमुहं जाव 'भो भो गोदम, एस ममं समवसरणे पविट्टो, 33

2 > P अमव्वा. 4 > J अव for व, P मरिउंकाओ. 6 > P सव्वो चिय, P व for वि. 8 > P -कोडी ।, P कुञ्जह.
 10 > P सव्वविजिओ, P om. को. 11 > J लोअत्तण, P गोगतेण, P om. च तेण. 12 > J om. हो, P समा for समं.
 13 > P खमसु, J सव्वलोएसु. 14 > P -करणा, J -हरिज्जमाण-, P om. माण. 15 > J एजं for एवं, P र्हउं, P repeats वि
 जह, J जह भणिणप्पत्ति. 16 > J om. तेज भणियं. 17 > P om. कीस ण, P उस्सरीय, P om. पुरिसस्स, P किं तुहण. 18 >
 P भणंतो उप्पहओ, P णणयलं. 19 > P पयाहिणा, J णियसंगो, J करत्तलो for कमलवणो, J भत्तीय. 20 > P करयंति, P
 बुअया, J विरंति सिंवा, J संघडंति for संकुयंति. 21 > J कुसुमपहास, P वणत्तिरि ति. 22 > P सेव for सिव, J लोअणोअर,
 J मूएल्लिएक, J श्व for व. 23 > P om. पंडरं, J सहायं for पहायं. 24 > J चित्त for खित्त, P अच्छरीयं, P पक्खिणो,
 P om. ते वि. 25 > P धम्मं परा ते वि कहं, J सण्ण-, J विपुत्तं, P विण्णाणो. 26 > J एवं for एयं, P सु एवं ते for त्व
 एए, J लावित्तणं. 27 > J पिअं वयत्तणं, P om. अहो णिट्टुरत्तणं, P गुरुगठरवो । अह दद-. 28 > J 'भीरुत्तणं । मरणाणुबंवि
 ति, J जाणीयति P जाणीयं. 29 > P कुट्टुवं P inter. कुट्टुवं & सव्वं, P अहवा पच्छ, P कुट्टुव-. 30 > P कुट्टुवं. 31 > P
 om. इमं, J om. य. 32 > P om. जं करियव्वं, J हत्थिणाउराभिमुहं, P गोयमा, P om. ममं.

- 1 पुच्छिओ य अहं हूमिणा 'को सो वणम्मि पक्खी' । साहिओ मए जहा 'दिब्बो' ति ।' इमं च सोऊण उप्पण-वेरगो 1
 णिविषण-काम-भोगो उप्पण-कुडुंब-णीसार-बुद्धी संजाव-विबेगो उहण-चारित्तावरणीय-खओवसमत्तणेण चारित्त-वेदणीय-
- 3 सुह-कम्मो ति ताणं समप्पिऊण रयणाइं भाउच्छिऊण पक्खिणोवएस-सरिसुत्तर-पडिउत्तरालावेहिं ममं चेष सयासं एहिइ ति । 3
 § ४१०) इमं च एत्तिथं जाव भगवं वीरणाहो साहइ गोबमाइंणं ताव संपत्तो सयंभुदेवो ति, पयाहिणं च काऊण पायवडणुट्टिओ भणिउं समादत्तो । अवि य ।
- 6 'जय संसार-महोयहि-अर-मरणावत्त-अंगुर-तरंगे । जय जीव-जाणवत्तो सिद्धि-पुरी-सामिओ तं ति ॥ 6
 भगवं पडिबुद्धो इं वणम्मि सोऊण पक्खिणो वयणं । ता देसु णियय-दिक्खं कुणसु पसायं सुदीणस्स ॥'
 इमं च वयणं सोऊण दिक्खिओ जहा-विहिणा भगवथा गोदम-गणहारिणा चंडसोम-जीवो सयंभुदेवो ति ॥
- 9 § ४११) एवं च भगवं भव-कुमुयागर-सहस्स-संबोहओ विहरमाणो मगहा णाम देसो, तत्थ य रावणिइं णाम 9
 णयरं, तत्थ संपत्तो, देव-दाणव-गणेहिं विरइयं समवसरणं । तत्थ य सिरिसेणिओ णाम राथा । सो य तं भगवंतं
 सोऊण समागयं जिणवंदं हरिस-वस-वियसमाण-सुह-पंकओ सयल-जण-हल्लबोल-वट्टमाण-कलवलो गंतुं पयत्तो । भगवंतं
 12 वंदिऊण संपत्तो, समवसरणं पविट्टो । ति-पयाहिणीकओ भगवं जिणयंदो, पायवडणुट्टिण य भणियं तेण । अवि य ॥ 12
 'जय दुज्जय-मोह-महा-गाइं-णिहारणम्मि पंचमुहा । जय विसम-कम्म-काणण-दहणेक-पयाव-जलण-समा ॥
 जय कोवाणल-पसरिय-विबेय-जल्ल-जल्लहरिंद-सारिच्छा । जय माणुद्धर-पच्चय-सुसुमूरण-यच्छला कुलिसा ॥
- 15 जय माया-रुसिय-महाभुयंगि तं णाग-मणि-सारिच्छा । जय लोह-महारक्खस-णिष्णासण-सिद्ध-मंत-समा ॥ 15
 जय अरइं-रह-णासण जय-णिज्जिय हास-वज्जिय जयाहि । जयहि जुगुच्छा-मुक्का असोय जय जयसु तं देव ॥
 जयहि ण-पुरिस ण-महिक्का णोभय जय बेय-वज्जिय जयाहि । सम्मत्त-मिच्छ-रहिया पंच-विहण्णाण-भय-मुक्का ॥
- 16 अज्जेव अहं जाओ अज्ज य पेच्छामि अज्ज णिसुणेमि । मगहा-रज्जम्मि ठिओ दट्टं तुइ वीर मुहयंदं ॥ 18
 तं णाहो तं सरणं तं माया बंधवो तुमं ताओ । सासय-सुहस्स मुणिवर जेण तए देसिओ मग्गो ॥'
 ति भणंतो णिवद्धिओ चरणेसु णिसण्णो य णिययासणट्टाणेसु । साहियं च भगवथा अंगोवंग-पविट्टं सुत्त-णाणं मह-णाणं
- 21 च, परुवियं भव-पच्चयं कम्मक्खओवसमयं च णाणा-संठाणं ओहि-णाणं, सिट्ठं तु उज्जय-विउल-मह-मेयं मणुय-लोयवमंतरं 21
 मणपज्जव-णाणं, वज्जरियं च सयल-लोयवमंतर-पवत्थ-सत्थ-जहावट्टिय-सहाव-पयासयं केवल-दंसणं केवल-णाणं च ति ।
 § ४१२) एत्थंतरम्मि आबद्ध-करयलंजलिउडेण पुच्छिअं महारायाहिराइणा सिरिसेणिपण 'भगवं, केण उण
- 24 णाणेण एए णेमिस्तिणो सुहासुइं तीयाणागाय-पक्कप्पणं धियाणंवा दीसंति, केण वा पयारेणं' ति । भगवथा भणियं । अवि य । 24
 'देवाणुपिया एयं सुय-णाणं जेण जाणए लोओ । केवलि-सुत्त-णिबद्धं केवलिणा केवली-सुत्तं ॥
 अइ जाणिऊण इच्छसि सुणेसु णरणाह थोव-वित्थरियं । अप्पक्खरं महत्थं जह भणियं केवलि-रिसीहिं ॥
- 27 होति इमे अ-इ-क-च-ट-त-प-य-सक्खरा वि य सोहणा वण्णा । आ-इ-स-छ-ठ-थ-फ-र-सा असोहणा ते पुणो भणिया ॥ 27
 ए-ऊ-ग-ज-ड-द-ब-ल-सा सुहया अह होति सव्व-कज्जेसु । ए-ओ-व-झ-व-ध-भ-व-हा ण सोहणा सव्व-कज्जेसु ॥
 हो होति ओ-ओ-ण-न-मा मीस-सहावा इवंति कज्जेसु । संपइ फलं पि वोच्छं एयाणं सव्व-वण्णाणं ॥
- 30 सोहणमसोहणं वा सुह-दुक्खं संधि-विग्गहं चेष । एइ ण एइ व लाभो ण लाभ-जय-अज्जय-कज्जे य ॥ 30
 होइ ण होइ व कज्जं खेममखेमं च अत्थि णत्थी वा । संपत्ती व विवत्ती जीविद-मरणं व रिसमरिसं ॥
 पढम-वयणम्मि पढमा सुह-वण्णा होति अहव बहुया वा । ता जाण कज्ज-सिद्धी असुहेहिं ण सिअए कज्जं ॥
- 33 अहवा पुच्छय-वयणं पढमं वेत्तण तं णिरुवेसु । विहि-वयणे होइ सुइं असुइं पडिसेह-वयणम्मि ॥ अहवा । 33

1 > P अहो for अहं, P च सोऊण- 2 > P निच्छिन्नकामभोगा, P कुट्टवनीरसा बुद्धी, J विवेओ, P उदिओय for उरण्ण, P वेयणीय. 3 > P सरिसुत्तर, P चेष सयासं एहिइ ति. 7 > P दिखं. 8 > J भगवओ, P गोयम. 9 > J om. य-. 10 > P समवसरणं, J om. तं, P भगवं. 11 > J जिणयंदं, P सयलसजल्लहरवोल्लवट्टमाण. 12 > P पविट्टा, P जिचणयंदो P om. य. 13 > P विद्धारणम्मि, P विसय for विसम. 14 > P विवियजल्लहरिद, J सारिच्छ, P जह माणुमहपच्चय, P सुसुमूरणलिसा ॥, J कुलिस. 15 > P मोह for लोह, P विष्णासण. 16 > J अरतिरतीणासण, P -रयणासण जयनिस्सिय, P जहाहि 1, P जुगुच्छा, P देवा. 17 > J वेत-, P तित्थय for मिच्छ, J विवण्णाण. 18 > J अज्जेव, J दिट्ठं for दट्टं. 19 > P पविट्टो इयनाणं. 21 > P भव for भव, J त्रयोवसमयं, P सिद्धं उज्जय, JP मति-, J -मेदं. 22 > P om. च, J जहावट्टिय, P दंसण. 23 > P 'रायाहिराण, J om. सिरिसेणिपण. 24 > P एते निमित्तिणो, J तीताणागत-. 25 > P देवाणुपिया, J एदं. 26 > P थोव for थोव, P केवल-, J -इसीहि. 27 > P om. इमे, J अए-, P om. इ, P शक्खरा, J चेष for विय, J ए for इं, P दतप for दथ, P फरया. 28 > J ओ for ऊ, JP अ for ओ-. 29 > P ओअअअणममा: अं अ: मीस-, J adds जहा before ओण, P ति for पि, P वणाणं ॥. 30 > J सोहण असोहणं, J एउ for second एइ, J जय अज्जयं चेष ॥. 31 > P अखेममखेमं. P व for वा, P विवत्ती जीविय, P मरणं वरिसं ॥. 32 > J वयणं पि, P पढमो सुहवणो होति, J adds जा before ता, सिद्धादी, P सिअए.

- 1 फल-कुसुमकत्रय-पत्ते रूवय अण्णं च पुरिस-रूवयं च । अट्ट-विमत्ते लद्धं तेण फलं सुणसु तं एयं ॥ 1
होइ झए सउव-फलं धूमे फल-णिक्कलं च संतावो । सीहे विक्कम-लाभो साणे तुच्छाह-वदिवित्ती ॥
- 3 वसहे गउरव-लाभो खरम्मि कल्लहो च सोय-संतावो । होइ गए पुण पूया टंके णिबं परिम्ममणं ॥ अहवा । 3
पुच्छाणंतर-पुल्लहय-दिट्ठे णिसुए इव सोहणे अत्थे । कज्जस्स अत्थि सिद्धी विवरीए णत्थि सा भणसु ॥'
त्ति साहिय-मेसे भगवया जिणयं देणं प्रथं तरम्मि स्तिरिसेणिय-रण्णो पुत्तो महारह-कुमारो णाम अट्ट-वरिस-मेत्तो सेण
- 6 चलण-पणाम-पञ्चुट्टिएण भणियं । अवि य । 6
'जाणमि अज सुमिणे भगवं पेच्छामि कस्सिण-घण-वण्णं । कालायस-कंचण-मिसियं व एक्कं महापुजं ॥
जाणामि मए चमियं जलियं जालोलि-तावियं गलियं । कालास-मीस-गलियं जच्च-सुवण्णं टियं तत्थ ।
- 9 एत्थं तरे विउद्धो भगवं पट्ट-पच्चह-संख-सदेहिं । साहसु सुमिणस्स फलं संपइ किं एत्थ भवियव्वं ॥' 9
भगवया भणियं ।
'अहसुह एस सुमिणो साहह सम्मत्त-चरण-दिक्खाए । केवल-णाळं सिद्धी सासय-सुह-संगमं अंते ॥
- 12 कालायसयं कम्मं जीयं कणयं च मीसियं तत्थ । ज्ञाणाणलेण धमिउं सुद्धो जीवो तए ठविओ ॥ 12
अण्णं च तुमं एरिसो चरिम-सरीरो च एत्थ डप्पण्णो । कुवलयमाला-जीवो देवो देवत्तणामो तुमं ॥
सव्वं च तस्स कहियं मायाहृत्तादि-देव-पज्जंतं । सव्वे ते पच्चहया तुमह सहाया इमे पेच्छ ॥'
- 5 इमं च वुत्तं णिसामिऊण भणियं महारह-कुमारेण 'भगवं, जइ एवं तो विसमो एस चित्त-तुरंगमो' । 'किं विलंबेसि' ति 15
भणिए भगवया गणहारिणा दिक्खिओ जहा-विहिणा महारह-कुमारो ति । मिलिया य ते पंच वि जणा अवरोप्परं जाणति
जहा 'कय-पुव्व-संकेया सम्मत्त-लंभे अहे' ति । एवं च ताण भगवया जिणयं देण समं विहरमाणं बोलीणाइं बहुयाइं
- 18 वासाइ । 18
§ ४१३) साहियं च भगवया सव्वण्णुणा मणिरह-कुमार-साहुणो जहा 'तुज्ज थोवं आउयं ति जाणिऊण जहासुहं
संलेहणा-कम्मं पडिविऊण उत्तिम-ठाणाराहणं' ति । तथो मणिरहकुमारो वि 'इच्छं' ति अण्णुमण्णमाणेण समाडत्ता चउ-खंधा
- 21 आराहणा काउं । कय-संलेहणा-कम्मो दिण्णालोयण-वित्थरो णिसण्णो तत्कालप्पाओग्गे फासुय-संधारए, तत्थ भणित्त 21
समाडत्तो । अवि य ।
- 'पणमामि तित्थणाइं तित्थे तित्थाहिवं च उत्तम-जिणं । अवसेसे तित्थयरे वीर-जिणिदं च णमिऊणं ॥
- 24 णमिऊण गणहरिंदे आयरिए धम्मदायए स्तिरसा । णमिऊण सव्व-साधू चउत्तिवधाराहणं वोच्छं ॥ 24
णाणं दंसण-चरणे विरिया आराहणा चउत्थी उ । णाणे अट्ट वियप्पा तं चिव वोच्छामि ता णिवणं ॥
पठमं काले विणए बहुमाणवहाण तह च णिणहवणे । वंजण-अत्थ-तदुमए णाणस्साराहओ तेसु ॥
- 27 जो काले सउज्ञाओ सो ण कओ जो कओ अकालम्मि । जं जह-कालं ण कयं तं णिंदे तं च गरिहामि ॥ 27
अब्भुट्टाणं अज्जलि आसण-णीयं च विणय-पडिवत्ती । जा ण कयं म्हा गुरुणं तमहं णिंदामि भावेणं ॥
भावेण अणुदिणं चिय एस गुरु पंडिओ महप्पा य । ण कओ जो बहु-माणो सिच्छा हो तुक्कं तस्स ॥
- 30 जं जत्थ तवचरणं अंगोवंगेसु तह पइण्णेसु । ण कयं उवहाणं मे एण्हि णिंदामि तं सव्वं ॥ 30
असुयं पि सुयं भणियं सुयं पि ण सुयं ति कह वि मूढेण । अण्णाए णिणहवियं तमहं णिंदामि भावेणं ॥
मत्ता-विंदु-वियप्यं काउं अण्णत्थ ओच्चियं अत्थं । वंजण-विद्वंजणेण य एण्हि णिंदामि तं पावं ॥

1 > J पत्तो, P adds रूवयपत्ते before रूवय. 2 > J अए for झए, P भूमफल, P सिधे for सीहे, P चनिवित्ती. 3 > P गयवरलाभो, P टंके for टंके, J पडिक्कमणं ॥ 4 > P पुच्छलइय, J दिट्ठो, P णिसुणे, J अत्थ for अत्थि. 6 > P-पणाम. 7 > P पेच्छमि, P वणं l, P मीसयं व एक्कपुजं. 8 > P धमियजलियजलिय जालालि, J कालायसमीसयं गलियं, P om. कालासमीस-गलियं (emended), P सुवणहियं तत्थ. 9 > P सुविणस्स. 11 > P सुविणो, P दिक्खाया, P नाणसिद्धी. 12 > P कालाययं, J मेत्तिअं for मीसियं, P सुदिय for धमिउं, P ठुविओ. 13 > P चरिमो for एरिसो, P देवा देवत्तणउ तुमं. 14 > P om. ते, J पच्चइता, P पेच्छा. 15 > P त for च, J वुत्तं for वुत्तंत, P adds च after भणियं, J ता for तो, P क विलंबेसि. 16 > J जहाविहाणं, J om. य, P जणो, P जाणति. 17 > J णेण for ताण. 19 > J थोअं, P जाणिऊण अह्हासुहं. 20 > J पच्च-विऊण, J उत्तम, P-ट्टारोहणं, P तव for तओ, P मणिरह साहुणोवि, P अण्णुमण्णं, P समाडत्तो. 21 > J आराहणा P आराहणं, P कयसंमोहणाकमो P 'लोयणाविजोयणा वित्थारो, P तत्कालपओग्गे, J तत्थ य भणित्तमाहत्तो. 23 > P तित्थाहवं. 24 > P-साह चउत्तिवहे रोहणं, J 'धाराहणा. 25 > P विरिय. 26 > JP बहुमाणं, J 'वधाण, J तदुमये. 27 > J om. जो, J कओ, P om. कओ after जो, P-काले, J कओ तं. 28 > J णिअय P विण for विगय, P नाणकयं मि for जा etc., J कयं म्हा. 29 > P जा बहु हो तुक्कं for जो etc., 30 > P तवतचकरं. 31 > P अत्ताओ. 32 > P ॥ मित्ता, J च for य.

- 1 नमश्चप्यवाह-सरिसे जिण-वयणे अं कदा-विमूढेण । अत्यस्त विवज्जासो रहओ णिंदे तवं पावं ॥ 1
- सुत्तथायं दोण्ह वि मोहेण व अथव होज हासेण । जो कह वि विवज्जासो एण्हिं णिंदामि तं पावं ॥
- 3 उस्तुतो उम्मगो उक्करणिज्जो व्व एत्थ जो जोगो । मोहणेण ण विट्ठो संपह आराभिओ जाणं ॥ 3
- एतो णाणायारो भगवं अह खंदिओ मए कह वि । मिच्छामि दुक्कं तं संपह अह दंसणं वोच्छं ॥
- मिस्संकिव-मिक्कंखिय-मिच्चित्तिणिच्छा अमूह-दिट्ठी य । उववूह-भिरिकरणे वच्छल्ल-पभावणे अट्ट ॥
- 6 सखं जिणाण वयणं एत्थ वियप्पो ण च्चेय कायवो । एयं होज ण होज व जह मह संका तयं णिंदे ॥ 6
- गेण्हामि इमं दिक्खं एयं किंणं इमो य परमत्थो । मूढेण कंखिओ मे मिच्छा हो दुक्कं तत्थ ॥
- अह होज ण वा मोक्खं आयरियादीण जा य वित्तिणिच्छा । जह मे कह वि कया सा णिंदामि ह पाववं एण्हिं ॥
- 9 दट्ठण रिद्धि-एयं परवारणं कुतित्थ-मग्गोसु । जह मह विट्ठी मूढा एण्हिं णिंदामि तं पावं ॥ 9
- कमगं वेचाववं सज्जाए च्चेव वाववं साहुं । उक्कवूहणा य ण कया एस पमाओ तयं णिंदे ॥
- साधु-किरियासु कासु वि दट्ठं सीर्यंतयं सुणिं ण कया । बहु-दोसे माणुस्से थिरिकरणा णिंदिरे तमहं ॥
- 12 गुरु-वाल-तवस्सीणं समाण-धम्माण वा वि सव्व्वाणं । वच्छल्लं ण कयं मे आहारादीहिं तं णिंदे ॥ 12
- मेह व्व निष्पवंपं जिणाण वयणं तथा वि सत्तीए । ण कयं पभावणं मे एस पमाओ तयं णिंदे ॥
- पाववणी धम्मकही वाई पेसित्तिओ तवस्सी य । विज्जा-सिद्धो य कवी अट्टे व पभावया भणिया ॥
- 15 सव्व्वाणं पि पसंसा कायव्वा सव्वहा विसुद्धेण । सा ण कया तं णिंदे सम्मत्ताराहणा सा हु ॥ 15
- पंच समिईओ सभं गुत्तीओ तिण्ण जाओ भणियाओ । पववण-भादीयाओ चारिसाराहणा एसा ॥
- इरियावहं पयत्तो जुगमेत्त-णिहित्त-णयण-णिकखेवो । जं ण गओ हं तथा मिच्छामि ह दुक्कं तस्स ॥
- 18 जंपंतेण य तथा भासा-समिण्णं जं ण आलसं । तस्स पमायस्साहं पायच्छिसं पवज्जामि ॥ 18
- इत्ये पाणे भवेत्तण-गहण-वासमादीया । एसण-समिईं ण कया तं जाणा-खंडणं णिंदे ॥
- आयाण-भंड-भेते णिकखेवग्गहण-ठावणे जं च । दुपमज्जिय-पडिलेहा एस पमाओ तयं णिंदे ॥
- 21 उच्चारे पासवणे खेले सिंघाण-जल्ल-समितीओ । दुप्पडिलेह-पमज्जिय उम्मग्गे णिंदिओ सो हु ॥ 21
- भंजंतो सीलवणं मत्तो मण-कुंजरो वियरमाणो । जिण-वयण-वारि-बंधे जेण ण गुत्तो तयं णिंदे ।
- जो वयण-वण-दवग्गी पज्जलिओ इहइ संजमारामं । मोण-जलेण णिसिचो एस पमाओ तयं णिंदे ॥
- 24 अय-गोलओ व्व काओ जोग-फुल्लिगेहिं इहइ सव्व-जिए । तुंढेण सो ण गुत्तो संजम-मइएण तं णिंदे ॥ 24
- इय एत्थ अईयारो पंचसु समिईसु तिसु व गुत्तीसु । जो जो य महं जाओ तं णिंदे तं च गरिहामि ॥
- बारस-विधम्मि वि तवे सभित्त-वाहिरे जिणक्खाए । संते विरियम्मि मए णिगूहियं जं तयं णिंदे ॥'
- 27 एवं च चउक्खं अाराहणं आराहिकण मणिरहकुमारो साधू अउक्ककरणेणं खवग-सेटीए अणंत-वर-णाण-दंसणं उप्पाडिकण 27
- तक्काले कालस्स खवगताए अंतगड-केवली जाओ ति ॥
- § ४१४) एवं च वचमाणेसु दिचहेसु कामगइंद-साधू वि णिय-आउक्कखयं जाणिकण कय-संलेहणाह-कप्पो णिसण्णो 30
- संधारए । तत्थ भणित्तमादसो । अवि य ।
- णमिउण तिलोय-गुरुं उसमं तेल्लोक-मंगलं पढमं । अवसेसे य जिणवरे करेमि सामाहयं एण्हिं ॥
- एस करेमि य भंते सामाहय तिविध जोग-करणेण । रायहोस-विमुक्को दोण्ह वि मज्जम्मि वट्टामि ॥

1 > P सरिसो जिणं वयणं, P विवज्जो for विवज्जासो, P om. रहओ णिंदे etc. to उक्करणिज्जो. 3 > P जोगो ।, P आराहणो जाणं 5 > P णीसंकिव, P णिच्चित्तिणिच्छा, J दिट्ठीया ।, P -पभावणो. 6 > J एवं, J व्व for व, P जय मह. 7 > J व्व for य, J मो for मे. 8 > P मोह for अह, J आयरियातीण, P जा भवे कुच्छा. 9 > P परवारणं. 10 > J कमगं for खमगं, J वेताववं, P च्चेय, P उक्कवूहा णेय कयाएस, J कया एस पमातो. 11 > P साधु, P दट्ठं, J सीर्यंतयं, J थिरिअवणा P थिरिकरणे. 13 > P व्व निष्पकमं, P वि तत्तीए J om. मे 14 > J धम्मकवी वाती, P वानीणोमित्तिओ, P व वभावया. 15 > J सव्व्वाण वि यासंसा, P या for कया. 16 > JP समितीओ, J -मातीयाओ. 17 > J परिसावहे for इरियावहं, P नय for णयण, J जण्णचउहं J जण्ण for जं ण, P तस्सा. 19 > J पाणे भावेत्तणगहण-, P गहणे, JP समिती, J कया. 20 > J आताण, P भेत्त, J णिकखेवणगहण, P आहणदुणसेच्चं च । उपमपडिलेहा, J पमातो. 21 > P सिंघाण, P दुडिलेह, P उम्मग्गा, P साहु ॥. 22 > P बंधो. 23 > P । जाणजण्णेण निसिचि. 24 > अंतमोलउक्ककाओ, P दूढेण for तुंढेण. 25 > JP अहीयारो, J J समितीसु P तीसु गुत्तीसु, P जो कोह महं. 26 > P -विहंमि, J य for वि, J जिणक्खारो, P निग्गहियं. 27 > P कुमारसाहु, P खवसेटीए, J सेणीए अणंतं, P उप्पडिकण तक्कालो. 28 > P खयंताए, P केवली जाओ. 29 > J वचमाणदियहेसु, P साहु वि, P संलेहणो कप्पो J संलेहणाउक्कमो. 31 > P om. य, J सामाहयं P सामाहयं. 32 > P तिविहकंमज्जेणं ।

- १ अ सुहुम बायरं वा पाण-वर्हं लोह-मोह-जुत्तस्स । तिबिधेण कथं तिबिधं तिबिधेण वि बोसिरे सव्वं ॥ 1
- अं कह वि मुत्तं भणियं हास-भय-कोष-लोभ-मोहेहिं । तं तिबिध-काल-जुत्तं तिबिधेण व बोसिरे तिबिधं ॥ 2
- ३ थोवं बहुं व कथं दव्वं पारक्कयं अदिणं तु । तं तिबिधम्मि वि काले बोसिरे तिबिधं पि तिबिधेणं ॥ 3
- अं णर-तिरिक्ख-दिव्वे मेहुण-संजोग भावियं चिंसं । तिबिधे वि काल-जोगे बोसिरे तिबिधं पि तिबिधेण ॥ 4
- चित्ताचित्तो मीसां परिग्गहो कह वि भाव-संजुत्तो । तिबिधम्मि वि तं काले तिबिधं तिबिधेण वासिरसु ॥ 5
- ६ राहए अं भुत्तं असणं पाणं व खाइमं अण्णं । तिबिधम्मि वि तं काले बोसिरे तिबिधेण तिबिधं पि ॥ 6
- जो मह धणे ममत्तो महिल्लसु व सुंदरासु तरुणीसु । रयणेसु रूक्कएसु व तिबिधं तिबिधेण बोसिरियं ॥ 7
- वत्थेसु जो ममत्तो पत्तेसु व वंडवोवयरणेसु । सीसेसु जो ममत्तो सव्वो तिबिधेण बोसिरिओ ॥ 8
- ९ पुत्तेसु जो ममत्तो भूयासु व सुंदरेसु मिच्चेसु । अहवा सहोदरेसु व सव्वो तिबिधेण बोसिरिओ ॥ 9
- अहणीसु जो ममत्तो माया-वित्तेसु अहव मित्तेसु । सो सव्वो वि दुरंतो तिबिधं तिबिधेण बोसिरिओ ॥ 10
- सामिम्मि जो ममत्तो सयणे सुयणे व परिजणे जे वि । मवणे व्ज जो ममत्तो सव्वो तिबिधेण बोसिरिओ ॥ 11
- १२ बंधुम्मि जो तिणेहो सेज्जा-संधार-फलहए वा वि । उववरणम्मि ममत्तो सव्वे तिबिधेण बोसिरिओ ॥ 12
- देहम्मि जो ममत्तो मा मे सीदादि होज्ज देहस्स । सो सव्वो वि दुरंतो तिबिधं तिबिधेण बोसिरिओ ॥ 13
- णियय-सहाव-ममत्तो अहं सहावो सि सुंदरो एसो । सो सव्वो वि दुरंतो बोसिरिओ मज्झ तिबिधेण ॥ 14
- १६ देसेसु जो ममत्तो अहं णारो सि अहं देसो सि । सहेसु जो ममत्तो तिबिधेण बोसिरे सव्वं ॥ 15
- जो कोइ कओ कोवो कम्मि वि जीवम्मि मूढ-भावेण । बोसिरिओ सो सव्वो एहिं सो खमउ मह सव्वं ॥ 16
- जो कोइ कओ माणो कम्मि वि जीवम्मि मूढ-चित्तेण । सो खमउ ममं सव्वं बोसिरिओ सो मए माणो ॥ 17
- १८ जा काइ कया माया कम्मि वि जीवम्मि मूढ-भावेण । सो खमउ ममं सव्वं बोसिरिया सा मए एहिं ॥ 18
- जो कोइ कओ लोहो परस्स दव्वम्मि मूढ-भावेण । सो खमउ महं सव्वं बोसिरिओ सो मए लोभो ॥ 19
- जो कोइ मए विहिओ कम्मि वि कालम्मि राय-रत्तेण । सो मज्झ खमउ एहिं मिच्छामि ह दुक्कं तस्स ॥ 20
- २१ जो मे दुक्खावियओ ठाणाठाणं व संकमं णीओ । सो खमउ मज्झ एहिं मिच्छामि ह दुक्कं तस्स ॥ 21
- पेसुणं जस्स कयं अलिए सव्वे व भाणिए दोसे । राणेण व दोसेण व एहिं सो खमउ मह सव्वं ॥ 22
- णिट्टुर-खर-फरुत्तं वा दुक्कयणं जस्स किंचि मे भणियं । विद्धं च मम्म-वेहं सो सव्वं खमउ मह एहिं ॥ 23
- २४ दाऊण ण विण्णं चिय आसा-संगो व्ज जस्स मे रइओ । विज्जंतं व निरुद्धं सो एहिं खमउ मह सव्वं ॥ 24
- जो दीणो परिमूओ गह-गहिओ रो-वाहि-परिमूओ । इत्थिओ विद्धंणाहिं एहिं सो खमउ मह सव्वं ॥ 25
- अण्णेसुं पि अवेसुं जो जं अण्णिओ अण्णिट्ट-कहुयं वा । सो खमउ मज्झ एहिं एसो मे खामणा-कालो ॥ 26
- २७ मित्तं पि खमउ मज्झं खमउ अमित्तो वि मज्झत्थो । मित्तामित्त-विमुक्को मज्झत्थो एस मे जीवो ॥ 27
- खामेमि अहं मित्ते एस अमित्ते वि हं खमावेमि । खामेमि दोणिण मग्गे मज्झत्था होतु मे सव्वे ॥ 28
- मित्तो होइ अमित्तो होति अमित्ता खणेण ते मित्ता । मित्तामित्त-चित्तेओ काऊण ण जुज्जए एहिं ॥ 29
- ३० सयणा खमंतु मज्झं खमंतु तह परिपणा वि खामेमि । सयणो परो व्ज संपह दोणिण वि सरिसा महं होति ॥ 30
- देवत्तणम्मि देवा तिरियत्तणे व्ज होति जे केइ । दुक्कखेण मए ठविया खमंतु सव्वे वि ते मज्झं ॥ 31
- णरयत्तणम्मि णरया मणुया मणुयत्तणम्मि जे केइ । दुक्कखेण मए ठविया खमंतु ते मज्झ सव्वे वि ॥ 32
- ३३ छण्ह वि जीव-णिकायाणं जं मए किंचि मंगुलं रइयं । ते मे खमंतु सव्वे एस खमावेमि भावेण ॥ सव्वहा, 33

१) P वातरं, P मोहजोत्तोगं । तिबिधेण, P तिबिधं तिबिधेण. २) P भयकोहलोह, P तिबिध, P repeats काल, P तिबिधेण बोसिरे तिबिधं. ३) P कथं विद्धं पारक्कयं च जं गहियं । जं तिबिधम्मि, J पारक्काहिअयं अदिणं तु, P तिबिधं पि तिबिधेण. ४) J संजोग, P तिबिधे, J कालजोगे, P तिबिधं पि तिबिधेण. ५) P om. तिबिधम्मि वि तं काले, P तिबिधं तिबिधेण. ६) J खातिमं, P तिबिधम्मि, P कालं बोसिरे तिबिधं पि तिबिधेण. ७) P जा for जो, P सुंदरातरुणीसु, J तरुणासु, P om. व, P तिबिधं तिबिधेण. ८) ममत्तो पत्तेसु व, P वमरणेसु, J सिस्सेसु, P तिबिधेण. ९) J भूयासु, P सुंदरेसु निच्चेसु, J सहोदरेसु सव्वो. १०) P तिबिधं तिबिधेण. ११) P सोमिम्मि जो, P परजणो जो वि, P तिबिधेण. १२) P मत्तो for ममत्तो, J सव्वो, P तिबिधेण. १३) P सीदादि, J सव्वो for तिबिधं, P तिबिधेण. १४) P एसा, P तिबिधेण. १५) P सहेसु, P बोसिरे सव्वं. १६) P मूढमादं माणेण. १७) P जो को वि कया, J काय for कया. १८) P कए for कओ, P ममं for महं. २०) P कोवि मए, P inter. मज्झ & खमउ. २१) P दुक्खावियओ. २२) J य for व, P सव्वो for सव्वं. २३) P भणियं । वद्धं, J विद्धन्तमम्मं, P सव्वो खमउ. २४) P जो मए for जस्स मे. २५) P रो-वा for रो, P om. महं सव्वं ॥ अण्णेसुं पि etc. to मित्तं पि खमउ मज्झं, P adds खमउ before मज्झत्थो. २७) J om. मज्झं, मित्तोमित्त. २८) P एस आमित्ते, P मित्तवग्गे for दोणिण-मग्गे. २९) P होतु ममित्ता, J अमित्तो for अमित्तो, P repeats होति for होति, P मित्तचित्तेओ काऊण ण जुज्जए एहिं ॥ सुयणा. ३०) J परिजणा. ३१) P adds तिरिया after देवा, J तिरियत्तणए व्ज, P ठविया, J inter. सव्वेवि & ते (मे) मज्झं. ३२) P खमंतु मे मज्झ. ३३) J छण्हं पि जीवमणुआकायायां जं.

- 1 से जाणमजाणं वा ससहोसेहिं अहव मोहेणं । जं दुक्खविया जीवा खमंतु ते मज्झ सव्वे वि ॥ 1
खामेमि सव्व-जीवे सव्वे जीवा खमंतु मे । मेसी मे सव्व-भूएसु वेरं मज्झ ण केणह ॥'
- 3 एवं च कय-सावज्ज-जोग-वोसिरणो कय-पुव्व-दुक्ख-दूमिय-जंतु-खामणा-परो वट्टमाण-सुहज्जवसाव-कंटओ अउव्व-
करण-पडिक्खण-खवण-सेदि-परिणामो उप्पण-केवल-णाण-दंसण-चरो अंतगहो कामगईद-मुणिवरो ति । 3
§ ४१५) एवं च वट्टमाणेषु दियहेसु बहरगुत्त-साधू वि णाऊण आठय-कम्मकखयं दिण्णाळोचणो उद्धरिय भाव-
- 6 सल्लो कय-कायवो पिसण्णो संघारए, तत्थ अभिउमाउत्तो । अवि य । 6
'एस करेमि पणामं जिणवर-तिथस्स बारसंगस्स । तिथयरारं च णमो णमो णमो सव्व-साधूणं ॥
काऊण णमोकारं धम्मयथियस्स धम्म-जणयस्स । भावेण पडिक्कमणं एसो काहामि समयम्मि ॥
- 9 कय-सामाहय-कम्मो सोहिय-इरियावहोसमण-चित्तो । इच्छिय-गोचर-चरिओ पगाम-सेजाए पिच्छिण्णो ॥ 9
मह मंगळमरहंता सिद्धा साहू य णाण-विणय-धणा । केवलिणा पण्णत्तो जो धम्मो मंगळं सो मे ॥
सरणं मह अरहंता सिद्धा साधू य बंध-तव-जुत्ता । केवलिणा पण्णत्तो धम्मो सरणं च ताणं च ॥
- 12 जिणधम्मो मह माया जणओ य गुरू सहोचरो साहू । अह धम्म-परा मह बंधवा य अण्णं पुणो जाळं ॥ 12
किं सारं जिणधम्मो किं सरणं साहुणो जए सयले । किं सोक्ख सम्मच को बंधो णाम मिच्छत्तं ॥
अस्संजमम्मि विरओ रागहोसे य बंधणं बिंदे । मण-वयण-काय-उंढे विरओ तिण्हं पि उंढाणं ॥
- 15 गुत्तीहिं तीहिं गुत्तो णीसल्लो तह य तीहिं सल्लेहिं । माया-विदाण-सल्ले पडिक्कमे तह य मिच्छत्ते ॥ 15
इद्धी-गारव-रहिओ सावरसा-गारवे पडिक्कंतो । णाण-विराहण-रहिओ संपुण्णो दंसणे चरणे ॥
तह कोह-अण-माया-लोभ-कसायस्स मे पडिक्कंतं । आहार-अय-परिगह-मेहुण-सण्णं परिहरामि ॥
- 18 इत्थि-कह-अक्क-देसे राय-कहा चेव मे पडिक्कंता । अट्टं रोहं धम्मं सुक्कजाणे पडिक्कमणं ॥ 18
सह-रस-रूव-नीधे फासे य पडिक्कामि काम-गुणे । काहय-अहिगरणादी-पंचहिं किरियाहिं संकप्पे ॥
पंच-महक्कय-जुत्तो पंचहिं समिहीहिं समियओ अहयं । छवीव-णिक्कायाणं संरक्खण-माणसे जुत्तो ॥
- 21 पडिक्कंतो छल्लेसा-सत्त-अयट्ठाण-वज्जिओ अहयं । पम्हुट्ट-इट्ट-चेट्टो अट्ट-अयट्ठाण-पव्वमट्टो ॥ 21
णव-बंध-गुत्ति-गुत्तो दस-विह-धम्मम्मि सुट्टु आउत्तो । समयोवासग-पडिमा पुरारसयं पडिक्कंते ॥
बारस-भिक्ख-पडिमा-संजुत्तो तेरसाहिं किरियाहिं । चोहस-भूयग्गामे पडिक्कमे खेचियं जं मे ॥
- 24 परमाहम्मियट्ठाणे पण्णसं ते वि मे पडिक्कंते । गाहा-सोलसएहिं पडिक्कमे सोलसेहिं पि ॥ 24
अस्संजमम्मि, सत्तारसम्मि अट्टारसे य अन्वमे । पृगुणवीस-संखे पडिक्कमे णाम अज्जयणे ॥
असमाही-ठाणणं वीसण्हं एक्कवीस-सबलेहिं । वावीस-परीसह-वेयणम्मि एत्थं पडिक्कंतो ॥
- 27 तेवीसं सुयगडे अज्जसयणा तण्ण हं पडिक्कंतो । चउवीसं अरिहते अस्सइहणे पडिक्कंतो ॥ 27
वीसं पंच य सिद्धा समय जा भावणाओ ताणं पि । छवीसं दस-कप्पे ववहारर सहहे ते वि ॥
अणवारय-कप्पाणं खत्तावीसा य सहहे अहयं । अट्टावीस-विजम्मि आक्क-पगप-अहणम्मि ॥
- 30 पाव-सुय-पसंगाणे अउणत्तीसाण हं पडिक्कंतो । तीसं च मोहणिजे टाण्ण णिदामि ते सव्वे ॥ 30
एक्कत्तीसं च गुणे सिद्धादीणं च सहहे ते वि । वत्तीस-जोग-संगह-पडिक्कमे सव्व-ठाणेसु ॥
तेत्तीसाए आसातणाहिं अरहंत-आइगा एगां । अरहंतणं पडमं णिंदे आसायण जाओ ॥
- 33 सिद्धाणायरिचणं तह य उव्वज्जाय-सव्व-साहूणं । समणीण सावयाण य साविय-वग्गस्स जा वि कया ॥ 33

1) P रागहोसेण, P खमंति. 2) J भूतेसु. 3) J वोसिरणा P वोसिरिणो, P पुव्वयहुक्खय, J दुम्मिय, P जंतवखामणापरो वट्टमाण, P कंटओ. 4) J सेटी. 5) P एवं वट्टमाणदियहेसु, P साहू वि, J दिण्णो. 6) J संसारए तत्थ. 7) P साहूणं. 8) P जणियस्स. 10) P मंगळमरिहंता, P जं for जो. 11) P साहू, P inter. सरणं च & ताणं च. 12) P सहोचरा, P सह for अह, J धम्मयरा, P म for मह. 13) P जले for जर, P धंमो for बंधो. 14) J विरतो, P दंढे, P उंढाणं. 15) P om. तह य, P adds हियय before सल्लेहिं, J णियाण, P मिच्छत्तो. 16) P संपुण्णदंसणे. 17) J लोह-, P पडिक्कंतो । 18) P पडिक्कमणे ॥. 19) P फासेसु य, P काइह-, J अधिगरणादी-, P संतप्पे ॥. 20) J समितीहिं समितओ, J संरक्खमाणुसे जत्तो. 21) J P पडिक्कंतो. 23) J भिक्खप्पडिमा, J भूतग्गामे. 24) P परमाहम्मियट्ठाणे, J पण्णारस ते, P पडिक्कंतो, P च for पि. 25) P सत्तरसंमि. 26) J असमाहि-, J वीसण्हं एक्कवीस, P एत्थं च्छडिक्कंतो. 27) J सुतवडे, J असइहणे. 28) P छवीदस, P ववहारो. 29) J गण्णाणं, J आयरपण्य, P विहिंमि आयरयकप्पगहणं ॥. 30) J सुत-, P अउणत्तीसाण, J मोहणिजो P मोणिजे ट्ठाणा. 31) P ट्ठाणेसु. 32) J आसातणाहिं अरहंत आतिता पत्ता ।, P अरिहंत आइगा, P पट्टमा, J आसातणा, P साओ for जाओ. 33) P सिद्धाणायरिताणं, P सव्व साधू य ।, P ए for य before सा विय.

- 1 देवाणं देवीणं इह-लोग-परे य साधु-वग्गस्स । लोगस्स य काळस्स य सुयस्स आसायणा जाओ ॥ 1
सुय-देवयाएँ जा वि य वायण-भायरिय-सव्व-जीवाणं । आसायणाउ रइया जा मे सा णिंदिया एण्हिं ॥
- 3 हीणक्खर अक्खर विष्ठा-मेलिय तथा य वाइइं । पय-हीण-घोस-हीणं अकाल-सज्जाइयं जं च ॥ सव्वहा, 3
छउमत्थो मोह-मणो केत्तिय-मेत्तं च संभरे जीवो । जं पि ण सरामि तम्हा मिच्छामि ह दुक्कडं तस्स ॥
सम्मत्त-संजमाइं किरिया-कण्यं च बंभवेरं च । आराहेमि सणाणं विवरीए वोसिरामि त्ति ॥ अहवा ।
- 6 जं जिणवरोहिं भणियं मोक्ख-पहे किंवि-साहयं वयणं । आराहेमि तयं चिय मिच्छा-वयणं परिहरामि ॥ 6
णितगंधं पावयणं सब्बं तच्चं च सासयं कसिणं । सारं गुरु-सुंदरयं कक्षाणं मंगलं सेयं ॥
पावारि-सल्लगतण-संसुद्धं सिद्ध-सुद्ध-सद्धम्मं । दुक्खारि-सिद्धि-मग्गं अवितह-णिब्बाण-मग्गं च ॥
- 9 एत्थं च ठिया जीवा स्सिज्जंति वि कम्मणा विमुत्तंति । पालेमि इमं तम्हा फासेमि य सुद्ध-भावेण ॥ 9
सम्मत्त-गुत्ति-जुत्तो विलुत्त-मिच्छत्त-अप्पमतो य । पंच-समिहंदिं समिओ समणो इं संजओ एण्हिं ॥
कायव्वाइं जाइं भणियाइं जिणेहिं मोक्ख-मग्गम्मि । जइ तह ताइं ण तइया कयाइं ताइं पडिक्कमे तेण ॥
- 12 पडिसिद्धाइं जाइं जिणेहिं एयम्मि मोक्ख-मग्गम्मि । जइ मे ताइं कयाइं पडिक्कमे ता इहं सव्वे ॥ 12
दिट्ठ-हेउ-जुत्तं तेहिं विउत्तं च सहहेयव्वं । जइ किंवि ण सहहियं ता सिच्छा दुक्कडं तत्थ ॥
जे जह भणिए अत्थे जिण्णिदयंदेहिं समिय-पावेहिं । विवरीए जइ भणिए मिच्छामि ह दुक्कडं तस्स ॥
- 15 उस्सुत्तो उम्मग्गो ओक्कपो जो कओ य अइयारो । तं णिंदण-गरहाहिं सुज्जउ आलोयणेणं च ॥ 15
आलोयणाए भरिहा जे दोसा ते इहं समालोए । सुज्जंति पडिक्कमणे दोसाओ पडिक्कमे ताइं ॥
उभएण वि अइयारा केइ विसुज्जंति ताइं सोहेमि । पारिट्ठावणिणं अह सुद्धी तं चिय करेमि ॥
- 18 काउस्सगणेण अहो अइयारा केइ जे विसुज्जंति । अहवा तवेण अण्णे करेमि अब्भुट्ठिओ तं पि ॥ 18
छेदेण वि सुज्जंती मूलेण वि के वि ते पवण्णे हं । अणवट्ठावण-जोग्गे पडिक्कणो जे वि पारंची ॥
दम-विह-पायच्छित्ते जे जह-जोग्गा कमेण ते सव्वे । सुज्जंतु मज्ज संपइ भावेण पडिक्कंमत्तस्स ॥'
- 21 एवं च आलोइय-पडिक्कंतो विसुज्जमाणा-लेसो अउव्वकरणावण्णो खवग-सेटीए समुपवण्ण-णाण-इंसणो वीरिय-अंतराय- 21
आउक्खीणो अंतगडो वहरगुत्त-मुणिवरो त्ति ।
- § ४१६) एवं च सयंभुदेव-महारिसी वि जाणिऊण णिय-आउय-परिमाणं कय-दव्व-भावोभय-संलेहणो कय-कायव्व-
24 वावारो य णिसण्णो संथारए, मणिउं च समाइत्तो । अवि य । 24
णसिऊण सव्व-सिद्धे णिद्धय-रए पसंत-सव्व-भए । वोच्छं मरण-विभार्त्तिं पंडिय-बालं समासेणं ॥
णाऊण बाल-मरणं पंडिय-मरणेण णवरि मरियव्वं । बालं संसार-फलं पंडिय-मरणं च णेव्वाणं ॥
- 27 को बालो किं मरणं बालो णामेण राग-दोसत्तो । दोहिं चिय आगलिओ जं बहो तेण बालो त्ति ॥ 27
मरणं पाणञ्जाओ पाणा ऊसासमाइया भणिया । ताणं चाओ मरणं सुण एण्हिं तं कहिजंतं ॥
कललावत्थासु मओ अवच-भावे वि कत्थइ विलीगो । गलिओ पेसी-समए गव्वे बहुयाण णारीणं ॥
- 30 पिंडी-मेत्तो कत्थइ गलिओ खारण गव्व-वासाओ । अट्टिय-बंधे वि मओ अणट्टि-बंधे वि गलिओ हं ॥ 30
खर-खार-मूल-डड्ढो पंसुलि-समणी-कुमारि-रंडाणं । गलिओ लोहिय-वाहो बहुसो हं णवर संसारे ॥
कत्थइ भएण गलिओ कत्थइ आयास-खेय-वियणत्तो । कत्थइ जणणीएँ कइं फालिय-पोट्टाए गय-चित्तो ॥

1) J लोअ for लोग, P परेसु साधु धम्मस्स । लोयस्स, J सुतस्स आसातणा जातु ॥ 2) J सुतदेवताय जा वि वायण, P ण for वायण, J आसातणाउ. 3) P अक्खरारा, P तथाय आइइं, J पतहीण, P चिय for जं च. 4) J छत्तमत्थो, P संभरइ जीवो, P जं न सुमरामि तम्हा. 5) P संजमादी, P समागं for सणाणं. 6) P साहियं, P तहिं चिय. 7) J सासंतं P सावियं for सासयं. 8) P सहंगण, P सुंसुद्धं, P दुक्खाहिसुद्धिमग्गं, J णेव्वाण. 9) J थिता for ठिया, J om. वि, P विमुत्तंति । पालोमि. 10) J -जुत्तिजुत्तो, J P समितीहिं, J मित्तो for समिओ. 11) P जिणेह, P inter. तइया & न (for ण), J ताहिं for ताइं (emended), P om. ताइं. 12) J पडिक्कइं, P पडिक्के ता, J अहं for इहं. 13) P तस्स for तत्थ. 14) J समित, P ते तथा भणतु for समियपावेहिं. 15) P उम्मग्गो अक्कपो, P गरिहाहिं. 16) J ता for ते. 17) J अतिआरा के वि. 18) J वहो for अहो, J केवि जे, P मे for जे, J अब्भुट्ठित्ते, P तं मि ॥. 19) J छेदेण, J वि को वि तं, P जोगे, P व for वि. 20) J जो for जे. 21) J -लेस्सो, P करणवणो खयगसेटीए उपपन्नानाण, J वीरिअंतराय. 22) P om. च, P महारिसी, P आउयणमाणं, P संलेहणा. 23) P मरणविहित्तं. 24) J णवर for णवरि. 25) J -रोसत्तो P दोसत्ते, J आगणिओ. 26) J ऊसासमातिआ P ओसासमाइया, P ताणं चाओ. 27) P कललावत्तासु, J अब्भुतभावे. 28) P पिंडो मित्तो, P अणिट्ठबंध वि. 29) P खीरमूलदड्ढो पंसुणि-. 30) P आयास, J -मेअवियणत्तो ।

- 1 कथ्यइ दर-णीहरिओ जणणी-जोणीएँ हं सुओ बहुसो । कथ्यइ णीहरिओ खिय गुरु-वियणा-वेंमलो गलिओ ॥ 1
कथ्यइ जणणीएँ अहं उइय-मुहो धण-मुहेण वहिओ हं । कथ्यइ पक्खित्तो खिय सब-सवणे जीवमाणो वि ॥
- 3 जायावहारिणीए कथ्यइ हरिओ मि छट्ट-विचहम्मि । कथ्यइ बलि खिय कओ जोइणि-समयम्मि जणणीए ॥ 3
कथ्यइ पूयण-गहिओ कथ्यइ सउणी-गहेण गहिओ हं । कथ्यइ बिडाल-गहिओ हओ मि बाळगगह-गहेण ॥
कथ्यइ खासेण मओ कथ्यइ सोसेण सोसिय-सरीरो । कथ्यइ जरेण वहिओ कथ्यइ उयरेण भग्गो हं ॥
- 6 कथ्यइ कुट्टेण अहं सडिओ सव्वेसु चेय अंगेसु । कथ्यइ भगंदरेणं दारिय-देहो गओ गिहणं ॥ 6
दंत-वियणाएँ कथ्यइ कथ्यइ गिहओ मि कण्ण-सूलेण । अक्खी-दुकखेण पुणो सिर-वियणाएँ गओ जासं ॥
कथ्यइ रहिर-पवाहेण णवर गित्थामयं गयं जीयं । कथ्यइ पुरीस-वाहो ण संठिओ जाव बोलीणो ॥
- 9 कथ्यइ लयाए हओ कथ्यइ फोडीए कह वि गिहओ हं । कथ्यइ मारीएँ पुणो कथ्यइ पडिमाय-उक्कामे ॥ 9
कथ्यइ विण्णोडेहिं कथ्य वि सूलेण णवर पोहस्स । कथ्य वि वज्जेण हओ कथ्य वि पडिओ मि टंकस्स ॥
कथ्यइ सुलाख्खो कथ्यइ उक्खिउण वहिओ हं । कथ्यइ कारिसि-सेवा कथ्यइ मे गुग्गुलं धरियं ॥
- 12 कथ्यइ जलग-पडिओ कथ्यइ सल्लिउमि आगथा मच्चू । कथ्यइ गएण मलिओ कथ्यइ सीहेण गिलिओ हं ॥ 12
कथ्यइ तण्हाए मओ कथ्यइ सुक्को बुभुक्ख-वियणाए । कथ्यइ सावय-खइओ कथ्यइ सपेण डक्को हं ॥
कथ्यइ चोर-विलुत्तो कथ्यइ भुत्तो मिह संणिवाएण । कथ्यइ संमेण पुणो कथ्यइ हो वाय-पित्तेहिं ॥
- 15 कथ्यइ इट्ट-विओए संपत्तीए अणिट्ट-लोगस्स । कथ्यइ सज्जस-भरिओ उव्वाओ कथ्य वि मओ हं ॥ 15
कथ्य वि चक्केण हओ भिण्णो कौत्तेण लउड-पहराहिं । छिण्णो खमोण मओ कथ्यइ सेल्लेण भिण्णो हं ॥
कथ्यइ असिधेणूए कथ्य वि मंतेहि णवरि गिहओ हं । कथ्यइ वच्च-णिरोहो कथ्यइ य अजिण्ण-दोसेण ॥
- 18 कथ्यइ सीएण मओ कथ्यइ उग्हेण सोसिओ अहयं । अरइय कथ्यइ मओ कथ्यइ रोहेण सोत्ताणं ॥ 18
कथ्यइ कुंभी-पाए कथ्यइ करवत्त-फालिओ गिहओ । कथ्यइ कडाह-डडुओ कथ्यइ कत्ती-समुक्कतो ॥
कथ्यइ जलयर-गिलिओ कथ्यइ पक्खी-विलुत्त-सव्वंगो । कथ्यइ अवरोप्परयं कथ्य वि जंतम्मि छूटो हं ॥
- 21 कथ्य वि सत्तूहिं हओ कथ्य वि कस-घाय-जजरो पडिओ । साहस-बलेण कथ्य वि मच्चू विस-भक्खणेणं च ॥ 21
मणुयत्तणम्मि एवं बहुसो एक्केकयं मए पत्तं । तिरियत्तणम्मि एण्हिं साहिजंतं गित्थामेसु ॥
रे जीव तुमं भणिओ कायर मा जूर मरण-कालम्मि । चित्तिसु हमाइँ खणं हियणाणंत-मरणाइं ॥
- 24 जइया रे पुढवि-जिओ आस्सि तुमं खणण-खारमादीहिं । अवरोप्पर-सत्थेहि य अब्बो कह मारणं पत्तो ॥ 24
किर जिणवरोहिं भणियं दणिय-पुरिसेण आहओ थेरो । जा तस्स होइ वियणा पुढवि-जियाणं तहक्कंते ॥
रे जीय जल-जियत्ते बहुसो पीओ सि खोहिओ सुक्को । अवरोप्पर-सत्थेहिं सीउणहेहिं च सोसविओ ॥
- 27 अगणि-जियत्ते बहुसो जल-भूलि-कल्लिच-वरिस-णिवहेणं । रे रे दुक्खं पत्तं तं भरमाणो सहसु एण्हिं ॥ 27
सीउण्ह-खलण-दुक्खे अवरोप्पर-संगमे य जं दुक्खं । वाउक्काय-जियत्ते तं भरमाणो सहसु एण्हिं ॥
छेयण-फालण-डाहण-मुसुमूरण-अज्जेण जं मरणं । वण-कायमुवगएणं तं बहुसो विसहियं जीव ॥
- 30 तस-कायत्ते बहुसो खइओ जीवेण जीवमाणो हं । अकंतो पाएहिं मओ उ सीउण्ह-दुक्खेण ॥ 30
सेल्लेहिं हओ बहुसो सूयर-भावम्मि तं मओ रणे । हरिणत्तणे वि गिहओ खुरप्प सर-भिण्ण-पोट्ठिओ ॥
सिंघेण पुणो खइओ मुसुमूरिय-संधि-बंधणावयवो । एयाइँ चित्तयंतो विसहसु वियणाओ पउराओ ॥

1) J जणणीए हं, J गुहवेअण, P -बिम्भलो. 2) J सयणो. 4) P सउणिगगहेण, P विरालि for बिडाल, P om. हओ.
5) P कथ्यइ रोसेण गओ. 7) P सिरिवियणओ. 8) P मयं for गयं, J कथ्य पुरिमवाहो ण छिओ ता जाव, P -वाहेण. 9)
P कथ्य वि, J कथ्यइ होडीए, P वि नीओ हं ।, P om. seven lines कथ्यइ मारीए पुणो etc. to गिलिओहं ॥. 13) P गओ for
मओ after तण्हाए. 14) P कथ्य वि in both places, J भुत्तो मि, P संमेण, J हो वाउ-. 15) J लोअस्स, J तत्थइ for
कथ्यइ, P adds त्यवि before मओ. 16) P सेलेण, P मंतेहि नवर, P वच्चनिरोहो. 18) P कथ्यइ उहेण, J अरतीय, P
अरइय अत्थइ मओ. 19) P कथ्यइ कीडेहिं डक्को कथ्यइ सत्थी सत्ती समुक्कतो । 20) P कत्थी पक्खी, J पक्खीहिं लुत्त-, P कथ्य-
वि अवरो, J जंतम्मि कूओ हं. 21) J सामसबलेण P सामबलेणं. 22) P मय्य मत्तं ।, P साहिपंतं. 23) P इ for इमाइं,
P हियइ पमाणंत. 24) J पुढर-, P खणेण खारमादीसु, J खारमादीहिं, P सत्थेहि अब्बो. 25) P जिणवरेण, P -पुरिसेहिं, J
ओरो for थेरो, P होति वियणा, P पुव्व for पुढवि, P तहा कंतो. 26) P जलजियंतो, P खहिओ, J सीउण्हेहिं. 27) J
अगणिजियते, P -निवहेहिं, P पत्तो संमरं. 28) J सीउण्हखणण-, P खलणण, P adds प्पर before संगमे, P वाउयक्काय, J
जियते, P सं for तं. 29) J डाहे, P दाहण, J विसाहिअ जिअ. 30) J तस्स कायय्ये, P कायत्तो, J खइओ जीएण, P णु for
उ. 31) P अण्णेहिं for सेल्लेहिं, J हरिणत्तणे, P सिर for सर, J पोक्खिओ. 32) P om. विसहसु, P बोराओ for पउराओ.

- 1 तित्तिर-कबोच-सउणत्तणमि तह ससय-मोर-पसु-भावे । पासत्थं चिय मरणं बहुसो पत्तं तए जीय ॥ 1
 पारदिएण पइओ णट्टो सर-सल्ल-वेयणायल्लो । ण य तं मओ ण जीओ मुच्छा-मोहं उवगओ सि ॥
- 3 दट्टण पदीव-सिहं किर एयं णिम्मलं महारयणं । गेण्हामि ति सवण्हं पयंग-भावमि डट्टो सि ॥ 3
 बडिसेण मच्छ-भावे गीएण मयत्तणे विवण्णो सि । गंधेण महुयरत्ते बहुसो रे पावियं मरणं ॥
 § ४१७) किं वा बहुएण भणिएण ।
- 6 जाइं जाइं जाओ अणंतसो एक्कमेक्क-मेयाए । तत्थं य तत्थं मओ हं अब्बो बालेण मरणेण ॥ 6
 णरयमि जीव तुमए णाणा-दुक्खाइं जाइं सहियाइं । एण्हं ताइं सरतो विसहेज्जसु वेयणं एयं ॥
 करवत्त-कुंभि-रुक्खा-संबलि-वेयरणि-वालुया-पुलिणं । जइ सुमरसि एयाइं विसहेज्जसु वेयणं एयं ॥
- 9 तेत्तीस-सागराइं णरए जा वेयणा सहिज्जंति । ता कीस खणं एक्कं विसहामि ण वेयणं एयं ॥ 9
 देवत्तणमि बहुसो रणंत-रसणाओ गुरु-णियंवाओ । मुक्काओ जुवइंओ मा रज्जसु असुह-णारीसु ॥
 बज्जित्त-णील-मरगय-समप्यमं सासयं वरं भवणं । मुक्कं सगमि तए वोसिर णर-कडणि-कयमेयं ॥
- 12 णाणा-मणि-मोत्तिय-संकुलाओं आबद्ध-इंद-धनुयाओ । रयणाणं रासीओ मोत्तुं मा रज्ज विह्वेसु ॥ 12
 ते के वि देवदूसे देवंगे दिव्व-भोग-फरिसिल्ले । मोत्तूण तुमं तइया संपइ मा सुमर कंथडए ॥
 वर-रयण-णिमियं पिव कणय-मयं कुसुम-रेणु-सोमालं । चइळण तत्थं देहं कुण जर-देहमि मा मुच्छं ॥
- 15 मा तेसु कुण णियाणं सगो किर एरिसीओ रिद्धीओ । मा चित्तेहिसि सुवुरिस होइ सयं चैव जं जोमां ॥ 15
 देहं असुह-सगमं भरियं पुण सुत्त-पित्त-रुहारेण । रे जीव इमस्स तुमं मा उवरिं कुणसु अणुबंधं ॥
 पुण्णं पावं च दुवे वच्चंति जिएण णवर सह एए । जं पुण इमं सरिं कत्तो तं चलइ ठाणाओ ॥
- 18 मा मह सीयं होहिइ ठइओ विविहेहिं वत्थ-पोसेहिं । वच्चंते उण जीए खलस्स कण्णं पि णो सिण्णं ॥ 18
 मा मह उण्हं होहिइ इमस्स देहस्स छत्तयं धरियं । तं जीव-गमण-समए खलस्स सव्वं पि पम्हुट्टं ॥
 मा मह छुहा भवीहिइ इमस्स देहस्स संबलं वूढं । तं जीव-गमण-काले कह व कयग्घेण णो भरियं ॥
- 21 मा मे तण्हा होहिइ मरुत्थलीसुं पि पाणियं वूढं । तेण चिय देह तुमं खल-गहिओ किं ण सुकएण ॥ 21
 तह लालियस्स तह पालियस्स तह गंध-मल्ल-सुरहिस्स । खल देह तुज्ज जुत्तं पयं पि णो देसि गंतव्वे ॥
 अब्बो जणस्स मोहो धम्मं मोत्तूण गमण-सुसहायं । देहस्स कुणइ पेच्छसु तदियहं सव्व-कजाइं ॥
- 24 णत्थि पुहइए अण्णो अब्बिसेसो जारिसो इमो जीवो । देहस्स कुणइ एक्कं धम्मस्स ण गेण्हए णामं ॥ 24
 धम्मणे होइ सुगाइं देहो वि विलोहए मरण-काले । तह वि कयग्घो जीवो देहस्स सुहइं चित्तेइ ॥
 छारस्स होइ पुंजो अहवा किमियाण सिलिसिलेंताण । सुक्खइ रवि-किरणोहिं वि होहिइ पूयस्स व पवाहो ॥
- 27 भत्तं व सउणयाणं अक्खं वासाण कोल्लुयाइंणं । होहिइ पत्थर-सरिसं अब्बो सुक्कं व कट्टं वा ॥ 27
 ता एरिसेण संपइ जसार-देहेण जइ तवो होइ । लद्धं जं लहियव्वं मा मुच्छं कुणसु देहमि ॥ अवि य,
 देहेण कुणइ धम्मं अंतमि विलोहए पुणो एयं । फग्गुण-मासं खेळइ परसंते णेय पिट्ठे य ॥
- 30 ताव्बिज्जट कुणइ तवं भिण्णं देहाओं पुग्गलं देहं । कट्ट-अलंतिगाले परहत्थेणेय तं जीव ॥ 30
 देहेण कुणइ धम्मं अंतमि विलोहए पुणो एयं । उट्टस्स पामियंगस्स वाहियं जं तयं लद्धं ॥
 पोग्गल-मइयं कम्मं हम्मउ देहेण पोग्गल-मएण । रे जीव कुणसु एयं विहं विल्लेण फोडेसु ॥

1 > J कपोत, P कवोतसउणवरमि तह, P मासत्थं for पासत्थं, J जाअं P जीव. 3 > J पईवसिहं, P त्ति यण्हं, P दट्टो सि.
 4 > P पडिसेण for बडिसेण, P मयत्तणे, P महुयरत्ते, P महुयरत्ते, J ए for रे, P पाविओ मरणे. 5 > J बहुभणिएण. 6 > P
 जाओ for the first जाइं, P om. जाओ, P एक्कमेक्कयाए. 7 > P नरणमि भरंती, J वेसहेज्जसु. 8 > P om. the verse करवत्त
 etc. to वेयणं एयं ॥ 9 > J तेत्तीसं सगराइं. 10 > J रसणा गुरु, P मारेज्जसु. 11 > P मरमयसमप्यं, P om. जर, P
 कडकयनिकयमेयं. 12 > P धनुया । णाणं रासीओ, P मारेज्ज. 13 > P दिव्वंगे, P फरिसिल्लो, P कंथरए, 14 > J सोमार ।
 15 > P सपुरिस, J चैव. 16 > P सगभंतरियं, P रुहिराण, P कुमणसु. 16 > P वच्चति, P एते, P ट्ठाणाओ. 18 > P
 महं सीहं होही, P कण्णं पि ना भिलं ॥ 19 > P देह छत्तयं. 20 > P भवीहर, P संबलं वूढं. 21 > J तेणं चिय, P खण
 for खल. 22 > P एयं for पयं. 24 > P पुहतीए अण्णो, P देह कुणइ कम्मं धम्मस्स. 25 > P सुगती. 26 > P सुक्कर,
 P वा for वि, J होहिति पुत्तिसस व, P पूयस्स वाहो ॥ 27 > J कोल्लुआतीण । होहिति. 28 > P तओ होइ, P यंवं मु मा
 मुच्छंति कुणसु. 29 > J खेळइ, P परसत्ते, P परिसंतेणाय पिट्ठेगं. 30 > J कत्थसुजलतिगालो पर परं P कट्टजलंतगारे
 परहत्थेणाय. 31 > P वाहितं. 32 > P हम्मं उ, P जीव कुण एयं, P फोलेडेसु.

- 1 अवस-वसएहिं देहो मोत्तव्वो ता वरं सवसएहिं । जो हसिर-रोहीए वि पाहुणो ता वरं हसिरी ॥ 1
इय जीव तुमं भण्णसि णिसुणेतो मा करे गय-णिमीलं । देहस्स उवरि मुच्छं णिब्बुद्धिय मा करेज्जासु ॥
- 3 § ४१८) किं च रे जीव तए चिंतणीयं । अवि य । 3
सो णत्थि कोइ जीवो जयम्मि सयलम्मि एत्थ रे जीव । जो जो तए ण खइओ सो वि हु तुमए भमंतेण ॥
सो णत्थि कोइ जीवो जयम्मि सयलम्मि तुह भमंतस्स । ण य आसि कोइ बंधू तुह जीव ण जस्स तं बहुसो ॥
- 6 सो णत्थि कोइ जीवो जयम्मि सयलम्मि सुणसु ता जीव । जो णासि तुज्झ मित्तं सत्तू वा तुज्झ जो णासि ॥ 6
जे पेच्छसि धरणिहरे धरणि व्व वणं णई-तलाए वा । ते जाण मए सव्वे सय-हुत्तं भक्खिया आसि ॥
जं जं पेच्छसि एयं पोगल-रूवं जयम्मि हो जीव । तं तं तुमए भुत्तं अणंतसो तं च एएण ॥
- 9 तं णत्थि किं पि ठाणं चोइस-रज्जुम्मि एत्थ लोयम्मि । जत्थ ण जाओ ण मओ अणंतसो सुणसु रे जीव ॥ 9
गोसे मज्झणहे वा पओस-कालम्मि अह व राईए । सो णत्थि कोइ कालो जाओ य मओ य णो जम्मि ॥
जाओ जलम्मि णिहओ थलम्मि थल-वद्धिओ जले णिहओ । ते णत्थि जल-थले वा जाओ य मओ य णो जत्थ ॥
- 12 जाओ धरणीए तुमं णिहओ गयणम्मि णिवडिओ धरणिं । गयण-धरणीण मज्जे जाओ य मओ य तं जीय ॥ 12
जीवम्मि तुमं जाओ णिहओ जीवेण पाडिओ जीवे । जीवेण य जीवतो जीयत्थे लुप्पसे जीय ॥
जीवेण य तं जाओ जीवावियओ य जीव जीवेणं । संवद्धिओ जिणं जीवेहि य मारिओ बहुसो ॥
- 15 ता जत्थ जत्थ जाओ सच्चित्ताच्चित्त-मीस-जोणीसु । ता तत्थ तत्थ मरणं तुमए रे पावियं जीव ॥ 15
मरणाईं अणंताईं तुमए पुत्ताईं जाईं रे जीव । सव्वाईं ताईं जाणसु अणु अहो बाल-मरणाइं ॥
किं तं पंडिय-मरणं पंडिय-बुद्धि ति तीय जो जुत्तो । सो पंडिओ ति भण्णह तस्स हु मरणं इमं होइ ॥
- 18 पायव-मरणं एक्कं इंगिणि-मरणं लंगड-मरणं च । संथारयम्मि मरणं सव्वाइ मि णियम-जुत्ताइं ॥ 18
छजीव-णिक्कायाणं रक्खा-परमं तु होइ जं मरणं । तं चिय पंडिय-मरणं विवरीयं बाल-मरणं तु ॥
आलोइयम्मि मरणं जं होइइ पंडियं तयं भणियं । होइ पडिक्कमणेण य विवरीयं जाण बालं ति ॥
- 21 दंसण-णाण-चरित्ते आराहेउं हवेज्ज जं मरणं । तं हो पंडिय-मरणं विवरीयं बाल-मरणं ति ॥ 21
तित्थयराइ-पणामे जिण-वयणेणावि वट्टमाणस्स । तं हो पंडिय-मरणं विवरीयं होइ बालस्स ॥
किं वा बहुणा एत्थं पंडिय-मरणेण सग्ग-मोक्खाइं । बाल-मरणेण एसो संसारो सासओ होइ ॥
- 24 § ४१९) एयं णाऊण तुमं रे जीव सुहाइं णवर पत्थेतो । चइऊण बाल-मरणं पंडिय-मरणं मरसु एण्हि ॥ 24
इट्ट-विओओ गरुओ अणिट्ट-संपत्ति-वयण-दुक्खाइं । एमाइं संभरंतो पंडिय-मरणं मरसु एण्हि ॥
छेयण-भेयण-ताडण-अवरोप्पर-घायणाइं णरएसु । एयाइं संभरंतो पंडिय-मरणं मरसु एण्हि ॥
- 27 णत्थि ण वाहण-बंधण-अवरोप्पर-अक्खणाइं तिरिएसु । एयाइं संभरंतो पंडिय-मरणं मरसु एण्हि ॥ 27
जाइ-जरा-मरणाइं रोगायंकेण णवर मणुएसु । जइ सुमरसि एयाइं पंडिय-मरणं मरसु एण्हि ॥
रे जीव तुमे दिट्ठो अणुभूओ जो सुओ य संसारे । बाल-मरणेहिं एसो पंडिय-मरणं मरसु तम्हा ॥
- 30 भणियं च । 30
एक्कं पंडिय-मरणं छिंदइ जाई-सयाइं बहुयाइं । तं मरणं मरियव्वं जेण सुओ सुम्मओ होइ ॥
सो सुम्मओ ति भण्णह जो ण मरीहिइ पुणो वि संसारे । णिड्डु-सव्व-कम्मो सो सिद्धो जइ परं मोक्खो ॥

1 > J अवसवसेहं, P मोत्तव्वं, P हुणो for पाहुणो, P हसिए ति ॥ 2 > P निवृणंतो, J उवरि. 3 > J जीव तय, P चित्तिणीयं. 4 > J एत्थ ए जीव, P जो सो तेण न, P भवंतेण. 5 > P repeats सो, P णह आसि, J जीव. 6 > J जीव, P जा for जो. 7 > J जो for जे, P व्व वरणं नती तलाए, P सयउत्तं. 8 > J जीव, P मुत्तुं, P च तेएण. 9 > P तं किं चि नत्थि ट्ठणं, P रज्जुम्मि, J सुणसु ए जीव. 10 > P रातीए, P कोलो for कोइ कालो. 11 > P जोओ for जाओ, P repeats थलंमि, P व्व for य in both places. 12 > P निहओ मयणंमि, P तं जीवं. 13 > P जीवेण तुमं, P जीवो, P जीयत्थो लुप्पसे जीव. 14 > J जीवावियओ, P तं वद्धिओ, P मारिसो. 15 > J सच्चित्तां, P सच्चित्ताच्चिसीसं, J जीव ॥ 16 > J मित्तमए for तुमए, P पुत्ताइं जाईं, P अयाणु ता बालं. 17 > J पंडा बुद्धि, P अणह, P सुहं for इमं. 18 > P पायवमरणे, P वि for मि. 19 > P रखा. 20 > J तिजं for तयं, P वि for य, P बाल ति ॥ 21 > P चरित्ताण हेउं, J तं for जं, P om. three lines तं हो पंडिय eto. to होइ बालस्स. 22 > J तित्थयराति-. 23 > P तं चिय for किं वा बहुणा एत्थं, J मोक्खाती P मोक्खाइं. 24 > P नाऊण, P पत्थेतो. 25 > P अट्ट for इट्ट, P संभरंतो, P मर for मरसु, P om. एण्हि. 26 > J तावण, P संभरंतो पडिय ॥ 27 > P नत्थ ण, P अक्खाइं, P संभरंतो पं ॥ 28 > P जाइ-, J रोगायंकेण, P सुमरएसु एयाइं पं ॥ 29 > J जीव, J अणुभूओ, J संसारो. 31 > J जाई P जाती, P जेण मओ, J सुमुओ, P repeats सुम्मओ. 32 > J सुम्मतो P सुम्मओ, J जेणं मरणं for जो ण, J मरीहिति P मरीहीति, P निहड्डु-, P मोक्खे.

- 1 गत्थि मरणस्स नासो तित्थयरारणं पि अहव इंदाणं । तम्हा अवस्स मरणे पंडिय-मरणं मरसु एक्कं ॥ 1
जह् मरणेहिं ण कज्जं खिण्णो मरणेण चयसि मरणाहं । ता मरण-दुक्ख-मीरुय पंडिय-मरणं मरसु एक्कं ॥
- 3 अह इच्छसि मरणाहं मरणेहि य गत्थि तुज्जं णिव्वेओ । ता अक्खसु वीसत्थो जम्मण-मरणारहट्ठमि ॥ 3
इय बाल-पंडियाणं मरणं णाऊण भावओ एण्हि । एसो पंडिय-मरणं पडिवण्णो भव-मउत्तारं ।'
- 6 ति भणमाणस्स सयंभुदेवस्स महारिसिणो अउव्वकरणं खवग-सेटीए अणंतं केवल-वर-णाण-दंसणं समुप्पणं, समयं च 6
आउय-कम्मक्खओ, तेण अंतगडो सयंभुदेव-महारिसि ति ।
- १ ४२०) एवं च वचंतेसु दियहेसु महारह-साधू वि णाऊण थोव-सेसं आउयं दिण्ण-गुरुयणालोचणो पडिकंत-
सव्व-पावट्ठाणो संलेहणा-संलिहियंगो सव्वहा कय-सव्व-कायव्वो उवविट्ठो संथारए । तत्थ य णमोक्कार-परमो अक्खिउं
9 पयत्तो । अवि य । 9
- एस करेमि पणामं अरहंताणं विसुद्ध-कम्माणं । सव्वातिसय-समग्गा अरहंता मंगलं मज्ज ॥
उसमाइए सव्वे चउवीसं जिणवरे णमंसाभि । होहंति जे वि संपइ ताणं पि कओ णमोक्कारो ॥
- 12 ओसप्पिणि तह अवसप्पिणीसु सव्वासु जे समुप्पण्णा । तीताणागय-भूया सव्वे वंदामि अरहंते ॥ 12
भरहे अवर-विदेहे पुव्व-विदेहे य तह य एरवए । पणमामि पुक्खरद्धे धायइ-संडे य अरहंते ॥
अक्खंति जे वि अज्ज वि णर-तिरिए देव-णरय-जोणीसु । एयाणेय-भवेसु य भविए वंदामि तित्थयरे ॥
- 15 तित्थयर-णाम-गोत्तं वेपुंते वद्धमाण-बद्धे य । बंधिसु जे वि जीवा अज्जं चिय ते वि वंदामि ॥ 15
विहरंति जे सुणिंदा छउमत्था अहव जे मिहत्था वा । उप्पण-णाण-रयणा सव्वे तिविहेण वंदामि ॥
जे संपइ परिसत्था अहवा जे समवसरण-मज्जत्था । देवच्छंद-गया वा जे वा विहरंति धरणियले ॥
- 18 साहंति जे वि धम्मं जे व ण साहंति छिण्ण-मय-मोहा । वंदामि ते वि सव्वे तित्थयरे मोक्ख-मग्गस्स ॥ 18
तित्थयरीओ तित्थंकरे य सामे य कसिण-गोरे य । मुत्ताहल-पउमाभे सव्वे तिविहेण वंदामि ॥
उज्झय-रज्जे अहवा कुमारए दार-संगह-सणाहे । सावच्चे णिरवच्चे सव्वे तिविहेण वंदामि ॥
- 21 भव्वाण भव-समुहे णिवुद्धमाणेण तरण-कज्जमि । तित्थं जेहिं कयमिणं तित्थयरारणं णमो ताणं ॥ 21
तित्थयरारणं पणामो जीवं तारेइ दुक्ख-जलहीओ । तम्हा पणमह सव्वायरेण ते चेय तित्थयरे ॥
लोय-गुरूणं ताणं तित्थयरारणं च सव्व-दरिसीणं । सव्वण्णूणं एयं णमो णमो सव्व-भावेणं ॥
- 24 अरहंत-णमोक्कारो जह् कीरइ भावओ इह जणेणं । ता होइ सिद्धि-मग्गो भवे भवे बोहि-लाभाए ॥ 24
अरहंत-णमोक्कारो तम्हा चित्तेमि सव्व-भावेण । दुक्ख-सहस्स-विमोक्खं अह मोक्खं जेण पावेमि ॥
- १ ४२१) सिद्धाण णमोक्कारो करेसु भावेण कम्म-सुद्धाण । भव-सय-सहस्स-बद्धं धंतं कर्मिधणं जेहिं ॥
- 27 सिज्जंति जे वि संपइ सिद्धा सिज्जिंसु कम्म-खइयाए । ताणं सव्वाण णमो तिविहेणं करण-जोएण ॥ 27
जे केइ तित्थ-सिद्धा अतित्थ-सिद्धा व एक्क-सिद्धा वा । अहवा अणेग-सिद्धा ते सव्वे भावओ वंदे ॥
जे वि सल्लिगे सिद्धा मिहि-ल्लिगे कह वि जे कुल्लिगे वा । तित्थयर-सिद्ध-सिद्धा सामण्णा जे वि ते वंदे ॥
- 30 इत्थी-ल्लिगे सिद्धा पुरिसेण णपुंसएण जे सिद्धा । पच्चेय-बुद्ध-सिद्धा बुद्ध-सयंबुद्ध-सिद्धा य ॥ 30
जे वि णिसण्णा सिद्धा अहव णिवण्णा टिया व उस्सग्गे । उत्ताणय-पासेह्हा सव्वे वंदामि तिविहेण ॥
णिसि-दियस-पदोसे वा सिद्धा मज्जण्ह-गोस-काले वा । काल-विक्खवा सिद्धा सव्वे वंदामि भावेण ॥

- 1 > P एक्के. 2 > J मीरु, P adds य after मीरुय. 3 > P तो for ता. 4 > J भावतो, J सयुत्तारं. 5 > J om.
ति, P अणंतकेवल. 6 > J कम्मक्खयो P कंभवओ. 7 > J om. च, P साहुणा नाऊण, J थोअ, J गुरुअणालोअणो P गुरुआलोअणो.
8 > J om. सव्व. 10 > P अरिहंतताणं. 11 > JP उसमातीए, P सव्वो 12 > P ओसप्पिणी तह, P समुप्पण्णो,
J णागतभूना. 13 > P om. पुव्वविदेहे, P पुव्वरद्धे, J धातइसण्डे. 14 > P एयाणेयभवंतरभविए. 15 > J वेपुंते P वेयंतो, J
बद्धिसु. 16 > P adds वि before सुणिंदा, J छउमत्था, P जो for जे. 17 > P जो for जे J गा, P om. धरणि.
18 > P सोहंति, J वि for व, P om. वि. 19 > P मुत्ताऊ, P वंदिमि. 20 > P om. सव्वे, P वंदिमि. 21 > J
णिवुद्धमाणेण, P मरण for तरण. 23 > P ताणं for एयं, P om. one णमो. 24 > J भावतो, P तो for ता. 25 >
P चित्तेण for चित्तेमि. 26 > P करेसु P कंमसुव्वाण, P दद्धं for धंतं. 27 > P om. संपइ, P सिद्धि, J खयताए. 28 > J
भावतो. 29 > P om. कह वि जे कुल्लिगे. 30 > J पुंसए for णपुंसएण, J om. जे, P जि, P पत्तेय बुद्धसयंबुद्ध, J बुद्धिसिद्धा
J सयंबुद्धि. 31 > J अहवि णिविण्ण, P द्विया, J ऊस्सग्गे. 32 > दिवस, J पतोसे, P गोसकालंमि ।

- 1 जोष्यण-सिद्धा बाळा थेरा तह मज्झिमा च जे सिद्धा । दीवण्ण-दीव-सिद्धा सव्वे तिबिहेण वंदामि ॥ 1
 विष्वावहार-सिद्धा समुह-सिद्धा गिरीसु जे सिद्धा । जे केह भाव-सिद्धा सव्वे तिबिहेण वंदामि ॥
- 3 जे जत्थ केह सिद्धा काले खेत्ते च दव्व-भावे वा । ते सव्वे वंदे हं सिद्धे तिबिहेण करणेण ॥ 3
 सिद्धाण णमोक्कारो जह लब्भइ भागए मरण-काले । ता होइ सुगइ-मग्गो अण्णो सिद्धिं पि पावेइ ॥
 सिद्धाण णमोक्कारो जह कीरइ भावओ असंगेहिं । रुंभइ कुगइ-मग्गं सग्गं सिद्धिं च पावेइ ॥
- 6 सिद्धाण णमोक्कारं तह्महा सव्वायरेण काहामि । छेत्तण मोह-जालं सिद्धि-पुरिं जेण पावेमि ॥ 4
 § ४२२) पणमामि गणहराणं जिण-वयणं जेहिं सुत्त-बंधेणं । बंधेऊण तह कय पत्तं अम्हारिसा जाव ॥
 चोइस-पुब्बीण णमो आयरियाणं तहूण-पुब्बीण । वायण-वसहाण णमो णमो च एगारसंगीण ॥
- 9 आयार-धराण णमो धारिजइ जेहिं पवयणं सयलं । णाण-धराणं ताणं आयरियाणं पणिवयामि ॥ 9
 णाणायार-धराणं दंसण-चरणे विसुद्ध-भावणं । तव-विरिय-धराण णमो आयरियाणं सुभीराणं ॥
 जिण-त्रयणं दिप्यंतं दीवंति पुणो पुणो ससत्तीए । पवयण-पभासयाणं आयरियाणं पणिवयामि ॥
- 12 गूढं पवयण-सारं अंगोवंगे समुह-सरिसम्मि । अम्हारिसेहिं कत्तो तं णज्जइ थोय-डुद्धीहिं ॥ 12
 तं पुण आयरिएहिं पारंपरएण दीवियं एत्थ । जह होति ण आयरिया को तं जाणेज्ज सारमिणं ॥
 स्यण-मेत्तं सुत्तं सूइज्जइ केवलं तहिं अत्थो । जं पुण से वक्खाणं तं आयरिया पयासेति ॥
- 15 डुद्धी-सिणेह-सुत्ता आगम-जलणेण सुट्टु दिप्यंता । कह पेच्छउ एस जणो सूरि-पईवा जहिं णत्थि ॥ 15
 चारित्त-सील-किरणो अण्णाण-समोह-णासणो विमलो । चंद-समो आयरिओ भविए कुमुए च बोहेइ ॥
 दंसण-विमल-पयावो दस-दिस-पसरंत-जाण-किरणिहो । जत्थ ण रवि च्व सूरि मिच्छत्त-तमंअओ देसो ॥
- 18 उज्जोयओ च्व सूरु फलओ कप्पहुमो च्व आयरिओ । खिंतामणि च्व सुहओ जंगम-तित्थं च पणओ इ ॥ 18
 जे जत्थ केह खेत्ते काले भावे च सव्वहा अत्थि । तीताणागय-भूया ते आयरिए पणिवयामि ॥
 आयरिय-णमोक्कारो जह लब्भइ मरण-काल-वेलाए । भावेण कीरमाणो सो होइइ बोहि-लामाए ॥
- 21 आयरिय-णमोक्कारो जह कीरइ तिबिह-जोग-जुसेहिं । ता जम्म-जरा-मरणे छिंदइ बहुए ण संदेहो ॥ 21
 आयरिय-णमोक्कारो कीरंतो सल्लगसणं होइ । होइ णरामर-सुहओ अक्खय-फल-दाण-दुल्लिओ ॥
 तम्हा करेमि सव्वायरेण सूरिण हो णमोक्कारं । कम्म-कलंक-विमुक्को अइरा मोक्खं पि पावेत्तं ॥
- 24 § ४२३) उवञ्जायाणं च णमो संगोवंगं सुयं धरंताणं । सिस्स-गण-हियट्ठाए भरमाणं तयं चैय ॥ 24
 सुत्तस्स होइ अत्थो सुत्तं पावेंति ते उवज्जाया । अज्जावयाण तम्हा पणमह परमेण भावेण ॥
 सज्जाय-सल्लि-णिवहं भरंति जे गिरियइ च्व तहियहं । अज्जावयाण ताणं भत्तीए अहं पणिवयामि ॥
- 27 जे कम्म-खयट्ठाए सुत्तं पावेंति सुद्ध-लेसिद्धा । ण गणेंति णियय-दुक्खं पणओ अज्जावए ते इ ॥ 27
 अज्जावयाण तेसिं भइं जे णाण-दंसण-समिद्धा । बहु-भविद्य-बोह-जणयं भरंति सुत्तं सया-कालं ॥
 अज्जावयस्स पणमह जस्स पसाएण सव्व-सुत्ताणि । णज्जंति पठिज्जंति च पठमं विद्य सव्व-साधूहिं ॥
- 30 उवञ्जाय-णमोक्कारो कीरंतो मरण-देस-कालमि । कुगइ रुंभइ सहसा सोगइ-मग्गामि उवणेह ॥ 30
 उवञ्जाय-णमोक्कारो कीरंतो कुणइ बोहि-लामं तु । तम्हा पणमह सव्वायरेण अज्जावयं मुणिणो ॥
 उवञ्जाय-णमोक्कारो सुहाण सव्वाण होइ तं मूलं । दुक्खक्खयं च काउं जीयं ठावेइ मोक्खम्मि ॥

- 1) P दीवण्ण. 2) P केवि for केह. 3) P कह वि for केह, P कालखेत्ते, P च्व for य. 4) P अण्णे, P पावेमि.
 5) J भावतो, P । संभइ कुगइ, P पावेंति. 6) P सिद्धिं. 7) P गइराणं, P जावा ॥ 8) P णवण्ह for तहूण, P
 वायय. 9) J पणय तामि ॥ 10) P चरणेहि सुद्धभावे । तवकिरिय. 11) P दिवंति, P ससतीए, P पहासयाणं, J
 पणिवतामि. 12) J तण्णज्जउ, P थोव. 13) P होति. 14) P अत्थे, P repeats से. 15) P पेच्छइ, P पतीवा.
 16) P कुमुयविबोहेइ. 17) P विमलपलपयावोदयदिस. 18) J उज्जोतउ. 19) J च्व for च, J तीताणागतभूता, J
 पणिवतामि. 20) J होहि ति P सो हित्ति. 21) P om. कीरइ, P जोय. 23) P मोकं पि. 24) J उवञ्जायाणं P उवञ्जा-
 याणं, P अंगोवंगं सुत्तं, J सुत्तं, J हितट्ठाए, P भरमाणं. 25) J पावें ति, P म्हा for तम्हा. 26) J om. जे, P गिरि च्व, J
 भत्तीय, J पणिवतामि. 27) P कंमक्खय", P वज्जावए. 28) P बोहयाणं सरंति सुत्तं. 29) P om. पठिज्जंति, P साधूहिं.
 30) JP उवज्जाय, P देसयालमि, P रुंभइ. 31) JP उवज्जाय. 32) JP उवज्जाय, P om. सव्वाण, J जीवं, P पावेइ for
 ठावेइ.

- 1 § ४२४) साहूण णमोक्कारं करेमि तिविहेण करण-जोएण । जेण भव-लक्ख-बद्धं खणेण पावं विणासेमि ॥ 1
पणमह ति-गुत्ति-गुत्ते विलुत्त-मिच्छत्त-पत्त-सम्मत्ते । कम्म-करवत्त-पत्ते उत्तम-सत्ते पणिवयामि ॥
- 3 पंचसु समिहंसु जए ति-सल्ल-पक्खिपेणमि गुरु-महे । चउ-विकहा-पम्मुके मय-मोह-विवज्जए चीरे ॥ 3
पणमामि सुद्ध-लेसे कसाय-परिवज्जिए जियाण हिए । छजीव-काय-रक्खण-परे य पारंपरं पत्ते ॥
चउ-सण्णा-विप्पज्जे दद्ववए वय-गुणेहिं संजुत्ते । उत्तम-सत्ते पणभो अपमत्ते सव्व-कालं पि ॥
- 6 परिसह-बल-पडिमहे उयसग्ग-सहे पदम्मि मोक्खस्स । विकहा-पमाय-रहिए सहिए बंदामि समणे हं ॥ 6
समणे सुयगे सुमणे समणे य-पाव-पंकस्स सेवए । सवए सुहए समए य सच्चए साहु अह बंदे ॥
साहूण णमोक्कारो जइ लब्भइ मरण-देस-कालमि । चिंतामणिं पि लद्धं किं मग्गस्ति काय-मणियाहं ॥
- 9 साहूण णमोक्कारो कीरंतो अवहरेज्ज जं पावं । पावाण कथं हियए णिवसइ एसो अउण्णाण ॥ 9
साहूण णमोक्कारो कीरंतो भाव-मेत्त-संसुद्धो । सयल-सुहाणं मूलं मोक्खस्स य कारणं होइ ॥
तम्हा करेमि सव्वायरेण साहूण तं णमोक्कारं । तरिऊण भव-समुद्धं मोक्खय-दीवं च पावेमि ॥
- 12 § ४२५) एए जयमि सारा पुरिसा पंचेव ताण जोक्कारो । एयाण उवरि अण्णो को वा अरिहो पणामस्स ॥ 12
सेयाण परं सेयं मंगल्लाणं च परम-मंगल्लं । पुण्णाण परं पुण्णं फलं फलाणं च जाणेज्जा ॥
एयं होइ पवित्तं वरयरयं सासयं तद्वा परमं । सारं जीयं पारं पुच्चाणं चोहसण्हं पि ॥
- 15 एयं आराहेउं किं वा अण्णेहिं एयं कउजेहिं । पंच-णमोक्कार-मणो अवस्स देवत्तणं लहइ ॥ 15
चारित्तं पि ण वइइ णाणं णो जस्स परिणयं किंचि । पंच-णमोक्कार-फलं अवस्स देवत्तणं तस्स ॥
एवं दुह-सय-अलयर-तरंग-रंगत-भासुरावत्ते । संसार-समुद्धमि कयाइ रयणं व णो पत्तं ॥
- 18 एयं अब्भुरुहुल्लं एयं अप्पत्त-पत्तयं मज्झ । एयं परम-भयहरं चोच्चं कोहुं परं सारं ॥ 18
विज्जइ राहा वि फुडं उम्मल्लिज्जइ गिरी वि मूलाओ । गम्मइ गयणयलेणं दुल्लहो एसो णमोक्कारो ॥
जल्लणो व्व होज्ज सीओ पडिवह-हुत्तं वहेज्ज सुर-सरिया । ण य णाम ण देज्ज इमो मोक्ख-फलं जिण-णमोक्कारो ॥
- 21 णूणं अलद्धउव्वो संसार-महोचहिं भमंतेहिं । जिण-साहु-णमोक्कारो तेणज्ज वि जम्म-मरणाहं ॥ 21
जइ पुण पुवं लद्धो ता कीय ण होइ मज्झ कम्म-खओ । दावाणलमि जल्लिए तण-रासी केच्चिरं ठाउ ॥
अहवा भावेण विणा दब्बेणं पाविओ मए आस्ति । जाव ण गहिओ चिंतामणिं त्ति ता किं फलं देइ ॥
- 24 ता संपइ पत्तो मे आराहेव्वउ मए पयत्तेणं । जइ जम्मण-मरणाणं दुक्खाणं अंतमिच्छामि ॥ 24
त्ति भणमाणो महारह-साहु अउव्व-करणेणं खवग-सेणिं समाखुडो । कह ।
§ ४२६) सोसेइ महापत्तो सुक्खजाणानलेण कम्म-तरं । पढमं अणंत-णामे चत्तारि वि चुण्णिए तेण ॥
- 27 अण्ण-समएण पच्छा मिच्छत्तं सो खवेइ सव्वं पि । मीसं च पुणो सम्मं खवेइ जं पुगालं आस्ति ॥ 27

1 > P णमोक्कारो, J om. करण, P लव, P पावं पणासेमि. 2 > P om. गुत्ते, P विच्छत्तपत्त, J पणिवयामि. 3 > JP समितीउ, J जते P जहे, J परिसोहगमि, P परिमुके. 4 > P पारंपरे पत्तो. 5 > J सण्णा, P विप्पज्जे, P संजुत्तो, P मि for पि. 6 > P परिसवल, J पडिवज्जे, P उपसग्गसग्गे सहे पदम्मि. 7 > P om. समणे सुयणे, P adds दुक्खदायस्स after पंकस्स, J स एव for य सच्चए साहु, P साहु. 8 > P लद्धि. 9 > P om. अवहरेज्ज जं पावं etc. to साहूण णमोक्कारो कीरंतो. 10 > P मेत्तसमिद्धो. 11 > J सोक्खं दीवं च P मोक्खपदीवं. 12 > P पुरिसाण पंचेव, J ता णमोक्कारो. 13 > P सेयाण, J होइ for परम, P परमं, J adds पर before पुणं. 14 > J एवं, P वरयरयं, J अमयं for परमं, P सोयं for सारं, J सारं for पारं. 15 > P परो for मणो. 16 > P मि for पि, P adds नोमं before नो. 17 > P समुद्धमी अपत्तदव्वं च माणिक्कं ॥, J कयाइ रयणाइ व. 18 > P अब्भुरुहुल्लं, P मज्झ. 19 > P दुल्लहो सो. 20 > P जल्लणा व्व, P सीओ पडिवहजुत्तं, J जिणे. 21 > P महोयहं नमंतेहिं. 22 > P पुण्ण for पुण, P दावाणलमि, P जाओ for ठाउ. 23 > P दब्बेणं भाविओ, P जाव न हियओ. 24 > P आराहेयव्वो, J om. मए, P पयत्तेणं, P दुक्खाणं इच्छसे अंतं ॥. 25 > P om. त्ति, P खवगसेदी, J adds अवि य after कह. 26 > P सोसेइ, P सुक्खजाणानलेण, P अणंतणामो. 27 > J तं for जं.

- 1 पयं गियद्वि-ठाणं खाह्य-सम्मत्त-लाभ-दुल्लियं । लंघेज्जं अट्ट वि कसाय-रिवु-डामरे हणइ ॥ 1
 सोसेइ णतुंसत्तं इत्थी-वेयं च अण्ण-समएण । हास-रइ-उक्कमण्णं समएणं गिइहे वीरो ॥
- 3 गिय-जीय-वीरिएणं खग्गेण व कयलि-खंभ-सम-सारं । पच्छा गिय-पुंवेयं सूडेइ विसुद्ध-लेसामो ॥ 3
 कोधाई-संजलणे एकेकं सो खवेइ लोभंतं । पच्छा करेइ खंडे असंख-मेत्ते उ लोहस्स ॥
 एकेकं खवयंतो पावइ जा अतिमं तयं खंडं । तं भेतूण करेइ अणंत-खंडेहिं किटीओ ॥
- 6 तं वेपूंतो भण्णइ महासुणी सुहुम-संपराओ त्ति । अहखायं पुण पावइ चारित्तं तं पि लंघेउं ॥ 6
 पंचक्खर-उगिरणं कालं जा वीसमित्तु सो धीरो । दोहिं समएहिं पावइ केवल-णाणं महासत्तो ॥
 पयलं गिइ पढमं पंच-विहं दंसणं चउ-वियपपं । पंच-विहमंतरायं च खवेत्ता केवली जाओ ॥
- 9 आउय-कम्मं च पुणो खवेइ गोत्तेण सह य णामेण । सेसं पि वेयणीयं सेलेसीए विसुक्को सो ॥ 9
 अह पुव्व-पओएणं बंधग-सुद्धियत्तणेण उइ-गई । लाउय-एरंड-फले अग्गी-धूमे य दिट्ठंता ॥
 ईसीपडभाराए पुइईए उवरि होइ लोयंतो । गंतूण तत्थ पंच वि तणु-रहिया सासया जाया ॥
- 12 णाणमणंतं ताणं दंसण-चारित्त-वीरिय-सणाहं । सुहुमा गिरंजणा ते अक्खय-लोक्खा परम-सुद्धा ॥ 12
 अच्छेज्जा अब्भेज्जा अब्वत्ता अक्खरा गिरालंबा । परमएणाणे सिद्धा अणाय-सिद्धा य ते सब्भे ॥
 सा स्विपु रि त्ति भणिया अयला स च्चिय स च्चियापावा । से तं दीवं तच्चिय तं चिय हो बंभ-लोयं ति ॥
- 15 खेमं करी य सुहया होइ अणाउ त्ति भिद्धि-ठाणं च । अववगो णेव्वाणं मोक्खो सोक्खो य सो होइ ॥ 15
 तत्थ ण जरा ण मच्च ण वाहिणो णेय सब्भ-दुक्खाई । अचंत-सासयं चिय भुंजंति अणोबमं सोक्खं ॥
 पत्थ य क्हा समपइ कुवल्लयमाल त्ति जा पुरा भणिया । दक्खिण-ईध-बुद्धी-वित्थारिय-गंध-रयणिद्धा ॥
- 18 § ४२७) पणय-तियसिद्ध-सुंदरि-मंदर-मंदार-गलिय-मयरंइ । जिण-चलण-कमल-जुयलं पणमह मुहलालि-संगीयं ॥ 18
 पढमं चिय णयरी-वण्णणमि रिद्धीओ जा मए भणिया । धम्मस्स फलं अक्खेवणि त्ति मा तत्थ कुप्पेज्जा ॥
 जं चंडसोम-आई-बुत्तंता पंच ते वि कोधाई । संसारं दुक्ख-फला तम्हा परिहरसु दूरेण ॥
- 21 जाओ पच्छायाओ जट्ट ताणं संजमं च पडिवण्णा । तह अणो वि हु पावी पच्छा चिरमेज्ज उवएओ ॥ 21
 जिण-वदण-फलमेयं जक्खो जिणसेहरो त्ति जं कहिओ । साहम्मियाण णेहो जीयाण बलं वदीणं तं ॥
 वइर-परंपर-भावो संवेगो त्तिरिय-धम्म-पडिवत्ती । विजाहराण सिद्धी अच्छरियं एणियक्खाणे ॥
- 21 सरणायाण रक्खा धीरं साहम्मि-वच्छलत्तं च । अपमत्त-सुलभ-बोही संवेगो भिल्ल-बुत्तंते ॥ 21
 कुवल्लयमाला-रुवं धम्म-फलं तत्थ जो य सिंगारो । तं कव्व-धम्म-अक्खेवणीय सम्मत्त-कजेण ॥
 सम्मत्तस्स पसंसा घेप्पउ वयणं जिणाण लोगम्मि । चित्तवहेण विचित्तो संसारो दंसिओ होइ ॥
- 27 विण्णाण-सत्त-मारो होइ कुमारस्स दंसिओ तेण । जिण-णाम-मंत-सत्ती बुत्तंतेणं णरिंदाण ॥ 27
 पर-तिवियाण-मेत्ती सरूव-जागा-मणेण जिण-वयणं । होइ विसुद्ध-तरायं जुत्ति-पमाणेहिं तं सारं ॥
 जुय-समिला-दिट्ठंते दुलहं माणुस्सयं च चित्तंतेसु । दिव-लोए धम्म-फलं तम्हा तं चय कायवं ॥
- 30 कम्मस्स गई णेहस्स परिणई बुज्झणा य थोएण । धम्म-पडिबोह-कुसलत्तणं च वीरेण गियय-भवे ॥ 30

1) P गियद्विद्विठाणं खाह्यसम्मत्तलाभ- 2) J सोसर णमंसत्तं इत्थीवेयं P सोसेइ नपुमत्तं इत्थीनियं, P हासाइउक्कमणं, J -रत्ति-, P निजिरे वीरो, J धीरो for वीरो. 3) P कस्सयलि, J पुंवेयं, J केरसाओ. 4) J कोधाती संजलणा, P कोधाई, J लोहंतं, J करेति, J मेत्ते तु P मेत्तो उ. 5) P णवइ for पावइ, J करेती. 6) J अहखायं. 7) P पंचक्खर, J सो for जा, P वीसमीउ सो वीरो, P केवल्लिनालं. 8) J पढमे, P om. च. 9) P आउएखंमं, J खवेत्ति, P इ for य, J वेत्तणीयं. 10) J एरंडहलं. 11) P has संजया twice for सासया. 13) P अच्छेज्जा अक्खा निगलंबा, P अणायसुद्धा. 14) P स च्चिय अणादा, J तदीवं, P om. तच्चिय. 15) J होउ for होइ, P अपवगो. 16) P नेय दुक्खसव्वाहं, J मासं, P adds य after चिय. 17) J दक्खिणणं, P बुद्धी-. 18) P पणयसुरसिद्धसुंदरि, P मंदारगलिय, P जिणवयण. 19) P चिय नगरी, J वण्णणंति, P वण्णणंमि. 20) JP आती for आई, J कोधाती P कोधाती, J संसार. 22) J बलं च दीणंतं, P वदीणंतं. 23) P विजाहराण सिद्धि, J अच्छरियं, P एणियाखाणे. 24) P रक्खी, J सुलहं. 25) J कम्म for कव्व. 26) J लोअमि P चित्तपडे वि विचित्तो. 27) P कुमार, J जिणे णाणं सम्मत्तसत्ती. 28) J तित्थयाण मेत्ती, P -मित्ती, P om. तं सारं. 30) P गई नेयस्स, P वेवण ।

- 1 कुटीरं देव-माया वंश-वेला क्षु धम्म-पडिवत्ती । अवर-विदेहे वंसण कामगाइंस्स वुत्तंति ॥ 1
उच्छाह-सत्त-सारी सिद्धी विजाए भोग-संपत्ती । सम्मत्त-दान-कुसलत्तणं च तह वहरगुत्तमि ॥
- 3 विम्बाणं संलावो बोहत्थं सो सर्वमुदेवस्स । मा कुण कुटुंब-कजे पावं एसा गइं तस्स ॥ 3
सुह-संबोधी-सुमिणं महारहे जम्मि ताईं भणियाइं । भव्वाणं एस्स ठिईं थोयेण वि जेण वुज्झंति ॥
आराहणा च अंते आलोयण-गिद्वणा च वोसिरणा । पंच-णमोक्कारो विय मोक्खस्स च साहणो भणियो ॥
- 6 केवल-गाणुप्पत्ती भणिया सेटीए खवग-गामाए । मोक्खे परमं सोक्खं संपत्ता तत्थ सव्वे वि ॥ 6
§ ४२८) जं खल-पिसुणो अम्हं व मच्छरी रत्त-मूढ-बुग्गहिओ । भणिहिइ अभाणियव्वं पि एत्थ भणिमो सयं चेष ॥
रागो एत्थ णिबद्धो किं कीरइ राग-बंधणा एसा । पडिवयणं तत्थ इमं देज्जसु अह राग-वित्तस्स ॥
- 9 रागं निदंसिऊण य पढमं अह तस्स होइ वेरगं । रागेण विणा साहसु वेरगं कस्स किं होउ ॥ 9
धम्मस्स फलं एयं अक्खेवणि-कारणं च सव्वं च । रागाओं विरागो वि हु पढमं रागो कओ तेण ॥
वसुदेव-धम्मिलाणं हिंठीसुं कीस णत्थि रागो त्ति । तत्थ ण किंचि वि जंपसि अम्हं मउणे ण तुह णेहो ॥
- 12 रागेण तुमं जाओ पच्छा धम्मं करेसि वेरगी । रागो एत्थ पसत्थो विराग-हेऊ भवे जम्हा ॥ 12
कीस पइण्णं राया दढवम्मो कुणइ गुग्गुलाइंयं । अज्ज वि मिच्छादिट्ठी जुज्जइ सव्वं पि भणिउं जे ॥
किं सो राया णम्मं लच्छीए सयं करेइ देवीए । णणु होज्जा रज्ज-सिरी अरहइ सिंगार-वयणाइं ॥
- 15 पुरिसाह-लक्खणेहिं किं कीरइ एत्थ धम्म-उल्लावे । णणु धम्मो कव्वाणं अक्खेवणि-कारणं जम्हा ॥ 15
हरि-खंद-रुद-कुसुमाउहेसु उवमाण णागरी-वण्णे । कालम्मि तम्मि कत्तो उवमाणं किं असंतेहिं ॥
भण्णए समए भणिया णव-जुवला चक्कि-कामपाला य । रुदा खंदा य पुणो अइबहुए विज्ज-सिद्ध त्ति ॥
- 18 खंदाणं रुदाणं गोविदाणं च जेण अंगेसु । णामाईं सुणिजंति वि सासय-रूवेसु सव्वेसु ॥ 18
चोअ ण होइ एयं धम्मो कव्वस्स जेण उवमाणं । कीरइ अणसंते वि हु अच्छउ ता लोय-सिद्धेसु ॥
उद्धं पिसुणाण इहं बोलीणो अवसरो त्ति णो भणियं । सव्व चिय धम्म-कहा सम्मत्तुप्पायणी जेण ॥
- 21 § ४२९) जो पढइ भाव-उत्तो अहवा णिसुणेइ अहव वाएइ । जइ सो अम्हो वस्सं सम्मत्तं जायए तस्स ॥ 21
लद्धं पि थिरं होहिइ होइ वियद्धो कइं य पत्तट्ठो । तम्हा कुवलयमालं वाएज्जसु हो पयत्तेण ॥
जो जाणइ देसीओ भासाओ लक्खणाईं धाऊ य । वय-णय-गाहा-छेयं कुवलयमालं पि सो पढउ ॥
- 24 एयाईं जो ण-याणइ सो वि हु वाएउ पोत्थयं चेत्तुं । एत्थं चिय अह णाहिइ कइणो णिउणत्तण-गुणेण ॥ 24
जो सज्जणो वियद्धो एसा रामेइ तं महालक्खं । जो पिसुण-बुडियव्वो रस-भावं तस्स णो देइ ॥
जीएं मह देवयाए अक्खाणं साहियं इमं सव्वं । तीए चिय णिम्मविया एसा अम्हे मिसं एत्थ ॥
- 27 वियहस्स पहर-मेत्ते गंध-सयं कुणइ भणसु को पुरिसो । हियय-गया हिरि-देवी जइ में लिहंतस्स णो होइ ॥ 27
पडमात्तणमि पडमप्पभाए पडमेण हत्थ-पडमम्मि । हियय-पडमम्मि सा मे हिरि-देवी होउ संणिहिया ॥
जइ किंचि लिंग-भिण्णं विभत्ति-भिण्णं च कारय-विहीणं । रहसेण मए लिहियं को दोसो एत्थ देवीए ॥

1 > P देवनायावंचण, P कामइंदस्स वुत्तंतो. 2 > P विज्जाण, J सम्मत्त. 3 > P बोहित्थं, P कुटुंब. 4 > P संबोधी. 5 > P ए for य after गिद्वणा, P य हसाहणं भणियो. 6 > P adds नाग before णामाए, P मोक्खं, J adds ते after तत्थ. 7 > J बुग्गहियं. 9 > P रागं निदंसिऊण पढमं रागो अहं तस्स वेरगं, P किइ for किं, P होइउ. 10 > P adds वि after फलं, P कव्वं for सव्वं, J राओ कओ. 12 > J करोसि, P एस्स for एत्थ, J विरागहेतू. 13 > J प दढवम्मो, J गुग्गुलातीयं, P । णणु मिच्छादिट्ठीणं, J adds इय before जुज्जइ. 14 > J लच्छीय, P णणु भोजा रज्जसिरी. 15 > J पुरिसाति, P कव्वाणं for कव्वाणं. 16 > P रुदसुमाउहेसु, P -वण्णे । 17 > P भण्णइ, J adds ए before समए, J -ज्वला चक्कि-कामपालाणं । 18 > P रुंदाणं. 20 > P सव्वं चिय, J सम्मत्तुप्पायणी जम्हा ॥. 21 > P पढम for पढइ, P om. जइ, P वस्सं for वस्सं. 22 > J होहिइ P जोहिइ. 23 > P कव्वाइं for धाऊ य. 24 > J om. हु, P पोत्थय, J णाहित्ति, P नाइं इइ, J कइणो हिउ णिउणत्तण. 25 > P नो होइ for नो देइ. 26 > P जाए for जीए. 27 > J कुणउ, J जइ मि लिहं, P जइ संलिहियं तस्स, J देइ for होइ. 28 > J पडमंमि भाए for पडमप्पभाए. 29 > P विहत्ति.

- 1 उज्जुय-पय-गमणिहा सरलुहावा य भूसण-विहूणा । दुग्गय-वाळ व्व मए दिण्णा सुह सुयण-जेहेण ॥ 1
गेहं देज इमीए खलिसं काएअ वयणयं पुलए । अहवा कुळस्स सरिसं करेज हो तुज्ज जं सुयणा ॥
- 3 दंसिय-कला-कलावा धम्म-कहा भेय-दिविसय-परिदा । इह कोए होइ थिरा एसा उसमस्स किञ्चि व्व ॥ 3
§ ४३०) अत्थि पुहई-पसिद्धा दोण्णि पहा दोण्णि च्चय देस ति । तत्थत्थि पहं णामेण उत्तरा सुह-अणाइणं ॥
सुह-दिय-चारु-सोहा चियत्थिय-कमळणणा विमळ-वेहा । तत्थत्थि जळहि-वह्या सरिया अह चंदमाय ति ॥
- 6 तीरम्मि तीय पयडा पव्वइया णाम रयण-सोहिहा । जत्थ ट्ठिपण भुत्ता पुहई सिरि-तोहरापण ॥ 6
तस्स गुरु हरिडत्तो आयरिओ आसि गुत्त-वंसाओ । तीए षयरीए दिण्णो जेष् णिवेलो तहिं काले ॥
तस्स वि सिस्सो पयडो महाकई देवउत्त-णामो ति ।स्तिवचंद-गणी अह महयरो ति ॥
- 9 सो जिण-वंदण-हेउं कह वि अमंतो कमेण संपत्तो । सिरि-भिळमाल-णयरम्मि संठिओ कप्पहक्खो व्व ॥ 9
तस्स खमासमण-गुणो णामेण य जक्खदत्त-गणि-णामो । सीसो महइ-महप्पा आसि तिळोए वि पयड-जसो ॥
तस्स य बहुया सीसा तव-वीरिय-वयण-उद्धि-संपण्णा । रम्मो गुज्जर-देसो जेहि कओ देवहरएहिं ॥
- 12 णागो विंदो मम्मड दुग्गो आयरिय-अग्गिसम्मो य । छट्ठो वडेसरो छम्मुहस्स वयण व्व ते आसि ॥ 12
आगासवप्प-णयरे जिणाकयं तेण णिम्मविई रम्मं । तस्स सुह-वंसणे च्चिय अवि पसमइ जो अहव्वो वि ॥
तस्स वि सीसो अण्णो तत्तावरिओ ति णाम पयड-गुणो । आसि तव-तेय-णिज्जिय-पाव-तमोहो दिण्यरो व्व ॥
- 15 जो वूसम-सलिल-पवाह-वेग-हीरंत-गुण-सहस्साण । सीळंग-विउळ-सालो लक्खण-रक्खो व्व णिंकेणो ॥ 15
सीसेण तस्स एसा हिरिदेवी-दिण्ण-वंसण-मणेण । रइया कुक्कयमाला विळसिय-वक्खिसण-इंसेण ॥
दिण्ण-जहिच्छिय-कळओ बहु-कित्ती-कुसुम-रेहिराओओ । आयरिय-वीर-अहो अयावरो कप्पहक्खो व्व ॥
- 18 सो सिद्धंतेण गुरु जुत्ती-सत्थेहि जस्स हरिभओ । बहु-सत्थ-गंध-वित्थर-पत्थारिय-पयड-सप्पत्थो ॥ 18
आसि तिक्कमाभिरओ महादुचारम्मि खत्तिओ पयडो । उज्जोयणो ति णामं तच्चिय परिभुंजिरे तइया ॥
तस्स वि पुत्तो संपह णामेण वडेसरो ति पयड-गुणो । तस्सुज्जोयण-णामो तणओ अह विरइया तेण ॥
- 21 तुंगमळवं जिण-अवण-मणहरं सावयाउळं विसमं । जावाल्लिउरं अट्ठाववं व अह अत्थि पुहईए ॥ 21
तुंगं धवलं मणहारि-रयण-क्खरंत-वयवडाओयं । उसम-जिणिंदाययणं काराविं वीरभहेण ॥
तत्थ ट्ठिपणं अह चोइसीए चेतस्स कण्ह-पक्खम्मि । णिम्मविवा बोहिकरी अण्वाणं होउ सम्भाणं ॥

1) P adds निरलंकारा य after गमणिहा, P सरलउहावा, P om. भूसण विहूणा, P om. वल व्व, P सुह सवण.
2) P करेज जं तुज्ज हो सुयण. 3) P -कलावो धंमकवाणेय, P लोय, P om. होइ. 4) P om. two verses
अत्थि पुहई etc. to चंदमाय ति, J adds वहं after उत्तरा. 6) P अत्थि for तीरम्मि तीय, P adds पुरीणं
after पयडा, J जत्थत्थि टिप भुत्ता, P तत्थ for जत्थ, P सिरितोरसाणेण ('साणेण can be read as 'माणेण). 7) P हरियत्तो,
J तीय णयरीय, P दिओ जिणनिवोसा तहिं काले. 8) P बहुकलाकुसलो सिद्धंतवियाणओ कई दक्खो । आयरियदेवगुत्तो जज्ज वि विज्जरए
कित्ती ॥ for the line तस्स वि सिस्सो etc. to देवउत्तणामो ति. The line is defective: perhaps some syllables
like [तस्स वि सीसो सो] are missing at the beginning, J मयहरो. 9) P सो एथ आगओ देसा for the line
सो जिणवंदण हेउं etc. to संपत्तो. 10) J गुणा, P om. य, J जक्खदत्त P जक्खदत्त, P सिस्सो for सीसो. 11) P inter.
बहुया & सीसा, P om. वयण, P लद्धचरणसंपण्णा. 12) P om. a verse णागो विंदो etc. to ते आसि, J वडेसरो, J स्स for व्व.
13) J णरो for णयरे, P नयरे वडेसरो आसि जो खमासमणो, J जिणाणयं, J अम्मत्थो for अहव्वो. 14) P य आचारधरो for वि
सीसो अण्णो, J अन्तो for अण्णो, P सार for पयड, J णिज्जिय-पक्खियमोहो, J om. दिण्यरो व्व ॥ etc. to हीरंतगुणसहस्साण ।
15) P लग्गणखंओ व्व. 16) P कुक्कयमाला विळसिय. 17) J अत्थावरो P अवावरो. 18) P सो सिद्धंतगुरु पमाणनाए जस्स, P अहु
for बहु, P inter. गंध & सत्थ, J पत्थारिय. 19) P सया खत्तियाणं वंसे जाओ वडेसरो नाम for the three lines आसि तिक्कमा-
भिरओ etc. to ति पयडगुणो, J आसी. 20) J वडेसरो. 21) J सारयाळलं, J विउरं for विसमं, P om. जावाल्लिउरं, P inter.
अह अत्थि & पुहईए. 22) P धयवडाओयं, J वडाओवं, P उसह-, J जिणिंदायतणं, P काराविं. 23) P तंमि for
तत्थ, J P ट्ठिपणं, P किण्ह-, P बोहिकरी.

- 1 पर-मड-मिडडी-मंगो पणहण्येण-रोहिणी-कका-बंदो । सिरि-वच्छराय-नामो रण-दुखी पत्थियो जहया ॥ 1
को किर वच्छ तीरं जिण-वयण-महोयहिस्स हुत्तारं । बोय-महणा वि बद्धा एसा हिरिदेवि-वयणेण ॥
- 3 जिण-वयणाओ ऊणं अहियं व विरुद्धं व जं बद्धं । ते समसु संठवेजसु मिच्छा अहं बुद्धं तस्स ॥ 3
चंदकुलावयवेणं आयरेउजोयणेण रहया मे । सिव-संति-बोहि-मोक्खाण साहिया होउ भवियाण ॥
एयं कर्हं करेउं जं पुण्यं पावियं मए विउलं । साहु-किरियासु चित्तं भवे भवे होउ मे तेण ॥
- 6 सग-काले वोलीणे बरिसाण सएहिं सत्तहिं गएहिं । एग-दिणेणूणेहिं रहया अवरण्ह-वेलाए ॥ 6
ण कइत्ताहिमाणो ण कच्च-बुद्धीए विरहया एसा । धम्मकहं ति णिबद्धा मा दोसे काहिहं इमीए ॥
§ ४३ ।) अरहंते णमिऊणं सिद्धे आयरिय-सव्व-साहू य । पवयण-मंगल-सारं वोच्छामि अहं समासेण ॥
- 9 पडमं णमहं जिणाणं ओहि-जिणाणं च णमहं सव्वानं । परमोहि-जिणे पणमहं अणंत-ओही जिणे णमहं ॥ 9
वंदे सव्वोहि-जिणे पणमहं भावेण केवलि-जिणे य । णमहं य भवत्थ-केवलि-जिण-गाहे तिविह-जोएण ॥
णमहं य उज्जमईणं विउलमईणं च णमहं भत्तीए । वण्णा-समणे पणमहं णमहं य तहं बीय-बुद्धीयं ॥
- 12 पणमहं य कोट्ट-बुद्धी पयाणुसारीणं णमहं सव्वानं । पणमहं य सुय-चाराणं णमहं य संभिण्णसोयाणं ॥ 12
वंदे चोइस-पुब्बी तहं दस-पुब्बी य वायए वंदे । एयारसंग-सुत्तथ-धारए णमहं आयरिए ॥
चारण-समणे पणमहं तहं जंघा-चारणे य पणमामि । वंदे विज्जासिद्धे आगास-गमे य जिणकप्पे ॥
- 15 आमोसहिणो वंदे खेलोसहि-जल्लोसहिणो णमहं । सव्वोसहिणो वंदे पणमहं आसीवित्से तहं य ॥ 15
पणमहं दिट्ठी-विसिणो वयण-वित्से णमहं तेय-लेसिल्ले । वंदामि सीय-लेसे विप्पोसहिणो य पणमामि ॥
खीरासविणो णमिमो महस्सवाणं च वंदिमो चरणे । अमयस्सवाणं पणमहं अक्खीण-महाणसे वंदे ॥
- 18 पणमामि विउव्वीणं जलही-गमणाणं भूमि-सज्जीणं । पणमामि अणुय-रूपं महल्ल-रूवे य पणमामि ॥ 18
मण-वेसिणो य पणमहं गिरिराय-पडिच्छिरे य पणमामि । दिस्सादिस्से णमिमो णमहं य सव्वद्वि-संपण्णे ॥
पणमहं पडिमावण्णे तवो-विहाणेसु चेष सव्वेसु । पणमामि गणहराणं जिण-जणणीणं च पणमामि ॥
- 21 केवल-णाणं पणमामि दंसणं तहं य सव्व-णाणाहं । चारित्तं पंच-विहं तेसु य जे साहुणो सव्वे ॥ 21
चक्कं छत्तं रयणं अओ य चमराहं दुंदुहीओ य । सीहासण-कंकल्ली पणमहं वाणी जिणिदस्स ॥

1) P om. four verses परमडमिडडी etc. to होउ भवियाण ॥, 3) रोहणे for रोहिणी. 3) J om. व before जं. 4) J आयरियउओ अणेण, J साहियाण होउ. 5) P कउं for करेउं, P विमलं for विउलं, P किरिया चित्तं. 6) P एगदिणेणूणेहिं एस समत्तावरण्हं ॥. 7) P om. the verses ण कइत्ताहिमाणो etc. to काहिहं इमीए ॥. For the Section § 431 consisting of verses beginning with अरहंते णमिऊणं etc. to होइ तं तं च ॥ of J, the Ms. P has the following verses which are reproduced with very minor corrections, some of its orthographical traits like the initial न etc. being retained:

बुज्जंति जत्थ जीवा सिज्जंति वि के वि कम्म-मल-मुक्खा । जं च नमियं जिणेहिं तं तित्थं नमहं भावेण ॥
पणमामि उसह-नाहं सेसे वि जेणेज उत्तर (जिणे य उत्तरे) नमिमो । जणणि-जणए य ताणं गणहर-देवे य पणमामि ॥
केवल-नाणं पणमामि दंसणं तहं य सव्व-नाणाहं । चारित्तं पंच-विहं भावेण नमामि संपन्नं ॥
पणमामि धम्म-चक्कं जिणाणं छत्तत्तियं रयण-चित्तं । धम्मज्झयं ति वंदे चेष-रूक्खं पहा-जालं ॥
पउमासणं च वंदे चामर-जुवळं च चंद-किरणाभं । सुमरामि दुंदुभि-रवं जिणस्स वार्णिं च वंदामि ॥
वंदामि सव्व-सिद्धे पंचाणुत्तर-निवासिणो जे य । लोयंतिए य देवे वंदे सव्वे सुरिंदे य ॥
आहारय देव(इ)हरे वंदहं परिहार-संठिए मुणिणो । उवसाग-सेणित्थे वंदहं तहं खवग-सेदित्थे ॥
वंदे चउदस-पुब्बी ऋणे तहं रायणे (वायणे) य पणमामि । एयारसम्मि आयार-धारए पंच-समिए य ॥
अक्खीण-महाणसिए वंदे तहं सीय-तेय-लेसिल्ले । चारण-समणे वंदे तहं जंघा-चारणे नमिमो ॥
आसीवित्से य वंदे जल्लोसहि-खेल-ओसहि-धरे य । आमोसही व विप्पोसही य सव्वोसहिं वंदे ॥
वंदामि बीय-बुद्धिं वंदे विउलं च कोट्ट-बुद्धिं च । सव्वायरिए पणओ अज्झावय-सव्व-साहू य ॥
ओहिण्णाणी पणओ मणपञ्च-नाणिणो य जे समणे । पणमामि अणंतेहिं सव्वेहिं वंदिमो अह्यं ॥
बल-केसवाणं जुवणे (जुवले) सुमरामि ह चक्कवट्ठिणो स [व्वे] । अण्णे वि बंदणिज्जे पवयण-सारिरे) [पणि] वयामि
जिण-जम्मण-भूमीओ वंदे निव्वण-नाण-मेरुं च । सम्मेय-सेल-सिहरे सिद्धायणे पणिवयामि ॥
एयं जो पट्टं नरो गोसग्गे अयल-मत्ति-संजुत्तो । सव्वं सिज्झहं कज्जं तदियहं तस्स विउलं पि ॥ छ ॥

- 9) J अणंतं ओहिजिणे. 10) J सव्वोहिजिणे. 12) J बुद्धीयं पयाणु, J om. य before सुय. 15) J जल्लोसहि णमह.
16) J दिट्ठी विसिणो, J तव for तेय. 17) J महस्सराणं.

- 1 बंदामि सञ्च-सिद्धे पंचाणुत्तर-भिवासिभो जे य । कोर्वतिप य देवे बंदह सञ्चे सुरिदे य ॥ 1
 गाहारय-देह-धरे उबसामग-सेहि-संठिए बंदे । सम्मदिट्टिप्यमुई सञ्चे गुणठाणप बंदे ॥
- 3 संती कुंयू य जरो एयाणं जासि णव महाभिद्धिभो । चोहस-रयणाई पुणो छण्णउई गाम-कोडीभो ॥ 3
 बल-केसवाण जुयले पणमह जण्णे य भञ्च-ठाणेसु । सञ्चे वि बंदणिजे पवयण-सारे पणिवयामि ॥
 जो मे भवगा-वग्गु सुमणे सोमणस होंतु महु-महुरा । किलिकिलिय-वडी-चक्का हिलिहिलि-देवीभो सञ्चाभो ॥
- 6 इय पवयणत्स सारं मंगलमेयं च पूहयं एत्य । एयं जो पढइ णरो सम्मदिट्टी य गोसग्गे ॥ 6
 तदियसं तत्स भवे कल्लान-परंपरा सुविहियत्स । जं जं सुहं पसरयं मंगलं होइ तं तं च ॥
 § ४३२) इय एस गणिज्जंती तेरस-कलणाई जइ सहस्साइ । जण्णे वि को वि गणेंही सो णाही पिच्छिया संखा ॥
- 9 इय एस समच विव हिरीदेवीए वरप्पसाएण । कइणो होउ पत्तणा इच्छिय-फलया य संचत्स ॥ 9

卐

॥ इति कुवलयमाला नाम संकीर्ण-कथा परिसमाप्ता ॥

॥ मङ्गलं महाश्रीः ॥

3) J महागिबो, J छण्णउइ. 8) J घडिचक्का. 9) J om. two verses एय इत्त गणिज्जंती etc. P ए for एस. The colophon of P stands thus: समाप्तये कुवलयमाला नाम कथा ॥ छ ॥ प्रथ संख्या सहस्र ॥ १००००॥ कृति श्रीभैरवपटनायमुनेर्षोक्षिण्यल्लनस्य उद्योतनस्यरे ॥ छ ॥ छ ॥. The Ma. J adds something more after महाश्रीः, ॥ छ ॥ संवत् ११३९ फाल्गु वदि १ रवि दिने लिखितमिदं पुस्तकमिति ॥

**LIST OF THE PUBLICATIONS
OF
THE SINGHI JAIN SERIES**

1. *Prabandhacintāmaṇi* of Merutuṅgācārya (A. D. 1306): Part I, Text in Sanskrit with Variants, Appendix and Indices of Stanzas. This is an important collection of stories, legends and anecdotes connected with kings like Vikramārka, Bhoja, Kumārapāla etc. and author-poets like Siddhasena, Māgha, Dhanapāla etc. Critically edited with various research accessories by Āchārya JINA VIJAYA MUNI. Demy quarto pp. 12 + 136. Price Rupees 6.50.
2. *Purātana-Prabandha-Saṁgraha*: This is a noteworthy collection of many old Prabandhas similar and analogous to the matter in the *Prabandhacintāmaṇi*. Authentically edited with Indices of Verses and Proper Names, a short Introduction in Hindi describing the Mss. and materials used in preparing this part and with plates by Āchārya JINA VIJAYA MUNI. Demy quarto pp. 15 + 32 + 156 + 8. Price Rupees 8.50.
3. *Prabandhacintāmaṇi* (Complete Hindi Translation): A complete and correct Hindi translation is given in this volume, so as to enable the purely Hindi-knowing public to grasp fully the contents of the original. The translator is Pandit Hajāri-prasād Dwivedi, Ācārya, Hindi Dept. Viśvabhāratī, Śāntiniketan. Along with the translation has been given an exhaustive Introduction in Hindi by the General Editor, Āchārya JINA VIJAYA MUNI, which contains useful material for the proper understanding of the text. Demy quarto pp. 12 + 12 + 156. Price Rupees 6.00.
4. *Dharmābhyudaya-Mahākāvya* of Udayaprabha: This is a stylistic kāvya in Sanskrit celebrating the religious activities of Vastupāla, the great minister of the Gūrjara King Viradhavala, and the patron and lover of fine arts & literature. The author is not only a contemporary but also the religious preceptor of Vastupāla. Critically edited with various Indices etc. by Munirāja Śrī CATURAVIJAYAJI and Śrī PUNYAVIJAYAJI. Super Royal 8vo pp. 16 + 48 + 190 + 18, Bombay 1949, Price Rs. 8.50.
5. *Sukṛtakīrti-kallolīnī-ādi-Vastupāla-prasasti-Saṁgraha*: A collection of numerous Prasastis relating to the Minister Vastupāla. Edited by Muni Rājasrī PUNYAVIJAYAJI. (in the press).

6. *Prabandhakosa* of Rājasēkharasūri (A. D. 1349): Part I, Text in Sanskrit with Variants, Appendices and Alphabetical Indices of stanzas and all Proper Names. This gives twenty-four biographical Prabandhas dealing with celebrities of ancient India such as Bhadrabāhu, Mallavādi, Haribhadra, Sātavāhana, Vastupāla etc. Critically edited in the original Sanskrit from good old Mss. with Variants, Hindi Translation, Notes and elaborate Introduction etc. by Āchārya JINA VIJAYA MUNI. Demy quarto pp. 8 + 8 + 136 + 14. Price Rupees 6.50.
7. *Devānanda-Mahākāvya* of Meghavijayopādhyāya (A. D. 1671): This is a Sanskrit poem in ornate style composed as a Samasyā-pūrti incorporating some line or the other, in each verse, from the Śīsupālavadhā of Māgha. In its seven cantos, it presents a biography of Vijayadevasūri who was honoured by both Akbar and Jehangir. Critically edited from an old Ms. with Notes, Index and Hindi Introduction, summary etc. by Pt. BICHARDAS J. DOSHI. Demy quarto pp. 8 + 16 + 80. Price Rupees 4.50.
8. *Jaina Tarkabhāṣā* of Yaśovijaya (A. D. 1624-1688): It is a manual of Nyāya dealing with Pramāṇa, Naya and Nikṣepa. Edited by Pt. SUKHLALJI SANGHAVI with his Tātparyasamgraha Vṛtti and an Introduction in Hindi. Super Royal 8vo pp. 8 + 8 + 14 + 78. Price Rupees 3.50.
9. *Pramāṇamīmāṃsā* of Hemacandrācārya: This is a treatise on Nyāya left incomplete perhaps by the author himself. It propounds the Jaina point of view after reviewing the tenets of other systems. Edited with a valuable Introduction and still more valuable Notes in Hindi by Pt. SUKHLALJI SANGHAVI and Pts. MAHENDRAKUMARA and MALAVANIA. Super Royal 8vo pp. 8 + 16 + 56 + 76 + 144 + 36. Price Rupees 8.50.
10. *Vividhatīrthakalpa* of Jinaprabhasūri (A. D. 1332): Part I, Text in Sanskrit and Prakrit with Variants, and an Alphabetical Index of all Proper Names. This work gives a description of nearly 60 holy places together with the names of their founders etc.; and thus forms a sort of guide-book or gazetteer of Jaina sacred places of India of the 14th Century. It contains valuable information of historical and topographical interest. Critically edited with Variants, Notes and elaborate Introduction etc. by Āchārya JINA VIJAYA MUNI. Demy quarto pp. 8 + 16 + 114 + 14. Price Rupees 6.50.

11. *Kathākosaparakaraṇam* of Jineśvarasūri : The Prākṛit Text with Sanskrit commentary. The commentary contains many Prākṛit stories, which illustrate various religious virtues and is interesting from the sociological point of view. The tales are a fine specimen of Prākṛit narrative literature. Critically edited by Āchārya JINA VIJAYA MUNI. Super Royal 8vo pp. 8 + 16 + 124 + 184, Bombay 1949, Price Rs. 12.50.
12. *Akalaṅka-Granthatrayam* comprising Laghīyastrayam with Svopajña-vṛtti, Nyāya-viniścaya and Pramāṇasaṁgraha : These are three noteworthy Nyāya works of Akalaṅkadeva (c. A. D. 720-780), the last two being brought to light for the first time. Edited with Critical Notes, Variant Readings, Introduction [in Hindi] and Indices etc. by Pt. MAHENDRA-KUMARA. Super Royal 8vo pp. 8 + 14 + 118 + 184 + 60. Price Rupees 8.50.
13. *Prabhāvaka-carita* of Prabhācandrācārya (A. D. 1277) : Part I, Text in Sanskrit, with Variants and Indices of stanzas and all Proper Names. It presents in ornate style the traditional biographies of twenty eminent personalities including religious teachers like Vajrasvāmi, authors like Haribhadra and Hemacandra and poets like Mānatuṅga who have contributed to the glory of Jainism and the Jaina church. Critically edited from many old Mss. with Notes, Index and Hindi Introduction by Āchārya JINA VIJAYA MUNI. Demy quarto pp. 10 + 6 + 226. Price Rupees 8.00.
14. *Digvijaya-mahākāvya* of Meghavijaya : This is an ornate poem in Sanskrit presenting the biography of Vijayaprabhasūri in thirteen cantos. The Sanskrit Text with the *svopajña* glosses critically edited with an Introduction in Hindī, an Index of Proper Names and the text of the *Śrī-Tapaga-ccha paṭṭāvali-sūtra vṛtṭyanusāndhanam* in an Appendix by Pt. A. P. SHAH. Demy quarto pp. 8-10-16-144. Bombay 1945. Price Rs. 8.00.
15. *Bhānucandra-caritra* of Siddhicandra Upādhyāya : This is a remarkable composition of Sanskrit literature in which an able pupil, namely, Siddhicandra has chronicled, without the least exaggeration, acts of social and religious service rendered by his great Guru Bhānucandra. It is not only a biography of the Guru but also an autobiography of the pupil, both of whom had connections with and were honoured at the Moghul court by Akbar and Jehangir. The English Intro-

tion by the Editor is a rich mine of historical information. Critically edited from a single rare Ms. with elaborate Introduction, Summary, Appendices, Indices etc. by M. D. DESAI. Demy quarto pp. 8 + 12 + 104 + 68. Price Rupees 8.00.

16. *Jñānabindu-prakaraṇa* of Yaśovijaya Upādhyāya : This is a systematic manual of Jaina epistemology. The Hindi Introduction of the editor is a brilliant exposition of Jaina theory of knowledge in the back-ground of Indian metaphysics. The Sanskrit Text edited with Introduction, Notes and Index etc. by Pt. SUKHLALJI SANGHAVI, Pt. DALSUKH MALVANIA and Ptā. HIRA KUMARI DEVI. Super Royal 8vo pp. 12 + 8 + 84 + 136. Price Rupees 5.00.
17. *Bṛhatkathākosa* of Hariṣeṇācārya : The work contains a number of narrative tales—as many as 157—on all sorts of subjects including folk-tales and parables which inculcate religio-moral principles of Jainism and glorify men of religion and ascetic heroes. They have been selected from different strata of Jaina literature. The Introduction which is exhaustive and illuminating, evinces mature erudition of the editor. It is the first of its kind in so far as it presents an outline survey of Jaina Kathānaka literature in the back-ground of Indian literature. The Sanskrit text is critically edited with Introduction, Notes and Indices by Dr. A. N. UPADHYE, M. A., D. Litt. Super Royal 8vo pp. 20 + 128 + 402. Price Rupees 16.00.
18. *Jainapustakaprasastisaṅgraha* : Vol. I. The work contains 111 Prasastis and 544 colophons, attached at the end of the ancient palm-leaf manuscripts of the Jaina and other works. They throw enormous light on the historical facts, social conditions, the Kulas, Gaṇas and Gaṇachas of the Jainas. Their historical importance is on a par with that of the inscriptions and the copperplates. Critically edited with an informative Introduction and ten Appendices by Āchārya JINA VIJAYA MUNI. Demy quarto pp. 20 + 180. Price Rupees 10.00.
19. *Dhūrtākhyāna* : The Original Prakrit Text of Haribhadrasūri : Sanskrit metrical Version of Saṅghatilaka, an Old-Gujarati Prose Rendering; also an elaborate Critical Essay on the Dhūrtākhyāna by Dr. A. N. UPADHYE; Critically edited by Āchārya JINA VIJAYA MUNI. This is a unique satire in Indian

- literature, remarkable for its originality of thought and plot. De luxe edition, Ledger Paper, Super Royal 8vo pp. 8 + 24 + 56 + 70. Bombay 1944, Price Rs. 8.00.
20. *Nyāyāvatāra-vārtikāvṛtti* of Śāntisūri : The Vārtika and Vṛtti of Śāntisūri (some time between A. D. 993 and 1118) on the *Nyāyāvatāra* of Siddhasena (c. 5th century A. D.). Critically and authentically edited in the original Sanskrit with an elaborate Introduction, Notes, Indices etc. in Hindi by Pt. DALASUKHA MALVANIA. Royal 8vo pp. 32 + 152 + 332. Bombay 1949. Price Rs. 16.50.
21. *Riṣṭasamuccaya* of Durgadeva (A. D. 1033) : A Prakrit Text dealing with omens and portents. Critically edited with exhaustive Introduction, English Translation, Sanskrit chāyā, Notes, Appendix, Indices etc. by Dr. A. S. GOPANI. Royal 8vo pp. 12 + 16 + 8 + 72 + 172. Bombay 1945. Price Rs. 10.00.
22. *Saṁdēsa-Rāsaka* of Abdul Rahamān : A Unique work of a Muslim Poet in Apabhraṁśa Language. Critically edited with Sanskrit Ṭippanaka and Avacūrika, English Translation, Exhaustive Introduction, Notes, Appendix, Indices etc. by Āchārya JINA VIJAYA MUNI and Prof. H. C. BHAYANI. Royal 8vo. pp. 8 + 14 + 18 + 106 + 124. Bombay 1945. Price Rs. 10.00.
23. *Śatakatrāyādi-subhāṣita-saṁgraha* of Bhartṛhari. This is an exhaustive compilation of the Epigrams attributed to Bhartṛhari including the Three Centuries. Collated and critically edited for the first time with principal variants and an introduction by Prof. D. D. KOSAMBI. Royal 8vo pp. 8 + 8 + 84 + 240. Bombay 1948. Price Rs. 12.50.
24. *Paūmasiricariu* of Dhāhila : An Apabhraṁśa Poem in four cantos. Critically edited by Profs. M. C. MODI and H. C. BHAYANI with an Introduction, Summary, Notes etc. in Gujarati. Royal 8vo pp. 16 + 40 + 48. Bombay 1948. Price Rs. 4.75.
25. *Nānapaṁcamīkahāo* of Mahēśvarasūri : A Prakrit Text giving Tales on the Jñānapaṁcamī. Edited by Dr. A. S. GOPANI with various readings, a Gujarati Introduction, Appendices etc. Super Royal pp. 8 + 16 + 44 + 88. Bombay 1949. Price Rs. 7.25.
26. *Bhadrabāhu-saṁhitā* of Bhadrabāhu : A Sanskrit Text dealing with astrology, omens, portents etc. Edited with Various

- Readings, a Gujarati Introduction, Appendices etc. by Dr. A. S. GOPANI. Super Royal pp. 8 + 8 + 12 + 32 + 84. Bombay 1949. Price Rs. 5.75.
27. *Jinadattākhyāna-dvaya* : Two Prākṛit Texts dealing with the life-story of Jinadatta, one by Sumatisūri and another of an anonymous author. Edited for the first time by Pt. A. M. BHOJAK. Royal 8vo pp. 8 + 16 + 92. Bombay 1953. Price Rs. 3.50.
28. *Dharmopadeśamālā-vivarāṇa* : Here is the Vivarāṇa of Jayasimha sūri who gives a number of Prākṛit Tales while explaining the gāthās of the *Dharmopadeśamālā*. Edited with Various Readings by Pt. L. B. GANDHI. Super Royal 8vo pp. 8 + 16 + 240. Bombay 1949. Price Rs. 9.75.
29. *Bhartrhariya Śatakatraya* with the Vyākhyā of Dhanasāra ; This is a companion volume of No. 23. comprising the oldest available commentary on the Śatakas of Bhartrhari. Dhanasāra wrote it at Jodhpur in Rajasthan in Saṃvat 1535. It is also interesting because of its Colloquial Jain Sanskrit. Edited with various Readings, Appendices, etc. by Prof. D. D. KOSAMBI. Royal 8vo. pp. 325. Bombay 1959. Price Rs. 10.50.
30. *Śṛṅgāramañjarīkathā* of Bhojadeva : It contains a courtesan's professional advice to her daughter in the form of eleven entertaining and edifying tales in the rich kāvya style. Composed by the famous Paramāra king Bhojadeva of Dhūrā. Edited with Introduction, Translation, Notes etc. from the only available A fragmentary Palm-leaf Ms. belonging to the Jesalmere Bhaṇḍāra by KUMĀRĪ KALPALATA K. MUNSHI, M. A., Ph. D. Royal 8vo. pp. 10 + 90 + 96 + 104. Bombay 1959. Price Rs. 12.50.
31. *Līlavai* of Koūhala : A Romantic Kāvya in Māhārāṣṭrī Prākṛit with the Sanskrit Vṛtti of a Jaina Author. Critically edited for the first time with an Introduction, Variant Readings, Glossary, Notes etc. by Prof. A. N. UPADHYE. Royal 8vo. pp. 28 + 88 + 384. Bombay 1949. Price Rs. 15.00.
32. *Kīrtikaumudī-Mahākāvya* of Someśvara and *Sukṛtasamkīrtana* of Arisimha : They treat the life-story and explores of the famous minister Vastupāla in the Mahākāvya form. Edited by Muni Rājasrī PUNYA VIJAYAJI (*in the press*).

33. *Literary Circle of Mahāmātya Vastupāla and Its Contribution to Sanskrit Literature*, a learned dissertation by Dr. B. J. SANDESARA, M. A., Ph.D.. Royal 8vo pp. 8 + 6 + 28 + 218. Bombay 1953. Price Rs. 9.50.
- 34-35. *Paūmacariu* of Svayambhūdeva, Vols. 1-2 : A great Epic in Apabhram̄ṣa dealing with the Rāma Tale. Critically edited for the first time with an elaborate Introduction, Index Verborum and Appendices by Dr. H. C. BHAYANI. Royal 8vo First Part pp. 8 + 4 + 16 + 132 + 40 + 168 + 76, Second Part pp. 8 + 4 + 24 + 328. Bombay 1953. Price Rs. 12.50 and 10.50 respectively.
36. *Paūmacariu* of Svayambhūdeva, Vol. 3. Edited by Dr. H. C. BHAYANI (*in the press*)
- 37-38. *Studies in Indian Literary History*, Vols. I and II, containing 132 Papers and Indices, proper Names and Subjects, by Prof. P. K. GODE. Royal 8vo Vol. I, pp. 6 + 4 + 3 + 16 + 546, Vol. II pp. 6 + 4 + 4 + 4 + 4 + 544. Bombay 1953-54. Price Rs. 20.00 each.
39. *Uktivyakti-prakarana* of Dāmodara : An elementary handbook of Sanskrit Composition with parallel illustrations in Old Kosali of the 12th century. Edited for the first time from the single available Ms. by Āchārya JINA VIJAYA MUNI with an exhaustive Study of the Old-Kosali of the text by Dr. S. K. CHATTERJI, M. A., D. Litt. and with an Essay on material of social and historical interest in the text by Dr. MOTI CHAND. Royal 8vo pp. 8 + 4 + 10 + 84 + 68. Bombay 1953. Price Rs. 8.00.
40. *Kāvyaṣṭakāṣa-khaṇḍana* of Siddhicandra-Gaṇi : An adverse critique of some of the topics of Maṃmaṭa's *Kāvyaṣṭakāṣa*. Edited for the first time from the single available Ms. with an Introduction, Indices etc. by Prof. R. C. PARIKH. Royal 8 vo. pp. 8 + 4 + 20 + 108. Bombay 1953. Price Rs. 4.50.
41. *Kumārapālacaritra-saṃgraha* : A collection of works of various authors relating to life of king Kumārapāla of Gujarat. Collected and edited from various old Mss. by Āchārya JINA VIJAYA MUNI. Double Demy pp. 8 + 18 + 36 + 12 + 158. Price Rs. 10.00.
- 41A. *The Life of Hemacandrācārya* : The eminent German orientalist, Dr. G. Bühler, wrote in 1889, an epoch-making essay in German on Hemacandra (A. D. 1088-1173) who occupies a place of honour in Indian literature. This essay is a fine model of historical research; and, as such, for the benefit of English knowing readers, it has been translated here into English by Dr. MANILAL PATEL. Demy quarto pp. 16 + 104. Price Rupees 5.00.

42. *Kharataragaccha-brhadgurvāvali*: A Collection of Works of JINAPĀLA UPADHYĀYA and others relating to the spiritual lineage of the eminent Ācāryas of the Kharatara Gaccha. Collected and edited from various old Mss. by Āchārya JINA VIJAYA MUNI. Double Demy pp. 8 + 12 + 120. Price Rs. 7.00.
43. *Jayapāyada-nimittasāstra*: An ancient work pertaining to the Science of Prognostics making prophesies on the basis of the letters of speech. Edited by Āchārya JINA VIJAYA MUNI. Price Rs. 8.50.
44. *Jambucariyam* of Guṇapāla: It is a Prakrit narrative of the life of Jambūsvāmin, the first patriarch of Jain church after the last Tirthaṅkara Mahāvīra. Edited by Āchārya JINA VIJAYA MUNI. Price Rs. 12.50.
- 45-46. *Kuvalayamālā* of Uddyotanasūri (Part I & II). A unique campū in Prakrit critically edited from rare Mss. material for the first time with an Introduction, Various readings, Notes etc. by Prof. A. N. UPADHYE, M. A., D. litt. Part I contains the Prakrit text and various readings. Price Rs. 15.00.
- Part II with an elaborate Introduction, and Ratnaprabhasūri's Saṁskrit Version of Kuvalayamālā-kathā etc. (*in the Press*).



To be had from—

BHARATIYA VIDYA BHAVAN

Chowpati, BOMBAY. 7

वीर सेवा मन्दिर

पुस्तकालय

काल नं० २८०, ३
१ १ ३६५